



श्री आशापुरी मसना:



# चौहान कुल कल्पद्रुम.

विभाग १ ला.

( चौहान राजपूतों की शाखाओं के वंशवृक्ष के साथ इतिहास. )

रचिता व प्रकाशक

न्यायरत्न देसाई लछुभाई भीमभाई

( संदलपुर, जिल्ला नवसारी. )

रिटायर्ड लेन्ड रेवीनरु ओफिसर सिरोही स्टेट राजपूताना

मु० आवुरोड ( राजपूताना )

मुद्रक:

बडोदा-श्री लुहाणामित्र स्टीम प्रिन्टींग प्रेस में ठकर भंवालाल विठ्ठलभाई ने प्रकाशक के लिये  
छाप कर प्रसिद्ध किया. ता. १-७-१९२७

द्वितियावृति:

( इस ग्रंथ के स्वामीत्व के सब हक ग्रंथ रचिताने अपने स्वाधिन रखे हैं )

विक्रम संवत् १९८३ ]

[ सन १९२७ इस्वी





# CHOUHAN KUL-KALPADRUMA.

## PART I.

History and Genealogical Trees of the Branches of  
Chouhan Rajputs.

Rajputana Agency Office

Published By

**Nyayaratna Desai Lallubhai Bhimbhai**

( Sandalpur, Navsari District )

Retired Land Revenue Officer, Sirohi State

ABUROAD ( Rajputana ).

---

Printed at

The Lubana Mitra Steam Printing Press, Baroda by  
Ambalal Vithalbai Thakkar on 1 st July 1927.

---

SECOND EDITION.

---

All Rights Reserved by the Author.

Samvat 1983.

A. D. 1927





मौजूदा महाराजा साहब सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहब वहादुर.

के. सी. एस. आई.

श्री सारणेश्वरजी सहाय है.

## समर्पण.

‘ नंदगिरी नरेश, कटार बंध चौहान; दत्ताणी खेतरा, जेत जुहार. ’

गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, धर्मधुरंधुर, अखंड प्रौढ प्रताप,  
चौहान कुल भूषण अर्बुदाधिपती राज राजेश्वर  
महाराजाधिराज महारावजी श्री श्री श्री १०८ श्री श्री  
सर स्वरूपरामसिंहजी साहेब बहादुर

K. C. S. I.

रियासत सिरोही ( राजपूताना ).

मान्यवर महारावजी साहब,

यह सामान्य स्वीकार हुआ है कि श्रीजी हुजूर अपने सेवकों में से जो साहित्य की उन्नति के वास्ते मिहनत करते हैं उसके पोषक व आश्रयदाता है, जिससे इस ग्रंथ का लेखक जो सिरोही रियासत का पुराना सेवक और पेन्सनर है वह परमकृपालु परमात्मा की कृपा से यह ‘ चौहान कुल कल्पद्रुम ’ नामक ग्रंथ हुजूर के चरणाविंद में समर्पण करनेको शक्तिवान होने पाया है. इस ग्रंथ के लेखक की खास मान्यता है कि चौहान कुल के राजपूत इतने मशहूर हैं कि जिनकी तारिफ से भारतभूमि एक समय गर्जित थी. ऐसे चौहानों की अमरकीर्ति का खयाल इस ग्रंथ से होगा. जोस कुल की कीर्ति के आप श्रीजी भी एक नमूने हैं.

इस ग्रंथ के लेखक को जहां तक मालूम है, आप श्रीमान् लोककल्याण के हरएक कार्यों में फैयाज दिल वाले और अपने सरदारों व प्रजाजनों में संप और सुलह शान्ति हमेशा बनी रहे तथा उनकी बहतरी होया करे उनके वास्ते सदा तत्पर रहते हैं; जिससे आप हुजूर ने परोपकारी राजाओं की पंक्ति में चिरस्थायी पद प्राप्त किया है. ये सर्व सद्गुणों के स्मर्णार्थे यह ग्रंथ एक यादगार भेट स्वीकार होगी ऐसी नम्र याचना के साथ समर्पण किया जाता है.

ली.

आबुरोड,

अक्षय तृतिया.

ता. ४ मेई सन १९२७ ई.

श्रीजी हुजूर का निमकहलाल व  
फरमाबरदार तावेदार सेवक

लल्लुभाई बी. देसाई.



“ Nand Giri Naresh, Katâr Bundh Chouhân  
Datani Khetra, Jeyt Juhar. ”

To.

**His Highness Maharaja Dhiraj Maharao Shree  
Sir Sarup Ram Sinhji Saheb Bahadur,**

K. C. S. I.

**SIROHI STATE.**

Rajputana.

*Your Highness,*

It is generally acknowledged that Your Highness is a reputed supporter of learning in general and in particular of learning on the part of those who are labouring under your care. By the grace of the Almighty, I, an old and humble servant and pensioner of Your Highness have been enabled to submit to-day for your perusal, a work, which, I believe, appropriately signalises the name of the illustrious Chouhans with the ring of whose fame India once rang. In my own estimation Your Highness is a worthy upholder of the glory of the same Chouhans. Further, Your Highness holds himself in perpetual readiness with your generosity in the cause of everything good, with your solicitude for the welfare of the Sardars and Ryots of the State and with your enthusiasum for the uplift of the sons of Rajputs. These virtues have earned for Your Highness a permanent rank in the galaxy of benevolent-kings. May these volumes prove a worthy tribute to the memory of all these.

Sirohi.

}

I beg to remain,  
Your Highness,  
Your most obedient and faithful servant,  
**Lallubhai B. Desai.**





# OPINION OF

Hon'ble Mr. M. Keane, C. I. E., I. C. S.,

( Late Settlement Officer, SIROHI & TONK. )

President Legislative Council, U. P.

&

Commissioner Jhansi Division,

ON

## Chouhan Kul-Kalpdrum.

*Commissioner's Office, Jhansi.*

*Dated the 28th July 1927.*

It is now many years ago since I first listened to the Author of this invaluable work narrate the beginnings of this History as we moved along in Camp through the mornings of the pleasant cold weather of Rajputana. It is a great pleasure to see these stories now enshrined in History.

Mr. Lallubhai himself has taken me through the History and I am impressed with the system and method with which he has carried out the work. It is a complete record of the whole Chauhan Clan and the different branches are set out so clearly that there is no difficulty in reference. In so technical obscure and complicated a subject this is a considerable achievement. Mr. Lallubhai shows in every page the great pains he has taken in collecting and comparing his authorities. For the whole Chauhan Clan, the work will be most useful while for Sirohi itself in particular it will be the treasury of their History and the test for the Settlement of disputed points in futures. Not only it is invaluable to the State but it should commend itself to all the Jagirdars. Their family History is faithfully given - a record for ever - and not only that but there is a trustworthy account at last of their rights, privileges and obligations. The origins of the States of Sirohi and Barya are interesting and their rise to independence worth study. The Student can follow them here. The State undoubtedly owes Mr. Lallubhai a deep debt of gratitude ( and more ) for this painstaking work.

**Sd. M. KEANE.**

28-7-27.

---



**Review ( Note ) of Rajya Ratna**  
**MEHTA SADASHIVRAM, Chief Minister.**  
**SIROHI STATE. ( RAJPUTANA )**  
ON  
**CHOUHAN KUL—KALPADRUM.**

*NOTES BY THE CHIEF MINISTER*

---

The geneological Tree, with a history of the Chouhan Family, which Nyay Ratna Lallubhai intended preparing, has come to my hands in a bigger volume, full of more valuable information than was ever expected and in quite a different form.

The first volume begins from the very root of the Chouhan Family. Had the parent tree been shorn of its several branches, it would have been of very little use to readers but the Author seems to have understood the importance of incorporating the parent with its branches and successfully done the right things, which adds to the importance of the whole. The whole piece is brought to a finis, quoting the several authorities on which he relies, which adds to his honest efforts throughout. It is the first attempt in which the geneology and history of the whole Chouhan Family has successfully been tried and published. It bears a peculiar name in being termed " Chouhan Kul—Kalpadrum ", which name it fully deserves.

The Chouhans are ever proud of the valour and independence of their forefathers, but this has never been put before the public in a consolidated volume. This want has been filled by these volumes & the reader can form an idea of the author's honest but authentic efforts for his collections. Not only has he brought to prominence the Marwari Poets of the day but he has brought the heroes, for whom the poems were prepared, into lime-light.

The unpublished history, of how the Chouhans could keep their independence during the Moghul Empire, which tried to crush the self respect and independent spirit of the Rajput pure-blood Rulers of this country and how they could hold Abu, considered a holy place by the Hindus of whatever faith, as well as, a heaven in the arid plains of Rajputana, has been narrated in the volumes. This attempt will ever stand as a land-mark to the main Chouhan Family and its branches.

In the second part, mention has been made in detail of the geneology and a short history of the Chouhan Sirdars of Sirohi, on perusal whereof the reader can form an idea of how vast an area of territory Sirohi held a century before, the living proof where of are the several Sirdars under Marwar and Palanpore, enjoying the same Jagirs given them once by Sirohi Darbar. It has to be noted here that it is the Chohan Sirdars, who worked hand in hand with the Maharao in times when Sirohi was attacked & sacked by the Moghals and by its neighbouring States, while the same Sirdars or their descendents did not hesitate in bringing about the disruption of its Parent State by joining hands with the neighbouring States and accepting their suzerainty.

In the latter part of the nineteenth century, when the whole of India was passing through the days of chaos, Sirohi suffered as well. To avoid the complete disruption of his State, the then Maha Rao Sheosingji invoked the aid of the British and to be free from further complications with his remaining Sirdars, passed clear orders defining the rights and liabilities of each of them. But as in the Chouhan motto " might and stubbornness " reign supreme in their disposition from their birth, they continued to act in their former attitude and have thus proved

themselves to be the supreme obstacles in the introduction of any reforms in the country during the regime of the late three Maha Rao Sahebs. And if any reader requires a proof, here I am who is a living witness to the many incidents, being in the Sirohi employ for the last forty years.

The collections of the Author, however imperfect they were, had been brought to my notice in 1912 A. D., when I was Secretary to the Mu-saheb Ala (virtually the same appointment that I hold now.) To encourage him, the valuable historic books, printed & written in the State Library, the records of the State and the services of the Chouhan Family Bard (the Baduas) were placed at his disposal. The preparation of the geneological tree of the Sirdars was the result, when the settlement operations were in full force. I had made up my mind to publish it for future use but my wish remained unfulfilled. It is natural, therefore, that nobody could be more happy than myself to see these volumes brought to a finish and published when I am in the evening of my life and during my regime as Chief Minister.

All the Chohan Sirdars of Sirohi are descendants of one common ancestor, with the Maha Rao at their head and they were awarded Jagirs for their maintenance, big or small, according to services rendered. But there being no records, inferences and imaginations, as regards how they acquired their Jagirs were put forth and this imagination was brought about by the Jagirdars themselves to serve their ends. At last, there was a big combination of the Jagirdars in 1919-20 & the present Maha Rao Saheb had, per force, to ask for the services of a European Political Officer to bring to an end, once for all, to their several complaints. During the enquiry by the committee formed by the Officer, the information collected by the Author & published as the second part, was brought to a further light and the Jagirdars had an opportunity to test its veracity. Finally, when it stood a complete test of their scrutiny, it was freely used in deciding their complaints. It was then that the Jagirdars held a committee of their own and resolved to address the Maha Rao Saheb to have the information collected and published in the form of a volume. The Maha Rao Saheb assenting to their proposal, the present volumes are the result.

The second volume, besides, not only records the connection of the Sirohi Sirdars to their Parent Ruling Family, but brings into prominence the peace-loving administration of MahaRaja Dhiraj Maha Rao Saheb Sir Sarup Ram Singji Bahadur K. C. S. I., especially in regard to the welfare of all his Sirdars & their Subjects. In short the volumes are sure to prove a boon to all concerned to the Sirdars in minimizing their disputes even amongst themselves and to the Officers of the State as a book of reference whenever such cases come before them for adjudication. The Committee of Sirdars now working in the State took the unpublished manuscripts as an authority, while the author was consolidating his informations from most of the Jagirdars and seeking other informations to make his work useful to all. Thus the aim of the Sirdars has been fulfilled.

The Author in his introduction thanks me for my assistance in bringing the collections in the volume to light, but he ought to consider, as well, that however satisfied he and the Sirdars of Sirohi may be, my satisfaction to see the volumes completed knows no bounds, because the publications for the most part will bring an end to litigation by the Sirdars even amongst themselves I would be the more satisfied to see them work in harmony amongst themselves and with the State in particular. It is ordained for a few to have their ideal brought to a success and I deem myself amongst the favoured few and highly fortunate in seeing my wish fulfilled. It is besides my duty as Chief Minister to bring about peace & harmony between the State and its Sirdars. According to Spiritualism, if one believes in it, when I am no more, my spirit will be right glad to find the Sirdars and the State work hand in hand, whenever emergencies occur.

Sd./ SADASHIVRAM. N.

1st July 1927.

‘ चौहान कुल कल्पद्रुम ’ के रचिता.



न्यायरत्न देसाई लछुभाई भीमभाई.



॥ श्री सारणेश्वरजी ॥

श्री गणेशायनमः

## चौहान कुल कल्पद्रुम.

### भूमिका.

राजपुत्रों के छत्तीस राज कुलों में चौहान वंश के राजपूतों ने वीरता, स्वाभिमान और नेक टेक का सम्पूर्ण रक्षण करके भारतभूमि के इतिहास में अग्रस्थान प्राप्त करने में बड़ी नामवरी पाई है ऐसा सर्वानुमते स्वीकार हुआ है, और यह प्राचीन व गौरवशाली वंश के नामांकित राजपुत्रों की प्रशंसा के वास्ते हरएक भाषा में पूर्व काल से ही अनेक काव्य ग्रंथ रचे हुए हैं; वैसे विद्वान कवियों ने भी अनेक गीत कवित्त रचकर इस कुल के इतिहास का रक्षण करने में अपना हिस्सा दिया है. ऐसे निष्कलंक व प्रभावशाली राजकुल की सच्ची और सप्रमाण ख्यात हरएक शाखा के सिलसिलेवार वंशवृक्ष के साथ प्रसिद्ध करने की गरज से इस ग्रंथ के लेखक ने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, अप्रसिद्ध हस्तलिखित काव्य और ख्यातें, विद्वान कवियों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत कवित्त, तथा प्रसिद्धि में आये हुए हस्तलिखित व छपी हुई ऐतिहासिक पुस्तकों में से चौहान राजपूतों से ताछुक रखने वाली ख्यात को एकत्र करके इस कुल के राजपूतों के बडुए, कुलगुरु, राणीमगा व पुरोहित आदि की पुरानी बहीओं से जरूरी सहायता लेकर यह “ चौहान कुल कल्पद्रुम ” नामक ग्रंथ रचा है, जिसमें मूल पुरुष ‘ चाहमान ’ से शुरूआत करके वर्तमान समय तक का इतिहास अंकित है.

वस्तुतः ‘ चाहमान ’ नामक बडा प्रतापी पुरुष के नाम से ‘ चौहान वंश ’ कहलाया है, परन्तु पीछे से इस वंश की २४ चौबीस शाखा होना कहावत से व प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों से भी प्रसिद्ध है. जो शाखाएं चौहानों का सांभरमें राजस्थान होने बाद विभक्त हुई हैं, जिनमें कितनीक शाखाएं सांभर से व कितनीक शाखा विक्रम संबत् की ग्यारहवीं सदी में नाडोल से निकली है, लेकिन उनमें कौन २ शाखा सांभर से व नाडोल से विभक्त हुई वह विवाद ग्रस्त होने से चौहानों की प्राचीन शाखा के विषय में एक स्वतंत्र प्रकरण ( तीसरा प्रकरण ) लिखा गया है, उससे मालूम होगा कि अलग २ शाखा की ख्यातो में अंकित हुई प्राचीन चौबीस शाखाओं को एकत्र करके जांच करने से उनमें बहुतसी उपशाखाएं शामिल हो चुकी है, जिससे चौहानों की चौबीस कहलाती शाखा की संख्या सैंकड़ों के अंक पर जा पहुंची है. जो कि चौहान कुल के



राजपूतों के वास्ते अपने कुल की कौन २ प्राचीन शाखा कहलाती है, यह मालूम होना बहुत आवश्यक होने से इस ग्रंथ में कुल प्रसिद्ध शाखाएं अंकित करके उनमें से जिन २ शाखा का सप्रमाण इतिहास प्राप्त हुआ, उनके वास्ते मूल पुरुष 'चाहमान' से लगा कर संबद्ध वंशवृक्ष बनाकर उसका हरएक प्रमाणों का उल्लेख के साथ संक्षिप्त इतिहास लिखा है, और जिन २ शाखा का संबद्ध वंशवृक्ष होने जैसा इतिहास नहीं प्राप्त हुआ उन शाखा के चौहान वर्तमान समय में कहां २ विद्यमान है वह उल्लेख किया है, वल्कि उम्मेद की जाती है कि भविष्य में नई ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने पर या किसी शाखा का विस्तीर्ण इतिहास लिखने की संभावना के समय में इस ग्रंथ में अंकित हुए अलग २ प्रमाणों वाले वंशवृक्ष और इतिहास से उसमें सहायता मिल सकेगी।

हिन्दुस्तान में पूर्व काल में इतिहास लिख रखने की प्रथा नहीं होने से, राजपूतों के इतिहास के वास्ते वर्तमान समय के इतिहास वेत्ताएं सिर्फ शिलालेख, ताम्रपत्र व प्राचीन समय के लिखे गये हस्तलिखित पुस्तकों पर ज्यादा भरोसा रख कर कंठस्थ साहित्य (प्राचीन दंतकथा व विद्वान कवियों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत कवित्त) व राज्याश्रित (बडुआ, कुलगुरु आदि) जनों की वहीओं पर अपनी नजर नहीं डालते, मुसलमान व औरों के तरफ से लिखी हुई तवारिखों पर खास आधार रखकर इतिहास लिखना पसंद करते हैं, लेकिन प्राचीन कंठस्थ साहित्य और राज्याश्रित जनों की वहीओं से जो जो विस्तीर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है, उतनी सामग्री उपरोक्त साहित्यों से प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि शिलालेख व ताम्रपत्र में अल्प व त्रुटक इतिहास अंकित होता है. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रशंसा के दोष विद्यमान है, वल्कि ऐसी पुस्तकों में जो २ पुस्तकें उसमें अंकित हुई घटना के समय बाद सैकड़ों वर्ष पीछे रचने में आई है, उनका पाया (मुख्य आधार) प्राचीन दंतकथा पर ही रहा हुआ है, और मुसलमान तवारिख लिखने वालों ने राजपूतों के इतिहास के विषय में पक्षपात करके जगह २ अपने मजहबी भाइयों की बड़ाई दिखलाने का प्रयत्न किया है, तब राज्याश्रित जनों की वही में अंकित हुई ख्यात उसी समयमें लिखी गई है और कंठस्थ साहित्यों में कवियों ने रचे हुए गीत कवित्त बहुधा उसी समय में रचे हैं, जिससे उनमें उपलब्ध होता इतिहास की कीमत ऐसे प्राचीन पुस्तकें व तवारिखों से कम नहीं होगी, बेशक राज्याश्रित जनों की वहीओं की जांच करने से पाया गया है कि उस राज्य की स्थापना होने के पहिले समय की जो ख्यात उसमें अंकित है, वह उसी समय की लिखी हुई नहीं है, वल्कि दंतकथा व प्राचीन गीत कवित्त के आधार पर से पीछे से लिखने में आई है, जिससे वह इतिहास शंकास्पद और सिलसिलेवार भी नहीं है, लेकिन उस वंश का राज्य कायम होने बाद की जो २ ख्यात उक्त वहीओं में मिलती है वह स्वतंत्र, सच्ची और सिलसिलेवार होना स्पष्ट मालूम होता है, इस लिये इस ग्रंथ में

इतिहास वेत्ताओं ने मान्य रखे हुए, ऐतिहासिक साहित्यों के उपरांत प्राचीन कंठस्थ ऐतिहासिक साहित्य और बडुओं आदि की बहीओं से प्राप्त हुई ऐतिहासिक सामग्री के प्रमाण भी जगह २ अंकित किये हैं।

चौहान राजपूतों की ख्यात का सारांश यह है कि इस कुल के छोटे २ सरदारों से लगाकर बड़े २ राजा महाराजाओं तक के पुरुषों ने स्वतंत्रता व स्वाभिमान का संरक्षण करने में ही अपनी जिन्दगी का सार्थक होना समझ कर इसी उद्योगमें अपने प्राण और सर्वस्व समर्पण करने में यत्किंचित परवाह न की। यानी किसी कविने कहा है कि.

“ धन गया फिर आ मिले, त्रिया गई मिल जाय, भोम गई फिर से मिले, गइ पत कबहु न आय. ”

इसी सूत्र का चौहानों ने दृढता से पालन करके अपने कुल के गौरव को कायम रखने में सफलता प्राप्त की है.

इस ग्रंथ में अंकित हुए प्राचीन इतिहास से मालूम होगा कि पूर्व काल में भारत भूमि के हरएक विभाग ( काश्मिर, उत्तराखंड, पंजाब, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रान्त, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, पूर्व और बंगाल आदि देशों ) में चौहानों के राज्य विद्यमान थे और विक्रम संबत् की तेरहवीं सदी की शुरुआत में चौहान राजवंश हिन्दुस्तान के सम्राट पद पर नियुक्त था, परन्तु परदेशी व परधर्मी के हिन्दुस्थान पर बार २ आक्रमण होने से जगह २ चौहान राजपूतों ने स्वदेश रक्षार्थे और स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करने के वास्ते अपनी जान कुर्बान करने से, उनके वंशजों के तरफ वर्तमान समय में सिर्फ गिन्ती की रियासतें ( राजपूताना में १ बून्दी, २ कोटा, व ३ सिरोही. मालवा में ४ खिलचीपुर, गुजरात में ५ छोटाउदयपुर व ६ देवगढ बारिया. ) तोपों की सलामी वाली रहने पाई हैं, और दूसरी रियासतें छिन्न भिन्न होकर उनके वंशज हरएक प्रांतों में छोटे-बड़े चौफ (तालुकदार) जमीनदार, जागीरदार या भोमियों की पंक्ति पर जा पहुंचे ह. यदि मुगल बादशाहों के जमाने में जब कि बहुत से राजपूत राजाओं ने देशकाल के अनुसार स्वतंत्रता और स्वाभिमान को तिलांजली देकर बादशाहों की इच्छा के अनुकूल बनकर अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया था, वैसा चौहान राजपूतों ने भी किया होता तो वर्तमान समय में हिन्दुस्तान के हरएक प्रांतों में चौहानों की कईएक बड़ी २ रियासतें विद्यमान रह जाती, परन्तु स्वतंत्रता, स्वाभिमान और नेकटेक की धुन में ही मचेपचे हठीले चौहानों ने वैभव-सत्ता व राज्य का लोभ नहीं रखते कीर्ति का लोभ रखने के कारण वह लाभ गुमा दिये, ऐसा इस ग्रंथ के पढने वाले को उस समय की अंकित हुई ख्यात से मालूम होगा.

चौहान राजपूतों वीरता व गौरव में श्रेष्ठ होने से इस कुल की प्रशंसा में

प्राचीन समय में भी कितनेक काव्य ग्रंथ हरएक भाषा ( संस्कृत, मागधी, राज्यस्थानी, व गुजराती आदि ) में लिखे गये हैं, वैसे गद्य में लिखे हुए हस्तलिखित पुस्तकें भी मिलती हैं, जिनमें ' पृथ्वीराज विजय ' की पुस्तक महान् पृथ्वीराज के समय में ही पृथ्वीराज की प्रशंसा के वास्ते लिखी है. ' हमीर महाकाव्य ' की पुस्तक रणथंभोर के चौहान ' हमीर हठीला ' की शरणांगत वात्सल्यता व वीरता की प्रशंसा में विक्रम संवत् की पंद्रहवीं सदी में रची गई है. ' कान्हडदेव प्रबंध ' की पुस्तक वि. सं. १५४५ में जालोर के सोनगरे चौहान कान्हडदेव व वीरमदेव की नेक-टेक के विषय में रची हुई है. ' पृथ्वीराज रासा ' का सब से बड़ा काव्य ग्रंथ वि. सं. की सोलहवीं सदी में लिखा जाना कहा जाता है. ' सूर्जनचरित्र ' की पुस्तक बून्दी के हाडा राव सूर्जन की प्रशंसा में वि. सं. की सत्तरहवीं सदी में लिखी है. इनके सिवाय ' हमीर रासा ' व ' वीरमदेव सोनगरा ' नामकी राज्यस्थानी भाषा की गद्य में लिखी हुई पुस्तकें भी प्राप्त हैं. इसी मुआफिक प्रख्यात कवि ' आढा दुरशा ' जो वि. सं. की सत्तरहवीं सदी में विद्यमान था और जिसने महाराणा प्रतापसिंह की प्रशंसा में ' प्रतापवत्तिसी ' आदि उत्तम कवित्ता लिखी है, उसने अपनी नजर से देखी हुई चौहानों की ऐतिहासिक घटना के विषय में सिरोही के महाराव सूरताणसिंह के लिये ' राव सूरताण के झूलणे ' आदि और दूसरे चौहानों के विषय में भी बहुत गीत कवित्त रचे हैं, जिससे व दूसरे नजर से देखने वाले कवियों ने जो जो कवित्त रचे हैं उससे वि. सं. की सत्तरहवीं सदी से लगाकर उन्नीसवीं सदी तक के इतिहास पर कई प्रकार का नया प्रकाश होना मालूम होगा. तात्पर्य यह है कि इतिहास वेत्ताओं ने स्विकार किया हुआ ऐतिहासिक साहित्य के सिवाय चौहान कुल के राजपुत्रों के विषय में कंठस्थ साहित्य और बड्ढा आदि की वहीओं से उनके इतिहास पर कितना उजाला होता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस ग्रंथ में ' देवडा चौहान की शाखा ' के वास्ते प्रथम विभाग के प्रकरण २३ से प्रकरण ३६ तक में जो इतिहास अंकित हुआ है, उससे व ' दूसरे विभाग ' की पुस्तक देखने से खयाल होगा, उसमें महाराव सूरताणसिंह का इतिहास पढने से मालूम होगा कि उनके विषय में रचे हुए गीत कवित्त के रचने वाले कवि लोग ( संडायच पुना व आढा दुरशा आदि ) उसी समय में विद्यमान थे, बल्कि आढा दुरशा विरूद्ध पक्ष ( राठौरों का ) का कवि था और दत्ताणी के युद्ध में शाही फौज में शरिक था, उसने रचे हुए गीत कवित्तों में महाराव सूरताणसिंह की तरफ से कई दफे शाही फौज को शिकस्त मिलने की और मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को शरण रखने की वगैरह ऐतिहासिक घटनाएं नजरसे देखी हुई अंकित हैं, जो आजतक अंधेरे में ही रहने पाई थी.

वस्तुतः महाराव सूरताणसिंह का इतिहास विक्रम संवत् की सत्तरहवीं सदी में चौहान राजपूतों की ख्यात के वास्ते चौहानों की कीर्ति का अचल व अमर कीर्तिस्थंभ

है, क्यों कि उसके इतिहास से चौहानों की तवारिख के वास्ते एक नया सफा खुलता है, इसके विषय में मेवाड के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि—

“ एकावन वरस जिव्यो अनाड; जीतो निज बावन महाराड. ”

यानी अकबर बादशाह के सम्पूर्ण तपते हुए राज्य अमल में यह महाराव विद्यमान था और इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करते हुए, बादशाह के विरुद्ध पक्ष वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वर्ष की जिन्दगी में बावन दफे युद्ध में विजय प्राप्त किया था, बल्कि इस महाराव के इतिहास की मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राजाओं की हर एक बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत महाराव सूरताणसिंह के विषय में, ये विशेषता दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज करना आवश्यक हुआ, तब महाराव सूरताणसिंह ने अपने राज्य की सीमा में रह कर अकबर बादशाह के दुश्मनों ( राठौरों व सिसोदियों ) को अपने आश्रय में रख कर शाही फौज को सफलता प्राप्त होने न दी. कवियों ने इन दोनों स्वाभिमानी राजाओं की स्वतंत्रता कायम रहने के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि—

“ अवर नृप पतशाह अगे, होई भ्रत जोडे हाथ; नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अखुद नाथ. ”

यह कथन अकबर बादशाह के समय में कवि ने कहा है. इस विषय में खुलासे वार अहवाल इस ग्रंथ के प्रथम विभाग के पृष्ठ २५४ से २५६ तक में अंकित है.

चौहान राजपूतों की पूर्ववत् नेकटेक मुगल बादशाहों के समय में कहां तक कायम रही है, उनके वास्ते ‘ बूंदी के हाडा चौहान व सिरोही के देवडा चौहान ’ की अंकित हुई ख्यात से इतिहास रसिक पाठको को चौहान कुल के राजपूतों के वास्ते जरूर बहुमान उत्पन्न होगा, क्यों कि मुगलों के समय में कलंकित कही जाती ‘ डौला व नोरोज ’ की प्रथा से चौहान राजपूत बेदाग रहने से उनकी उज्वल कीर्तिके यशोगान कवि लोगों ने अनेक प्रकार से किये हैं, यानी कवि ने कहा है कि—

“ बूंदी हाडा भोजमल, सिरोही सूरताण; अकबर सु उभा अणी, छावा दोऊ चहुआण. ”

यदि बूंदी के हाडा राव सूर्जन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान और कुल मर्याद निभाने के वास्ते प्रथम खास शर्तें बादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस ग्रंथ के पहिला विभाग के पृष्ठ ७२ की टिप्पणी. ) जिससे हाडा चौहान को मानप्रतिष्ठा जैसी की वैसी कायम रहने पाई है, और जब २ मुगलों ने वे शर्तें तोडने के वास्ते प्रयत्न किया तब २ उनको निष्फलता मिली है, इसी कारण से कवि ने कहा है कि—

१ अपनी राजकुमारी का शाही खानदान वालों के साथ विवाह करना. २ नोरोज की गुजरी के बजार में अपनी स्त्रीओं को शामिल रहने को भेजना.

प्राचीन समय में भी कितनेक काव्य ग्रंथ हरएक भाषा ( संस्कृत, मागधी, राज्य-स्थानी, व गुजराती आदि ) में लिखे गये है, वैसे गद्य में लिखे हुए हस्तलिखित पुस्तकें भी मिलती है, जिनमें ' पृथ्वीराज विजय ' की पुस्तक महान् पृथ्वीराज के समय में ही पृथ्वीराज की प्रशंसा के वास्ते लिखी है. ' हमीर महाकाव्य ' की पुस्तक रणथंभोर के चौहान ' हमीर हठीला ' की शरणांगत वात्सल्यता व वीरता की प्रशंसा में विक्रम संवत् की पंद्रहवीं सदी में रची गई है. ' कान्हडदेव प्रबंध ' की पुस्तक वि. सं. १५४५ में जालोर के सोनगरे चौहान कान्हडदेव व वीरमदेव की नेक-टेक के विषय में रची हुई है. ' पृथ्वीराज रासा ' का सब से बड़ा काव्य ग्रंथ वि. सं. की सोलहवीं सदी में लिखा जाना कहा जाता है. ' सूर्जनचरित्र ' की पुस्तक बून्दी के हाडा राव सूर्जन की प्रशंसा में वि. सं. की सत्तरहवीं सदी में लिखी है. इनके सिवाय ' हमीर रासा ' व ' वीरमदेव सोनगरा ' नामकी राज्यस्थानी भाषा की गद्य में लिखी हुई पुस्तकें भी प्राप्त है. इसी मुआफिक प्रख्यात कवि ' आढा दुरशा ' जो वि. सं. की सत्तरहवीं सदी में विद्यमान था और जिसने महाराणा प्रतापसिंह की प्रशंसा में ' प्रतापवत्तिसी ' आदि उत्तम कवित्ता लिखी है, उसने अपनी नजर से देखी हुई चौहानों की ऐतिहासिक घटना के विषय में सिरोही के महाराव सूरताणसिंह के लिये ' राव सूरताण के झूलणे ' आदि और दूसरे चौहानों के विषय में भी बहुत गीत कवित्त रचे हैं, जिससे व दूसरे नजर से देखने वाले कवियों ने जो जो कवित्त रचे है उससे वि. सं. की सत्तरहवीं सदी से लगाकर उन्नीसवीं सदी तक के इतिहास पर कई प्रकार का नया प्रकाश होना मालूम होगा. तात्पर्य यह है कि इतिहास वेत्ताओं ने स्विकार किया हुआ ऐतिहासिक साहित्य के सिवाय चौहान कुल के राजपुत्रों के विषय में कंठस्थ साहित्य और बडुआ आदि की बहीओं से उनके इतिहास पर कितना उजाला होता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस ग्रंथ में ' देवडा चौहान की शाखा ' के वास्ते प्रथम विभाग के प्रकरण २३ से प्रकरण ३६ तक में जो इतिहास अंकित हुआ है, उससे व ' दूसरे विभाग ' की पुस्तक देखने से खयाल होगा, उसमें महाराव सूरताणसिंह का इतिहास पढ़ने से मालूम होगा कि उनके विषय में रचे हुए गीत कवित्त के रचने वाले कवि लोग ( संडायच पुना व आढा दुरशा आदि ) उसी समय में विद्यमान थे, बल्कि आढा दुरशा विरूद्ध पक्ष ( राठौरों का ) का कवि था और दत्ताणी के युद्ध में शाही फौज में शरिक था, उसने रचे हुए गीत कवित्तों में महाराव सूरताणसिंह की तरफ से कई दफे शाही फौज को शिकस्त मिलने की और मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को शरण रखने की वगैरह ऐतिहासिक घटनाएं नजरसे देखी हुई अंकित है, जो आजतक अंधेरे में ही रहने पाई थी.

वस्तुतः महाराव सूरताणसिंह का इतिहास विक्रम संवत् की सत्तरहवीं सदी में चौहान राजपूतों की ख्यात के वास्ते चौहानों की कीर्ति का अचल व अमर कीर्तिस्थंभ

है, क्यों कि उसके इतिहास से चौहानों की तवारिख के वास्ते एक नया सफा खुलता है, इसके विषय में मेवाड के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि—

“ एकावन बरस जिव्यो अनाड; जीतो निज बावन महाराड. ”

यानी अकबर बादशाह के सम्पूर्ण तपते हुए राज्य असल में यह महाराव विद्यमान था और इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करते हुए, बादशाह के विरुद्ध पक्ष वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वर्ष की जिन्दगी में बावन दफे युद्ध में विजय प्राप्त किया था, बल्कि इस महाराव के इतिहास की मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राजाओं की हर एक बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत महाराव सूरताणसिंह के विषय में, ये विशेषता दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज करना आवश्यक हुआ, तब महाराव सूरताणसिंह ने अपने राज्य की सीमा में रह कर अकबर बादशाह के दुश्मनों ( राठौरों व सिसोदियों ) को अपने आश्रय में रख कर शाही फौज को सफलता प्राप्त होने न दी. कवियों ने इन दोनों स्वाभिमानि राजाओं की स्वतंत्रता कायम रहने के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि—

“ अवर नृप पतशाह अगे, होई भ्रत जोडे हाथ; नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाथ. ”

यह कथन अकबर बादशाह के समय में कवि ने कहा है. इस विषय में खुलासे वार अहवाल इस ग्रंथ के प्रथम विभाग के पृष्ठ २५४ से २५६ तक में अंकित है.

चौहान राजपूतों की पूर्ववत् नेकटेक मुगल बादशाहों के समय में कहां तक कायम रही है, उनके वास्ते ' बूंदी के हाडा चौहान व सिरोही के देवडा चौहान ' की अंकित हुई ख्यात से इतिहास रसिक पाठको को चौहान कुल के राजपूतों के वास्ते जरूर बहुमान उत्पन्न होगा, क्यों कि मुगलों के समय में कलंकित कही जाती ' डौला व 'नोरोज ' की प्रथा से चौहान राजपूत बेदाग रहने से उनकी उज्वल कीर्तिके यशोगान कवि लोगों ने अनेक प्रकार से किये हैं, यानी कवि ने कहा है कि—

“ बूंदी हाडा भोजमल, सिरोही सूरताण; अकबर सुं उभा अणी, छावा दोऊ चहुआण. ”

यदि बूंदी के हाडा राव सूर्जन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान और कुल सर्याद निभाने के वास्ते प्रथम खास शर्तें बादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस ग्रंथ के पहिला विभाग के पृष्ठ ७२ की टिप्पणी. ) जिससे हाडा चौहान की मानप्रतिष्ठा जैसी की वैसी कायम रहने पाई है, और जब २ मुगलों ने वे शर्तें तोडने के वास्ते प्रयत्न किया तब २ उनको निष्फलता मिली है, इसी कारण से कवि ने कहा है कि—

१ अपनी राजकुमारी का शाही खानदान वालों के पय विवाह करना. २ नोरोज की गुजरी के बजार में अपनी स्त्रीओं को शामिल रहने को भेजना.

“ काजल हंदी कुपली दली सुलताणा, सवको कलंक लग गयो वंना चहुआणां. ”

कवि के कथन का आशय यह है कि देहली की सलतनत जो राजपूतों को कलंक लगाने के वास्ते कज्जल की दब्बी समान है, वैसी सलतनत में रहने वाले अर्थात् बादशाह के समागम में आये हुए राजपूतों में सिवाय चौहान राजपूतों के दूसरे सब राजपूतों को कलंक रूप काजल का धब्बा लग गया है, यानी शाही सेवा में उपस्थित हुए चौहान सिवाय के राजपूत राजाओं का स्वमान खंडन करने में मुगलों ने सफलता पाई है.

चौहान राजपूतों ने मुसलमान बादशाहों को अपनी राजकुमारी नहीं बिहाई और चौहानों की राणीयां 'नोरोज' की गुजरी में नजाने पाई उसके वास्ते कविने चौहानों को धन्यवाद देने के विषय में कहा है कि—

“ धन चहुआणी धियडी, धन चहुआणी नार; असपत रे आगले सज न गई शणगार. ”

तात्पर्य यह है कि चौहान राजपूतों ने विस्तीर्ण भूमिका राज्य सम्पादन करने के वास्ते या अपना राज्य का रक्षण के कारण मुसलमानों की इच्छा के अनुकूल नहीं होते अपना स्वाभिमान का रक्षण करके कीर्ति सम्पादन की है.

चौहानों ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में कितने दर्जे सफलता प्राप्त की? उस विषय में सिरोही के देवडा चौहानों का व बारिया के खीची चौहानों का इतिहास पढने से मालूम होगा कि इन दोनों रियासत के चौहानों ने मुगल या मरहटों की मातहत नहीं स्वीकारते अपनी स्वतंत्रता कायम रखी है, बल्कि अंग्रेज सरकार के निष्पक्षपाती अफसरोंने प्राचीन इतिहास व शाही दफतरों की जांच करने बाद जो राय जाहिर की है, उनमें मैलिसन साहेब कृत 'नेटीव स्टेट्स ऑफ इन्डिया' नामक पुस्तक में सिरोही का चौहान राज्य स्वतंत्र होने के विषय में उल्लेख किया है कि—“ राजपूताने में केवल सिरोही का राज्य एकही ऐसा है कि जिसने मुगल, मरहटा और राठौरों की आधिपता न स्वीकारते अपनी स्वतंत्रता कायम रखी है. ' उसी मुआफिक गुजरात में बारिया राज्य के चौहानों ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण करने के विषय में भी अनेक अंग्रेज अफसरों ने अपनी राय बताई है, जिसमें मी. हेमिलटन साहेब कृत 'डिस्क्रिप्शन ऑफ हिन्दुस्थान' नामक पुस्तक में लिखा है कि—' हिन्दुस्थान में इस समय में जो गिन्ती के स्वतंत्र राज्य हैं उनमें बारिया रियासत भी एक गिनी जा सकती है. ' तात्पर्य यह कि मुगल व मरहटों के सक्षय में जबकि मेवाड के महाराणा जैसे प्रबल सिसोदिये राजकुल ने भी अपनी स्वतंत्रता गुमा दी थी, तब गुजरात व राजपूताना में चौहान राजकुल के राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सफलता प्राप्त की है, जिनका इतिहास इस ग्रंथ में योग्य स्थान पर अंकित हुआ है, उसमें देवडा चौहान शाखा का इतिहास के वास्ते ज्यादह सामग्री प्राप्त होने से उसका इतिहास कुछ विस्तार से अंकित हुआ है, और उम्मेद की जाती है कि इसी मुआफिक दूसरी शाखा के वास्ते साहित्य सामग्री प्राप्त

होने पर भविष्य में दूसरी आवृत्ति छपेगी उसमें उनका इतिहास इसी मुआफिक विस्तार से अंकित होगा, वैसे इस ग्रंथ में अंकित हुई ख्यात में अपूर्णता या गलति रह जाने के विषय में सूचना होने पर उनके वास्ते भी उसमें दूरस्ती की जायगी.

इस ग्रंथ का लेखक विद्वान किंवा इतिहास का अभ्यासी नहीं है, वैसे इतिहास की पुस्तक लिखने की उसकी योग्यता भी नहीं है, परन्तु राजपूताना की गौरवशाली भूमि में उसका अन्नोदक निर्माण होने से, सिरोही रियासत में जिन्दगी व्यतित होने के कारण यह ऐतिहासिक घटना से भरी हुई भूमि के प्राचीन जाहोजलाली के स्मारक स्थल, दंतकथा और वीर पुरुषों की वीरता के गीत कवित्तों का परिचय होनेका मौका हाथ लगने से हृदय में उद्भव हुई प्रेम उर्मि का पोषण करने के वास्ते, ऐतिहासिक साहित्यों की खोज में लगकर, प्राचीन साहित्यों को एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, और संग्रह हुई सामग्री से अपने दिल में सन्तोष मनाने के वास्ते गुजराती भाषा में 'राजयोगी परमार धारावर्षादेव, २ देवी खड्ग अने चितोडनी पुनः प्राप्ति' व 'बलहठ बंका देवडा', नामक तीन ऐतिहासिक उपन्यास रचकर प्रसिद्ध किये, लेकिन उससे चाहिये वैसा समाधान नहीं होने के कारण जिस चौहान वंश (देवडा चौहान) के अन्नजल से लेखक व उसके बाल बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और भविष्य में होने की उम्मेद की जाती है, उस चौहान कुल की कुछ यादगार सेवा लेखक के हाथ से हो सके वैसी तीव्र अभिलाषा होनेसे, प्रथम 'देवडे चौहानों' के वास्ते एक पुस्तनामा अंकित करके इस्वी सन् १९१२ में मरहूम सिरोही महाराव साहेब सर कैसरीसिंह बहादुर जी. सी. आई. ई., के सी. एस. आई. की हजुर में वास्ते मुलाहिजा के पेश किया गया, जिसपर उन नामदार ने पसंदगी बताकर समस्त चौहान राजपूतों के वास्ते यह 'चौहान कुल कल्पद्रुम' की रचना करने में सहायता मिले वैसी सामग्री अपने पुस्तक भंडार से देने की कृपा की, और बडुआ आदि राजकुल के इतिहास की नुंद रखने वालों की बहीओं से मिलान करने का इन्तजाम कर दिया, जिससे ही ऐसा महद् ग्रंथ रचने की लेखक की महत्कांक्षा फलिभूत हुई है.

इस ग्रंथ के रचना की सब सामग्री कई बरसों से इकट्ठी हो चुकी थी, परन्तु ऐसा बड़ा ग्रंथ बगैर आश्रय के छप सके वैसा न होने से वे सामग्री बस्ते में ही पडी रही थी, दरमियान सिरोही रियासत के देवडे सरदारों की जागीर के हक हकुक के सेटलमेंट करते वक्त इस सामग्री की सहायता लेने में आई, तब से देवडे सरदारों का लक्ष इसकी तरफ हुआ, और उन्होंने इस ग्रंथ को प्रसिद्ध कराने की गरज से ता. २७-१-२५ ई. के दिन मौजूदा महाराव साहेब सर स्वरूपरामसिंह साहेब के आगे कुछ सहायता देने का प्रस्ताव किया, जिस पर से 'सिरोही स्टेट प्रेस' में यह ग्रंथ छाप देने का स्वीकार हुआ परन्तु उसमें भी बाधा आगई, यानी सरदारों ने सहायता के विषय में अपनी तरफ से जो योजना करना चाही थी वह पूर्ण न होने पाई, और स्टेट प्रेसमें चाहिये वैसा छपाई का



काम होने की सूरत नहीं पाई गई, जिससे पुस्तक की रचना के वास्ते जो श्रम उठाया था वह व्यथा हो गया, लेकिन सिरोही रियासत के मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहेब राज्यरत्न महेता सदाशिवराम ने लेखक की नाउम्मेदी देख कर नामदार महाराव साहब के हुजूर में इस ग्रंथ के विषय और जरूरत पर खयाल फुरमाने की अर्ज करने से महाराव साहेब ने लेखक का मंद उत्साह को सजिवन करने के वास्ते आश्वासन देकर अपनी सहानुभूति प्रकट की, तथा दूसरे किसी प्रेस में छपवाने की व्यवस्था करने के वास्ते कामचलाऊ सहायता देकर इस ग्रंथ की ८० प्रति रियासत में लेना मंजूर फरमाया, जिससे यह ग्रंथ प्रसिद्ध करने का सुयोग प्राप्त हुआ है।

इस ग्रंथ को दो विभाग में प्रसिद्ध करने का खास कारण यह है कि दोनों विभाग के विषय में फर्क है, यानी प्रथम विभाग में समस्त चौहान कुल के इतिहास से तात्लुक है, तब द्वितीय विभाग में सिर्फ 'देवडा चौहान' सरदारों का वंशवृक्ष और इतिहास अंकित हुआ है, जिसका खास तात्लुक देवडा, बोडा, बालोतर, चीबा व अबसी शाखा के चौहानों से ही है, वसे उन सरदारों का इतिहास इतना वारिक संशोधन करके अंकित हुआ है कि सिरोही रियासत के कुल चौहान सरदारों के वंशवृक्ष में उनके खानदान में जन्म लिये हुए एक भी पुरुष इस वंशवृक्ष में बाकी नहीं रहा होगा, क्यों कि यह दूसरे विभाग की पुस्तक सिरोही रियासत के सरदारों के वास्ते जितनी इतिहास के लिये जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरत हरएक जागीर के वारिसान के हक हकुक के निसबत होने के कारण हरएक वंशवृक्ष के वास्ते सरदारों से जाच कराकर वह सही होने के विषय में बडुआ आदि से तहरीरी प्रमाण पत्र लेने बाद उनके वंशवृक्ष अंकित हुए है।

वस्तुतः इस ग्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य इकट्ठा करने का काम वि. सं. १९६० से शुरु हुआ था और वि. सं. १९७२ तक में जरूरी मसाला जमा हुआ, परन्तु ऐसा काम सम्पूर्ण होना न होना यह बात कुदरत के उपर होने से अनेक प्रकार के विघ्न आते ही रहे, बल्कि जब कि पुस्तक छपने का काम शुरु हुआ और प्रेस में छपने के वास्ते फर्में लिख कर भेजे जाते थे, तब दरमियान में पुस्तक की रचना में अपरिमित श्रम उठाने से लेखक सख्त विमर हो गया, और ऐसी विमारी हुई कि यह काम पूर्ण होने की संभावना कम हो गई, परन्तु ऐसे निराशा के समय में चीफ मिनिस्टर साहब सिरोही ने वार २ आश्वासन देकर उत्तेजित करने से और फर्में की नकल करने के वास्ते व प्रेस में रह कर प्रुफ पढने के लिये एक अहलकार (पुरोहित चीमनीराम खाखरवाडा वाला) की सहायता देने से ही लेखक यह काम सम्पूर्ण करने के वास्ते भाग्यशाली हुआ है, जिनके लिये राज्यरत्न महेता सदाशिवराम का लेखक बहुत शुकर गुजार है।

इस स्थान पर यह बात स्पष्ट लफजों में स्वीकारना जरूरी है कि इस ग्रंथ का लेखक

मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब सिरोही स्टेट.



राजरत्न महेता सदाशिवराम चीफ मिनिस्टर साहब.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ३४४ ]



विद्वान् किंवा हिन्दी भाषा का ज्ञाता नहीं है, उसकी मातृभाषा गुजराती है, जिससे इस हिन्दी भाषा के ग्रंथ में भाषा, व्याकरण व वाक्य रचना के अनेक दोष रहने पाये हैं, वैसे तबियत नादुरुस्त होने से ऐसी बातों पर कम ध्यान रहा है. जो कि प्रथम के कितनेक प्रकरणों में लेखक के मित्र मा. गणेश सदाशिव आपटे M. A. L. L. B. (प्रा. से. महाराव साहेब सिरोही) की सहायता ली गई थी, लेकिन पीछेसे पुस्तक जल्दी छपवाने के वास्ते प्रेस में आदमी रखने की आवश्यकता होने से प्रुफ देखने का मौका नहीं मिला, जिससे ज्यादाह गलती रहने पाई है सो उसके वास्ते सुज्ञ पाठक क्षमा करेंगे, और पुस्तक के विषय व उनकी जरूरियात पर ध्यान फुरमावेंगे. यदि इस ग्रंथ से लेखक की अभिलाषानुसार चौहान कुल के राजपूतों की लेखक के हाथसे कुछ भी सेवा हुई है वैसे मान्य किया जायगा तो लेखक उठाये हुए श्रम का सार्थक होना मानकर संतुष्ट होगा.

इस ग्रंथ की साहित्य सामग्री में जो २ प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध पुस्तकें, ख्यात आदि की सहायता ली गई है, उनका उल्लेख योग्य स्थल पर उस पुस्तक के कर्ता व साहित्य देने वाले सद्गृहस्थों के नाम के साथ किया गया है, वैसे प्राचीन गीत कवितों के विषय में जिन २ ×कवि के नाम प्राप्त हुए वह अंकित किये हैं, जिनके वास्ते इस स्थान पर वे विद्वान लेखकों व कवियों का इस ग्रंथ का लेखक शुक्रोआ अदा करता है, क्यों कि उनकी सहायता से ही यह ग्रंथ रचने पाया है, उनमें खास करके मरहूम सूता नेणशी, और मौजूदा इतिहासकार रा. बा. पंडित गौरीशंकर औझा व देवडा चौहान का बडुआ लक्ष्मणसिंह, जिनके पुस्तकों से इस ग्रंथ में जगह २ सहायता ली गई है, उनका जितना अहसान माना जाय वह कम है. इसी मुआफिक बडोदे के लुहाणामित्र स्टीम प्रिन्टींग प्रेस के मालिक ने इस पुस्तक को कम समय में छाप देने के वास्ते जो तकलिफ उठाई है वह तारिफ के काबिल है.

अखिर यह भूमिका समाप्त करने के पहिले लेखक को दूबारा जाहिर करना जरूरी है कि, इस ग्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य सामग्री एकत्र करने का मौका प्राप्त करा देने का बहुमान मरहूम महाराव साहेब सर कैसरीसिंह बहादुर को, व पुस्तक छपवाने

× ईम ग्रंथ में जाहिर में आये हुए कवियों के नाम १ कवि चंद वारहट, २ कवि अहु, ३ कवि पद्मनाम, ४ कवि आसा, ५ कवि हरसूर वारहट, ६ कवि आसिया माला, ७ कवि आढा दूराश, ८ कवि आढा किशना, ९ कवि आढा दयालदास, १० कवि आढा महेशदास, ११ कवि संडायच पुना, १२ कवि आसिया दूदा, १३ कवि आसिया दश, १४ वारहटाणी माद्रेसजी (कवि आसिया दश की स्त्री.) १५ कवि विहारीदान मेहडु, १६ कवि आढा मुकुन्दास, १७ कवि दशवाडिया खेमराज, १८ कवि आढा प्रयागदास, १९ कवि आढा ओपा, २० कवि आढा खोडीदान, २१ कवि आढा अननी, २२ कवि आढा रायवदान, २३ कवि आसिया नवलदान, २४ कवि जीवा लाधा, आदि के नाम प्राप्त हुए हैं वह जगह २ अंकित किये हैं, वैसे जिनके नाम नहीं मीले वहां पर कवि के नाम दर्ज नहीं हुए हैं.

की प्रेरणा कराने का मान, निवज ठिकाने के मौजूदा राजसाहबां महोबतसिंह और पाडिव ठिकाने के ठाकुर साहेब 'सभा भूषण' अभयसिंह व दूसरे देवडे सरदारों को है. वैसे यह ग्रंथ प्रसिद्धि में लानेके वास्ते सिरोही के मौजूदा महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहेब बहादुर K. C. S. I. ने कृपा करके जो सुयोग प्राप्त कराया है उसके वास्ते लेखक उन नामदार का सदा ऋणी रहेगा. यदि कर्णों कोस दूर रहे सूर्य को भूप, दिपादि सामग्री से वंदन करके संतोष मनाया जाता है, उस मुआंफिक लेखक मरहूम महाराव सर कैसरीसिंह के वास्ते परम कृपालु प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनके पूण्यशाली आत्मा को परमात्मा अचल शान्ति देवे, और मौजूदा सिरोही महाराव साहेब को तनदुरूस्ती के साथ उत्तम प्रकार की संपत्ति, सन्तति और यश प्राप्ति के साथ विर्घायुः बक्षे, वैसे इस चौहान कुल में अंकित हुए समस्त चौहानों का सुयश हमेशा बना रहे. अस्तुः विक्रम संवत् १९८३ अक्षय त्रतिया. ता. ४ मई सन १९२७ इस्वी. मु. आबुरोड.

ली. सेवक.

लल्लुभाई भीमभाई देशाई.



## सुचीपत्र.

## 'चौहान कुल कल्पद्रुम' विभाग पहिला की पृष्ठवार विषयानुक्रमणिका.

प्रकरण	विषय व वाचत	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व वाचत	कौन पृष्ठ पर
१	चौहानों की उत्पत्ति व गोत्र. पृ. १ से ४.	१	१४	मालवा के खीची चौहान. पृ. ९९ से ११५	
२	चौहानों के प्राचीन राजस्थान. पृ. ५ से ८.	५	१	मालवा के खीची चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.	९९
३	चौहानों की प्राचीन शाखाएं. पृ. ९ से १६.	९	२	वंशवृक्ष गढ़ गागरून के खीची चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१०१
४	सांभर के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य. पृ. १७ से २२.	१७	३	वंशवृक्ष खीलचीपुर के खीची चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१११
५	सांभरिया चौहान. पृ. २३ से ३०.		१५	गुजरात के खीची चौहान. पृ. ११६ से १३२.	
१	वंशवृक्ष सांभर के चौहानों का व उनका संक्षिप्त इतिहास.	२३	१	वंशवृक्ष चांपानेर ( पावागढ़ ) के खीची चौहान.	१२०
६	देहली का महान् पृथ्वीराज. पृ. ३१ से ३८.	३१	२	वंशवृक्ष छोटा उदयपुर के खीची चौहान ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१२०
७	रणथंभोर के चौहान. पृ. ३९ से ४३.		३	वंशवृक्ष बारिया के खीची चौहान ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१२५
१	रणथंभोर के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.	४०	४	वंशवृक्ष मांडवा के खीची चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१३०
२	रणथंभोर के चौहानों का वंशवृक्ष व उनका संक्षिप्त इतिहास.	४१	१६	वाव ( गुजरात ) के नाडोला चौहान. पृ. १३३ से १३७.	
८	पूर्विये चौहानों का इतिहास. पृ. ४४ से ४७.		१	वंशवृक्ष वाव के नाडोला चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१३३
१	वंशवृक्ष पूर्विये चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	४४	२	वंशवृक्ष वेणप व सूईगांव के नाडोला चौहान.	१३६
२	वंशवृक्ष नीमराणा के पूर्विया चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	४६	१७	सांचोरा चौहान. पृ. १३८ से १५१.	
९	नाडोल के चौहान. पृ. ४८ से ६०.		१	सांचोरा चौहानों का वंशवृक्ष व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१३९
१	नाडोल के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.	४९	( जिसमें पेटा शाखाएं नं. ३ सहस्रमसोत, पृ. १४०. नं. ४ तेजाभोत, पृ. १४१. नं. ५ हिमालोत, पृ. १४२. नं. ६ धीरोत, पृ. १४३. नं. ७ भैरोत, पृ. १४४. नं. ८ लूणावत व मांडणोत, पृ. १४७. और नं. १४ दयाळदासोत, पृ. १४९. के वंशवृक्षों व उनके संक्षिप्त इतिहास अंकित है. )		
२	वंशवृक्ष नाडोल के चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	५२	१८	वागडिया चौहान ( वांसवाडा व हुंगरपुर के ) पृ. १५२ से १५७.	
१०	हाडा चौहानों का प्राचीन इतिहास. पृ. ६१ से ६५.	६१	१	वंशवृक्ष वागडिया चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१५३
११	हाडा चौहान बूंदी. पृ. ६६ से ७९.				
१	वंशवृक्ष हाडा चौहान बूंदी ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	६७			
१२	हाडा चौहान कोटा. पृ. ८० से ८८.				
१	वंशवृक्ष हाडा चौहान कोटा ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	८०			
१३	खीची चौहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य. पृ. ८९ से ९८.				
१	वंशवृक्ष खीचीचौहान ( नागौर पट्टी ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	९४			

की प्रेरणा कराने का मान, निवृज ठिकाने के मौजूदा राजसाहवां महोवतसिंह और पाडिव ठिकाने के ठाकुर साहेब 'सभा भूषण' अभयसिंह व दूसरे देवडे सरदारों का है। वैसे यह ग्रंथ प्रसिद्धि में लानेके वास्ते सिरोही के मौजूदा महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहेब बहादुर K. C. S. I. ने कृपा करके जो सुयोग प्राप्त कराया है उसके वास्ते लेखक उन नामदार का सदा ऋणी रहेगा। यदि कर्णोंको कोस, दूर रहे सूर्य को धूप, दिपादि सामग्री से वंदन करके संतोष मनाया जाता है, उस मुआफिक लेखक मरहूम महाराव सर कैसरीसिंह के वास्ते परम कृपालु प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनके पूण्यशाली आत्मा को परमात्मा अचल शान्ति देवे, और मौजूदा सिरोही महाराव साहेब को तनदुरूस्ती के साथ उत्तम प्रकार की संपत्ति, सन्तति और यश प्राप्ति के साथ विर्घायुः बक्षे, वैसे इस चौहान कुल में अंकित हुए समस्त चौहानों का सुयश हमेशा बना रहे। अस्तुः विक्रम संवत् १९८३ अक्षय त्रितिया. ता. ४ मई सन १९२७ इस्वी. मु. आबुरोड.

ली. सेवक.

लल्लुभाई भीमभाई देशाई.



## सुचीपत्र.

‘ चौहान कुल कल्पद्रुम ’ विभाग पहिला की पृष्ठवार विषयानुक्रमणिका.

प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर
१	चौहानों की उत्पत्ति व गोत्र. पृ. १ से ४.	१	१४	मालवा के खीची चौहान. पृ. ९९ से ११५	
२	चौहानों के प्राचीन राजस्थान. पृ. ५ से ८.	५	१	मालवा के खीची चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.	९९
३	चौहानों की प्राचीन शाखाएं. पृ. ९ से १६.	९	२	वंशवृक्ष गढ़ गागरून के खीची चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१०१
४	सांभर के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य. पृ. १७ से २२.	१७	३	वंशवृक्ष खीलचीपुर के खीची चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१११
५	सांभरिया चौहान. पृ. २३ से ३०.		१५	गुजरात के खीची चौहान. पृ. ११६ से १३२.	
१	वंशवृक्ष सांभर के चौहानों का व उनका संक्षिप्त इतिहास.	२३	१	वंशवृक्ष चांपानेर ( पावागढ़ ) के खीची चौहान.	१२०
६	देहली का महान् पृथ्वीराज. पृ. ३१ से ३८.	३१	२	वंशवृक्ष छोटा उदयपुर के खीची चौहान ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१२०
७	रणथंभोर के चौहान. पृ. ३९ से ४३.		३	वंशवृक्ष वारिया के खीची चौहान ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१२५
१	रणथंभोर के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.	४०	४	वंशवृक्ष मांडवा के खीची चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१३०
२	रणथंभोर के चौहानों का वंशवृक्ष व उनका संक्षिप्त इतिहास.	४१	१६	वाव ( गुजरात ) के नाडोला चौहान. पृ. १३३ से १३७.	
८	पूर्विये चौहानों का इतिहास. पृ. ४४ से ४७.		१	वंशवृक्ष वाव के नाडोला चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१३३
१	वंशवृक्ष पूर्विये चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	४४	२	वंशवृक्ष वेणप व सूईगांव के नाडोला चौहान.	१३६
२	वंशवृक्ष नीमराणा के पूर्विया चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	४६	१७	सांचोरा चौहान. पृ. १३८ से १५१.	
९	नाडोल के चौहान. पृ. ४८ से ६०.		१	सांचोरा चौहानों का वंशवृक्ष व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१३९
१	नाडोल के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.	४९		( जिसमें पेटा शांखाएं नं. ५ सहस्रमसोत, पृ. १४०. नं. ५ तेजासोत, पृ. १४१. नं. ५ हिमालोत, पृ. १४२. नं. ६ धीरोत, पृ. १४३. नं. ६ भैरोत, पृ. १४४. नं. ६ लूणावत व मांडणोत, पृ. १४७. और नं. १४ दयालदासोत, पृ. १४९. के वंशवृक्षों व उनके संक्षिप्त इतिहास अंकित है. )	
२	वंशवृक्ष नाडोल के चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	५२	१८	वागडिया चौहान ( वांसवाडा व हुंगरपुर के ) पृ. १५२ से १५७.	
१०	हाडा चौहानों का प्राचीन इतिहास. पृ. ६१ से ६५.	६१	१	वंशवृक्ष वागडिया चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१५३
११	हाडा चौहान बूंदी. पृ. ६६ से ७९.				
१	वंशवृक्ष हाडा चौहान बूंदी ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	६७			
१२	हाडा चौहान कोटा. पृ. ८० से ८८.				
१	वंशवृक्ष हाडा चौहान कोटा ( राजकुल ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	८०			
१३	खीची चौहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य. पृ. ८९ से ९८.				
१	वंशवृक्ष खीचीचौहान ( नागोर पट्टी ) व उनका संक्षिप्त इतिहास.	९४			



प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर
१९	वालीसा चौहान. ( गोडवार व सिरोही के ) पृ. १५८ से १६३. १ वंशवृक्ष वालीसा चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१५८		नं. १३ उदयसिंह, ( पहिले. ) पृ. २३२. व नं. १४ मानसिंह. पृ. २३५. )	
२०	जालोर के सोनगरा चौहान. पृ. १६४ से १७४. १ सोनगरा चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य. २ वंशवृक्ष जालोर के सोनगरा चौहान व उनका संक्षिप्त इतिहास.	१६४ १६६	२८	चलू देवडा चौहान. सिरोही, नं. १५ महाराव सूरताणसिंह. ( सूरताणसिंह से सिरोही छूटना व पुनः प्राप्त होना ) पृ. २४१ से २५०.	२४१
२१	कान्हडदेव प्रबंध. ( जालोर के सोनगरा कान्हडदेव व वीरभद्रदेव की वीरता के विषय में कवि पद्मनाभ ने रचा हुआ काव्य ग्रंथ की समालोचना. ) पृ. १७५ से १८४.	१७५	२९	चलू महाराव सूरताणसिंह. ( वि. सं. १६३१ से वि. सं. १६४० तक की ऐतिहासिक घटना. ) पृ. २५१ से २६१.	२५१
२२	दूसरे सोनगरे चौहान. पृ. १८५ से १९६. १ वंशवृक्ष दूसरे सोनगरे चौहान ( मेवाड व मारवाड के सोनगरे सरदारान. ) व उनका संक्षिप्त इतिहास. २ वंशवृक्ष संजेली ( गुजरात ) के सोनगरा चौहान.	१८८ १९६	३०	चलू महाराव सूरताणसिंह. ( दताणी खेत का महायुद्ध. ) पृ. २६२ से २७१.	२६२
२३	देवडा चौहान शाखा कहलाने का समय. पृ. १९७ से २००.	१९७	३१	चलू महाराव सूरताणसिंह. ( दताणी के युद्ध वाद की ऐतिहासिक घटना ) पृ. २७२ से २८०.	२७२
२४	आबु पहाड पर देवडा चौहानों का कब्जा. पृ. २०१ से २०८.	२०१	३२	चलू सिरोही के देवडा चौहान. पृ. २८१ से २९४. ( जिसमें नं. १६ महाराव रायसिंह दूसरे. पृ. २८१. व नं. १७ अखेराज दूसरे. पृ. २८६. )	२८१
२५	देवडा चौहानों का चंद्रावती में राजस्थान. पृ. २०९ से २१६. १ वंशवृक्ष चंद्रावती के देवडे चौहान व उनका इतिहास. ( जिसमें नं. ४ महाराव लूभा, पृ. २११. नं. ५ सलखा, पृ. २१३. नं. ६ रडमल व नं. ७ शोभा. पृ. २१५. )	२१०	३३	चलू सिरोही के देवडा चौहान ( जिसमें नं. १८ से नं. २३ तक ) पृ. २९५ से ३०८. नं. १८ महाराव उदयसिंह दुसरे व नं. १९ वेरीसाल. नं. २० महाराव छत्रसाल व नं. २० मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह. नं. २१ महाराव पृथ्वीराज व नं. २२ तख्तसिंह. नं. २३ महाराव जगतसिंह व नं. २३ वेरीसाल दुसरे. नं. २३ महाराव उदयभाण.	२९५ २९७ २९९ ३०० ३०४
२६	देवडा चौहान का सिरोही में राजस्थान. पृ. २१७ से २२८. १ चलू वंशवृक्ष देवडा चौहान सिरोही व उनका इतिहास. ( जिसमें नं. ८ महाराव सहसमल, पृ. २१८. नं. ९ लखा, पृ. २२०. नं. १० जगमाल, पृ. २२४. व नं. ११ अखेराज ( उडणा ) पृ. २२६. )	२१७	३४	चलू सिरोही के देवडा चौहान ( जिसमें नं. २३ व नं. २४. ) पृ. ३०९ से ३२१. नं. २३ महाराव शिवसिंह नं. २४ महाराव उम्मेदसिंह.	३०९ ३१७
२७	चलू देवडा चौहान. पृ. २२९ से २३९. ( जिसमें नं. १२ महाराव रायसिंह, पृ. २२९.	२२९	३५	चलू सिरोही के देवडा चौहान नं. २५ महाराव कैसरीसिंह. पृ. ३२२ से ३३७.	३२२
			३६	चलू सिरोही के देवडा चौहान नं. २६ मौजूदा महाराव स्वरूपरामसिंह पृ. ३३८ से ३४४.	३३८
			३७	चौहानों की दूसरी शाखाएं. पृ. ३४५ से ३५१. ( अ ) मोहिल चौहान. ( ब ) और शाखाओं के चौहान.	३४५ ३४९

# चौहान कुल कल्प द्रुम.

विभाग १ ला.

प्रकरण १ ला.

‘ चौहानों की उत्पत्ति व गोत्र ’

चौहान राजपूतों की उत्पत्ति अबू राजमें श्री अचलेश्वरजी महादेव के मन्दिर पास ‘ अनल कुंड ’ से होना दंतकथा, व प्राचीन काव्यों से जाहिर है, वैसे चौहान कुल के बडुए, कुलगुरु, राणोमगा-आदि आश्रितों की पुस्तकों में भी चौहान राजपूतों को अनल वंशी होने का उल्लेख पर्याप्त है, परन्तु चौहानों के बारे में प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें, शिलालेख, ताम्रपत्रादि साहित्य अब और जाहिर होने के बाद चौहानों की उत्पत्ति के विषय में कितनीक शंकाएँ उपस्थित होने लगी हैं.

राजपूतों का प्राचीन इतिहास सिल सिले वार नहीं होने से ऐसी बातों का स्पष्ट निर्णय नहीं होते तर्क से अनुमान किया जाता है, और वैसे अनुमान दूसरी नई हकीकत प्रसिद्ध होने पर तबदील होता है; इसी कारण से कौन २ राजपूत कुल किस २ वंश के हैं और उनके गोत्रादि क्या २ हैं, ऐसी महत्व की बातों का अभी तक निर्णय नहीं हो सका है, उसी तरह ‘ सिरोही राज्य का इतिहास ’ नाम की पुस्तक में चौहानों को अग्नि ( अनल ) वंश का होना मानने में कितनीक\* शंकाएँ बताई गई हैं.

राजपूत लोग अपने कुल, वंश और गोत्रोचार आदि के वास्ते अपने कुलके बडुओं की पुस्तकों में लिखी हुई बातों पर ज्यादाह एतवार रखते हैं. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में चौहान राजपूतों का यजुर्वेद, माध्यंदिनी शाखा, पंच प्रवर, अग्निवर्ण, ब्रह्म गायत्री, अनल वंश, वत्सगोत्र, आशापुरी अम्बिका देवी, वगैरह होना लिखा है. इसी मुआफिक राज पुरोहित व कुल गुरु की पुस्तकों में भी नूँद हैं. ‘ पृथ्वीराज रासा ’ नाम की पुस्तक में चौहानों की उत्पत्ति अनल कुंड में से होने का लिखा गया है, परन्तु ‘ पृथ्वीराज रासा ’ नामक पुस्तक चंद कवि के नाम से वि. सं. १६०० के बाद किसी कविने रची है, ऐसा इतिहास वेत्ताओं का अनुमान है, और साथ यह भी अनुमान किया

\* इस शंका के कारण के वास्ते ‘ सिरोही राज्य का इतिहास ’ नामक हिन्दी पुस्तक जो रा. व. पंडित गौरीशंकर ओझा ने रची है उसका पृष्ठ १९८ से १६१ तक देखो.

जाता है कि पृथ्वीराज रासा में चौहानों को अग्नि वंश होना लिखने से ही बडुए आदि राज्य आश्रितों ने यह हकीकत पीछेसे अपनी पुस्तक में दर्ज की है.

बडुओं की पुस्तके कितने दर्जे सही है इस बाबत सिरोही के देवडा चौहानों का बडुआ लछमनसिंह की पुस्तक पूरे तौर से जाच करने से मालूम हुआ है कि जालोर के सोनगरा राव समरसिंह के पुत्र माणीजी उर्फ मानसिंह था, जो विक्रम संवत् की तेरहवीं सदी में विद्यमान था, उनसे लगाकर आज दिन तक उनकी औलाद वालों के नाम शृंखला बद्ध सिल सिले वार पुस्तक में दर्ज हुए हैं और उसमें से उनके मुताल्लिक जो नामावली उपलब्ध हुई है वैसी नामावली प्राप्त करनेकी सामग्री या साहित्य किसी इतिहास वेत्ताओं के पास हरगिज नहीं मिलेगा. तात्पर्य यह है कि अगर 'पृथ्वीराज रासा' नामकी पुस्तक वि. सं. १६०० के आसपास में लिखी गई है तब भी उसके पेशतर दोसौ तीनसौ वर्षों पहिले का हाल बडुओं की पुस्तक में सिल सिले वार अंकित मिला है, इसी से पाया जाता है कि वि. संवत् की तेरहवीं सदी पेशतर भी चौहानों को 'अनल वंश' के होने का बडुओं की पुस्तक में उल्लेख है, ऐसी हालतमें 'पृथ्वीराज रासा' पर से ही अनल वंश के होने की बात मशहूर हुई है ऐसा मानना उचित नहीं हो सकता.

देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में चौहानों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि आद्य पुरुष 'चाहराजा' त्रेता युग में अर्बुद पहाड के अनल कुंड से उत्पन्न हुआ था. जिसके वास्ते निम्न लिखित गीत लिखा हुआ है.

“ अनल कुंड से उपन्या, अर शर फेरी आण, आवू से एवाडगढ चाह बसे चौहान. ”

इसी प्रकार सिरोही के राज पुरोहित की पुस्तक में चौहानों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि—“ श्रीभगवान् ने चार डाभके ( दर्भके ) पुतले ब्रह्माजी को दिये जो लेकर ब्रह्माजी आवू पर गये और होम करने लगे. अनल कुंड के जल में पहिला पुतला डाला, जिससे चार भुजा वाला, चार नेत्र वाला, चाहमान पैदा हुआ. बाकी तीन पुतलों से चालुक्य, पडिहार तथा परमार पैदा हुए. ” इस विषय के समर्थन में जो गीत उनकी पुस्तकसे उपलब्ध हुआ है वह यह है कि—

“ अनल कुंड से उत्पन्न ऋषि ब्रह्मा उपाई, जिण पछे जै लंब खत्री चहुआण कहाई. ”

चौहानों की उत्पत्ति के विषय में गत सौ वर्षों में जो जो साहित्य प्रसिद्ध हुए हैं उनमें एक दूसरे के विरुद्ध हकीकत पाई गई है यानी—

१. टोंड राज स्थान में चौहानों का सामवेद, सोमवंश, माध्यंदिनी शाखा, पंच प्रवर आदि अंकित हैं.

२. आबू पर वि. सं. १३७७ का शिला लेख जो सिरोही राज्य स्थापन करने वाले महाराव लूभा के समय का है उसमें लिखा है कि—“ पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र वंश अस्त हो गये तो वत्स ऋषि ने दोष के भय से ध्यान किया. वत्स के ध्यान से चंद्रमा के योग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने चौतरफा दैत्यों को देखा और उनको अपने शस्त्र से मार कर वत्स को संतुष्ट किया. ” यह पुरुष चंद्र के योग से उत्पन्न होने के कारण ‘ चंद्रवंशी ’ कहलाया.
३. चौहानों के वास्ते प्राचीन साहित्य में सब से प्राचीन ग्रंथ ‘पृथ्वीराज विजय’ नामक है. जो ‘ पृथ्वीराज चौहान ’ के राज्य काल में लिखा जाना स्वीकार किया जाता है. उस ग्रंथ में चौहान राजपूतों को ‘ सूर्यवंशी ’ होनेका स्पष्ट उल्लेख है.
४. उपर्युक्त ग्रंथ होने के पेशतर विजोलिया का शिलालेख वि. संवत् १२२६ में लिखा गया है, उसमें चौहानों के वंश के वास्ते उल्लेख नहीं है, परन्तु ‘वत्सगोत्र’ होना लिखा है.
५. बाद में वि. संवत् १३२६ में सुंधा पहाड का शिलालेख लिखा गया जिसमें भी वंश के लिये जिक्र नहीं है मगर ‘वत्स गोत्र’ होना लिखा है.
६. उपर्युक्त शिलालेख के बाद ‘हमीर महा काव्य’ नामक ग्रंथ लिखा गया. जो वि. सं. १४६० के आसपास में लिखा जाने का अनुमान किया जाता है. उसमें चौहानोंकी उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि ब्रह्माजी यज्ञ करने के वास्ते पवित्र भूमि की शोध कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से कमल गिर गया. वह पवित्र भूमि ‘पुष्कर’ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई. उसी स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किया परन्तु दैत्यों के भय से यज्ञ रक्षा के वास्ते उन्होंने सूर्य का ध्यान किया, जिस पर सूर्यमंडल से दिव्य पुरुष उतर आया उसने यज्ञ की रक्षा की वह पुरुष चाहमान कहलाया. और ब्रह्माजी की कृपा से महाराजा बन कर राजाओं पर राज करने लगा.”
७. ‘कान्हडदे प्रबंध’ नामकी पुस्तक जो वि सं. १५४५ में लिखी गई है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी होना लिखा गया है.
८. ‘वंशभास्कर’ नामक पुस्तक जो विक्रम संवत् की १९ वीं सदी में हाडा चौहानों के यश गान के वास्ते बनाई है, उसमें चौहान राजपूतोंका सूर्यवंशी होना साफ जाहिर है.

उपरोक्त साधनोंसे पाया जाता है कि आबूराज का शिलालेख जो वि. सं १३७७ में लिखा गया है, उसमें चौहानों को चंद्रवंशी होना वगैर आधार के लिखा गया है और उसी पर से टॉड राजस्थान में चौहानों को सोमवंशी होनेका उल्लेख किया गया है.

वस्तुतः पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, कान्हदे प्रबंध, व वंशभास्कर को पुस्तकें जो खास चौहान वंशके राजाओं को यशोगान के वास्ते रची है, उस पर आधार नहीं रखते आवूका शिलालेख जो पीछे से लिखा गया है, उस पर ज्यादाह बजन रखना उचित नहि है, क्यों कि सूर्य के बदके ' चंद्र ' लिख देनेकी भूल भी हुई हो. चौहानो को अनल वंशी होने का जो कहा जाता है, उसका कारण यह भी होना संभवित है कि बहूतसे राजपुत जो रघुवंशी है वह ' सूर्यवंशी ' कहलाते हैं. और सूर्य का वर्ण अनल जैसा होने से चौहानों की उत्पत्ति रघुवंशी ( भानुकुल ) में से नहीं होते, सूर्य मंडल से चाहमान उतरा था जिससे से सूर्य को ' अनल ' का अलंकार देकर ' अनल वंशी ' होना भाटों ने लिखा हो ऐसा पाया जाता है.

चौहानों का गोत्र ' वत्सगोत्र ' होना जगह जगह लिखा गया है जिससे उसके लिए कोइ शंका नहीं है.

## प्रकरण २ रा.

### ‘ चौहानों के प्राचीन राजस्थान, ’

चौहान राजपूतों का मूल पुरुष ‘ चाहमान ’ होना इतिहास वेत्ताओं ने भी स्वीकार किया है, परन्तु उनका राज्य कहां था और जब से सांभर में राज्य कायम हुआ उसके पहिले कहां २ राज्य किया उसका किसी इतिहास में वर्णन नहीं है. जो जो शिलालेख व ताम्रपत्र प्रसिद्ध हैं, उन्हीं में सांभर राजस्थान होने बाद का हाल लिखा हुआ है. ‘ हर्ष ’ का लेख जो सब से प्राचीन ( वि. सं. १०२६ का ) है, उसमें शुरूमें सांभर के ‘ गूवक ’ नामके पुरुष का नाम अंकित हुआ है. बाद में विजोलिया के वि. सं. १२२६ के शिलालेख में ‘ सामन्त ’ नामक पुरुष से हाल शुरू होता है, उससे सातवीं पुस्त पर ‘ गूवक ’ का नाम आता है. नाडोल के वि. सं. १२१८ के ताम्रपत्र व सुंधा पड़ाव के वि. सं. १३१६ के शिलालेख में नाडोल के ‘ लाखणसी ’ से इतिहास शुरू होता है.

उपर्युक्त शिलालेखादि साहित्यों के सिव य जो प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, उन्हीं में—

१. ‘ पृथ्वीराज विजय ’ जो वि. सं. १२२४ से १२५६ के दरमियान में लिखा जाना अनुमान सिद्ध है, उस पुस्तक में ‘ चाहमान ’ को मूल पुरुष बता कर उससे तीसरी पुस्त पर ‘ सामन्तराज ’ का नाम बताया है, जो विजोलिया के लेख में पहिला नाम है, इसी सामन्तराज ने सांभर में राज्य कायम किया वैसा उल्लेख करने में आया है.
२. ‘ प्रबंधकोष ’ नामक ग्रंथ वि. सं. की पंद्रहवीं सदी में लिखा जाना अनुमान प्राप्त है, उसमें ‘ वासुदेव ’ के नाम से शुरूआत होती है, जिसको ‘ पृथ्वीराज विजय ’ में ‘ चाहमान ’ के बाद में होना लिखा है।
३. ‘ हमीर महा काव्य ’ यह पुस्तक भी पंद्रहवीं सदी का होना स्वीकार किया गया है, जिसमें मूल पुरुष ‘ चाहमान ’ से इतिहास लिखा है, परन्तु उनका राज्य कहां था उसका जिकर नहीं है.
४. ‘ कान्हडदेव प्रबंध ’ वि. सं. १५४५ में लिखा गया है, उसमें पहिले के राजाओं का इतिहास नहीं लिखा है.
५. ‘ सूर्जन चरित्र ’ यह पुस्तक वि० सं० की सतरहवीं सदी में हाडा चौहानों के यरगान में लिखी गई है, उसमें ‘ वासुदेव ’ के नाम से शुरूआत होती है. इस

वासुदेव का राज्य ' वृंदावती ' में होना लिखा है. बादमें उससे तीसरी पुत्र पर अजयपाल हुआ जिसने अजमेर बसाया ऐसा उल्लेख किया है.

६. 'भूतानेणसी की ख्यात' इस नामकी पुस्तक वि० सं० १७२१ पहिले लिखी गई मालूम होती है, उसमें नाडोल के राव 'लाखणसी' से इतिहास शुरू होता है.
७. 'वंश भास्कर' यह ग्रंथ वि. सं. की उन्नीसवीं सदी में लिखा गया है. इसमें मूल पुरुष 'चाहमान' से इतिहास शुरू होता है और उससे ३८ वीं पुत्र पर 'सहदेव' हुआ, जिसका राज 'इंद्रप्रस्थ' में था, उसके बाद ५० वीं पुत्र पर 'अजयपाल' हुआ जिसने 'अजमेर बसाया. ९५ वीं पुत्र पर 'महानंद' हुआ जिसका राज 'कर्णाटक' में था. बाद ११० वीं पुत्र पर 'माणकराज' हुआ, उसके बड़े पुत्र 'हनुमान' का राज्य 'पाटली पुत्र' में और छोटे 'सुग्रीव' का राज्य 'सांभर' में हुआ.
८. 'टॉड राज स्थान' में वि. सं. ८१३ में भडौंच (गुजरात) में चौहान 'भर्तृवृद्ध'(दूसरे) नामक राजा होने का उस समय के ताम्र पत्रसे पाया गया है, बल्कि 'सिरोही राज्य का इतिहास' नामक पुस्तक में सांभर में चौहान राजा 'गूवक' होनेका उल्लेख करने में आया है.

चौहानों का प्राचीन राज्य का कुछभी इतिहास मिल सके ऐसे साहित्यों पर अब तक इतिहास वेत्ताओंकी संपूर्ण दृष्टि न होते उन साहित्योंको शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है. वे साहित्य, जैसा कि बडुओं के व कुलगुरु आदिकों के चौपडे, प्राचीन कवियों के गीत-कवित्त, काव्य, और प्रशंसा युक्त हस्त लिखित गद्य के पुस्तकों वगैरह है. उससे क्या २ उलभ्य है वह देखना अनुचित न होगा, क्यों कि प्राचीन शिलालेख व हस्त लिखित पुस्तकों में भूतकाल के जो जो हाल अंकित हुए हैं उनकी बुनियाद भी दंत कथा, गीत-कवित्त, और ऐसेही प्रशंसा के वास्ते समयानुसार रचे हुए काव्य आदि हैं. और जब कि पूर्व काल में श्रृंखला वद्ध इतिहास लिखने की प्रणाली ही नहीं थी तब यही साहित्य इतिहास के वास्ते काम में लिये जाते थे, इस कारण ऐसे साहित्यों को भी विचार में लेना आवश्यक है.

देवडा चौहानों के वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि चाहमान या चाह राजा नामक पुरुष अनल कुंड से पैदा हुआ, इसने ऋषियों का यज्ञ संपूर्ण कराकर पूर्व में 'एवाड गढ' में अपना राज्य स्थापित किया. इस विषय में निशाणी है कि:-

“ अनल कुंड में उपन्या अरशर फेरो आण, आवू तें 'एवाड गढ' चाह वसे चौहाण.

× कवि लोक वार्तालाप में जो प्राचीन गीत, कवित्त मुख पाठ रखकर बोलते हैं उनको 'निशाणी' कहते हैं.

चाहमान से ३१ वीं पुस्त पर ' सोनपाल ' नामक राजा हुआ, उसने ' एडाणा गढ ' जो पूर्व में है, वहाँ अपना राज्य स्थापन किया. सोनपाल राजा महान् वीर पुरुष था. उसका प्रताप अचल था. कहा जाता है कि उसके समय में मृगों के कानों में सुवर्णकुंडल पहिनाए गये थे, उनके हाथ लगाने की भी किसी की शक्ति न थी. जिसके वास्ते कवि ने निशाणी कही है कि:—

“ सोनपाल गतिया पूरक कनक वाडला कुरग, एडाणे चहुआणिये करी अडगल बात अडग. ”

चाहमान से ६१ वीं पुस्त पर ' यज्ञ पाल ' राजा एडाणा गढ में हुआ, जिसने सात यज्ञ किए. उसके बाद बीस पुस्त गुजरने पर ८१ वां राजा अजयपाल हुआ, जिसने अजमेर बसाया. यह चक्रवर्ती होना गिना गया है. इसके समय में लंका में रावण राजा था. रावण के साथ कई बार युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने से यह चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में दाखिल हुआ, लेकिन इसकी वृद्धावस्था में रावण ने इस पर विजय प्राप्त की थी. इनको चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में रखने के विषय में निशाणी है कि:—

“बडो वेन पडिहार जण कर काहुपर नहीं लियो, बलबेहरी चकवे बसो वामन को दियो”

“धंधुमार चकवे हुआ रघुवंश नरंदा, ' अजेपाल ' चकवे तास मुंगी समुंदा.”

“परु पवार चकवे तण सूरज संकवे, एते उगे आथमें कियो राज मान्धाता चकवे.”

अजमेर बसाने बाद चाहमान से १२० वीं पुस्त पर ' बनेपाल ' राजा अजमेर में हुआ, उस समय ' त्रेतायुग ' का अंतिम काल था. उनका पुत्र ' योगराज ' गद्दी नशीन होते ही ' द्वापरयुग ' शुरू हुआ था. योगराज से बारहवीं पुस्त पर ' चतुराजा ' हुआ, जिसकी गिनती बारहों बाणावलो की पंक्ति में हुई थी. जिसके विषय में निशाणी है कि:—

“बाणासूर, दशरथ भडां सुख राम भणिजे; टपरा तुर दासने करण भरत गणिजे.”

“लछमन लव ने कुश बडा धनु पति बखाणा; 'चत' अर्जुन ने घटु जग में एत्ता जाणा.”

“बचन ज्ञान कथीओ बलेअभंग ज्योत अवला वली; नारायणने वंदिया बारे राजा बाणावली.”

चाहमान से २०७ वीं पुस्तपर + ' वसुदेव ' हुआ. उसका राज्य कहाँ था यह नूंद नहीं है. यह राजा द्वापर युग के अन्त समय में हुआ. वंशभास्कर के ग्रंथ में यह श्रीकृष्ण भगवान् से मोक्ष गति हुआ ऐसा लिखा गया है. इनके बाद ' नरदेव ' हुआ और उससे १० सोलहवीं पुस्त बाद ( चाहमान से २२४ वीं पुस्तपर ) पंड राजा हुआ. पंड राजा की

+ देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में चाहमान से ८६ वीं पुस्तपर 'सहदेव' नामक राजा होना लिखा है, जो वंशभास्कर के ग्रंथ में ३८ वीं पुस्तपर बताया है. इस 'सहदेव' का राज्य 'इन्द्रप्रस्थ' में था. जब कि 'भिष्मपितामह' के पिता शान्तनु राजा ने दिग्विजय किया तब सहदेव से इन्द्रप्रस्थ ले लिया, जिससे सहदेव के वंशजोंने 'पोण्ड' व कर्णाटक में अपना राज्य स्थापन किया.

\* सोलह पुस्त होना ठीक पाया नहीं जाता, क्योंकि कि द्वापर युग समाप्त होने बाद विक्रमादित्य के समय तक में करीब तीन हजार वरस का अन्तर है.



राणी सूरजकुंवर गढ वैराट के गेहलोत राजा रूपसिंह की पुत्री थी जिससे पुत्र जामनी-भाण व पुत्री 'जेलणदे' हुई. जेलणदे का लग्न उज्जैन के परमार वीर वीरमादित्य से हुआ था. पंड राजा का राज्य पूर्व में 'पंढरपुर' में था, लेकिन उनके पुत्र जामनीभाण ने अजमेर हस्तगत कर वहाँ अपना राज्य स्थापन किया. उससे चार पुत्र होने पर 'बागराज' हुआ, जिसके हाथ से अजमेर चला गया, जिससे उसने पूर्व में 'त्रिलोरगढ' में वि. सं. ३०५ में राज्य कायम किया.

चाहमान से ३३३ वीं पुत्र पर 'समरसो' हुआ, जिसने रावराजा का पद प्राप्त किया और वि. सं. ५६५ में सांभर-गढ में अपना राज्य स्थापन किया. ( इसी का नाम सामन्त-सिंह होना दूसरे ग्रन्थों से पाया जाता है ).

'पूर्विया चौहानों का इतिहास' के विषयमें इलाहिदा प्रकरणमें अहवाल अंकित हुआ है उससे मालूम होगा कि-चौहानों में प्राचीन समयमें 'रिषिराज' कहलाते राजाओंने 'जगत नगर' में राज किया, बाद में 'सदापाल' हुआ उसने अपना शिर काट कर कमल पूजा की थी. इसी कुल में 'ध्वजपाल' हुआ जिसने 'सहमाला' नगर में सवा क्रोड दाम खर्च करके केदारनाथ को ध्वजा चढाई. इससे कितनीक पुत्र पर 'गंगपाल' हुआ उसने काश्मीर में तीन क्रोड दाम खर्च कर तलाव बंधाया. इसी कुल में 'मलपाल' हुआ जिसने गढ टंकारी में 'भान' मन्दिर बनाया. उससे कितनीक पुत्र बाद अजेपाल हुआ जिसने राजा रावण के पास खिराज ली थी.

इसी कुल में 'दुर्गपाल' हुआ इसने 'सैभाल' नगर में राज किया. बाद टंकपाल नाम का राजा ने टंकारी में राज किया. इससे कितनीक पुत्र पर वज्रदित हुआ जिसका राज्य गोदावरी पर था. और इन के बाद के राजाओं ने मद्रनगर, मांडलपुर, गढ गागरुन, अमरपुरी, हरिगढ आदि स्थानों में राज किये. बाद कलीयुग का प्रारंभ हुआ. कलीयुग में ११४ पुत्र गुजरने पर वि. सं. ७०३ में सांभर में 'भाणकराव' नाम का राजा था.



देवडा चौहान का बडुआ लक्ष्मणसिंह व उसके दो पुत्र.



बडुआ लक्ष्मणसिंह व उसके दो पुत्र.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ९ ]

## प्रकरण ३ रा.

### चौहानों की प्राचीन शाखाएँ,

चौहान राजपूतों की दश शाखाएँ सांभर से और चौबीस शाखाएँ नाडोल से इलाहिदी होना दंतकथा व भाटों के पुस्तक से पाया जाता है। राजपूतों में मुख्यतः गाम के नाम से अथवा अपने खानदान के नामी पुरुष के नाम से शाखाएँ प्रसिद्ध होने का प्रचार है। आज कल चौहानादि राजपूतों में इतनी शाखाएँ विद्यमान हो गई हैं कि उनकी प्राचीन शाखाएँ कौनसी थीं यह मालूम होना मुश्किल है। ऐसी शाखाएँ प्रायः अपने खानदान में बुजुर्ग पुरुष के नाम से कही जाती हैं, जिसके नाम के पीछे 'ओत' या 'वत' ( यानी अमुक पुरुष की ओलाद. ) लगाया जाता है।

चौहान व दूसरे सब राजपूतों में एक कुल के वंशज हों, वे सब 'भाई बन्धु' गिने जाते हैं। जिससे एक ही कुल में परस्पर लग्न होने का निषेध है। कौन २ अपने भाई बन्धु हैं यह अपने २ भाटों के चौपडे से मालूम हो सकता है। शाखाओं के वास्ते सिवाय बडुओं की पुस्तक के अन्य साधन कहीं भी प्राप्त होना मुश्किल है। अगर बडुओं से अपना कुल का व शाखाओं का हाल अंकित कराने का प्रचार न होता तो गोत्रादिक की तसदीक होने में जरूर झगडा रहता। ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करने वालों को बडुओं के चौपडे की कदर नहीं है, लेकिन समाज अपने २ बडुओं की तरफ बहुमान की दृष्टि से देख रही है। वह अपने खानदान का सम्पूर्ण और सच्चा इतिहास उनके चौपडे में होना स्वीकृत करती है, बल्कि न्याय व हकदारी के कार्य में उन पर विश्वास रखने का प्रचार है।

चौहानों की दश शाखाएँ सांभर से अलग होने का कहा जाता है, वे दश शाखाएँ दर असल कौन २ हैं ? यह विवाद ग्रस्त बात है। इनके विषय में जो इतिहास प्राप्त हुआ है उसमें सांभर से निकली हुई शाखाओं में १ सांभरिया चौहान, २ मांहील चौहान, ३ पूर्विया चौहान, ४ भदोरिया चौहान, ५ पंजाबी चौहान, ६ मामा चौहान, ७ चांदाणा चौहान, ८ बगडावत व ९ नाडोल के चौहान होना पाया जाता है।

सांभर से अलग हुई दश शाखाओं की वंशभास्कर, बडुआ की पुस्तक व सिरोही के राज पुरोहित की पुस्तक में नुंद है, परन्तु इन पुस्तकों से उपलब्ध होती शाखाओं के नामों में तफावत है। उनमें +मुल पुरुष का नाम 'माणकराज' होना अंकित हुआ है। लेकिन जो इतिहास प्रसिद्ध है उसमें सांभर में 'माणकराज' नाम का राजा होने का दाखला ही नहीं है। माणकराज का समय वि. सं. की आठवीं सदी का होना देवडा चौहानों के

+ पूर्विया चौहानों के इतिहास में 'लाखणसी' से चौबीस शाखाएँ होने का लिखा गया है।

वहुआ की पुस्तक से मालूम होता है. बाद में इनके पुत्रों से जो जो शाखाएं हुई, वे नीचे मुआफिक है.

१ वंश भास्कर मुआफिक.		२ देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से.		३ राज पुरोहित के वहां की राजावली से.	
नाम पुत्र	नाम शाखा	नाम पुत्र	नाम शाखा	नाम पुत्र	नाम शाखा
१ मूककर्मा	१ पूर्विया	१ जोतराय	१ मामा	१ राव जोत	१ मामा
२ लालसिंह	२ सांभरिया	२ जेवराय	२ सांभरिया	२ जेराव	शाखा नहीं लिखी-(सांभर)
३ हरिसिंह	३ बुंधेडिया		३ पूर्विया	३ चांदराव	२ बगडावत
४ शार्दूलसिंह	४ पंजाबी	३ चांदराय	४ बगडावत	४ भदोराय	३ भदोरिया
	५ टंकरा	४ भदोराव	५ भदारिया	५ राव नरो	४ नरवाण
५ पूर्णराज	६ भेदोदीडा	५ नरोराय	६ नरवाण	६ राव घाग	५ खीची
६ मात्तिक राज	७ सोनगरा	६ पवोराय	७ पावेचा	७ राव अष्टपाल	६ हाडा
७ निर्वाण	८ नीरवाण	७ चाहलराय	८ चाहलिया	८ राव पवो	७ पूर्विया
	९ देवडा	८ हमीर राय	९ खीची	९ राव सोल	ओलाद दर्ज नहीं की
८ कृष्णराज	१० पंडिया	९ चांदराय	१० चांदाणा	१० राव मोहील	
९ लखमणराज	११ गुजराती	१० मोहीलराय	११ ओलाद नहीं		
१० प्रघाल	१२ बगसरोआ				

नोट-नं. १-२-४-६-७-१०-११-१२ यह शाखाएं राजस्थान के नाम से मशहूर हुई हैं.

नोट-नं. २-३-५-७ यह शाखाएं राजस्थान के नाम से मशहूर हैं.

नोट-नं. ३-७ की शाखाएं राजस्थान के नाम से मशहूर हुई हैं.

उपर्युक्त शाखाओं के चौहान वर्तमान समय में कहां २ विद्यमान हैं, उस बावत बहुआ की पुस्तक में ज्यादा खुलासा है. इन शाखाओं में सोनगरा, नरवाण, देवडा, खीची, पावेचा व हाडा शाखा के चौहान सांभर के शाखा से इलाहिदा न होते नाडोल की शाखा में से अलग होनेका ऐतिहासिक साहित्यों से सिद्ध हुआ है, जिसका वृत्तान्त नाडोल की शाखाओं में लिखा गया है. बाकी रही शाखाओं के वास्ते यह मालूम हुआ है कि-

१ मामा चौहान-इनका युद्ध में नाश हुआ, जो वर्तमान समय में भी जगह २ मामा देव के नाम से पूजे जाते हैं.

२ सांभरिया चौहान-की ओलाद में ' महान् पृथ्वीराज ' हुआ, जिसकी ओलाद में

नोट-नरवाण चौहानों के वास्ते कहा जाता है कि वह देवडे चौहानों में से निकले हुए हैं. वर्तमान समय में देवडे चौहानों का स्थान सिरोही राज्य है, परन्तु जिस शाखामें से नरवाण चौहान निकले का कहा जाता है वह देवडा शाखा सिरोही के देवडों की शाखा से भिन्न थी. नर व.ण देवडों की शाखा नाडोल से अलग हुई या सांभर से इस विषय में देवडा चौहानों का प्रकरण में उल्लेख किया गया है.

पंजाबी चौहान की शाखा का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, पाया जाता है कि पूर्विया चौहानों की शाखा वालोंने पंजाब में निवास करने से ' पंजाबी ' कहलाये है.

रणथंभौर का 'हमीर हठीला' हुआ, और उनकी ओलाद वाले वर्तमान समय में मेवाड के प्रदेश में 'वेदला, कोठारिया व पारसोली' के सांभरिये चौहान हैं. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज का एक भाई 'काकस कुमार' युद्ध में कैद हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपनी बेटी बिहा कर उनको मुसलमान किया. उनकी ओलाद वाले 'कायमखानी' कहलाये. उन लोगों की जागीरें वर्तमान समय में फतहपुर, फतियाबाद व जुजाणा में हैं.

- ३ पूर्विये चौहान-पृथ्वीराज का काका कान्ह की ओलाद वाले हैं, जिसके वंशज इटावा, मकराणा, नीमराणा आदि स्थान में हैं, वैसे मालवे में भी कडोदिया, नामली व पंचड आदि जगह पूर्विये चौहान विद्यमान हैं.
- ४ बगडावत चौहान-चांदराव से पांचवीं पुत्र पर 'बागराव' हुआ, उसके नामसे मशहूर हुए. देवडा चौहान के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि बागराव से चौबीस 'बगडावत' हुए थे. उनका स्थान राणभणार्ड (अजमेर के पास) था. वे सब 'गोथा' नामक गाँव में आपस में लडकर मारे गये. वर्तमान समय में मालवे में 'सैधिये' नामक लडायक जात मशहूर है, वे बगडावत चौहानों की ओलाद वाले हैं.
- ५ भदोरिया चौहानों के वास्ते एक मत ऐसा है कि वह पूर्विया चौहानों में से निकले हुए हैं, लेकिन बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि माणकराव का पुत्र 'भदोराय' ने अपने नाम से 'भदोर' बसाया, जिससे 'भदोरिया चौहान' कहलाये. वर्तमान समय में 'मैनपुरी' (महदपुरी) के चौहान उनमें मुख्य हैं. मैनपुरी के चौहानों का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह २ बिखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूर्विये चौहान' होना बताते हैं. मालवे में लालगढ, रामगढ व बरडा आदि स्थान में मैनपुरी की शाखा के चौहान हैं. पूर्विया चौहानों की ख्यात से 'भदोरिया' शाखा भिन्न होना पाया गया है. पाया जाता है कि वे पूर्व से आने के कारण पूर्विये चौहान कहलाते हैं.
- ६ चाहलिया, धुंधेडिया व बगसरिया चौहान कहां है उसका पता नहि चला है.
- ७ चांदाणा चौहानों के विषय में इतना ही मालूम हुआ है कि मेवाड में गुडा (भूतेला) नामक गाँव में भीमजी चांदाणा नामक चौहान था. जिसकी पुत्री का विवाह महाराणा लक्ष्मणसिंह का पाटवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिससे महाराणा हमीर का जन्म हुआ था.
- ८ मोहील चौहानों के विषय में उनकी ओलाद न होना उपर्युक्त प्रमाणों में लिखा है, परन्तु 'मूतानेणसी की ख्यात' व 'कान्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि मोहील चौहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर-द्रोणपुर' व बाहडमेर में था. जिनका प्रदेश राठौड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. वर्तमान समय में मोहील चौहानों की जागीरें कहां है वह मालूम नहि हुआ है.

बहुआ की पुस्तक से मालूम होता है. बाद में इनके पुत्रों से जो जो शाखाएं हुई, वे नीचे मुआफिक है.

१ वंश भास्कर मुआफिक.		२ देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से.		३ राज पुरोहित के वहां की राजावली से.	
नाम पुत्र	नाम शाखा	नाम पुत्र	नाम शाखा	नाम पुत्र	नाम शाखा
१ मूहकर्मा .....	१ पूर्विया	१ जोतराय .....	१ मामा	१ राव जीत .....	१ मामा
२ लालसिंह .....	२ मात्रेचा	२ जेन्नराय .....	२ सांभरिया	२ जेराव .....	शाखा नहीं लिखी-(सांभर)
३ हरिसिंह .....	३ धुंधेडिया		३ पूर्विया	३ चांदराव .....	२ बगडावत
४ शार्दूलसिंह .....	४ पंजावी	३ चांदराय .....	४ बगडावत	४ भदोराय .....	३ भदोरिया
	५ टंकरा	४ भदोराव .....	५ भदारिया	५ राव नरो .....	४ नरवाण
५ पूर्णराज .....	६ भेदोदीडा	५ नरोराय .....	६ नरवाण	६ राव घाग .....	५ खीची
६ साक्तिक राज.....	७ सोनगरा	६ पधोराय .....	७ पावेचा	७ राव अटपाल.....	६ हाडा
७ निर्घाण .....	८ नीरवाण	७ चाहलराय .....	८ चाहलिया	८ राव पधो .....	७ पूर्विया
	९ देषडा	८ हमीर राय .....	९ खीची	९ राव साल .....	ओलाद दर्ज नहीं की
८ छुष्णराज .....	१० पंडिया	९ चांदराय .....	१० चांदाणा	१० राव मोहील.....	
९ लखमणराज .....	११ गुजराती	१० मोहीलराय .....	११ ओलाद नहीं		
१० प्रवाल .....	१२ बगसरोआ				

नोट-नं. १-२-४-६-७-१०-११-१२ यह शाखाएं राजस्थान के नाम से मशहूर हुई हैं.

नोट-नं. २-३-५-७ यह शाखाएं राजस्थान के नामसे मशहूर हैं.

नोट-नं. ३-७ की शाखाएं राजस्थान के नाम से मशहूर हुई हैं.

उपर्युक्त शाखाओं के चौहान वर्तमान समय में कहां २ विद्यमान हैं, उस बाबत बहुआ की पुस्तक में ज्यादा खुलासा है. इन शाखाओं में सोनगरा, नरवाण, देवडा, खीची, पावेचा व हाडा शाखा के चौहान सांभर के शाखा से इलाहिदा न हों नाडोल की शाखा में से अलग होनेका ऐतिहासिक साहित्यों से सिद्ध हुआ है, जिसका वृत्तांत नाडोल की शाखाओं में लिखा गया है. बाकी रही शाखाओं के वास्ते यह मालूम हुआ है कि-

१ मामा चौहान-इनका युद्ध में नाश हुआ, जो वर्तमान समय में भी जगह २ मामा देव के नाम से पूजे जाते हैं.

२ सांभरिया चौहान-की ओलाद में ' महान् पृथ्वीराज ' हुआ, जिसकी ओलाद में

नोट-नरवाण चौहानों के वास्ते कहा जाता है कि वह देवडे चौहानों में से निकले हुए हैं. वर्तमान समय में देवडे चौहानों का स्थान सिरोही राज्य है, परन्तु जिस शाखामें से नरवाण चौहाण निकलने का कहा जाता है वह देवडा शाखा सिरोही के देवडों की शाखा से भिन्न थी. नर वाण देवडों की शाखा नाडोल से अलग हुई या सांभरे से इस विषय में देवडा चौहानों का प्रकरण में उल्लेख किया गया है.

पंजावी चौहान की शाखा का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, पाया जाता है कि पूर्विया चौहानों की शाखा वालोंने पंजाब में निवास करने से ' पंजावी ' कहलाये है.

रणथंभौर का 'हमीर हठीला' हुआ, और उनकी ओलाद वाले वर्तमान समय में मेवाड के प्रदेश में 'बेदला, कोठारिया व पारसोली' के सांभरिये चौहान हैं. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज का एक भाई 'काकस कुमार' युद्ध में कैद हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपनी बेटी बिहा कर उनको मुसलमान किया. उनकी ओलाद वाले 'कायमखानी' कहलाये. उन लोगों की जागीरें वर्तमान समय में फतहपुर, फतियाबाद व जुजाणा में हैं.

- ३ पूर्विये चौहान-पृथ्वीराज का काका कान्ह की ओलाद वाले हैं, जिसके वंशज इटावा, मकराणा, नीमराणा आदि स्थान में हैं, वैसे मालवे में भी कडोदिया, नामली व पंचड आदि जगह पूर्विये चौहान विद्यमान हैं.
- ४ बगडावत चौहान-चांदराव से पांचवीं पुत्र पर 'बागराव' हुआ, उसके नामसे मशहूर हुए. देवडा चौहान के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि बागराव से चौबीस 'बगडावत' हुए थे. उनका स्थान राणभणार्ई (अजमेर के पास) था. वे सब 'गोथा' नामक गाँव में आपस में लडकर मारे गये. वर्तमान समय में मालवे में 'सैधिये' नामक लडाक जात मशहूर है, वे बगडावत चौहानोंकी ओलाद वाले हैं.
- ५ भदोरिया चौहानों के वास्ते एक मत ऐसा है कि वह पूर्विया चौहानों में से निकले हुए हैं, लेकिन बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि माणकराव का पुत्र 'भदोराय' ने अपने नाम से 'भदोर' बसाया, जिससे 'भदोरिया चौहान' कहलाये. वर्तमान समय में 'मैनपुरी' (महदपुरी) के चौहान उनमें मुख्य हैं. मैनपुरी के चौहानों का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह २ बिखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूर्विये चौहान' होना बताते हैं. मालवे में लालगढ, रामगढ व बरडा आदि स्थान में मैनपुरी की शाखा के चौहान हैं. पूर्विया चौहानों की ख्यात से 'भदोरिया' शाखा भिन्न होना पाया गया है. पाया जाता है कि वे पूर्व से आने के कारण पूर्विये चौहान कहलाते हैं.
- ६ चाहलिया, धुंधेडिया व बगसरिया चौहान कहां है उसका पता नहि चला है.
- ७ चांदाणा चौहानों के विषय में इतना ही मालूम हुआ है कि मेवाड में गुडा (भूतेला) नामक गाँव में भीमजी चांदाणा नामक चौहान था. जिसकी पुत्री का विवाह महाराणा लक्ष्मणसिंह का पाटवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिससे महाराणा हमीर का जन्म हुआ था.
- ८ मोहील चौहानों के विषय में उनकी ओलाद न होना उपर्युक्त प्रमाणों में लिखा है, परन्तु 'मूतानेणसी की ख्यात' व 'कान्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि मोहील चौहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर-द्रोणपुर' व बाहडमेर में था. जिनका प्रदेश राठौड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. वर्तमान समय में मोहील चौहानों की जागीरें कहां है वह मालूम नहि हुआ है.



१ नाडोला चौहानों की शाखा सांभर से निकली हुई है जिससे चौहानों की ओर चौबीस शाखाएं होना सर्वत्र माना गया है.

नाडोल से विभक्त हुई चौबीस शाखाओं का नाम एक दूसरी प्रतियों से सम्पूर्ण मिलता नहीं है, लेकिन चौहान राजपूतों की शाखाओं के वास्ते वे सब नाम जरूरी होने से उसका प्रमाण नीचे लिखा जाता है.

१ टॉड राजस्थानसे	२ नेणसी की ख्यातसे	३ वडुओं की पुस्तकसे	४ पुरोहित के चोपडे से	५ सिरोही की दूसरी प्रतिये
१ चहुआण	१ चहुआण	१ वावरा चहुआण	१ साचोरा	१ वावरा चहुआण
२ हाडा	२ सोनगरा	२ हाडा	२ सोनगरा	२ हाडा
३ खीची	३ खीची	३ खीची	३ हाडा	३ खीची
४ सोनगरा	४ देवडा	४ सोनगरा व देवडा	४ खीची	४ सोनगरा व देवडा
५ देवडा	५ राखसिया	५ बालिसा व सींगणोत	५ नरवाण	५ बालिसा तक सींगणोत
६ पावेचा	६ गीला	६ मात्रेचा	६ मात्रेचा	६ मात्रेचा
७ सांचौरा	७ डेडलिया	७ वांकट	७ वांकट	७ वांकट
८ गायलवाड	८ वगसरीया	८ बील	८ भांभरेचा	८ बील
९ भदारीया	९ हाडा	९ थेगा	९ मालण	९ थेगा
१० नरवाण	१० धीधा	१० गरावा	१० बालोत	१० गरावा
११ मालण	११ चाचाहिल	११ पचीया	११ बालिया (बालिसा)	११ पचीया
१२ पुर्विया	१२ सेलोत	१२ अवर	१२ बोडा	१२ पावेचा
१३ सुरेचा	१३ बहेल	१३ पावेचा	१३ चाहेल	१३ अवर
१४ मत्रेचा	१४ बोडा	१४ सेजपाल	१४ सेपटा	१४ सेजपाल
१५ संकचा	१५ बातल	१५ भदोरिया	१५ पाणेसा	१५ भदोरिया
१६ मुंडेचा	१६ गोलासण	१६ नरवाण	१६ टाग	१६ नरवाण
१७ बालिचा	१७ नाहरवाण	१७ खेवर	१७ डेडरीया	१७ खेवर
१८ तस्सेरा	१८ वेत	१८ उलेचा	१८ भदारी	१८ उलेचा
१९ चाचेरा	१९ नीरवाण	१९ चंद्राणा	१९ धीवा	१९ चंद्राणा
२० रासीआ	२० सेपटा	२० मालण	२० बील	२० मालण
२१ चांदाणा	२१ डीमडिया	२१ मोकरला	२१ चीता	२१ मोकरला
२२ नकुव	२२ हुरडा	२२ रतपाल	२२ चांदाणा	२२ रतपाल
२३ भावरेचा	२३ मालण	२३ भांभरेचा	२३ कायम खानी	२३ भांभरेचा
२४ वांकट	२४ वांकट	२४ नार	२४ बडगांमा	२४ नार


उपर्युक्त चौबीस शाखाओं के सिवाय टॉड राजस्थान, मूता नेणसी की ख्यात व बडुआ की पुस्तक में दूसरी कितनीक शाखाओं के नाम उपलब्ध होते हैं, वे यह हैं कि—

- १ टॉड राजस्थान में १ कायमखानी, २ सूरवानी, ३ लोहानी, ४ कुरुवानी व ५ वेदवान ये शाखाएं मुसलमान हुए चौहानों की हैं.
- २ मूता नेणसी की ख्यात में १ वागडिया, २ साँचौरा, ३ कापलिया, ४ वाव के चौहान व मुसलमान हुए चौहानों में ५ कायमखानी होने का उल्लेख किया गया है.
- ३ सिरोही के बडुआ की पुस्तक में १ मुडेचा, २ हरडा, ३ बागरेचा, ४ मुलेवा, ५ दुग, ६ सेवटा, ७ गलेचा, ८ गल व एक भाई भंडारी महाजन हुआ जिसको आधी शाख बताई है.


उपर लिखी हुई शाखाओं के विषय में वंश भास्कर व पूर्विया चौहानों की ख्यात की पुस्तक से कितनीक शाखाओं के नाम उपलब्ध होते हैं. जो कि वे शाखाएं सांभर से ही विभक्त होने का उन पुस्तकों में उल्लेख किया है, और वैसा होना दूसरे इतिहास से विरुद्ध है, तब भी शाखाओं की नामावली के वासते चौहानों की हर एक शाखाओं के नाम अंकित करना आवश्यक होने से उक्त पुस्तकों से उपलब्ध होती शाखाओं के नाम लिखे जाते हैं.

- १ वंश भास्कर की पुस्तक मुताबिक मूहकर्मा के पहिले निकली हुई बारह शाखाओं के नाम सांभर से निकली हुई शाखाओं में अंकित हो चुके हैं. उसके बाद दूसरी ४३ शाखाएं होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है, जो नीचे मुआफिक है.

मूहकर्मा ( इनके बाद चौहानों की शाखाएं हुई वह-वंशभास्करोनुसार. )



रुद्रदत्त ( चलू वंश भास्कर )



उपरोक्त ५५ शाखाएं वंश भास्कर के पुस्तक से होती हैं और जिसके नाम से शाखा हुई है. उसके नाम पर संख्या का अंक लगाया है.

२. पूर्विये चौहानों की ख्यात मुआफिक जहां से शाखाएं विभक्त हुई हैं ( यानी-उक्त पुस्तक में सांभर का 'लाखणसी' के चौबीस पुत्रों से चौहानों की चौबीस शाखाएं होनेका उल्लेख किया है ) वह लाखणसी मूल पुरुष चाहमान से ११२२ वीं पुत्र पर होना बताया है. जिसका संक्षिप्त वंश वृक्ष प्रकरण ४ में दिया गया है. इस प्रकरण के वास्ते उक्त पुस्तक से चौहानों की कौन २ शाखाएं हैं वह देखने का होने से वे शाखाएं नीचे बताई जाती हैं.

† वंश भास्कर की पुस्तक से चौहानों की शाखाओं के वास्ते जो वंश वृक्ष दिया गया है, उन शाखाओं के मूल पुरुष के नाम विश्वास पात्र नहीं है. सिर्फ ये पुस्तक रचा गया तब चौहानों में उपरोक्त ५५ शाखाएं प्रसिद्धि में थी इतना ही बताने के उद्देश से यह वंश वृक्ष अंकित किया गया है.

नीमराणा की ख्यात पर से 'लाखणसी' के चौबीस पुत्रों की शाखाएं.

नाम	नाम शाखा	स्थान	नाम	नाम शाखा	स्थान
१ विजयराज	सांभरिया	सांभर	१३ नरसिंह	नार	गढ नरवर (पूर्व में)
२ बाहड	( यह देवता कहलाया गया )		१४ बलराव	बालीसा	गढ चोढाला
३ रूलबंब	हाडा	बूंदी	१५ बेगराज	वाघोडा	गढ तालपछाह
४ खी राज	खीची	गागरूत ( मालवा )	१६ गंगदेव	गोलवाल	गढ पछाह
५ राजा भद	भदोरिया	गढ भदावर ( पूर्व में )	१७ गिरराज	गिल	गिलां कोहर (पूर्व में)
६ रवी दत्त	आनद्रेचा	श्यामचक्र	१८ शिवराज	वोडा	ब्रह्मपुर (पूर्व में)
७ खुमाणराव	खीवर	खीवाणा ( पूर्व में )	१९ जीवराज	जलापा	गढ जलाणा
८ भोजराज	भवर	भीवोतरा (उत्तरा खंड में)	२० पदमसेन	पबिया	पावागढ (गुजरात)
९ महाराणा	माद्रेचा	गढ मूर ( पूर्व में )	२१ अलदेव	बील	जगपुर (मालवा)
१० जंचैद	वीवा	गढ चोवारा ( पूर्व में )	२२ द्विजराज	धधेग	गढ धधेड (७६० गाँव)
११ खिवराव	डेडरिया	गढ डेडरा	२३ देवराज	देवडा	सिरोही
१२ कलवतसिंह	कापलिया	गढ कापल ( पूर्व में )	२४ सोनंग	सोनगरा	गढ सोनंग जालोर

वस्तुतः चौहान राजपूतों की चौबीस शाखाएं होनेका आम तोर पर कहा जाता है, उस मुताबिक टॉड राजस्थान में, मूता नेणसी की ख्यात में, व पूर्विया चौहानों की ख्यात की पुस्तकमें भी चौबीस शाखाएं अंकित करने का प्रयत्न हुआ है, बल्कि जो जो शाखाओं के नाम अपने आसपास के प्रदेश में जाहिर में आये उसको लिख कर चौबीस शाखाओं का मेल बैठाया गया है वंश भास्कर के लेखक ने वंश भास्कर रचने के समय में अपना विशाल ज्ञान, अनुभव व हाडा चौहानों के बडुआ के पुस्तक की सहायता से करीब ५५ शाखाओं के नाम ढुंढ कर अपने पुस्तक में अंकित किये हैं. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में दश शाखा सांभरकी और साडा चौबीस नाडोल की बताकर ४४ शाखाओं के नाम अपनी पुस्तक से प्रसिद्ध किये हैं. इसी मुआफिक टॉड राजस्थान मे से २९ व नेणसी की ख्यात से २८ नाम प्राप्त हुए हैं.

शाखाओं की उत्पत्ति के विषय में जब तक प्रमाण पात्र इतिहास नहीं प्राप्त हो, तब तक वे शाखाएं कहांसे विभक्त हुई इस प्रश्न पर जोर देना योग्य नहीं है. लेकिन जो जो शाखाओं के नाम जाहिर हुए हैं वे शाखाएं विद्यमान हैं, और उन शाखाओं के चौहान वर्तमान समयमें उसी शाखा के नामसे मशहूर हैं, जिससे चौहान राजपूतों के वास्ते उनकी सब प्राचीन शाखाएं ( वि. सं. की चौदहवीं सदी तक की ) एक जगह अंकित हो जानेसे यह प्रकरण लिखने का हेतु फलीभूत होगा, जिससे वे अंकित की गई हैं.

१ सांभरिया	२० वालीसा	३९ मलयचा	५९ गीला	७८ तस्सेरा	९७ मोकरला
२ पूर्विया	२१ सिंघणोत	४० हरीण	६० गील	७९ चांचेरा	९८ रतपाल
३ पंजावी	२२ वागडियां	४१ चाहडं	६१ तीलवाडीआ	८० रोसिया	९९ नार
४ वंगडावत	२३ कापलियां	४२ माल्हण	६२ सरपंटा	८१ नकुव	१०० मूलेवा
५ मामा	२४ सोनगरा	४३ मुकलो	६३ चित्राना	८२ भांवरचेचा	१०१ हुग
६ भदोरिया	२५ देवडा	४४ चक्रठाना	६४ चंडालिक	८३ राखसिया	१०२ पाणेवा
७ नरघाण	२६ वोडा	४५ सेवटा	६५ वडेरा	८४ डेडरिया	१०३ टाग
८ पंडीया	२७ वालोत	४६ चित्तां	६६ वोडा	८५ विहल	१०४ आन्द्रेचा
९ गुजराती	२८ चीवा	४७ भैरव	+६७ मोरी	८६ गेलासण (मूलेचा)	१०५ वीवा
१० पावेचा	२९ अवसी	४८ भवर	६८ रेवड	८७ वेस	१०६ जलापा
११ पविया	३० मोहणोत	४९ खैरव	६९ वंकट	८८ ढीमडिया	१०७ भंडारी महाजन)
१२ चाहलिया	३१ माद्रेचा	५० खीवर	७० वाछल	८९ हुरडा	१०८ सीतामेर
१३ चांशणा	३२ घुंधेडिया	५१ अभावा	७१ झुमरिया	९० गरुडवा	मुसलमान चौहान
१४ मोहील	३३ धधेग	५२ वाघोरा	७२ तुलसीरखणा	९१ वील	१०९ कायमखानी
१५ नाडोला	३४ टंकरा	५३ वधनेचा	७३ सेलोत	९२ थेगा	११० सूरवानी
१६ हाडा	३५ वगसरिया	५५ वादरेचा	७४ चौरांग	९३ गरावा	१११ लोहानी
१७ खीची	३६ वगडिया	५६ सरखेल	७५ डीडुरा	९४ अवरा	११२ कुरुवानी
१८ वावकाचौहान	३७ गोलवाल	५७ मोरेचा	७६ सूरेचा	९५ सेजपाल	११३ जुजारखानी
१९ सांचौरा	३८ पुडुवाल	५८ वढोला	७७ संक्रेचा	९६ ऊलेचा	११४ वेदवान ११५ मडोवरा चौहान

उपर लिखी गई शाखाओं में भदोरिया, आन्द्रेचा, खीवर, माद्रेचा, वीवा, कापलियां, नार, गिल, वोडा, जलापा, धधेग, भवर, वाघोरा व गोलवाल इन शाखाओं के चौहान पूर्व में व उत्तरा खंड में ज्यादा होना पाया गया है. दूसरी शाखाओं के चौहान राज-पूताना, मालवा, मध्य हिंदुस्थान, व गुजरात में ज्यादा है. दक्षिण व हिंदुस्थान के दूसरे प्रान्तों में चौहानों की छोटी बड़ी जमीनदारी विद्यमान है, परन्तु वे कौन शाखा के हैं उसका पता नहीं मिला.



नोट:—मोरी शाखा 'परमारों' में है व 'नकुव' शाखा तंत्र रजपूतों में भी है. चौहानों में 'मोरी' होना वंश भास्कर से व 'नकुव' होना टोंड राजस्थान से अंकित किया है दूसरा आधार नहीं है आन्द्रेचा, वीवा व जलापा शाखा नीमराणा की ख्यात से अंकित हुई है. वर्तमान समय में इन शाखाओंकी सैंकड़ों नई शाखाएं 'नामी' पुरुष के नामसे कहलाई गई है. जो बुजरग के नाम के साथ 'ओत' लगाकर कही जाती है.

## प्रकरण ४ चौथा.

### सांभर के चौहानों का ऐतिहासिक साहित्य.


सांभरिया चौहानों के लिये प्रकरण २ में बताने मुताबिक १ हर्ष का शिलालेख, २ विजोलिया का लेख, ३ पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, ४ प्रबंध कोश, ५ हमीर महाकाव्य, ६ सूर्जन चरित्र, ७ वंश भास्कर, ८ सिरोही राज्य का इतिहास, आदि प्रसिद्ध ग्रंथ व उनके सिवाय समयानुसार ऐतिहासिक शोध करने वालों की-जो-राय जाहिर है वे मुख्य प्रमाण हैं. इन प्रमाणों के सिवाय बडुओं के व कुल गुरु आदि की पुस्तकों में कितनाक हाल अंकित हुआ है, वैसे ही पुराने जमाने में इतिहास की नुंद रखने वाले राज्य कर्मचारियों के वहां से भी हस्त लिखित पुस्तकें प्राप्त हुई है. उन सब साहित्यों से जो जो इतिहास उपलब्ध हुआ है, तदनुसार हरएक प्रमाण द्वारा अलग अलग वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये जाते हैं.

वस्तुतः इतिहास वेत्ताओं की तरफ से कौने में पडी हुई और जिनको दीमक खा रही हैं वैसी प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें जो कितनेक गृहस्थों के वहां से मिल सकती हैं, उनको प्राप्त करने का भी प्रयास होना जरूरी है, तदुपरांत बडुओं आदि राज आश्रितों की पुस्तकें व गीत-कवित्त इत्यादि साहित्यों का भी संग्रह किया जाय तो उसमें से कुछ न कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने की उम्मेद रहती है. बडुओं की पुस्तक के विषयमें वर्तमान समय में जो जो राजस्थान है वे राजस्थान जब से स्थापन हुए हैं तब से उनका शृंखलाबद्ध इतिहास मिल सकता है, लेकिन उससे पहिले जमाने की नामावली उस समय में ( राज स्थापन होने के समय पर ) याद-दाइती पर से किंवा प्राचीन दंतकथा, गीत-कवित्त आदि जो कुछ मालूम हुआ है उस पर से उन्होंने लिख ली है. इस कारण से वर्तमान राजाओं के वंश की नामावली राज स्थापन होने वाद की उनकी पुस्तक से ठीक २ मिलती है और पूर्वकाल की नामावली अपूर्ण, संदिग्ध, और संशय युक्त है. यही धोरण प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों के लिये भी लागु होता है.

जैन पुस्तक भंडार से कितनेक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं. उनमें बहुत से ग्रंथ इतिहास के रूप में नहीं हैं, लेकिन प्रशंसा युक्त काव्यों मे व गयों मे रचे हुए हैं. वैसी हरएक पुस्तक को प्रसिद्ध करने की तजबोज होने से प्राचीन इतिहास के साहित्य में बहुत ही सहायता मिलने की सम्भावना है.


जो जो ऐतिहासिक साहित्य से सांभर के चौहानों की नामावली मालूम हुई हैं, उस परसे उपलब्ध होतें वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये हैं.

## १ हर्ष के शिलालेख से.




## २ विजोलिया के शिलालेख से

( गूवक पहिला तक के नाम क्रमशः ) १ सामन्त,  
 २ जयराज, ३ विग्रहराज, ४ चन्द्र, ५ गोपेन्द्र, ६ दुर्लभ  
 ७ गूवाक ( उसके बाद )



## ३ पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ से.



४ प्रबंध कोश से.

५ हमीर महाकाव्य से

६ सूर्जन चरित्र से.

७ वंश भास्कर से.

- १ वासुदेव
- २ सामन्त
- ३ नरदेव
- ४ अजयराज
- ५ विग्रहराज
- ६ चन्द्रराज
- ७ गोविन्दराज
- ८ दुर्लभराज
- ९ वत्सराज
- १० सिंघराज
- ११ दूर्योधन
- १२ विजयराज
- १३ वप्ययराज
- १४ दुर्लभराज ( दूसरा )
- १५ गन्दुराज
- १६ बालपदेव
- १७ विजयराज (दूसरा)
- १८ चामुण्डराज
- १९ दुशलदेव
- २० विशलदेव
- २१ पृथ्वीराज
- २२ आलणदेव
- २३ जगद्देव
- २४ विशलदेव (दूसरा)
- २५ अमरगंगेव
- २६ पेथलदेव
- २७ सोमेश्वर
- २८ पृथ्वीराज (दूसरा)
- २९ हरिराज

- १ चाहमान
- २ वासुदेव
- ३ नरदेव
- ४ चन्द्रराज
- ५ जयपाल
- ६ जयराज
- ७ सामन्तसिंह
- ८ गूवक
- ९ चन्दन
- १० वप्रराज
- ११ हरिराज
- १२ सिंहराज
- १३ भीम
- १४ विग्रहराज
- १५ गंगदेव
- १६ बल्लभराज
- १७ राम
- १८ चामुण्डराज
- १९ दुर्लभराज
- २० विशल
- २१ पृथ्वीराज
- २२ आलणदेव
- २३ अनलदेव
- २४ जगदेव
- २५ विशलदेव (दूसरा)
- २६ जयपाल
- २७ गंगपाल
- २८ सोमेश्वर
- २९ पृथ्वीराज २ हरिराज (दूसरा) १


- १ वासुदेव (बन्दावती)
- २ नरदेव
- ३ अजयपाल
- ४ अजयराज
- ५ सामन्तसिंह
- ६ गुज्जर
- ७ चंद्र
- ८ वज्र
- ९ विश्वपति
- १० हरिराज
- ११ भीम
- १२ विग्रहदेव
- १३ गुंददेव
- १४ बल्लभ
- १५ रामनाथ
- १६ चामुण्ड
- १७ दुर्लभराज
- १८ दुशलदेव
- १९ विशलदेव
- २० बल्लभ (दूसरा)
- २१ अनलदेव
- २२ जगदेव
- २३ विशलदेव (दूसरा)
- २४ अजयपाल (दूसरा)
- २५ गंगदेव
- २६ सोमेश्वर
- २७ पृथ्वीराज २ ७माणेकराय (देहली). १

- १ चाहमान
- २ वासुदेव
- ३ सहदेव
- ५० अजयपाल
- ६५ महानंद
- १११ हनुमान १११ सुग्रीव (सांभर) (पाटलीपुत्र) १
- १३२ रघुराम
- १३४ माणकराय उर्फ नाहरराय
- १३५ सोमेश्वर
- १४६ भरत (सांभर) १ उरथ (हाडा)
- १५७ संपातीराज
- १५८ नागहस्त
- १५९ स्थुलानंद
- १६० लोहधार
- १६१ धर्मसार
- १६२ घैरीसिंह
- १६३ विविधसूर
- १६४ योगसूर
- १६५ चंद्रराज (अजमेर)
- १६६ कृष्णराज
- १६७ हरिहरराज
- १६८ विलहनराज
- १६९ पृथ्वीराज (डीडुर) १ अरणौराज
- १७० धर्माधीराज
- १७१ विशल
- १७२ सारंगदेव
- १७३ अनलदेव उर्फ विग्रहराज
- १७४ जयसिंह
- १७५ आनंदमेव
- १७६ सोमेश्वर १ कृष्ण उर्फ कन्ह
- १७७ पृथ्वीराज (देहली)




## ८ राजपूताना गण्टियर से-


मूल पुरुष १ चाहमान, से क्रमशः २ वासुदेव, ३ सामन्त-  
राज (सांभर), ४ जयराज, ५ विग्रहराज, ६ चंद्रराज,  
७ गोपेन्द्रराज, ८ दुर्लभराज, ९ चंद्रराज (दूसरा), १०  
गूषक, ११ चंदनराज व १२ वाक्पतिराज (उसके बाद)



## ९ पूना ऐतिहासिक सोसाइटीका 'मासिक' परसे-




१० मेओ कॉलेज मासिक फेब्रुवारी सन १९१३ ईस्वी के लेख पर सें.




+ हस्त लिखित राजावली में 'गंगेव चौहान' ने देहली में वर्ष ५ मास २ दिन ५ रात करने का लिखा है वह समय ई. सं. ११६३ से ११६९ तक ( यानी विशालदेव व सोमेश्वर के दरमियान ) अमरगंगेव का है.


११ सिरोही राज्य के इतिहास पर से.



१२ देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से.



१३ पूर्विया चौहानों की ख्यात पर से.





२२५ जामनीभाणं ( चलु देवडा चौहानों के वडुआकी पुस्तक से देखो पृष्ठ २१ पर )।

२२९ वागराजा

२३२ समरसी (वि. सं. ५६५ सांभर)

२४२ माणकदेव (सांभर वि. सं. ७४६ )+



+ वडुआ की पुस्तक में ' समरसी ' से दश पुत्र बाद ' माणकदेव ' वि. सं. ७४६ में होना लिखा है. दन्तकथा और गीत-कवियों में माणकदेव उर्फ माणकराव मशहूर है. इनके समय से सांभर में नमक तयार होने लगा ऐसा कहा जाता है कि शाकंभरी देवी इन पर तुष्टमान हुई और वर दिया, जिससे सांभर में लूण पैदा होने लगा. इस विषय में ' निशाणी ' है कि:—

“ साते ने छेतालिस में माता बाली वैश, सांभर राय तुडी सरस माणकराय नरेश. ”

\* गोगाराव वि. सं. ७५२ में गद्दी पर बैठा. उसके ४५ पुत्र थे. इतने मुसलमानों को ११ दफे युद्ध में हराये. बारहवीं वक्त यह गौओं कि रक्षणार्थे युद्ध में मारा गया. वि. सं. ७८२ में गढ़ सांभर में गोगारावने समर किया जिसमें उनके ४३ पुत्र मारे गये. इनकी राणी मेलणदे राठौड कन्या महा सती थी. ३५ रानियां गोगाराव के पीछे सती हुईं. वर्तमान समय में इसकी 'गोगादेव' के नाम से पूजा होती है. उनके पुत्र ४३ मारे गये जिस विषय में निशाणी है कि:—

“ अचलो, उदो, असपत, लालचंद, केशव, लाडो । प्रेमो, पिथल, दास, सदो, आषल, मल, छांडो. ”

“ खेतमी, भीम, खगार, जोध, अमरो, मान, जेतो । जसो, जुंगो, जसराज, नग धीर, मावव नेतो. ”

“ हदो, कान, हरी, अन्त, पूरो, गोर्धन, पचारण । विदो, वाग, वणीदास, नरु, आध बीजो नारायण. ”


“ सुने, मातल, पखमूर, गोगाराज, सूत एव लडे । शाह ममुद सु कर मापलो तरियाली तण दीन पडे. ”

## प्रकरण ५ वाँ.


### सांभरिया चौहान.

चाहमान से कितनीक पुत्र पर समरसी उर्फ सामन्तसिंह हुआ, उसने वि. सं. ५६५ में सांभर में राज्य स्थापन करने का अहवाल प्रकरण तीसरा में आ चुका है. वैसे सांभर के चौहानों के वास्ते जो जो ऐतिहासिक साहित्यों से वंशावली उपलब्ध हुई है वे प्रकरण चौथे में अंकित की गई है. उन पर से तुलना करते व इतिहास वेत्ताओं ने स्वीकार की है वैसे ख्यातों पर नजर दे सांभरिया चौहानों का वंशवृक्ष नीचे दिया जाता है.

१ वंशवृक्ष सांभर के चौहानों का—चौहानों का मूल पुरुष १ चाहमान से क्रमशः २ सोनपाल, ३ यज्ञपाल, ४ अजयपाल, ५ सहदेव, ६ चतुराजा, ७ वसुदेव, ८ नरदेव, ९ पंडराजा, १० जामनी भाण, ११ बाग राजा व उनके बाद सांभर में राज स्थापन करने वाला नं. १२ सामन्तसिंह उ समरसी हुआ उनके वंशज.



+ नं. १५ गोपेन्द्रराज का समय वि. सं. ७६८ का होना स्वीकार किया है. उससे एकादश पुत्र पहिले 'माणकराज' होना चाहिये. माणकराज से सांभर की दश शाखाएं होने का जगह जगह प्रमाण उपलब्ध होते हैं. इनका समय वि. सं. ७४९ का होना गीत कवित्त से पाया जाता है. गोपेन्द्रराज का नाम ही 'गोगादेव' हो ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि कि वडुआ की पुस्तक में 'गोगादेव' को माणकराज का पौत्र होना लिखा है. उनको गद्दी नशिनी वि. सं. ७९२ व देहान्त का समय वि. सं. ७८२ होना बताया है. अगर यह अनुमान ठीक हो तो नं. १२ सामन्तसिंह का नाम माणकराज होना चाहिये, नं. १७ गूवाक वि. सं. ८०० में होना स्वीकार हुआ है.



### उपर्युक्त वंश वृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ से नं. १२ सामन्तसिंह तक का जो कुछ अहवाल प्राप्त हुआ था वह प्र. ३ रा में आचूका है. नं. १३, १४ व १५ के वास्ते कोई इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है. नं. १६ गोपेन्द्र का दूसरा नाम गोगादेव होना पाया जाता है. यह राजा का मुसलमानों के साथ बहुत विग्रह चला. हिजरी सन ९२ वि. सं. ७६८ में महमूद बिन कासिमने सिंध पर चढाई कर कितनाक प्रदेश कब्जे किया, उस समय यह विद्यमान था. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि महमूद के साथ गोगादेव का युद्ध हुआ जिसमें इसके ४३ पुत्र काम आये. इस विषय के कवितका आखिरी पद में लिखा है कि:—“ शाहा मेंमुद सु कर मामलो, तरियाली तण दीन पडे. ” पाया जाता है कि विजय प्राप्त न होनेका मालूम होनेसे शाखा करके वे सब काम आये है.

नं. १६ दुर्लभराम गोड राजपूतों का साथ लड़ा था वैसा पृथ्वीराज विजयकी पुस्तक में लिखा हुआ है.

नं. १७ गूवाक के विषय में हर्ष का शिलालेख ( हर्षनाथ का मन्दिर शेखावटी में ' जंचा ' नामक पहाड पर है. ) जो नं. २३ विग्रहराज के समय में लिखा गया है उसमें लिखने में आया है कि इसने नागावलोक ( जिसका दूसरा नाम गुजर प्रतिहार नागभट था, जो वि. सं. ८३३ में देवलोक हुआ था. ) नामक बडे राजा की सभा में 'वीर पद' पाया.

नं. १८ चन्द्रराज दूसरे का इतिहास नहीं मिला है. उनके पीछे नं. १९ दूसरे गूवाक सांभर की गद्दी पर आया. यह बड़ा पराक्रमी राजा था. इसने अपनी बहिन कलावती के लक्ष्मण के वास्ते स्वयंवर रचा था जिसमें बारह राजा आये थे, उनमें से कलावतीने कन्नोजेश्वर को बरमाला अर्पण की. जिस पर दूसरे राजाओंने युद्ध किया, लेकिन गूवाकने सबको हराकर उनकी लक्ष्मी छीन कर अपनी बहिन को दी.

नं. २० चन्दनराज ने तंवर वंशी राजा 'रुदेण' को युद्ध में मारने का हर्ष के लेख में उल्लेख हुआ है. +तंवर वंश के इतिहास की हस्त लिखित प्रति में 'रुदेण' नाम नहीं है, परन्तु 'द्वारदेव' नाम उपलब्ध होता है. पाया जाता है कि उसी नाम का उर्फ या अपभ्रंश हो. इसकी राणी 'रुद्राणी' ने पुष्कर सरोवर के किनारे सहस्रलिंगों की प्रतिष्ठा कराई थी. रुद्राणी को 'आत्मप्रभाव' व 'योगिनी' भी कही गई है, ऐसा पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा गया है.

नं. २१ वाक्पतिराज के विषय में हर्ष के लेख में लिखा है कि इसपर तंत्रपाल तंवर ने चढाई की थी, परन्तु उसको हारकर भागना पडा. तंवर राजपूतों की ख्यात में द्वारदेव का पौत्र 'तुगपाल' का नाम उपलब्ध होता है. सूर्जन चरित्र की पुस्तक में वाक्पतिराज ने कटक का किला तोडा. पारिन्द से युद्ध किया व शाकंभरी तक अपने राज्य का विस्तार बढ़ाया वगैरह लिखा है. पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि इसने १८८ लडाइयों में विजय प्राप्त किया और पुष्कर में बड़ा शिवालय बनया.

नं. २२ सिंहराज अपने पिता के पीछे सांभर में गद्दी पर बैठे. इसका नाम हरएक प्रमाणों में उपलब्ध होता है. पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि, उसने पुष्कर तीर्थ में शिवालय बंधाया और इनके पास अश्वों की बड़ी फौज थी. हर्ष के शिलालेख में उल्लेख किया है कि इस राजा पर राजा लवण की सहायतासे तंवर वंशी राजाने चढाई की थी, परन्तु सफलता नहीं मिली. यह बड़ा वीर पुरुष हुआ. इसने हरएक दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त किया, और हांजि-उद-दिन का पराजय कियाथा, ऐसा प्रबंध कोश की पुस्तक से पाया जाता है. हमीर महाकाव्य में लिखा है कि इसने 'हातिम' नामका मुसलमान सरदार को मारा था.

नं. २२ \* लक्ष्मणसिंह उर्फ लाखणसी, वाक्पतिराज के दूसरा पुत्रथा, जिसने 'नाडोल' में

+ तंवर वंश का इतिहास में लिखा है कि 'गंगेव तंवर' के हाथ से वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विशलदेव चौहान ने देहली ले ली. उक्त ख्यातसे पाया जाता है कि 'द्वारदेव' तंवर वि सं ९९२ में गद्दी पर आया था और वि. सं. ९८२ में उसका देहान्त हुआ. तंवर वंशी राजाओं की नामावली इस प्रकरण में आगे दी गई है.

\* पूर्विया चौहानों का इतिहास जो नीमराणा के विषय में है, उसमें 'राव लाखणसी' को सिंहराज का पुत्र होना अंकित किया है, बल्कि लाखणसी को सांभर के राजा होने का शिखर उसकी ओलाद में सोमेश्वर, पृथ्वीराज, आदि सांभरिये चौहान होने का उल्लेख हुआ है.

( जोधपुर राजके गोडवार परगने में है. ) अपना राज्य कायम किया. इसी लाखणसी से नाडोल के चौहान कहलाये गये, और वहां से चौहानों की चौबीस शाखाएं हुई, जिसका अहवाल प्रकरण ९ वां में लिखा गया है.

नं. २२ वत्सराज को पूर्व में 'जयपुर' नामक परगने की जागोर दी गई थी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद वाले कहां है वह मालूम नहीं है.

नं. २२ × हरिराज के वास्ते 'सूर्जन चरित्र' की पुस्तक में लिखा है कि इसने हुणस को भगाया. मद्रास, चीन, आदिके म्लेच्छों को हराया. मंडपपुर के पास जोधपुर नामक शहर आवाद किया. इसकी राणी 'मनोरमा' अवन्ती की राज कन्या थी. इसको पुत्र न होनेसे पुत्र प्राप्ति की आशा में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, परन्तु पुत्र न होनेसे इनका भतीजा 'भीम' गद्दीपर बैठा. भीम बड़ा वीर पुरूष हुआ, उसने मगध, बंग, गंद, कलिंग व कर्णाटक को विजय कर लिया, और पम्पा, गोदा, तापती, ताम्रपर्णी, द्वारिका, कांबोज, शक, व कामरुप देश तक पहुंचा था.

नं. २३ विग्रह राज के विषय में हर्ष के शिलालेख में लिखा है कि इसने गुर्जरो को हराकर वहां के राजा भीमदेव को भगाया, जो कंथ कोट के किलेमें घुस गया था. इसी राजा के समय में हर्ष का लेख लिखा गया है. पृथ्वराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि इसने गुजरात के राजा मूलराज को हराकर नर्मदा नदी तक विजय प्राप्त किया था, और भडौंचमें आशापुरी देवी का मन्दिर बंधाया. ( जो वर्तमान समय में भडौंच में विद्यमान है. ) हमीर महाकाव्य में इसके विषय में लिखा गया है कि—इसने गुजरात के राजा मूलराज को मारा था.

नं. २३ दुर्लभराज अपने भाई विग्रहराज के पीछे गद्दी पर बैठा. जिसका प्रधान 'माधव' नामक था.

नं. २३ गोविन्दराज अपने भाई दुर्लभराज के पीछे गद्दी पर बैठा. सूर्जन चरित्र में लिखा है कि इसने चेडी राजा भोज के साथ युद्ध कर के उसको पराजय किया था, लेकिन उसका राज्य कब्जे नहीं करते उनको वापिस दिया. प्रबंध कोश की पुस्तक में इसने सुलतान महमूद पर विजय प्राप्त की ऐसा उल्लेख किया है.

× नं. ३३ हरिराज के बड़े वंशभास्कर में चंद्रराज का पौत्र नं. १६७ हरीहरराज का नाम उपलब्ध होता है. हमीर महा काव्य की पुस्तक में वप्रराज का पुत्र हरिराज व हरिराज का पौत्र 'भीम' होने का अंकित हुआ है. कभी यह शंका की जाय कि शिलालेखों में हरिराज का नाम क्यों उपलब्ध नहीं होता है, उसका खुलासा यही है कि जहां तक देखा गया शिलालेखों में भाईयों का नाम नहीं लिखते उत्तरोत्तर अपनी ओलाद के ही नाम लिखे जाते थे, इसी कारण से नं. ३३ लाखणसी का नाम भी शिलालेख में नहीं आया है, वैसे सुंघा पहाड का शिलालेख में समरसी का पुत्र मानभिह उर्क माणीनी का नाम भी नहीं लिखा गया है.

नं. २४ वाक्पति दूसरे ने मेवाड के राजा अंबाप्रसाद को कटार से मारा था, और यह वीर पुरुष गिना गया.

नं. २५ वीर्य राम उर्फ विजय राज ने मालवे के राजा भोज के साथ युद्ध किया जिसमें मारा गया.

नं. २६ चामुण्ड अपने भाई के पीछे सांभर की गद्दी पर बैठा. इसने नरवर में विष्णु भगवान का मन्दिर बनवाया.

नं. २७ सिहन्ट उर्फ नानु राजा के विषयमें देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि उसने अजमेर में राज्य स्थापन किया.

नं. २६ दुर्लभ उर्फ दुशल के विषय में बिजोलिया के शिलालेख में इसको सिहन्ट का उत्तराधिकारी होना बताया है. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में भी नानुराजा के बाद 'दुशलदेव' का नाम अंकित है. राजपूताना गझेटियर में वीर्यराम का तीसरा पुत्र 'दुर्लभ' होनेका उल्लेख है, परन्तु दूसरे भरोसा पात्र प्रमाणों से यह स्वीकार किया गया है कि यह चामुण्ड का पुत्र था, इसने गुजरात के राजा कर्ण को पराजित करने के कार्य में मालवा के राजा उदियादित्य की सहायता की थी. इनका देहान्त मुसलमानों के साथ युद्ध करने में हुआ.

नं. २६ विग्रहराज उर्फ विशल ने मालवा के राजा उदयादित्य को 'सारंग' नामक अश्व दिया था, जिससे वह गुजरात के राजा कर्ण का पराजय कर सका था, ऐसा पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है. वंश भास्कर व बडुआ की पुस्तक में इसको धर्माधिराज उर्फ धर्माद का पुत्र होना बताया है. इसका राज्य अजमेर में था, जहां पर अकाल मोतसे मरने पर राक्षस योनि प्राप्त हुई. राक्षस होने से इसने अजमेर नगर को बरबाद किया, और अपना पुत्र सारंगदेव को भी मार खाया.

नं. २७ पृथ्वीराज ने अजमेर बरबाद होने से सांभर में राज्य स्थान किया. इनकी राणी 'सलदेवी' ने रणथंभोर के जैन मन्दिर में ( वि. सं. ११६१ में ) सुवर्ण कलश चढाया. इसके समय में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के वास्ते ७०० चालुक्य आये थे, उन सब को इसने मारा था. यह बडा दातार था. सोमनाथ के रास्ते में इसने सदव्रत जारी किया था.

नं. २८ अजयपाल ने पुनः अजमेर को आबाद कर वहां अपनी राजधानी की, और किला बंधाया. वि. सं. ११८६ में यह विद्यमान था. इनकी राणी 'सोमलदेवी' नामक थी. पृथ्वीराज विजय के पुस्तक में लिखा है कि इसने मालवा के राजा 'सलहण' पर चढाई कर विजय प्राप्त किया. चाचिग, सिंधुल व यशोराज नामके तीन राजाओं का इसने वध किया.



विजोलिया के शिलालेखानुसार मालवा के सेनापति सुलहण को कैद कर ऊँटकी पीठ पर बांधकर यह अजमेर लाया था. अजमेर में 'ढाई दिन के झोंपड़े' नामक स्थल से जो शिलालेख जाहिर में आया है उसमें इसके विषय में बहुत वृत्तांत उपलब्ध होते हैं. उसमें लिखा है कि अजयराज ने उज्जैन तक का प्रदेश जीत लिया था. यह कवियों की अच्छी कदर करता था. इसकी राणी का नाम 'सोमलखा उर्फ सोमल देवी' थी. इसके समय के शिक्रे में राणी का नाम भी अंकित होता था. इसने मुसलमानों को पराजय करके यश प्राप्त किया था.

नं. २९ अणोर्राज उर्फ आना अजयपाल के पीछे गद्दी पर बठे. इसका समय वि. सं. ११७९ से १२०७ तक का होना पाया गया है. 'ढाई दिनके झोंपड़े' के शिला लेख से यह बात प्रसिद्धि में आई है कि इसकी राणी 'संग्रामदे' थी, जिससे जोगादेव व विशालदेव के जन्म हुए थे. दूसरी राणी गुजरात की 'किसनदेवी' से सोमेश्वर का जन्म हुआ था. इसने अजमेर में 'अनासागर' नामक सरोवर बनाकर अपना नाम अमर किया है.

सिरोही के बडुआ की पुस्तक में इसका नाम 'आणंदमेव' होना लिखा है, जिसने पुष्कर में कुण्ड की सीढियां और वराहजी का मन्दिर बनाया था. इनका चौथा पुत्र ×कान्हडदेव होना वंशभास्कर व बडुआ की पुस्तक में अंकित है.

नं. ३० जगदेव को जोगोन्द्र व जोगादेव भी कहते थे. इसने वि. सं. १२०७ में अपना पिता अणोर्राज को मार कर गद्दी प्राप्त की, परन्तु इसका छोटाभाई विशालदेव जो बड़ा प्रराक्रमी राजपुत्र था उसने गद्दी छीन ली.

नं. ३१ विग्रहराज उर्फ विशालदेव का नाम राजपूताना में प्रख्यात है. यह बड़ा वीर पुरुष था. इसने अपने बड़ेभाई जोगादेव जो ऋषितृ घातक था उससे राज्य छीन लिया और गद्दी पर बैठा. राजपूताना का प्रदेशमें जगह २ स्वारी करके इसने अपना राज्य विस्तर्ण किया, इतना ही नहीं परन्तु नाडोल के चौहानों का राजा आलहण के प्रदेश पर फौज भेजकर नाडोल, पाली आदि नगर को लूटकर उनका प्रदेश को बरबाद कर दिया. गुजरात

+ वंशभास्कर व बडुआ की पुस्तक में अणोर्राज का नाम 'आणंदमेव' होना बताया है, और 'अनासागर' बंधाने वाला 'अनादे' नं. ३६ विशालदेव का दूसरा भाई होना लिखा है. प्रबंधकोश व हमीर महाकाव्य की पुस्तकमें 'आलहगदेव' नाम अंकित हुआ है, बल्कि हमीर महाकाव्य में 'आलहण' के बाद 'अनलदेव' का नाम उपलब्ध होता है.

× कान्हडदेव का नाम चौहानों के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्धि में है जो महान् पृथ्वीराज का काका होने से 'काका कान्ह' नाम से मशहूर हुआ है. इसने शरण आये हुए वाघेले को मार देने से अपनी आंख पर पट्टी बांधकर दरबार में आने की शिक्षा पाई थी. प्राचीन तसवीर में भी इनकी आंखे पर पट्टी लगाना मालूम हुआ है.

\* जोगादेव ने अपने पिता का खून करने के कारण से उस समय में लिखा हुआ विजोलिया के शिलालेख व पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में यह पितृ घातक का नाम लिखना उचित समजा गया है.

के राजा के साथ भी इसने विग्रह मचाया. तंवरों के साथ सांभर के चौहानों का कई पुशतों से विग्रह जारी था. विशलदेवने इस कारण से देहली के तंवर वंशी राजा गंगेव तंवर पर अपनी नजर डाली. +तंवर राजपूतों के इतिहास से मालूम होता है कि वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विशलदेवने गंगेव तंवर नामक राजा का पराजय करके देहली का कब्जा कर लिया, और वहां पर गद्दी पर बैठा. वि. सं. १२२० तक यह जिन्दा था. इनका अंतकाल होने के समय में इसका पुत्र अमरगंगेव बालक होने से नं. ३१ पृथ्वीराज ( जो इसका भतीजा था ) गद्दी पर आया ऐसा प्रसिद्धि में है, लेकिन देहली की गद्दी पर सात चौहान राजा होने का एक प्राचीन हस्त लिखित प्रति में उपलब्ध हुआ है, उसमें विशलदेव के पीछे ' गंगेव चौहान ' व उसके बाद ' पहाडमल चौहान ' होना लिखा है, यह पहाडमल नं. ३१ पृथ्वीभट होना अनुमान होता है. ढाई दिनकी झोंपड़ी के शिलालेख में विशलदेव के बाद अमरगंगेव गद्दी पर आनेका उल्लेख हुआ है. ( इस पुस्तक की पृष्ठ २० पर नं. १० के वंशवृक्ष में उन राजाओं के समय के इसी सन अंकित हुए हैं उसमें भी विशलदेव का सन ११६३ और सोमेश्वर का ११६८ है. )

नं. ३१ अमरगंगेव वि. सं. १२२० में गद्दी पर आया. हस्त लिखित प्रति मुआफिक इसने देहली की गद्दी पर ५ वर्ष २ माहा ५ दिन राज्य किया. इसका देहान्त होनेपर पृथ्वीभट नं. ३१ वाला देहली की गद्दीपर बैठा, परन्तु नं. ३० सोमेश्वर ने उसको हठाकर देहली का राज्य अपने स्वाधिन कर लिया.

नं. ३० सोमेश्वर ने वि. सं. १२२६ से १२३६ तक राज करना पाया जाता है. इसके ओर दा भाई सूरसेन व कान्हडदेव होना उपलब्ध होता है, परन्तु वंश भास्कर में सूरसेन

+ तंवर राजपूतोंने देहली में १९ पुस्त राज्य किया जिस बाबत हस्त लिखित पुस्तक में नीचे मुआफिक लिखा हुआ है.

नाम.	वर्ष.	मास	दिन.	नाम.	वर्ष.	मास.	दिन.
१ वसुदेव तंवर.	१९	९	१८	१२ जसपाल.	१६	४	१३
२ पृथ्वीमल तंवर	२१	३	३	१३ कुंवरपाल.	२१	३	११
३ राजा जयदेव.	२०	७	२२	१४ अनंगपाल.	१४	१	६ +कुच्छ गलती है.
४ राजा नरपाल.	९	३	८	१५ तेजपाल.	१४	१	६
५ उदयचंद तंवर.	१४	४	४	१६ मोहणपाल.	१९	३	१७
६ वछराज.	३०	७	११	१७ तुगपाल दूमरा.	२१	२	१९
७ द्वारदेव.	३०	२	१३	१८ पृथ्वीराज.	२२	३	६
८ वरसेद्धापाल.	२२	१	८	१९ गंगेव तंवर.	२१	३	२८
९ तुगपाल.	१२	६	९	एवं वर्ष ४२० मास ४ राज कीधो पेढी १९ लों.			
१० गोपाल.	३०	४	४	पछे सं. १२०९ चैत्र सुद २ चहुआण पाट थया.			
११ सुलखण.	२९	१०	१०				


का नाम नहीं है. सोमेश्वर की राणी ' किरपादेवी ' होनेका शिलालेख में उल्लेख है, जिसको सूर्जनचरित्र की पुस्तक में ' कर्पूरादेवी ' अंकित की है, और उससे पृथ्वीराज व माणकराज ये दो पुत्र हुए थे ऐसा लिखा है. बडुआ की पुस्तक में सोमेश्वर की राणी 'प्राणकुंवर' तंवर अनंगपाल की पुत्री से महान् पृथ्वीराज का जन्म हुआ था ऐसा उल्लेख है, बल्कि पृथ्वीराज रासा की पुस्तक व दंतकथा में तंवर अनंगपालने अपना दोहित्र पृथ्वीराज को दत्तक पुत्र लेनेका प्रसिद्धि में है, परन्तु तंवर राजपूतों की ख्यात से भी यह बात विरुद्ध पाई जाती है, क्यों कि उसी ख्यात में तंवर अनंगपाल वि. सं. ११०२ से १११६ तक होना पाया गया है. सोमेश्वरने गुजरातका राजा भीमदेव सोलंकी के साथ युद्ध किया, जिसमें वह काम आया.

नं. ३१ महान् पृथ्वीराज का अहवाल प्रकरण ६ में लिखा गया है.



नोट—सांभर के चौहानोंने मुसलमानोंके हमले में हरएक समय अपना बलीदान दिया है. बगदाद के खलीफ बरीद का सेनापति महमूद बिन कासम के साथ नं. १५ गोपेन्द्रराज उर्फ गोगारावने शाखा कर ४३ पुत्रोंके साथ वह काम आया था. नं. २२ सिंहराज के समयमें महमूद गिजनीने बरबादी की. नं. २३ गोविन्दराजने सुळतान महमूद पर विजय प्राप्त किया. नं. २६ दुर्लभ, मुसलमानोंके साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया. नं. २८ अजयपालके समयमें रोशनअली नामक मुसलमानने महियारी का मही अपवित्र करने से उसकी अंगुली काटने की सजा दी गई जिस पर मुसलमानों की बड़ी फौजने अजमेर पर आक्रमण किया जिसमें वे सब मारे जानेसे मुसलमान सैन्य नौकासे कच्छ के ' अंजार ' बंदर पर उतरने लगा. अजयपाल को खबर मिलने से वह अंजार पहुंचा और युद्ध किया. टॉडराजस्यानमें लिखा है कि वह उसी युद्ध में काम आया और उसका स्मारक अंजारमें है, ( यानी हाथमें भाला देकर घोड़े पर अजयपाल की मूर्ति बनाई हुई विद्यमान है.) और वहां पर अजयपाल का मेला भरा जाता है. इसी मुभाफिक नं. ३१ महान् पृथ्वीराजने भी अपना व अपने सामन्तों का बलीदान युद्धमें देकर भारतीय देवी की शोणित पान की तृप्ता शान्त की. इसी कारण से कर्नेल टॉडने अपनी राजस्यान की पुस्तकमें यह राय बताई है कि " यदि पक्षपात रहित निर्णय किया जाय तो छत्तीस राजकुत्रोंमें युद्ध विषयक जीवनमें चौहान राजपूत पहली पंक्तिमें आंगे. "





अखिर काका कान्ह, चंद बरदाई और दूसरे दो सामन्तों ने मंत्रणा कर बड़ी मुश्किल से पृथ्वीराज की मुलाकात ली. [ देखो विभाग पहिला पृष्ठ ३६ ]

## प्रकरण ६ वां.

### ‘ देहली का महान् पृथ्वीराज. ’

सांभर के चौहानों का अंतिम राजा महान् पृथ्वीराज ( सांभर के वंशवृक्ष में नं. ३१ वाला. ) देहली की गद्दी पर हुआ, जिसकी प्रशंसा की कइएक पुस्तकें प्रसिद्ध हुई हैं. ऐतिहासिक प्रमाणों से इसका अमल वि. सं. १२३६ से वि. सं. १२४९ तक का होना पाया गया है. इसके विषयमें दो प्रधान काव्य पुस्तकें—जिसमें ‘पृथ्वीराज विजय’ (जो काश्मीर के पंडितने संस्कृत में रची है. ) इसकी हयाती में ही रचना स्वीकार हुआ है, और दूसरी ‘पृथ्वीराज रासा’ ( जो चंदकविने चारणी भाषा में पद बंध की है. ) नामकी पुस्तक भी इसीकी हयाती में लिखी जाना कहा जाता है, परन्तु इतिहास वेत्ताओं को वह मान्य नहीं है, और अनुमान किया जाता है कि ‘चंदकवि’ के नाम से दूसरे कविने विक्रम संवत् की सोलहवीं सदी में यह पुस्तक रची है, जिससे चौहानों के इतिहास के वास्ते यह ग्रंथ प्रमाणभूत नहीं है, क्यों कि पृथ्वीराज रासा की पुस्तक से जो जो नाम उपलब्ध होते हैं वह दूसरे ऐतिहासिक साहित्यों के साथ मुकाबला करते सही मालूम नहीं होते हैं. बल्कि उसमें जो संवत् बताये हैं वह भी विश्वास पात्र नहीं हैं.

पृथ्वीराज रासा के ग्रंथ को ऐतिहासिक साहित्यों में स्थान दिया जाय या नहीं दिया जाय ? इस प्रश्नको बाजू पर रख कर अवलोकन करने वाले कों मालूम हो सकता है कि यह ग्रंथ ऐतिहासिक साहित्यों के उपासकों के वास्ते नहि रचा गया है, किन्तु एक समर्थ विद्वान कवि की काव्य रचना का हस्त लिखित काव्यों का अमूल्य भंडार है, जिस भंडार से हिन्दुस्थान के प्राचीन काव्यों की गौरवता हस्ती में रहने पाई है. इसमें वर्णन हुए प्रसंगों में राजपूतों की वीरता, उदारता, वैभव, सौजन्यता आदि अनेक प्रकार के विषयों में समय २ के प्रसंगों का कविने ऐसी कुशलता से वर्णन किया है कि वह सुनते ही वीर राजपूतों के हृदय में वीर रस प्रगट हो जाय, उसी मुआफिक हरएक रस युक्त भाषा व काव्य के छंदों की ऐसी खूबी लाई गई है कि उनकी सचोट असर तुरंत ही हो सके.

वस्तुतः पृथ्वीराज रासा के ग्रंथ से जो जो ऐतिहासिक प्रसंग उपलब्ध होता है, उसमें प्राचीन इतिहास प्राप्त नहीं होते पृथ्वीराज के समय के ही ( लग्न, युद्ध, आदि प्रसंग ) ऐतिहासिक घटनाएं मालूम होती हैं. जिसमें अलग २ प्रसंगों के वास्ते महाभारत के ग्रंथ की रचना मुआफिक अलग २ पत्रों के नामसे काव्य रचना करके वर्णन किया

गया है, बल्कि इस ग्रंथ में भी पीछे से 'क्षेपक' बढाकर दूसरे कवियों ने अपनी कृति जगह २ घुसेडने की तजवीज की है, जिससे इस ग्रंथ के वास्ते अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित होने लगी हैं.

पृथ्वीराज रासा की पुस्तक से इतिहास उपलब्ध नहीं होता है अथवा उसमें वर्णन किये हुए प्रसंग केवल कल्पित कथाएं हैं, वैसा मान लेना यह भी उक्त ग्रंथ के कर्ता के वास्ते गैरइत्साफ है, क्यों कि इसमें से कविलोग अपना यजमान या आश्रय दाता की प्रशंसा में जो नमक मिरच लगाकर गीत कवित्तोंमें अतिशयोक्ति के दोष लगाकर आडंबर दिखलाते हैं, वैसे दोषों को बाद करके देखा जाय तो दूसरे गीत कवित्तों से जितना इतिहास उपलब्ध होता है इतना इस ग्रंथ में से भी प्राप्त हो सकता है. (यानी—पृथ्वीराज का जन्मकाल, किस किस के साथ युद्ध हुए उसके कारण, विवाहशादी के प्रसंग, सामन्त आदि के नाम ठाम वगेरह इतिहास इसमें अंकित है. )

पृथ्वीराज का जन्मकाल व अंतकाल के विषय में पृथ्वीराज रासा में लिखे हुए संवत् के वास्ते भी शंकाएं होती हैं, यानी रासा में इस प्रसंग के वास्ते कवि कहता है कि—

“ एकादशसे पंच दह विक्रम साख आनंद, तिह रिपु पुर जै हरन को भय प्रथीराज नरिंद ”

“ एका दस सम ऐ सुकृत विक्रमं जिम धूर्त सुत, त्रीय तिसाक प्रथीराज को लिख्यो विप्र गुन गुप्त. ”

जब कि पृथ्वीराज के जन्माक्षर 'जगज्योति' नामक जोतिषी ने बनाकर सोमेश्वर देव को दरवार में सुनाया, उस विषय में कवि कहता है कि—

“ संवत एक दशं पंच अग, वैशाख मास पख कृष्ण लग. ”

“ गुरु सिद्ध जोग चित्रा नखित्र. गुरु नाम करन सिसु परम हित. ”

“ उपा प्रकाश एक घरीय राति, पल तंस अंस त्रय बाल जाति. ”

“ पंच दुअ थान परि सोम भोम, ग्यारमे राह खल करन होम. ”

“ प्रथीराज नामं बल हरे सत्र, दिलीय तखत मंडेय सु छत्र ”

इसके अंतकाल के विषयमें जगज्योति कहता है कि—

“ च्यालीस तीन तीन वर्ष साज, कलि पुहमि इंद्र उखार काज. ”

इसी मुआफिक पृथ्वीराज ने 'वानवेध' करके शाहबुद्दीन को कब मारा उस विषय में कवि कहता कि—

“ संवते पंचदह माघ मास, अनसित पख दसमी सुभास: ”

“ दिन घटीय पंच पल आदि जात, तारक मुळ शिव तिप्र पात. ”

“ घरीयार घात धंधे समुख, खट्टी कमान साहेव पुख. ”

इस कवित्तों में जो जो संवत् उपलब्ध होते हैं उसकी संख्या क्या क्या है, उनके वास्ते

अनेक प्रकार के अनुमान कल्पना से किये जाते हैं, परन्तु ठीक संख्या क्या है, वह इन कवित्तों के रचने वाले को या ऐसे काव्यों के अभ्यासियों में मायना करने में निपूण और सम्पूर्ण अनुभवी होंगे वही इनका सच्चा मायना कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन भाषा के अभ्यासियों को प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते पुस्तकें रची गई हैं, परन्तु प्राचीन समय में गद्य पद्य में संख्या का क्रम अंकित करने का एक ही धोरण न होनेसे विद्वानों को भी भ्रम होने की सूरतें पैदा होने का संभव रहता है. प्राचीन समय में संख्या के क्रम में भ्रम हो जाय, ऐसा एक शिलालेख आबु पहाड की तलेटी में 'श्री ऋषिकेश भगवान' के मन्दिर का मठ वि. सं. १५९९ में बनाया गया, उस पर क्या खर्च पडा उस रकम के वास्ते उक्त शिलालेख में लिखा है कि "पीरोजी x x x अंके पंचवीसी सदी मठ करावता लागा." यह संख्या कितनी है उस विषय में विद्वान स्वयं अनुमान कर सकते हैं. इस विषय में यह पुस्तक के लेखक अपनी अल्प बुद्धि अनुसार यही तर्क करते हैं कि इसकी संख्या 'पंच वीसी' बराबर 'पंच स' या तो 'एक सौ' होगी, और 'सदी' की संख्या शतक (सौ) यानी २५०० या १०००० होना चाहिये, परन्तु यह तर्क भ्रम से हुआ है, ऐसा उस शिलालेख में अंक में लिखी हुई संख्या से ही पाया जाता है, क्योंकि उसमें २०५०० (बीस हजार पांचसौ) की संख्या अंकित हुई है. (यानी  $२०+५=२०५ \times १००=२०५००$ ).

यह उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि जब कि गद्य में लिखे हुए प्राचीन लेख की संख्या शोधन में इतना भ्रम होता है, तब पद्य में लिखी गई संख्या के वास्ते वैसा भ्रम न हो, ऐसा मान लेना उचित नहीं है. पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में उपर्युक्त संबन्ध की संख्या में कविने सदी की संख्या छोडकर, दशक के आंक से ही संख्या अंकित की हैं. जैसेकि वि. सं. १९५६ को 'छपना' के नाम से ही कहते हैं. इस रीत से पाया जाता है कि पृथ्वीराज का जन्मकाल का संबत् पंदरा (वि. सं. १२१५) व अंतकाल का समय  $३ \times ३ = ९ + ४० = ४९$  (वि. सं. १२४९) होना कविने कहा है. बानवेध का प्रसंग के वास्ते वि. सं. ५० (१२५०) होना बताया है, परन्तु बानवेध की घटना वाक्रे हो हुई है या नहीं यह एक शंका है क्यों कि पृथ्वीराज 'गग्गर नदी' के किनारे पर युद्धम ही काम आनेका उल्लेख प्राचीन हस्त लिखित राजावलीओंमें, व 'कान्हडदेव प्रबंध' नामकी पुस्तक से भी उपलब्ध होता है, पाया जाता है कि यह प्रसंग किसी कविने 'क्षेपक' घुसेड दिया है, बल्कि ऐसा भी प्रसिद्धिमें है कि पृथ्वीराज रासा की पुस्तकमें कवि चंदने बानवेध के समय पर शहाबुद्दीन गोरी कितने अन्तर पर बैठा था वह अन्तर पृथ्वीराज के लक्ष में लाने के वास्ते कहा था कि—“चार बांस चौबीस गज अंगूल अष्ट प्रमाण, इत्ते पर सूलतान है मत चूके चौहान.” और हिन्दुस्थान में भविष्य में होने-वाले राजवंश के वास्ते भी रासा के पुस्तक में उल्लेख किया है, लेकिन रासा में इन बातों



का कुछ भी जिकर नहीं है, तब भी ऐसी बातों के कवित रचकर ' पृथ्वीराज रासा ' में वे कवित्त होने का प्रसिद्ध किया गया है. रासा में कितनेक प्रसंग की काव्य रचना व भाषा ऐसी है कि वह दूसरे कवि की कृति हो वैसी शंका उपस्थित होती है, जो सब ' क्षेपक ' है. तात्पर्य यही है कि ' पृथ्वीराज रासा ' की पुस्तक से कवियों व इतिहास वेत्ताओं को भी अनेक प्रकार की सहायता मिल सकती है.

पृथ्वीराज रासा में उनकी हर एक राणीयां के विवाह के वास्ते उल्लेख नहीं होते खास २ विवाह के प्रसंगों का कविने वर्णन किया है, परन्तु सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक की तुंद में उनके नाम ठाम मालूम हो सके वैसा एक कवित्त मिला है, उसमें लिखा है कि:—

“ प्रथम परण पडियार राव नाहर की जाई, ता पिछे इच्छनी सलख की सुता विहाई. ”

“ जिया पिछे दाहेमी राव डाहर की कन्या, गयन कुमार अतिस्थ सत हमीर स कन्या. ”

“ रामसाह की नन्दनी बड गुजर वानी वरण, जा पिछे पदमावती जादवन की जोड परण. ”

“ राव धनक की कुवर दुती जमगरी सु कहीए, कछवाई पंजून भरत बलभद्र चलऐ. ”

“ जा पिछे पडिहार चंद नन्दनी सु गाईव, शशीवृता सुंदरी और हंसावती पाईव. ”

“ देवांसी सोलंकी सारंग की पुत्री प्रगट, पटराणी संजोगता एते राज महलां सपत. ”

इस कवित्त से पृथ्वीराज के राजलोक में १ पडियार नाहर की पुत्री, २ सलख की पुत्री इच्छनी, ३ दाहेमा डाहर राव की पुत्री ग्यान कुमारी, ४ रामशाह बडगुजर की पुत्री नन्दनी, ५ व ६ जादव की पुत्री पद्मावती उसकी बहिन, ७ राव धनक की पुत्री कुवरदे, ८ पंजून कछवाह की पुत्री जिस से कुमार भरत व बलभद्र, ९ पडिहारचंद्र की पुत्री, १० हंसावती के राजा की पुत्री शशिवृता, ११ देवास का सोलंकी सारंग की पुत्री व १२ पटराणी संजोगता, इस मुआफिक राजमहल में राणीयां थीं.

इस विषय में देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में कुछ ज्यादाह खुलासा से पृथ्वीराज की राणीयां के नामों का उल्लेख हुआ है, जिसमें सोलह राणी होना पाया जाता है उसमें लिखा है कि—

×

×

×

×

१ पृथ्वीराज की पटराणी पडिहारी पडिहार मंडोवर के राव नाहरसिंग की बेटी जतन कुंवर.

२ दूसरी राणी राव आलहण की बेटी इच्छनी पवार गढ आबु की.

३ तीजी राणी सोलंकी गढ देलवाडा का सोलंकी रामसिंह की बेटी प्रताप कुंवर.

४ चौथी राणी दाहमी राव दाहड नागोर की बेटी सूरज कुंवर.

५ पांचवी गोट हमीर सूरसोपुर ( पूरव में जयपुर पास ) की बेटी ज्ञान कुंवर.

- ६ छट्टी राणी बड गुजर राजोल के राव रामसिंग की बेटी नन्दनकुंवर.
- ७ सातवीं राणी जादव गढ समतशिखर के पदमसिंग की बेटी पद्मावती.
- ८ आठवीं राणी सिसोदणी राणा धनक की बेटी कुंवरदे जिसके कुंवर 'रेणसीजी' व सामन्तसिंह.
- ९ नवमी राणी कच्छवाह पुजनराव गढ नरवर की बेटी जसकुंवर जिसके बेटे बलभद्र व भरत.
- १० दशवी पडिहार मंडोवर के चंद्रसेन की बेटी चंद्रकुंवर.
- ११ ग्यारहवी राठोर जेतसिंह गढहंसहंसावल ( पुरब में ) की शशीवृता.
- १२ बारहवी सोलंकी सारंगदेव गढ देवास की चंदाकुंवर.
- १३ तेरहवी राणी बेस डुडिया खेडा (पुरब में) के राजा उदियासिंग की बेटी रतनकुंवर.
- १४ चउदवी सोलंकी मानसिंग अनहिलपुर पाटण की बेटी सूरजकुंवर.
- १५ पंदरहवी मकवाणी करोटीगढ के राव कान्हडदेव की बेटी प्रतापकुंवर.
- १६ सोलहवी राठोर राजा जयचंद कन्नोज की बेटी संयोगता.

उपर्युक्त नाम ठाम देखते पाया जाता है कि यह नामावली सम्पूर्ण और विश्वास पात्र है क्यों कि उसके साथ पृथ्वीराज रासा में जो जो राणीयों के नाम उपलब्ध होते हैं वे नाम और उपरोक्त कवित्त में आये हुए नाम भी मिलते हैं.

पृथ्वीराज की बहिन पृथादेवी का विवाह चितौड़ का राव समरसिंह के साथ होने का जगह २ उल्लेख हुआ है, और उस प्रसंग को रासा में कविने विस्तार से लिखा है. परन्तु इतिहास वेत्ताओं का यह मत है कि उस समयमें ( वि. सं. १२२६ से १२४९ तक में ) चितौड़ में समरसिंह नाम का राजा नहीं था, इसका प्रत्युत्तर दूसरे विद्वानों ने दिया है. जिससे इस पुस्तक में ज्यादा दलील करने की आवश्यकता नहीं है.

इस प्रकरण में लिखा हुआ कवित्त से पाया जाता है कि पृथ्वीराज के बलभद्र व भरत नाम के दो पुत्र थे, और बडुआ की पुस्तक मुआफिक १ रयणसिंह २ सामन्तसिंह ३ बलभद्र व ४ भरत, यह चार पुत्र होना पाया जाता है. वंशभास्कर की पुस्तक में १ चंडासी उर्फ रत्नसिंह (रयणसिंह) व २ सामतसिंह नाम के दो पुत्र होना लिखा है. सूर्जनचरित्र की पुस्तक में पृथ्वीराज के बाद 'प्रह्लाद' होना अंकित हुआ है. पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में कुमार रत्नसिंह ( रयणसी ) ने पृथ्वीराज का देहान्त होने पर बड़ी वीरता से शाखा करके क.म आने का उल्लेख हुआ है. उपर्युक्त नामों में प्रह्लाद का नाम सूर्जनचरित्र की पुस्तक के सिवाय दूसरी किसी प्रति में उपलब्ध नहीं होता है. सूर्जनचरित्रसे माणकराव के पहिले का जो वंशवृक्ष उपलब्ध होता है वह विश्वास पात्र होना पाया

नहीं गया है जिससे पृथ्वीराज के पुत्र १ रत्नसिंह, २ सामन्तसिंह, ३ बलभद्र व ४ भरत होंगे वैसे अनुमान होता है.

पृथ्वीराज के भाई हरिराज होना ऐतिहासिक प्रमाणों से मान्य हुआ है, और पृथ्वीराज के पुत्र गोंविंदराज होने का भी कहा जाता है. बडुआ की पुस्तक में इनका भाई कोकसकुमार होनेका उल्लेख है जो मुसलमान हो गया था. पृथ्वीराज की ओलाद के विषय में 'रणथंभोर' के चौहानों की ख्यात प्रकरण ७ वां में लिखी गई है.

इस महान् व प्रभावशाली राजा के वास्ते जितना लिखा जाय वह कम है. इसकी वीरता के वास्ते 'पृथ्वीराज रासा' की पुस्तक में कविने जो श्रम उठाया है वैसे श्रम किसी कविने औरों के वास्ते नहीं उठाया है. पृथ्वीराज के इतिहास में मुख्य बात यह है के उसने अपना पिता सोमेश्वर के घातक राजा भीमदेव को मार कर आबु के राजा की रक्षा की. उसके सामन्त ऐसे वीर पुरुष थे कि उन्होंने कई बार मुसलमानों का पराजय करके शहाबुद्दीन गोरी को पकड लिया था. राज्य खटपट के कारण से उनके सामन्तों में आपस में द्रोह पैदा हुआ जिससे विग्रह बढ़ते रहे. अनेक राणीयां होने से पृथ्वीराज ने जनाने का सहवास बढ़ा दिया. कन्नोज के राठौड राजा जयचंद के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से उसने यह महान् राजाका अपमान करने के वास्ते अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में इनको द्वारपाल के स्थान पर नियत किया. पृथ्वीराज ने उसका बदला लेनेको संयोगिता का हरण किया, और इस कारण से जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज के बड़े बड़े सामन्त काम आ जाने से चौहानों के सैनिक बल में क्षिणता हुई. सफलता प्राप्त न होने से कन्नोज के राजा ने गोरी सुलतान के साथ मेलझोल किया. राठौड कन्या संयोगिता के प्रेमपाश में वीरपुत्र ऐसा बंदीवान बनकर जनाने में बैठा कि उसने राजकाज का त्याग किया इतना ही नहीं, परन्तु दुश्मन की फौजने राज्य की सिमा में प्रवेश किया वहां तक उसकी फिकर न की. संयोगिता ने राजा के कान पर कोई भी समाचार जान न पावे वैसे बंदोबस्त करने से उनके सामन्त निराश हो गये. आखिर काका कान्ह, चंद बरदाई, और दूसरे दो सामन्तोंने मंत्रणा कर बड़ी मुश्किल से पृथ्वीराज की मुलाकात ली. ( इस समय का प्राचीन चीत्र जिसमें वे पांचों की तसबोरें खींची हुई है वह इस पुस्तक में दीया गया है. ) वीर राजपुत्र की आंखे इस मुलाकात से खुल गई. उसने संयोगिता को कुच्छ ठपका भी दिया और कुच्छ पश्चाताप भी किया. हथियार धारण कर के वह दुश्मन के सामने गया, परन्तु यह घटना होने के पहिले ही इनके सब सामन्त काम आ चूके थे. होणहार मिथ्या नहीं हो सकता है. गग्गर नदी के तट पर अंतिम युद्ध हुआ, उसमें वह पकडा गया और \*शहाबुद्दीन

\* शहाबुद्दीन गोरी के विषय में यह दंत कथा प्रसिद्धि में है कि—देहली का तंवर अनंगपाळ की राणी गर्भवती थी, जब कि सन्तान प्रसुति का समय हुआ तब पृथ्वीराज की माता ( जो अनंगपाळ की पुत्री थी ) वहां विद्यमान थी उसने चालाकी से प्रसव हुआ पुत्र की जगह पुत्री रत्न दी और पुत्र को गोर में दफन करने के वास्ते कन्नस्थान में भेजवा दिया. दासी उस बालक

ने उसको वहां ही मार डाला. अन्य मत से शहाबुद्दीन व. पृथ्वीराज दोनों उसी युद्ध में काम आनेका कहा जाता है.

संयोगिता के विषय में कहा जाता है कि उसने पति विरह होने से मर्दानी कपडे पहिन कर शस्त्र हाथ में धारण करके घोर युद्ध किया और रणक्षेत्र में ही काम आ गई. 'कान्हडदे प्रबंध' नाम की पुस्तक में जालोर के वीरमदेव सोनगरा की पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया है उसमें लिखा है कि—वह अगले जन्म में पृथ्वीराज था, और अलाउद्दीन खिलजी की शाहजादी 'सिताई' अगले जन्म में पृथ्वीराज की राणी 'पद्मावती' नामक थी. पद्मावती ने पृथ्वीराज को मंत्र प्रयोग से कामण करके अपने प्रेमपाश में लुब्ध कर रक्खा, जिससे पृथ्वीराज के बहुत सामन्त मारे गये. इस विषय में कवि पद्मनाभ कहता है कि.

“ सोमेश्वर घर छोड़ी वार, लीधो पृथ्वीराज अवतार. पाव्हण ने घेर हुं पछी फरी, पद्मावती नामे अवतरी. ”

“ ते जन्मे दुष्कृत आचर्युं, गाय विणासी कामण कर्युं. साध्यो मंत्र गर्भे गायने, चित्त विकार थयो रायने. ”

“ राय कर्या वश लोपी लाज, हण्या प्रधान भोगवियुं राज. शाहबुद्दीन सुलताने सून्यो, पति घाघरने तीरे हण्यो. ”

उपर्युक्त कविता से पाया जाता है कि राणी पद्मावती के प्रेम पाश में पहिले से ही पृथ्वीराज मुग्ध होकर उसके वश हो चूका था और उस समय में पद्मावती की खटपट से इनके बहुत सामन्त मारे गये. पीछे से संयोगिता का हरण होने बाद नये भोगविलास में राजा जकड गया. पाया जाता है कि हद से ज्यादाह भोगविलास में पड जाने से ही दुश्मन को मौका प्राप्त हुआ और देहली के तरुत पर चौहान वंश का अस्त हुआ.

( नोट )—पृथ्वीराज का देहान्त वि. सं. १२४९ में होने का उल्लेख हुआ है, उस मुताबिक उन के राज्य अमल का समय १३ वर्ष का होना मालूम होता है, परन्तु एक +हस्त लिखित प्रति, जिसमें देहली की गद्दी पर जो जो चौहान वंशी राजा हुए हैं उन के नाम व राज्य करने के वर्षों की संख्या दी है, उसमें पृथ्वीराज ने देहली की गद्दी पर १८ वर्ष २ मास १ दिन १३ घड़ी राज्य करने का उल्लेख किया है. पाया जाता है कि वह गलत है या सोमेश्वर के समय में पृथ्वीराज देहली रहते थे उस समय को शामिल गिन कर यह वर्ष बतलाये है.

को जिन्दा कबरस्थान में छोड आई जो एक मुसलमान फकीर के हाथ चढा, उसने उस बालक की परवरस की और गोर में से प्राप्त होने के कारण उसका नाम शहाबुद्दीन गोरी रक्खा. फकीर ने इस बालक के माता पिता का पत्ता लगाते वह रानकुमार होना पाया गया, जिससे देहली छोड कर वह लाहोर गया. जब कि शहाबुद्दीन बडा हुआ तब फकीर ने उस को पूर्व घटना से वाकिफ किया. शहाबुद्दीन ने अपने पराक्रम से गिजनी व पंजाब आदि जीत लिये और देहली की गद्दी अपनी होने से वह लेने के वास्ते आक्रमण च्लु रक्खे. पृथ्वीराज को यह घटना मालूम थी जिससे उसका घात नहीं करते सात दफे पकड २ कर छोड दिया था.

+ इस प्रति में देहली की गद्दी पर चौहान वंशी राजाओं के नाम में १ विशलदेव चौहान, २ गंगेव, ३ पहाडमल, ४ सोमसी, ५ साहड, ६ नागदेव ७ पृथ्वीराज चौहान. इस मुआफिक नाम अंकित हुए है.

देहली की गद्दी पर अंतिम हिन्दु राजा पृथ्वीराज चौहान होने का इतिहास में प्रसिद्ध है. परन्तु प्राचीन समय की उपलब्ध होती ✽राजावली की हस्त लिखित प्रतियों में व मूता नेणसी की ख्यात में दी हुई राजावली से उपलब्ध होता है कि पृथ्वीराज के बाद देहली की गद्दी पर चार या पांच हिन्दु राजा और भी हुए हैं.

वलीराम मुंशी की राजावली से उपलब्ध होता है कि "देहली में जीवनसिंघ नाम का राजा था वह बहार मुसाफरी जाने से मेवात का राजा राई पीथोरा ने फौज लाकर युद्ध करके देहली पर कब्जा किया." तब मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध होती राजावली में लिखा है "कि देहली की गद्दी पर 'सक्रमाथो' नामक राजा था उसको मार कर हरिसिंघने राज ले लिया. हरिसिंघ के वंश में सातवीं पुत्र पर 'पीथोरा' हुआ." दोनों राजावली से देहली की गद्दी पर पीथोरा व उनके पीछे कौन २ राजा हुए वह नीचे अंकित किया जाता है.

१ मुंशी वलीराम की राजावली मुआफिक.

नाम.	वर्ष.	मास.	दिन.
१ राजा पीथोरा.	१०	— २	— ९
२ राजा अभयमल.	१४	— ५	— १७
३ राजा दुरजनमल.	११	— ४	— १४
४ राजा उदेमल.	१३	— ७	— १३
५ राजा जयमल	३६	— ४	— १९

अंतिम राजा जयमल को शहाबुद्दीन गौरी ने किले टांकी में से पकड़ लिया और गाम घाघर में मार डाला और आप कसबा जीव में तखत पे बैठा.

२ मूता नेणसी की ख्यात में दी हुई राजावली मुताबिक.

नाम.	वर्ष.	मास.
१२३ पीथोराव.	१०	— २
१२४ अभेमल.	१४	— ५
१२५ दूर्जनमल.	२५	— ४
१२७ विजयमल.	३६	— ७
१२८ राजा सुलतान सांगो.३२	—	— ३

इनके बाद नं. ११९ सुलतान कुतुबुद्दीन देहली की गद्दी पर बैठा.

उपरकी दोनों राजावली में लिखी हुई ख्यात आज पहिलें प्रसिद्ध में आई हुई ख्यातों से विरुद्ध पाई जाती है, परन्तु उसमें कुछ भी ऐतिहासिक रहस्य होनेका संभव होने से भविष्य में नई बात जाहिर में आ जाय तो उससे मुकाबला करने का मौका रहे इस ख्यालसे उनको नुंद की गई है.



\* यह राजावलीओं में युधिष्ठिर से लगा कर मुसलमान बादशाहों तक का नाम और राज्य करने का वर्षों की संख्या दी गई है. जिसमें मुंशी वलीराम की राजावली मुताबिक युधिष्ठिर से समुद्रपाल तक के राजाओं का राज्य ७० पुत्रों में वर्ष २०४० व मूता नेणसी की ख्यात की राजावली मुआफिक समुद्रपाद तक में पुत्र ६८ और वर्ष २९३१ मास १० दिन १५ होता है.

## प्रकरण ७ वाँ.

### ‘रणथंभोर के चौहान.’

महान् पृथ्वीराज के वंशजो ने बाद में ‘रणथंभोर’ में अपना राज स्थापन किया. उस विषय के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन रणथंभोर के चौहान शाखा की ओलाद वर्तमान समय में कहां है. इसका निर्णय अबतक नहीं किया गया. सूर्जन-चरित्र के ग्रंथानुसार महान् पृथ्वीराज का भाई ‘माणकराज’ था, जिसकी ओलाद में रणथंभोर का ‘हमीरहठीला’ हुआ व उसके वंशजों में ही बूँदी का राज्य स्थापन करनेवाला ‘बाघसिंह’ हाडा हुआ ऐसा उल्लेख किया है तथा छोटाउदयपुर व बारीया ( जो रेवाकांठा में है. ) के चौहान राजाओं के इतिहास में भी उनको रणथंभोर के ‘हमीरहठीला’ की ओलाद वाले होना बताये हैं.

वंशभास्कर ग्रंथ में रणथंभोर के चौहानों को महान् पृथ्वीराज के वंशज होने का स्वीकार किया गया है और हमीरहठीला का पुत्र रत्नसिंह था उसको चितौड़ भेज दिया ऐसा उल्लेख है. हमीर महाकाव्य में ‘हमीरहठीला’ पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होना अंकित हुआ है. सिरौही के बडुआ की पुस्तक में रणथंभोर के चौहानों को पृथ्वीराज के काका ‘सूरसेन’ की ओलाद वाले होना बताये हैं. मेओ कॉलेज के (फेब्रुआरी सन् १९१३ इस्वी) के मासिक में शिलालेख के आधार से जो इतिहास प्रकट हुआ है उसमें लिखा है कि ‘पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज ने महमूदगोरी की ताबेदारी स्वीकार किया जिससे इसके काका हरिराज जो अजमेर में था उसने गोविन्दराज पर चढाई की जिससे वह रणथंभोर भाग गया. गोविन्दराज की ओलाद में ‘हमीरहठीला’ हुआ जिसने ई. सन १३०१ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया.’ इससे पाया जाता है कि रणथंभोर के चौहान पृथ्वीराज के वंशज थे.

रणथंभोर के चौहानों का बाद में राज्य कहां २ रहा और वर्तमान समय में उनकी ओलाद कहां २ है, उसका निर्णय पीछेसे होगा. क्यों कि ‘हिन्द राजस्थान’ व रेवाकांठा डायरेक्टरी वगैरह छपी हुई पुस्तकों में पावागढ के चौहानों को रणथंभोर के ‘हमीरहठीला’ की ओलाद वाले होने का जगह २ लिखा है, साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि वह ‘खीची चौहान’ थे, बल्कि पृथ्वीराज को भी ‘खीची चौहान’ होने का उक्त पुस्तकों में बताया गया है. पृथ्वीराज खीची शाखा के होना दूसरे किसी ग्रंथों में या भाट चारणों की पुस्तकों से पाया नहीं जाता है.

मूता नेणसी की ख्यात म खीची चौहानों की शाखा जहां से विभक्त हुई है उस विषयमें विस्तार से विवेचन हुआ है. ( जो अहवाल खीचीचौहानों के प्रकरणों में लिखा गया है. ) उस प्रमाण से खीचीशाखा नाडोल के चौहानों से अलग हुई है, बल्कि पृथ्वीराज के समय में 'गूँदलराय' नामक खीची पृथ्वीराज का सामन्त था, उस पर पृथ्वीराज का कोप होने से वह अपनी 'भदोर' की जागीर छोड़ कर मालवे में भाग गया. खीचीचौहानों का गढगागरून से तालुक इसी गूँदलराय से शुरु हुआ है, इन सूरतों में रणथंभोर के हमीरहठीला को 'खीची' होना बताया है यह बात शंका स्पद है.

उपर्युक्त ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि पृथ्वीराज के पीछे उनकी ओलाद वालोंका राज रणथंभोर में था और उसके वंश वृक्ष के वास्ते प्राचीन साहित्यों से कोन २ नाम उपलब्ध होते हैं वह नीचे लिखा गया है.

१ सूर्जनचरित्र की पुस्तक से.

- १ महान् पृथ्वीराज
- २ प्रल्हाद
- ३ गोविन्दराज
- ४ नारायण
- ५ जैत्रसिंह
- ६ हमीरराज

२ 'साहित्य' नाम के गुजराती मासिक में पावागढ के चौहानों निसवत लेख लिखा था उस पर से.

- १ महान् पृथ्वीराज
- २ गोविन्द उर्फ राजह्ले
- ३ प्रल्हाद
- ४ वीरनारायण
- ३ वागभट्ट उर्फ वाहड
- ४ जैत्रसिंह
- ५ हमीर
- ६ रामदेव (गुजरात गया)

३ वंशभास्कर की पुस्तक से.

- १ महान् पृथ्वीराज
- २ चंडासी उर्फ रत्नसिंह
- ३ सामन्तसिंह
- ४ जयमल
- ५ सोमराज
- ६ सूरराज
- ७ जैतराय (रणथंभोर)
- ८ हमीर
- ९ रत्नसिंह (निनौड भेजा गया)
- ३ रणधीर (छाणीडुर्ग)
- ४ जल्हन


४ पूर्विये चौहानों की ख्यात से रणथंभोर के चौहान सांभर की शाखा के नं. ३० कान्हडदेव की ओलाद में हेना बताया है यानी

- १ कान्हडदेव ( इटोला )
- २ भोमविजय ( इटोला )
- ३ लखनसिंह
- ४ गोपालदेव
- ५ पदमसी
- ६ वीरसेन (रणथंभोर)
- ७ सूरसेन
- ८ जैतराय
- ९ हमीर

५ सिरोहीके बडुआ की पुस्तकमें महान् पृथ्वीराज का काका सूरसेन होना व सूरसेन के बाद जेतराव व उसका पुत्र हमीरहठीला होना अंकित हुआ है.

उपर्युक्त अलग २ प्रमाणोंके ऐतिहासिक साहित्योंका मिश्रण करते रणथंभोरके चौहानों का वंश वृक्ष नीचे मुआफिक होना ठीक रहेगा. ( जो कि यह लिखा हुआ वंश वृक्ष शंकास्पद और अपूर्ण है. )

१ पृथ्वीराज ( देहली )



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. ३ गोविन्दराज के विषयमें (फ्रेब्रुआरी सन १९१३ के मेयोकोलेज के मासिक के पृष्ठ १४ से १७ तक में चौहानोंके विषयमें लेख छपा है उसमें.) लिखा है कि इसने महमूदगोरीकी आधिनाताका स्वीकार करने से इसका काका हरिराज जो अजमेर था वह नाखुश हुआ और इस पर चढाई की, जिससे यह रणथंभोर भाग गया. पाया जाता है कि सामन्तसिंह का दूसरा नाम गोविन्दराज हो या गोविन्दराज सामन्तसिंह का पुत्र हो. क्यों कि वंशभास्कर में सामन्तसिंह की ओलाद रणथंभोर में होनेका उल्लेख हुआ है-

नं. ४ बालहनदेवका नाम रणथंभोरमें वि. स. १२७२ के शिलालेखमें होना प्रसिद्धिमें आया है.

नं. ५ प्रल्हाददेव के वास्ते सूर्जनचरित्र की पुस्तक में लिखा है कि यह गोविन्दराज का पिता था, लेकिन पावागढ के चौहानों के इतिहास के वास्ते एशिआटिक सोसायटी के लेखानुसार ( बडोदे में छपे हुए 'साहित्य' नामक मासिक में लेख प्रसिद्ध हुआ है उसमें ) यह गोविन्दराज का पुत्र होना माना गया है.

नं. ६ वीरनारायण का नाम 'नारायण' होना भी उपलब्ध होता ह. इसके हाथ से



रणथंभोर चला गया था लेकिन इसका काका नं. ५ वागभटने रणथंभोर पुनः प्राप्त किया.

नं. ६ जैत्रसिंह का नाम हरएक पुस्तक में उपलब्ध हुआ है. इसके समय में देहली के सुलतान जलालुद्दीनने दो दफे रणथंभोर पर हमले किये लेकिन विजय प्राप्त नहीं हुआ था.

नं. ७ हमीरहठीला—की प्रशंसा के वास्ते हमीर महाकाव्य, हमीररासा आदि स्वतंत्र पुस्तकें और बहुतसे गीत कवित उपलब्ध होते हैं. पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों के पराक्रमको प्रकाशित करने वाला यही वीरपुरुष हुआ था. इसने 'मीर गाभरु' नामक मुसलमान सरदार जो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से नाखुश होकर वगावत कर रहा था, उसको आश्रय देकर शरणमें रखा. अलाउद्दीन को वह मालूम होने पर उसको देहली भेज देनेका हमीरसिंह को कहलाया गया. हमीरसिंहने 'शरणागत का विरद' पालन करने के वास्ते उसको नहीं सौंपा. बादशाहने अपने वजीर को भेजकर हमीरसिंह को कई प्रकार की लालचें दी. वजीरने साम, दाम व भेद से इसको समजाया परन्तु सफलता न होने से वह चला गया, जिस पर शाही फौजने रणथंभोर पर चढाई की. हमीरहठीलाने युद्ध करके कई बार बादशाही फौज को हराकर वापस निकाल दी, लेकिन बादशाह ने इसका पीछा नहीं छोडा. हमीरहठीला एक समय रणथंभोर से गैरहाजिर होने की खबर मिलने से बादशाहने अचानक रणथंभोर पर हमला किया, उस समय रणवीरसिंह नामके सेनापतिने (हमीरहठीला का काका होता था उसने) हमीरसिंह का पुत्र 'रत्नसिंह' जो बालक था उसको चितौड़ भेज कर शाही फौज के साथ युद्ध करना शुरु किया. शाही फौज रणथंभोर आने की खबर मिलने पर हमीरहठीला भी युद्ध में शामिल हुआ.

'हमीर रासा' नामक हस्तलिखित पुस्तकमें लिखा है कि रणवीरसिंह ने केशरिया करने की तैयारी करके जनाने वालों को सूचना की थी कि जबतक चौहानों की ध्वजा फरकती हुई मालूम होवे वहां तक खडके हुए झमर में प्रवेश नहीं करना. लेकिन युद्ध में राजपुतों को विजय प्राप्त होने पर भी राणीयोंने जुहार करके अग्नि प्रवेश कर दिया, जिसका कारण यह बताया है कि राजपुतों ने ऐसी वीरता से युद्ध किया कि शाही फौज अपना डंका निशान छोडकर भाग गई, जिसे कब्ज में लेकर राजपुतों ने विजय चिन्ह स्मारक (शाही झंडा) आगे रख कर किले के तरफ प्रयाण किया. किले पर उपस्थित रहे नजरवाजों ने शाही झंडा आगे देख कर मुसलमानों की फतह होना व राजपुतों का पराजय होना मान लिया, व जनानें में खबर दी, जो सून कर सब राणीयों ने अग्नि प्रवेश किया. जब कि हमीर किले पर पहुंचा तब वह भयंकर घटना देखकर उसको बैरान्य पैदा हुआ. उसने शंकर के लिंग पर अपना शिर काट कर कमल पूजा की. अन्य मत से ऐसा कहा जाता





शौजूदा रावजी साहब वेदला (मेवाड)



राय बहादुर रावजी नहारमिंह साहब  
ठिकाना वेदला, (मेवाड).



है कि 'मीरगाभरु' व हमीर हठीलाने शाही फौज से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें वे काम आये.

मूतानेणसी की ख्यात में रणथंभोर के चौहानों का इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु सोनगरा चौहानों के इतिहास में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो मुसलमान सरदार ममुशाह व मीरगाभरु नामक थे, उन पर बादशाहने ईतराजी बता कर अपमान करने से वे नाखुश रहते थे. जब कि जालोर के राव कान्हडदेव सोनगराने सोमैया महादेव छोडाने के वास्ते 'सकराना' गांव के पास शाही फौज से मुकाबला किया तब यह दोनों मुसलमान सरदार राव कान्हडदेव के पक्ष में रहे, परन्तु उनके पास 'धारु पातरियां' थी जो सोनगरने मांगी, जिससे वे दोनों हमीरहठीला को शरण आये. हमीरने शाही बागी होना मालूम हो जाने पर भी उनको अपने पास रखे जिससे अलाउद्दीनने रणथंभोरपर घेरा डाला. कई दिन तक घेरा रहा, पीछे वि. सं. १३५२ श्रावण वदि ५ के दिन हमीर युद्ध में काम आया. लेकिन उक्त पुस्तकमें अलाउद्दीनने कौन २ किले कब लिये उसकी नुंद में लिखा है कि "रणथंभोर का किला वि. सं. १३५८ में हमीरदेव चौहान के हाथ से लिया गया." यह १३५८ का संबत् विश्वासपात्र है, क्यों कि इसी सन १३०१ ( वि. सं. १३५७-५८ ) में हमीरहठीलाने अलाउद्दीन खिलजीके साथ युद्ध करने का उल्लेख शिलालेख में भी हुआ है.

हमीरहठीलाकी प्रशंसामें हिन्दी व गुजराती भाषामें भी उपन्यास लिखे गये हैं. भाट चारणोंने उसकी नेक टेक व हठीलापन के अनेक गीत कवित्त रचकर उसका नाम अमर रखा है. इसकी हठ के विषय में कविने कहा है कि.

" कागन वाघन केल, फलंतो एक वार; त्रिया तेल हमीर हठ चढे न दुजी वार. "

इसकी वीरता और दृढ प्रतिज्ञा के विषय में कवि कहता है कि.

" सात समुद्र नवनों नदी, तिसमें मेरा शिर; हठ चाहू बादशाह की, निरभय लडो हमीर "

इस छोटेसे दोहे में कविने इसका आत्मज्ञान और दुनियादारी में आवश्यक क्षत्री-वट के विषयमें सम्पूर्ण विवेचन किया है. हमीरहठीलाने मुसलमान सरदार को शरणांगन रख कर अपना बचन पूर्ण करने के वास्ते बादशाह से शत्रुवट करके रणथंभोर के किल के साथ अपनी जान गुमा दी लेकिन हठ न छोड़ी. इसी घटना का अनुकरण कर के दश वर्ष के बाद जालोर के सोनगरा चौहान राव कान्हडदेव व वीरमदेवने चौहानों की कीर्ति में और प्रकाश डाला, जिसका अहवाल 'सोनगरा चौहान' के प्रकरणों में लिखा गया है.

नं. ८ रत्नसिंह मेवाड भेजा गया था. उसने मेवाड के राणा की सेवा स्वीकार ली. जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में बेरला, कोठारिया व पारसोली ठिकाणे के 'राव' है, जो मेवाड के प्रथम श्रेणी ( सोले सामन्त ) के सामन्त गिने जाते है.



## प्रकरण ८ वा.


### पूर्विये चौहानों का इतिहास.

सांभर के वंशवृक्ष में नं. ३० कान्हडदेव (जो काका कान्ह के नाम से मशहूर था.) उस से पूर्विया चौहानों की शाखा अलग हुई है. वर्तमान समय में इस शाखा का खास बड़ा राज्यस्थान नहीं है, परन्तु नीमराणा (अलवर रियासत में पूर्विया चौहानों की एक बड़ी जागीर है जो 'राजा' कहलाते हैं.) के राजा की ख्यात से इनका इतिहास उपलब्ध होता है. उक्त ख्यातसे पूर्विये चौहानों का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है:

वंश वृक्ष पूर्विये चौहान. ( पूर्व के )


१ कान्हडदेव ( संमल व इटोला )

२ भोमविजय ( इटोला )



नं. ४. राणासिंघ के बाकीस पुत्रों में १ वीर समोर को इटावा, २ भृहदेव को रमोरदा, ३ त्रिलोक ४ भृमपद्र व ५ कल्याण यह तीनों को 'जनहुस.' ६ अजेगन को चेडडुस, ७ अजेमल को 'श्रीमाल चंडडस', ८ तारा को तडडीशा, ९ विनयराज को किलेहांसी, १० त्रिलोकचंद को जरतोला, ११ बुद्धसिंह १२ सूरजसिंह व १३ माधो यह तीनों को 'कालापहार', १४ जलदेव व १५ चंद्रदेव दोनों को लालसोढ, (जयपुर के पास.) १६ वीरमचंद को कमाऊ, (तेहरीगढवाड पास.) १७ वीरमदेव १८ हरसदेव व १९ रामदेव ये तीनों को 'सौखरी' ( पूर्व में. ) २० सहसमल को 'बावल' ( वीधाजा में ) २१ जोगसिंह को ' इसराणा कपुरी ' इस मुआफिक जागीरें मिली थी.

नं. ६ अंजनदेव की राणी सीसोदणी शिवकुंवर राणाकुंभा की पुत्री थी. व इसकी पुत्री कान्हकुंवरी का विवाह चितौड के राणा ' मांगा ' के साथ हुआ था.



पूर्विये चौहानों के संक्षिप्त इतिहासमें नं. १ कान्हडदेव बड़ा वीर पुरुष हुआ. उसने गग्गर के युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ कर पृथ्वीराज के आगे खड़ा किया था, और दूसरी बहुतसी लड़ाईयों में प्रराक्रम दिखाने की प्रशंसायुक्त तवारिख पृथ्वीराज रासा नामक पुस्तकमें व दूसरे इतिहासों से भी पाई जाती है. महान् पृथ्वीराज का यह दाहिना हाथ गिना जाता था. इसकी तरफ 'संमल मुरादाबाद' भी था, वहां पर इसने कई क्रोड रुपये लगाकर सारणेश्वर महादेव की स्थापना करने के वास्ते सुवर्ण मन्दिर बनाया, परन्तु उसमें प्रतिष्ठा होने न पाई, जो मन्दिर वर्तमान समय में भी वहां विद्यमान है. इसकी पुत्री 'बेलोन कुंवर' महासती हुई. जो 'बेला भवानी' के नामसे

नं. १० धीरदेव के दूसरे अठारह पुत्रों में १ खेतसिंह को ४९ गांवों के साथ 'रताई', २ जेतसिंह को 'फांखरी', ३ अजेराज को 'भोरखेडा', ४ जगशाह को 'पूनरौड', ५ दलसिंह को 'भदीन', ६ मोहनसिंह को 'कूल', ७ हाथीराम को 'आतेला झाझरा', ८ पांचा को 'पहाडी', ९ महरसी को 'धमारी', १० बाघसिंह को 'वसई', ११ चंद्रसिंह व १२ भोजराज दोनों को 'महापुर', १३ देवपाल को 'बाणापुर', १४ गिरराज को 'गिरराजपुर' की जागीर ही. ( जो 'अलीगढ' व 'बुलंदशहर' के मिले में है.) १५ विजयसिंह १६ भूरराज, १७ कातर व १८ कल्याण यह चारों नाओलाह गुजर गये थे.

नं १४ हालादेव के समय में 'मडावर' पर तैमूर्लींग बादशाहने हमला कर के मडावर छीन लिया, जो बाद में इनका पुत्र नं. १५ हांसा मुसलमान हुआ उसके तरफ मडावर रहा. हंसा को 'राव' की पदवी मिली. जीससे मडावर के मुसलमान चौहान कहलाये. नं १५ निहालसिंह भी मुसलमान हो गया, जिसको 'सिलगांव' की जागीर मिली.

नं. १५ राजा राघोसिंह ने 'नीमराणा' का राज्य संपादन किया. नं. १५ कामपदेव को 'बडोद' की जागीर व 'राणा' का पद प्राप्त हुआ. नं. १५ तेजसिंह व नं. १५ रुद्रसिंह को 'बडाली' की जागीर व नं. १५ भोजराज को 'पहासर' की जागीर मिली.

\* यह 'बडमूछा' था जिससे इसके सामने दूतग कोई अपनी मूर्छों पर हाथ डालने से यह बहुत गुस्से होता था. इसी का ण इसने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के भतीजे जो चौहानों के शरणे आये थे उनको मार डाले थे, जिससे महान् पृथ्वीराजने नाखुश होकर इनको अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का हुकम दिया था.


मराहुर है, और उस स्थान पर हरसाल हजारों यात्रालुं उसके दर्शन पूजन के वास्ते आते हैं. पृथ्वीराज के हाथसे देहली जाने बाद भी पूर्व में विस्तर प्रदेश कान्हडदेव की ओलाद वालों के पास रहना पाया है.

नं. २ से नं. १५ तक के राणाओं का संक्षिप्त इतिहास वंशवृक्ष में अंकित किया गया है, जिससे मालूम होगा कि इनकी ओलाद को कहां कहां जागीरें मिली थी. वर्तमान समय में पूर्विया चौहानों में मकराणा, व नीमराणा नाम की जागीरें मुख्य हैं.

नं. १५ राजा राघोसिंह ने देहली जाकर बादशाह तैमूलींग की सेवा स्वीकार ली. जब कि तैमूलींग की साथ 'हरई' के बादशाह की लडाई हुई, तब इसने बड़ी वीरता के साथ 'हरई' के बादशाह की सवारी के हाथी को तलवार से मार कर उसको पकड लिया जिससे तैमूलींग ने खुश होकर राघोसिंह को 'नीमराणा' का राज्य दिया, और 'राजा' का खिताब इनायत किया. यह राज्य पीछे से अलवर रियासत की मातहत में चला गया. 'नीमराणा' राज्य के राजाओं की वंशावली नीचे मुआफिक है.

### २ वंश वृक्ष नीमराणा के पूर्विया चौहान.


१ राजा राघोसिंह (देखो पूर्विये चौहानों का वंश वृक्ष में नं १५ वाला नीमराणा. वि. सं. १५२१ में पाट बैठा).



नं. १ राजा राघोसिंह वि. सं. १५२१ में गद्दी पर बैठा. इसकी एक राणी राठौर छांडा की पुत्री दाढमदे, दूसरी नितौड का राणा चुंडा की पुत्री शिवकुंवर, तीसरी राठौर वीका वीकानेर वाडा की पुत्री मानकुंवर, चौथी राजा नारायणदास की पुत्री भावकुंवर, व पांचवी नरु का अखेसिंह की पोती धनकुंवर थी.

नं. ४ नरुदेव की एक राणी जोषपुर के राव गांगा की पुत्री शिवकुंवर थी.

नं. ७ हुंगरसिंह की राणीयां में एक कीरोली के यादव अर्जूनपाल की पुत्री सूरजकुंवर, व एक जोषपुर के राठौर राजा गोविन्ददास की पुत्री हरसवदेवी थी.



नं. ८ खड्गसिंह की एक राणी पुंगल के भाटी रावल खेतसिंह की पुत्री डमकुंवरी व दूसरी राणी विकानेर के प्रतापसिंह की पुत्री बनेकुंवरी और तीसरी खुजणावर के राजा देवकरण की पुत्री थी.

नं. १४ चतरसिंहने चतुर्भुजजी का मन्दिर बंधाया. नं. १५ टोडरमलने अपनी राणी 'नरू' की कृष्णकुंवर की यादगार में 'कृष्णकुंड' बनाया.

नं. १६ महासिंहने कालीया पर्वत पर कालेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा कराई, और 'सिद्धनाथ' महादेव का मन्दिर बनाया. नीमराणा में वावडी बंधाई और 'बेलनी' की धाटी बंधा कर 'भेरू' की स्थापना की, जिन कार्यों में १३०००० एक लाख तीस हजार रुपये खर्च किये. इसकी बहिन अखेकुंवर का विवाह जोधपुर के राजा अजीतसिंह के साथ किया गया. इस राजा को 'नवनंदसिंह' व 'चतरसाल' नाम के दो कुंवर थे, वे कुंवरपदपर ही गुजर जाने से 'वसई' के ठाकोर लालसिंह के पुत्र 'चंद्रभाण' को गोद लिया.

नोट—नीमराणा की वंशावली का हस्त लिखित पुस्तक, सिरोही राज्य के पुस्तक भंडार से प्राप्त हुआ, उस परसे पूर्विया चौहानों का वंशवृक्ष अंकित किया है. उक्त पुस्तक में चौहानों की प्राचीन वंशावली दी गई है, परन्तु ऐतिहासिक साहित्यों से मिलते वह नाम विश्वास पात्र न होना मालूम होता है. उसमें सांभर के माणकराज तक में ११२० पुश्ते होना बताया है. और माणेकराज से पंदरहवीं पुश्त पर कान्हडदेव होना लिखा है, जिसका संवत् वि. सं. १०८६ का होना अंकित किया है जो दूरस्त नहीं है. इस पुस्तक में नीमराणा का वंशवृक्ष जो दिया गया है वह बहुत ही दूरस्त होना पाया जाता है. बाद में जो जो राजा नीमराणा में हुए उनका इतिहास नहीं मिलने से उनके नाम दर्ज नहीं होने पाये.



## प्रकरण ९ वा.

### नाडोल के चौहान.

सांभरिया चौहानों के वास्ते जैसे अनेक प्राचीन साहित्यों का आधार अंकित हुआ है उसी मुआफिक नाडोल के चौहानोंकी ख्यातके वास्ते भी प्राचीन साहित्यों का प्रमाण विद्यमान है. जिसमें वि. सं. १२१८ का ताम्रपत्र ( जो नाडोल के महावीर स्वामी के जैनमन्दिर में धुप दिपादिक प्रबंध के निमित्त नाडोल के चौहान राजा आलहण ने लिख दिया था. ) मुख्य है, जो महाशय कर्नल टॉड साहेब को प्राप्त हुआ था. दूसरा प्रमाण 'सुधा पहाड' का वि. सं. १३१९ के शिलालेख ( जालोर के सोनगरा राव 'चाचींगदेव' के समय में लिखा गया था. ) का है. 'टॉड राजस्थान' की पुस्तक में लिखा है कि राव लाखणसी के समय के वि. सं. १०२४ व वि. सं. १०३९ के दो शिलालेख टॉड महाशय को नाडोलसे मिले थे. उस से व दूसरे साहित्यों से नाडोल राज्य की स्थापना करनेवाला मूल पुरुष 'राव लाखणसिंह' होना सर्वमान्य है.


'सिरोही राज्य का इतिहास' के कर्ता राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझाने बड़े भारी श्रमसे उपर्युक्त शिलालेख व ताम्रपत्रके साथ और भी- शिलालेखादि से संशोधन करके उक्त पुस्तक में नाडोल के चौहानों का अहवाल विस्तार से लिखा है, उसमें एक जगह अनुमान किया है कि—'सांभर के वाक्पति के पुत्र लक्ष्मणराज का दूसरा नाम 'माणकराव' होगा.' ( सि. रा. ई. पृष्ठ १६७ ) ऐसा अनुमान करने का कारण यह बताया है कि आबु पर अचलेश्वरजीके मन्दिरमें वि. सं. १३७० के शिलालेखमें 'माणकराव' का नाम उपलब्ध होता है, और सिरोही के बडुओं की पुस्तक में माणकराव व सिंहराव, ये दोनों भाई होना लिखा है. इस पुस्तकके लेखकका अनुमान इससे भिन्न है, क्यों कि सिरोहीके बडुआकी पुस्तकमें सांभरके प्रख्यात 'माणकराव' से छः पुरत बाद ( देखो प्रकरण ४ था में नं. १२ का वंशवृक्ष जिसमें नं. २४२ वाला माणकराव है व नं.  $\frac{३६९}{२}$  लाखणसिंह है. ) लाखणसी हुआ है. आबु के वि. सं. १३७० के शिलालेखमें 'माणकराव' नाम अंकित होने का कारण यह है कि सांभर का 'माणकराव' बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ था, और इतिहास वेत्ताओंने उसके वास्ते रचे हुए गीत कवित्तोंको व प्रसिद्धिमें आई हुई उनकी कीर्ति व दंतकथा की कहाणो पर अविश्वास

+ उपरोक्त घटना सिरोही राज्य के इतिहास में बडुआ की पुस्तक में लिखी हुई ख्यात से विरुद्ध मालूम होने पर इस पुस्तक के लेखकने बडुआ लडमनसिंह से दरियाफ्त करने पर अपने जुबार दिया कि सिरोही राज्य का इतिहास क कर्ताने मेरी पुस्तकें कभी देखी नहीं है, न मैंने अपनी पुस्तक से कुछ भी ख्यात उतार कर दी है. पाया जाता है कि राणी मणा भाट की बडी से यह अहवाल प्राप्त हुआ होगा जो बडुआ की पुस्तक के नाम से जगह २ नाम में लिया गया है.


करके उसका नाम सांभर के चौहानों की नामावली में अंकित नहीं किया है, परन्तु वि. सं. १३७० का शिलालेख लिखने के समय में भी 'माणकराव' नाम का प्रसिद्ध राजा सांभर में होने की ख्यात मान्य थी, जिससे वह नाम शिलालेख में अंकित हुआ है.

नाडोल के चौहानों का वंशवृक्ष के वास्ते उपर्युक्त साहित्यों के सिवाय सूता नेणसी की ख्यात, टोड राजस्थान, बडुआ की पुस्तक व 'सिरोही राज्य का इतिहास' नामक पुस्तक से अलग २ प्रमाणों उपलब्ध होते हैं, जिससे उनके आधार से अलग अलग वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये हैं.


१ वि. सं. १२१८ का ताम्रपत्र से.




२ सूधा पहाड के वि. सं. १३१९ के शिलालेख से.



३ टोड राजस्थान की पुस्तक से.



४ सिरोही के बडुआ का पुस्तक से.




नोट—बडुआ की पुस्तक में नं. २ सोईराव ने वि. सं. १०४९ में 'मान परमार' नामका राजा के हाथ से भीनमाल लेकर वहां अपना राजस्थान करके वि. सं. १०८१ तक राज्य करने का लिखा है. इस राजाने वि. सं. १०७५ में बडुआ 'भयानीचंद' को भीनमाल से 'लाख पसाव' देनेका भी उल्लेख किया गया है.

+ 'मशरिक'—यह नाम चौहानों की खास 'उपमा' का नाम है. प्राचीन गीत कवित्तों में जगह २ चौहानों की

५ मूता नेणसी की ख्यात में सोनगरा, वाव के चौहान, हाडा चौहान, वागडिया चौहान, सांचौरा चौहान, व खीची चौहान की शाखाएं नाडोल के 'राव लाखणसी' की ओलाद वालों की वताइ है, उससे नाडोल के चौहानों के नाम उपलब्ध होते हैं, जो कि अलग २ स्थानों से यह शाखाओं की नामावली प्राप्त होने से नामों में कुछ २ तफावत है, परन्तु उनको अंकित करना आवश्यक होने से वे शाखाओं का प्रमाण दिया गया है.


(अ) सोनगरा चौहानों की ख्यात से.

१ राव लाखण (नाडोल)




(आ) वावके चौहानोंकी ख्यात से.

१ राव लाखण (नाडोल)




(इ) हाडा चौहानों की ख्यात से.


१ राव लाखणसी (नाडोल)




(ई) वागडिया चौहानों की ख्यात से.



(उ) सांचौरा चौहानों की ख्यात से.



(ऊ) खीची चौहानों की ख्यात से



'मशरिका' के संशोधन से प्रशंसा हुई है. नाडोल के राजवंश में 'मशरिक' नाम सिर्फ सिरोही के बडुआ की पुस्तक में व आभीआ माला के कवित्त से उपलब्ध होता है. पाया जाता है कि—'अहील' का दूसरा नाम 'मशरिक' होगा, क्यों कि नाडोल से निकटी हुई हरएक शाखाएं के गीत कवित्तों में 'मशरिका' उपनाम बहुत जगह मिलता है.

नोट—१ बालीसा चौहान 'राव लाखणसी' का पुत्र अनितसिंह की ओलाद में है.

२ राणी मगा के चोपडे से मूंशी न्यामतअलीखाने ख्यात लिखी है, उसमें १ राव लाखणसी बाद क्रमशः २ बलराज ३ सोही, ४ बदेराव ५ आसराव, ६ आलहण व उनके दो पुत्र ७ कीतु तथा देदा के नाम दर्ज है. देदा की ओलाद वाव (भाद) में होने का उसमें भी लिखा है.

( ए ) मूता नेणसी की ख्यात में सिरोही के राजकुल की वंशावली का एक कवित्त लिखा गया है, जिसमें सांभर से अलग हुई नाडोल की शाखा वाला कीतू ने जालोर का राज्य कायम किया, उस विषय में कवि आसीआ माला ने ( जो सिरोही रियासत के 'खाण' नामक गांव का चारण वि. सं. की सोलहवीं सदी में हुआ था. ) कहा है कि.


× × × × ×

- “ राय सिंध तिण पाट रहे सेवे हुरकाणो, लखगसी धर छांड हुओ नाडोलो राणो. ”  
 “ सेवा कीधी सकत वधे वरदान बडाई, व्यातो घड वदनोर हुओ × × × सवाई. ”  
 “ चौह भाई चोहवाण वंश रूपक वडो रावा गंजने वेरडो, वरदान आसन लीधो वडे खुरसाण उपर खडो. ( ७ )  
 “ तेर सहस तुरंग सकत वरदान संमपे, नाडुलो नाडुल थान आशा वर थप्ये. ”  
 “ पाटण ऊर्ला पोल दाण चौहान उग्राहे, पंच लख पाकरण वरसे × × नीर वाहे. ”  
 “ मेवाड मंड लख दंडे, परसरे पुरव हां परे, प्रिय रायसींह लाखण जपै ज्यौं आरंभे त्युं करे. ( ८ )  
 “ सग लाखण संपनो, पाट सोही परगटे, सोही रे महेन्द्र राव जेण खत्री हुणो खटे ’  
 “ महेन्द्र वंश मशरिख सु वन आलण संपनो, आलण रे आसराव, आस जिन्द राव उपनो. ”  
 “ जिन्द राव तणे कीतु जसा, जै लीधो झालोर जुडी, कर त्युं समो पूजै न कौ तैस कुण पूजत कडो. ” ( ९ )

इस कवित्त से १ लाखणसी के बाद क्रमशः २ सोहि, ३ महेन्द्र, ४ मशरिख, ५ आलण, ६ आसराव, ७ जिन्द्रराव व 'कीतु' के नाम उपलब्ध होते हैं.

६ “सिरोही राज्य का इतिहास” नामक पुस्तक में (पृष्ठ १८५ व १८६ पर) नाडोल का वंशवृक्ष दिया गया है उस मुआफिक.


१ लक्ष्मण ( नाडोल की शाखा वि. सं. १०२४-१०३९ )



उपर्युक्त अलग २ प्रमाणों को ध्यान में लेकर नाडोल के राव लाखणसी की ओलाद

के नाडोल के चौहानों का वंशवृक्ष ( जिसमें से निकली हुई शाखाओं पैकी जीन २ शाखाओं का इतिहास प्राप्त हुआ है उनका सम्बन्ध मालूम हो सके वैसा ) नीचे मुआफिक बनता है.

वंश वृक्ष नाडोल के चौहानों का.



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

१ राव लाखणसी का नाम चौहानों में जग प्रसिद्ध है. और इसके चौबीस पुत्रों से चौबीस शाखाएं होने का जगह २ उल्लेख हुआ है, परन्तु प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास से इसके पुत्रों के नाम से नहीं लेकिन इसकी ओलाद वाले चौहानों से चौबीस शाखाएं हुई होगी वैसा पाया जाता है. 'सिरोही राज्य का इतिहास' नामक पुस्तक के पृष्ठ १६७ से १६९ तक में +टोड राजस्थान से उपलब्ध होते इतिहास पर इस विषय में अन्य ऐतिहासिक ग्रंथो से मुकाबला करके तुलना की गई है, जिसमें राव लाखणसी ने गुजरात से दाण

+ टोड राजस्थान में लाखणसी के वास्ते लिखा है कि राव लाखणने वि. सं. १०२९ में अणहिलवाडे के राव से नाडोल का पगना छीन लिया. गजनी के बादशाह सुबुक्तगीन व उसके पुत्र सूयतान महमूदने इन पर चढाई करके नाडोल को लूटा व मन्दिर तोड डाले, लेकिन चौहानों ने पुनः उस पर अपना कब्जा कर लिया. राव लाखण अणहिलवाडे तक का दाण लेता था और मंगल का राजा भी उसको विराज देता था.

उगाने की वं मेवाड के राणा पास खंडणी लेने की बात जो टोड राजस्थान में लिखी है वह विश्वासपात्र न होने का अनुमान किया है. कारण यह बताया है कि राव लाखणसी के समय में गुजरात में मूलराज सोलंकी और मेवाड में शक्तिकुमार व उन का पुत्र अंवाप्रसाद थे जो स्वतंत्र थे.

वस्तुतः टोड राजस्थान में जो लिखा गया है उसकी साबिती के प्राचीन कवितों के प्रमाण इन दोनों बातों के वास्ते मिलते हैं. जिसमें मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हुआ कवित्त ( जो इस प्रकरण में अंकित हो चुका है. ) से भी मालूम होता है कि ( “ पाटण ऊली पोल दाण चौहान उग्राहे. ” ) पाटण की उरली पोल से (पाटण की सीमा पर से) चौहान ने दाण उगाया. वैसे (मेवाड मंड लख दंडे) मेवाड में आक्रमण कर के लाखण ने दंड लिया. इस पुस्तक के लेखक का अनुमान है कि मेवाड व गुजरात के राजा स्वतंत्र भी हो तब भी उस कारण से लाखणसी ने दाण न उगाया और दंड नहीं लिया ऐसी मान्यता कर लेना उचित नहीं है. क्यों कि यह कवित्त वि. सं. की सोलहवीं सदी में रचा हुआ है और इस कवित्त की तसदिक में सिरोही के बडुआ की पुस्तक में निम्न चरण लिखा है.

“ दश गुण ताले वरस वार एकुटन वाही, पाटण पहेली पोल दाण चौहान उगाई. ”

यानी—दश=१० गुण=३ ताल=२ वि. सं. १०३२ में तलवार के बल से अबल पाटण की पोल से (गुजरात की सीमा में प्रवेश करते जो देश आता है उससे) दाण वसुल किया.

सिरोही के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि राव लाखणसी ने वि. सं. १०२२ महा सुदि २ के रोज नाडोल में अपना राज्य की स्थापना की. इसके उपर आशापुरी देवी की कृपा होने से देवीने ×तेरह हजार अश्व दिये. कवि आसीआ माला के कवित्त में लिखा है कि ( “ तेर सहस तुरंग सकत वरदान संपे. ” ) शक्ति के वरदान से तेरह सहस्र घोड़े मिले.

वि. सं. १०३८ में इसने नाडोल में आशापुरी देवीका मन्दिर बनवाया. इसके समय के वि. सं. १०२४ व १०३९ के शिलालेख प्राप्त होनेका टोड राजस्थान के ग्रंथ में लिखा है.

राव लाखणसी की जो प्रशंसा कवियों ने की है उससे पाया जाता है कि वह वीर पुरुष था. कवित्त से यह भी पाया जाता है कि सांभर के राजा “सिंह” ने सुसलमान के साथ युद्ध किया जिसमें पराजय होने से तुर्कों की सेवा करना स्वीकार किया जिससे लाखणसी नाखुश होकर सांभर से चल निकला. क्यों कि कविने कहा है कि—

× घोड़े के संबंध में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि जैसे जैसे कंकु के छिटे डालते थे वैसे २ नये घोड़े देवी की कृपा से होते थे, जिससे तेरह हजार घोड़े पैदा हुए. इस विषय में नेणसी की ख्यात में उद्धृत किया है कि लाखणसी की प्रार्थना से देवीने वर दिया कि अमुक दिन ‘सावतरा’ घोड़े भाग कर आवेंगे. उम मुभाकि तेरह हजार घोड़े आये जो लाखणसीने बांध लिये. पीछे उनके मालिक आये लेकिन देवीने घोड़े के रंग बदल दिये जिससे वे वापस गये.

“ राय सिंघ तिण पाट रहे सेवे तुरकाणो, लाखणसी धर छांड हुओ नाडोलो राणो. ”

इसी मुआफिक कविने कहा है कि—‘ रावा गंजने वेरडो. ’ ( राव को गिजनी के साथ वेर था. ) फिर यह भी कहा है कि—“ वरदान आसन लीधो बडे, खुरसाण उपर खडो. ” इससे मालूम होता है कि इसने मुसलमानों के सामने खडा रहकर देवी की कृपासे नाडोल में ( अपना आसन की जगह से ) युद्ध किया था. गिजनी में उस समय ‘सबकत गीत’ था, वह दो दफे हिन्दुस्तान पर चढाई लाया था.

नं. २ शोभित उर्फ सोहि—के विषय में सिर्फ बडुआ कि पुस्तक से मालूम हुआ है कि यह बडा पराक्रमी राजा हुआ. इसने भीनमाल के राजा ‘मानपरमार’ को मार कर वि. सं. १०४९ में भीनमाल में अपना असल जमाया, और ३२ वर्ष तक राज किया. इस विषय में नीशाणी है कि—

“ सोई राव भीनमाल सज, मारा पवार मान, नृप उठे नाडोल रे चक्रवती चहुआन. ”

इसका भाई +आसराव नामक था, उसने वि. सं. १०४८ में नाडोल में ‘आयेडा तलाव’ बंधाया. सोहिराव ने वि. सं. १०७५ में बडुआ भवानीचंद को ‘लाख पसाव’ की वक्षीश दी थी.

नं ३ वलीराम अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. सूंधा के शिलालेख से पाया गया है कि इसने मालवे के परमार राजा मुंज के सैन्य को हराया था. इस को पुत्र न होने से नं. १ विग्रहपाल नाडोल की गद्दी पर बैठा था ऐसा सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु वि. सं. १२१८ का ताम्रपत्र के सिवाय दूसरे किसी प्रमाण में विग्रहपाल का नाम नहीं है, बल्कि सूंधा पहाड के शिलालेख में वलीराज के बाद उसके काका का पुत्र महेन्द्र गद्दी पर आने का उल्लेख हुआ है. सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि सूंधा के लेख के समय पूर्व लिखे गये दो ताम्रपत्रो, व ‘वाली’ गांव से मिला हुआ नं. ८ रत्नपाल के समय का ( वि. सं. ११७६ ) ताम्रपत्र में भी विग्रहपाल का राजा होना लिखा गया है.

नं. १ विग्रहपाल अपना भतिजा वलीराम के बाद गद्दी पर आया. वह राजा था इतना ही पाया गया है.

नं. ३ अजेतसिंह का नाम सिवाय बडुआ की पुस्तक के दूसरो जगह होना मालूम नहीं होता है. इसके वंशज गोडवार में रहे और उनमें ‘वाला’ नामक चौहान से ‘वालीसा चौहान’ की शाखा कहलाई गई. जिसका वंश वृक्ष वालीसा चौहानों के प्रकरण में दिया गया है.

+ लाखगमी का बडा पुत्र आसराव राव होना पाया जाता है क्यों कि वि. सं. १०४८ में उसने नाडोल में ‘आयेडा तलाव’ बनाया था ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है. सोहि राव की गद्दी नशिनी वि. सं. १०४९ व देहान्त वि. सं. १०८१ में होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है, इससे अनुमान हो सकता है कि लाखगमी विद्यमान होने पर आसराव का देहान्त हुआ हो. ‘आयेडा तलाव’ नाडोल में विद्यमान है. अगर यह तलाव आसरावने नहीं बनाया हो तो उसका स्मर्तीय नामकरण उनके नाम से बनाया होगा.

नं. ३ महेन्द्रराव का नाम वागडिया चौहानों की ख्यात के सिवाय दूसरी सब ख्यातों में मिलता है. + 'द्वयाश्रय काव्य' नामक पुस्तक में इसके विषय में लिखा है कि इसने अपनी बहिन 'दुर्लभदेवी' का विवाह ×स्वयंवर रच कर किया था. जिसमें अनेक देश के नृपति आये थे, उनमें से गुजरात के सोलंकी राजा दुर्लभराज को बरमाल पहनाई गई. महेन्द्रने अपनी दूसरी बहिन 'लक्ष्मीदेवी' का विवाह भी उसी मौके पर दुर्लभराज के भाई नागराज के साथ कर दिया. स्वयंवर रचने के कारण से भी पाया जाता है कि महेन्द्रराव पराक्रमी व प्रतिष्ठित राजा हुआ था, क्यों कि यह कार्य मामूली न था. बडुआ की पुस्तक में इसके गद्दी नशिनीका समय वि. सं. ७१०८२ व देहान्त का समय वि. सं. ११०५ अंकित हुआ है, और यह भी लिखा गया है कि उसके पीछे सिसोदणी राणी सती हुई थी. ( राणी का नाम नहीं है. )

नं. ४ अहील का नाम सिर्फ सूंधा पहाड के शिलालेख में है, दूसरी ख्यातों में नहीं है, लेकिन नाडोल के राजा रत्नपाल ( नं. ८ वाला ) के समय का वि. सं. ११७६ में लिखा हुआ ताम्रपत्र जो वाली गांव से प्राप्त होनेका जाहिर हुआ है उसमें महेन्द्र के बाद 'अश्वपाल' का नाम होना सि. रा. ई. में लिखा है. सिरोही के बडुआ की पुस्तक में महेन्द्रराव के पीछे 'मशरिक' होने का उल्लेख किया गया है, उसके बाद आलहण का नाम अंकित है, और उसका गद्दी नशिनी का समय वि. सं. ११३० का लिखा गया है. मशरिक के वास्ते उक्त पुस्तक में लिखा है कि वह वि. सं. ११०५ में गद्दी पर बैठा और वि. सं. ११३० में उसका देहान्त हुआ. अगर दर्ज हुए संबत् पर ध्यान न दिया जाय तो अनुमान हो सकता है कि सूंधा के लेख में अंकित हुआ अहील व वि. सं. ११७६ के ताम्रपत्र में लिखा हुआ 'अश्वराज' का उपनाम सायद 'मशरिक' होगा. क्यों कि उपर्युक्त तीन प्रमाणों से पाया जाता है कि महेन्द्रराव व अणहिल्ल के बीच में एक और पुरुष हुआ था.

नं. ५ अणहिल्ल के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि यह महेन्द्रराव के

+ द्वयाश्रय काव्य—जग विख्यात जैन आचार्य हेमचंद्र सूरेश्वरने रची है.

× स्वयंवर रचने का कार्य बहुत बड़ा गिना जाता है, क्यों कि उस में अनेक विघ्न आने की सम्भावना रहती है. जिस राजा में इतना सामर्थ्य हो कि वह इस सपरंभ के निमित्त एकछे हुए राजाओं के साथ युद्ध का प्रसंग उपस्थित होने पर मुकाबला कर सके, वही राजा स्वयंवर रच सकता है. राजपूतों में स्वयंवर रचना यह कार्य बड़ी नामवरी का गिना जाता है.

\* बडुआ की पुस्तक में महेन्द्रराव की गद्दी नशिनी व देहान्त का समय अंकित हुआ है वह विश्वासपात्र है या नहीं, उसकी तशदिक करने का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ है. बल्कि नं. २ सोहि के पीछे जो जो राजा हुए वे सब राना भीनमाल में होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है.

÷ सि. रा. ई. की पुस्तक में अणहिल्ल के बाद उसका पुत्र नं. ६ बालाप्रसाद व उसके पीछे नं. ६ जेन्द्रराज गद्दी पर आने का पृष्ठ १७२ में लिखा है, जिन के समय का 'आऊआ' गांव में वि. सं. ११३२ का शिलालेख प्राप्त होना पाया गया है, जिससे बडुआ की पुस्तक में लिखा हुआ संबत् गलत होना मालूम होता है.



पीछे गद्दी पर बैठा. इसने गुजरात के राजा भीमदेव ( प्रथम ) को सैना को परास्त किया. मालवा के राजा भोज के सेनापति साढा को पकड कर उसका सिर काटा, और अपार सैन्य वाले तुकों को परास्त किया. उक्त पुस्तक के लेखक की इस विषय में यह राय है कि, तुकों का ताडुक महमूद गजनवी से है, और मालवा के सेनापति को मारने का ताडुक गुजरात के भीमदेव ने धारा नगरी के भोज राजा पर चढाई की उसमें यह भीमदेव की सहायता में गया होगा और वहां साढा को मारा होगा.

नं. ६ वालाप्रसाद के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि यह अणहिल्ल के पीछे गद्दी पर आया. इसने भीमदेव की सेवा में रहकर राजा कृष्णदास को उसकी कैद से छुडाया. कृष्णदेव के विषय में उक्त पुस्तक के लेखक ने यह राय जाहिर की है कि यह आवुके परमार राजा धंधुक का छोटा पुत्र होना चाहिये.

नं. ६ जेन्द्रराव का नाम ताम्रपत्र में जेतराय होना लिखा है. सि. रा. ई. में लिखा है कि इसने सांडेराव के पास दुश्मनों को हराया था. ( नाम नहीं है. ) इसके समय का वि. सं. ×११३२ का शिलालेख 'आउआ' गांव में होना पाया गया है.

नं ७ पृथ्वीपाल अपने पिता जेन्द्रराव के पीछे गद्दी पर आया. सूंधा के लेख से पाया जाता है कि इसने गुजरात के राजा कर्ण की सैना को हराया, और कास्तकारों (खेडुतों) का कर मुआफ करके बहुत यश प्राप्त किया.

नं. ७ जोजलदेव उर्फ योजक अपने भाई के पीछे राजा हुआ. इसके समय के वि. सं. ११४७ का शिलालेख नाडोल के सोमेश्वर के मन्दिर में होना जाहिर हुआ है, और उसी संवत् मिति का दूसरा शिलालेख 'सादडो' गांव से मिला है. ( सि. रा. ई. पृष्ठ १७२ )

नं ७ अश्वराज उर्फ आसराव के विषय में सूंधा के लेख में लिखा है कि इसकी तलवार ने मालवे में सिद्धाधिराज ( गुजरात के प्रख्यात राजा सिद्धराज जयसिंह ) की जो सहायता की उससे प्रसन्न होकर सिद्धराजने इसको सुवर्ण कलश दिया, और यह बडाही धर्मनिष्ठ राजा था. इसने अनेक सदाव्रत, तालाव, बाग, शिवालय, बावडियां, प्याऊ, कुएं आदि सैंकड़ों धर्मस्थान बनवाये थे. इसके समय के वि. सं. ११६७ व वि. सं. ११७२ के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें इसका पुत्र ' कटुक ' युवराज होने का उल्लेख है, ( सि. रा. ई. पृष्ठ १७५ ) परन्तु कटुक युवराज पद पर ही देवलोक हुआ था.

सिरोही के बडुआ की पुस्तक में इसकी गद्दी नशिनी का समय वि. सं. ११६० व देहान्त का समय वि. सं. ११८० होना लिखा है, जो उपरोक्त शिलालेखों के समय से करीब २

× सिरोही के बडुआ की पुस्तक में ' जिन्द्राव ' को आसराव का पुत्र होना व उसकी गद्दी नशिनी का समय वि. सं. ११८० में होना लिखा है जो वि. सं. ११३२ के शिलालेख से विरुद्ध गलत होना पाया जाता है.

\* इन शिलालेखों में वि. सं. ११६७ का सेनाडी गांव से मिला है. सि. रा. ई. के पृष्ठ १७३ पर इसके समय का वि. सं. १२२० का शिलालेख 'वाली' गांव से प्राप्त होने का लिखा है, परन्तु वह वि. सं. ११७२ का होना अनुमान होता है शयद नगर चूक या प्रेम की गद्दी से वि. सं. १२२० लिखा गया हो.

मिल रहा है. इसकी राणी 'फुलांदेवी' साणंद के वाधेला राव कांधल की पुत्री होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है. इस राजा का नाम हरएक खग्रातों में अंकित हुआ है, और इसके पुत्रों की ओलाद में से सोनगरा, हाडा, वागडिया, खीची, साँचौरा, वाव के चौहान, कापलिया आदि चौहानों की अलग २ शाखाएं हुई है.

नं. ८ रत्नपाल का नाम नाडोल के राजाओं के वास्ते जो जो प्रमाण दिये गये है उसमें नहीं है, सिर्फ सि. रा. इ. में इसका नाम अंकित हुआ है, परन्तु उक्त पुस्तक में पृष्ठ १७४ के उपर जो टोप्पणी दी गई है उसमें ऐसा मजबुत आधार दिया हुआ है कि जिससे यह पृथ्वीपाल का पुत्र होना साबित है. इसके समय का वि. सं. ११७६ का ताम्रपत्र 'सेवारी' गांव से प्राप्त होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है, और इसके वास्ते यह राय कायम की है कि अश्वराज से कुछ समय तक इसने राज छोन लिया होगा, क्यों कि 'सेवारी' के ताम्रपत्र में इसको नाडोल के राजा होना लिखा है. इसी टोप्पणी में यह भी लिखा है कि रायपाल ( इसका पुत्र ) नामक दूसरे राजा के वि. सं. ११८९ से १२०२ तक के कई शिलालेख नारलाई व नाडोल से मिले है. इस विषय में उक्त पुस्तक के लेखक ने यह +राय जाहिर की है कि रत्नपाल व रायपाल राजा हुए होंगे लेकिन नाडोल राज्य के

+ नं. ८ रत्नपाल नाडोल के राज्य का स्वामी नहीं था किन्तु नाडोल का एक हिस्सा उसके तरफ था ऐसी 'सिरोही राज्य का इतिहास' के विद्वान लेखक की राय उक्त पुस्तक के पृष्ठ १७४ की टोप्पणी में हुई है वह बहुत ही दूरस्त है. बल्कि नाडोल के चौहान राजवंश की ख्यात के विषय में सिरोही के बडुआ की पुस्तक से राज्यशानी के स्थान निम्नत जो बडा अन्तर पडता है उसका भी इस राय से कुछ समाधान होने जैसा है. बडुआ की पुस्तक में नं. २ शोभित उर्फ सोहिराव ने भीनमाल में अपना राजस्थान किया, और उसके बाद नाडोल के राज्य के जो जो मालिक हुए वे सब ने भीनमाल में ही अपना राजस्थान रखा वैसा लिखा है, बल्कि बडुआ को सीख ( दक्षिणा ) किस स्थान से मिली थी, उस बाबत उसकी पुस्तक की जांच की गई तो निम्न हकीकत उससे पाइ गई है.

१ सोहिराव ने बडुआ भवानीचंद को वि. सं. १०४९ व वि. सं. १०७९ में भीनमाल मुकाम से सीख दी.

२ महेन्द्रराव ने बडुआ वजेचंद को वि. सं. १०८२ में भीनमाल से सीख दी.

३ आलहण ने बडुआ सोढा को वि. सं ११३० में भीनमाल से सीख दी.

४ आसराव ने बडुआ धनराज को वि. सं. ११६० में भीनमाल से सीख दी.

इस पुस्तक के लेखक का ऐसा अभिप्राय नहीं है कि वि. सं. १३६७ के पहिले का जो वृतांत बडुआ की पुस्तक से उपलब्ध होता है वह सब बगैर त्रुटी के मानने योग्य गिणना ही चाहिये. क्यों कि उसमें बहुत ही त्रुटी और शंका होने जैसा अहवाल अंकित होना पाया गया है, परन्तु राजस्थान का नगर कौन था इस विषय में जो फर्क आता है, उसके वास्ते जरूर लिहाज होता है, और नाडोल के राज्यवंश के जो जो शिलालेख, ताम्रपत्र आदि साहित्य प्रसिद्धि में आया है, उनमें नाडोल के राजाओं के नाम एक ही समय के वास्ते भिन्न २ होना मालूम होने से यह शंका जरूर रह जाती है कि शायद नाडोल के चौहान राजाओंने अपना पाटनगर भीनमाल में रख कर राज्य किया है, परन्तु उनके नाम नाडोल के राजा के नाम से प्रसिद्धि में रहे है, और इसी कारण से नं. ८ रत्नपाल व उसका पुत्र नं. ९ रायपाल के तर्फ नाडोल रहा था व उन्होंने नाडोल के राजा के नाम से शिलालेख व ताम्रपत्रों में अपना नाम अंकित कराये है. तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त राजाओंने अपना पाटनगर कहां रखा था इस उलझन का निवेडा करने का कार्य इतिहास वेत्ताओं के वास्ते बाकी रहता है. इस प्रकरण का वंशवृक्ष में नं. ३ जयतसिंह जब युवराज था तब उसका राज भी भीनमाल में होने का उसके समय के शिलालेख में उल्लेख हुआ है, उससे उपस्थित हुई शंका और बढ़ती है.

एक हिस्से के ही स्वामी होंगे. मंडोवर से मिले हुए लेख में रायमल के पीछे 'शाहजुपाल' होने का जाहिर में आया है.

नं. ६ आलहण के विषय में सूधा के लेख में लिखा है कि गुजरात के राजा ने पग पग इसकी सहायता ली, और सौराष्ट्र में इसने विजय प्राप्त की, तथा नाडोल में शिव मन्दिर बनवाया. सौराष्ट्र के 'मेहर' राजा समर (सौसर) पर कुमारपाल ने विजय प्राप्त की जो इसी को वीरता से ही हुई थी. सांभर के चौहान राजा विशलदेव ने इसके राज्य पर चढाई कर नाडोल, पाली आदि शहरों को बरबाद किये वैसा विजोलिया के शिलालेख से मालूम होता है. इसकी राणी अन्नलदेवी राठौर सहल की पुत्री थी जिससे तीन पुत्र १ केलहण, २ गजसिंह और ३ कीर्तिपाल हुए. आलहण के समय के केराडु गांव से वि. सं. १२०९ का लेख प्राप्त हुआ, उसमें यह गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का सामन्त था, और अपने पिता की नाई वीर पुरुष था ऐसा लिखा गया है. इस शिलालेख के सिवाय इसके समय के तीन ताम्रपत्र प्राप्त होना जाहिर में आया है जिनमें पहिला वि. सं. १२०९ का केराडु में से व तीसरा वि. सं. १२२० का वामणेरा गांव से मिला है. इसने वि. सं. १२०५ से वि. सं. १२२० तक राज्य किया है ऐसा माना गया है. ( सि. रा. ई. के पृष्ठ १७५-१७६ पर से. )

नं. ७ माणकराज के विषय में मूतानेणसी की ख्यात से मालूम होता है कि इसीके नाम से चौहानों में 'खीची' शाखा कहलाई गई. इसको नागोर पट्टी में ८४ गांवों से 'भद्राण का किला' जागीर में मिला था. इसकी ओलाद में पीछे से हाडा, वाव के चौहान, सांचौरा, खीची, आदि शाखाएं हुई, जिनका वृत्तांत हरेक शाखाओं का अलग अलग प्रकरणों में लिखा गया है.

नं. ८ सोहड के विषय में मूता नेणसी की ख्यात से मालूम होता है कि इसकी ओलाद वालों के तरफ छापर-द्रोणपुर ( सिंध की सरहद पर ) था. जो प्रदेश मोहील चौहानों ने छीन लेने से इसकी ओलाद का डुंगरसिंह चौहान ( मेवाड व गुजरात दरमियान ) वागड नाम के प्रदेश में चला गया. वागड में निवास करने से वे 'वागडिया चौहान' कहलाये गये, जिनका वृत्तांत अलग प्रकरण में लिखा गया है.

नं. ९ रायपाल के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसके नाम के कई शिलालेख नाडोल व नारलाई गांव से मिले हैं, और उसमें यह नाडोल के राजा होना लिखा है. इसके समय के लेखों का संवत् वि. सं. ११८९ से १२०२ तक का है. ( इस विषय में देखो टीपणी नं. ८ रत्नपाल के विषय की पृष्ठ ५७ पर. )

नं. १/३ केलहण नं. १/३ आलहण के पीछे गद्दी पर आया. इसके विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ठ १७७ व १७८ पर लिखा है कि—इसने 'भिलिम' नामक राजा के तथा तुकों के ( उक्त पुस्तक के लेखक की यह राय है कि इस तुकों का तालुक शहाबुद्दीन गोरी से होना चाहिये. ) सैन्य को हराया और सोमेश्वर के मन्दिर में ( नाडोल में ) सुवर्ण का तोरण बनवाया. इसके समय के दो ताम्रपत्र और छः शिलालेख मिले हैं जिनमें पहिला शिलालेख वि. सं. १२२१ का 'सांडेराव' ( गोडवार में है. ) गांव से व सब से पिछला 'पालडी' ( सिरोही इलाके में है ) गांव से वि. सं. १२४९ का मिला है.

नं. १/२ गजसिंह के विषय में कुछ भी वृत्तांत उपलब्ध नहीं हुआ है.

नं. १/३ कीर्तिपाल उर्फ कीतु को उसका पिता नं. १/३ आलहण के तरफ से नारलाई की जागीर बारह गांव से मिली थी, लेकिन बाद में इसने जालोर गढ में अपना अलग राज स्थापन किया और जालोर का दूसरा नाम 'सोनंग' उर्फ सोनगिरी होने से इसकी ओलाद वाले 'सोनगरे चौहान' कहलाये, जिनमें से ( पीछे से ) सिरोही के देवडा चौहान को शाखा विभक्त हुई. सोनगरे चौहानों का वृत्तांत इस पुस्तक के दूसरे प्रकरणों में लिखा है जिससे कीर्तिपाल का ज्यादा वृत्तांत उससे मालूम होगा.

नं. १/४ संभरण की ओलाद वाले 'हाड़ा चौहान' कहलाये गये, जिनकी ओलाद में बूंदी व कोटा के हाडे चौहान हैं, उनका वृत्तांत अलग २ प्रकरणों में लिखा गया है.


नं. १/२ आलहण के बड़े पुत्र नं. १/३ देदा की ओलाद से वर्तमान समय के वाव ( गुजरात में पालणपुर एजन्सी में तालुकदार है. ) के चौहान हैं, और दूसरे पुत्र विजयसिंह की ओलाद से सांचोरा चौहान हुए, जिनका वृत्तांत अलग २ प्रकरणों में लिखा गया है.

नं. १/६ अजयराव की ओलाद वालों ने 'खोची चौहान' का नाम ( जो नं. १/३ माणकराव खीची कहलाया था. ) कायम रख कर वे 'खोची चौहानों' के नाम से ही प्रसिद्ध हुए. जिनकी ओलाद वर्तमान समय में सालवा के खीचीवाडे में खीलचीपुर व राघवगढ आदि के चौहान, और गुजरात में छोटाउदयपुर, व देवगढ बारीया आदि ( रेवाकांठा में है ) के चौहान हैं. जिनका वृत्तांत अलग २ प्रकरणों में इस पुस्तक में लिखा गया है.

नं. १० रुद्रपाल व उसका भाई नं. १/९ अमृतपाल के विषय में कुछ भी वृत्तांत नहीं मिलता है, बल्कि इसकी ओलाद थी या नहीं वह भी शंका है, क्यों कि नं. ९ रायपाल के तरफ 'नारलाई' की जागीर थी वह भी नं. १/३ कीर्तिपाल को जागीर में दे देने का वृत्तांत पहिले आ चुका है.

नं. १० जयतसिंह के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, इसकी युव-राजगी के समय में भीनमाल के जगस्वामी के मन्दिर में लगा हुआ शिलालेख वि. सं. १२३९ का प्राप्त हुआ है उसमें 'महाराज पुत्र जयतसिंह देव का वहां पर (भीनमाल में) राज्य होना लिखा है.' दूसरा शिलालेख इसके समय का वि. सं. १२५१ का 'सादडी' (गोडवाड में है) गांव में है, उसमें इसको महाराजाधिराज तथा नाडोल का राजा होना लिखा है. जयतसिंह का पिता केलहण वि. स. १२४९ तक विद्यमान होना 'पालडी' गांव के शिलालेख से पाया गया है. उस लेख में केलहण को नाडोल का राजा और जयतसिंह देव को उसका पुत्र होना अंकित हुआ है. (सि. रा. ई. पृष्ठ १७८ की टीप्पणी पर से.)

नं. ११ सामन्तसिंह के समय के वि. सं. १२५६ व वि. सं. १२५८ के दो शिलालेख मिले हैं, इतना ही वृत्तांत सि. रा. ई. की पुस्तक से मिलता है, बाद में यह राज्य जालोर के राज्य में मिल गया. सामन्तसिंह की ओलाद थी या नहीं उसका पता नहीं चल सकता है.



नोट—सिरोही के बहुआ की पुस्तक से नं. ४ का वंश वृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है, उसमें जो नाम अंकित है, उनके सिवाय नाडोल के दूसरे चौहानों का नाम नहीं है, जैसे दूसरा कोई साहित्य नाडोल के वास्ते प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह प्रकरण का इतिहास सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक से ही लिखा गया है.

## प्रकरण १० वाँ.

### हाडा चौहानों का प्राचीन इतिहास.

हाडा चौहानों की शाखा नाडोल से विभक्त होने का नाडोल के चौहानों की ख्यात में सिद्ध हो चुका है, उस मुताबिक माणकराज ( देखो प्रकरण ९ में नाडोल के चौहानों का वंश वृक्ष में नं. ६ वाला पृष्ठ ५२ पर. ) के पुत्र संभरण की ओलाद में हाडा चौहान हुए हैं. वंश भास्कर के ग्रंथानुसार 'उरथ' ( देखो चौहानों की प्राचीन शाखा के प्रकरण ३ में वंश भास्कर से दिया हुआ वंशवृक्ष के नं. ५३ पृष्ठ १४ पर. ) से हाडा चौहान की शाखा होनेका उल्लेख होता है. मूता नेणसी की ख्यात में माणकराज से सातवीं पुस्त पर ' हाडा ' नाम के पुरुष से ' हाडा ' शाखा होने का अनुमान हुआ है. देवडा चौहान के बडुआ की पुस्तक में बागराव के पुत्र अष्टपाल से हाडा शाखा प्रसिद्ध होने का लिखा है, और उसके समर्थन में निम्न कवित्त उक्त पुस्तक में दर्ज है.

“ अष्टपाल संभर नरेश होड हड हमे पाई, जण गेराराम गंजीयो भांज नव लाख भजाई. ”

“ एक लाख गजराज खत्री सुं कीया खडेरा, × × × × ”

“ प्रथम अंबीका पूंज अब आशापूर आई, वेस कुल चहुआण वरद ' हाडा ' बोलाई. ”

“ असूरान मेट हिंदू अवर तंवरज दीये तवे, अष्टपाल संभर नरेश तण होड हड पाई हमे. ”

उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि अष्टपाल ने गेराराम बादशाह को मार कर ' हेडालगढ ' का राज्य लिया जिससे उसकी ओलाद वाले ' हाडा चौहान ' कहलाये. तात्पर्य यह है कि ' हेडाल ' गढ के नाम से ' हाडा ' हुए हैं, वैसा उस पुस्तक से पाया जाता है.

वंश भास्कर की पुस्तक में लिखा है कि उरथ के वंशमे ग्यारहवीं पुस्त पर भानुराज उर्फ अस्थिपाल नाम का राजा हुआ था, उसका मांस राक्षसोंने खा लिया था और अस्थि पडे रहे थे, उस पर देवीने अमृत डाल कर जीवनदान दिया, जिससे उसका नाम अस्थिपाल मशहूर हुआ. भाट चारणादि में अस्थिपाल से ही ' हाडा ' कहलाये ऐसी दंत-कथा कही जाती है.

बूंदी के राज्य की स्थापना करने वाला देवीसिंह भैंसरोड में था, और उसके पूर्वजों के पास ' हेडालगढ ' होने के प्रमाण दूसरे इतिहास से भी मिलता है. वंशभास्कर की पुस्तक में बंगदेव उर्फ वाघाने २४ किले जीत लेने का उल्लेख किया है, उसमें हेडाल

१ सिरोही के बडुआ की पुस्तक में बागराव का पुत्र अस्थिपात्र होना लिखा गया है वह गूढ़त है. अस्थिपाल का पुत्र वाघा है.

का नाम नहि है, जिससे पाया जाता है कि वंगदेव के पहिले अस्थिपाल हुआ था उसने हेडालगढ जीत लिया था. यही अस्थिपाल का नाम मूता नेणसी की ख्यात में 'हाडा', और 'वंशभास्कर' में 'आसुपाल' दर्ज हुआ है, जिससे यह अनुमान होता है कि हेडालगढ के नाम से, या 'अस्थि' का साधना 'हड्डी' होता है जिससे, परन्तु अस्थिपाल उर्फ हाडा के पीछे 'हाडा चौहान' की शाखा कहलाई है.

हाडा चौहानों के इतिहास के वास्ते वंशभास्कर के पुस्तक में वूंदी का राज कायम करने वाला हाडा देवीसिंह के पहिले के राजाओं की जो नामावली दी गई है वह विश्वास पात्र नहीं है, क्यों कि उसमें हाडा शाखा 'उरथ' नाम के राजा से अलग हुई है और 'उरथ' से आसुपाल ३४ वीं पुस्त पर (अंदाजन सातसैं वर्ष बाद) होना अंकित है. देवडा चौहान के बडुआ की पुस्तक में 'अष्टपाल' से हाडा शाखा अलग हो जाने से उनके पीछे के राजाओं की ख्यात नहीं लिखी गई है, जिससे नाडोल के माणकराज से वूंदी का राज्य कायम करने वाला हाडा देवीसिंह तक का इतिहास के वास्ते अनुमान पर ही आधार रहता है.

'मूता नेणसी की ख्यात' में नाडोल के चौहान का नं. १/२ माणकराज के बाद क्रमशः २ संभरण, ३ जेतराव, ४ अनंगराव, ५ कूंतसिंह, ६ विजयपाल, ७ हाडा, ८ वाघा, व ९ देवा उर्फ देवीसिंह के नाम अंकित हुए हैं.

'सूर्जन चरित्र' की पुस्तक से माणकराज (जों कि उसमें इसको महान् पृथ्वीराज के भाई होने का लिखा है.) के बाद क्रमशः २ चामुण्डराज, ३ भीमराज, ४ विजयराज, ५ कलहन, ६ वंग उर्फ वाघा, व ७ देव, इस मुआफिक नाम प्राप्त होते हैं.

उपर्युक्त नामों को वंशभास्कर के पुस्तक से उपलब्ध होते नामों के साथ मिलते नं. २ संभरण की जगह जोधराज, ४ अनंगराव की जगह केलहण, ६ विजयपाल की जगह आसुपाल, ७ हाडा की जगह विजयपाल, ८ वाघा की जगह वाघा व ९ देवा की जगह देवीसिंह नाम आते हैं.

यह तीनों प्रमाणों पर ध्यान देते एक से ज्यादा जगह जो नाम बराबर मिल रहे हैं, उसको ग्राह्य करके अनुमान किया जाय तो देवीसिंह तक की हाडा चौहानों की

१ मूता नेणसी की ख्यात में हाडा का पुत्र वाघा होना लिखा है.

२ वंशभास्कर की पुस्तक में आसुपाल का पुत्र विजयपाल और विजयपाल का पुत्र वंगदेव उर्फ वाघा होना अंकित हुआ है, वर नेणसी की ख्यात में विजयपाल का पुत्र 'हाडा' होने का उल्लेख है, और आसुपाल के पिता का नाम 'केरहण उर्फ हुण' बताया है.

नोट—सूर्जन चरित्र की पुस्तक में विजयराज का पुत्र कलहन और उसका पुत्र वंग उर्फ वाघा होने का लिखा है.

पुस्त का क्रम नाडोल के माणकराज से क्रमशः १ माणकराज, २ संभरण, ३ जेतराय उर्फ जयराज या जोधसिंह, ४ अनंगराव उर्फ रत्नसिंह, ५ कुंतसिंह उर्फ केलहण, ६ विजयपाल, ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल या आसुपाल, ८ बंगदेव उर्फ वाघा व ९ देवीसिंह उर्फ देवा, होना ठीक है. इन नौ पुस्तों का संक्षिप्त इतिहास उपरोक्त साहित्यों में से यह मिलता है कि—

नं. १ माणकराज नाडोल के राजा अश्वराज उर्फ आसराव का पुत्र था. इसका आसराव ने 'भदाण' के साथ ८४ गांव नागोर पट्टी में दिये थे. कच्ची खीचडी खाने के कारण यह 'खीची' कहलाया. ( इन के विषय में देखो खीची चौहान के प्रकरण में. ) इसका बड़ा भाई आलहण ( नाडोल वंशवृक्ष नं. १ वाला ) वि. सं. १२२० में विद्यमान था, जिससे पाया जाता है कि इसने पृथ्वीराज की सेवामें उपस्थित होकर अच्छा काम दिया है, जिससे जगह २ इसको पृथ्वीराज के भाई होनेका लिखा गया है.

नं. २-३-४ के वास्ते खास बात अंकित नहीं हुई है, लेकिन नं. ५ कुंतसिंह बंवावदा में होने का वंशभास्कर में लिखा है और वह विश्वासपात्र है, क्यों कि माणकराज के वंशजों के तरफ बंवावदा होने का दूसरी ख्यातों से भी पाया गया है.

नं. ६ विजयपाल की राणी 'रंभावती' सांखला परमार मंडन की पुत्री थी, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है.

नं. ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल से हाडा चौहान कहलाये गये, इसने गेराराम बादशाह को मार कर हेडालगढ लिया ऐसा देवडा चौहान के बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है.

नं. ८ बंगदेव ने चितौड, जोरण, दसौर, भाणपुर वगेरह के राजाओं को हरा कर मांडल, पानगढ, सौंडागढ, हींगलाजगढ, खैरोली, कैथोली, भैंसरोड आदि २४ किले जीते थे, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है. इसके तेरह पुत्र थे, जिसका नाम क्रमशः १ देवीसिंह, २ कर्मन, ३ सिंहन, ४ नयनसिंह, ५ अर्दक, ६ बर्दक, ७ नत्यु, ८ पत्यु, ९ हिंगल, १० खड्गहस्त, ११ माहन, १२ सामीदास व १३ कृष्णदास थे. नं. ३ सिंहन से 'सिंहणोत' व ११ माहन से 'माहणोत' नाम की शाखाएं हाडा चौहानों में प्रसिद्धि में आई है.

नं. ९ देवीसिंह के विषय में मालूम होता है कि वह भैंसरोड म रहता था, और इसने बूंदी का राज्य मेणों से छीन लिया. बूंदी कब्जे करने के विषय में मूता नेणसी की ख्यात में अनेक बातें लिखी गई है, यानी—

१ एक बात ऐसी बताई है कि कुछ तकरार के कारण देवीसिंह भैंसरोड छोड़ कर



बूंदी में रहने लगा था, वहां एक ब्राह्मण जो देवीसिंह का आश्रित था उसको कन्या के साथ बूंदी के मेणाने शादी करना चाहा. ब्राह्मणने अपनी आपत्ति देवीसिंह को जाहिर करने से उसने युक्ति से ब्रेटी देना स्वीकार करने की सलाह दी. ब्राह्मणने उस मुताबिक संजुर करके मंडप तैयार किया. उस मंडप में नीचे बारूद भर कर उपर घास बिछाया गया. मेणों शादी करने को मंडप में आये, और उन्होंने नें मंडप में शराब पीना शुरू किया. जब ज्यादा शराब पी कर वे नशे में चकनाचूर हुए तब बारूद में आग रख कर हाडां राजपूतोंने मेणों पर हमला किया और सबको कत्ल करके बूंदी पर कब्जा कर लिया.

२ दूसरी बात यह बताई है कि हाडा देवीसिंहने अपनी पुत्री का विवाह चितौड के राणा लक्ष्मणसिंह के कुमार अरिसिंह के साथ किया. जब कि अरिसिंह शादी करने के लिये भैंसरोड आया तब उसके साथ फौज भी थी. शादी हो जाने बाद अरिसिंहने देवीसिंह को मेवाड में आकर बसने का कहा, जिस पर उसने जुवाब दिया कि बूंदी अच्छा देश है, अगर मुझे आपकी फौज की सहायता मिल जाय तो मेणों से बूंदी छीन लूं, जिस पर अरिसिंहने फौज देने से उसने रातोंरात बूंदी पर चढाई की और मेणों लोग भागने न पावे उस लिये सब रास्ते प्रथम बंध करके उनको मार डाले और अपना कब्जा जमा लिया, पीछे उसने अरिसिंह से ५०० घोडे लेकर अपने भाईओं को बुला कर अपनी फौज खडी की.

३ तीसरी बात यह दिखलाई गई है कि हरराज डोड ( सोलंकी ) नामका राजपूत बूंदी के मेणों से खिराज लेता था और उनकी सीमा दबाये जाता था. देवीसिंह उसी समय में भागकर बूंदी आया था. ( भाग कर आनेका कारण यह बताया है कि देवीसिंह के पास एक ' नामी ' घोडा था उसको मांडव गढ के बादशाह ने लेना चाहा था. ) मेणा ने उसको ' डूंडीनाचण ' के घर पर रखा. ' डूंडी ' को भविष्य की बातें मालूम होती थी जिससे देवीसिंह को कहा कि इस देश के मालिक होनेका तुम्हारे प्रारब्ध में है. कुछ समय व्यतित होने बाद मेणों ने देवीसिंह से कहा कि ' हरराज डोड ' हमको दुःख देता है सो मिटा दो, जिस पर देवीसिंहने बूंदी का आधा राज्य लेने की शर्त करके वीडा उठाया. दिवाली के दिन हरराज डोड बूंदी में आया तब मेणों लोग भाग कर अपने घरों में छिप गये, और देवीसिंह घोडे पर सवार होकर हरराज डोड के सामने पोल पर आया, जिससे हरराज भाग गया, लेकिन देवीसिंह ने उसका पीछा किया. एक नाले के किनारे पर दोनों का मुकाबला हुआ, मगर हरराज ने, देवीसिंह को पहिचाना जिससे युद्ध न करते आपस में वानचीत करने को आया. देवीसिंह ने मेणों के साथ जो शर्तें तय की थी

उसका जीक हरराज को किया और बूंदी में न आने की सलाह दी, जो उसने कबूल की. यह घटना होने बाद देवीसिंह ने अपनी पुत्री की सगाई की, लेकिन वह स्वरूपवान होने से बूंदी के मेणाने शादी करना चाहा. देवीसिंहने प्रथम इनकार किया मगर बाद में कुछ विचार करके मंजुर रखा. इस मौके पर हरराज डोड अपने सगे 'सिधुर सोलंकी' की मदद के साथ चढाई करके बूंदी आया और मेणों को मार डाले, जिससे देवीसिंह बूंदी का मालिक बना.

उपर मुआफिक बातें सूता नेणसी की ख्यात में दर्ज कराई हैं, लेकिन सूता नेणसीने यह भी लिखा है कि देवीसिंहने बूंदी का राज्य लिया तब बूंदी के मालिक मेणा जेता के पुत्र इन्द्रदमन व विग्रहराज थे और उनका प्रधान 'गोलवाल चौहान जसराज' नामक था. मेणा ने जसराज की पुत्री रूपसुन्दरी से विवाह करना चाहा, जिस पर जसराजने 'सामोर बारोट' द्वारा देवीसिंह की मदद चाही. देवीसिंहने चितौड के राणा की मदद लेकर मेणों पर चढाई की. जसराजने शादी करने के बहाने से मेणों को शराब पिला कर गाफिल कर रखे थे, उन पर देवीसिंहने अचानक हमला करके सब मेणों को कत्ल कर दिये, और बूंदी अपने कब्जे कर ली. पाया जाता है कि मेणों ने किसी की कन्या से जबरन शादी करना चाहा उस अत्याचार के निमित्त से देवीसिंहने किसी सुरत से मौका पाकर मेवाड के राणा की सहायता से बूंदी का कब्जा करके हाडा चौहानों का राजस्थान वहां पर कायम किया, यह बात निर्विवाद है.



## प्रकरण ११ वाँ.

### ‘ हाडा चौहान् बूंदी ’.

बूंदी के हाडा चौहानों के इतिहास की शुरुआत हाडा देवीसिंह ने मेणों को मार कर बूंदी कब्जे की वहां से होती है. मूता नेणसी की ख्यात में (वंश वृक्ष बूंदी में) नं. १/१ राव भोजराज तक का इतिहास लिखा गया है. ‘सूर्जन चरित्र’ की पुस्तक नं. १/१ राव सूर्जन की प्रशंसा में रचने में आई है, उसमें सूर्जन को सांभर की शाखा के महान् पृथ्वीराज का भाई माणकराज के वंशज गिन कर रणथंमोर के हमीर हठीला की ओलाद में वह था ऐसा बताया है, जिससे उक्त पुस्तक से उपलब्ध होता वंश वृक्ष हाडा चौहानों के वास्ते विश्वास पात्र नहीं रहता है, बल्कि उस ग्रंथ से राव देवीसिंह से राव सूर्जन तक के राजाओं की जो वंशावली उपलब्ध होती है वह भी अपूर्ण है.

इस विषय में ( राव देवीसिंह से राव भोजराज तक में ) कौन २ पुस्तकें में कितने २ नाम मिलते हैं, वह देखने से मालूम होता है कि—

१ ‘सूर्जन चरित्र’ की पुस्तक में बूंदी कायम करने वाला देवीसिंह से क्रमशः २ नरपति, ३ हमीर उर्फ हापा, ४ वराहसिंह, ५ भारमल, ६ नर्मद, ७ अर्जुन, ८ सूर्जन व ९ भोज के नाम उपलब्ध होते हैं.

२ ‘मूता नेणसी की ख्यात’ में देवीसिंह के बाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ नापा, ४ हापा, ५ वरसिंह, ६ वेरा, ७ भांडा, ८ नरवद, ९ अर्जुन, १० सूर्जन व ११ भोज के नाम अंकित हुए हैं.

३ ‘वंशभास्कर’ की पुस्तक में १ देवीसिंह से क्रमशः २ समरसिंह, ३ नरपाल, ४ हापा, ५ वरसिंह, ६ वैरीसाल, ७ सुभांड उर्फ भारमल, ८ नारायणदास, ९ सूर्यमल, १० सूर्जन व ११ भोज, इस मुआफिक नाम होना मालूम होता है.


उपर्युक्त ‘सूर्जन चरित्र’ की नामावली में समरसिंह, वैरीसाल, नारायणदास व सूर्यमल ( जो बूंदी की गद्दी पर होने का अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से साबित है, ) के नाम छोड़ दिये हैं और नर्मद व अर्जुन बूंदी के राजा नहीं थे तब भी उनके नाम अंकित किये हैं. ( जो कि भारमल का दूसरा पुत्र नर्मद व नर्मद का पुत्र अर्जुन था, उसमें कोई शक नहीं है लेकिन वे राजा नहीं थे. ) उसी मुआफिक मूता नेणसी की ख्यात में भी नारायणदास व सूर्यमल जो राजा थे उनके नाम नहीं लिखे गये हैं.

हाडा चौहानों की बूंदी में गद्दी कायम होने बाद जो ख्यात वंशभास्कर की पुस्तक में


लिखी है उससे उपलब्ध होती वंशावली अन्य ऐतिहासिक साहित्यों से मिलाते बहुत ठीक पाई गई है, जिससे उक्त ग्रंथ पर से ही बूंदी के हाडा चौहानों का वंश वृक्ष अंकित करना योग्य है, क्यों कि कविराज सूर्यमल्ल ने बडुए आदि के पुस्तकों भी देख कर यह पुस्तक पद बंध की है वैसा पाया जाता है.

वंश वृक्ष हाडा चौहान बूंदी ( वंशभास्कर के ग्रंथानुसार. )

१ देविसिंह



१६ कृष्णसिंह ( देखो पृष्ठ ६७ पर ) बलूवंशवृक्ष वृन्दी.



### बूंदी के हाडा चौहानों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ राव देवीसिंहने भैंसरोड से आकर बूंदी कायम की, उसका अहवाल प्रकरण १० वां में लिखा गया है. वंशभास्कर में लिखा है कि देवीसिंह के पिता वंगदेव उर्फ राव बाघने चित्तौड़, जीरण, दसोर, भानपुर, मांडल, पानगढ, हिंगलाजगढ, खैरोली, कैथोली, व भैंसरोड आदि २४ किले कब्जे किये थे, परन्तु यह सब किले उसके कब्जे में होने का दूसरा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है बल्कि इतिहास वेत्ताओं को यह राय है कि हाडा चौहानों का उस समय में खास राज्य नहीं था, और चित्तौड़ के महाराणा की सेवा में वे उपस्थित थे, वैसे बूंदी राजस्थान कायम होने बाद भी राव सूर्जन ने शाही सेवा का स्वीकार किया वहां तक बूंदी के राजाओं का तालुक मेवाड के महाराणा के साथ रहा है.

वंशभास्कर के ग्रंथानुसार राव देवीसिंह के ११ पुत्र थे, लेकिन मूतानेणसी की ख्यात से पाया जाता है कि उनके सिवाय भावचंद व रायचंद नाम के दूसरे दो पुत्र और भी थे. देवीसिंह की पुत्री 'मंगनी' का विवाह महाराणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र अरिसिंह उर्फ अरसी के साथ हुआ था, और राणा को सहायता से ही देवीसिंह को बूंदी प्राप्त हुई. इससे पाया जाता है कि देवीसिंह अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्यमान था, क्योंकि अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ लिया उस युद्ध में राणा लक्ष्मणसिंह और उसके कुमार अरिसिंह आदि शाखा करके काम आये थे.

नोट—इस वंश वृक्ष में राजाओं के नाम बड़े हरकों से बताया है और जो जो शाखएं हुईं वह नाम अंकित किया गया है.

नं. २ हरिराज बंवावदे में रहा था. जो मुसलमान के साथ लड़ कर मारा गया. इसके बारह पुत्र होना वंशभास्कर में लिखा है.

नं. ३ राव समरसिंह को बूंदी की जागीर मिली. वंशभास्करानुसार यह वि. सं. १३०० में बूंदी की गद्दी पर बैठा ( परन्तु यह संवत् विश्वासपात्र नहीं है. ) और बंवावदे में अपने भाई की सहायता करने में काम आया. मूतानेणसी की ख्यात में समरसिंह के पिता का नाम ' रामचंद ' लिखा है. इसके पुत्र नं. ३ जैतसिंहने कोठिया भील को मार कर कोटा शहर आबाद किया. इसकी पुत्री ' जसमादेवी ' राठौर राज सूजा की माता थी.

नं. ३ राव नरपाल उर्फ नापा बूंदी की गद्दी पर बैठा, उसके बाद नं. ४ राव हमीर उर्फ हापा गद्दी पर आया.

नं. ५ राव वैरसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा. इसका भाई नं. ६ लालसिंह की पुत्री का विवाह चित्तौड़ के महाराणा खेतसिंह के साथ ठहराया था. जब कि खेतसिंह लग्न करने को आया तब लड़ाई होकर खेतसिंह व लालसिंह दोनों मारे गये.

नं. ६ राव वैरीसाल बूंदी की गद्दी पर बैठा, इसके समय में ' मांडू ' का बादशाह होशंगने बूंदी पर घेरा डाला, राव वैरीसालने बहादुरी से उसके साथ मुकाबला किया और लड़ाई में काम आया.

नं. ७ अक्षयराज बूंदी की गद्दी पर आने नहीं पाया, लेकिन नं. ७ राव सुभांडदेव अपने पिता के बाद बूंदी की गद्दी पर बैठा. समरकंद नाम के मुसलमान सरदारने इसको मार कर बूंदी कब्जे कर ली, परन्तु राव नारायणदासने वह समरकंद और दाउद नाम के सरदारों को मार कर वापिस हस्तगत की.

नं. ८ राव नारायणदास अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसकी राणी जोधपुर के राठौर सूजा की पुत्री ' खेतुवाई ' थी. राव नारायणदास को अफीम खाने की आदत बहुत ही बढ गई थी, बल्कि अफीम के नशे में यह दिन रात चकनाचूर रहता था. इसकी राणी खेतुवाई नशे के समय में इसको इतनी हिफाजत से रखती थी कि उसका राव नारायणदास पर बहुत गहरा असर हुआ और राणी को अफीम का संग्रह सुपुर्द कर दिया. पतिवृत्ता खेतुवाई ने अपने पति की तबियत देख कर आहिस्तह २ अफीम कम खावे वैसे प्रबंध करके अफीम कम खाया जाय ऐसी तदवीर करने से उसका व्यसन कम हो गया, बाद इसकी ताकत इतने दर्जे बढ गई कि इसने मेवाड के राणा ' सांगा ' की सहायता में रह कर मांडवगढ के बादशाह को पकड लिया. इसका देहान्त वि. सं. १५८४ में हुआ.

नं. १/१ नर्मद ने अपनी पुत्री 'कर्मवतीवाई' का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के साथ किया था, जो पीछे से 'हाडी कर्मवती' के नाम से राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धि में आई है. हाडी कर्मवती ने जब कि सालवे के बादशाह बहादुरशाह ने चित्तौड़ गढ़ पर आक्रमण किया तब उसके सामने शस्त्र ग्रहण करके किले का बचाव किया, और जब किला बचने की उम्मेद नहि रही तब झसर खडक कर अग्नि प्रवेश नहीं करते दुश्मन के उपर केशरिया कर के जुहार किया. उसने ऐसी वीरता से युद्ध किया कि बहादुरशाह की फौज के पैर उखड़ गये, लेकिन उसी युद्ध में कर्मवती का देहान्त हो गया. यह घटना वि. सं. १५९९ में हुई.

नं. १/२ राव सूर्यमल अपना पिता के पीछे बूंदी की गद्दी पर बैठा. इसकी बहादुरी, उदारता व स्वामी भक्ति के कई एक उदाहरण प्राप्त होते हैं. मूता नेणसो की ख्यात में लिखा है कि महाराणा सांगा ने हाडी कर्मवती की इच्छानुसार उसके बालक राजकुमार विक्रमादित्य व उदयसिंह को रणथंभोर का किला दिया था, लेकिन रणथंभोर की हिफाजत के वास्ते राव सूर्यमल जैसा वीर क्षत्री का सहारा की जरूरत होने से कर्मवतीने अपने पुत्रों व उनकी जागीर की सम्भाल के वास्ते सूर्यमल को कहलाया, तब सूर्यमलने अपने भाँजों का लिहाज नहीं करते जुवाब दिया कि मैं चित्तौड़ की गद्दी के टीकैत का हुक्म उठाऊंगा, यदि युवराज रत्नसिंह ( राणा सांगा का पाटवीकुमार ) मुझे आज्ञा देंगे तो मैं रणथंभोर जा सकता हूं, जिस पर रत्नसिंहने आज्ञा दी तब सूर्यमलने उनकी हिफाजत रखना स्वीकार किया.

सूर्यमल की उदारता के विषय में यह बात मशहूर है कि जब वह बूंदी की गद्दी पर बैठा तब महाराणा सांगाने उसको 'ऐराकी' नाम का बीस हजार रुपये की कीमत का घोडा और 'मेघनाद' नाम का साठ हजार की कीमत का हाथी वगैरः इनायत किये थे, जिनको सूर्यमलने 'भाण' नाम के चारण कवि को वक्षिस में दे दिये. चारणने महाराणा रत्नसिंह ( सांगा का पुत्र ) के आगे सूर्यमल के दान वीरता की प्रशंसा की, तिस पर रत्नसिंह को नाखुशी पैदा हुई. सूर्यमल वीर राजपूत होने से युद्ध करके वह द्वेशाग्नि शान्त किया जाय वैसा न होने से रत्नसिंह राणाने उसको दगा से मार डालने का प्रपंच अखत्यार किया. उसने सूर्यमल को शिकार खेलने के बहाने से मेवाड व बूंदी की सीमा पर गौकर्ण नामक तीर्थ के पास बुलाया, जिस पर वह अपनी पवार राणी के साथ वहां आया. राणा रत्नसिंहने उसका बहुत आदर सत्कार किया और पूर्विया पूरणमल द्वारा छलसे मरवाने की युक्ति की. पूरणमलने तदनुसार सूर्यमल के साथ चूक किया, परन्तु परिणाम यह हुआ कि मरते मरते उसने पूर्विया पूरणमल व राणा रत्नसिंह को भी मार डाले. इसकी पवार राणी गौकर्ण तीर्थ में सती हुई. यह घटना वि. सं. १५८८ में

डूई. हाडाराव सूर्यमल को राणा रत्नसिंहने चूक कराया उस विषय में बारहट हरसूरने कहा है कि.

- “ बांधी अन सुहड सोह कज वीजां, प्रवसी सांरे भीड पडी; सुजडी चूक हुए सूरजमल जांणे हुती हाथ जडी. ”  
 “ पह अन पडप कारणे परठी, भड सांचवे नही भाराथ; अरी अं हणवा कारण उठी, हाडा तणे कटारी हाथ. ”  
 “ धार पहाड सीस धड ढलतै, जग विसारै वार जिण; वेरा हरा सु कर वाढाली, रोपी रीपु साजवा रिण. ”  
 “ उगभ लाग उअर सत्र उगी, तुझ सु कर नारेण तण; परणमि ते सूरज प्रतिमाली, रणफळ तण लागो रयण. ”

इस विषय में कवि आसीया करमसी ने कहा है कि.

- “ प्रतमाली नीयकर चूक प्रगटीयो, सु मेले नारायण सु जाव; अंत आयरो कीयो आधो, रयण सरस हाडा हर राव. ”  
 “ भोग लीयाळ करग कर भेलो, रोस नवेस नीर दले राण; तुं वीच हीये विघन वाहचनता, चहेरा पांक थीयो चहुआण, ”  
 “ चूक हुए जम दाढ न चूको, पाण जुआळ काढी अणपाल; रांणां सरस रोसगे राणो, मरण वहचीयो सूरजमाल. ”  
 “ पोह रतनसी पुर मध पायक खल चूका चूके रण खेत, लोभ गणे एकले न लीधो वैहचे दीधु नारायण वेत. ”

नं. १० सुरताण, राव सूर्यमल के पीछे गद्दी पर आया लेकिन इसकी चाल चलन अच्छी न होने के कारण हाडे सरदार सहसमल व सातल ने उसकी आंखे फोड दी. तब भी वह नेकी पर न रहा जिससे महाराणा उदयसिंह को अर्ज करके हाडे सरदारों ने इसको पदभृष्ट किया और नं. १ अर्जुन के पुत्र ( नर्मद के पोते ) सूर्जन को बूंदी की गद्दी पर बैठाया.

नं. १ अर्जुन चितौड के राणा की सेवा में रहा था. जब कि मालवे के सुलतान बहादुरशाह ने चितौड पर चढाई की तब यह उस लडाई में ५०० सैनिकों के साथ मारा गया. इस विषय में टोंडराजस्थान में लिखा है कि हाडा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ वीका पहाड के उपर से प्रचंड युद्ध कर रहा था, उस पहाड के नीचे सुलतान की फौज के 'लाब्रीखां' नामके फिरंगी गोलंदाज ने पैतालीस हाथ गहरी सुरंग खोद कर बारुद भर के उंडा दी, जिससे हाडा अर्जुन अपने साथियों के सहित मारा गया.

नं. १ राव सूर्जन, हाडा राव सुरताण के पीछे बूंदी की गद्दी पर बैठा, इसके विषय में 'सूर्जन चरित्र' नामकी पुस्तक में इसकी वीरता व कार्य दक्षता की बहुत ही प्रशंसा करने में आई है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि जिस समय हाडी कर्मवती ने चितौडगढ में जुहार किया उस लडाई में इसका पिता अर्जुन काम आने से चितौड के महाराणाने इसको मेवाड में बारह गांवकी जागीर दी थी, बाद राणा की अच्छी सेवा करने से इसको फूलिया व बदनोर परगणों की जागीरें मिली. बूंदी की गद्दी पर बैठाने के समय इसको रणथंभोर की किलेदारी, पाटण, कोटा, करखडा, लाखेरी, मेळवाय परगना, आतरणो, व खेराबाद, आदि दिये गये. यह महाराणा उदयसिंह के बहुत ही निहरबानी के पात्र था. महाराणा उदयसिंह जब द्वारिका यात्रा करने को गये तब यह उसके साथ था.



और इस समय जिस मन्दिर में श्री रणछोडराय बिराजते हैं वह मन्दिर महाराणा की आज्ञा से इसने ही बनवाया था.

वि. सं. १६२४ में अकबर बादशाह ने चित्तौडगढ़ सर किया, और वहां से लौटते रणथंभोर पर घेरा डाला, उस समय राव सूर्जन रणथंभोर के किले में विद्यमान था. उसने अपनी कम ताकत व सिसोदियों की पडती देख कर कछवाहे भगवान्दास द्वारा तजवीज कराकर रणथंभोर का किला बादशाह को सुपुर्द किया, और चून्नार के साथ वाराणसी आदि चार परगने उसकी एवज में लेकर बादशाह की मातहती स्वीकार कर ली. शाही उमराओं में इसका दर्जा 'दो हजारों मनसब' का था. इसका छोटा पुत्र भोजराज शाही सेवा में उपस्थित रहा, लेकिन बड़ा पुत्र दूदा शाही तावेदारी से विमुख होकर मेवाड में भाग गया.

राव सूर्जन के वास्ते सूर्जन चरित्र की पुस्तक में लिखा है कि इसने अपने पुत्र भोज को वूंदीका राज्य देकर इश्वर भक्ति के कारण बनारस में कालक्षेप किया था, लेकिन सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि चित्तौड गढ़ पर महाराणा के निमकहलाल सरदारों ( सिसोदिया पता व शवत जयमल ) ने अपने मालिक का नमक अदा करने को जान कुर्बान की, उसकी कदर करके अकबर बादशाह ने आगरे पहुंच कर किले के दरवाजे पर दो पत्थर के हाथी बनवा कर दोनों बफादार सरदारों की मूर्तियां वे हाथीओं पर स्थापन की, ( जो इस वक्त भी आगरे के किले के दरवाजे पर विद्यमान है. ) और राव सूर्जन के आगे 'कूकरीभात' मडवाया, जिससे सूर्जन शर्मिन्दा होकर बनारस तीर्थ में काशीनिवास करने के वास्ते चला गया, जहां वि. सं. १६४२ में उसका देहान्त हुआ.

\* रणथंभोर का किला राव सूर्जन ने दिया उस विषय में 'भारत राज्य मंडल' नामके ग्रंथ में लिखा है कि अकबर बादशाह ने रणथंभोर के किले पर हमला किया, परन्तु सूर्जन राव के पराक्रम से फतह नहीं पाई, जिससे आमेर के कुमार मानसिंह कछवाहे के साथ बादशाह उसके छडीदार बन कर रणथंभोर का किला देखने को गया. राव सूर्जन ने उसको पहिचान लिया और अच्छा सत्कार किया. मानसिंह ने बादशाह के साथ संधी करने की समजूत करने से यह शर्तें कारार पाई कि, "रणथंभोर के एवज में चून्नार का किला व काशीक्षेत्र राव सूर्जन को दिये जावे, और वूंदी के हाडा चौहानों के मान मर्यादा के विषय में खास शर्तें की गई कि वूंदी राज्य को अपनी राज कुंवरी मुगल को देने की फर्ज नहीं रहेवे. 'जजियावेरा' न लिया जाय. सिन्धु नदी उतर कर जाना पडे वैसी जगह न भेजा जाय. इनके अलावा जो जो बातें हिन्दु ईस अपमानित मानते हैं वैसी बातें व ऐसे करों से वूंदी मुक्त रहेगी "

सूर्जन राव ने यह भी शर्त मंजुर कराई कि जब वूंदीके नरेश शाही दरबार में हाजिर होवे तब अपने हथियार साथ रख कर बादशाह की मुलाकात लेवे, और वूंदी के देवाल्यों को मुसद्ग्राम पवित्र रखे. वूंदी रियासत को दूसरे हिन्दु राजा की मातहती में न दी जाय, और शाही तावेदारी का खानु चिन्ह (बोडे सवार की ललाट पर एक फूत्र रखा जाता था) न रखा जाय व वूंदी नरेश शाही पायतलत में आवे तब लाल दरवाजे तक अपने डंके निशान साथ रखे.

+ 'कूकरीभात' मडवाने का सच यह है कि सिसोदिया पता व रावत जयमल ने अपने मालिक की सेवामें प्राण समर्पण किये, तब राव सूर्जन ने रणथंभोर का किला बादशाह को देकर उसके बदले में चून्नार आदि जागीरें लेकर शाही सेवामें उपस्थित हुआ. यानी नमक अदा नहि करते अपना स्वार्थ साध लिया.

बूंदी के इतिहास में यह उल्लेख है कि हाडा चौहान कब भी मेवाड के महाराणा की मातहत में नहीं रहे हैं, और मेवाड के इतिहास में जगह २ राव सूर्जन तक के हाडे चौहान मेवाड के प्रथम श्रेणी के सामन्त होने का लिखा गया है. मूता नेणसी की ख्यात व टॉड राजस्थान से पाया जाता है कि बूंदी के हाडा चौहानों का ताह्लुक राव सूर्जन तक मेवाड के साथ रहा है, और अकबर के साथ रणथंभोर का अहदनामा हो जाने से मेवाड का संबंध बंध हुआ. मेवाड के इतिहास में यह दावा जगह जगह होना पाया जाता है कि मुगल सलतनत कायम होने पहिले राजपूताना के सब राजाओं मेवाड के महाराणा की मातहत में थे, और उसके समर्थन में जब जब मेवाड के राजाओं को राजपूताना के दूसरे राजाओं ने सहायता की थी, या समयानुसार मेवाड के राजा की पनाह लेने में आइ थी, वे वृतांत दिखलाये जाते हैं, लेकिन राजपूताना के राज्यों का इतिहास देखते मालूम होता है कि वे सब राज्यों मेवाड के मातहत में नहीं थे, परन्तु मेवाड के महाराणाओं के लिये उनके दिल में बहुमान था, जिससे परस्पर एक दूसरे की सहायता की जाती थी. पाया जाता है कि राव सूर्जन के पहिले हाडा चौहानों का ताह्लुक उसी मुआफिक था, लेकिन नं. १ अर्जुन, महाराणा सांगा का साला होता था और चित्तौड़ के युद्ध में वह काम आने से उसके पुत्र सूर्जन को महाराणा ने मेवाड में जागीर दी थी, जिससे उसको मेवाड का सामन्त गिना गया है.

नं. ११ दूदा, राव सूर्जन का गद्दी वारस था, परन्तु सूर्जन ने शाही सेवा स्वीकार ली जिससे नाखुश होकर यह मेवाड में चला गया. दूदा का मेवाड में जाना सूर्जन को नापसंद होने से उसने इसको पकड़ कर लाने के वास्ते ' जैनखां कूका ' के साथ अपने पुत्र भोजराज व रामचंद्र को भी भेजे, उन्हो ने दूदा को जबरन पकड़ कर बादशाह के आगे खडा किया, लेकिन जबरन लानेका मालूम होने से बादशाह ने उसको छोड दिया. सूर्जन ने इस कारण से उसका बूंदी की गद्दी का हक रद्द किया, जिससे दूदा ने बूंदी के प्रदेश में बगावत करनी शुरु की. कई दफे उसने भोजराज को आगरे में मारने का प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न होने से वह विजापुर के ब्राह्मणी सुलतान की सहायता लेने के वास्ते आगरे से रवाने हो गया, उसका प्रयाण दक्षिण में चलू था, दरमियान मालवे के प्रदेश में देवगढ के पास उसके भाई भोजराज के किसी आदमी ने उसको विष प्रयोग से मार डाला. यह घटना वि. सं. १६३८ में हुई. इसके पुत्र चतुर्भुज, अमरसी व श्यामसिंह थे.

नं. ११ राव भोजराज अपने पिता सूर्जन से नाखुश होकर पहिले से ही शाही सेवा में उपस्थित हो चुका था, और अपनी कार्य दक्षता व बहादुरी से शाही कृपा का पात्र बनकर सूर्जन की हयाती में ही इसने बूंदी राज्य की सनंद हासिल कर ली थी. कहा जाता है कि भोजराज ने

अंवर (आमेर) के राजा भगवानदास कछवाहे की बातों में आकर शाही सेवा करना पसंद किया लेकिन खास शर्तों के साथ इसने वह चाकरी कबुल की थी. कुछ समय बाद किसी-ने अकबर बादशाह को जाहिर किया कि भोजराज की राजकुमारी बहुत स्वरूपवान है, जिससे बादशाहने भोजराज से उसके साथ अपनी शादी करने की इच्छा प्रकट की. भोजराज ने अपनी शर्तों की याद दिलाई लेकिन बादशाह उस शर्त पर पाबंध रहने को तैयार न रहेगा वैसा मौका देख कर उसने यह भी अर्ज कर दी कि मेरी पुत्री की सगाई हो चुकी है. जिस पर उसका नाम ठाम पूछा गया. हाडा राव धर्म शंकट में आ पडा, उसने जुवाब देने के पहिले दरबार में उपस्थित रहे राजपुत्रों की तरफ अपनी नजर डाली परन्तु किसीने उससे आंखें न मिलाई, सिर्फ ' सवियाणे ' के राठौर कला ( जोधपुर के राव मालदेव का पोता होता था. ) जो बहादुर और स्वाभिमानी राजपुत्र था, उसने भोजराज की आपत्ति मिटाने को उससे आंख मिला कर अपनी मूछों पर हाथ डाला. चतूर हाडाने बादशाह के आगे राठौर कला का नाम जाहिर किया. बादशाहने उस मांग पर से अपना हाथ उठा लेने की कला राठौर को आज्ञा की. परिणाम यह हुआ कि उसने हाडा चौहान की इज्जत बचाने के खातर भोजराज की गैरहाजरी में बूंदी जाकर हाडी कन्या से लग्न कर लिया और बादशाह की खफगी में आकर अपनी जान व जागीर उसके वास्ते कुर्बान की. ( कला राठौर के वीरत्व व राजपूताई के बहुत से गीत कवित्त राजपूताना में प्रसिद्धि में हैं. )

राव सूर्जन के गुजर जाने पर राव भोजराज पूरे तौर से बूंदी के राजा बना और वि. सं. १६६४ में उसका देहान्त हुआ.

नं. १२ राव रत्नसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने शाही सेवा में बडी वीरता के साथ नोकरी दी, जिससे बादशाह ' जहांगीर ' ने इसको ' सर्वलंदराय ' और ' रावराय ' के खिताब इनायत कर पांच हजार मन्सब के दर्जे तक पहुंचाया, और खीची चौहानों का राज्य छीन लेने के वास्ते शाही फौज की मदद दी, जिससे उसने गढ गागरुन, चाचरणी, वगेरह इलाका खीची गोपालदास और वाधा से छीन कर बूंदी के राज्य की सीमा बढा ली. राव रत्नसिंह मुह्ला मुहम्मद लारी के साथ बुराहनपुर ( दक्षिण में ) की किलेदारी पर था, उस वक्त शाहजादे खुर्रम ने तथा ब्राह्मणी सुलतान के सरदार हवसी अमर ने बुराहनपुर लेना चाहा मगर उनको इसने सफलता प्राप्त न होने दी. शाहजहां बादशाह के वक्त में भी यह दक्षिण में तइनात था, और वहां ही वि. सं. १६८८ में इसका देहान्त हुआ. इसके कुंवर नं. १३ माधवसिंह को शाहजहां बादशाह ने

+ वे शर्तों की तफसिल इस प्रकार में आ चुकी है. मतान्तर इतना ही है कि वे शर्तें राव सूर्जन ने की थी या भोजराज ने ? अनुमान होता है कि भोजराज ने राव सूर्जन के पहिले शाही सेवा का स्वीकार किया था, जिससे उसने ही यह शर्तें की होगी, क्यों कि भोजराज बडा कार्य दक्ष राजपूत्र था.

कोटा और पलायता वगैरह परगने की जागीरें देकर ढाई हजारी मनसब किया था, जिसकी ओलाद वाले ' माधाणी हाडा ' ( कोटा ) कहलाये. कोटे के हाडा चौहानों की ख्यात अलग प्रकरण में लिखी गई है.

नं. १३ गोपीनाथ, रावराया रत्नसिंह की हयाती में ही लगभग पचीस वर्ष की उम्र में गुजर गया था. इसके कम उम्र में गुजर जाने का सबब यह बताया है कि वह दूबले बदन के होने पर भी इतना ताकात बर था कि शामियाने के खंभे के बराबरी जितनी दरख्तों की दो शाखें अलग हुई हो ऐसे दरख्त देख दोनों शाखें की जगह पर बैठ कर एक शाख पर अपने पैर व दूसरी शाख पर पीठ लगा कर उस दरख्त को चीर देता था. ऐसी २ फाजिल ताकत अजमाने के काम करने से यह कम उम्र में मर गया. इसके १३ पुत्र थे, जिसमें १ उदयसिंह २ सूरसिंह ३ श्यामसिंह ४ केसरीसिंह ५ कनकसिंह ६ नगराजसिंह ७ रामसिंह ये सब ना ओलाद होने से इनके नाम वंशवृक्ष में दर्ज नहीं किये हैं.

नं. १४ रावराया शत्रुसाल अपने दादे रत्नसिंह के पीछे वृंदी की गद्दी पर बैठा. इसने खीची नगसिंह को मार कर बेलनपुर परगना ले लिया. इसकी शादी मेवाड के महाराणा जगतसिंह की पुत्री के साथ हुई थी. पहिले यह शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंधार गया और दूसरी दफे ( वि. सं. १७०२ में ) शाहजादा मुराद-बक्ष के साथ ' बलख ' गया था. वि. सं. १७१५ में जब कि औरंगजेब व दाराशिकोह दरमियान युद्ध हुआ, तब यह दाराशिकोह की फौज में हरावल का अफसर था, और इसी लड़ाई में मारा गया. इनके भाई नं. १५ इन्द्रसाल ने इन्द्रगढ बसाया जिसके वंशज इन्द्रगढ के महाराज कहलाते हैं.

नं. १५ रावराया भावसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पर आया. इसका भाई नं. १३ भगवत्सिंह आलमगीर बादशाह की नोकरी में था. रावराया शत्रुसाल दाराशिकोह की मदद में मारा जाने से जब कि रावराया भावसिंह बादशाह के पास पहुंचा तब आलमगीर ने बसवब नाराजगी भगवत्सिंह को राव का खिताब देकर वृंदी में से कितनेक परगने दे दिये. रावराया भावसिंह का पुत्र पृथ्वीसिंह बचपन में गुजर गया था, जिससे इसने अपने भाई नं. १६ भीमसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को युवराज ठहराया था, लेकिन बाद में वह भगवत्सिंह के गोद जाने से उसका युवराज पद रद्द करके उसका बेटा नं. १७ अनिरुद्ध को गोद रखा. भावसिंह औरंगाबाद के पास भावपुरा गांव में वि. सं. १७३८ में गुजर गया.

नं. १६ कृष्णसिंह अपने काका रावराया भावसिंह के युवराज ठहराये गये थे, लेकिन बाद में नं. १६ भगवत्सिंह के गोद गये. इसका सबब यह है कि आलमगीर बादशाह ने

भावसिंह वगैरह राजाओं से +एक मजहब कर लेने की तजवीज कर रखी थी, उस सुआफिक बूंदी के नजदीक केशवरायजी के मन्दिर को गिराने के वास्ते फौज आई, तब कृष्णसिंह ने शाही फौज से लड़ कर मन्दिर बचाया. इस लड़ाई में नं. १५ भगवत्सिंह काम आया, जिससे कृष्णसिंह, भगवत्सिंह के गोद बैठा. पाया जाता है कि कृष्णसिंह अपने सनातन धर्म के वास्ते ज्यादा ख्याल रखने वाला था. कृष्णसिंह वि. सं. १७३४ में उज्जेन में मारा गया, उसके मारे जाने का सबब यह हुआ कि जब कि शाहजादा महम्मद अकबर मालवे का सुबेदार होकर उज्जेन आया, तब कृष्णसिंह उसके पास हाजिर हुआ, वहां पर मजहबी तकरार पैदा होने से मुसलमानों ने उसको मार डाला. फारसी तवारीख वाले लिखते हैं कि उसने वहां पर खिल्लत पहिनने के वक्त पर बहुत जिद की और अपने आप खंजर मार कर मर गया.

नं. १७ रावराया अनिरुद्ध नं. १५ भावसिंह के पीछे कम उम्र ( पंद्रह साल की ) में गद्दी पर बैठा. जब कि ये बादशाह के साथ दक्षिण में था, तब वहां पर यह खबर मिली के हाडा दुर्जनसालने बड़ी अपने कब्जे कर ली है, उस पर शाही फौज की मदद लेकर इसने बूंदी का कब्जा वापिस ले लिया. ( वि. सं. १७४० में ) बाद में इसको काबुल की तरफ भेजा गया, वहां ही वि. सं. १७५२ में इसका देहान्त हुआ.

नं. १८ रावराया बुद्धसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय में कोटा के राव रामसिंह ने शाही कृपा से भूषित होने के कारण ' मऊ-मेदाना ' का प्रदेश बूंदी से हठवा कर अपने कब्जे में ले लिया. इस कारण से बूंदी व कोटे के हाडे चौहानों के बीच में विरोध पैदा हुआ, और उसी समय पर शाहजादे बहादुरशाह व आजमशाह के दरमियान में ना इत्तिफ़ाकी हो गई. अतः रावराया बुद्धसिंह ने बहादुरशाह का पक्ष लिया और कोटे के राव रामसिंह आजमशाह के पक्ष में रहा. दोनों शाहजादों के दरमियान वि. सं. १७६३ में लड़ाई हुई, जिसमें आजमशाह मारा गया. इस लड़ाई में रावराया बुद्धसिंह ने बड़ी बहादुरी दिखलाई थी व इसके पहिले भी यह बहादुरशाह के साथ काबुल में हो आया था. बहादुरशाह वैसे ही इस पर बहुत खुश था जिस से इसको महाराव का खिताब व कई परगनों की नई जागीर मिली.

कोटे के राव रामसिंह का देहान्त होने बाद रावराया बुद्धसिंह ने कोटा कब्जे करने की गरज से बहादुरशाह के पास कोटा की सनद हासिल करके हाडे जोगीराम आदि सरदारों को कोटे पर भेजे, परन्तु उन्हीं को युद्ध में हार कर वापिस आना पडा. बहादुरशाह गुजर जाने से 'फरूखसीकर' बादशाह हुआ, जब कोटे के राव भीमसिंह ने

+ एक मजहब का मायना यह था कि श्रुति पूजा की पृथा बंध कर देना पाया जाता है कि भावसिंहने उस मजहब का स्वीकार किया था.

सैयदो की मदद से बूंदी पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे रावराया बुद्धसिंह अपने ननिहाल चला गया. बुद्धसिंह की शादी उदयपुर, जयपुर व बेगु में हुई थी. उसने अपनी कछवाही राणी को आमेर भेज दी. राठौरी राणी भणाई गई व चूडावतजी बेगु चली गई.

बुद्धसिंह ने पीछे से बादशाह फरूखसीकर को राजी करके बूंदी वापस ले लिया, मगर फरूखसीकर गुजर ने बाद वि. सं. १७७६ में कोटे के राव भीमसिंह ने बूंदी छीन ली. अतः बुद्धसिंह अपने ससुराल आमेर चला गया, वहाँ पर इसके तरफ से एक काम ऐसा कलंकित हुआ कि जिससे इसकी सब नेकी व बहादुरी पर पानी फिर गया, वह यह कि बेगु की राणी से वह खुश था और कछवाही राणी से नाखुश रहता था. जब कि आमेर में कछवाही राणी का पुत्र इसके सामने लाया गया तब उसको देख कर महाराज जयसिंह से इसने कहा कि बारह साल से तो मैं नामर्द हूँ फिर लडका कैसे पैदा हुआ? अच्छा यह है कि आप इस लडके को जहर देकर मार डालो. इसने आमेर के महाराज को यह भी लिख दिया कि आप जिसको बूंदी देंगे उसको मैं अपने गोद रखूंगा और कभी चूडावत राणी के लडका होगा तो वह उससे छोटा गिना जायगा. महाराज जयसिंह ने इसके कहने मुआफिक उस लडके को जहर देकर मार डाला. इतना अन्याय बुद्धसिंह ने इसी कारण से किया कि कछवाही राणी का लडका गद्दी का मालिक न हो और चूडावत राणी के लडके को यह लाभ मिले, लेकिन महाराज जयसिंह ने हाडा सालिमसिंह के बेटे दलेलसिंह को बुद्धसिंह के गोद रख कर मुआफिक इकरार बूंदी का राजा बना दिया जिससे बुद्धसिंह नाखुश होकर अपनी राणी चूडावत के पास बेगु चला गया. बेगु के रावत देवीसिंह ने इसकी बहुत खातिर की, बल्कि अपनी जागीर भी इसके सुपुर्द कर दी. इस इहसान का असर बुद्धसिंह पर गहरा होनेसे इसने रावत देवीसिंह को कहा कि—

“ धर पलटी पलट्यो धरम, पलट्यो गोत निसंक, ”

“ दवो हरिचंद राग्वियो, अधिपतियाँ सिर अंरु. ”

मतलब कि जमीन गई, इमान गया, गोत्रि भाई भी बदल गये, ऐसे वक्त पर हरिसिंह के पुत्र देवीसिंह ( बेगुरावत ) ने राजा ( बुद्धसिंह ) के उपर इहसान किया.

इसके जवाब में रावत देवीसिंह ने कहा कि—

“ देवा दरियावाँ तणो, होड़ न नाड़ों होय; जो नाड़ों पाजां छले, तो दरियाव न होय. ”

मतलब कि दरियाव ( यानी राजा बुद्धसिंह ) की बराबरी ( देवा जैसा ) नाड़ा नहीं कर सक्ता. कभी नाड़े का पानी उछल कर बहार निकले तब भी व दरियाव नहीं होता है.

महाराव रावराया बुद्धसिंह बारह वरस तक बेगु में रहा और वि. सं. १७९६ में

वेगु के पास वाघपुरे गांव में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्रों में से नं. १९ उम्मेदसिंह जो वेगु रावत के भांजा था, उसको वेगु में ही बूंदी रावराया की गद्दी नशिनी की गई.

नं. १९ रावराया उम्मेदसिंह दस साल की उम्र में बुद्धसिंह की गद्दी पर बैठा. उसने जयपुर महाराज जयसिंह के अन्तकाल होने बाद नवाब फक्रूदौला तथा कोटे के महाराज दुर्जनसाल और शाहपुरे के राजा उम्मेदसिंह की सहायता से वि. सं. १८०१ में दलेलसिंह को भगा कर बूंदी पर कब्जा किया, लेकिन जयपुर के महाराज ईश्वरसिंह ने वि. सं. १८०२ में बूंदी वापस ले ली, जो वि. सं. १८०३ में रावराया उम्मेदसिंह ने पुनः संपादन की, परन्तु राजा ईश्वरसिंह ने नारायण खत्री की सरदारी के साथ बड़ी भारी फौज भेजकर उम्मेदसिंह को हराकर फिर भगा दिया.

उम्मेदसिंह ने महाराज हुल्कर की मदद से वि. सं. १८०५ में बूंदी फिर कब्जे की. बाद जयपुर महाराज ईश्वरसिंह का देहान्त हुआ और राजा माधोसिंह जयपुर की गद्दी पर आया, और उसकी जाटों के साथ लड़ाई हुई तब रावराया उम्मेदसिंह ने अपने पुत्र अजीतसिंह को जयपुर महाराज की मदद में भेजा, जिसका बदला अदा करने को जब माधवराव सैधिया ने वि. सं. १८१९ में बूंदी पर घेरा डाला तब महाराजा माधोसिंह और शाहपुरे के राजा उम्मेद सह ने इसको मदद दी, जिससे सैधिया को हठना पडा. वि. सं. १८२७ में इसने संसार त्याग करके केदारनाथ में अपना स्थान किया और अपने बड़े पुत्र अजीतसिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया.

नं. २० रावराया अजीतसिंह जवानी में गद्दी पर आये, इसको वहादुरी का ज्यादा अभिमान था. वि. सं. १८१९ में इसने महाराणा अरिसिंह को धोखे से मार डाला. और वि. सं. १८३० में इसका देहान्त हो गया. राणा अरिसिंह को मारने का यह कारण था कि अजीतसिंह की कछवाही राणी अपनी छोटी बहिन के ( जिसका विवाह उदयपुर के राणा अरिसिंह के साथ हुआ तब ) लग्न प्रसंग पर जयपुर गई थी. वहां राणा अरिसिंह ने छल कपट से उसका हाथ पकड लिया. राणी ने वह हाथ अपवित्र होना मानकर काट दिया और बूंदी चली आई. रास्ते में राव अजीतसिंह शिकार खेल रहा था वहां राणी से उसकी मुलाकात हुई. राणी ने हाथ काटने का कारण रावराया को कहा, जिससे अजीतसिंह ने राणा अरिसिंह विवाह करके आ रहा था, उसको रास्ते में ही रोक कर धोखा से मार कर अपमान का बदला लिया.

नं. २१ रावराया विष्णुसिंह अपने पिता के देहान्त के समय पर साढे चार महिन का था जिससे राज्य की संभाल इसके दादा रावराया उम्मेदसिंह ने रखकर 'सुखराम' को मुसाहिव किया. रावराया उम्मेदसिंह वि. सं. १८६१ में देवलोक हुआ वहां तक में विष्णुसिंह राज्य संभाल ने लायक हो चूका था. उस समय म इसके काका





सौजूदा महाराजा साहब बूंदी.



महाराव राजा राव राया सर रघुवीरसिंह साहब बहादुर.

जी. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई., जी. सी. वी. ओ.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ७९ नं. २३ ]

बहादुरसिंह के पुत्र बलवन्तसिंह जो 'गोदरे' की जागीर पर था उसने फिसाद खडा करने से उस पर फौज भेजी, जिसमें बलवंत व उसका भाई शेरसिंह और बेटे धोंकलसिंह, व फतहसिंह काम आये. वि. सं. १८७५ में बूंदी दरबार व कम्पनी सरकार के दरमियान अहदनामा हुआ और वि. सं. १८७८ में इसका देहान्त हुआ.

नं. २२ रावराया रामसिंह अपने पिता के पीछे साढे नौ वरस की उम्र में गद्दी पर बैठा. इसकी राणी जोधपुरी सरूपकुंवर थी, जिनके कामों में मुसाहिव किशनराम बेपरवाही करता था इस लिये जोधपुर महाराज मानसिंह के इशारे से 'सालू' नाम के राजपूत ने उक्त मुसाहिव को कचहरी में मार डाला और सालू भी मारा गया. इस रावराया के समय में पाटण का दोतिहाई परगना जो पहिले सैधिया महाराज को दे दिया था वह बतोर इस्तमरार वापस लिया. वि. सं. १९१४ के बलवे में रावराया ने सच्चे दिल से अंग्रेज सरकार को मदद दी, और वि. सं. १९१५ में बागियों की फौज जब बूंदी पर आई तब बागियों पर खूब तोपें चलाकर उनको भगा दिये, बाद खेराड के मीणों ने जब सिर उठाया तब उनको भी सजा दी. 'गोदरे' के महाराज बलवंतसिंह के बेटे भौमसिंह ने अदूल हुक्मी करने पर गोदरा की जागीर खालसे करके उसको निकाल दिया. इसके बडे दो कुमार भीमसिंह और रुघनाथसिंह इसकी हयाती में ही गुजर गये थे.

नं. २३ महाराव राजा रावराया रघुबीरसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. यह मौजूदा रावराया है. सन १९१२ ईस्वी में महाराणी साहब क्वीन मेरी ने बूंदी की महमानगिरी स्विकार कर बूंदी शहर की मुलाकात ली, और रावराया रघुबीरसिंह की सरभरा महमान गिरी से उनको संतोष हुआ था. रावराया सर रघुबीरसिंह बहादुर को ब्रिटिश सरकार की तर्फ से 'महाराव राजा' का खिताब के साथ, जी, सी, एस, आई. जी, सी, आई, ई. और जी, सी, वी, ओ. के खिताब हासिल है. आप को पुराने तरीके से रहना पसंद होनेसे राजरीत और लिबास वगैरह पुराने ढंग के रखते हैं बल्कि वर्तमान समय में प्राचिन राजनीति अनुसार चलने वाले रइशों में मेवाड के महाराणा व बूंदी के रावराया ही है.




## प्रकरण १२ वाँ.

### हाडा चौहान कोटा.

कोटा के हाडा चौहानों का मूल पुरुष बूंदी के हाडा चौहान के वंश वृक्ष में दर्ज हुआ नं. १<sup>२</sup> माधवसिंह है, जो बूंदी रावराया रत्नसिंह का द्वितीय कुमार था. कोटे की जागीर उसको बूंदी से वि. सं. १६८८ में मिली थी, लेकिन बूंदी के रावराजा भोजराज का शाही सेवा में तालुक हो जाने से कोटा की जागीर पाने पेस्तर वि. सं. १६८४ में माधवसिंह बादशाही सेवा में मन्सबदार हो चुका था. कोटा के हाडा चौहानों का वंश वृक्ष नीचे सुआफिक है.

### वंश वृक्ष हाडा चौहान कोटा.

१ माधवसिंह ( बूंदी के हाडा चौहान वंश वृक्ष में नं १<sup>२</sup> वाले ने कोटा पाया. )



### कोटा के हाडे चौहान राज्य कुल का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ राव माधवसिंह-वि. सं. १६८४ में शाही सेवा में उपस्थित हुआ था, उसने वागी लोदी खानेजहां को वरछी से मार डालने पर इसको तरकी मिली और दो हजारी मन्सब के साथ निशान इनायत हुआ. वि. सं. १६८८ में इसको कोटा की रियासत

मिली. वि. सं. १६९० में जुजारसिंह बुन्देला को सजा देने के काम में वीरता बताने से तीन हजारी मन्सब व सोलहसों सवार का दर्जा पाया. वि. सं. १६९२ में यह शाहु छत्रपति के सामने शाही फौज के साथ गया और वि. सं. १६९४ में सुलतान सुजाअ के साथ काबुल गया. वि. सं. १६९६ में सुलतान मुरादबक्ष के साथ यह फिर काबुल पहुंचा और वहां से वापस आनेपर इसको तीन हजारी मन्सब व ढाई हजार सवारों की हुकुमत प्राप्त हुई. वि. सं. १६९९ में पांचसो सवारकी फिर तरक्री पाई और वि. सं. १७०१ में मुरादबक्ष के साथ 'बलख' पहुंचा, वहां से वि. सं. १७०४ में कोटे आया जहां पर इसका देहान्त हुआ.

नं. २ राव मुकुन्दसिंह जो माधवसिंह का बड़ा पुत्र था वह माधवसिंह के बाद गद्दी पर आया. शाहजहान बादशाहने इसको दो हजारी व देढ हजारी सवारों की मन्सब दी. यह दो वक्त औरंगजेब के साथ व एक वक्त दाराशिकोह के साथ कन्धार गया था और वहां से वापस आनेपर नकारह निशान के साथ तीन हजारी व दो हजार सवारों की मन्सब पाया था. वि. सं. १७११ में चितोड की चढाई में यह शरीक था, वैसे औरंगजेब को मालवे में रोकने के वास्ते महाराजा जसवंतसिंह नियत हुए तब यह अपने दूसरे चारों भाईयों साथ उस युद्ध में शामिल रहा. यह युद्ध वि. सं. १७१५ में फतहाबाद में हुआ, जहां राव मुकुन्दसिंह व उसके भाई नं. ३ मोहनसिंह, नं. ३ कान्हसिंह, व नं. ३ जुजारसिंह यह चारों भाई बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये. सिर्फ नं. ३ किशोरसिंह जखमी हालत में बच गया, मगर उसको ४० जखम लगे थे. इस युद्ध के विषय में कविने कहा है कि—

“ प्रथम मुकुन्द, मोहन, अणी धणी जुझार पण; सही भड किशोर कान्ह साथै ”

“ अथग अवरंग अलंग ठीलडी अवतां; मधारा रावतां लोध माथे. ”

“ उरेडे सेन सारस गडे उपडै, जागिया रुडे घणा सबद जाड़ा. ”

“ काल दखणादरा दलीसर दाकले, हाकले आणिया सीस हाडों. ”

“ लगस फोजां गजा बलोवल लूंवियां, सांचरे हियां कहे भडां सांचां ”

“ उरसरी गजां साही सरस उतरे, माधग ओढिया कमल पांचां. ”

“ किस वटे रण वटे थटे अवरंग कसे, अवर सह धर हरे फरहरे आंच. ”

“ पांच नर नीमटे नाही सारी पृथी, पेट हेकण तथा नीमटे पांच ”

“ वेस चाहे जहर रमा आवध दगल, श्याम धरम पार पाडे स उजा ”

“ सार अड़वड़ थकां उपाडे किशोर, देवपुर च्यार गा रतन दुजा. ”

नं. ३ राव जगतसिंह चौदह वर्ष की अवस्था में अपने पिता के पीछे गद्दीपर आया, यह दो हजारी मन्सबदार था और दक्षिण में तहेनात रहा था. वि. सं. १७४० में इसका देहान्त हुआ, और अपुत्रवान होने से नं. ३ कान्हसिंह के पुत्र नं. ३ प्रेमसिंह कोटा की गद्दीपर आया, लेकिन उसका चलन दुरुस्त न होने के कारण दूसरी साल वह पदभ्रष्ट हुआ और उसके काका नं. ३ किशोरसिंह को गद्दी मिली.

नं. २ राव किशोरसिंह, राव प्रेमसिंह के पीछे गद्दीपर आया. यह विजापुर के युद्ध में जख्मी हुआ था. वि. सं. १७४३ में यह सुलतान मुअज्जम के साथ हैदराबाद गया और वि. सं. १७४९ में इसको नक्कारह की इनायत हुई, बाद में यह जाटों की बगावत मिटाने के काम में शाहजादा वेदारवख्श के तहेनात था, वहां जख्मी होने से कोटे चला आया, और अपने पुत्र नं. ३ विष्णुसिंह व नं. ३ हरनाथ को वहां जानेका कहा मगर वह नहीं गये, जिससे छोटाकुमार नं. ३ रामसिंह गया. वि. सं. १७५२ में अर्काट की लड़ाई में यह रामसिंह के शरीक रहा और ब्रहादुरी से लडकर काम आया. इस युद्ध में रामसिंह भी जख्मी हुआ.

नं. ३ राव विष्णुसिंह अपने पिता किशोरसिंह के देहान्त होने बाद कोटा की गद्दी पर बैठा, लेकिन जख्मी रामसिंह जब तन्दुरूस्त होकर शाही दरवार में पहुंचा तब इनकी शाही सेवा की कदर करने को जुलिफकारखां बहादुर ने सिफारिश करने से रामसिंह को कोटा इनायत किया गया. रामसिंह शाही फौज के साथ कोटा कब्जे करने को आ रहा है यह खबर सुनने पर राव विष्णुसिंह अपनी फौज के साथ इनके सामने आये. 'आंवा' गांव के पास दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, जिसमें इसका छोटा भाई नं. ३ हरनाथसिंह काम आया. राव विष्णुसिंह जख्मी होकर अपने ससुराल में चला गया और तीन साल रहने बाद वहां ही गुजर गया.

नं. ३ राव रामसिंह ने शाही फौज की मदद से कोटे का कब्जा किया और गद्दी पर बैठा. वि. सं. १७५७ में इसको नक्कारह इनायत हुआ और वि. सं. १७६१ में ढाई हजारी व एक हजारी स्वारों की मन्सब के साथ 'मऊ मेदाना' की जमींदारी बूंदी के रावराया बुद्धसिंह से छीन कर इसको इनायत हुई. औरंगजेब के शाहजादों में जब तकरार हुई तब राव रामसिंह ने आजमशाह का पक्ष लिया और चार हजारी मन्सब पाकर सुलतान अजीमुशशान के साथ बड़ी वीरता से युद्ध करके काम आया.

नं. ४ पृथ्वीसिंह को राव रामसिंह ने उसका पिता विष्णुसिंह का देहान्त होने बाद मेवाड से बुलवा कर 'अणता' पट्टा की जागीर दी. व नं. ४ कुशलसिंह को 'सांगद' का पट्टा दिया.

नं. ५ राव भीमसिंह अपने पिता राव रामसिंह के देहान्त पर कोटे की गद्दी पर बैठा. उस वक्त बूंदी के रावराया बुद्धसिंह जो बहादुरशाह के पक्ष में था उसने कोटे की जागीर का फरमान अपने नाम का हासिल कर कोटे पर फौज भेजी. भीमसिंह ने यह खबर सुन कर सामना किया. कोटे से पांच कोस 'पाटन' के पास दोनों फौजों का

\* इस लड़ाई में घाटी के रावत तेजसिंह, राजगढ़ के आपजी गौवर्धनसिंह, बानाहेडा के सोलंकी सुजानसिंह, नाराज के राव राजसिंह भादि कोटे के सरदार काम आये.

मुकाबला हुआ उसमें राव भीमसिंह की फतह हुई, बाद भीमसिंह ने बदला लेने की गरज से जब कि महमुदशाह का अमल हुआ, तब सैयदों से फौज की मदद लेकर बूंदी सर की और बहुतसा इलाका कब्जे कर लिया, पिछे वह निजामुलमुल्क 'फतहगंज' से युद्ध करने को गया.

राव भीमसिंह बादशाही बक्षी हुसेन अलीखां का बडा मददगार व महरबानी वाला रईस था. इसको सात हजारी मन्सब और 'माहिमरातिब' का खिताब देकर दिलावर अलीखां व राजा गजसिंह की मदद में पन्द्रह हजार जरीर सवारों की जमियत समेत निजाम के सामने मुकर्र किया, और बक्षीने यह वायदा किया था कि निजाम को सजा देने बाद 'महाराजा' का खिताब और जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह को बाद करते दूसरे रईसों को जो इज्जत है, उनसे ज्यादा इज्जत दिलाई जायगी, लेकिन वह हासिल करने का इसके प्रारब्ध में नहीं था जिससे वि. सं. १७७७ के जेष्ठ सुदी १५ के रोज बुराहनपुर से कुछ फासलेपर निजाम की फौज के साथ युद्ध हुआ उसमें यह काम आया.

नं. ५ राव अजीतसिंह अणता की जागीरपर था, और नं. ६ राव अर्जुनसिंह, नं. ३ वाले राव भीमसिंह के जेष्ठ पुत्र होने से कोटे की गद्दी पर बैठा, लेकिन तीन साल में ही ( वि. सं. १७८० में ) अपुत्रवान गुजर गया. इसने अपने पीछे अपने छोटेभाई नं. ६ दुर्जनसाल को गद्दीपर बठलाने का कहने से वह गद्दीपर बैठा, जिससे दुर्जनसाल का बडा भाई नं. ६ श्यामसिंह, अपना हक मारा जाने से नाखुश होकर जयपुर चला गया, और वि. सं. १७८५ में जयपुर से फौज की मदद लेकर कोटे पर आया. राव दुर्जनसाल उससे युद्ध करने को सामने आया, और 'अत्रालिया' गांव के पास मुकाबला हुआ जिसमें श्यामसिंह मारा गया; कुछ समय बाद राव दुर्जनसाल भी अपुत्रवान गुजर गया जिससे नं. ५ अजीतसिंह अणता वाला महाराव पद से कोटे की गद्दी पर बैठा और वि. सं. १८१५ में महाराव का देहान्त हुआ.

नं. ६ महाराव शत्रुसाल वि. सं. १८१५ में अजीतसिंह के पीछे कोटे की गद्दी पर बैठा. इसके साथ जयपुर के महाराजा माधौसिंह को विरोध हुआ, जिसका कारण यह था कि किला रणथंभोर जो बादशाह के पास था उसकी रखवाली के ताल्लुक इन्द्रगढ, खातोली, वगरेह के हाडा सरदार रणथंभोर के किलेदार की मातहती में रहकर पेशकशी देते थे, परन्तु रणथंभोर का किला जयपुर के महाराजा को सौंपा जाने पर हाडा सरदारों ने जयपुर की मातहती का स्वीकार नहीं करते कोटा के महाराव शत्रुसाल की मातहती स्वीकार ली, जिससे जयपुर वालों ने अपनी बडी फौज कोटे पर भेजी. महाराव ने उसका सामना किया और 'भाटवाडा' गांव के पास दोनो सैन्यों का मुकाबला हुआ,

जिसमें जयपुर का पराजय हुआ. इस युद्ध में जयपुर की फौज के १७ हाथी, १८०० घोड़े, ७३ तोपें और हाथी का पचरंगा निशान आदि असबाब कोटे वालों के कब्जे में आया था. वि. सं. १८२१ से इस महाराव का देहान्त हुआ.

नं. ६ महाराव गुमानसिंह अपने बड़े भाई (महाराव) अपुत्रवान गुजरने से गद्दी पर बैठा. इसका मुसाहिव झाला जालमसिंह हुआ. झाला का सम्बन्ध कोटा के साथ इस कारण से होना पाया जाता है कि नं. ५ राव अर्जुनसिंह की राणी झाला माधवसिंह की बहिन थी, उस समय से झाला का तालुक कोटे में बढ़ गया था, और नं. ६ महाराव शत्रुसाल के साथ जयपुर वालों की लड़ाई हुई उसमें जयपुर की मदद में महाराव हुल्कर आया था, मगर झाला जालमसिंह जो चतुर और बहादुर राजपूत था, उसकी कारगुजारी से हुल्कर ने इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया था, इस कारगुजारी के सबबसे व अ नी बहिन की शादी महाराव के साथ करने के कारण, उसको मुसाहिव पद पर नियत किया गया. कितनेक वर्ष बाद जालमसिंह पर महाराव की नाखुशी होने से वह उदयपुर चला गया. झाला जालमसिंह के अलग हो जाने से कोटा के राज्य कारोबार में अव्यवस्था हो गई जिससे महाराव ने उसको वापस बोला लिया, और अपनी वृद्धावस्था में अपने कुमार उम्मेदसिंह को उसको सौंपा. वि. सं. १८२७ में इस महाराव का देहान्त हुआ.

नं. ७ महाराव उम्मेदसिंह अपने पिता के बाद कोटे की गद्दी पर बैठा, लेकिन राज्य कारोबार की लगाम झाला जालमसिंह के हाथ में ही रही, जिससे झाला जालमसिंह का दखल दिनबदिन बहुत बढ़ गया. झाला का दखल बढ़ा हुआ देखकर हाडा स्वरूपसिंह जो महाराव के नजदीक के भाइयों में था उसने जालमसिंह की मुख्तियारी में खलल डालना शुरू किया, जिससे झाला ने स्वरूपसिंह को मरवा डाला. स्वरूपसिंह को मरवाने से दूसरे हाडे सरदार नाखुश होकर कोटे से चले गये, जिस पर जालमसिंह ने उनकी जागीरें जप्त कर ली, लेकिन बाद में उनके वारिसोंको मरहठों की सिफारश से वबुलिया, खेडली आदि जागीरें दी गई.

जालमसिंह झाला कुशल मुत्सद्दी और बहादुर राजपूत था. उसने मुत्सद्दी पन से मरहठे, पठाण अमीरखां व अंग्रेजों के साथ मैलझोल रखकर कोटे की रियासत में उन लोगों के जरिये से खराबी होने न दी और मुगल-सल्तनत कमजोर हो जाने से उसका लाभ लेने के वास्ते महाराव के साथ रहकर केलवाडा व शाहबाद के किले वि. सं. १८४७ में ले लिये, और गागरून वगैरह परगने कोटे की रियासत में मिला लिये. वि. सं. १८६० में जब अंग्रेज व हुल्कर के दरमियान युद्ध हुआ तब इसने अंग्रेजों की सहायता की. इस युद्ध में कोटा के 'कोयला' व 'पलायता' के

सरदार जो दोनों अमरसिंह नाम के थे वे काम आये. जालमसिंह की मुसाहिबी में मेवाड के जहानपुर, सागानेर व कोटडी आदि इलाका कोटा में शामिल किया गया था, लेकिन वि. सं. १८७४ में जब कोटा की रियासत का कंपनी सरकार के साथ अहदनामा हुआ तब वह मेवाड के जिले वापस मेवाड को दिये गये. महाराव उम्मेदसिंह का देहान्त वि. सं. १८७६ में हुआ.

इसके समय का एक शिलालेख जो वि. सं. १८५३ का झालरापट्टन के स्तंभपर है उसमें महारावने कितनेक कर मुआफ करके प्रजा को पुनः अपने वतन में आबाद होने के वास्ते आमंत्रण किया है. जिसमें महाराव उम्मेदसिंह के नाम के साथ इसके मुसाहिब झाला जालमसिंह व उसका पुत्र झाला माधौसिंह के नाम भी अंकित है, इससे पाया जाता है कि महाराव नाममात्र के कोटा के राजा थे.

नं. ८ महाराव किशोरसिंह अपने पिता के बाद कोटा की गद्दी पर बैठा, लेकिन झाला जालमसिंह के साथ इसका मेल न रहा. इसका इरादा झाला जालमसिंह को मुसाहिबी से अलग करने का था परन्तु अंग्रेज सरकार के साथ जो अहदनामा हुआ था, उसमें जालमसिंह को वंश परम्परा के मुसाहिब स्वीकार किया था, जिससे महारावकी मुराद हासिल न होने पाई, बल्कि कर्नल टॉड की सलाह से महाराव को धमकाने की गरज से जालमसिंह ने किले पर तोपों का मार चलाया जिससे (वि. सं. १८७८) महाराव बूंदी चला गया, वहां भी इसको चाहिये जैसा सहारा न मिलने के कारण देहली गया. देहली में महारावने अंग्रेज सरकार का सहारा चाहा मगर नहीं मिला, जिससे वापस 'हाडोती' तरफ आया, जहांपर करीब ३००० हाडा राजपूत इसकी मदद के वास्ते हाजिर हुए.

कोटा की रियासत के इतिहास में महाराव किशोरसिंह के राज्य अमल के जमाने का इतिहास यादगार व चिरस्थायी घटना है, जिससे इसके लिये कुछ ज्यादाह हकिकत लिखी जाती है. झाला जालमसिंह महाराव के नाना होता था और झाला माधौसिंह इसके मामा होता था. जालमसिंह की पासवान का बेटा गोवर्धनदास नामक था, उसने मामा भांजा दरमियान बे दिली खडी की और महाराव को बरगलाये, इसी तरह महाराव के दूसरा भाई नं. १ विष्णुसिंह, झालों के साथ मिल गया, और छोटाभाई नं. २ पृथ्वीसिंह, महाराव के पक्ष में रहा. इसी खटपट के कारण गोवर्धनदास व पृथ्वीसिंह को महाराव के पास से निकाल देने की तजवीज हुई. महारावने वह मंजुर न रखने से किले पर झालाने तोपें चलाई, जिससे महारावने भी कोटे से चल दिया था.

हाडोती में हाडा सरदारों की जमियत इकट्ठी होजाने पर महारावने 'पोलिटीकल एजन्ट को अपनी शर्तें लिख भेजी, उसमें झाला माधौसिंह और नं. १ विष्णुसिंह, नं. २



पृथ्वीसिंह, इन तीनों को जागीरें देकर इलाहिदा करने का व मालिक नोकर के नाईं महाराव व मुसाहिव का नाता रहकर अपनी स्वतंत्रता कायम रहे यह मुराद बताई गई, लेकिन पोलिटिकल एजंटने वे शर्तें ना मंजूर की. नतीजा यह हुआ कि महारावने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने को एक फौज तैयार की. अंग्रेज सरकारने झाला जालमसिंह का पक्ष स्वीकार किया और एस. मिलनेक साहब की सरदारी में दो पलटनें, छः रिसाले, व एक तोपखाना की मदद भेज दी. झाला जालमसिंह के पास रियासत का कब्जा होनेसे उसने आठ पलटनें, चौदह रिसाले व बत्तीस तोपों के साथ महाराव के सामने युद्ध करने को कूच किया. महाराव के पास सात आठ हजार राजपूतों की फौज बिदून तोपखाने के थी.

दोनों तरफ की फौजों का मुकाबला वि. सं. १८७८ आश्विन शुदी ५ (ता. १-१०-१८२१ इस्वी) के रोज 'सांगरोल' गांव के पास 'काली सिन्ध नदी' पर हुआ. झाला जालमसिंह ने हाडा राजपूतों पर तोपें चलाना शुरू किया, जिसमें एक गोला महाराव के पास चाबुकसवार अलफुखा नामक था उसको लगा और वह मारा गया. खुद महाराव के जान पर खेल होता देख कर हाडे राजपूत विवश हुए और अंग्रेज सरकार ने अन्याय से मुसाहिव का पक्ष स्वीकार किया है, ऐसा मान कर 'कोयला' के राजसिंह व 'मेला' के कुंवर बलभद्रसिंह व उनके भाई दुर्जनसाल आदि सरदारों ने अंग्रेजी रिसाले पर हमला किया. हाडा सरदारों ने इस युद्ध में 'हाडा बंका राठ में' यह कवि का कथन सच्चा करके दिखाया. इन लोगों के उपर तोपों के गोले धनधनाट आ रहे थे, और राजपूत सैनिक गोलों से उड रहे थे, तब भी उन्होंने पीछा पेर नहीं दिया, और अंग्रेजी फौज से हाथ मिलाकर कोयला के राजसिंह ने लेफ्टीनेन्ट क्लार्क को व कुंवर बलभद्रसिंह ने लेफ्टीनेन्ट रीड को मार दिया. ले. कर्नल, केरिन. सी. बी. भी जखमी हुआ.

दूसरी तरफ से महाराव के भाई पृथ्वीसिंह और राजगढ के देवीसिंह ने झाला की फौज पर धावा किया. इस लड़ाई में वह दोनों जखमी हुए, जिससे पृथ्वीसिंह दूसरे रोज गूजर गया. हाडा राजपूतोंने अपने मालिक के वास्ते समरांगण में कई जानें कुर्बान की, और ऐसी वीरता दिखाई की—कर्नल टॉड साहेब जो उस युद्ध प्रसंग में मौके पर विद्यमान था, उनको यह वहादुर राजपूतों की वहादुरी व स्वामीभक्ति की प्रशंसा करना ही पडा. इस युद्धमें साधन के अभाव से महाराव किशोरसिंह की मुराद हासिल नहीं हुई, जिससे वह मेदान छोड कर नाथद्वारा चला गया. महाराव के चले जाने पर युद्ध बंध हुआ, और हाडा सरदारों को मुआफि दक्षी जाने से वह अपनी २ जागीर में आवाद हो गये.

महाराव किशोरसिंह के वास्ते अखीर महाराणा भीमसिंह की शिफारिश से यह



सौजूदा महाराजा साहब कोटा.



लेफ्टनन्ट कर्नल महाराव सर उम्मेदसिंह साहब बहादुर.

जी. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई., जी. बी. ई.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ८७ नं. ११ ]

ठहराव करार पाया कि उनको उदयपुर के महाराणा के जितना खर्चा की रकम कोटा रियासत के खजीने में से मिला करे, उसमें झाला जालमसिंह दखल करने न पावे, और रियासत के इन्तजाम में महाराव दखल न करें. यह शर्त होने बाद वि. सं.-१८७८ पोष वदि ९ के रोज महाराव पोलिटीकल एजेंट के साथ कोटे गये. वि. सं. १८८० में झाला जालमसिंह का देहान्त हुआ और उसकी जगह उसके पुत्र झाला माधौसिंह मुसाहिब हुआ. वि. सं. १८८४ में महाराव किशोरसिंह देवलोक हुए. इसको पुत्र न होने से इसने अपने पीछे अपने छोटा भाई पृथ्वीसिंह के कुमार नं. ९ रामसिंह को युवराज ठहराया था.

नं. ६ विष्णुसिंह-महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी के हकदार था, लेकिन नं. ९ रामसिंह ( जो नं. ३ पृथ्वीसिंह लडाई में काम आया था उसका कुमार ) को युवराज मुकरर करने से और मुसाहिब झाला माधौसिंहने भी इसका पक्ष छोड देनेसे इसको गद्दी नहीं मिली.

नं. ९ महाराव रामसिंह, महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी पर बैठा. वि. सं. १८९० में झाला माधौसिंह गुजर गया और उसका पुत्र मदनसिंह झाला मुसाहिब बना. मदनसिंह खुद रईस के मुआफिक अखत्यार चलाने लगा, जिससे महाराव के साथ उसका विरोध बढ गया. यह विरोध यहां तक बढने पाया कि फ़साद न होने पावे उसके वास्ते अंग्रेज सरकारने बीच में पड कर झाला मदनसिंह को बारह लाख रूपिये की पेदायश का इलाहिदा इलाका देकर राजा बनाकर कोटा से अलग कर दिया. तब से राजपूताना में झालावाड का नया राज कायम हुआ. महाराव रामसिंह वि. सं. १९२३ में देवलोक हुए, इसकी राणी ' फूलकुंवर ' उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री थी.

नं. १० महाराव शत्रुसाल के वक्त में राज के इन्तजाम में बहुत बे बंदोबस्ती होगई, बल्कि "कोटा के धावन हुकम" यह कहावत मशहूर हुई. रियासत करजदार हो गई और करजे की वसूली के वास्ते साहुकारों को इलाका सोंपा गया. इस हालत में ब्रिटीश सरकार की तरफ से रियासत का इन्तजाम सुधारने की सलाह देने में आई, जिस पर वि. सं. १९३० में महाराव शत्रुसाल ने अपनी रियासत, वास्ते करने प्रबंध अंग्रेज सरकार को सुप्रद करना स्वीकार किया व उसके वास्ते जयपुर के मुसाहिब नवाब फैजअलीखां साहब सी. एस. आई. को ब्रिटीश सरकार ने मुकरर करने से उसने राज प्रबंध अपने हाथ में लिया. महाराव शत्रुसाल का देहान्त होने बाद वह अपुत्रवान् होने के कारण इनके पीछे कोटडी के महाराव छगनसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह वि. सं. १९५० में गद्दी पर आया.

नं. ११ महाराव उम्मेदसिंह गद्दी पर आये तब बारह साल की उम्रमें थे. इसने

मेओकॉलेज में विद्याभ्यास किया और बाद में फौजी तालीम पाई, जिससे 'लेफ्टनन्ट कर्नल' का फौजी दर्जा हासिल है. गद्दी पर आने बाद राज का अच्छा प्रबंध करने की कदर में ब्रिटीश सरकारने महाराव को जी. सी. एस. आई, जी. सी. आई. ई. और जी. वी. ई. के बड़े दर्जे के खिताब इनायत किये है. वि. सं. १९५६ सन १८९९ ईस्वी में सरहूम झाला मदनसिंह को कोटा रियासत से जो बारहलाख की आमदनी के परगने रियासत कोटा से देकर झालावाड की अलग रियासत मुकरर की गई थी वह कुल परगने ( १ चेचट, २ सुकेत, ३ अकलेरा, ४ बकानी, ५ छीपाबडोद, ६ मनोरथाणा, ) वापस कोटा रियासत को मिल गये, बल्कि झाला का पाटनगर जो 'झालरापाटण' नाम से मशहूर है वह भी वापस आने काबिल था, मगर उसकी एवज में किला शाहाबाद मय शाहाबाद परगने के ( जो झालावाड की रियासत कायम होने बाद झाला रईस ने अपने तोर से प्राप्त किये थे वे ) रियासत कोटा में लिये गये, जिससे पट्टण झालावाड के तरफ रहा.

सन १९१२ इस्वी में महाराणी कीन मेरी ने महाराव की महमानगिरी स्वीकार किया और सरभरा सहमानगिरी से वह संतुष्ट हुई थी. इस महाराव के दिवान बहादुर चौबे सर लूघनाथ सी. आई. ई. के. टी. महाराव साहब गद्दी पर बिराजमान होते ही दिवान पद पर आये थे जो अपना देहान्त पर्यंत उसी पद पर कायम रहे और देहान्त होने बाद, उसके पुत्र राव बहादुर वीसंभरनाथ व पलायता के आपजी उँकारसिंह, सी. आई. ई. यह दोनो वि. सं. १९८० से दिवान पद के काम भुगताते हैं.



नोट—कोटा के हाडा चौहानों का इतिहास कविरान सामलदान कृत 'वीरविनोद' नाम की हस्तलिखित पुस्तक जो कविरान आदा शंकरदान पांचेटिया वाले की तरफ से प्राप्त हुई थी, उस परसे लिखा गया है.

## प्रकरण १३ वाँ.

### खीची चौहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य.

खीची चौहान की शाखा, नाडोल के राव लाखणसिंह की ओलाद में अश्वराज के पुत्र माणकराज से कहलाई गई, और उसके पुत्र 'अजयराव' से खीची चौहानों की शाखा विभक्त हुई, ऐसा इस पुस्तक के प्रकरण ९ वाँ में पृष्ठ ५२ पर अंकित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में खीची चौहानों की जो तीन बड़ी (तोपों की सलामी वाली) रियासतें मालवे में (खीलचीपुर) व गुजरात में (छोटाउदयपुर और देवगढ बारीया.) विद्यमान हैं, उन रियासतों की ख्यातों में उनकी शाखा 'खीची चौहान' होना स्वीकार हुआ है, परन्तु उनमें नाडोल के बदले सांभर के चौहानों में से खीची खाखा अलग होने का उल्लेख है, बल्कि गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में वे देहली के महान् पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होने का लिखा है. जो कि इतिहास वेत्ताओं ने स्वीकार किये हुए ऐतिहासिक साहित्यानुसार इस ग्रंथ के वास्ते खीची चौहानों की शाखा नाडोल से ही अलग होने का मान्य रखा गया है, तब भी इन रियासतों की ख्यातों से खीची चौहानों के इतिहास में कितना फर्क है वह मालूम करने के लिये इस प्रकरण में उन ख्यातों का सार अंकित किया गया है.

#### ( अ ) खीची चौहानों का मूल पुरुष.

खीची चौहानों का मूल पुरुष कौन था, उस विषय में गुजरात के खीची चौहानों का इतिहास जो रेवाकांठा डायरेक्टरी आदि छपी हुई पुस्तकों में मिलता है, उनमें खुलासा नहीं किया गया है, परन्तु मालवे के खीची चौहानों के विषय में 'भारत राजमंडल' ( जो गुजराती भाषा में वडोदे के मौजूदा दिवान साहिब सर मनुभाई नंदशंकर महता ने प्रसिद्ध किया है. ) नामक पुस्तक में व खोलचीपुर रियासत की तरफ से ( राजगुरु पंडित कृष्णदास की लिखी हुई ख्यात खीलचीपुर के दिवान, साहिबजादाए अजीजुर रहीमखां साहिब के तरफ से इस पुस्तक के कितनेक प्रकरण छपजाने बाद ) हस्त लिखित ख्यात मिली है उसमें सांभर के विशलदेव के पुत्र अजयराव से खीची शाखा कहलाना लिखा है.

+ खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में सांभर के विशलदेव के चौबीस पुत्रों से चौहानों में चौबीस शाखाएं होने का अंकित हुआ है, जिसमें १ अजयराव से 'खीची' ( जायलगढ ) २ अनुराज से 'हाडा' ३ अनहदेव से 'रणथंभोर' के चौहान, ४ देवीसिंह से 'देवडा' ( सिरौही ) ५ सोनसिंह से 'सोनगरा' ( जालोर ) ६ हरिसिंह से 'हरेला उर्फ नगहरिया' ७ नैनसिंह से 'नरवाण' ( नागोर ) ८ फतेसिंह से 'पपैया' ( फतहपुर ) ९ सुभकरण 'समरेचा' ( सांभर ) १० भालसिंह से 'भालचा' ( चोटीलगढ ) ११ भीमसिंह से 'भीमडा' ( रूपनगर ) १२ यशवन्तसिंह से 'सांचौरा' ( सांचौर )

मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि नाडोल के राव लाखणसी से आठवी पुस्त पर माणकराज हुआ जो 'खीची' कहलाया, और उसके पुत्र अजयराज से खीची चौहान की शाखा अलग हुई.

तात्पर्य यह है कि अजयराव नामक चौहान खीची चौहानों की शाखा का मूल पुरुष है यह बात सर्व मान्य है.

### ( क ) ' खीची ' कहलाने का कारण.

राजपूतों में बहुधा शाखा का नाम गांव के नाम से या नामी पुरुष के नाम से प्रसिद्धि में आता है. ' खीची चौहानों ' के वास्ते गुजरात के खीची चौहानों को ख्यात ( रेवाकाठा डायरेक्टरी में ) में लिखा है कि ' सांभर ' के माणकराय के वंशज सिंध के खीचपुर पाटन में गये. वैसे ' भारत राजमंडल ' नामक ग्रंथ में लिखा है कि अजेराव ने खोलचीपुर बसाया जिससे खीची चौहान कहलाये गये. खीचपुर रियासत से मिली हुई ख्यात में लिखा है कि अजयराव ने सोने चांदी की खीचडी करके बांटी जिससे इसके वंश वालों का ' खीची ' नाम पड़ा. मूता नेणसी की ख्यात में ' खीची ' कहलाने का यह कारण बताया है कि ' नाडोल ' के राव आसराव ( अश्वराज ) ने अपने पुत्र माणकराज को कहा कि एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक में तू जितनी भूमी में फिर कर आवेगा वह तेरेको दो जायगी. जिस पर माणकराज सूर्योदय होते हो सवार हुआ और नागोर पट्टी के ८४ गांवों की सोम में होता हुआ भदाण होकर जायल पहुंचा, वहां पर रास्ते में ' गवार ' लोगों का डेरा पडा था उन्होंने ने इसको भोजन के वास्ते आग्रह किया. जिस पर जल्द के कारण माणकराज ने कहा कि अन्न पकाने की जरूरत नहीं है जो हांवे सो दे दो. उस पर उन्होंने ने चावल व मुग की दाल की खीचडी दी जो उसने कच्ची (वगैर पकाई) सवार की हालत में ही खा ली. यह बात आसराव को मालूम होने पर उसने माणकराज को कच्ची खीचडी खाने के कारण ' खीची ' का उपनाम दिया, जिससे इसकी ओलाद वाले ' खीची चौहान ' कहलाये गये.

मूता नेणसी का लिखना दूसरी ख्यातों के मुकाबले में ज्यादा मानने योग्य है, क्यों कि अजयराव का राज्य राजपूताना की नागोर पट्टी में भदाण व जायल में था.

१३ बटभद्र से 'वालचा' (भणाय) १४ मानसिंह से 'मादलेचा' (मुकुंदगढ) १५ वीकानी से 'वाकेटा' (बीकानेर) १६ वाघसिंह से 'वागौर' (देवगाम) १७ प्रेमसिंह से 'पावव' (वांदनवाड) १८ कानसिंह से 'कठारा' (मारवाड) १९ उदयसिंह से 'उद्रेचा' (उदयापुर) २० रणवीरसिंह से 'भदोरा' (मिण्ड-भदावर) २१ परशुरामसिंह से 'समपेठा (रत्नपुर) २२ गुलजी से 'गोदवाल' (जहाननगर) २३ गेहराज से 'गेहरा' (भटनावर) २४ वा का नाम नहीं है.

नोट—इन शाखों से इस पुस्तक के पृष्ठ १६ पर जो १६९ शाखाओं के नाम अंकित हुए हैं उसमें १ नगहरिया, २ भाडचा, ३ भीमडा व ४ कठारा इन चार शाखों का अजाका होता है.

खोलचीपुर उसने बसाया नहीं था न खीलचीपुर से उसका कोई ताल्लुक उस समय में था. बल्कि खीची चौहानों को मालवे में जाने का प्रसंग अजयराव से कितनीक पुस्तों बाद उपस्थित होना खोलचीपुर रियासत की व मूता नेणसी की ख्यात से मालूम होता है, और 'उग्रसेन' नामक पुरूष ने खीलचीपुर में राज्य स्थापन करने का हरएक ख्यातो में स्वीकार हुआ है.

तात्पर्य यह है कि अजयराव के पिता माणकराज ने कच्ची खीचडी खाने के कारण उसकी ओलाद वाले 'खीची चौहान' कहलाये गये हैं.

( क ) खीची चौहानों का गढ गागरून ( मालवे ) पर कब्जा.

वर्तमान समय में खीची चौहानों की जो तीन बडी रियासतें विद्यमान है, वे तीनों रियासतें गढ गागरून के खीची चौहानों की ओलाद वालों में होना ✽ हरएक ख्यातों में स्वीकार हुआ है. अजयराव के तरफ भदाण व जायल (राजपूताना में) था. बाद में उसको ओलाद वालों ने गढ गागरून में कब राज्य स्थापन किया और किसने किया ? इस विषय में कुछ मत भेद है. गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में इस विषय में कुछ भी खुलासा नहीं है, लेकिन भारतराजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि अजयराव से +३२ वीं पुस्त पर 'गेसिंह' नामक पुरूष हुआ, उसके पोता 'देवनसिंह' ने मालवे में धुलरगढ के राजा विजलदेव को मार कर वि. सं. १२५१ में धुलरगढ कब्जे किया और उसका नाम 'गागरून' दिया गया.

खीलचीपुर रियासत से मिली हुई ख्यात में अजयराव से ÷७ वी पुस्त पर गोहनराय

\* गुजरात के खीची चौहानों के विषय में लिखा है कि सांभर के माणकराज के वंशज सिंध में 'खीचपुर पाटन' में गये जिनके वंशमें धर्मगज उर्फ विरविन्देव हुआ, उससे क्रमशः २ विशल, ३ सारंगदेव, ४ आना, ५ जयपाल, ६ आनंददेव, ७ सोमेश्वर व ८ पृथुराज हुए. पृथुराज के वंशज मालवे में गये जहां खेंगारसिंह नामक पुरूषने गढ गागरूनमें राज्य स्थापित किया. खेंगारसिंह की ओलाद में रणथंभोर का हमीर (हमीरहठाल) हुआ उसकी ओलाद में पालनदे व प्रताप नामक भाईओंने गुजरात में जाकर 'चांपानेर' व 'कारवण' में राज्य स्थापित किया. मतलब यह है कि उक्त ख्यात से खीची चौहानों का राज्य प्रथम सिंध में खीचपुर पाटन व बाद में क्रमशः सांभर, अजमेर, देहली, गढ गागरून और वहां से रणथंभोर व चांपानेर में हुआ है. चांपानेर वालों की ओलाद में वर्तमान समय में छोटाउदयपुर व बारीया की रियासतों के खीची चौहान है.

+ भारत राजमंडल के ग्रंथ में अजेराव से क्रमशः—२ दुलेराय, ३ गौतमराय, ४ रामदत्त, ५ मानराव, ६ मुकंदराव, ७ सोमेश्वर, ८ लखणसी, ९ लालसिंह, १० भोमचंद्रराय, ११ सूरसेन, १२ मोहोवतराय, १३ कांधाकराय, १४ भांगराव, १५ लूणकरण, १६ रामराव, १७ बुद्धसेन, १८ सुन्दरसेन, १९ कल्याणराव, २० बालनराव, २१ इन्द्रराव, २२ सग्रामराव, २३ बंबाराव, व २४ जोधाजी हुए. जोधाजीने जाबुल नगर बसाया, उनके पीछे क्रमशः २५ हरिसिंह, २६ चौंडराय, २७ धुपालराय, २८ ररीडचटराय, २९ मालराय, ३० संगराय, ३१ ब्रहेपाल व ३२ गेसिंह हुए. गेसिंह का पुत्र नं. ३३ वरसिंहराय महान पृथ्वीराज की सहायता में मारा गया व उसका भाई — वेलमंजु का पुत्र नं. ३४ देवनसिंह ने धुलरगढ के राजा विजदेव को मारकर वि. सं. १२५१ में धुलरगढ कब्जे किया और उसका नाम गढ गागरून दिया गया.

÷ खीलचीपुर रियासत से मिली हुई ख्यात में अजयराज से क्रमशः २ आसारव, ३ जोधचंद, ४ प्रीतिपाल, ५ उग्रपाल



ई. सं. १११८ ( वि. सं. ११७५ ) में हुआ जिसने राजधरना शुरू किया. इस गोहनराय से १४ वीं पुस्त पर देवनसिंह हुआ, उसने 'ढौलनगढ' ( गागरून ) के राजा विजलसिंह को मार कर गागरून का राज्य ई. सं. १२५० ( वि. सं. १३०७ ) में स्थापित किया ऐसा उल्लेख किया है.

मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अजयराव से ६ वी पुस्त पर गुंदलराव हुआ, जो महान् पृथ्वीराज का सामन्त था और जायल में रहता था, लेकिन किसी कारण से पृथ्वीराज नाखुश होने से चामुंढराय दाहिमा को फौज देकर जायलगढ पर भेजा, जिससे गुंदलराव भाग कर मालवे में चला गया, वहां पर डोडियाल राजपूतों के वारहगढ थे वे उनको मार कर ले लिये, उनमें गढ गागरून भी शामिल होना अंकित हुआ है, लेकिन डोडियाल राजपूतों के हाथ से उनका राज्य लेने के विषय में उक्त ख्यात में पीछे से जो अहवाल दर्ज हुआ है उससे पाया जाता है कि गुंदलराव के पोतों में 'धारू' आनलोत नामक पुरुष हुआ वह बहुत ही बहादुर व दातार था. धारू अपने मामा डोडियाल राजपूतों की सेवा में उपस्थित था. उसके कब्जे में वह भूमि आई. अनुमान होता है कि गेसिंह, गोहनसिंह व गुंदलराव यह तीनों नाम जो अलग २ ख्यातों में उपलब्ध हुए हैं वह एक ही पुरुष के नाम हैं और इसी पुरुष का पोता देवनसिंह उर्फ धारू हुआ है, जिसने विजलसिंह को मार कर गढ गागरून का राज्य स्थापित किया है.

( ड ) गढ गागरून में राज्य स्थापन होने का समय.

देवनसिंह उर्फ धारू ने गागरून में किस समय में राज्य स्थापन किया उस विषय में भी मतभेद है. भारत राजमंडल की पुस्तक में यह घटना वि. सं. १२५१ में होने का उल्लेख किया है, जब खीलचीपुर की हस्तलिखित ख्यात में गागरून में राज्य स्थापन होने का समय ई. सं. १२५० ( वि. सं. १३०६ ) अंकित है. मूता नेणसी की ख्यात में समय के वास्ते खुलासा नहीं किया गया है परन्तु गुंदलराय, महान् पृथ्वीराज के समय में

६ प्रतापपाल, ७ गोहनराय, ८ संगमराय, ९ सालमराव, १० सेडूनी, ११ श्यामराव, १२ संगमसिंह, १३ जिहजराय १४ पीलुपनर, १५ सालनसिंह, १६ प्रसंगदेव, व १७ करमसिंह, १८ बालनराव, १९ विनयराव, २० मलयसिंह हुए. मलयसिंहने विलासपुर बसाया. ई. सं. १२१५ में नं. १९ विनयराव का छोटा भाई<sup>१३</sup> नियमसिंह के पुत्र गंगासिंहने वूदी के आसपास का देश जीतकर वहां राज्य किया, उसके वंशज 'पहाडी खीची' के नामसे प्रसिद्ध हैं, जैसे नं. २० मलयसिंह का छोटा भाई कालुसिंहने 'जुदाहेदीया' नगर में राज्य किया और अपने नामसे 'कालुहेडा' और 'कोटडा' नाम के गांव बसाये. मलयसिंह का पुत्र २१ सामन्तसिंह व सामन्तसिंह के चार पुत्रों में बड़ा पुत्र नं. २२ देवनसिंह हुआ.

\* मूता नेणसी की ख्यात में अजयराव से क्रमशः २ चंद्रराव, ३ लखणराव, ४ गोविंदराव, ५ संगमराव, व संगमराव का पुत्र ६ गुंदलराव हुआ.

नोट—वंश भास्कर के ग्रंथ में लिखा है कि वि. सं. १२९८ में 'गंगदेव' नाम का खीची चौहान गढगागरून में विद्यमान था.

विद्यमान था और उसके पोता धारू ने डोडियाल राजपूतों का राज्य कब्जे किया वैसा लिखा है. जिससे खीलचीपुर की ख्यात में जो वि. सं. १३०६ दर्ज हुआ है उस समय के करीब २ राज्य स्थापन होना सम्भव है.

भारत राजमंडल के ग्रंथ में जो संबत् अंकित हुआ है उसमें शंका लाने का यह भी कारण है कि गेसिंह का बड़ा पुत्र वरसिंहराय पृथ्वीराज की सहायता में मारे जाने का उक्त ग्रंथ में लिखा गया है, साथ यह भी लिखा है कि गेसिंह का पोता देवनसिंह को महान् पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि गुंदलराय मालवे में भाग गया, बाद 'आना' नामक खीची के साथ सांखला 'सिहड' नाम के राजपूत ने अपनी 'पांगली' पुत्री बीहाई, उस समय में दुष्काल पडनेसे वह डोडवाडे जाता था, तब उसकी 'पांगली स्त्री सांखली' के पूरे मास का गर्भ हो गया था, जिससे जब आना खीची कोटा परगने का गांव 'सूरसेन गुढा' में पहुंचा तब उसकी गर्भवती स्त्री को कष्ट होने लगा इस कारण वहां पर एक पुराना मंदिर था वहां उसको रखी गई. जहां 'धारू' नामक पुत्र का जन्म हुआ. इससे अनुमान होता है कि देवनसिंह उर्फ धारू महान् पृथ्वीराज के समय में विद्यमान नहीं था.

खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि जब कि ई. सं. ११९३ ( वि. सं. १२४९) में महान् पृथ्वीराज का पराजय हुआ तब करमसिंह नामक खीची चौहान उसकी सहायता में था, और बाद में करमसिंह ने जायल छोड के बूंदी के पास खटकड नगर के तिगाला जाति के राजपूतों को मार कर वह देश कब्जे किया और खटकड का नाम 'रामगढ' देकर रामगढ में राज्य स्थापन किया. इस करमसिंह से ५ वी पुत्र पर देवनसिंह हुआ. जो कि यह पांच पुत्रों में करिब ५८ वर्ष का समय होता है और वह बहुत कम है, लेकिन महान् पृथ्वीराज के समय में देवनसिंह न होने का इस पर से भी अनुमान होता है.

उपर्युक्त कारणों से गागरून में खीची चौहानों का राज्य स्थापन होने का समय वि. सं. १३०६ का होना ज्यादाह भरोसा पात्र है.

नोट—खीची धारू विक्रम संवत् की चौदहवी सदी की शुरुआत में हुआ था, इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में सांगमराव राठौर की ख्यात लिखी है उसमें लिखा है कि सांगमराव के पुत्र राठौर मूळु ने गुजरात के राजा सोलंकी ( वाघेला ) विशलदेव को अपने पिता का वैर लेने के कारण तंग कर रखा था, उस समय खीची धारू आनलोत का आश्रित ' विसौढा ' नामका चारण विशलदेव सोलंकी के पास गया. विशलदेव ने चारण के साथ चौपट खेलने में पहिली दफे यह शर्त की थी कि चारण हार जावे तो मूळु राठौर को नजर से दिखलावे, और दूसरी दफे यह शर्त की थी कि मूळु राठौर को विशलदेव के महल में ले आवे. धारू खीची का विसौढा चारण दोनों दफे हार गया और उसने उदार व बहादुर मूळु राठौर को याचना करके अपनी शर्तें पूरी की. इस विशलदेव का राज्य अमल वि. सं. १३०२ से वि. सं. १३२० तक का होना ' प्रवचन परिक्षा ' नामकी पुस्तक में लिखा हुआ है.

खीची चौहानों के मूल पुरुष अजयराव से गागरून में राज्य स्थापन करने वाला देवनसिंह या धारू नामक पुरुष तक का वंशवृक्ष बनाने में बहुत मुश्किली आती है क्योंकि 'भारत राजमंडल' के ग्रंथानुसार अजयराव से देवनसिंह तक में ३४ पुश्तें होती हैं। खीलचीपुर रियासत की ख्यात मुआफिक २२ पुश्तें, और मूता नेणसी की ख्यात से ८ पुश्तें होना पाया जाता है। यह तीनों ख्यातों से उपलब्ध होते नामों का मुकाबला करते मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध होते नामों के साथ भारत राजमंडल के सिर्फ ४ नाम मिलते हैं, और खीलचीपुर की ख्यात के सिर्फ २ नाम मिलते हैं।

खीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्यात में अजयराव से देवनसिंह तक में ( २२ पुश्तों में ) २११ वर्षों का अन्तर बताया है, लेकिन उसमें अजयराव का समय ई. सं. १०४८ ( वि. सं. ११०४ ) का होना अंकित किया है वह विश्वास पात्र नहीं है।

अजयराव के बाद देवनसिंह या धारू तक में उपर्युक्त तीनों ख्यातों में जो जो नाम उपलब्ध होते हैं वह इस प्रकरण के पृष्ठ ९१ व ९२ की टिप्पणी में दिये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते अजयराव का पिता माणकराज वि. सं. ११७२ में विद्यमान था, क्योंकि माणकराज का पिता अश्वराज के समय का वि. सं. ११७२ का शिलालेख 'वाली' गांव में होना मालूम हुआ है। ( देखो इस पुस्तक के पृष्ठ ५६ पर ) इस हिसाब से भी धारू खीची के समय तक में ( १३६ वर्षों में ) ८ पुश्तें होती हैं, जिससे अनुमान होता है कि मूता नेणसी की ख्यात से अजयराव के बाद जो नाम उपलब्ध होते हैं वह ठीक हैं, परन्तु इसका अखरी निर्णय करने के वास्ते विद्वान व इतिहास वेत्ताओं के तरफ छोड़कर ख = देवनसिंह ने वि. सं. १३०६ में गढ गागरून का राज्य स्थापन किया वहां तक में जो जो खीची चौहाना का इतिहास मिला है वह अंकित किया गया है।

### वंशवृक्ष खीची चौहान.

१ अजयराव ( दे इस पुस्तक के पृष्ठ ५२ पर नाडोल के चौहानों के वंशवृक्ष में नं. ९ वाला )

इससे कितनी पुश्त पर गोहनराय, गेसिंह या गुंदलराय हुआ जिसका राज्य जायल में -

२ गुंदलराय उ गेसिंह ( इसका पोता देवनसिंह या धारू हुआ )

\* खीलचीपुर से मिली हुई ख्यात राव का पिता विशलदेव का समय ई. सं. १०२० ( वि. सं. १०७६ ) व विशलदेव के पिता वर्मागत का समय ई. सं. ९६७ ( वि. सं. १०२३ ) होना बताया है, लेकिन चौहानों की ख्यात के वास्ते हर्ष का वि. सं १०२६ का शिलालेख जो सांभर के विग्रहराज के समय में लिखा गया है उसकी नामावली के साथ इस ख्यात के कोई भी नाम व संवत् मिलते नहीं हैं। उसी मुआफिक वि. सं. १२२६ का विजोलिया के शिलालेख के नामों से भी इस ख्यात के अजयराव के पहिले के राजाओं के नाम मिलते नहीं हैं। जिससे वंशभास्कर, बडुआ की पुस्तक आदि पुस्तकों में राज्यत्याग कायम होने के पहिले की प्राचीन नामावली, दंतकथा या कल्पना से अंकित की गई है वैसे इस ख्यात में भी होना पाया जाता है। इसी कारण से खीची चौहानों की ख्यात से 'चाहमान' से लगाकर विशलदेव तक का प्राचीन इतिहास उपलब्ध हुआ है वह इस प्रकरण में नहीं लिखा गया है।

२ गुंदलराय उर्फ गेसिंह ( वंशवृक्ष खीची चौहान चल् )

३ देवमंजु या आना ( आनलदेव ) अथवा सामन्तसिंह

४ देवनसिंह या धारू

५ रत्नसिंह

६ कमलसिंह

७ नयनसिंह

उपर्युक्त नामों वाले खीची चौहानों के समय की ख्यात

नं. १ अजयराज के तरफ नागोर पट्टी के ८४ गांव व भदाण और जायल नाम के दो किले थे.

नं. २ गुंदलराय उर्फ गेसिंह के वास्ते मूता नेणसो की ख्यात में लिखा है कि महान् पृथ्वीराज को राणी 'सुंहवदेवी' जोयाणी रूसणा करके अपने पिता के वहां चली गई थी और वहां 'खाटुरी' नामकी पहाडी पर सालिया बांध कर रहती थी. उसके पास गुंदलराय खीची आता जाता था. जो बात पृथ्वीराज को मालूम होने पर उसने गुंदलराय को जायल से भगाया. जिससे गुंदलराय मालवे में गया, और वहां के डोडियाल राजपूतों से १ मऊ, २ भेदानो, ३ गांगरून, ४ बाला भेट, ५ सारंगपुर, ६ गुंगोर, ७ बार, ८ बडोद ९ खाता खेडी, १० रामगढ, ११ चाचरणी आदि बारह गढ छोन कर जायल में राज्यस्थान किया. इस तरह होनेसे भदाणगढ में राव गालण मालिक हुआ, जिसने नागोर में गोदाणी तलाव कराया. ( राव गालण की ओलाद मारवाड में रही जिन्होंने राठौरों की सेवा में उपस्थित रह कर बहुत काम दिया. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में विद्यमान है. )

गीदा उर्फ गुंदलराय पहिले 'भदाणीया' कहलाता था और पीछे से 'जायलवाल' कहलाया गया, इस विषय में उक्त पुस्तक में आधा दोहा उपलब्ध होता है उसमें लिखा है कि—

“ गीदा हुता भदाणिया, कूं गै जायल

गीदा बहुत बहादुर राजपूत था इसके विषय में कवि ने कहा है कि—

“ खंडपुर गल खल भलते कोट मर वटां टलकै, देरावर डिगभिगे लसें वरी हा हा संके ”

“ लद्रुवो धर थरै छैलपुर नहें संगठे, भुटां अनै भाटीयां सास नी वट नीवटै ”

“ वीकमपुर वसै न वार ही धूजै धर पाटण पडै, गीदो रोद्र भदाणीयो धाये सो मेई धडै ”

गीदा के तरफ पश्चिम में ८४ गढ (गांव) थे. इसका एक पुत्र 'महंगराव' नामक था वह भी बहादुर था, उसके विषय में कवि ने कहा है कि—

“ आखंडीया रतनालीयां मूछ अवंदा फेर, तीण भण कांपै गजणो आ गीदाणी कर ”

‘ भारत राजमंडल ’ के ग्रंथ में लिखा है कि गेसिंह का बड़ा पुत्र वरसिंहराय महान् पृथ्वीराज की सहायता में काम आया, और दूसरा बेलमंजु था जिसका पुत्र देवनसिंह हुआ.

खीलचीपुर की ख्यात में गोहनराय के विषय में इतनाही लिखा है कि ई.सं.१११८ ( वि. सं. ११७४ ) में इसने राजधरना शुरू किया. नं. ३ बेलमंजु के विषय में भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि इसके गंगावाई व जमनावाई नामकी दो पुत्री थी. जिसमें गंगावाई का विवाह धुलरगढ के राजा बिजलदेव के साथ हुआ था.

मूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु खीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि देवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के १ देवनसिंह २ रत्नसिंह ३ कमलसिंह व ४ नयनसिंह नाम के चार पुत्र और गंगाकुमारी नामकी पुत्री थी जिसका विवाह ‘ ढोलनगढ ’ के बिजलसिंह के साथ हुआ था.

वरसिंहराय का दूसरा नाम महंगराव होतो ताज्जुब नहीं, क्यों कि महंगराव से गिजनी का बादशाह डरता था ऐसा उपरोक्त दोहे से पाया जाता है.

\* इस ख्यात में लिखा है कि गोहनराय के समय में महमूद गजनवी ने लूट मार की. इसके समय में बंगाल में सुखसेन, गुजरात में सिद्धसेन, कन्नौज में मदनपाल व चित्तौड़ में विजयसिंह नामक राजा थे.

उक्त ख्यात में यह भी लिखा है कि गोहनराय से ६ वी पुत्रपर जिहजराय नामक राजा हुआ उसने जोधपुर के राठौर पाहुजी को मारा. उसका कारण यह बताया है कि जिहजराय ने ३००००० रूपियों में १००० घोड़े एक चारण से मोल लिये थे वे घोड़े लेकर चारण जायल को जा रहा था, उसको पाहुजी ने घोड़े ले लेने वास्ते रोका जिससे जिहजराय ने उसपर चढाई की और युद्ध में पाहुजी मारा गया. लेकिन मूता नेणसी की ख्यात में पाहु नहीं परन्तु पाबु नामका राठौर जो सिंहा राठौर के पौत्र घांघल का पुत्र था, उसको ‘ जीदराव ’ नामके खीची चौहान ने मारने की ख्यात विस्तार से लिखी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जीदराव पाबु का बहिनोई होता था. एक काछोला चारण के पास ‘ कालवी ’ नामकी देवांशी घोडी थी वह जीदराव ने चारण के पास मांगी मगर चारण ने उसको न देते पाबु राठौर को दी, जिससे जीदराव ने उस चारण की गौएं घेर ली. उस समय पाबु शादी करने को गया था, जिससे चारण की स्त्री ‘ विरवडी ’ ने पाबु के बड़े भाई ‘ बुड़ा ’ के आगे पुकार की, इतने में पाबु भी आ पहुंचा. चारणी की पुकार सुनकर पाबु ने उसकी सहायता की और गौएं हुडाई, लेकिन पाबु के आने पहिले ‘ विरवडी ’ चारणी की छोटी बहिन ने राठौर बुड़ा के पास जाकर कहा कि पाबु काम आया, जिससे बुड़ा राठौर ने खीची जीदराव पर चढाई की जिसमें बुड़ा काम आया. यह सुनकर पाबु भी लडने को गया, और वह ( पाबु ) भी मारा गया.

इस ख्यात ( मू. ने. ख्या. ) में यह भी लिखा है कि बुड़ा की गर्भवती राणी ‘ डोड गहेली ’ अपने पति के पीछे सती होने लगी परन्तु उसके सात महिनो का गर्भ था जिससे लोगों ने उसको सती होने क लिये मना करने पर उसने अपना पेट छुरी से फाडकर गर्भ को निकाल दिया. वह गर्भ पुत्र का था और उसका नाम ‘ झरडा ’ रखा गया. झरडा ने बारह साल की उम्र में अपने पिता का वैर लिया. यानी जीदराव खीची को मार डाला.

+ सामन्तसिंह के पुत्र कमलसिंह के विषय में खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है कि इसने अपने बड़े भाई देवनसिंह जो जायल में राज्य करता था उसकी सहायता करके राज्य की सिमा बहुत बढाई थी और देहली के बादशाह महमूद गोरी से बहुत युद्ध किये थे. दूसरे पुत्र नयनसिंह ने नेपाल में बहुत युद्ध किये.

नं. ४ देवनसिंह या धारू ने गागरून में अपना राज्यस्थान किया. इसने गागरून कब्जे करने के विषय में भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलरगढ के राजा बिजलदेव थ उसके कामदार गंगदास बडगुज्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन धुलरगढ पर चढाई की, इस युद्ध में बिजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की बहिन गंगाबाई सती हुई, उस समय से धुलरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना वि. सं. १२५१ में हुई. उक्त पुस्तक में यह भी उल्लेख किया है कि देवनसिंह ने वि. सं. १२६२ में सुलतान कुतबुद्दीन की मातहतो स्वीकार ली, और वि. सं. १२६६ में इसको 'हजारी की पदवी' के साथ 'माहि मरातल' का वावटा दिया गया, और 'सनंद' प्राप्त हुइ.

खीलचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि ढोलनगढ के राजा बिजलसिंह अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चौपट खेलते थे उस समय में राणी की सार ( दाव ) मारते समय राजा अभीमान से बोला कि ' हमने खीची की सार मारी ', जिसपर राणी ने जवाब दिया कि खीची लोग इस प्रकार मार नहीं खाते है. उन्होंने बडे २ संग्राम जीते है. जिस पर बिजलसिंह ने कहा कि हमसे लडे तो उनकी दशा बिगाड दें. राणी ने पति का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनसिंह को पत्र लिखा, जिसपर देवनसिंह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ पर चढ आया. इस युद्ध में बिजलसिंह मारा गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनसिंह को कहा कि तुम्हने बुरा किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो और इस गांव का नाम पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुई.

देवनसिंह ने अपने बहिन, बहिनोई के शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमलसिंह को दिया और खुद गागरून का राज्य करने लगा. इसने २१ वर्ष पर्यंत गागरून का राज्य किया.

इसके भाई नं. ६ रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड्गसिंह व खुसालसिंह नामके पुत्र थे, जिसमें खड्गसिंह की ओलाद वाले ' खीची ' कहलाये और खुसालसिंह के वंशज ' खीचड ' कहलाने लगे, इन दोनों की ओलाद वाले वर्तमान समय में उज्जेन के

नोट—खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है कि जिहजराय का पुत्र पिलुंगजर के पुत्र पालनसिंह के दो पुत्र प्रसन्नदेव व पार्थसिंह नामक हुए वे दोनों पृथ्वीराज की सहायता किया करते थे. प्रसन्नदेव के दो पुत्र, करमसिंह व करणसिंह नामक हुए, उसमें करमसिंह शहाबुद्दीन गोरी के साथ पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध हुआ उसमें लडने को गया था. देहली मुसलमानों के पास जाने से करमसिंह ने जायल छोड दिया और वूंदी के पास ' खटकड ' नगर में तिगाला जाति के राजपूतों को जीत कर उस स्थान का नाम रामगढ देकर राज्य किया. इसका छोटा भाई करणसिंह ' जायल ' में रहा, परन्तु उक्त ख्यात में यह भी लिखा गया है कि देवनसिंह ने गागरून कब्जे किया तब वह जायल में था, और गागरून में राज्य स्थान करने पर उसने अपने छोटे भाई कमलसिंह को ' जायल ' का राज्य दे दिया. वस्तुतः नाडोल के जेन्द्राव को ही जिहजराव होना बतलाया है. दंतकथा में यह बात कही जाती है कि पाबुजी राठौर के साथ जींदराव की लडाई आबु पहाड की तलेटी में गिरवर की घाटी ( तोडा के दरवाजे ) में हुई थी.

‘भारत राजमंडल’ के ग्रंथ में लिखा है कि गेसिंह का बड़ा पुत्र वरसिंहराय महान् पृथ्वीराज की सहायता में काम आया, और दूसरा बेलमंजु था जिसका पुत्र देवनसिंह हुआ.

खीलचीपुर की ख्यात में गोहनराय के विषय में इतनाही लिखा है कि ई.सं.१११८ ( वि. सं. ११७४ ) में इसने राजधरना शुरू किया. नं. ३ बेलमंजु के विषय में भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि इसके गंगावाई व जमनावाई नामकी दो पुत्री थी. जिसमें गंगावाई का विवाह धुलरगढ के राजा विजलदेव के साथ हुआ था.

मूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु खीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि देवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के १ देवनसिंह २ रत्नसिंह ३ कमलसिंह व ४ नयनसिंह नाम के चार पुत्र और गंगाकुमारी नामकी पुत्री थी जिसका विवाह ‘ढोलनगढ’ के विजलसिंह के साथ हुआ था.

÷ वरसिंहराय का दूसरा नाम महंगराव होतो ताज्जुब नहीं, क्यों कि महंगराव से गिजनी का बादशाह डरता था ऐसा उपरोक्त दोहे से पाया जाता है.

\* इस ख्यात में लिखा है कि गोहनराय के समय में महमुद गजनवी ने लूट मार की. इसके समय में बंगाल में सुखसेन, गुजरात में सिद्धसेन, कनौज में मदनपाठ व चितौड में विजयसिंह नामक राजा थे.

उक्त ख्यात में यह भी लिखा है कि गोहनराय से ६ वी पुत्रपर जिहजराय नामक राजा हुआ उसने जोधपुर के राठौर पाहुजी को मारा. उसका कारण यह बताया है कि जिहजराय ने ३००००० रूपियों में १००० घोड़े एक चारण से मोल लिये थे वे घोड़े लेकर चारण जायल को जा रहा था, उसको पाहुजी ने घोड़े ले लेने वास्ते रोका जिससे जिहजराय ने उसपर चढाई की और युद्ध में पाहुजी मारा गया. लेकिन मूता नेणसी की ख्यात में पाहु नहीं परन्तु पाबु नामका राठौर जो सिंहा राठौर के पौत्र घांघल का पुत्र था, उसको ‘जीदराव’ नामके खीची चौहान ने मारने की ख्यात विस्तार से लिखी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जीदराव पाबु का बहिनोई होता था. एक काछोला चारण के पास ‘कालवी’ नामकी देवांशी घोडी थी वह जीदराव ने चारण के पास मांगी मगर चारण ने उसको न देते पाबु राठौर को दी, जिससे जीदराव ने उस चारण की गौएं घेर ली. उस समय पाबु शादी करने को गया था, जिससे चारण की स्त्री ‘विरवडी’ ने पाबु के बड़े भाई ‘बुड़ा’ के आगे पुकार की, इतने में पाबु भी आ पहुँचा. चारणी की पुँकार सुनकर पाबु ने उसकी सहायता की और गौएं बुड़ाई, लेकिन पाबु के आने पहिले ‘विरवडी’ चारणी की छोटी बहिन ने राठौर बुड़ा के पास जाकर कहा कि पाबु काम आया, जिससे बुड़ा राठौर ने खीची जीदराव पर चढाई की जिसमें बुड़ा काम आया. यह सुनकर पाबु भी लडने को गया, और वह ( पाबु ) भी मारा गया.

इस ख्यात ( मू. ने. ख्या. ) में यह भी लिखा है कि बुड़ा की गर्भवती राणी ‘डोड गहेली’ अपने पति के पीछे सती होने लगी परन्तु उसके सात महिनो का गर्भ था जिससे लोगों ने उसको सती होने क लिये मना करने पर उसने अपना पेट चुरी से फाडकर गर्भ को निकाल दिया. वह गर्भ पुत्र का था और उसका नाम ‘झरडा’ रखा गया. झरडा ने बारह साल की उम्र में अपने पिता का बैर लिया. यानी जीदराव खीची को मार डाला.

+ सामन्तसिंह के पुत्र कमलसिंह के विषय में खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है कि इसने अपने बड़े भाई देवनसिंह जो जायल में राज्य करता था उसकी सहायता करके राज्य की सिमा बहुत बढाई थी और देहली के बादशाह महमुद गोरी से बहुत युद्ध किये थे. दूसरे पुत्र नयनसिंह ने नेपाल में बहुत युद्ध किये.

नं. ४ देवनसिंह या धारू ने गागरून में अपना राज्यस्थान किया. इसने गागरून कब्जे करने के विषय में भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलरगढ के राजा विजलदेव थे उसके कामदार गंगदास बडगुज्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन धुलरगढ पर चढाई की, इस युद्ध में विजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की बहिन गंगाबाई सती हुई, उस समय से धुलरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना वि. सं. १२५१ में हुई. उक्त पुस्तक में यह भी उल्लेख किया है कि देवनसिंह ने वि. सं. १२६२ में सुलतान कुतबुद्दीन की मातहतो स्वीकार ली, और वि. सं. १२६६ में इसको 'हजारी की पदवी' के साथ 'माहि मरातल' का वावटा दिया गया, और 'सनंद' प्राप्त हुइ.

खीलचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि ढोलनगढ के राजा विजलसिंह अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चौपट खेलते थे उस समय में राणी की सार ( दाव ) मारते समय राजा अभीमान से बोला कि ' हमने खीची की सार मारी ', जिसपर राणी ने जवाब दिया कि खीची लोग इस प्रकार मार नहीं खाते है. उन्होंने बडे २ संग्राम जीते है. जिस पर विजलसिंह ने कहा कि हमसे लडे तो उनकी दशा बिगाड दें. राणी ने पति का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनसिंह को पत्र लिखा, जिसपर देवनसिंह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ पर चढ आया. इस युद्ध में विजलसिंह मारा गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनसिंह को कहा कि तुम्हने बुरा किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो और इस गांव का नाम पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुई.

देवनसिंह ने अपने बहिन, बहिनोई के शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमलसिंह को दिया और खुद गागरून का राज्य करने लगा. इसने २१ वर्ष पर्यंत गागरून का राज्य किया.

इसके भाई नं. ५ रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड्गसिंह व खुसालसिंह नामके पुत्र थे, जिसमें खड्गसिंह की ओलाद वाले ' खीची ' कहलाये और खुसालसिंह के वंशज ' खीचड ' कहलाने लगे, इन दोनों की ओलाद वाले वर्तमान समय में उज्जेन के

नोट—खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है कि जिहजराय का पुत्र पिलुंजर के पुत्र पालनसिंह के दो पुत्र प्रसन्नदेव व पार्थसिंह नामक हुए वे दोनों पृथ्वीराज की सहायता किया करते थे. प्रसन्नदेव के दो पुत्र, करमसिंह व करणसिंह नामक हुए, उसमें करमसिंह शहाबुद्दीन गोरी के साथ पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध हुआ उसमें लडने को गया था. देहली मुसलमानों के पास जाने से करमसिंह ने जायल छोड दिया और वूंदी के पास ' खटकड ' नगर में तिगांला जाति के राजपूतों को जीत कर उस स्थान का नाम रामगढ देकर राज्य किया. इसका छोटा भाई करणसिंह ' जायल ' में रहा, परन्तु उक्त ख्यात में यह भी लिखा गया है कि देवनसिंह ने गागरून कब्जे किया तब वह जायल में था, और गागरून में राज्य स्थान करने पर उसने अपने छोटे भाई कमलसिंह को ' जायल ' का राज्य दे दिया. वस्तुतः नाडोल के जेन्द्रराव को ही जिहजराव होना बतलाया है. दंतकथा में यह बात कही जाती है कि पाबुजी राठौर के साथ जींदराव की लडाई आबु पहाड की तलेटी में गिरवर की घाटी ( तोडा के दरवाजे ) में हुई थी.




पास ' कालूहेडा ' आदि गांवों में काश्तकार है, और नं. ३ कमलसिंह की ओलाद में क्रमश २ फतहसिंह, ३ चाचिगदेव, ४ शार्दूलसिंह व ५ दिलावरसिंह हुए, उनकी जागीर ' सागर ' के पास वारह गांवों में थी, जिससे उनके वंशज ' सागरखीची ' के नामसे कहलाये गये. दिलावरसिंह से क्रमश ६ ज्ञानसिंह, ७ आनंदसिंह, ८ दुर्जनसाल, ९ सौभाग्यसिंह, १० शेरसिंह, ११ छत्रसाल, १२ संगलसिंह, व विरुदसिंह आदि हुए जिनकी जागीरें ' धनावदा ' में है. ( जो ग्वालियर एजन्सी में तालुकदार है. )

सूता नेणली की ख्यात में ' देवनसिंह ' नाम नहीं है, लेकिन ' जायल ' के गुंदल-राय का पुत्र आनलदेव दुष्काल के समय में अपनी गर्भवती सांखली राणी के साथ ' डोडवाडे ' ( डोडियाल राजपूतों के राज्य में ) जाता था, वहां रास्ते में राणी को प्रसूती की वेदना होने से कोटे परगने का ' सूरसेन गढा ' नामक गांव की सिव में एक पुराना देवमन्दिर था, उस मन्दिर में राणी ने ' धारु ' नामक पुत्र का जन्म दिया. धारु को मन्दिर की पिढी पर रखा था वहां एक सर्प आया और पिढी की प्रदक्षिणा करके अपने सूह में से एक सूवर्ण की सोहोर छोड़ कर चला गया. इस सुआफिक वह सर्प हर-रोज एक २ सोहोर रख जाता था. सांखली राणीने यह बात अपने पति को कही और वह तमाशा दिखाया, जिस पर सर्प को वाचा हुई और उसने आनलदेव को कहा कि पूर्व काल में इस देश में ' हूण ' नामका बड़ा राजा हुआ था उसका जीव तुम्हारे यहां पुत्र होकर जन्मा है. मैं उस राजा का मित्र था जिससे उसने सोहोरों से भरे हुए तीस चरु सुपुर्द किये थे वे इस मन्दिर में मेरे बिल के पास हैं, उसका मालिक तुम्हारा पुत्र है सो तुम्ह ले लो और यह जगह मत छोडो, यह सब भूमि तुम्हारे बेटे पोते को प्राप्त होगी. जिससे आनलदेव डोड राजपूतों की इजाजत लेकर वहां ही कोट करा कर रहा. धारु बड़ा हुआ तब मामा की सेवा में उपस्थित हुआ. डोड राजपूतों ने उसको लायक देख-कर राज्य का सब काम सौंपा, बल्कि डोड राजपूतों के एवज में वह बादशाह के वहां चाकरी भी करने लगा. कुछ दिनों में डोड राजपूत नाबूद हो गये और वह मुलक खीची के कब्जे में आया.

अनुमान होता है कि देव मन्दिर में जन्म होने के कारण धारु का नाम पीछे से देवनसिंह दिया गया होगा.

खीची चौहानों की राजपूताना में भी जोधपुर आदि रियासतों में छोटी बड़ी जागीरें हैं, परन्तु मुख्य स्थान मालवे में बन जाने से उनके कब्जे में जो देश था उसका नाम ' खीची वाडा ' मशहूर हुआ. वर्तमान समय में मालवा, गुजरात व पूर्व में जो जो खीची चौहान विद्यमान है वे ज्यादाह प्रमाण में सब मालवे के खीची चौहानों की ओलाद वाले हैं.



## प्रकरण १४ वाँ.


मालवा के खीची चौहानों ( गागरून व खीलचीपुर. )

राव देवनसिंह के बाद गागरून से 'राघवगढ' की शाखा अलग हुई. लेकिन नं. १३ राव अचलदास के हाथसे गागरून छूट जाने से उसके पुत्रों इधर उधर हो गये. उनमें से एक पुत्र पूर्व में गया, उसने गाजीपुर में राज्य कायम किया. दूसरे पुत्र गुजरात के तरफ चले गये उन्होंने पावागढ के पास अपने राज्य स्थापित किये. परन्तु धीरे-धीरे नामक पुरुषने पुनः गागरून सम्पादन किया, जिसमें से 'चाचरणी' की शाखा अलग हुई. बादमें गागरून का राज्य राव रायसल के हाथ से हमेश के लिये चला गया, और चाचरणी की शाखा में उग्रसेन नामक पुरुष ने खीलचीपुर का राज्य कायम किया.

राव रायसल के पुत्र को पीछे से 'मऊ' मिला था, लेकिन राव इन्द्रभाण से बूंदी के हाडा चौहानों ने वह ले लिया जिससे उसकी ओलाद वालों के तरफ मामुली जागीर रही, वे भी वि. सं. १८७९ में भोपालसिंह नामक पुरुष अपुत्रवान हालत में सीहोर के युद्ध में काम आने से नाबूद हुई.

गागरून के खीची चौहानों के वंशज की नामावली में भी एक दूसरी ख्यात में कितनाक फर्क आता है. खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात से राव रायसल से ही नाओलादी होने का उल्लेख किया है, परन्तु भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में रायसल की ओलाद में ११ वी पुस्त पर भोपालसिंह हुआ, उस दरमियान के नाम क्रमवार अंकित हुए हैं और उन नामों में से बहुत से नाम दूसरी ख्यातों से भी मिल रहे हैं. इस तरह फर्क होने से सालवे के खीची चौहानों का वंशवृक्ष अंकित करने पहिले क्या २ फर्क आ रहा है वह मालूम करने के वास्ते उन ख्यातों से उपलब्ध होते नामों की नामावली दर्ज करना आवश्यक है.

(अ) भारत राजमंडल के ग्रंथ में १ राव देवनसिंह के पीछे ( गागरून में ) क्रमशः २ चौडपाल, ३ संगपाल व ४ वजेपाल उर्फ वजेराज, ५ रत्नसिंह, ६ मलसिंह, ७ जीतसिंह, ८ साडनसिंह, ९ सावन्तसिंह व १० करोधसिंह हुए, ( उससे क्रमशः )



१६ वेणीदास ( चळ )

१७ जटाम ( गागरून )

१८ रायसल ( गागरून छूटा )

१९ गोपालदास ( मऊ )

१९ जोझार  
५ (जोझारखानी मुसलमान)१९ चक्रसेन  
३ (क्याधरा)१९ उग्रसेन  
३ (खीलचीपुर)

२० इत्तरीसिंह ( मऊ )

२० सूरतसिंह

२० हरिसिंह

२१ माधुसिंह

२२ इन्द्रभाण ( मऊ छूटा )

२२ उदेभाण  
५२२ रायभाण  
५

२३ रत्नसिंह

२४ धीरतसिंह

२५ जोरावरसिंह

२६ उम्मेदसिंह

२६ प्रतापसिंह  
५२६ लालसिंह  
३

२७ चतरसिंह

२८ भोपालसिंह ( सीहोर काम भाया )

x

( आ ) खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात पर से.

१ देवनसिंह ( गागरून )

२ जेधराव

३ कल्याणराव

४ कद्वाराव

४ प्रतापराव  
५५ पीपागाव  
x गोद५ भजनसिंह  
५५ मलयसिंह  
३ (राघवगढ)५ चाचादेव  
३५ गोविन्दराव  
४५ कल्याणराव  
५ ( गोद गया  
पीपाराव के )

६ कल्याणराव

६ धीरदेव (गागरून)

७ भोजराव

७ वेणीदास  
५

८ अचलदास ( गागरून छूटा )

८ दव्वुजी (गागरून छूटा)  
५८ जटाम  
३९ कानसिंह  
x\* दूसरे नौ  
(देखो नीचे)९ खड्गसेन  
५ (पूर्व में  
गाजीपुर)९ पालसिंह  
३ (गुजरातमें)९ मानसिंह  
३९ कपुरसिंह  
४९ कल्याणसिंह  
५ x९ उर्फ रायसल  
(गागरून)१० चक्रसेन  
x१० उग्रसेन  
५ (खीलचीपुर)

\* नं ८ अचलदास के छोटे ९ पुत्रों के नाम, २ नाहरसिंह, ३ शेषमड, ४ शेरसिंह, ५ योगकरण, ६ कुन्दनसिंह,

७ श्यमसिंह, ८ मूजसकरण, ९ मालसिंह, १० नायसिंह थे. इनके सिवाय पासवानों में से एक गोपालदास नामका पुत्र था.

उपर्युक्त दोनों नामावली के नाम मिलाते नी. ( अ ) की नामावली में देवनसिंह से अचलदास तक में १३ पुस्तें होती है, जब नी. (आ) की नामावली में ८ पुस्तें दर्ज हैं. इसी मुआफिक नी. ( अ ) की नामावली में अचलदास का पुत्र नं. १४ चाचकदेव नाम अंकित हुआ है तब नी. ( आ ) की नामावली में नं. ४ कडवाराव का पुत्र नं. ५ चाचादेव होना लिखा . यह फर्क नीकालने के वास्ते दूसरा कोई साधन नहीं है, लेकिन नी. ( आ ) की नामावली के राजाओं के समय के संबत् हस्त लिखित ख्यात में दर्ज हुए हैं, उन पर ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते अनुमान होता है कि नी. ( अ ) की नामावली में नं. १० के करोधसिंह व नी. ( आ ) की नामावली में नं. ४ कडवाराव यह दोनों एक ही पुरुष के नाम हैं. देवनसिंह से कडवाराव ७५ वर्षके बाद होना खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता है, इतने समय में १० पिढी गुजर जाना असंभवित है. जिससे कडवाराव उर्फ करोधसिंह तक के नाम नी. ( आ ) की नामावली में दर्ज हुए है वह ठीक होना पाया जाता है.

चाचादेव उर्फ चाचकदेव, कडवाराव का पुत्र था या अचलदास का ? इस विषय में खीलचीपुर रि. की ख्यात से मालूम होता है कि चाचादेव, अचलदास का समकालिन था, और ई. स. १४२६ (वि. सं. १४८२) में अचलदास की सहायता में ही वह काम आया. कडवाराव की गद्दी नशिनी का समय ई. स. १३२५ (वि. सं. १३८१) का होना उक्त ख्यात में लिखा है, इतने समय में ( १०१ वर्ष में ) एक ही पुस्त गुजरना यह बात मान्य होने में शंका रहती है, और कडवाराव के पुत्र पीपाराव अपुत्रवान होने से अपने सगे भाईओं को गोद न लेते काका के पुत्र को गोद लेना यह बात भी उस शंका को पुष्टी देती है, जिससे अनुमान होता है कि नी. ( अ ) की नामावली के मुआफिक चाचकदेव, अचलदास का पुत्र होना अंकित हुआ है वह ज्यादा भरोसापात्र है.

उपरोक्त कारणों से यह दोनों ख्यात की नामावली पर नजर दे गढगागरून के खीची चौहानों का वंशवृक्ष निम्न अंकित होना योग्य होगा. ( जो कि सायद इसमें किसी की राय और भी होगी, लेकिन अनुमान से सिर्फ लेखक की राय दर्ज की गई है. )


### १ वंशवृक्ष गढ गागरून के खीची चौहान.

१ देवनसिंह ( खीची चौहान वंश वृक्ष में नं. ४ वाला देखो पृष्ठ ९९ पर ) गढ गागरून के मूल पुरुष.

२ जेत्रराव उर्फ जितराय

३ कल्याणराव ( पीछे देखो )

नोट—मू. ने. की ख्यात में सीसोदिया राजपूतों से मालवे के सुलतानने चितोडगढ ले लिया और महाराणा सांगा की राणी करमेती हाडी ने जुहार किया उस समय करमेती हाडी की पुत्री जो खीची चौहान भारथीचंद के साथ विहाई थी, वह भी जुहार में शामिल होने का उल्लेख किया है. लेकिन भारथीचंद खीची का नाम दूमरी किसी ख्यात से मिला नहीं है.



### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ राव देवनसिंह 'गागरून' में गद्दी पर बैठा. जिसका अहवाल अगले प्रकरण में आ चुका है.

नं. २ राव जेत्राव उर्फ जितराव ई. सं. १२८० ( वि. सं. १३३६ ) में गागरून में

गद्दी पर बैठने का खीलचीपुर रि. की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है. इसने ३० वर्ष राज्य किया.

नं. ३ राव कल्याणराव ई. स. १३०० ( वि. सं. १३५६ ) में गद्दी पर आया और ३५ वर्ष तक राज्य किया.

नं. ४ राव कडवाराव उर्फ करोधसिंह ई. स. १३३५ ( वि. सं. १३९१ ) में गद्दी पर आया और २५ वर्ष राज्य किया.

नं. ५ राव पीपा उर्फ वप्पा ई. स. १३६० ( वि. सं. १४१६ ) में गद्दी पर आया. यह बड़े ईश्वर भक्त और महात्मा सिद्ध था, इसका चरित्र ' भक्तमाल ' में भी लिखा गया है. भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि इसकी राणी सोलंकणी सीताबाई, सोलंकी ' हाजा ' की पुत्री थी. जब कि वप्पाराव ने संसार त्याग करने के इरादे से द्वारिका तरफ चल दिया तब ' सोलंकणीराणी ' भी उसके साथ गई. द्वारिका पहुंचने पर श्रीकृष्ण की मुलाकात न होने पर इसने अपनी राणी के साथ समुद्र में झंपापात किया, वहां श्रीकृष्ण से मुलाकात हुई. समुद्र के अंदर सुवर्ण मन्दिर में वे आठ दिन तक रहे और शंख, चक्र, गदा व पद्म की छाप लगा कर बाहिर आये. इसकी राणी सीताबाई को ऋक्मिणीजी ने अंगूठी दी. कहा जाता है कि इस समय से ही द्वारिका में छाप देनेका रिवाज प्रचलित हुआ, और जो छाप लगाई जाती है वह वप्पा समुद्र में से लाया था वही छपां है. यह घटना का समय वि. सं. १४१४ होनेका उक्त ग्रंथ में अंकित हुआ है. अगर यह संबत् सही है तो अनुमान होता है कि यह घटना इसके कुंवरपद में हुई थी, और उसके दो साल बाद यह गद्दी पर आया. इसने २५ वर्ष राज्य किया ऐसा खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता है. इसके पुत्र न होने के कारण इसका भतीजा कल्याणराव गोद आया.

नं. ६ प्रतापराव व नं. ७ अजयसिंह के विषय में ज्यादाह हाल मालूम नहीं हुआ.

नं. ८ मलयसिंह के विषय में खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि इसने गागरून से वंट लेकर शेरगढ में अपना अलग राज्य कर लिया था, जब कि नं. ८ राव अचलदास के समय में युद्ध हुआ तब इसके वंशजोने उसकी सहायता नहीं की. वर्तमान समय में ' राघोगढ ' के खीची चौहान इसके वंशज हैं.

राघोगढ के खीची चौहान मालवे में बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में ' राघोगढ ' का एक अलग राज्य था, लेकिन वि. सं. १८५२ में खीची राजा जयसिंह के हाथ से सैधिया ने राघोगढ का राज्य छीन लिया, जिससे राघोगढ के खीची कमजोर हो गये. ' वीर विनोद ' नामका हस्तलिखित ग्रंथ में ' टोंक ' के पठाण अमीरखां की तवारिख में लिखा है कि

“ अमीरखां राधोगढ के खीची राजा जयसिंह व दुर्जनसाल ( खीलचीपुर के राजा ) के पास नोकर हुआ, जिनको सैंधिया ने राज्य छीनकर नीकाल दिये थे, इन राजपूतों के साथ अमीरखां ने लूटमार करने में खुब नामवरी हांसिल की. खीची सरदारों से नाइतिफाकी होने के कारण उसने उनकी नाकरी छोड दी.” वर्तमान समय में राधोगढ की रियासत बट जाने से मालवा, भोपाल, और ग्वालियर एजंसी में राधोगढ के खीची चौहानों की अंग्रेज सरकार के संरक्षण में छोटी २ रियासतें ( तालुकदारी ) हैं. जिसमें ग्वालियर एजंसी में राधोगढ, धुलेटीया, नौगुन, आदि व भोपावर एजंसी में गरहा, भोपाल एजंसी में ‘ सकसुदनगढ ’, वेस्टर्न मालवा एजंसी में पीपलीया, कालुहेडा, विलउडा, आदि व मालवा एजंसी में ‘ धनगऊन ’ आदि जागीरें हैं.

नं. ६ कल्याणराव ई. सं. १३८५ ( वि. सं. १४४१ ) में गद्दी पर आया और सिर्फ एक वर्ष राज्य किया ऐसा खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है.

नं. ७ भोजराव ई. सं. १३८३ ( वि. सं. १४४२ ) में गद्दी पर आया. इसने २४ वर्ष राज्य किया. ऐसा खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में अंकित हुआ है.

नं. ८ अचलदास ई. सं. १४१० ( वि. सं. १४६६ ) में गद्दी पर आया. खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि इसके+ सात राणी और च्यार पासवान भी थी. उक्त ख्यात में यह भी लिखा है कि इस राजा के एक तोते के कारण से सुलतान गोरी होशंग के साथ युद्ध हुआ, लेकिन गागरून का किला हाथ नहीं आने से सुलतान ने धोवी से मिलकर धर्म विगाडने का चत्न किया जिससे राव अचलदास ने किले से बाहिर आकर मैदान में युद्ध किया. जिसमें इसके दस बडे पुत्र व पासवान का एक पुत्र भी युद्ध में साथ थे, और छोटे दो पुत्रों को बंश रखने के कारण दूर भेज दिये. युद्ध में इसके पुत्र काम आये, परन्तु अन्त में राव की जीत हुई. जब कि फतह पाकर राव अचलदास वापिस लौटे तब मोतीदास और सहेथ्री सुन्दरदास नाम के सरखस जो शत्रुओं से मिले हुए थे उन्होंने जीत का निशान पीछे कर लिया, जिससे राणीयां वारूद से जल गई. ( जसर खडक के जल कर सर गई.) इस कारण अचलदास ने किले में न जाते पुनः युद्ध शुरू किया और बहुत से शत्रुओं को मार कर खुद भी काम आया. यह घटना ई. स. १४२६ ( वि. सं. १४८२ ) में हुई. सुलतान होशंग ने मालवा कब्जे किया और गागरून में अपना सुत्रा रखा.

+ १ भट्टियाणीजी उमादेवी ( यह बडी भक्त हुई जिसका चरित्र भक्तमाल में है. ) २ राणावतजी लालादेवी ( मेवाड के महागंगा की पुत्री ) ३ गठौगीजी महेच्छी ( लोम्बडीया गठौर की पुत्री ) ४ अहाडी ( डुंगरपुर के राजा की पुत्री ) ५ मेवावनजी ( कनेपुर सीकरी के सेखावत की पुत्री ) ६ कच्छवाही ( जयपुर ( आमेर ) के राजा की पुत्री ) ७ यादवनी ( कौन्दी के यादव की पुत्री ).

इस विषय में भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि अचलदास वीर पुरूष हुआ, इसने बारह दिन तक दुश्मन के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया और तेरहवें दिन इसका सिर कटकर ' भमरपोल ' के पास गिरा और धड़ ' सखर ' तलाव पर जाकर पड़ा. जहां इसका स्मार्क बना हुआ है और पूंजन होता है.

नं. ९ चाचिगदेव के विषय में खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि वह नं. ४ कडवाराव के चौथा पुत्र था और राव अचलदास की सहायता में काम आया. इसकी राणी ' उणीयारा ' ( जो जयपुर रियासत में है ) की थी, वह युद्ध समय में गर्भवती होनेके कारण पिअर में थी. चाचिगदेव का देहान्त सूनने पर वह मरने लगी परन्तु ब्राह्मणों ने धीरज देकर मरने नहीं दी, उस समय पीछे उसके पुत्र का जन्म हुआ. जिसका नाम धीरजदेव रखा गया. जिसने गढ़ गागरून पुनः सम्पादन किया.

भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि चाचिगदेव अचलदास का पुत्र था, और वह भाग कर मेवाड के महाराणा पास चला गया था, इसका पुत्र धीरदेव हुआ उसने पुनः मऊ व गागरून प्राप्त किये.

नं. १० कहानसिंह व दूसरे नौ ( नाहरसिंह, शेषमल, शेरसिंह, योगकर्ण, कुन्दनसिंह, श्यामलसिंह, सुजसकरण, मालसिंह, व नाथसिंह ) यह दस पुत्र व गोपालदास नामका पासवान का पुत्र राव अचलदास के साथ ही युद्ध में मारे जानेका खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है परन्तु भा. रा. सं. के ग्रंथ में एक ही पुत्र ( जिसका नाम नहीं बताया गया. ) युद्ध में मारे जानेका लिखा है.

नं. ११ पालनदेव का नाम खी. रि. की ख्यात में पालसिंह अंकित हुआ है जो छोटा होने से वंश रखने के लिये दूर देश में भेजा गया था. भा. रा. सं. के ग्रंथ में खीलचीपुर की ख्यात लिखी है उसमें इसका नाम नहीं है, लेकिन गुजरात में छोटाउदयपुर रियासत की खीची चौहानों की ख्यात में इसका नाम अंकित किया है. पालनदेव ने गुजरात में जाकर ' पावागढ़ ' कब्जे किया और ' चांपानेर ' में राज्यस्थान स्थापित करके ' रावल ' पद धारण किया. इससे कितनीक पुश्तों बाद चांपानेर की गद्दी पर रावल जयसिंहदेव उर्फ पताईरावल हुआ उसके हाथ से चांपानेर का राज्य छूट गया, और उसके पोतोंने ' छोटाउदयपुर ' व ' बारीया ' के राज्य कायम किये, जो वर्तमान समय में उनके वंशजों के तरफ है.

नं. १२ प्रताप उर्फ पातल का नाम खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में नहीं है लेकिन भा. रा. सं. के ग्रंथ में खीलचीपुर की ख्यात में यह अचलदास के पुत्र होना अंकित हुआ है. वैसे उक्त ग्रंथ में रेवाकांठा के मांडवा स्टेट ( ताहुकदार ) के खीची चौहान की



ख्यात में लिखा है कि चांपानेर वाले पालनदेव के साथ उसका भाई प्रतापसिंह आया था, उसने चांपानेर से ' कारवण ' जाकर ३५० गांवों का अलग राज्य कायम किया, जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में मांडवा स्टेट के खीची चौहान है.

नं. ९ खड्गसेन उर्फ गजसिंह का नाम खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में खड्गसेन है, जो छोटा होने से वंश रखने के लिये दूर देश में भेज दिया गया था. जिसने पूर्व देश में जाकर कानपुर और प्रयाग के बीच में ' गाजीपुर असोथर ' में राज्य सम्पादन किया जिसकी ओलादवाले वर्तमान समय में भी वहां राज्य करते हैं.

भा. रा. सं. के ग्रंथ में खड्गसेन के बदले गजसिंह नाम अंकित हुआ है, जिसने गाजीपुर बसाया. उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा है कि इसके वंश में भगवानदास नामका नामांकित पुरूष हुआ. जिसकी किर्ती पूर्व देश में बहुत फैली थी.

नं. १० राव धीरजदेव ने गागरून पुनः सम्पादन करने के विषय में खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि मालवे के सुलतान महमुद ने मेवाड के कुंभा राणा पर विजय प्राप्त करने के वास्ते सहायता के लिये दूसरे राजाओं के पास गुप्त रिति से दूत भेजे तब जयपुर ( आमेर ) के राजा भारमल ने कहलाया कि तुम्हें हमारे भानेज धीरजदेव को गागरून का राज्य देदो तो हम सहायता करें, जिस पर सुलतान महमुद ने प्रसन्न होकर धीरजदेव को अपने पास बुलाकर छत्र चमर आदि राज्य चिन्ह व हाथी वगैरह लवाजमा देकर अपने हाथ से राज्य तिलक नीकाल कर गागरून का राज्य सुपुर्द किया. यह घटना ई. स. १४५४ ( वि. सं. १५१० ) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ ( वि. सं. १५३४ ) में गागरून के पास मऊ, सैदाना में एक लूटेरा भील रहता था उसका सार कर, मऊ, सैदाना बसाया और वहा राज्यधानी रखी. इसने ४९ वर्ष राज्य किया.

धीरजदेव के विषय में टॉड राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा है कि 'गागरून' के खीची वंश के सरदार के साथ मेवाड के महाराणा मोकल ने अपनी लालवाई नामकी कुंवरी जो बहुत स्वरूपवान थी उसका संबंध किया, परन्तु लग्न करने के समय पर उस खीची सरदार ने कसम खिला कर महाराणा से प्रतिज्ञा कराई कि " शत्रुओं की तरफ से खीची चौहानों के राज्य पर आक्रमण होवे तब राणा उस को सहाय करेगा. " कितनेक वर्षों बाद मालवे के सुलतान होशंग ने गागरून पर आक्रमण किया तब खीची सरदार का पुत्र धीरजसिंह, राणा के पास सहायता लेने को गया, महाराणा मोकल उस वक्त ' मादेरिया ' के तरफ था, वहां जाकर धीरजसिंह मिला और जरूरत मुआफिक फौज लेकर अपने वतन को चला आया. यह घटना उक्त ग्रंथ

मुआफिक वि. सं. १४७५ में होना पाया जाता है, और गढ गागरून राव अचलदास से सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में लेने का खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है. जिससे अनुमान होता है कि यह बनाव राव अचलदास के समय में हुआ होगा.

नं. ११ वेणीदास ई. स. १५०३ ( वि. सं. १५५९ ) में गद्दी पर आया. खी. रि. की ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसके बड़ा पुत्र दब्बुजी व छोटा जटाम था. जटाम के पुत्र कल्याणराव उर्फ रायसल ने दब्बुजी को दगा से अलग किया और आप ई. सं. १५२४ ( वि. सं. १५८० ) में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन भारत राज्यमंडल के ग्रंथ में नं. १२ जटाम बड़ा होना व वेणीदास के पीछे गद्दी पर आना लिखा है.

नं. १२ देवसिंह ( उर्फ दब्बुजी ) को चाचरणी परगना मिला था ऐसा उल्लेख किया गया है. जिनके वंशज खीलचीपुर के खीची चौहान हैं.

नं. १३ + रायसल का एक जगह ई. स. १५२४ ( वि. सं. १५८० ) में व दूसरी जगह

+ खी. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि दब्बुजी की हयाती में ही उसके दोनों पुत्र और राणी मर गये थे उस दुःख से व वृद्धापकाल से वह आंखों से नहीं देख सके थे, ऐसी हालत में देहली के मुगल बादशाह बाबर ने उसको देहली बुलाया जिससे उसने अपने भतीजा कल्याणसिंह को अपनी फौज देकर देहली भेजा. कल्याणसिंह राज्य प्राप्त करने के वास्ते सूर्य की उपासना करता था. जब वह देहली पहुंचा तब राज्य लेने की इच्छा से बादशाह के वजीर आदि को धन देकर अपनी तरफ मिला लिये.

बादशाह के बुलावे पर कल्याणसिंह हाजिर हुआ और बादशाहने दब्बुजी व उसके पुत्रों का कुशल वर्तमान पृच्छा तब कल्याणसिंह ने कहा कि राजा के दोनों पुत्र मर गये और नाती भी नहीं है. जिससे मुझे पुत्र कर रखा है. और राज्य कार भी मेरे से काते है. बादशाह ने एक दिन उसकी सख विद्या की परिक्षा ली तो वह बहुत कुशल पाया गया, जिससे कहा कि ' सिले ' नाम ( सिले का मायना ) सख है और ' राय ' नाम अच्छे राजा का है, इस लिये आज से तुम्हारा नाम हमने ' रायसल ' रखा, और दब्बुजी के पीछे तुम्ह को ही राजा बनाये. तब यह अपनी सेना के साथ मालवे में वापिस आया. और दब्बुजी को कैद करने का व उसके पोते को मार देने की योजना करने लगा, जो खबर ' घांटोली ' के जागीरदार फतहसिंह को होने पर उसने दब्बुजी को कह दिया, जिस पर दब्बुजी ने अपनी कुंवराणी से कहा कि मेरा तो जो कुछ होना होगा सो होगा परन्तु तुम्ह इन बच्चों की जान बचाओ. तब कुवराणी दोनों पुत्रों को लेकर ' मलीगाव ' के पटेल रामकिशन मीणा को भाई बनाकर उसके आश्रय में रही.

तीन वर्ष बाद दब्बुजी मर गये और उनके पोतों में से बड़ा चक्रसेन भी मर गया. तब ई. स. १५४१ में रायसल गद्दी पर बैठा. दब्बुजी का दूसरा पोता उग्रसेन कुछ हौशियार हुआ तब रामकिशन पटेल उसको साथ लेकर ' खाताखेडी ' के भील ठाकुर चक्रसेन के पास सहायता के लिये गया, तब उसने कहा कि मैं तुम्हारे बैठने का ठिकाना तो अभी कर देता हूं. युं कह कर अपनी सेना और उग्रसेन की सेना को साथ ले के ' मनोरथाने ' में तिगाला जात के क्षत्रीयों को मार कर पांती से ठिकाना बनाया, फिर चक्रसेन भील उग्रसेन को साथ लेकर देहली गया. उस समय देहली में शेरशाह बादशाह था, उससे मिल कर रायसल के सब कपट के अहवाल विदित किया. जिस पर बादशाह ने उग्रसेन को ' गागरून ' और ' मऊ, मैदाना ' का राज्य देना चाहा परन्तु शाही वजीर आदि रायसल के पक्ष में होने के कारण उन्होंने ने बादशाह को उल्टा समजाया कि मालवे में ' सारंगपुर ' के पास ' खेजडपुर ' उत्तम स्थान है वहां इसको भेजा जाय, जिससे बादशाह ने खेजडपुर की सनद कर दी और खिलत वगैरह देकर विदा किया.

उग्रसेन ने मालवे में आकर ' नारदा ' के पास रामगढ नामका नया गांव बसा कर वहां निवास किया और खेजडपुर का नाम ' खीचीपुर ' दिया ई. स. १५४४ में उग्रसेन ' खीचीपुर ' की गद्दी पर बैठा.

ई. स. १५४१ ( वि. सं. १५९७ ) में गद्दी पर बैठने का समय खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है, और वह नाओलाद गुजर जाने बाद गागरून का राज्य शाही सलतनत के शामिल कर लेने का उक्त ख्यात में उल्लेख किया है, परन्तु भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि अकबर बादशाह ने राव रायसल पर फौज भेज कर गागरून छीन लिया लेकिन पीछे से ' मऊ ' वापिस दिया.

मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अकबर बादशाह के जमाने में खीचीओं का बहुत दाम दमास था. उस समय में बादशाह ने कछवाहा मानसिंह भगवानदासोत को शाही फौज दे कर खीचीवाड़े पर भेजा तब खीची राव रायसल ने उनके साथ युद्ध किया जिसमें रायसल हार गया, इस युद्ध में रायसल का सरदार राठौर देवीदास सुजावत का पोता राव पृथ्वीराज हरराजोत काम आया. उसके बाद वीकानेर के राठौर पृथ्वीराज कल्याणल्लोत को बादशाह ने गढ गागरून दिया, उस वक्त भी खीची चौहानों ने उजर कर उसके साथ युद्ध किया परन्तु सफलता नहीं हुई. उनट परमारों की ख्यात में लिखा है कि इस युद्ध ने तेजसिंह व साहबखान नाम के दो उसट परमार खीचीओं की सहायता में काम आये थे. इससे पाया जाता है कि राव रायसल की हयाती में ही अकबर बादशाह ने गढ गागरून ले लिया था, जिसको वापिस लेने के वास्ते पुनः पुनः प्रयत्न किया गया परन्तु सफलता नहीं हुई. वल्कि राव रायसल, जहाँगीर बादशाह के समय में भी विद्यमान हो और वह बूंदी के राव राया रत्नसिंह से युद्ध कर काम आया हो वैसा अनुमान होता है.

नं. १३ मानसिंह व नं. १३ कपुरसिंह जो दब्बुजी के पुत्र थे उनके विषय में खी. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि वे अपने पिता दब्बुजी की हयाती में ही गुजर गये थे, परन्तु भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि जब कि हुमायु बादशाह सालवा के सुलतान बहादुरशाह के उपर फौज लेकर आया तब नं. १३ मानसिंह हुमायु की सेवामें उपस्थित हुआ था.

नं. १४ गोपालदास के तरफ मऊ, मैदाना का राज्य था. ऐसा भा. रा. सं. नामक ग्रंथ में लिखा है. खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात में इसका नाम व इसकी ओलाद वालों के नाम नहीं हैं लेकिन - मृता नेणसी की ख्यात में खीची चौहानों के इतिहास में व बूंदी के इतिहास में भी राव गोपालदास का नाम मिलता है. इसके तरफ

\* मृता नेणसी की ख्यात में खीची चौहानों का राजा शालवाहन राव रत्नसिंह के साथ युद्ध में मारे जाने का उल्लेख है उस समय में शालवाहन नामक कोई राजा खीचीवाड़े के खीची चौहानों में होना पाया नहीं जाता है जिससे रायसल का ही नाम शालवाहन अंकित होने का अनुमान होता है.

→ मृता नेणसी की ख्यात में खीची चौहानों के इतिहास में लिखा है कि राव गोपालदास बडा बहादुर राजा था. खीची चौहानों का देश और तो मन्न बूट गया था, परन्तु राव गोपालदास के तरफ मऊ, मैदाना, के १४०० गांव थे. और पहाड व प्रायी में मग हुआ वह देश था. जहाँगीर बादशाह की खीची चौहानों पर इतराजी हुई, और उसने बूंदी के राव राया रत्नसिंह

१४०० गावों का मऊ मैदान का राज्य था, यह शाही सेवा में उपस्थित रहा था और बड़ा बहादुर राजपूत गिना जाता था. जहांगीर बादशाह ने खीची चौहानों का बल कम करने के वास्ते बूंदी के राव राया रत्नसिंह को खीचीओं को मार कर उनका देश ले लेने की आज्ञा दी, जिससे उसने शाही फौज की सहायता से खीची चौहानों से बहुतसा देश ले लिया परन्तु मऊ का राज्य लेने नहीं पाया था.

नं. १४ जोझार मुसलमान हो गया. जिसके वंशज जोझारखानी मुसलमान कहलाये गये ऐसा भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा हुआ है.

नं. १४ चक्रसेन के विषय में खो. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि यह 'मलीगांव' के पटेल रामकिशन मीणा के आश्रय में रहा था वहां ही मर गया था, लेकिन भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि चक्रसेन के तरफ ब्यावरा का राज्य था और उमट राजपूतों ने ब्यावरे पर चढाई की जिसमें चक्रसेन युद्ध में काम आया.

नं. १४ उग्रसेन के विषय में खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि राव रायसल ने गागरून का राज्य दबा लेनेसे वह पटेल रामकिशन व खाताखेडी के भील ठाकुर चक्रसेन के साथ देहली के बादशाह शेरशाह पास पहुंचे. बादशाह ने इसको

को आज्ञा की कि तुमको खीची का मुलक इनाम में दिया गया मार के छीन लो, जिससे रावराया रत्नसिंह ने खीची चौहानों के साथ युद्ध करना शुरू किया, उसने च्यार थाणे मऊ के देश में रख कर उनमें २००० सवार रखे, और राजपूतों को गांव बांट दिये व राठौर गोविन्ददास उग्रसेनोत और राठौर कहान रायमलोत आदि राठौरों को वहां पर रखे. खीची चौहानों ने जगह २ राव रत्नसिंह के साथ युद्ध किया परन्तु उनके हाथसे भूमी छूटने लगी. राजा शालवाहन को भी रावराया रत्नसिंह की सेना ने मार डाला. दिनोंदिन खीची चौहान कमजोर होने लगे और हाडा चौहानों का बल बढ़ने लगा. हाडों ने खीचीओं की बहुतसी भूमी कब्जे कर ली. उनका मुख्य इरादा मऊ, मैदाना, के १४०० गांव लेनेका था. पाया जाता है कि राव गोपालदास बहादुर राजा होनेके कारण उसके समय में 'मऊ' हाडे चौहानों के पास जाने पाया नहीं था.

इसी ख्यात में वि. सं. १७२१ के जेष्ठ महिने में बूंदी के राज्य में कितने परगने थे उन की तुंद मृता नेणसी के पास राठौर रामचंद्र जगन्नाथोत ने कराई है उसमें खीची चौहानों की भूमी जो हाडे चौहानों ने ले ली थी उनकी तफसिल दी गई है उसमें लिखा है कि ( १ ) खटकड के गांव ३६०, ( जो पहिले खीची करमसिंह के पास थे, वह हाडा राव सूर्जन के कब्जे में हो चुके थे ) ( २ ) मऊ के गांव, १४००, जिसमें ७४० गांवों में पहाड व जंगल हाडा भगवतसिंह की जागीर में. ( ३ ) घाटी के गांव ८४, ( ४ ) घाटोली के गांव, ९१, ( ५ ) गागरून के गांव ३१, ( ६ ) गुंगोर के गांव ३६०, ( ७ ) चाचरणी खीची वाघसिंह के गांव, ८४, ( ८ ) चाचरडो खीची सांवलदास के गांव ४२, इसके सिवाय 'खाताखेडी' के गांव ७०० भील चक्रसेन की जागीर भी हाडा भगवतसिंह के पास होनेका लिखा है. लेकिन मऊ का राज्य राव गोपालदास से बूंदी के रावराया रत्नसिंह ने ले लेनेका उल्लेख नहीं है जिससे पाया जाता है कि राव गोपालदास से मऊ नहीं ले सके थे, परन्तु बाद में राव इन्द्रभाण के पास से मऊ लिया गया था. बूंदी के रावराया रत्नसिंह के गद्दी नशिनी वि. सं. १६६४ व उसके देहान्त का समय वि. सं. १६८८ में होना वीर विनोद नामक हस्त लिखित पुस्तक में अंकित हुआ है. उस समय में मऊ में राव गोपालदास व चाचरणी में राव वाघसिंह थे. चाचरणी लेने के लिये मुंगल व हाडा चौहानों की फौज ने बहुत प्रयत्न किया था लेकिन राव वाघसिंह की माता सिंधलजी गोपालदे ने सफलता प्राप्त न होने दी थी. उसके देहान्त के बाद नवशेरखान ने चाचरणी लेने में सफलता पाई थी. उस समय में राव गोपालदास विद्यमान था और उसके तरफ मऊ का राज्य था.

‘खेजडपुर’ की सनद कर दी. उस खेजडपुर का नाम ‘खीचीपुर’ देकर ई. स. १५४४ ( वि. सं. १६०० ) में राव उग्रसेन गद्दी पर बैठा, लेकिन भा. रा. सं. के ग्रंथ में व मालवा गद्देटियर में उल्लेख हुआ है कि राव उग्रसेन को ई. सं. १५४४ में मुगल बादशाह ने जागीर दी.

नं. १५ इसरसिंह व नं. १६ माधुसिंह के लिये कोई ज्यादाह हाल उपलब्ध नहीं हुआ परन्तु नं. १७ इन्द्रभाण के हाथ से बूंदी के हाडा चौहानों ने मऊ का राज्य छीन लिया वैसा भा. रा. सं. के ग्रंथ में उल्लेख किया है. उक्त ग्रंथ में बूंदी के रावराया रत्नसिंह ने इन्द्रभाण से ‘मऊ’ ले लेने का लिखा है परन्तु वह भरोसापात्र नहीं है, क्यों कि रावराया रत्नसिंह का समकालिन मऊ के राजा राव गोपालदास था, और गोपालदास से इन्द्रभाण चौथी पुत्र पर हुआ है. इन्द्रभाण के बाद इसके वंशजों के तरफ राज्य होना पाया नहीं जाता है, सिर्फ भारत राजमंडल के ग्रंथ में इसके वंश की नामावली देकर नं. २३ भोपालसिंह के विषय में लिखा है कि वह वि. सं. १८७९ में नृसिंहगढ के युवराज उमट ( परमार ) चैनसिंह की सहायता में सीहोर में अंग्रेज सरकार के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया था, और बाद में इसके वंश का अस्त हुआ.

मालवे के खीची चौहानों की राघोगढ की शाखा के सिवाय शिवगढ, सुतेलिया आदि छोटी २ स्टेट है, और उसके सिवाय मालवे की दूसरी बड़ी रियासतों में बहुतसी जागीरें भी विद्यमान है.

मालवे के खीची चौहानों जो गढगागरून के खीची के नामसे मशहूर थे उस गढगागरून के राज्य का हाडे चौहानों के बार बार होते आक्रमण से अस्त होकर वह भूमि हाडौती में जा मिली, जिससे खीची चौहानों को बहुत हानी हुई. इसी कारण से खीचीवाडे के खीचीओं के पास सिर्फ राघोगढ व खीलचीपुर नामकी दो रियासतें रही, उसमें से भी राघोगढ की रियासत का बहुतसा हिस्सा मरहटों ने लेलिया, जिससे अंग्रेज सरकार के समय में उसकी हैसियत कम होगई और सिर्फ खीलचीपुर के खीची चौहानों को एक ही तोपों की सलामी वाली रियासत मालवे में रहने पाई है.

x भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि उमट राजपूतों ने अकबर को मार कर न्यावरा लेलेने से उग्रसेन अकबर बादशाह के पास भाग गया और जब अकबर बादशाह मालवे में आसिरगढ पर चढ़ाई लाया तब उग्रसेन भी उसके साथ आया. आसिरगढ पतन होने बाद बादशाह ने इसको १ खीलचीपुर, २ न्यावरा, ३ चाचरणी, ४ ब्रेलणपुर, ५ डाकीवाडा, व ६ भोलवाडा, यह छः परगने दिये और शिक्षा व पोशाक इनायत किया.

२ वंशवृक्ष खीलचीपुर के खीची चौहान.

खीलचीपुर के राव उग्रसेन से लगाकर वर्तमान समय तक के राजाओं के नाम खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात व भारत राजमंडल के ग्रंथ, इन दोनों ख्यातों का मुकाबला करते ठीक २ मिलते हैं. जिससे इन पर नजर दे यह वंशवृक्ष अंकित किया गया है.

१ उग्रसेन (देखो गढगागरून के खीची चौहान वंश वृक्ष में नं. १४ वाला.) खीलचीपुर

२ वाघसिंह

३ करणसिंह ( खीलचीपुर )

३ नगसिंह ( वेलणपुर )

४ हटीसिंह ( खीलचीपुर )

४ किशनसिंह

५ अनोपसिंह

५ फतहसिंह

५ दौलतसिंह

५ सरदारसिंह

५ सुरजमल

५ वसनसिंह

६ फतहसिंह

६ हिम्मतसिंह

६ पृथ्वीसिंह

६ जसवन्तसिंह

६ मनोहरसिंह

७ अभयसिंह

७ रूपसिंह

७ हिन्दुसिंह

८ दीपासह

९ दुर्जनसाल

× गोद

१० शेरसिंह

× गोव

११ अमरसिंह

१२ भवानसिंह

१२ करणसिंह

१२ फतहसिंह

१२ माधुसिंह

१२ हटिसिंह

१२ मानसिंह

१३ दुर्जनसाल ( मौजूदा राव बहादुर )

विश्वनाथसिंह

उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ राव उग्रसेन 'खीलचीपुर' रियासत के स्थापक व मूल पुरुष है. इसके विषय में अगले प्रकरण में अहवाल अंकित हुआ है, उस मुआफिक अकबर बादशाह ने ( वि. सं. १६०० ) ई. स. १५४४ में छः परगने देकर खिलत बक्षी थी लेकिन उन परगनों के सिवाय 'जीरापुर, मासालपुर, व सुजालपुर' परगने भी 'खीलचीपुर के तहत में दिये थे, ऐसा मालवे के गेझेटियर में उल्लेख किया गया है.

नं. २ राव वाघसिंह के समय में जहांगीर बादशाह ने बूंदी के रावराया रत्नसिंह को खीचीवाडा वक्ष कर खीचीओं को मार कर उनका देश छीन लेने की आज्ञा दी थी, और मुगल व हाडों की फौज ने सामिल होकर इस पर आक्रमण किया. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि जब कि मुगल व हाडों की फौजने 'चाचरणी' पर हमला किया तब खीची वाघसिंह की माता ( उग्रसेन की राणी ) सिंधलजी ' गोपालदे ' ने बक्तर पहिन कर उसके साथ युद्ध किया, और मुगल व हाडों की फौज को सफलता होने नहीं दी. बल्कि वह विद्यमान रही वहां तक युद्ध करती रही और चाचरणी का रक्षण किया. उसका देहान्त हो जाने बाद नवशेरखान ने चाचरणी छीन लिया. भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि राव वाघसिंह जहांगीर बादशाह के समय में था, और बूंदी के राव रत्नसिंह ने उससे चाचरणी छीनलिया था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में राव वाघसिंह के लिये कुछ भी लिखा नहीं है.

नं. ३ दिवान करणसिंह ई. स. १५६७ ( वि. सं. १६२३ ) में गद्दी पर बैठने का खीलचोपुर की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है, परन्तु वह संवत् गलत् है क्योंकि इस संवत् में मुगल बादशाह अकबर था, और दिवान करणसिंह के समय में ' शाहजहां ' बादशाह होनेका भा. रा. सं. के ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख हुआ है. उक्त ग्रंथ में लिखा है कि करणसिंह को शाहजहां बादशाहने दिवान की पदवी दी. दिवान करणसिंह व उसका भाई नगसिंह शाहजहां बादशाह की सेवा में थे, और ये दोनों भाई बारह वर्ष तक बंगाला में तहनात रहे थे. बादशाह ने नगसिंह को ' वेलनपुर ' परगना वक्षा था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में करणसिंह बादशाह की सहायता में बंगाले पर चढे थे, ऐसा उल्लेख किया गया है.

नं. ३/४ नगसिंह के तरफ वलनपुर परगना था, परन्तु बूंदी के रावराया छत्रसाल ने उसपर चढाई करके मार डाला और वेलनपुर छीन लिया, ऐसा भा. रा. सं. के ग्रंथ में उल्लेख किया गया है. खी रि. ह. लि. ख्यात में नगसिंह का नाम नहीं है.

नं. ४ दिवान हटीसिंह खीलचोपुर की गद्दी पर बैठा. इसने खीलचोपुर शहर के आसपास कोट बनाया ऐसा खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है.

\* खीलचोपुर की हस्त लिखित ख्यात में नं. ३ दिवान करणसिंह के राज्य गद्दी बैठने का समय ई. स. १५६७, नं. ४ हटीसिंह का समय ई. स. १५९९, नं. ५ अनोपसिंह का समय ई. स. १६५३, नं. ६ फतहसिंह का समय ई. स. १७१८ व नं. ७ अभयसिंह का समय ई. स. १७७० का अंकित हुआ है, उनमें अभयसिंह का समय ' मालवा गेझेटियर ' में लिखा हुआ मन के साथ मिश्रित है. उसके पहिले के दूसरे राजाओं के समय की तसदिक होनेका सावन नहीं है.

नं. ३ किशनसिंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि यह करणसिंह के द्वितीय पुत्र था, और बादशाह शाहजहां ने इसको 'रनाला व दाहेला' की हकूमत पर नियत किया था.

नं. ५ दिवान अनोपसिंह ई. स. १६५३ ( वि. सं. १७०९ ) में खोलचीपुर को गद्दी पर बैठा. भा. रा. सं. के ग्रंथ में इसके ओर भाइयों के नाम भी अंकित हुए हैं और यह औरंगजेब बादशाह के समय में होनेका उल्लेख हुआ है. खी. रि. ह. लि. ख्यात में इस के भाइयों के नाम नहीं हैं.

नं. १ से नं. ८ तक जो नं. ५ अनोपसिंह के भाई हैं, उनके विषय में सिर्फ नाम अंकित हुए हैं ज्यादातर तफसिल नहीं हैं.

नं. ६ दिवान फतहसिंह ई. स. १७१८ ( वि. सं. १७७४ ) में गद्दी पर बैठने का खी. रि. ह. लि. ख्यात में अंकित हुआ है. भा. रा. सं. के ग्रंथ में लिखा है कि यह बादशाह महमुद के समय में विद्यमान था.

नं. ६ हिम्मतसिंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा. सं. के ग्रंथ में अंकित हुआ है, और इसके विषय में उक्त ग्रंथ में लिखा है कि इसने अपना वकील पद्मसिंह को बाजीराव पेशवा के पास चाकरी करने के वास्ते भेजा था.

नं. ७ दिवान अभयसिंह ई. स. १७७० ( वि. सं. १८३६ ) में गद्दी पर बैठा, ऐसा खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है. मालवा गेझेटियर में खोलचीपुर के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि राव उग्रसेन को मुगल बादशाह ने जागीर दी थी उसमें से दिवान अभयसिंह के समय में ई. स. १७७० में जोरापुर व मासलपुर परगने इंदौर के तरफ गये और सुजालपुर परगना ग्वालियर के तरफ गया.

नं. ९ रूपसिंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में प्रथम अंकित हुआ है तब भा. रा. सं. के ग्रंथ में यह तीनों में छोटा भाई होनेका लिखा गया है. इसके वंशज बावडीखेडा, भूमरिया व अमानपुरा आदि जागीरों पर विद्यमान हैं.

नं. ९ हिन्दुसिंह के वंशजो ' जेतपुरा ' आदि जागीरों पर मौजूद हैं.

नं. ८ दिवान दिपसिंह ई. स. १७९५ ( वि. सं. १८५१ ) में गद्दी पर बैठा. इसने सोमवारिया नदी के किनारे पर अपने नाम से दिपगढ बसाया.



नं. ९ दिवान दुर्जनसाल ई. स. १८०० ( वि. सं. १८५६ ) में गद्दी पर बैठा. मूता नेणसी की ख्यात से पाया जाता है कि सैधिया ने खीची चौहानों का राज्य छीन लिया उस समय राजा दुर्जनसाल ने पठाण अमीरखां को अपनी सेवामें रखा था. टॉड राजस्थान की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८५६ में महाराष्ट्र गणेशपंत और लखवादादा इन दोनों के दरमियान वनास नदी के तट पर युद्ध हुआ तब गणेशपंत की सहायता में ज्यॉर्ज टॉमस नामक अंग्रेज सेनापति था, और लखवादादा की सहायता में खीची राजा दुर्जनसाल, मेवाड के सरदारों तथा ५०० सवारों के साथ उपस्थित होकर गणेशपंत किसी की सहायता प्राप्त नहीं कर सके उसके लिये गणेशपंत की छावणी की चारों तरफ घुम रहा था, परन्तु अंग्रेज सेनापति ने उसका श्रम निष्फल कर दिया. भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि दिवान दुर्जनसाल ई. स. १८१९ ( वि. सं. १८७५ ) में अपुत्रवान गुजर गया, जिससे उसकी माता व राणी ने बलवंतसिंह नामक भायात को राज्य शासन का अधिकार सुपुर्द किया, परन्तु 'अमानसिंह' नामक हकदार वारिस ने अंग्रेज सरकार के आगे अपना हक होनेका दावा पेश किया, जिसका स्वीकार होनेसे अमानसिंह के पुत्र शेरसिंह को गद्दी प्राप्त हुई.

नं. १० दिवान शेरसिंह ई. स. १८२० ( वि. सं. १८७६ ) में गद्दी पर बैठा, और ता. २७ नवेम्बर सन १८६८ ( वि. सं. १९२५ ) में अपुत्रवान गुजर गया जिससे अमरसिंह उसके गोद आया. ( भा. रा. मं. के ग्रंथ से. )

नं. ११ राव बहादुर अमरसिंह ई. स. १८६९ ( वि. सं. १९२५ ) में गद्दी पर आया. खीलचीपुर रियासत के राजाओं को पहिले 'राव' या राजा की पदवी थी, लेकिन नं. ३ करणसिंह को + 'दिवान' की पदवी बाहशाह ने दी थी. दिवान अमरसिंह को अंग्रेज सरकार ने ता. १८ एप्रिल सन १८७३ ईस्वी के रोज 'राव बहादुर' का खिताब मौरूसी ( वंश परंपरा के लिये. ) इनायत किया. और 'राव बहादुर राजा साहिव खीलचीपुर' के इलकाव से खरिते में तहरीर होने लगी व नौ तोपों की सलामी हुई. इसके छः कुमारों में बड़े भवानसिंह खीलचीपुर की गद्दी पर आया.

नं. १२ राव बहादुर भवानसिंह ई. स. १८९९ ( वि. सं. १९५५ ) में गद्दी पर बैठा. इसको तीर्थ यात्रा पर बड़ा प्रेम था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसने चारों

+ 'दिवान' की पदवी एक किसम का बहुमान है. मेवाड के महाराणा 'दिवान' कहलाते हैं. नृसिंहगढ के राजा को भी दिवान पद था. पालगपुर राज्य के नवान 'दिवान' कहे जाते हैं. पाया जाता है कि बड़े व छोटे भाईओं का अलग २ राज्यमान होने पर छोटे भाई को 'दिवान' पद मिलता था.



सौजूदा महाराजा साहब खिलचीपुर.



राव वहादुर राजा साहब दूर्जनसाल वहादुर.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ११५ नं. १३ ]

धामों ( द्वारिका, बद्रीनारायण, जगन्नाथ व रामेश्वर. ) की दो दो दफे यात्रा की, जिसमें बद्रीनारायण व नाथद्वारा पैदल चलकर गये थे. इसके भाईओं में नं.  $\frac{१२}{१}$  करणसिंह विद्यमान है. नं.  $\frac{१२}{२}$  फतहसिंह, नं.  $\frac{१२}{३}$  माधुसिंह व नं.  $\frac{१२}{४}$  मानसिंह यह तीनों भाई बालकपन में स्वर्गवासी हुए थे.

नं.  $\frac{१२}{४}$  हटेसिंह के पुत्र विश्वनाथसिंह 'अशोथर' में गद्दी पर बैठा, जो वहां पर विद्यमान है.

नं. १३ राव बहादुर दुर्जनसाल खीलचीपुर के मौजूदा राजा साहबि है, इसका जन्म ता. २६ ऑगष्ट सन १८९७ ईस्वी को हुआ. ता. २८ जनवरी सन १९०८ ईस्वी को गद्दी पर बैठा, और ता. २३ फरवरी सन १९१८ ईस्वी को रिसायत का पुरा अखत्यार से राज्य करने लगे. ( मा. गेन्नेटियर से. ) ता. ६ मार्च सन १९१८ ईस्वी के रोज युवराज यशोधरसिंह का जन्म हुआ है.



## प्रकरण १५ वां.

### गुजरात के खीची चौहान.

खीची चौहानों की गुजरात में छोटाउदयपुर व वारीया नामकी दो बड़ी रियासतें व कितनीक छोटी २ स्टेट ( तालुकदारी ) अंग्रेज सरकार के संरक्षण में है, वैसे दूसरी रियासतों में जागीरें भी हैं. इनका राज्य पहिले पावागढ के पास चांपानेर नामक नगर में था. रासमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि ' चौहानों ने चांपानेर में राज्य कौन तलय में स्थापन किया उस विषय में कल्पना करना फुजूल है. ' भावार्थ यह है कि खीची चौहानों ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया, वह समय निश्चय करनेका कोई ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है.

गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात बोम्बे गेझेटियर, रेवाकांठा डायरेक्टर, व रासमाला आदि पुस्तकों में लिखी गई है, उनमें यह स्वीकार हुआ है कि + 'पालनदेव' नामक खीची चौहान ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया और वह पालनदेव मालवे के गढ गागरून के खीची चौहानों के वंशज था. लेकिन इस पुस्तक के प्रकरण १४ वां में जो अहवाल अंकित किया गया है, उससे स्पष्ट मालूम हो चुका है कि गढ गागरून के राव अचलदास के पुत्र 'पालसी उर्फ पालनदेव' था, और वह गुजरात के तरफ आया था.

पालनदेव गुजरात में कब आया ? उस विषय में मालवे के खीची चौहानों की ख्यात से ० मालूम हुआ है कि गढ गागरून सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में खीची राव अचलदास से लेलिया था, उस समय पालनदेव गुजरात के तरफ आया था.

चांपानेर का राज्य पालनदेव ने किसके हाथ से लिया उस विषय में ' गुजरात राजस्थान ' नामक \* पुस्तक में लिखा है कि—“ पालनदे की सरदारी में खीचीओं गुजरात

+ छोटा उदयपुर के खीची चौहानों के वास्ते उपर्युक्त पुस्तकों में लिखा गया है कि देहली के महान् पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज का एक पुरुष मालवे में गया, जिनमें खेंगारसिंह नामक पुरुष ने गढ गागरून में राज्य स्थापन किया, उसके वंश में रणथंभोर का हमीर हुआ, और हमीर के वंश में ' पालनदे ' हुआ, उसने गुजरात में आकर पावागढ का राज्य संपादन कर चांपानेर में राज्य गद्दी की. जो कि इसमें महान् पृथ्वीराज की ओलाद में खेंगारसिंह होनेका लिखा गया है वह गलत् है, परन्तु पृथ्वीराज से देहली बहूने बाद खीची ' गेसिंह ' ने मालवे में प्रवेश करने का ( यानी ' गेसिंह ' का नाम ' खेंगारसिंह ' अंकित हुआ है. ) अन्य ख्यातों से भी तसदिक होता है. ( देखो इस पुस्तक का प्रकरण १३-१४. ) इसी मुआफिक रणथंभोर के हमीर हठाला के वंशज ' पालनदे ' नहीं था, परन्तु बडुओं की पुस्तक में रणथंभोर क हमीर हठाला को ' हमीर खीची ' लिखा गया है. ( देखो इम पुस्तक का पृष्ठ १० वां. ) जिससे दंतकथानुसार ' पालनदेव ' खीची चौहान होनेसे उसको रणथंभोर के हमीर हठाला की ओलाद में होना माना गया है.

\* देखो प्रकरण १४ वां में पृष्ठ १०४-१०५ पर.

= गुजरात राजस्थान का पुस्तक गुजराती भाषा में श्रीयुत् काशीदास देवशंकर पंड्या ने ई. स. १८८४ में पसिद्ध किया है.

की पूर्व दिशा में आये और पावागढ की तलेटी में 'चांपा' नामक भील के पास 'चांपानेर' का राज्य था वह जीत लिया." इससे पाया जाता है कि उस समय में यह देश जंगल की हालत में था, और भीलों से पालनदेव ने लिया.

प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों में जगह २ यह अंकित हुआ है कि पालनदेव से 'पताई रावल' ( जिसके हाथ से पावागढ गया. ) तक में चांपानेर की गद्दी पर \* १४ राजा हुए, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते वे नाम राजाओं के नहीं होते पालनदेव के पुत्र व पोते आदि के होना अनुमान होता है, क्यों कि वि. सं. १५४१ में चांपानेर का राज्य पताई रावल के हाथ से गुजरात के सहमुद बेगडा के पास चला गया था. यानी पालनदेव गुजरात में आया, और पताई रावल के हाथसे चांपानेर गया उस समय दरमियान सिर्फ ५९ वर्ष का अन्तर है, और ५९ वर्ष में १४ पुत्रों गुजरना असंभवित है.

रासमाला ( फार्वस साहिव कृत ) की प्रथम विभाग की पुस्तक में लिखा है कि— ' गुजरात के सुलतान अहमदशाह का शाहजादा महंमदशाह ई. स. १४४२ से १४५१ तक गद्दी पर था. उसके समय में ई. स. १४४९ ( वि. सं. १५०५ ) में चांपानेर के रावल गंगदास पर उसने चढाई की थी इससे मालूम होता है कि पालनदेव गुजरात में आया, उसके बाद सिर्फ २३ वर्ष होने पर रावल गंगदास चांपानेर में राजा था. रावल गंगदास का पुत्र जयसिंहदेव उर्फ पताई रावल होना हर एक ख्यात में स्वीकार हुआ है, इससे अनुमान होता है कि शायद पालनदेव के पुत्र ही रावल गंगदास होगा.

ई. स. १४७१ ( वि. सं. १५२७ ) में इडर के राठौर राव भाण ने चांपानेर के रावल के साथ +विग्रह करके उसको पकड कर छः सहिने तक इडर में रखने का उक्त पुस्तक में लिखा है. ( लेकिन रावल के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है).

गुजरात के सुलतान महमुद (बेगडा) ने ता. १७ मार्च सन १४८३ ई. के रोज चढाई करके पावागढ की तलेटी में फौज का डेरा लगाया और बाद खुद भी वहां आया, उस समय रावल जयसिंह थे, उसने ताबे होनेका पैगास कहलाया, परन्तु महमुदने स्वीकार

\* उक्त पुस्तकों में १ पालनदेव के पीछे क्रमशः २ रामदेव, ३ चांगदेव, ४ चाचीगदेव, ५ सोनंगदेव, ६ पालनभिंह, ७ जीतकरण, ८ कंपुरावल, ९ वीरधवल, १० सवराज, ११ राघवदेव, १२ त्रीविकमुप, १३ गंगदास व १४ जयसिंहदेव उर्फ 'पताई रावल' के नाम अंकित हुए हैं.

+ गुजराती रा. मा. भाग १ ला के पृष्ठ ५४९ पर इस विषय में लिखा गया है कि ई. स. १४४९ में (महंमदशाहने) चांपानेर के रावल गंगदास पर चढाई करके हराया और उसको किले में घुम कर बैठने की फरज पडी, परन्तु रावल ने मालवे के खीलजी बादशाह को अपनी सहायता में बुला लिया, जिससे महंमदशाह को हार कर भागना पडा.

+ विग्रह होनेका कारण यह बताया है कि राव भाण का रंग श्याम व वदन दुबला पतला था. चांपानेर के रावल ने नाटक काया जिसमें विदूषक से राव भाण का वेश रावल ने बनाने का कह कर उनकी नकल कराई, जो मालूम होनेसे राव भाण ने उस पर चढाई की.

नहीं करने से युद्ध शुरु हुआ, राजपुत्रों ने ऐसी वीरता से हमला किया कि महमुद को घेरा उठाने की फर्ज पड़ी. फिर महमुद ने युद्ध शुरु किया, जिसमें राजपुत्रों को पीछा हटना पडा और मुसलमानों ने दूवारा घेरा डाला, जिस पर रावल ने मालवे के सुलतान की सहायता चाही. मालवे का सुलतान सहायता के लिये तत्पर हुआ परन्तु महमुद ने उस परभी चढाई लेजाने से उसने सहायता करने का मुलतवी कर दिया. ता. १७ नोवेम्बर सन १४८४ ई. के दीन मुसलमानों ने किले के गुह्यद्वार पर कब्जा कर लिया. पताई रावल ने वीरता से केशरियां किया परन्तु सफलता न मिली और जख्मी हालत में रावल व उसका प्रधान डुंगरसिंह को महमुद ने पकड लिये, और वाद में मार डाले.

इस विषय में किसी कविने कहा है कि—

“ संघन पंदरह प्रमाण, एकतालो संवत्सर; पोष मास तिथि त्रीज, बडे हु वार रवि सु दिन. ”

“ मर गिया खट भूप, प्रथम घेरसी पढीजे; जाडेजो सारंग, करण, तेजपाल कहीजे. ”

“ सरवरियो चंद्रभाण, पताई काज पिंडज दियो; मेमदावाद मेहेराण लघु कटक सर पावो लियो ”

( रा. मा. पु. पृष्ठ ६३१. )

उक्त पुस्तक में (रासमाला में) दंतकथानुसार लिखा गया है कि पावागढ की 'कालिकादेवी' नवरात्री के दीनों में मनुष्य के रूप में दूसरी स्त्रीओं के साथ + गरवा गाने के वास्ते आई थी, उसको देख कर रावल ने मोहांध बन कर उसका पल्ला पकडा जिससे देवी ने शाप दिया कि तेरे राज्य का नाश होगा.

चांपानेर पर महमुद ने चढाई लेजाने के विषय में यह भी उल्लेख किया है कि यह घटना होने पहिले सुलतान ने अचानक पांच लाख फौज से पावागढ पर आक्रमण किया था, लेकिन पताई रावल ने उसको सफलता प्राप्त होने न दी, जिससे बारह साल तक घेरा डाल रखा, और निष्फल होनेसे सुलह कर ली. सुलह की संधी में यह बात तय पाई कि सुलतान कभी चांपानेर के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करे, और रावल अपना 'लोवा' नामक ब्राह्मण पुत्र ( जो चालाक लडका था और रावल के पास था. ) को सुलतान को सुपुर्द करे. यह अहदनामा की शर्त पुरी करने को रावल ने 'लोवा' को दे दिया और सुलतान ने 'गादोतरा' लिख कर ' कोई मुसलमान चांपानेर न लेवे.' ऐसी प्रतिज्ञा का शिलालेख लिख दिया, परन्तु वाद में उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं हुआ, और चांपानेर कब्जे करके वहांपर ' महमुदावाद चांपानेर ' नामका नगर बंधवाया गया.

+ कालिका माता ने पताई रावल को शाप देनेके विषय में गरवे में भी वृत्तांत मिलता है. कोई कहते है कि यह शाप देने वाली तो कालिका नामकी एक ब्राह्मण की कन्या थी.

\* लोवा ने सुलतान चढाई लानेकी बात इस पर से ताड ली थी कि सुलतान ने चांपानेर के किले तरफ देख कर मूड पर ताड दी थी, यह लोवा ने देस कर रावल को सावधान कर लिया था.

मूता नेणसी की ख्यात में चांपानेर लेनेके विषय में लिखा है कि महमुद बेगडाने पावागढ के पताई रावल पर चढाई की और बारह साल तक घेरा डाल रखा. पताई रावल का साला ' सइया वांकलिया ' ( सरवरिया राजपूत ) था, उस पर ज्यादह विश्वास होनेसे रावल ने गढ की कूंची उसको दे रखी थी, लेकिन सइया वांकलिया की नियत में फर्क आनेसे उसने सुलतान को मिल कर गढ की कूंची उसको दे दी. गढ का दरवाजा खुलने से सुलतान की फौज गढ पर आई, तब राजपूतों ने केशरियां किया और लड कर काम आने लगे, राणीयां ने पहिले से ही झमर खडक रखा था वे उसमें गीर कर जलने लगी, सइया वांकलिया मारे जाते राजपूतों के नाम सुलतान को सूना कर उनकी राजपूताणी के अग्नि प्रवेश का दृश्य दिखलाता था और सुलतान उन राजपूत, राजपूताणीयां को धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा करता था, सब राजपूत काम आजाने पर सुलतान ने खजाने का हाल सइया वांकलिया से जान लिया और अवशेष राजपूतों के सिर काट कर ईकट्टे किये, बाद ' सइया वांकलिया ' का सिर काट कर उन सब के उपर रख कर कहा कि " जिसका बहुत खाया था उसका भी नहीं हुआ सो हमारा कहांसे होगा ! "

सुलतान महमुद ने पावागढ जीत लेने पर वह ' बेगडा ' कहलाया, क्यों कि गीरनार व पावागढ नामक दो बडे दुर्ग जीत लेनेसे उसकी बहुत नामवरी हुई थी. रासमाला की पुस्तक में लिखा है कि पावागढ जीतनेके कार्य में इडर के राठौर राव भाणने उसकी सहायता की होगी, ऐसा अनुमान किया गया है, वह योग्य है क्यों कि सिरोही की ख्यात से मालूम होता है कि सिरोही के महाराव लखा व इडर के राव भाण दरमियान बहुत मित्राचारी थी और उसी कारण से सिरोही इलाके के गांव ' लास ' में सोलंकी भोजराज को मारने के कार्य में इडर के राव भाण ने महाराव लखा को स्वयं आकर सहायता की थी. सिरोही के महाराव लखा महमुद बेगडा ने पावागढ सर किया तब उसकी सहायता में गया था, जिसके बदले में राणा कुंभा से आबु पहाड का कब्जा पुनः प्राप्त करने में गुजरात के सुलतान ने अपनी फौज दी थी. सिरोही की ख्यात में यह भी उल्लेख है कि पावागढ पर से कालिका माता की मुर्ति हाथी पर बैठा कर महाराव लखा ले आया था जो वर्तमान समय में भी विद्यमान है.

चांपानेर के अंतिम रावल जयसिंह उर्फ पताई को तीन पुत्र थे, जिसमे १ रायसिंह का देहान्त पहिले ही हो चुका था, लेकिन रायसिंह के पुत्र पृथ्वीराज व डुंगरसिंह थे उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर ' हांफ ' गांव में अपना राज्य स्थापन किया. २ लिंगा, चांपानेर के राज्य की पडती देख कर भाग गया. ३ तेजसिंह केद हो गया उसको मुसलमान बनाया गया, जिसके वंशज रेवाकांठा में वर्तमान समय में १ अगर, २ वनमाला, ३ अलवा, ४ देवलिया आदि ताल्लुकों के ताल्लुकदार है.



रायसिंह के पुत्रों ने हांफ में निवास स्थान करके वगावत ( लूटफाट ) शुरू किया, जिससे गुजरात के सुलतान ने उनको कितनेक गामों की चोथ देना स्वीकार किया. उन्होंने स्वपराक्रम से आस्तह २ अपने राज्य की सीमा बढाई और राजपीपला से गोधरे तक का देश कब्जे किया, जब कि दोनों भाईओं दरमियान बटवारा हुआ तब बडे भाई पृथ्वीराज के तरफ 'मोहन' ( छोटा उदयपुर ) व छोटे भाई हुंगरसिंह के तरफ 'वारिया' आया. जो उनके वंशज क तरफ वर्तमान समयमें भी है.

उपर्युक्त हकीकत से चांपानेर के खीची चौहानों का वंशवृक्ष निम्न होना योग्य है.

### १ वंशवृक्ष चांपानेर ( फाफाफाट ) के खीची चौहान.

१ पालनदेव ( देखो मालवा के खीची चौहान ( गढ गागरून के खीची वंशवृक्ष में नं. १ वाला ) के प्रकरण में ( वि. सं. १४८२ में गुजरात तरफ आया. ) पृष्ठ १०५ पर. )

२ जगदाम ( वि. सं. १५०५ में विद्यमान था. )

३ जयसिंहदेव उर्फ पताई रावल ( वि. सं. १५४१ में काम आया. )

४ रायसिंह

४ लिंगा ( भाग गया. )

४ तेजसिंह ( मुसलमान बनाया गया. )

५ पृथ्वीराज ( हांफ बाद में छोटाउदयपुर. )

५ हुंगरसिंह ( वारिया )

नोट—उपर्युक्त वंशवृक्ष के रावलों का इतिहास पहिले ही आ चुका है. अन्य प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों सुताविक इस वंशवृक्ष में वारह पुशतों के रावलों के नाम बाद किये गये है, उसका कारण यही है कि ऐतिहासिक दृष्टि से संशोधन करते वे नामके पुरुष नं. १ व, नं. ३ के दरमियान में होनेका कोई प्रमाण नहीं है, वैसे संवतों का मिलान करते इतनी पुशत गुजरना असंभवित है, जिससे इस पुस्तक के लेखकने अपनी अल्प मतिनुसार अपनी राय से यह वंशवृक्ष अंकित किया है. उस्मेद है कि इतिहास वेत्ताओं की तरफसे इसमें कुछ गलती हुई हो तो वह सुधारने की तजवीज होगी. अफसोस यही है कि गुजरात के खीची चौहानों का इतिहास इतना अपूर्ण है कि हांफमें राज्यस्थापन होनेवादे के राजाओं की नामावली में पृथ्वीराज से वाजी रावल तक में कौन २ राजा हुए उनके नामों के वास्ते भी शंका होने जैसा दिखाई देता है, बल्कि बादमें भी कई एक नाम जगह २ 'मालूम नहीं' होना अंकित हुआ है. इस सूरत में प्राचीन इतिहास में अपूर्णता होवे उनमें आश्चर्य नहीं है.

### २ वंशवृक्ष छोटाउदयपुर के खीची चौहान.


१ पृथ्वीराज ( चांपानेर के खीची चौहानों के वंशवृक्ष में नं. ५ वाला हांफ. )

बाद में कितनीक पुशत पर नं. ७ जशवंतसिंह हुआ, उसका नाम वाजीरावल होगा ऐसा अनुमान किया है.

२ करणसिंह

( देखो पीछे के पृष्ठ पर )

( गु. रा. पृष्ठ १७४ की टीप. )



नोट—यह वंशवृक्ष में नं. २ से नं. ७ तक के नाम किस आधार से अंकित किये गये है वह किसी जगह खुलासा नहीं हुआ है, और इन नाम वाले राजाओं का कुछ भी इतिहास किसी तवारिख में मिलता नहीं है. इस लेखक की राय में गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात बहुत अपूर्ण है. अगर उस प्रदेश की प्राचीन दंतकथा, भाट चारणों के गीत कवित्त और राज्य के आश्रित वहीवंचा वगैरह से ज्यादा तलाश की जाय तो कुछ न कुछ फायदा होने की उम्मेद रहती है.

### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ रावल पुथ्वीराज ने हांफ उर्फ मोहन में अपना राज्य स्थापन किया. फारसी तवारिख से मालूम हुआ है कि 'मोहन' का राज्य ६० कोस लंबा व ४० कोस चौड़े

विस्तार में था. उस देश में जंगली हाथी ज्यादा थे, और वहां के चौहान राजा के पास में ६०० घोड़े सवार और १५००० पैदलों की सेना थी.

नं. २ से नं. ७ जसवंतसिंह तक के वास्ते ज्यादा अहवाल मालूम नहीं हुआ है, लेकिन 'वाजीरावल' नामक राजा ने छोटा उदयपुर में राज्यस्थान किया, जिसके समय में मुगल सत्ता कमजोर हुई व सरहटों की बढ़ती होने लगी थी. यह वाजीरावल का दूसरा नाम जसवंतसिंह होगा ऐसा गुजरात राजस्थान के पुस्तक में अनुमान किया गया है.

नं. ८ रावल दुर्जनसिंह, वाजीरावल के गोत्री भाई था, और वाजीरावल अपुत्रवान होनेसे उस के गोद आया.

नं. ९ रावल समरसिंह, रावल दुर्जनसिंह के भतीजा था. और दुर्जनसिंह अपुत्रवान होनेसे उसके पीछे गद्दी पर बैठा.

१० रावल अभयसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसका देहान्त घोड़े से गोरजाने से हुआ था.

नं. ११ रावल रायसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. वारिया रियासत की ख्यात से मालूम होता है कि वारिया का राजा रावल गंगदास ई. स. १८१७ ( वि. सं. १८७३ ) में इसके आश्रय में रहा था. ई. स. १८१९ ( वि. सं. १८७५ ) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १२ रावल पृथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय में इस रियासत से गायकवाड का तालुक हट कर वि. सं. १८७८ में रु. १०५०० गायकवाड सरकार का टांका ( खंडणी ) मुकरर हुआ, व अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा हुआ, और इसी संवत् में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होने के कारण इसके काका के पुत्र गुमानसिंह गद्दी वारिस हुआ.

नं. १३ रावल गुमानसिंह वि. सं. १८७८ में गद्दी पर बैठा. यह बड़े उदार रईस था. वि. सं. १९०७ में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होनेसे इसके काका मोतीसिंह के पुत्र जीतसिंह गद्दी वारिस हुआ.

नं. १४ रावल जीतसिंह के समय में वि. सं. १९१४ में गदर हुआ, और मरहटा तातीया टोपी ता. २९ नोवेंबर सन १८५८ ई. के रोज मय तोपखाने के बड़ी फौज के साथ छोटा उदयपुर आया, उस वक्त रावल के पास बचाव करने जितनी फौज न होनेसे चागीओं ने शहर लूट लिया. लेकिन पीछे से रेवाकांठा के पोलिटिकल एजेंट 'मेजर



छोटा उदयपुर के महारावल नं. १६



स्वर्गवासी महारावल फतहसिंह साहय बहादुर,  
रिसायत छोटा उदयपुर, (खाकांठा)

बकल ' की सहायता आ जाने पर बागो भाग गये. इसका देहान्त वि. सं. १९४७ ( ता. ७ जुलाई सन १८८१ ई. ) में हुआ. इसके नौ राणीयां, सात पुत्र व छः पुत्रीयां थी. इस रावल का बिचार अपने दूसरे कुमार नं. १५ चंद्रसिंह को गद्दी देनेका था परन्तु अंग्रेज सरकार ने मंजुर नहीं किया जिससे बड़े कुमार मोतीसिंह गद्दी पर बैठा.

नं. १५ रावल मोतीसिंह ता. ११ अगष्ट सन १८८१ ई. (वि. सं. १९४७) के रोज गद्दी पर बैठा. इसके राज्याभिषेक के जलूस में पोलिटिकल आसिस्टंट एलन साहिब, आली-राजपुर के राजा रूपदेव व बारिया के रावल मानसिंह आदि शामिल थे. इसके समय में रियासत में अच्छा सुधारा हुआ. ई. स. १८९५ ( वि. सं. १९५१ ) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १६ रावल फतहसिंह वि. सं. १९५१ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने राजकुमार कॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम हासिल की, और अपने राज्य में पाठशालाएं, सफाखाने, टेलीफोन आदि नये सुधारे करके राज्यहीत व प्रजाहीत के बहुत अच्छे २ काम किये, इसके समय में छोटाउदयपुर से बोडाली तक की रेलवे शुरु हुई. यह महाराजा विद्या विनोदी व प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के बड़े प्रेमी थे. आबु पहाड पर हवा खोरी के वास्ते अकसर करके इनका आना होता था. वि. सं. १९६३ ( ता. १६ नोवेम्बर सन १९०६ ई. ) में युवराज नटवरसिंह, व ( ता. ६ मार्च सन १९०९ ईस्वी. ) वि. सं. १९६५ में द्वितिय कुमार नाहरसिंह के जन्म हुए.

युरोप की बडी लडाई में रावल साहिब ने अपनी रियासत की मकदूर से भी ज्यादा सहायता अंग्रेज सरकार को देकर अपनी वफादारी प्रदर्शित की थी. ता. २९ अगष्ट सन १९२३ ईस्वी ( वि. सं. १९७९ ) में इनका स्वर्गवास हुआ.

नं. १७ रावल नटवरसिंह अपने पिता के पीछे वि. सं. १९७९ में गद्दी पर बैठे. आपने राजकुमार कॉलेज में अपने छोटे भाई नाहरसिंह को साथ रखकर विद्या संपादन की है. नाबालगी के कारण छोटाउदयपुर की रियासत वर्तमान समय में अंग्रेज सरकार की निघरानी में है, और रावल साहिब विलायत की सफर को पधारें है.

३ बंशबृक्ष वारिया ( देवगढ वारिया ) के खीची चौहान.

वारिया के खीची चौहानों का मूल पुरुष रावल डुंगरसिंह ने अपना राज्यस्थान वारिया में किया, जहां पर ' देवगढ ' नामक किला होनेसे ' देवगढ वारिया ' के नाम से यह रियासत मशहूर है. रावल डुंगरसिंह चांपानेर का राज्य जाने के समय में विद्यमान हो वैसा अनुमान होता है. ( जो समय वि. सं. १५४१ था. ) डुंगरसिंह से मौजूदा रावल साहिब रणजीतसिंह के दरमियान केवल १२ पुश्तें और होने का वारिया के इतिहास से पाया जाता है. ( जिसमें चारसौं वर्ष से ज्यादा समय व्यतित हुआ है. ) इससे अनुमान

होता है कि वारिया के खीची चौहान राजाओं की नामावली भी अपूर्ण है, वल्कि रावल मानसिंह जिसके समय में वारिया का राज्य छूट गया था वह ई. स. १७२० ( वि. सं. १७७६ ) में होने का बताया है, जो रावल डुंगरसिंह से पांचवी पुस्त पर है, उस दरमियान २३५ वर्ष होते हैं, जिससे पाया जाता है कि बीच में दूसरे कितनेक राजा हुए होंगे, वे नाम प्राप्त करने के वास्ते इस पुस्तक के लेखक ने खास करके वारिया रियासत में ख्यात संगाने की कोशिश की, और वहाँके दिवान साहिबने श्रम उठाकर ख्यात भेज दी, परन्तु उसमें प्राचीन इतिहास की अपूर्णता रफे होजाय वैसा न होनेसे प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों मुआफिक ' वारिया ' के खीची चौहानों का वंशवृक्ष अंकित करना फर्ज हुआ है.

वस्तुतः बोम्बे प्रेसिडन्सी के देशी राज्यों में वारिया रियासत की ख्यात से यह पाया जाता है कि जैसे राजपूताना में सिर्फ सिरोही रियासत ( देवडा चौहान ) मुगल, मरहटा आदि के मातहत में न रहते अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होनेके समय तक स्वतंत्र रहने पाई है, उसी मुआफिक बोम्बे इलाके के देशी राज्यों में सिर्फ वारिया के खीची चौहानों ने चौहान राजपूतों का प्राचीन गौरव कायम रख कर अपनी स्वतंत्रता को वेदाग रखी है. वारिया की रियासत में होकर मालवे से गुजरात में आनेका मार्ग होनेसे ई. स. १७८५ ( वि. सं. १८४१ ) में अंग्रेज सरदार मी. मेलेट ने जब वारिया के रावल साहेबखान की मुलाकात की तब रावल साहिब ने उसके साथ दोस्ताना वरताव रखकर हरेक प्रकार की सहायता की थी, और बाद में भी वक्तन फवक्त सहायता करने से सैन्धिया आदि मरहटे सरदारों ने इस रियासत को बहुत

+ अंग्रेज सरकार के साथ वारिया रियासत का ताल्लुक होनेके समय में वारिया रियासत स्वतंत्र होनेके विषयमें पोलिटिकल अफसरों ने लिखा है कि—

१. मी. मेलेट अपना ता. १ एप्रिल सन १७८५ ई. के रिपोर्ट में लिखता है कि—“ वारिया के राजा इस समय तक स्वतंत्र रहें हैं.” ( देखो बोम्बे मरहटा सिरीज़ वोल्युम १ पृष्ठ ४९८ पर सिलेक्शन प्रोम स्टेट. )

२. लेफ्टनन्ट जनरल सर जॉहन मालक्रम ने ' मेमरिज़ ऑफ सेंट्रल इन्डिया ' ( ई. स. १८२४ ) नामक पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति में वारिया रियासत को स्वतंत्र राज्य होना स्वीकार किया है.

३. मी. हेमिल्टनम साहिब ने अपना ' डीस्क्रिप्सन ऑफ हिन्दुस्तान ' नामक पुस्तक के पृष्ठ ६८५ में लिखा है कि—“ हिन्दुस्तान में उस समय ( अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होनेके समय ) में जो गीनती के स्वतंत्र राज्य है, उस पैकी वारिया रियासत भी एक गीनी जायक्ती है. इस रियासत ने किसी का टांका ( खंडणी ) नहीं दिया है; इतनाही नहीं परन्तु नरेशिक के ( दूसरे के ताबे के ) परगनों से ' चोप ' यह रियासत वसुल करती है.

नोट—वारिया रियासत पर ई. स. १८२४ तक अंग्रेज सरकार की भी खंडणी नहीं थी, लेकिन नं. १३ पृथ्वीराज राव के नामावली के समय में ' जॉजीभाई ' नामक कारभारीने बेवफा होकर रु. १२००० की खंडणी अंग्रेज सरकार को देनेका करार कर दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार के न्यायी पोलिटिकल अफसरों को अन्याय होना मालूम होनेसे ता. १२ सप्टेम्बर सन १८२३ ईस्वी के अहदनामे से वह रकम वारिया रियासत को वापिस दिखाई गई. जिससे यह रियासत पर अब किसीकी खंडणी नहीं है; बल्कि जो चोप लगती थी वह मिल रही है.

नुकसान पुहुंचाया था, और उस नुकसान का बदला देनेको अंग्रेज सरकार के अफसरों ने वादे किये थे, लेकिन उन वादों ( Promise ) को पूरे नहीं किये तब भी इस रियासत ने अपनी दोस्ताना फर्ज अदा करने में पीछा पैर नहीं दिया वैसा हर एक अंग्रेज अफसरों ने जाहिर किया है.

बारिया रियासत क राजाओं का वंश वृक्ष प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों मुआफिक निम्न अंकित किया गया है.

१ डुंगरसिंह ( चांपानेर के खीची चौहान वंशवृक्ष नं. १ में नं. ५ वाला. ) बारिया.

इससे कितनीक पुस्त बाद

२ उदयसिंह

३ रायसिंह

४ विजयसिंह

५ मानसिंह

६ पृथ्वीराज

७ रायधर

७ सामन्तसिंह

७ हरिसिंह

७ रामसिंह

८ गंगदास

९ गंभीरसिंह

१० धीरतसिंह

१० साहेबसिंह

११ जसवन्तसिंह

१२ गंगदास ( दूसरे )

१३ पृथ्वीराज ( दूसरे )

१४ मानसिंह

१५ रणजीतसिंह ( मौजूदा महारावल )

१५ नहारसिंह

### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ रावल डुंगरसिंह ने बारिया जात के मेवासीयों से ' बारिया ' संपादन करके वहां अपना राज्य स्थापीत किया.

नं. २ रावल उदयसिंह, नं. ३ रायसिंह, नं. ४ विजयसिंह ये तीनों राजाओं के सिर्फ नाम उपलब्ध होते हैं परन्तु उनके समय व ख्यात के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं है.



नं. ५ रावल मानसिंह के हाथ से ई. स. १७२० ( वि. सं. १७७६ ) में वारिया का राज्य छूट गया, और उसका देहान्त होने पीछे एक बलूची सरदार ने इस राज्य पर कब्जा कर लेनेसे मानसिंह की राणी अपना बालक कुमार को लेकर डुंगरपुर के रावल के पास चली गई.

नं. ६ रावल पृथ्वीराज ( पहिले ) अपनी माता के साथ बारह वर्ष ' डुंगरपुर ' के रावल पास रहे. जब यह समजदार हुआ तब ई. स. १७३६ ( वि. सं. १७९२ ) में डुंगरपुर की फौज की सहायता से बलूची सरदार को निकाल दिया, और पुनः कब्जा करके ' देवगढ ' का किला बनाया.

इस राजा के समय में मरहठी सैन्य ( उदाजी पुंवार, मल्हारराव होल्कर, व जनकोजी सैंधिया की फौज ) ने वारिया की सीमा में प्रवेश किया, परन्तु रावल पृथ्वीराज की कुनह से उन्होंने खंडणी नहीं डालते इसको ' वारिया ' राज्य के मालीक होना स्वीकार किया, बल्कि दूसरे लूटेरे वारिया की हदमें न आने पावे उसमें सहायता देनेका संजुर करके कालोल, हालोल, व दाहोद के परगनों में वारिया रियासत की ' चोथ ' लगती थी वह वसुल लेने में रोक टोक नहीं की.

नं. ७ रावल रायधर अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने अपने भाई नं. ५ सामन्तसिंह, नं. ६ हरिसिंह, नं. ७ रामसिंह व अपनी दो बहिनों को जागीरें दी. जो उनके वंशजों के तरफ विद्यमान है, उसमें नं. ५ हरिसिंह की ओलादवालों के तरफ कालोल परगने की ' हेराल ' नामक तालुकदारी है.

नं. ८ रावल गंगदास ( पहिले ) व उसके बाद नं. ९ रावल गंभीरसिंह और उनके पीछे नं. १० रावल धिरतसिंह वारिया की गद्दी पर बैठे, इतनाही वृत्तान्त मालूम होता है. नं. १० रावल धिरतसिंह अपुत्रवान गुजरने से उसका भाई साहेवसिंह गद्दी पर आया.

नं. १० रावल साहेवसिंह बड़े मिलनसार और कार्य कुशल राजा था. इसके समय में भाधोजी सैंधिया राघोवा की तलास में नीकला हुआ वारिया की रियासत में आ पहुंचा, रावल साहेवसिंह ने उसकी अच्छी तरह आगत स्वागत की जिससे सैंधिया ने उससे खुश होकर पोशाक वक्षा. ई. स. १७८५ ( वि. सं. १८४१ ) में अंग्रेज अफसर मीस्टर मेलेट ने रावल साहेवसिंह की मुलाकात की और उससे उसको ( मी. मेलेट को ) इतना संतोष हुआ कि उसने अंग्रेज सरकार को वारिया के राजा निसवत सब हकीकत निवेदन की जिससे ब्रिटिश गवर्मेन्ट ने खास खरीता के साथ पोशाक आदि वारिया के राजा को वक्षे.

ई. स. १७८९ ( वि. सं. १८४५ ) में रावल साहेवसिंह ने सोनगरा चौहान सरदारसिंह को मारकर ' राजपुर ' नामक राज्य ले लिया.

नं. ११ रावल जसवन्तसिंह ने संजेली के सोनगरा चौहान वहादुरसिंह को युद्ध में मारा. इसके समय में सैधिया का जो मुलक भरूच आदि गुजरात में था वह अंग्रेज सरकार के हाथ में आया, उसका कब्जा लेनेके वास्ते अंग्रेज सरकार के अफसरों का कई दफे बारिया रियासत की हद्द में आना जाना हुआ, उस समय रावल जसवन्तसिंह ने अंग्रेज सरकार के अफसरों के साथ दिलोजान से दोस्ताना बरताव रख कर सहायता की, जिससे सैधिया की इस रियासत पर खफ़गी हुई लेकिन रावल ने उसकी परवाह न की.

ई. स. १८०३ ( वि. सं. १८५९ ) में बारिया रियासत का अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा हुआ, लेकिन इस अहदनामा के जरिये से बारिया रियासत को जो लाभ मिलने की आशा थी उसमें कुछ नहीं मिला.

नं. १२ रावल गंगदास ( दूसरे ) के समय में मरहटों ने पूर्व वैर को याद करके बारिया रियासत पर आक्रमण करके मुलक वैरान करना शुरू किया. रावल गंगदास में राज्य चलाने की शक्ति न होनेसे उसकी माता राज्य कारोबार चलाती थी. मरहटों ने इस रियासत पर अपने हमले बड़े जोर से जारी रखे. ई. स. १८०५ ( वि. सं. १८६१ ) में सैधिया की तरफ से शंभाजी आंग्रे ने रु. १४०००) भुजंगराव नामक सरदार ने रु. ८०००) व होल्कर के फौजी सूवा महिपतराव ने रु. ३३०००) बारिया रियासत से लिये.

ई. स. १८०८ ( वि. सं. १८६४ ) में फिर बापुसाहेब सैधिया ने बारिया पर आक्रमण किया और रु. २३०००) लिये, इनताही नहीं लेकिन पीछे से इस रियासत में लूट भी चलाई.

ई. स. १८१० से १८१५ ( वि. सं. १८६६ से १८७१ ) तक में मरहटों की तरफ से रामदीन, होल्कर के फौजी सरदार रोशनबेग, व धार का बापु रूघनाथ और गोविन्दराव बोले आदि मरहटों ने बारिया पर आक्रमण करके खिराज वसूल की.

रावल गंगदास (दूसरे) की माता बहुत बुद्धिमान व राज्य कारोबार में कुशल क्षत्राणी थी उसने नारण दवे नामक ब्राह्मण जो बारिया रियासत में राजगढ परगने का थाणदार था उसको नोकरी में से निकाल दिया था, नारण दवे ने सैधिया के सूवा किरानाजी की फौज में नोकरी करना शुरू किया, उसके तेहत में १०० घोडेसवार व ४०० पायदल थे, इसने बारिया रियासत पर हमला किया और बाद में सूवा को रु. ५०००) रिशवत देकर १०० घोडेसवार व ३०० पायदल के साथ बारिया के नजदीक पढाव किया, उसने फौज को एक जगह छीपा कर २५ आदमीओं के साथ रात्री के समय बारिया के राज्य महल में प्रवेश किया और निद्रावश राज माता को जान से मार कर महल लूट कर चला गया. यह घटना ई. स. १८१७ ( वि. सं. १८७३ ) में हुई.

राज माता का खून होनेसे रावल गंगदास वारिया छोडकर छोटाउदयपुर के रावल रायसिंह के पास चला गया परन्तु थोडे ही दिनों में गोधरे के सूवा का भाई वीठाजी के साथ दवे नारण की लडाई हुई जिसमें नारण दवे सख्त जखमी होकर मर गया. जिससे रावल गंगदास अपने राज्य में वापिस आगया.

रावल गंगदास के समय में सरहटों के हमलों से रियासत की वरवादी हुई और पंचमहाल जिला जो इनकी सरहद पर था वह सैंधिया के तरफ होनेसे सैंधिया उसके पडोसी हुए परन्तु वारिया रियासत पर कायमी तौर पर कोई खिराज कायम नहीं कर सके, इतनाही नहीं लेकिन सैंधिया के तावे के परगने दाहोद, कालोल व हालोल में वारिया के रावल को जो चोथ लगती थी वह वरावर वसुल लेते रहे, ई. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में इस चोथ की रकम रु ४७५०) तय होकर वारिया रियासत को मिलने का ठहराव हुआ. इसी साल में रावल गंगदास का देहान्त हुआ. इसका पुत्र पृथ्वीराज का जन्म होते पहिले इसकी राणीने दो लडके गोद लिये जिसमें से भीमसिंह नामक लडके को कारभारी ने गद्दी पर बैठाया लेकिन वह भीलडी के पेट का होनेके कारण जीजीभाई नामक कारभारी ने उसको गद्दी से हटा दिया और पृथ्वीराज जो सच्चा वारिस था जिसको गद्दी पर बैठाया.

नं. १३ रावल पृथ्वीराज ( दूसरे ) बालक होनेसे कारभारी जीजीभाई राज्य चलाने लगा, इसके समय में बहुत अंधाधुंधी चली. ई. स. १८२४ ( वि. सं. १८८० ) तक वारिया रियासत के उपर अंग्रेज सरकार या दूसरे किसी की खिराज नहीं थी परन्तु जीजीभाई कारभारी ( जिसको वारिया रियासत के इतिहास में विश्वासघाती कारभारी होना अंकित किया है ) ने बालराजा के नाम से अंग्रेज सरकार को तारिख २४ एप्रिल सन १८२४ ई. के इकरार से रु. १२०००) सालमशाही की खिराज देना कबुल किया, जो कि जीजीभाई ने अपना अंधाधुंधी कारभार नोभाने के खातिर यह काम किया परन्तु केप्टन मेकडोनल्डे पोलोटीकल ओफिसर ने इसी साल में उसको हटाकर रावल के रिश्तेदार नथुभाई नामक सरदार को कारभारी नियत किया और रावल पृथ्वीराज लायक होने तक अंग्रेज सरकार ने यह राज्य अपनी निगरानी में रखा.

ई. सं. १८३८ ( वि. सं. १८९४ ) में इस राज्य के सागटाला नामक परगना के भील नायक केवल ने छोटाउदयपुर व पंचमहाल की हद के भीलों को शामिल कर बलवा किया. उसका समाधान अंग्रेज सरकारने किया लेकिन सागटाला परगने की हुकुमत अंग्रेज सरकार ने अपने हस्तक में लेकर वहां अपनी तरफ से एक थाणदार मुकरर किया.

ई. सं. १८५७-५८ ( वि. सं. १९१४ ) के गदर में इस रियासत से अंग्रेज सरकार को



सोजूदा महाराजा साहव ( देवगढ ) वारिया.



केप्टन महारावल सर रणजीतसिंह साहव वहादुर.

के. सी. एस. आई.

[ विभाग पहिला पृष्ठ १२९ नं. १९ ]

हरएक प्रकार की सहायता दी गई, और वारिया व दामावाव में छावणी रखने की इजाजत दी.

ई. स. १८६४ ( वि. सं. १९२० ) में रावल पृथ्वीराज का देहान्त हुआ और इसके आठ वर्ष का कुमार मानसिंह गद्दी पर आया.

नं. १४ रावल मानसिंह बालक होनेके कारण राज माता तख्तकुंवरवा रियासत का काम चलाने लगी परन्तु चाहीये जैसा इन्तजाम न होनेसे अंग्रेज सरकार ने दूसरे साल ( ई. स. १८६५ में ) राज्य का इन्तजाम अपने हाथ में लिया. नाबालगी के समय में इ. स. १८६८ ( वि. सं. १९२४ ) में नारूकोट के ताबे के डांडीयापुरा के भील नायक रूपसिंह व जोरीया वगैरह भीलों ने बलवा किया और वारिया रियासत का राजगढ नामक थाणा लूटकर जलादिया.

रावल मानसिंह ने अहमदावाद की तालुकदारा स्कूल व राजकोट की राजकुमार कॉलेज में विद्याभ्यास करके ई. स. १८७६ ( वि. सं. १९३२ ) में राज्य की कुल सत्ता अपने हाथ में ली, इसकी राज्य चलाने की कुशलता देखकर ई. स. १८८१ ( वि. सं. १९३७ ) में सागटाला परगना की हुकुमत अंग्रेज सरकार ने इसको सुपुर्द कर दी. ई. स. १८९२ में अंग्रेज सरकार के न्यायी पोलिटीकल अफसरों ने कारभारी जीजीभाई के समय में जो रू. १२०००) खिराज के लेना शुरू किया था वह वापिस कर वारिया रियासत को खिराज से मुक्त कर दी.

इस महारावल के समय में वारिया रियासत में पाठशालाएं सफाखाने आदि प्रजाहीत व दूसरे सुधारे दाखिल हुए और अच्छी नामवरी पाकर वि. सं. १९६४ ( ता. २९ फरवरी सन १९०८ ई. में ) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १५ महारावल रणजीतसिंह वारिया के मौजूदा महाराजा हैं इसने राजकुमार कॉलेज में विद्याभ्यास करके फौजी तालीम लेकर ब्रिटीश सैन्य में ऑनररी केप्टन की पदवी पाई है. इसने गद्दी पर आने बाद अपनी रियासत में प्रजाहीत के कार्य के साथ रियासत की तरकी करने से अंग्रेज सरकार ने उसकी कदर करके के. सी. एस. आई. का मानवंता खिताब इनायत किया है.

मौजूदा महारावल साहब अपने वडाउओं के मुआफिक अंग्रेज सरकार के वफादार और सहायक रहे हैं. ई. स. १९१३ ( वि. सं. १९६९ ) में सुंथरामपुर की सरहद में भीलों का बलवा हुआ तब उसको रफा करने के काम में आपने ब्रिटीश अफसरों को अच्छी सहायता की थी, वैसे युरोप के सहान युद्ध के प्रसंग में वारिया रियासत कम आमदनी वाली रियासत होने पर भी महारावल साहब ने २७० फौज के सिपाही व करीब

रु. १११६०००) की गंजावर रकम और दूसरी लडायक सामग्री अंग्रेज सरकार को अर्पण की थी, इननाही नहीं परन्तु आप खुद इस युद्ध में हिन्दुस्तानी घोडेसवारों की सातवीं टुकड़ी के साथ फ्रान्स व फ्लेन्डरस की भूमी में युद्ध में उपस्थित हुए थे और जर्मनों ने जब कि लार्डज़रनिस नामक गांव पर हमला किया तब खाईयों में रहकर उनके साथ मुकाबिला किया था, बल्कि इस विषय में अंग्रेज अफसर मीस्टर विलोवी ने लिखा है कि वारिया रियासत ने अंग्रेज सरकार के फायदे में जो जो तजवीजें की हैं वे उसकी वफादारी को इनसाफ देने के वास्ते काफी सबूत हैं.

नं. १५ नहारसिंह मौजूदा महारावल के छोटे भाई हैं जो ब्रिटिश फौज में लेफ्ट-नंट कर्नल की पदवी धराते हैं.

### ३ वंशवृक्ष मांडवा ( रेवाकांठा ) के खीची चौहान.

मांडवा के खीची चौहानों का मूल पुरुष गढ गागरून ( मालवा ) के राव अचलदास का पुत्र प्रतापसिंह है. वह अपने भाई पालनदेव के साथ गुजरात में आया था. पालनदेव ने चांपानेर में राज्य स्थापन करने बाद प्रतापसिंह ने 'कारवण' में ३५० गांव का अलग राज्य स्थापित किया, उसके वंश में नहारसिंह नामक पुरुष हुआ उस पर गुजरात के सुलतान महसुद बेगडा ने चढाई की जिससे वह भाग कर अपने सुसराल 'नंदेरिया' में चला गया. और 'नंदेरिये' का राज्य उसको मिला. वहां से मालसिंह नामक पुरुष ने अपना राज्यस्थान 'चांदोद' ( नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध कस्बा है. ) में किया.


प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास मुआफिक मांडवा के खीची चौहानों की करीब १६ पुस्तों के नाम जाहिर में आये हैं. इससे पाया जाता है कि उसमें बहुत सी त्रुटि रहने पाई हैं, क्यों कि प्रतापसिंह का गुजरात में आनेका समय वि. सं. १४८२ में जबकि राव अचलदास के हाथ से गढ गागरून छूट गया उसके बाद का है, जिसको ५०० वर्ष हुए हैं, इतने अरसे में करीब २५ पुस्तें होना चाहीये, परन्तु दूसरे नाम प्राप्त करने का कोई साधन न होनेसे गुजरात राजस्थान व रेवाकांठा डायरेक्टरी आदि प्रसिद्ध हुए पुस्तकों में जो नाम उपलब्ध होते हैं उस परसे मांडवा के खीची चौहानों का वंशवृक्ष अंकित किया गया है.

१ प्रतापसिंह ( देसो मांडवा के खीची चौहान गढ गागरून के खीची चौहान वंशवृक्ष में नं. १ वाला. )

↓  
२ गढासिंह

↓  
३ मांडसिंह

↓  
४ वाससिंह



### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ प्रतापसिंह ने कारवण में अपना अलग राज्य स्थापन किया.

नं. २ राणा नहारसिंह के हाथ से वि. संवत् क्री सालहवी सदी में महमुद वेगंडा ने कारवण का राज्य ले लिया. इसकी राणी ' नंदेरिया ' के नंदराजा की पुत्री थी जिससे यह नंदेरिये चला गया और पीछे वह राज इसको ही मिला.

नं. ३ राणा मालसिंह राणा नहारसिंह का पोता होता था. इसने नंदेरिया से राज्य गद्दी हटा कर चांदोद में स्थापित की.

नं. ४ राणा वाघसिंह नं. ३ मालसिंह से कितनीक पुत्र पर हुआ. उसने चांदोद से राज्य गद्दी हटा कर पुराना मांडवा में स्थापित की.

नं. ५ राणा कहानसिंह के विषय में कोई इतिहास जाहिर में नहीं आया है.

नं. ६ राणा वाघसिंहने ई. स. १६६९ ( वि. सं. १७२५ ) में पुराना मांडवा छोड़ कर मौजूदा मांडवा में अपनी राज्य गद्दी स्थापित की.

नं. ६ सबलसिंह को सनोर ताह्लुका मिला. जिनके वंशज के तरफ सनार की ताह्लुकदारी विद्यमान है.



नं. ७ से नं.  $\frac{१५}{४}$  तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए हैं, दूसरा कोई इतिहास इनके विषय में प्राप्त नहीं हुआ है.

नं.  $\frac{१५}{४}$  राणा खुमाणसिंह अपने बड़े भाई माधोसिंह के पीछे ई. सं. १८७१ ( वि. सं. १९२७ ) में गद्दी पर बैठा.



नोट—गुजरात के खीची चौहानों में ताडकदार की पंक्ति के मांडवा के राणा के सिवाय सनोर व गढ़ बोरीयाद के राजाओं का नाम भी है और गुजरात की दूमरी रियासतों में भी खीची चौहानों की छोटी छोटी नागीरें हैं.

## प्रकरण १६ वाँ.

### वाव ( गुजरात ) के नाडोल चौहान.

गुजरात में नाडोल के चौहानों की शाखा के वाव ( थराद ) व सूईगांव नामके तालुकदार हैं, जो नाडोल के चौहानों के वंश वृक्ष में नं. १<sup>०</sup>/<sub>३</sub> देदा की ओलाद वाले हैं. वाव के चौहानों का मूल पुरुष देदा नाडोल से अलग हुआ, वह अहवाल प्रकरण ९ वाँ ' नाडोल के चौहान. ' में सविस्तार आ चूका है, जिससे उनके लिये लिखने की जरूरत नहीं है. वाव के चौहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रत्नसिंह अपने मामा जो थराद का मालिक था उसके पास आया, और बाद में ' थराद ' का प्रदेश उसको ही ( रत्नसिंह को ) मिला.

वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास ' पालणपुर डायरेक्टरी ' से उपलब्ध होता है, बल्कि सूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोड़ीसी ख्यात लिखी है जो प्रकरण ८ वां में. ' निशानी ( आ ) के वंश वृक्ष में नं. १ से नं. १० देदा तक लिखी गई है.' नेणसी सूता जब गुजरात में गया तब ' वाव ' की गद्दी पर भोज ( देखो नं. १७ वाला ) विद्यमान था, और उसने देदा के बाद भोज तक का वंश वृक्ष सम्पूर्ण लिखा है, बल्कि वाव के चौहानों का शृंगलाबद्ध वंशवृक्ष बना है यह उस महाशय की लेखनी का ही प्रताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाविले में गुजरात के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका प्राचीन इतिहास बोलकुल अंधेरे में ही रह गया है. नेणसी की ख्यात से जो नाम ' देदा ' के बाद उपलब्ध होते हैं, वे ' वाव ' के प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास के साथ ' अपभ्रंश ' शब्दों का फर्क बाद करते मिलते हैं.

जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चौहानों का वेटी व्यवहार जेसलमेर के भाटीओं के साथ ज्यादा रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संवत् और नामों में बहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से जो जो नाम मिलते हैं उनको दुरुस्त समझ कर वाव के चौहानों का वंश वृक्ष अंकित किया गया है.

#### १ वंशवृक्ष वाव के नाडोला चौहान.

१ देदा ( देखो वंशवृक्ष ' नाडोल के चौहान ' में नं. १<sup>०</sup>/<sub>३</sub> वाला. )

२ रत्नसिंह यह नाडोल से थराद आया. बाद में इसको थराद प्राप्त हुआ.

३ गोगल मुता नेणसी की ख्यात में ' धुषल ' लिखा है.

( देखो पृष्ठ १३५ पर )

- ३ गोगल ( चंद्रवृक्ष यात्र के नाडोला चौदान बल्ल )  
 ४ मदिपाल इसका नाम नेणमी ने ' मदिप ' लिखा है.  
 ५ हरवत्त इसका नाम ' भरमा ' लिखा है.  
 ६ पिथल इसका नाम ' पीतो ' लिखा है.  
 ७ पंजमिह इसके समय में थराद के उपर मुल्तानी मुशलमानों ने हमला किया, जिस युद्ध में पूंजसिंह काम आया और इसकी नौदो राणी अपने बालक पुत्र को लेकर अपने पिता के पास ' थर पारकर ' चली गई.  
 ८ वनेमिह इनने वि. सं. १३०० में थराद के नजदीक का कितनाक प्रदेश कब्जे किया और ' घाव ' गांव बनाकर ' राणा पद ' से वहां अपना राज्यस्थान जमाया.  
 ९ शिशमिह  
 १० रटुमल इसका नेणमी ने ' राम रुदो भाई ' लिखा है. शायद यह नं. ९ का भाई होगा.  
 ११ मिह  
 १२ महंगमिह  
 १३ वणधीर  
 १४ सांगा  
 १५ पीया उर्फ पाता ( घाव )  
 १६ कल्याणसिंह  
 १७ राणाभोज  
 १८ चंद्रमिह  
 १९ जीगराव  
 २० पंचायण ( इसकी पुत्री सोनकुंवर जेसलमेर के रावल अखेसिंह से विहाई थी. )  
 २१ विजयराज  
 २२ गजेमिह इसकी पुत्री लाठकुंवर जेसलमेर के रावल जमवन्तसिंह से विहाई थी. ) वि. सं. १७५९.  
 २३ भगवानसिंह  
 २४ जालमसिंह  
 २५ मग्दहारमिह  
 २६ उम्मेदमिह  
 २७ चंद्रमिह  
 २८ मंघीरमिह  
 २९ हरिसिंह ( मीजूडा राणा थाय )  
 २३ भारतसिंह  
 २४ डोससिंह  
 २५ चंद्रसिंह  
 २६ हरिसिंह ( गोद गये )  
 २७ डोससिंह  
 २८ हरिसिंह ( गोद गये )



सौजूदा राणा साहब वाव. ( पालणपुर एजंसी गुजरात ).



राणा साहब हरिसिंह साहब वाव. ( गुजरात ).

[ विभाग १ ला. पृष्ठ १३५. नं. २९. ]

नोट—नं. १९ जोगराव ने अपने वडाऊओं का 'थराद' राज्य सम्पादन करने के लिये थराद का प्रदेश बरबाद किया, और सांचौर के परगने में लूटफाट करने लगा. इस विषय में पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि वाव के जागीरदार चौहान राणा जोगराज ने सांचौर परगने में लूटफाट शुरु की और शाही खिराज देनेसे इनकार हुआ, जिस पर गुजरात के सूबा ने उस पर फौज भेजी लेकिन सफलता प्राप्त न होनेसे पालणपुर के दिवान फतहखान को सूचना की, जोगराज ने सुना कि दिवान फतहखान फौज के साथ आ रहा है तब वह मुकाबिला करने को सामने आया, दोनों के बीच बड़ा जोर शोर से युद्ध हुआ, और दोनों तरफ के बहुत सरदार काम आये, लेकिन दिवान को विजय प्राप्त हुआ. जोगराज ने शाही खिराज जो चढी हुई थी वह दे दी, और भविष्य में खिराज दाखिल करने के वास्ते वशाही चाकरी बजा लाने के लिये उससे जामिन लिया गया. इस कार गुजारी में दिवान फतहखान को औरंगजेब बादशाह ने खुश होकर सांचौर, भिनमाल, व जालोर परगने की सनद देकर वह परगने वापस पालणपुर रियासत के शामिल कर दिये.

इस घटना के विषय में पालणपुर रियासत के इतिहास में जो दुहे पृष्ठ ११२-११३ पर लिखे हैं उससे पाया जाता है कि राणा जोगराज बड़ा वीर राजपूत हुआ था क्योंकि यह दूहे विरुद्ध पक्ष के कवि ने रचे हैं. कवि कहता है कि.

x x x x x

“ गढ पत वंको वावे, गढ जोगो रांण जडाग; एक वसे आखाड सीध, खलां खपावण खाग. ” ७

“ राण पितामह भोज राज आगा लगे अजीत; भारथ ईसो भंजीयो. वह दौय वार वर्दात. ” ८

“ वीरचदे चांदो वहे, पृथीराज पंड वेश; केवाणे केवी हरां, रांणो न सहे रेश. ” १०

“ जोगराज जसराजसुं, भड जुख्यो भाराथ; रांणो रोद्रालां तणो, हेक न आवे हाथ. ” ११

“ पेस कसी परठे नहि, दए न सारे दाम; कला हरो पादर करे, सुरां शुं संग्राम. ” १२


x x x x x

तात्पर्य यह है कि जोगराज की वीरता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसकी प्रशंसा विरुद्ध पक्ष के कवि लोगों ने भी की है.

नं. २१ विजयराज के वास्ते भी पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि—जब कि दिवान फिरोजखान ने 'थराद' जीता, उसके पहिले फौज के सिपाहियों ने वाव परगने के गांवों में भी लूट की थी, उसका बदला लेने के वास्ते राणा विजयराज ने शांगा व वजा नामके सरदारों को फौज देकर थराद पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता प्राप्त न हुई, इस युद्ध की प्रशंसा में कविने बारह दुहे, १०४ मोतीदाम छंद के चरण और ३ कवित रचे हैं जो पृष्ठ १४० से १५९ तक में छपे हुए हैं.

नं. २९ हरिसिंह वाव के मौजूदा राणा हैं. वाव ताळुका पालणपुर एजन्सी में पोलिटीकल एजंट की निगरानी में है; और उनको अपनी रिआया पर अमुक दर्जा तक दिवानी, फौजदारी हुकुमत चलाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया हुआ है.


## २ वंशवृक्ष वेणप के नाडोला चौहान.




## ३ वंशवृक्ष सूईगांव के चौहान.

सूईगांव के चौहान भी अलग तालुकदार है जिनका मूल पुरुष वाव के चौहानों में नं. १४ सांगाजी का बेटा पंचायणजी है. उसका वंशवृक्ष नीचे सुआफिक है.


१ पंचायण (देखो वाव वंश वृक्ष में नं.  $\frac{१५}{१}$  वाला) इसने सूई नामका खारी के नाम से ई. स. १५६९ ( वि. सं. १७३५ ) में सूईगांव बसाया.



६ पुजाजी ( वंशवृक्ष चल् सूरगांव के चौहान में नं. ९ अदेसिंहका पुत्र. )  
 ७ सरदारसिंह  
 ८ जगतसिंह



नोट—सूरगांव के तालुका में दो हिस्सेदार ठाकुर हैं. गुजरात राज्यस्थान में लिखा है कि उसमें एक हिस्से में ठाकुर भूपतसिंह और दूसरे में नाथुसिंह हैं. इनको तीसरे दर्जा के न्यायाधिस का फौजदारी अधिकार ( Power ) है.





## प्रकरण १७ वाँ.

### ४ सांचौरा चौहान.

सांचौरे चौहानों का वर्तमान समय में कोई राजस्थान नहीं है, सिर्फ जोधपुर राज्य के सांचौर परगने में उनकी छोटी बड़ी जागीरें हैं. सुना गया है कि इन लोगों में 'चारणीआ वंट' (हरएक भाईयों का सरीखे हिस्सों में वंट) कदीम से होता आया है, इस सबब से इनमें बड़ी बड़ी जागीरें रहने नहीं पाई है. सांचौरे चौहान बड़े बहादुर और स्वामी भक्त हुए हैं, इतिहास से पाया जाता है कि बहुत से सांचौरे राजपूत युद्ध में ही मारे गये, इन लोगों ने वीरता से जगह २ काम देकर जागीरें प्राप्त की थी. बादशाही जमाने से यह लोग बादशाह और जोधपुर के राठौर राजाओं की चाकरी करते आये हैं, जिससे इनकी जागीरें हर वक्त बढ़ती रही हैं. इन लोगों ने जोधपुर के राठौर राजाओं की जैसी सेवा वजाई है वैसी शायद ही दूसरे राजपूतों ने वजाई होगी. इन लोगों को एक दफा बादशाही सेवामें सीधे तौर से (बलु निबावतको) सरदारी प्राप्त करने का मौका हाथ लगा था, लेकिन बाद में उनकी ओलाद में राज्य कार्य कुशलता वाले राजपुत्र न होनेसे वह मौका हाथ से निकल गया और राठौरों की सेवा में ही उपस्थित रहने लगे. अगर वह मौका हाथसे न गुमाते तो, सांचौरे चौहानों की एक अलग रियासत कायम होजाती.

ये राजपूत नाडोल के चौहान आल्हणसिंह (देखो वंशवृक्ष नाडोल में नं. ६ वाला) के पुत्र नं. ७ विजयसिंह की ओलाद के हैं, विजयसिंह ने वि. सं. ११४१ फाल्गुन वदी ११ के रोज सांचौर लिया. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'विजयसी चौहान सिंहवाडे (सीयाणा) रहता था उस वक्त "सांचौर" दहिया राजपूत विजयराज के पास था, दहिया का भाणेज महीरावण वाघेला था, उसकी दियानत सांचौर को कब्जे करने की थी अतएव उसने विजयसिंह चौहान के साथ यह ठहराव किया कि हम लोग दहिया को मार कर आधा आधा सांचौर का प्रदेश बांट लें, विजयसिंह ने यह संजूर करके दहिया राजपूतों को मारे और बाद महीरावण वाघेले को भी मारकर आप सांचौर का मालिक बना, इस सबब से उसकी ओलाद वाले 'सांचौरा चौहान' कहलाये. इस घटना के वास्ते कवि ने कहा है कि.

“ धरा धुण क चाल कीध दहिया दह वटे, सवदी सबलां साथ प्राण मेवा सप हटे, ”

“ आलण मुत विजयसी वंश आसराव प्राणवड, खाग त्याग सरण विजै पंजर सोह; ”

“ चौहान राव चौरंग अचल नरा नाह अण धंग कर; धुमेर सेस जालंग अचल तामराज सांचौर घर. ”

\* संवत् में गलती है वि. सं. १२४१ होगा.

इस समय सांचौरे चौहानों की खास रियासत नहीं है तो भी मूता नेणसीने इनकी विस्तार पूर्वक तपसीलवार ख्यात लिख कर इन बहादुर व निमकहलाल राजपूतों को इनसाफ दिया है, इसके वास्ते यह लोग मूता नेणसी के ऋणी रहेंगे, क्यों कि इन लोगों की रियासत न होने से कभी इतना इतिहास प्रसिद्धि में आनेका मौका न था, यद्यपि इनके बडुओं के चौपडों से इनका वंशवृक्ष बन सकता है तथापि ऐतिहासिक घटनाओं के मूता नेणसी ने जो २ उल्लेख किये है वे घटनाएं प्रसिद्धि में नहीं आती.

वि. सं. १७२५ तक के इतिहास को देखने से पाया जाता है कि सिवाय सांचौर के इन लोगों की जागीरें ( जो विक्रतन फू विक्रत इस खानदानवालों को मिली थीं ) स्थायिन् नहीं रहने पाई हैं इस सबब से खास जागीरों के गांव के नामसे इनका वंशवृक्ष तैयार होना मुश्किल है. अतएव इनमें से जो २ पेटा शाखाएं कहलाई गई है, उनके नाम से मिल सकता है वहां तक का वंशवृक्ष और उनके इतिहास की तपसील दी जाती है.

१ वंशवृक्ष सांचौरे चौहानों का.

१ विजयसिंह (देखो नाडोल के चौहानों का वंशवृक्ष नं. ९ आलहणसिंहका पुत्र नं. १० वाला जिसने सांचौर लिया).

२ पदमसिंह

३ सौभ्रम

४ सालसिंह उर्फ सालहा

४ विक्रमसिंह

४ हापो

५ पत्तो

५ सहसमल ( सहसमलोट )

५ सल्ल

५ सूरचंद

६ वरजांग

७ जयसिंहदेव

७ तेजसिंह

७ हिमाला

७ राघवदे

७ रामसिंह

७ आसो

७ देपालदेव

८ नींबो

(निंबावत)

८ धीरसिंह

८ जगमाल

८ कुंवरसिंह

८ सूरदास

८ भैरव

८ रत्नसिंह

९ राणसिंह

१० महकरण

१० लूणसिंह ('लूणावत')

१० मांडण ('मांडणोत')

११ सीखरो

११ देवीदास

११ सावंतसिंह

११ रायमल

११ रत्नसिंह

११ रावतसिंह

१२ भीमकरण

१२ नामनहीं

१२ रत्नसिंह

१२ हरिदास

१२ कचरो

१२ केसोदास

१२ भाणसिंह

१३ लक्ष्मीदास

१३ मुकुन्ददास

१३ हरिदास

१३ अखेरराज


१४ दयालदास

१४ उग्रसेन

१४ उदयसिंह

१४ विसनराम

११ सावंतसिंह ( चल् बंशवृक्ष नं. १ सांचौरा चौहान )



### उपर्युक्त बंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.


+ नं. ४ सालसिंह उर्फ सालहा यह बडा वीर राजपूत था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर गढ पर घेरा डाला तब किले की पहिली पोल पर यह उपस्थित था, अतः स्वामी भक्ति वताने का यह युद्ध में सबसे आगे होकर 'अश्वमेघ' यज्ञ का फल मनमें सोचता हुआ सोनगरा राव कान्हडदेव के सामने घोडे पर सवार होकर अपने दोनों पैरोंकी जांघ घोडे की जीन के साथ खीलों से जडकर अलाउद्दीन की फौज में शेर की तरह घुसा और बडी वीरता के साथ दल को छिन भिन कर के मारा गया. इसके वास्ते कविने कहा है कि,

“ अलादीन प्रारंभ कीध सोनगर उपर, हुबो समरतल हटी जुड बहुआण मछर पर.”

“ सकती पुरवे सांम, प्राण सूरताण संकायो, गांजे धड गजरूप, चीत्त आलम चमकायो.”

“ सजीयो राव कान्हड रीणह कोतक रीव रथ थंभीयो, वरमाल कंठ अपछर वरे सालह विमाणे मालीयो.”

नं. २ सहसमल के नामसे 'सहसमलोट' सांचौरा कहलाये. १ सहसमल के पीछे २ भोजदेव ३ उधरण ४ वीसो ५ डुंगर ६ राणोमान. (उससे क्रमशः)




नं. ६ वरजांग इसके साथ वि. सं. १४७८ में 'मलिकमीर' ने युद्ध किया जिसमें वरजांग मारा गया और 'सांचौर' मुसलमानों के कब्जे में गया, वरजांग का लश्कर जेसलमेर के भाटी के यहां हुआ था उस लश्कर में त्याग का (शादी के वक्त भाट चारणादिकांको इनाम अकराम दिया जाता है सो) खर्च इतना किया गया कि अवतक उतना खर्च करनेवाला नहीं हुआ है, जिससे उस लश्कर की चौरी पर दूसरे की शादी

+ सिरोही के बडुआ की पुस्तक में जालौर के सोनिगरा राव सामन्तसिंह का पुत्र 'साळजी' होना और उसने वि. सं. १३७० में सांचौर लेना लिखा है. यह बात सही नहीं है क्यों कि वि. सं. १३६८ में कान्हडदेव का मारा जाना सिद्ध हुआ है बडुआ की पुस्तक में कान्हडदेव का वि. सं. १३७२ में मारा जाना लिखा है.

नहीं हुई है. मतलब चौरी की वह जगह वैसी ही छोड़ रखी है, सारांश यह है कि जब वरजांग जितना चौरी दापा देने वाला हो, तब ही उस चौरी पर दूसरे की शादी हो सके.

नं. ७ जयसिंहदेव इसने सांचौर पुनः लिया इसकी शादी मेवाड के महाराणा के वहां हुई थी.

नं. १ तेजसिंह के नामसे ‘ तेजाओत सांचौरा ’ कहलाये. उससे क्रमशः २ पीथल



= तेजाओत का संक्षिप्त इतिहास—नं. २ पीथल यह राठौर राव सूजा का सुसरा होताथा यानी राठौर सेका व देवीदास इसके दोहित्र होतेथे, इसने अपने काका के बेटे जगमाल ( सांचौरा चौहान वंश वृक्ष नं. २ वाला ) को मारकर सांचौर कब्जे किया, इसका पुत्र नं. ३ वाघा भी सांचौर में पाट बैठा, लेकिन निवावत राणसिंह ( नं. ९ वाले ) ने मुलक वैरान किया जिससे यह ‘ कोटाणे चलागया वहां इसने ‘ वाघावस ’ गांव बसाया. इसने साहाराणा उदयसिंह को मेवाड की गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी.

नं. ३ अजा, यह राठौर पृथ्वीराज का मामा होता था, जब सेकाजी राठौर मारा गया और राठौर देवीदास को निकाल दिया, तब देवीदास के साथ अजा भी चित्तौड गया. और बाद में चित्तौड की लड़ाई में देवीदास काम आया, तब उसकी सहायता में यह भी मारा गया.

नं. ५ वणवीर मोटा राजा का सुसरा होता था, इसका पौत्र नं. ७ रामसिंह के तरफ ‘ खारडी थोंभ के पट्टे की जागीर थी.

नं. ८ शंकर यह नं. ६ गोपालदास के साथरहता था, गोपालदास ‘उहड’ कानाना होता था, सो गोपालदास काम आया तब यह भी उसके साथ मारा गया, इसका

पौत्र नं. ५ जेता दकिखन में मुहव्वतखां के साथ गया था वहां दौलताबाद की लडाई में मारा गया, जेताका भाई नं. ६ चांदा यह ' मांडण ' में रहा.


नं. ६ जोधा यह राठौर राव चंद्रसेन की सहायता में मारा गया, इसका पुत्र नं. ६ वीसा, गोपालदास व उहड की सहायता में काम आया, वीसा का पुत्र नं. ७ सहससल भी ' मांडण ' ग्राम में उहड की सहायता में मारा गया.

नं. ७ देदा इसके ' पाटाऊ ' ग्राम का पट्टा था.

नं. ६ गोविन्द इसको ' पाटोडी ' की लडाई में भाटी ने मारा, इसका पुत्र नं. ७ जीवा ' मांडण ' में उहड राठौड के साथ रहा था.

नं. ७ राणो, इसका लग्न हुआ उसके दूसरे रोज ही बाहडमेरा चढाई ले आया, यह उसके सामने लडाई के लिये मदद में गया वहां मारा गया.

नं. ७ हिमाला इसकी ओलाद वाले ' हिमालोत सांचौरा ' कहलाये इनका वंश वृक्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.



नं. २ सोभा बडा बहादुर चौहान था, सांचौर का आधा हिस्सा इसका था और आधा गुजरात के बादशाह 'प्रेममुगल' का था जब मुगल ने सांचौर में गौबध किया तब सोभा ने उसको मारा इसके पराक्रम के वास्ते कवि ने कहा है कि.

दुहा.

“ विसमतो वरजांगदे छायाफूल विछाय, तिण अमास अडावीया, गैमर गोरी राय ” ॥ १ ॥

“ चहुआणो बोधे चलण, इसडे सै अणि नाण, सुजडीआरो सोभडो डख डख ती दिवाण ” ॥ २ ॥

सोरठा.

“ काला काल कलास, सरस पलासां सोभडा, विक्रम सिंहा वास मांही मसीतां मांडजे ” ॥ ३ ॥

“ हीमाला ऊत हीज, सुजडी साही सोभडे, खलल बलकी खीज, हील पहारी महां घडी ” ॥ ४ ॥

“ सोभडासुं अर सीत, दूछर धावे ज्यां दीसी, रोइती कर जत रांत, भीत हुवा भड भड वडे ” ॥ ५ ॥

“ चोल वदन चहुआण, मिलक अटारे मारीया, डख डखती दिवाण, सुजडीयाओ सोभडो ” ॥ ६ ॥

“ वण वीरोत वखाण, हीमाला वत मन हुवा, चलण दीए चहुआण त्रिजडी काठे वात ” ॥ ७ ॥


“ सो भडे कियो मुगाल, मुहगो एकण तालमें, चूड खै चामरी पाल, खेतल वाहण खड खडे ” ॥ ८ ॥

“ लोत्रां चीळू आध, भागी सोह कोइ भणे, वावा तोरण बांध, सोभडा थग सातमे. ” ॥ ९ ॥

पाया जाता है कि सोभा ‘ सुजडिया ’ ग्राम में रहताथा, और इस लडाई में खुदभी मारा गया.

नं. ८ निवसिंह उर्फ नींबो, इसकी ओलाद ‘ निंवावत सांचौरा ’ कहलाई गई.

नं. ९ धीरसिंह इसकी ओलाद वाले ‘ धीरोत सांचौरा चौहान ’ कहलाये गये. इनका वंशवृक्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.



नं. २ वरसिंह सांचौर में मारा गया, उसका पुत्र नं. ३ बीका को ‘ भामराणे ’ सींधल ने मारा, और इसका पुत्र नं. ४ हमीरसिंह, राठौर राव चंद्रसेन का सुसरा होता था, जिसको हरदास राठौर ( महेशदास के पुत्र ) ने मारा. इसके पुत्र नं. ५ पंचायण को वि. सं. १६६६ में भाद्राजण का ‘ विजली ’ पट्टा मिला था.

नं. ३ गोपा-जेतसी उदावत की सहायता में मारा गया. इसका पौत्र नं. ५ मानसिंह सुगालिया से गंधल आया वहां मारा गया, मानसिंह का भाई नं. ६ सुरा देदा के सुसराल गया था वहां मारा गया.

नं. ४ रायसिंह, यह राठौर भाखरसी दासावत के संग मारा गया, वैसेही इसका भाई नं. ४ कानसिंह भी जेतसीओत की सहायता में काम आया था ( मारा गया था)


नं. ५ अर्जुन चाकरी करता था, इसका पुत्र नं. ६ रायसिंह को ‘ रोहिचे ’ ( जोधपुर ) का पट्टा मिला था, वाद में वि. सं. १६६९ मे भाद्राजण के ‘ रायमा ’ का पट्टा नं. ६ के केसोदास के शरीक में मिला था, वैसे इसे वि. सं. १६८५ में ‘ सीहराणा ’

का भी पट्टा मिला था. नं. ६ केसोदास के पट्टे में लालपुर भी संयुक्त था, और नं. ६ अर्जुन को वि. सं. १६८९ में ' सिंहराणे ' का पट्टा मिला था.


नं. ३ वीरसिंह के पट्टे में भाद्राजण का गाम ' रेवडा ' था व नं. ६ मनोहर ' तावराणी ' में रहता था. नं. ३ जेतसी, राठौर नगावत को तुरक ने पकड़ लिया उस झगड़े में यह सारा गया.

नं. १ भैरव, इसकी ओलादवाले ' भरोत सांचौरा चौहान ' कहलाये इनका पुत्रत नासा व संक्षिप्त इतिहास नीचे सुआफिक है.


१ भैरव




नं. ३ उदा ( उपर देखो नं. १ भैरव का पुत्र )



नं. ३ मेवा (उपर देखो नं. १ भैरव का पुत्र)



नं. ३ गांगो (उपर देखो नं. १ भैरव का पुत्र)



नं. २ झांझण राठौर झालदेव का सुसरा होता था, उसका पुत्र नं. ३ प्रयाग को मोटा राजाने ‘ गादेरील ’ का पट्टा दिया, प्रयाग का पुत्र नं. ४ अमरसिंह के तरफ ‘ गादेरील ’ था, और नं. ५ शक्तसिंह के तरफ ‘ गोपडी ’ गाम था, बादमे वि. सं. १६७२ में ‘ रूदिया कुबेल ’ मिला जो पीछे से छूट गया. नं. ६ नरहर को वि. सं. १६७० में ‘ नरावास ’ का पट्टा मिला, वि. सं. १६७१ में अजमेर को लडाईं में राठौर गोविन्ददास मारा गया तब यह भी वहां मारा गया, नरहर का पुत्र नं. ५ मनोहर वि. सं. १६७२ में ‘ वरकरार ’ में रहा बाद वि. सं. १६८१ में उसे ‘ हलाणा ’ मिला, और वि. सं. १६८२ में वह राठौर अमरसिंह नागौर वाले को सेवामें चला गया, उसके काका नं. ६ भगवान को वि. सं. १६७८ में ‘ तातूवास ’ मिला था.

नं. २ मेघा, यह राठौर पृथ्वीराज की सहायता में मेढते की लडाईं में मारा गया.

नं. ३ गांगा का पुत्र नं. ३ जीवा यह मोटा राजा की सेवा में था, इसको वि. सं. १६४० में ‘ दातणिया ’ ग्राम का पट्टा व बाद में ‘ माणकवात्र ’ का पट्टा मिला था इसके पुत्र नं. ४ लाखसी उर्फ भोज के पास ‘ माणकलाव ’ व ‘ वरकरार ’ का पट्टा था, मगर बादमे राठौर देवराज से डर कर चला गया, यह दलपत राठौर की सेवा में रहा वहां मारा गया, जीवा के पुत्र नं. ५ महेश के पट्टे में वि. सं. १६७४ में ‘ भूतेल, भाटीव ’ ग्राम का पट्टा था.

नं. ३ रामसिंह, यह ‘ पोकरणा ’ ग्राम में चंद्रसेन राठौर की जो देवराज के साथ लडाईं हुई थी उसमें मारा गया.

नं. ३ कानसिंह, यह ‘ मेहगढ ’ में मरा, इसका पौत्र नं. ४ तिलोकसी को ‘ वाचलोप ’ ग्राम का पट्टा सियाणा परगने का मिला.

नं. ३ सेखो यह वि. सं. १६४० में सिरोही के राव ‘ सुरताण ’ के साथ शाही फौज को लडाईं हुई उसमें ‘ दताणी खेत ’ में मारा गया, यानी यह राठौरों की सहायता में था, इसके मारे जाने पर इसका पुत्र नं. ५ लक्ष्मीदास को वि. सं. १६४० में ‘ वासणी ’ का पट्टा मिला व वि. सं. १६७७ में ‘ सिराणां ’ का पट्टा मिला.

नं. ३ किसनो, यह राठौर चंद्रसेन के पुत्र उग्रसेन के पास था सो उसके साथ मारा गया.

नं. ३ गोपाल यह राठौर कल्याणदास ( कला राठौर ) रायमल्ल के पुत्र जो ‘ सिवाणागढ ’ का मालिक था, उसकी सेवा करता था, अकबर बादशाह ने सिवाणागढ पर चढाई की तब कला राठौर के संग यह भी मारा गया.



नं.  $\frac{३}{६}$  गोविन्द, इसके तरफ 'गोदरी, करमसीसर' का पट्टा वि. सं. १६४२ में नं. ३ प्रयाग के शरीकमें था, बाद में 'हीरदासर' का पट्टा इसके पुत्र नं.  $\frac{६}{६}$  कुंभा के शरीक में था. कुंभा वि. सं. १६६२ में गुजरात के ग्राम 'मांडवा' जो ( रेवाकांठा में है ) वहां मारा गया. कुंभा के पुत्र नं.  $\frac{५}{२}$  भीमसिंह को वि. सं. १६७५ में भाद्राजण का गांव 'कोराणा' वि. सं. १६७८ में तथा जोधपुर का गांव 'झंझाडा' वि. सं. १६८६ में व सेडते परगने का ग्राम 'पोलावस' का पट्टा मिलाथा बाद में वह वि. सं. १६९१ में राठौर अमरसिंह नागौर वालेकी सेवामें चला गया, गोविन्द का पुत्र नं.  $\frac{८}{८}$  तेजपाल के तरफ 'हीरदासर' का पट्टा था.

नं.  $\frac{३}{६}$  सुरताण, यह वि. सं. १६४० में एक माह 'हीरदासर' रहा बादमें 'गादेरी' गया और आखिर में इसके पास 'चीनडी' ( आसोप परगने का ) पट्टा था, इसका भाई नं.  $\frac{३}{८}$  शार्दूल, धवेसां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया. इसका भाई नं.  $\frac{३}{९}$  खंगार राठौर किसनसिंह के साथ रहता था.

नं.  $\frac{३}{१०}$  वीरस व उसका पौत्र नं.  $\frac{६}{३}$  अचला, यह दोनों वि. सं. १६१८ में राठौर देवीदास के साथ सेडते की लड़ाईमें मारे गये. अचला के पुत्र जो नं.  $\frac{२}{१}$  उदा के भाद्रा-जण में था, (नं. ६ तेजसी वि. सं. १६८२ में) उसको वि. सं. १६८५ में जालोर परगने का 'तालीयाणा' ग्राम पट्टे में मिला.

नं.  $\frac{६}{६}$  अखेराज के पुत्र नं.  $\frac{६}{६}$  राणा को वि. सं. १६७७ में 'खिलोहरी' का पट्टा मिला, बाद वि. सं. १६८४ में 'अहूर' व वि. सं १६९० में 'डांगरे' का और वि. सं. १६९५ में 'समूचे' का पट्टा मिलाथा.


नं.  $\frac{६}{६}$  शार्दूलसिंह इसको वि. सं. १६७२ में, 'भूभादडे का.' पट्टा (परगना पाली) मिला जो उसके पुत्र नं.  $\frac{६}{६}$  मनोहर के पास वि. सं. १६८१ में कायम रहा अलावा इसको वि. सं. १६८८ में सोजत परगने के 'सापां' ग्राम का पट्टा मिला था.

नं. ९ राणसिंह इसको राठौर राव मालदेने (मालाणी वालेने) सिवाणा में 'समदडों' की जागीर दी. उस वक्त सांचौर की जागीर नं.  $\frac{९}{१}$  तेजसिंह के पुत्र पीथल ने अपने चचेरा भाई जगमाल (नं.  $\frac{२}{२}$  वाले) को मार कर दवा ली थी जिससे राणसिंह ने सांचौर के प्रदेश पर हमला करके उसको वरवाद किया जिससे पीथल सांचौर छोड कर चला गया.

नं. १० महकरण इसकी पुत्री की शादी राठौर राव उदयसिंह ( मोटा राजा ) के साथ हुई थी जिसका पुत्र राव दलपत हुआ. यह तुरकों के साथ युद्ध में मारा गया.


नं. १० लूणसिंह, इसकी ओलादवाले ‘ लूणावत सांचौरा चौहान ’ कहलाये, इनका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

१ लूणसिंह ( यह बहादुर राजपूत था )



नं. १० मांडण, इसकी ओलादवाले ‘ मांडणोत सांचौरा चौहान ’ कहलाये. इनका वंशवृक्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.

१ मांडण



नं. २ सांवल, खेरालु परगने के ‘ रावला ’ ग्राम में मारा गया, वि. सं. १६७१ में इसको और नं. २ सूजा को भाद्राजण का गांव, बाला व नीलकंठ पट्टे में मिले.

नं. २ धनसिंह, इसको वि. संवत् १६७० में ‘मेहली’ व वि. सं. १६८३ में ‘इंद्राणे’ का पट्टा मिला.

नं. ३ पत्ता, इसको वि. संवत् १६८५ में ‘ सीराणा ’ पट्टे में मिला.

नं. ३ तेजमाल, यह धनसिंह के बदले चाकरी करता था सो ‘ तीमरणीराम ’ कहा गया.

नं. ११ सीखरा, इसकी पुत्री की शादी राठौर राव रायमल्ल से की थी, यह ‘ सोटा राजा ’ के पास चाकरी करता था, ‘खेजडली’ का पट्टा तीन गांवों सहित इसकी जागीर में था, इसकी ओलाद में नं. १४ उदयसिंह को ( नं. १५ विसनराम के शामिल ) सेडते

परगने का 'भीनावास' पट्टा वि. सं. १६८३ में दिया गया, इसके अतिरिक्त नं.  $\frac{१४}{३}$  विसनराम को वि. सं. १६८२ में पाली परगने का 'रूपावास पट्टा' भी मिला था.

नं.  $\frac{११}{१}$  देवीदास यह 'सोटाराजा' की सेवामें था और वीरत्व में उसके वरावरी का गिना जाता था, इसको वि. सं. १६४० में जोधपुर परगने का 'चेवाडिया' व ओइसा परगने का 'तातूवास' व दूनाडे का 'गोविंदवाडा' व जोधपुर का 'दहीपुरा' बगरह पट्टे को जागीरें मिली थी. इसके बेटे नं.  $\frac{१२}{४}$  'कचरा' को वि. सं. १६६३ में 'तातूवास' व. वि. सं. १६७४ में 'हूणगांस' (सोजत परगने का) का पट्टामिला, यह वि. सं. १६७७ में 'तीवरली' में मारा गया, इसके भाई  $\frac{१२}{६}$  केसोदास को वि. सं. १६७३ में 'दहीपुरे' का पट्टा मिला था.

नं.  $\frac{१३}{१}$  सावंतसिंह यह राठौर राव दलपत का मामा होता था, इसकी ओलाद के 'निवावत सांचौरों' ने दलपत राठौर की बहुत ही चाकरी उठाई थी, इसके चार पुत्र नं.  $\frac{१२}{६}$  शार्दूलसिंह नं.  $\frac{१२}{७}$  गोपालदास नं.  $\frac{१२}{८}$  बलूजी  $\frac{१२}{९}$  अचलदास, दलपत के पुत्र महेशदास राठौर के संग में रहते थे, जब शाही सेनापती 'मुहब्बतखां' दक्षिण में फौज ले गया तब 'दौलताबाद' की लड़ाई में तीनों भाई मारे गये सिर्फ नं.  $\frac{१२}{८}$  वाला बलूजी व राठौर महेशदास बचने पाये, बादशाहने राठौर महेशदास को 'जालोर' दिया ओर बलूजी को 'सांचौर' इनायत किया.

नं.  $\frac{१३}{२}$  बलूजी, यह बादशाही फौज में मनसबदार (सरदार) था, इसके पास सातसौ पैदल और चारसौ घोड़े की सरदारी थी. इसको वि. सं. १६९९ में 'सांचौर' बादशाह की तफ से मिला. वि. सं. १७१७ में यह पूरव में गया और वहां पर ही मर गया. किसनगढ़ के महाराज मानसिंह इसका दौहित्र होता था. बलूजी का पुत्र नं.  $\frac{१३}{३}$  वेणीदास शाही फौज में चारसौ पैदल व एकसौ घोड़े का सरदार था. जिसका भाई नं.  $\frac{१३}{४}$  नरहरदास वि. सं. १७१४ में धोलपुर की लड़ाई में मारा गया. वेणीदास के पुत्र नं.  $\frac{१३}{५}$  शक्तसिंह के पास ढाईसौ पैदल व तीस घोड़े की ही सरदारी रहने पाई थी.

नं.  $\frac{१३}{६}$  कल्याण यह राव दलपत के पुत्र झुझारसिंह के संग रहता था जब झुझारसिंह मारा गया तब यह भी साथ मारा गया.

नं.  $\frac{१३}{१}$  अजीतसिंह इसको संवत् १६७५ में 'केरला' का पट्टा (पाली) मिला था, यह राठौर कनीराम (दलपत के बेटे) के संग वराहनपुर में मारा गया.


वर्तमान समय में 'सांचौरा' चौहानों की कहां २ जागीरें हैं उसका पुरा पत्ता नहीं मिला, वैसे सांचौर में जो चौहान मौजूद है उनका इतिहास नहीं मिलने से जोधपुर

रियासत की एक हस्त लिखित ख्यात से जोधपुर रियासत में सांचौरा चौहानों का जो इतिहास मालूम हुआ, वह नीचे मुआफिक है.

उक्त ख्यात से पाया जाता है कि जोधपुर रियासत में वर्तमान समय में, कल्याणपुर, अरणाप, सूरचंद, राखी, सखवाव, सर, चित्तलवणा, गोलासण, सोपतरो, सापलो, बडा रोड़चा, आदि गांवोंकी जागीरें सांचौरे चौहानों के तरफ है, जिसका पुश्तनामा नीचे मुआफिक है.

१ दयालदास ( अनुमान होता है कि यह नं. १४ वाला, लक्ष्मिदास का पुत्र है. )

२ चतुरभुज



उपर के पुश्त नामा के नं. ६ दूर्जनसिंह कल्याणपुर की जागिर पर वि. सं. १८६१ में था, और जब जोधपुर की फौज सिरोही पर आई तब यह भी फौज में शामिल होना जोधपुर महाराजा के मिति चैत्र सुद १० सं. १८६१ के ×परवाने से मालूम होता है.

नं. ९ दौलतसिंह के तरफ भी कल्याणपुर की जागीर थी, और वह ‘राव’ की पदवी से भूषित थे, इनको जोधपुर रियासत से कुरब की इज्जत ‘दोए हाथ कां कुरब, बांहपसाव बैठक में डाबी मिसल में, सिरायत के बाद बैठक, व घोडा डाबी बाजु में सिरायत के पीछे खेडने की’ थी. इनके वहां गमी होवे तब रियासत जोधपुर की तरफ से ‘मातमपोसी’ होती थी और एक टंक आधी रात को नोबत, गमी के मान में बंध रखने में आती थी. इस समय क्या बरताव है वह मालूम नहीं है.

× उक्त परवाने में चुं. राव दूर्जनसिंह जालमसिंहोत का नाम है और जोधपुर दरवार ने अपनी कलम से आढी ओल में लिखा है कि “ बंदगी में हमगीर हो ज्युही हमगीरी सु उठे रह उठारो ( सिरोही का ) बंदोवस्त मजवूती राखजो, ” दूसरा परवाना वि. सं. १८६८ काती सुद १२ का वि. सं. १८६९ वैशाख वद १४ व इसके अलावा फिर भी है.

नं. १/१ मुलराज के तरफ 'सुराचंद' की जागीर थी. यह वि. सं. १८९२ में जोधपुर के महाराजा के पास गया था, उस समय इसको बड़ी इज्जत के साथ शिरोपाव दिया गया था.

नं. १/२ नाथुसिंह के तरफ 'अरणाप' की जागीर थी. इसको कुरव एक व बांह पसाव की इज्जत थी.

नं. १/३ पदमसिंह के तरफ 'राखी' पट्टे की जागीर थी, यह 'राव' की पदवी से भुषित थे. वि. सं. १८६० में 'राखी' पट्टा इसके बडाउओं को मिला था, वैसा पाया जाता है. इसको कुरव दोए, बांहपसाव, हाथका कुरव, सामावेसण का कुरव, घोडा आगे खडने का कुरव, और खासा ठांभण के कुरवों की इज्जत रियासत जोधपुर की तरफ से दी गई थी, वि. सं. १९२३ में रियासत की तरफ से जो कागज पत्र लिखा जाय उसमें इनको "सरवोपमा" का इल्काव लगाकर लिखावट करने की इज्जत थी.

नं. १/४ शंभुसिंह, नं. ७ पृथ्वीसिंह नाओलाद होनेसे, कल्याणपुर की जागीर पर गोद गया था.

नं. १/५ लक्ष्मणसिंह के तरफ 'सर' गांव की जागीर थी. इसको वि. सं. १८८१ में कुरव एक व वि. सं. १८८७ में 'बांह पसाव' की इज्जत जोधपुर रियासत के तरफ से दी गई.

नं. १० खुमाणसिंह के तरफ 'सखवाव' की जागीर थी. इसको जोधपुर रियासत के तरफ से कुरव वगैरह इज्जत नं. १/६ पदमसिंह के मुआफिक थी, लेकिन लिखावट में 'सरवोपमा' नहीं लिखा जाता था मगर 'मातमपोसी' होती थी.

दयालदासांत के सिवाय सांचौरा चौहानों के तरफ जो जो जागीरें हैं उनके वास्ते अनुमान होता है कि, सांचौर के चौहानों के वंश वृक्ष के साथ उन लोगों का नीचे मुआफिक सम्बन्ध है, यानी—


१ नं. १/६ धीरसिंह की ओलाद के धीरोत सांचौरा के वंश वृक्ष में नं. १/७ रायसिंह, अर्जुनोत की ओलाद में क्रमश २ शिवदान ३ अमानसिंह ४ भीमसिंह ५ हिम्मतसिंह ६ विजयसिंह व ७ देवीसिंह हुए थे. देवीसिंह के तरफ 'वडारोईचा' की जागीर थी, और एक बडा कुरव व बांह पसाव की इज्जत जोधपुर रियासत के तरफ से इनायत थी. गुजरात राजस्थान के इतिहास से पाया जाता है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के पुत्रों आणंदसिंह, रायसिंह व कीशोरसिंह को 'रोइचा' के चौहान मानसिंह व देवीसिंह ने अपने पास रखकर सहायता की थी, बल्कि आणंदसिंह को इडर का राज्य मिला तब देवीसिंह उसकी सेवा में उपस्थित था, बाद में वह

लडाई में काम आया, उसके भाई मानसिंह को इंडर के राज्य में ‘ मुडेटी ’ की जागीर मिली थी. पाया जाता है कि मुडेटी के चौहान ‘सांचौरे चौहान’ है.

२ नं. ६ भैरव की ओलाद के ‘ भैरोत सांचौरा ’ के वंशवृक्ष में नं. १६ इसरदास की ओलाद में क्रमशः २ रायसिंह, ३ मालदान, ४ मोहकमसिंह ( यह वि. सं. १८९१ में था. परवाना मिति पोष सुद ६ ) व ५ वेरीसाल हुए थे. वेरीसाल के तरफ ‘ सापला ’ वगैरह जागीर थी, और इसको एकवडा कुरब व बांह पसाव की इज्जत रियासत जोधपुर के तरफ से थी.

३ इनके सिवाय ‘ सोपतरा ’ की जागीर पर क्रमशः १ अनाडसिंह, २ शार्दूलसिंह, ३ जुवानसिंह व ४ पीरदान हुए. पीरदान को कुरब एक की इज्जत थी. “ चीतलवाणा व गोलासण ” की जागीर अणंदसिंह वीरमोत के तरफ वि. सं. १८७६ में ( परवाना रियासत जोधपुर मिति जेठ वद ५ सं. १८७६ का है. ) थी. इसमें से ‘ चीतलवाणा ’ उसके पुत्र ‘ पदमसिंह ’ को मिला, जिसको एक वडा कुरब व बांह पसाव की इज्जत थी, और आणंदसिंह के पौत्र रामसिंह विजयसिंहोत के तरफ ‘ गोलासण ’ की जागीर थी, जिसको एकवडा कुरब की इज्जत थी. इन लोगो के सिवाय, एक दूसरी जागीर में क्रमशः १ हरिसिंह, २ फतहसिंह, ३ खुमाणसिंह, ४ थानसिंह, ५ सरदारसिंह व उसका पुत्र जगतसिंह था, जगतसिंह को जोधपुर रियासत की तरफ से एकवडा कुरब व बांहपसाव की इज्जत थी. इसी मुआफिक फिर दूसरी एक जागीर में क्रमशः १ रडमल, २ अभयसिंह, ३ मूलराज व उसका पुत्र अमानसिंह था, जिसको एक कुरब व बांह पसाव की इज्जत थी.

जो कि ‘ सांचौरा चौहानों ’ के तरफ से इतिहास प्राप्त न होनेसे उनका सम्पूर्ण शृंखलाबद्ध वंश वृक्ष नहीं बना है, लेकिन यह वहादुर और निमकहलाल राजपूतों के वास्ते मूता नेणसी ने तकलिफ ऊठाई थी, उसकी कदर हावे और उससे ‘ सांचौरा चौहानों ’ को अपनी जाहोजलाली का ख्याल पेदा हो सके, इसी कारण से इस पुस्तक के लेखक ने होसकी उतना तपास करके उपर का इतिहास लिखने की अपनी फर्ज समजी है.



नोट—मुडेटी ठीकाना इंडर के राज्य में है. वहां के चौहानों में ‘ सूरजमल ’ नामका वीर पुरुष ने ‘ मुडेटी का सूरजमल ’ नाम, प्रख्याती में लाया था. रासमाला नामकी पुस्तक में फार्मिस साहेब ने इसके वास्ते कई पृष्ठ लिखे हैं.

## प्रकरण १८ वाँ.


### वागडिया चौहान.

नाडोल के राव लाखणसी के वंशज अश्वराज उर्फ आसराव के पुत्र 'सोहड' वागडिया चौहानों का मूल पुरुष था. (प्रकरण ९ वां के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला) सोहड के बाद क्रमशः २ मुंघपाल, ३ हापा, ४ महीया, ५ पत्ता, ६ देदा, ७ सहराव, ८ दूसरा मुंघपाल, ९ वरसिंह, १० विशलदेव, ११ भोजदेव, १२ वाला, व १३ डुंगरसिंह हुए. इन लोगों के कब्जे में पहिले नागोर पट्टी का देश था, पिछेसे 'डाहलिया परमारों' का छापूर, द्रोणपुर आदि इलाके पर कब्जा करके वहां राज्य करने लगे. 'मोहिल चौहानों' की ख्यात में लिखा है कि 'साजन' नामक चौहान श्रीमौर नामक परगने में राज्य करता था उसका पुत्र मोहिल था, मोहिल को अपने पिता के साथ अन वनाव होनेसे उसने संतन नामक शाहुकार से द्रव्य की सहायता पाकर, छापूर-द्रोणपुर के उपर आक्रमण किया, इस युद्ध में १००० आदमी दोनों तरफ के काम आये और मोहिल चौहान का विजय हुआ, जिससे इन लोगों के हाथ से छापूर-द्रोणपुर का राज्य छूट गया.

नं. १३ डुंगरसिंह वीर राजपूत था, वह कुछ समय तक वागड (वांसवाडा-डुंगरपुर का देश वागड कहलाता है उस में) में रहा था. इसी कारण से 'सोहड' की ओलाद वाले 'वागडिया चौहान' कहलाये गये. डुंगरसिंह मेवाड के राणा 'सांगा के' समय में विद्यमान था. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा सांगा इसका बडा सन्मान करता था, और 'वदनोर' की जागीर उसको दे रखी थी. डुंगरसिंह के बनाये हुए महलात तलाव आदि बहुतसे स्मारक वदनोर में विद्यमान है. इस समय 'वागडिया चौहानों' के कब्जे में वांसवाडा व डुंगरपुर रियासत में बडी २ जागीरें हैं. मूता नेणसी की ख्यात से नीचे मुआफिक वंशवृक्ष डुंगरसिंह की ओलाद वालों का वि. सं. १७२१ तक का प्राप्त होता है. उसके बाद कौन २ हुए उसका इतिहास तलाश किया गया, परन्तु उन लोगों के नहीं देने से जो कुछ ख्यात मिली है उससे ही सन्तोष करना पडा है.

१ वंशवृक्ष वागडिया चौहान.

१ डुंगरसिंह ( नं. १३ वाला वदनोर )



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ डुंगरसिंह—इसका दूसरा नाम पर्वतसिंह होना पाया जाता है. सिसोदियों की ख्यात में लिखा है की, जब वांसवाडा का राज्य नहीं था, और वागड के ३५०० गांव डुंगरपुर के रावल उदयसिंह के कब्जे में थे, उस जमाने में चौहान पर्वत उनकी चाकरी में था. रावल उदयसिंह को पृथ्वीराज व जगमाल नामक पुत्र थे. रावल पृथ्वीराज जब डुंगरपुर की गद्दी पर बैठे तब जगमाल बागी हो गया. पृथ्वीराजने जगमाल के उपर फौज भेजी जिसमें चौहान पर्वतसिंह मुख्य था. पर्वतसिंह ने जगमाल को हरा कर भगा दिया, और वह रावल पृथ्वीराज के पास आया, लेकिन किसी आदमी ने कह दिया कि जगमाल को मारना चाहते तो मार सकते थे, परन्तु रावल पर्वतसिंह ने उसको नहीं मारा जिससे रावलजी चौहान पर्वतसिंह पर नाखुश हुए, और जब पर्वतसिंह मुजरा करने को आया तब मुजरा नहीं लिया, जिससे वह नाखुश होकर जगमाल के पास चला गया, जगमालने इसकी मदद से बड़े जोर शोर से वगावत शुरू की और चार पांच महिनो में डुंगरपुर का देश बरबाद किया, अखीर डुंगरपुर का देश आधोआध जगमाल को देना कबूल करने पर पर्वतसिंह ने सुलह करा दी, उस रोज से वांसवाडा की रियासत अलग कायम हुई, और १७५० गांव लेकर जगमाल वांसवाडा में रावल पद को धारण करके गद्दी पर बैठा.



राणा सांगा ने जब कि अहमदनगर के बादशाह पर चढाई की उसमें डुंगरसिंह और उनके बहुत से भाई बेटे काम आये. वांसवाडा का राज्य कायम होनेसे वागडिया चौहानों का पैर वागड में बहुत मजबूत हुआ, और मही नदी के किनारे का देश उनको जागीर में दिया गया.

नं. ३ कान्ह बडा वीर राजपूत था. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा सांगा ने अहमदनगर पर चढाई की तब अहमदनगर के किले के किवाड जो लोहे के थे वो ऐसे गरम होगये थे की उन किवाडों को तोडने के वास्ते हाथी को उस पर लगाये गये, लेकिन गरमी के सधव से हाथी वापस लौटे, जिस पर कान्ह ने महावत से कहा कि मैं किवाड के पास खडा रहता हुं सो मेरे को बीचमे रख कर मेरे वदन पर हाथी अपने दांत लगा कर किवाड गिरा देवे ऐसी तजवीज कर. महावत ने उस मुआफिक उसको बीचमे रख कर हाथी से हमला कराया, जिससे किवाड टूट गये और कान्ह का चूराचूरा हो गया.

नं. ४ सुजा बडा पराक्रमी हुआ, वह मही नदी पर अपने काका सांवलदास आदि चौहानों समेत उदयपुर महाराणा के विरुद्ध युद्ध में काम आया. जिसके वास्ते पांचेटिया के कवि आढा किशाना ने कहा है कि—

“ गज ठाटे पछे गाढीयो गिरपुर, धर मंडल हर पछे दह्या; वध वार्जायो भाजते वागड, सूजे कटक नां सांसे हीया. ”  
 “ डुंगर हरा भूजे डुंगरपुर, जगत जाणता जुओ जुओ; दीयो तहां कहीयो दिवाणे, महो किनारे सर्ही मुओ. ”  
 “ पत्तिसे तणो उळ पेठो, सामहा हे देससहस सकज; सूजे पूजा तणो न सहियो, गोखे दोढ खीजता गज. ”  
 “ सांवल, केमा सरीखा साखे, भांण तणो वहीयो कुल भाण; महिमल्ल बडो कटक मेवाडां, चासी चल बडूहो चहुआण. ”

नं. ५ मानसिंह—वांसवाडा के रावल मानसिंह का प्रधान था, उसके वास्ते मूता नेणसी की ख्यात में बहुत कुछ लिखा गया है.

मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि × × “ डुंगरपुर वांसवाडे मुदै चहुआण वागडोआ चहुआण डुंगरसी वालाउत रा पोतरा साथै इणारे वाप दादे सदा डुंगरपुर वांसवाडा रा धणीया ने सदा थापै उथापै छै. वाहरली फोजां राणा रो पातसाह री आवे छे तरै चहुआण स्यांम नदी राणा रै मुलक रै गडा संध छै. तिण लोपतां चहुआण सदा मरे छे. सांम नदीरे ढाहै चहुआण काम आया त्यांरी छतरी छै. वागडरे कांटे चहुआण भड किवाडरा राजपूत वैधीला छै. सु धणीयारै ने चहुआणारै रस थोडा दिन हुवै छै. तद मारवाड रा रजपूतानूं बडा बडा पटा देनै सदा वागड रै थान वास राखे छै. ” × ×

वागडिया चौहानों और वांसवाडा के रावल के दरमियान विरोध होने का यह

कारण पाया जाता है कि रावल जगमाल के बाद वांसवाडा की गद्दी पर रावल प्रतापसिंह बैठा उसको पुत्र न होनेसे उसने अपनी पासवान पदमणी के बेटे मानसिंह को गद्दी दी. उसके समय में खंधु के भीलों ने सिर उठाया, रावल मानसिंह ने भीलों को सजा दी और उनके मुखीये को पकड़ लिया, लेकिन मौका मिलने पर भील ने मानसिंह को मार डाला, जिस पर रावल का प्रधान वागडिया चौहान मानसिंह सावलदासोत ( नं. ५ वाला ) था, उसने भील को मार डाला, और खुद वांसवाडा का मालिक बनकर गद्दी पर बैठ गया.

इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि × × “तिण दीन डुंगरपुर रावल सहसमाल धणी छे. तिणनुं मान सुं कहाव कियो जु तू कूण आदमी सु (किस रिस्सेदारी से) वांसवाडा री धरती खाय. सुं आवात मानी नहि. मान दत्त मां हो माह अदावत हुई तद रावल सहसमल चढ मान उपर आयो बेढ हुई सो मान सावलदासोत बेढ जीती. रावल सहसमल बेढ हारी वेस र्ह्यो. तठा पछे राणे प्रताप उदैसिंघौत (महाराणा प्रतापसिंह) वात सूणी. इण भात मान मोट सरद थको वांसवाडो खाय छै तरै वांसवाडा उपर फोज सोसोदीयो रावत रायसिंघ खंगारोत नै सोसोदीया रतनसी कांधलोत नै असवार हजार ४००० दे विदा कियो. चहुआण मान यारे सामे आयो. आयनै बेढ करी. रावत रायसिंह काम आयो. दीवाण री ( महाराणा की फोज ) साथ भागो. मान चहुआण बेढ जीती. राणौ ही वेस र्ह्यो. तठा पिछे चहुआण मान नुं सारा ( सब. ) वागडीया चहुआण मिलैने क्ह्यो. तो नुं धणी फवी छै. आपै वांसवाडा रो धणी कदी नहि. ‘ आपै वांसवाडा रो भड कीवाड छां. थंभ छां. नु को हेक पाटवी जगमाल रो पोतरो पाट साथे थाप. तद उग्रसेन कल्यारो ( १ जगमाल रावल का पुत्र किसनसिंह व उसका पुत्र कल्याणसिंह किसनसिंह व कल्याणसिंह को गद्दी क्यों नहीं मिली थी इसका पत्ता नहीं चलता है. ) मोसाल थो तिणारे तेड ने रावलाई रो टोको दोयो. ” × × तात्पर्य यह है कि मानसिंह. ने वांसवाडा दबा लेने पर उनके उपर डुंगरपुर के रावल ने व उदयपुर के महाराणा ने फौज भेजो परन्तु उन दोनों की सफलता नहीं हुई जिससे वह बैठ रहे, और वागडीया चौहान भाइयातों के कहने पर उसने रावल जगमाल का पौत्र कल्याणसिंह के पुत्र उग्रसेन को बुलाकर वांसवाडा का रावल मुकरर किया.

वागडीया मानसिंह को राज्य प्राप्ति का बहुत लोभ था, उसने रावल उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया लेकिन वांसवाडा रियासत व महलातों में अपना आधा हिस्सा कायम रखा, और खुद महलात में रहने लगा. रावल उग्रसेन उस समय नाम के धणो थे, क्यों कि वांसवाडा में भी उसका अधिकार नहीं चलता था, वल्कि एक महल में दोनों रहने से रावल के जनानी सरदारों की बेअदबी होने लगी. रावल के राजलोकां साथ जोधपुर

के राठौर राव आसकरण चंद्रसेनोत की विधवा राणी ' हाडी ' रहती थी. उसके तरफ मानसिंह की कुदृष्टि होनेसे वह अपना शील बचाने को आपघात करके मर गई, इस घटना से रावल उग्रसेन को बहुत बुरा मालूम हुआ, जिससे रावत सूरजमल जेतमलोत द्वारा चोली महेसर का केसोदास भीवोत को पक्ष में लेकर वांसवाडा पर अचानक हमला कर मानसिंह को भगाया. इस मदद के बदले में रावल ने अपनी तीन बहिनों के विवाह केसोदास के साथ किये, और रावत सूरजमल को रु. २५००० की जागीर का पट्टा इनायत किया.

मानसिंह भाग कर बादशाह के पास पहुंचा और शाही फौज की मदद से वांसवाडा छीन लिया, जिससे रावल उग्रसेन पहाड में चले गये. सूरजमल ने रावल को लुसराल में भेज दिया और खुद पहाड में रहा. बाद मौका पाकर भोलों की सहायता से अचानक शाही फौज पर छापा मारा. इस लड़ाई में मानसिंह के बहुत आदमी मारे गये, और शाही फौज का सरदार अपनी फौज लेकर चला गया, जिससे मानसिंह को वांसवाडा छोडना पडा. वह फिर बादशाह के पास पहुंचा, लेकिन सूरजमल भी रावल के साथ उसके पीछे शाही खिदमत में हाजिर हुआ, जिससे मानसिंह को बादशाह की सहायता नहीं मिल सकी और वापिस लौटना पडा. वह अपने वतन के तरफ आ रहा था तब रासते में ब्राहनपुर में सूरजमल ने उसको ( वि. सं, १६५८ में ) मार डाला.

मानसिंह के बाद वागडिया चौहानों का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु उनका सम्बन्ध वागड के साथ मजबूत जुडा हुआ था. वागडिया चौहानों का दबाव ज्यादा होने के कारण राठौर आदि दूसरी खांप के राजपूतों को रख कर वांसवाडाके रावलने चौहानों को काबू में रखने का यत्न किया था, उसी कारणसे ' कुशलगढ ' की बडी जागीर राठौरों की वांसवाडा रियासत में होने पाई है.

नं. ९ सूरतसिंह, नं. ८ गोपीनाथ का पुत्र जो पागल हो गया था, और उसी कारण से उसके पैर में हमेश बेडी रखी जाती थी. जबकि वांसवाडा पर राणा की फौज आई, और युद्ध के वाजे बजने लगे, तब सूरतसिंह ने अपने भाइयों से पूछा कि यह क्या है, तब किसी ने कहा कि आज दुश्मन आ रहा है सो तुम्हारा तमाशा देखेगा, जिस पर वह एकदम होशमें आया और बेडी कटवा कर युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ, उसने इस कदर पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों को भी आश्चर्य हुआ. उसके विषय में पांचेटीया के कविराज आढा दयालदास ने कहा है कि.

“ रावल री चाड बाजोयो हैकां; अणी भांग जुद्ध वेळ अरडींग; ”

“ आपरे भोम उपरं आया; सहे नहि दल सूरतसिंह. ”

- “ उपरे मही सामहे अणीये; साका लग वचीया पतसाह; ”  
 “ राव चहुआण भलो रोहडीयो, राण कटक खागां रैम राह. ”  
 “ समरह मोहैर वाजीयो सूजो, सरगे तको उचाले चांव; ”  
 “ पहेलां नाथ तणो भड पडोयो, पाळे दिया धरा दैस पात्र. ”  
 “ कल हण वर दूसरो केशैव, वारांगना आई वरण. ”  
 “ सूरज चांद किया दोए सारवी; मोटे प्रव कीधो मरण. ”

दूसरा इसके विषय का एक त्रंबकडा कविराज आढा शंकरदान के मुखजवान से उतारा गया जिस्में इसके पागल पन के विषय में इशारा किया है वह यह है कि—

- “ तेंडा जोवसी खल अजव तमाशा; पेंडा रोप खडा जुद्ध पग्गा. ”  
 “ एंडा बोलणहार अनम्मा; वेंडा उठ त्रंवागळ वेग्गा. ”  
 “ भालां खूर अचालां भारत; सबळां वाजी सोक सरगां. ”  
 “ झीक उपाड दिये खळ झैला; काँला वावर खाग करंग्गा. ”  
 “ आयो चाल फवजां उपर; रे जग मांही सबोल रहल्ला. ”  
 “ साह भूजां मशरिक हमे श्रम; गाह खळां खग वाह गहल्ला. ”  
 “ वीत्त समापण क्रांत तणो वर; दाहण फोज अरि दल हूँको. ”  
 “ नाथ तणो सूरतेस नभ्रे नर; चीत्त न थो ठकै रीत न चूँको. ”

तात्पर्य यह है कि सूरतसिंह दुश्मन की फौज को हटाकर मही नदी पर मारा गया.

इस पुस्तक के लेखक ने वागडिया चौहानों का ज्यादाह इतिहास प्राप्त करने की कोशिश की, मगर नहीं मिला, सिर्फ इतनाही मालूम हो सका कि वर्तमान समय में वांसवाडा व डुंगरपुर रियासत में जो ‘सोलह-बत्तीस’ सरदार कहलाते हैं उनमें वागडिया चौहानों की नीचे मुआफिक जागीर है, यानी १ मोटागांव, २ अधुर्णा, ३ मेतवाला, ४ गड़ी व ५ गनोडा, यह पांच ठिकाने वांसवाडा रियासत में ‘सोलह’ में गीने जाते हैं, और ६ वीछीवाडा, ७ छाजा, ८ भुखीया, ९ माईयावा, १० वसी, ११ भूवाला, यह ठिकाने ‘बत्तीस’ में शुमार है. उसी मुआफिक डुंगरपुर रियासत में, १ वनकोडा, २ ठाकरडा, ३ पीठ, ४ माड़व, ५ एमदवाडा व ६ वमासा, यह ठिकाने ‘सोलह’ में व ७ गांमडा, ८ वडी-पारडी, ९ छोटी पारडी, व १० वगेरी यह ठिकाने ‘बत्तीस’ में हैं.



३ दुश्मन. ४ पहिले. ५ गोपीनाथ. ६ राणा. ७ केशोदास.

१ तुम्हारा. २ बाजनेलगा. ३ बुलाया. ४ पागल. ५ ठाकर की रीत.

## प्रकरण १९ वाँ.

### वालीसा चौहान.


वालीसा चौहान की शाखा नाडोल से निकली हुई है. ( देखो पृष्ठ ५२ पर नाडोल वंशवृक्ष में. नं. ३ वाला अजेतसिंह. ) नाडोल के राव लाखणसी के पुत्र अजेतसिंह की ओलाद में 'वाला' नामक पुरुष से 'वालीसा' कहलाये है. वालीसा चौहानों की जागीर गोडवार परगने में (नाडोल के नजदीक में.) थी उसका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

वंशवृक्ष वालीसा चौहान. ( परगने गोडवार इलाके जोधपुर के गांवों में. )


राव लाखणसी के पुत्र अजेतसिंह से क्रमशः २ वजेसिंह, ३ भीमदास, ४ जोधसिंह, ५ भोजराज व ६ वाला हुआ, और उससे क्रमशः

७ वरसिंह उर्फ वरवा ( वेहडा गांव ४२ गांवों के साथ वि. सं. १२३२ में लिया. )

८ रामसिंह ( इसने महमूद नामके बादशाह का सींग गिराया जिससे ' सींगारा चौहान ' कहाया. वि. सं. १२८२ में यह विद्यमान था. )



१९ लाडखान ( वंशवृक्ष वालीसा चौहान चल् )



### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ से नं. ६ वाले वाला तक का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है. बडुआ की पुस्तक से पाया गया है कि यह नाडोल में ही थे.

नं. ७ वरसिंह ने सींगा हतुडिया नामके राठौर को मार कर वि. सं. १२३२ में बेहडा-बुजरक आदि ४२ गांवो पर कब्जा किया, और वि. सं. १२३५ में 'राह' नामक पहाड पर किला बनवाया, तब से वालीसे चौहानों का स्थान 'बेहडा' गिना गया. इस विषय में कविने कहा है कि.

“ वरवे लीधो वांकडे वहां वल वालीस, सींगो कमधज साजीयो वारासें वत्तीस. ”

नं. १० उदयसिंह ने 'सेंदला' गांव बसाया, यह वि. सं. १३३५ व १३४० में विद्यमान था. इसके समय में मेवाड के सीसोदिये रुद्रसिंह व उसके पुत्र लाखा ने वि. सं. १३४९ में 'बेहडा' पर आक्रमण किया. इस युद्धमें उदयसिंह का भाई नं. ११ आसकरण काम आया.

नं. ११ वेरीसाल पर अलाउद्दीन बादशाह ने चढाई करके उसको पकड कर देहली ले गये थे, यह घटना वि. सं. १३६५ में हुई, मगर बादमें 'ईडर' के राव 'खरहत' जो इसके बहिनीई होतेथे उसने देहली के बादशाह से छूडवा कर 'बेहडे' में कायम रखवाया. यह वि. सं. १३७० में विद्यमान था.

नं.  $\frac{११}{१}$  जेतसिंह की ओलाद वाले 'सेवाणचा वालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाद वर्तमान समय से जोधपुर इलाके के गांव १ लांपीया, २ कोट आदि में है.

नं.  $\frac{१२}{१}$  नृसिंह के पुत्र विशलदेव के नाम से 'विशलोत वालीसा' कहलाये. विशल ने अपने नामसे 'विशलपुर' बसाया था. (जो इस समय में 'लखावत देवडों' के तरफ है.) वर्तमान समय में 'विशलोत वालीसा' जोधपुर इलाके के गांव १ सेलां, २ करणवा, ३ खडाला, ४ सुंडा आदि में है.

नं.  $\frac{१३}{१}$  धूतसिंह से 'धूतावत वालीसे' कहलाये, इसकी ओलाद मारवाड में है, लेकिन गांवों के नाम प्राप्त नहीं हुए हैं.

नं.  $\frac{१४}{१}$  सांगा की ओलाद वाले 'सांगावत वालीसे' कहलाये, जिसकी ओलाद वर्तमान समय में १ लूणावा, २ वाली, ३ लालाई, ४ रोजणा, आदि जोधपुर रियासत के गांवों में विद्यमान हैं.

नं.  $\frac{१५}{१}$  मुंजसिंह उर्फ मुंजा से 'मुंजावत वालीसे' हुए. मुंजसिंह बड़ा वीर पुरुष था. इसकी माता चावडीजी राव +कांधल (कांधल बड़ा पराक्रमी था, जो जालोर के राव कान्हडदेव की सेवा में रहता था, और अलाउद्दीन वादशाह के साथ जालोर की लडाईं में काम आया था.) की पुत्री थी. मुंजसिंह 'सेवाली की नाल' (गोडवार से मेवाड में जानेके रास्ता को सेवाली की नाल कहते हैं.) के नजदीक 'कंटालिया गढ' में रहता था. सीसोदियों ने इसके काका आसकरण को मारा था, इस कारण से यह सीसोदियों का कट्टा शत्रु होकर उनके पीछे पडा, जब कि चित्तौड गढ अलाउद्दीन ने ले लिया, और राणा लक्ष्मणसिंह के कुमार अजयसिंह राणा केलवाडा में रहने लगा तब इसने पूर्व वैर का बदला लेने को उसको बहुत तंग किया था. दंतकथा में कहा जाता है कि इसके दाणी ने राणा अजयसिंह की राणी, मुंजसिंह की सरहद में होकर आरही थी तब उसके पास दाण लेना चाहा, उसने दाण नहीं दिया, जिससे राणी को दांणी ने रोक दी, जिस पर राणी ने अपने पैर के झांझर दे दिये, और केलवाडे जाकर राणा अजयसिंह को कहा कि मुंजा वालीसा को मार दो या खुद मारे जाओ. इस विषय में कवि ने राणी के वचन निसवत कहा है कि.

“ मेवाडा मुंजो मार के मुंजो थानेजमारसो; कंटियाञ्चसु काढ के केलवाडा सु काढसी ”

अजयसिंह में मुंजा को मारने का सामर्थ्य नहीं था, जिससे लाचार हो गया, अखोर अजयसिंह का भतिजा (राणा अरिसिंह का पुत्र जो गुडा भूतेला के 'चांदाणा चौहान' भीमसिंह का दोहित्र होता था.) हमीरसिंह ने मुंजसिंह को मार कर वैर लिया. इस विषय में यह बात प्रसिद्धि में है कि हमीरसिंह कम उम्र का था, और वह मुंजसिंह से लडने के वास्ते उसके पास एकिला चला गया. मुंजसिंह सेवाली की नाल में

+ कांचल चावडा का वीरत्व के वास्ते 'कान्हडदेव प्रबंध' नामके प्रकरण में सविस्तर अहवाल दर्ज है.

महादेव का पूजन कर रहा था, पहर दिन चढने पर वह पूजन से उठा, तब हमीर-सिंहने उससे युद्ध मांगा. मुंजसिंह ने सोचा की राणा अजयसिंह ने अपने पुत्रों के फायदे के वास्ते हमीर को सरवाने की गरज से मेरे पास भेजा है, जिससे उस पर घाव न करते उसको हथियार चलाने की आज्ञा दी. हमीरसिंह ने घोड़े पर चढते हुए मुंज-सिंह पर ( कहा जाता है कि मुंजसिंह ने एक पैर घोड़े के पागडे में रख कर हमीरसिंह को कहा कि हथियार चलाव.) कटार चलाई, जिससे उसके आंतरले निकल पडे. यानी एक पैर पागडे में रहा और घड जमीन पर पडा, मरते समय मुंजसिंह को यह खयाल हुआ कि मैंने अजयसिंह राणा की मुराद बर न आने दी. ( यानी हमीरसिंह जिन्दा रहा है सो अपने पिता का राज्य जरुर अजयसिंह से ले लेंगे. ) ऐसा सोच कर अपनी मूर्छों पर ताल दी. जिसके विषय में कवि ने कहा है कि—

“ घड धरती पग पावडे, आंता तणे गरट, अजे न छोडे मुंजीयो मूर्छां तणी मरड. ”

मुंजसिंह ने मुंजेला नामका तलाव बनवाया. इसकी ओलाद वर्तमान समय में इलाके जोधपुर के गांव १ बांकली, २ मोडरु, ३ परवा, ४ साडेली, ५ पोइणा, ६ पावटा, ७ वरो-लिया व ८ मुंदाडा आदि गांवों में व सिरोही इलाका के ‘ बुडरी ’ गांव में भी है, जो ‘ मुंजावत बालीसा ’ कहलाते हैं.

नं. ११ मेरसिंह की ओलाद वाले ‘ मेरावत बालीसे ’ कहलाये जिसकी ओलाद वर्त-मान समय में इलाके जोधपुर के गांव १ बडेल, २ वोईआ, ३ बडदरा, ४ वरोलिया आदि गांवों में है.

नं. १२ दौलतसिंह व नं. ११ कर्मसिंह यह दोनों भाई मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आये थे.

नं. १३ देवीसिंह ने ‘ दुदणी ’ गांव बसाया जिसकी ओलाद वाले ‘ दुदेणचा ’ बालीसा कहलाये.

नं. १४ मूलसिंह से ‘ मूलावत बालीसे ’ कहलाये, जिसकी ओलाद जोधपुर रियासत के लुदाला गांव में व सिरोही रियासत के तरतौली गांव में है.

नं. १२ बडसिंह व नं. १२ भाणसिंह और नं. १३ हांजा यह तीनों ‘ सेंदला ’ गांव में रहते थे.

नं. १३ हमीरसिंह का पुत्र तोगा विशलपुर में था. यह बडा पराक्रमी राजपूत हुआ, इसने मेवाड के राणा के साथ कई दफे युद्ध किया था, और उसको सफलता न होने दी. जिसके विषय में कविने कहा है कि—



“ तोगे टुंक्र अजवालिया विशलपुर वाला; राणा तणा दल काढिया चढिया ने पाला. ”

राणा केँ साथ युद्ध में उसने स्वपराक्रम से उसको कई एक महिनों तक रोक रखा, जिससे राणा की नौयोवना राणी चिन्ता करके राणा की राह देखने लगी और अपनी सखी से वार २ पूछती रही, जिस विषय में कविने कहा है कि—

“ भुभली मद जोवन भीनी, वना सुहार चंदा वदिनी. ”  
 “ आवे नहीं सखे घर सुंधा, राण तणां दल तोगे रूधां. ”  
 “ वरषा रूत आई वसंतो, कोयल कंठ अलाप करंती. ”  
 “ रंग महेल चितारे राणी, नींद कवर रूधाने ताणी. ”  
 “ आप तणो कंध घरे ना आवे, वरसालो केम करी वोलावे. ”  
 “ कहो शखी हमे काई करसां, तो बलवंत बल रूधां वालीसां. ”  
 “ माये श्रावण जोवन माती, राज कुवार महेल रंग राती. ”  
 “ वरू घर ना वे वासण बोले; नागणियां छात्र विण डोले. ”

नं. १३ रावतसिंह की ओलादवाले इलाके जोधपुर के गांव १ कानपुरा, २ अखेराज का गुडा, ३ वांता, ४ बुसो, आदि गांवों में है.

नं. १४ शत्रुसाल की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ घाणेरा, २ सुंडा, ३ भाटुड, ४ मांदल व सिरोही इलाके के गांव पोसालिया व मासाल आदि में रहते हैं.

नं. १५ नृसिंह की ओलादवाले सिरोही इलाके के गांव वारेवडा व रांवाडा में रहते हैं.

नं. १६ देशल का परिवार जोधपुर इलाके का गांव नाणा में व सिरोही इलाके के गांव धनारी व काछोली में है.

नं. १७ गोमसिंह की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ गोवरिया, २ कंटालिया, ३ जादरा, ४ विशलपुर व सिरोही इलाके के गांव १ मांडवाडा, २ आमथला, ३ भारजा व ४ पिन्डवारा में रहते हैं.

नं. १८ सांगा से 'सिंगणोत वालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाद जोधपुर इलाके के गांव १ विजापुर, २ सेवाडी, ३ टीपरी, ४ विशलपुर व सिरोही इलाके के गांव भारजा में रहते हैं. सिंगणोत वालीसों में से, 'जेतसिंह' सिंगणोत, महाराव शिवसिंह के पास प्रधान था. जिसने पिन्डवारा के राणावत ठाकुर को चूक करके मारा था.

नं. १९ जगमाल वालीसा वहादुर सरदार था. वह सिरोही के महाराव की सेवामें रहता था, जबकि महाराव उदयसिंह (राजकुल सिरोही में नं. १८ वाला) का देहान्त हुआ तब महाराव दूर्जनसाल के कुमार मानसिंह जो महाराणा उदयसिंह के पास चला गया था, उसको बुलाने के वास्ते यह मेवाड गया, और युक्ति से मानसिंह को सिरोही भेज दिया.

मानसिंह सिरोही की गद्दी पर बैठने बाद यह महाराव की सेवामें रहा. जब कि मानसिंह के पीछे महाराव सूरताणसिंह सिरोही की गद्दी पर आये, तब डुंगरावत वजेसिंह ने सिरोही की गद्दी दबाना चाहा और उसके लिये लखावत सूजा को चूक करके मारना चाहा, उसमें जगमाल बालीसा ने बाधा डालने से वजेसिंह ने अपने चचेरे भाई डुंगरावत रावत सेकावत के हाथ से जगमाल को मरवा दिया, और बादमें लखावत सूजा को चूक किया.

नं. १८ गांगा, 'बेहडा व बुजरग' की जागीर का मालिक था. इसके समय में बालीसे चौहानों ने आपस में जागीर के बास्ते तकरार खडी की. बालीसा चौहानों के पास जागीर कम थी, और परिवार ज्यादा था. वे लोग पाटवी-खाटवी की मर्यादा न रखते सब ठाकुर होकर बरताव करने लगे, जिससे गांगा ने आपस की तकरार रफे करने को मेवाड के महाराणा खेतसिंह के छोटे पुत्र 'सेका' को बुलवा कर बेहडा में पाटवी करके रखा. जिसको सब बालीसे चौहानों ने अपना मालिक माना, लेकिन बाद में 'सेका राणा' के पुत्र 'चत्रभाण' ने बालीसों से 'बेहडा' की जागीर छीन ली. जिससे बालीसे चौहान बहैसियत 'भोमिये' रह गये.

नं. १८ आसकरण की ओलाद वाले जोधपुर इलाके के गांव १ कोटाड, २ चांबडेरी, व ३ वीरमपुर में रहते हैं.

नं. १८ जोधसिंह की ओलाद वाले सिरोही इलाके के गांव मांडवाडा में रहते हैं.

नं. १९ लाडखान की ओलाद वाले 'बेहडा' इलाके जोधपुर में भोमिये राजपूतों के दावे से विद्यमान हैं. जिसमें नं. २४ सूरतसिंह काम आया था. वर्तमान समय में बेहडा के बालीसे चौहानों में नं. २८ अचलसिंह पाटवी गिना जाता है. और दूसरी सब जगह जहां २ बालीसे चौहान हैं. वे जागीरदार के तोरसे नहीं लेकिन राजपूत दावे से या भोमिया के तोरसे अरहट खेतों की जागीर खाते हैं.



## प्रकरण २० वां.


### जालोर के सोनगरा चौहान.

सोनगरा चौहानों का मूल पुरुष नाडोल के चौहानों में अंकित हुआ नं. १ कीर्तिपाल उर्फ कीतू है. जिसके तरफ नाडोल से मिली हुई सिर्फ वारह गांव की 'नारलाई' पट्टा की जागीर थी, लेकिन उसने स्वपराक्रम से जालोर, व केराडु के परमार राजाओं को मार कर अपना अलग राज्य कायम करके जालोर में राजगद्दी स्थापन की. कहा जाता है कि जालोर के पहाड का नाम 'सोनग या सोनगिरी' होनेसे इसकी ओलाद वाले 'सोनगरा चौहान' कहलाये गये. अन्य मत से कहा जाता है कि कीर्तिपाल के पुत्र का नाम 'सोना' था, जिससे 'सोनगरा' कहलाये, परन्तु सिवाय सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक के दूसरी किसी ख्यात में कीर्तिपाल के पुत्र 'सोना' नामक होना मालूम नहीं होता है, जिससे 'सोनगिरी' के नाम से ही 'सोनगरा चौहान' कहलाये गये यह बात ज्यादा भरोसा के पात्र होना पाया जाता है.


सोनगरे चौहानों की ख्यात के वास्ते भी पृथक २ ऐतिहासिक साहित्य उपलब्ध होते हैं, उनसे नीचे मुआफिक अलग २ नामावली पाई जाती है:

(१) 'सूधा पहाड का शिलालेख,' जो वि. सं. १३१९ में सोनगरा चाचींगदेव के समय में लिखा गया है, उससे १ कीर्तिपाल के बाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ उदयसिंह व ४ चाचींगदेव के नाम अंकित हुए हैं.


(२) 'सूतानेणसी की ख्यात' की पुस्तक से १ कीर्तिपाल के बाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ अरसिंह, ४ उदेसिंह, ५ जसोवर, ६ करमसी व ७ चाचगदेव और उसके बाद (नीचे देखो).




(३) सिरोही के वडुआ की पुस्तक से १ कीतू (उससे क्रमशः)




४ सामन्तसिंह ( चल्हू सिरोही के बडुआ की पुस्तक से )




( ४ ) सीरोही के राज पुरोहित की पुस्तक से १ केतु



( ५ ) खा. ब. मुंशी न्यामतअलीखां की ख्यात से १ कीतू



( ६ ) सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक से १ कीर्तिपाल




नोट—१ जालोर के सोनगरा वीरमदेव के विषय में ' वीरमदेव सोनगरा ' नामक हस्तलिखित पुस्तक से व गीत कवित्तोंसे कीतू, नाधतसिंह, महणमी ( मानसिंह ) नाम उपलब्ध होते है जिममें सांवतसिंह के पुत्रों के नाम १ कान्हडदेव, २ वणवीर, ३ गोकलीनाथ, ४ मालदेव व ५ मालजी होने का मालूम होता है.

२ कान्हडदेव प्रबंध नामक पुस्तक में सामन्तसिंह के पुत्र १ कान्हडदेव, २ मालदेव व उनका एक भतीजा सांतल नामका था जो गढ सवियाणे का किलेदार था. इतने ही नाम उपलब्ध होते है.

उपर्युक्त ऐतिहासिक प्रमाणों के सिवाय आबु पर वि. सं. १३७७ का महाराव लूभा के समय के शिलालेख से पाया गया है कि समरसिंह के बड़ा पुत्र मानसिंह उफ माणीजी था, और छोटा पुत्र उदयसिंह था. वस्तुतः शिलालेखों में हर जगह यह पाया जाता है कि उनमें जो वंशावली दी जाती है वह संकुचित और सिर्फ अपने बडाऊओं के नाम ही लिखे जाते हैं, बल्कि सगे भाई के नाम तक बाजे जगह नहीं लिखे गये हैं. जालोर के सोनगरे चौहानों के वंशवृक्ष के वास्ते उपर के प्रमाणों में जो जो नाम उपलब्ध हुए हैं, उन पर तुलना करते नीचे मुआफिक वंशवृक्ष बनता है.

### वंशवृक्ष जालोर के सोनगरा चौहान.



### जालोर के चौहानों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ कीर्तिपाल के विषय में सूधा के शिलालेख में लिखा है कि इसने किरातकूट (केराडु) के राजा आसल को मारा. कासहूद (कायद्रां उर्फ काशिद्रा—यह गांव आबु की पूर्व दिशा में सिरोही राज्य में है.) की लडाईं में मुसलमानों को जीत कर नाडोल के इस राजा ने 'जावालपुर' (जालोर) को अपना निवास स्थान बनाया. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि कीतू बड़ा वीर पुरुष हुआ, उस समय में जालोर में कुंतपाल पवार, और सिवाणे (सवियाणा) में वीरनारायण पवार थे. कुंतपाल के प्रधान दहिया राजपूत ने भेद बताने से कीतू ने जालोर लिया और सिवाणा भी लिया. इस विषय में आसीया माला नामक चारण कवि ने (यह कवि सिरोही राज्य के 'खाण' नामक गांव का था.) सिरोही के राजवंश की राजावली के कवित में कहा है कि.

x

x

x

x

x

" जिन्द राव तण कीतू जिमा जै जालोर लीथो जुड; कर त्थुं समो पूजै न कौं त्थैस कूण पूजंत नुड. " ॥ ९ ॥

" सिवियाणो सोनगर जैण एक दिन जीता; वीर नारायण वंस हेवे सासे वदीता. "

“ दहीया वत टंठार मार संग्राम मनोवै; घर सहवरसं कटक पछै नाइल प जावै. ”

“ सूरताण सबल सामहा आपं प्राण अवरजीयो; कीतू कंधार मछरीक कुल गहएव वडे गरजीयो. ” ॥१०॥

× × × × × × ×

सिरोही के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि कीतू वि. सं. १२०४ में गद्दी पर बैठा था. ( पाया जाता है कि इस संवत् में इसको नारलाई पट्टे की जागीर मिली है. ) वि. सं. १२३२ में इसने जालोर का किला बंधवाया. वि. सं. १२३५ में जालोर राजस्थान से इसने बडुआ वजेचंद को सीख ( दक्षिणा ) दी. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि—“ राव कीतू को जलंधरनाथ प्रसन्न हुए. ” जालोर गढ बंधाने के विषयमें निशाणी है कि—

“ बारासै वत्तीसे परठ जालोर प्रमाण; तें कीदि कीतू जिंद राव तणा गढ अडग चहुआण. ”

कीतू के विषय में दंतकथा में यह कहा जाता है कि यह बालक था तबसे नारलाई गांव इसको दिया गया था. किसी ज्योतिषी ने इसके वास्ते राजा होनेका भविष्य कहा था, जिससे इसका घात करने का प्रपंच हुआ, परन्तु एक दासी ने युक्ति से इसको बचा लिया. बाद यह चंद्रावती के परमार राजा की सेवा में उपस्थित हुआ, और उनकी सहायता से ही इसने जालोर व केराडु के राजाओं को मार कर जालोर लिया. शहाबुद्दीन गोरी ( वि. सं. १२३५ में ) गुजरात पर चढाई लाया, तब आबु के परमार राजा धारावर्षा-देव की सहायता में इसने कायंद्रा गांव के पास युद्ध किया, और उसमें यह जखमी होकर भाग गया था. जलंधरनाथ योगी ने इसको पारसमणी दिया था, जिससे सुवर्ण बना कर उसके जरिये से इसने जालोरगढ बंधवाया.

राव कीर्तिपाल का देहान्त वि. सं. १२३५ से वि. सं. १२३९ के दरमियान होना पाया जाता है, बल्कि उपरोक्त कवित्त के आखिर के चरण से ( सूरताण सबल सामहा आपं प्राण अवरजीयो. ) पाया जाता है कि यह मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें ही मारा गया था.

नं. २ समरसिंह के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा है कि इसने कनकाचल ( जालोरगढ ) का कोट बनवाकर उसके बुजों पर नाना प्रकार के लडाई के यंत्र ( शायद तोपें होगी. ) लगवाये. सोमवती अमावस्या के दिन इसने सुवर्ण का तुलादान ( अपना वजन हो जितना सुवर्ण तोल कर दिया जाय उसको सुवर्ण तुलादान कहते हैं. ) किया, और ‘ समरपुर ’ नामक शहर बसाकर उसको बगीचों आदि से सुशोभित बनाया, सि. रा. ई. की पुस्तक में तदुपरांत लिखा गया है कि इसकी बहिन रूदलदेवीने जालोर में दो

+ पारसमणी जालोर के सोनागरा चौहानों के पास होनेकी कथा गीत कवित्त म भी आती है. ‘ वीरमदेव सोनगरा ’ नामकी हस्त लिखित पुस्तक धनारी के जैन आचार्य भटारक श्री विजय महेन्द्र सूरेश्वर के पुस्तक भंडारसे मिली है उसमें लिखा है कि जब कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जालोर के सोनगरा राव कान्हडदेव ने युद्ध किया तब विजय प्राप्ति की आशा न रहेनेसे उसने ‘ पारसमणी ’ को वावडी में डाल दिया. अन्य मत से यह कहा जाता है कि कान्हडदेव को पारसमणी प्राप्त हुईथी.

शिवालय बनवाये, जो गुजरात के राजा दूसरे भीमदेव सोलंकी की राणी लीलादेवी होना चाहिये वैसे उक्त पुस्तक के पृष्ठ १८० की टीप्पणी में अंकित हुआ है। इसके समय के दो शिलालेख जालोर के तोपखाने में लगे हुए जाहिर हुए हैं, जिनका समय वि. सं. १२३९ व वि. सं. १२४२, होना अंकित है।

सिरोही के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने वि. सं. १२४९ में बडुआ फतेचंद को ' गोवड ' गांव और राजगुरु पुरोहित को ' सकराणा ' गांव दिया।

समरसिंह के पुत्रों के विषय में सिवाय सूंधा का शिलालेख के दूसरे प्रमाणों में ' उदयसिंह ' का नाम नहीं है। मूता नेणसी की ख्यात में अरसिंह के बाद उदयसिंह का नाम मिलता है, लेकिन अरसिंह का नाम किसी ख्यात में नहीं है। सिरोही के देवडा चौहानों की ख्यात लिखने वालों ने ' उदयसिंह ' का नाम कतई उडा दिया है, और चाचिगदेव को समरसिंह का पुत्र होना अंकित किया है, वलिक पुरोहित की पुस्तक में चाचिगदेव को समरसिंह का बडा पुत्र होना लिखा है, जो बिलकुल विश्वासपात्र नहीं है। आवु के वि. सं. १३७७ के शिलालेख में समरसिंह का बडा पुत्र मानसिंह और छोटा उदयसिंह होनेका उल्लेख है। अनुमान होता है कि समरसिंह का बडा पुत्र मानसिंह होगा, परन्तु छोटे पुत्र उदयसिंह ने जालोर की गद्दी उससे छीन लेनेसे मानसिंह को ओलाद वालों की ख्यात में द्वेषभाव से उदयसिंह का नाम नहीं लिखा गया है, जैसे कि सूंधा के लेख में मानसिंह का नाम लिखने की परवाह नहीं की है। इसी कारण से वि. सं. १३७७ के आवु के शिलालेख के आधार से वंशवृक्ष में मानसिंह उर्फ माणीजी को इसका बडा पुत्र और उदयसिंह को छोटा पुत्र होना अंकित किया गया है।

⊙ समरसिंह के देहान्त का समय वि. सं. १२४९ के बाद व वि. सं. +१२६२ के पहिले होना पाया जाता है।

\* बडुआ की पुस्तक में समरसिंह का देहान्त वि. सं. १२७० में होने का लिखा है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ठ १८२ पर लिखा है कि उदयसिंह के समय के वि. सं. १२६२ से १३०६ तक के शिलालेख हैं, जिससे बडुआ की पुस्तक में दर्ज हुआ संवत् विश्वास पात्र नहीं रहता है, शायद उदयसिंह ने अपने पिता की हयाती में ही राज्य कब्जे कर लिया हो तो वैसे होना सम्भवित है।

× समरसिंह को व जालोर के दूसरे राजाओं को ' रावळ ' की पदवी होने का कवितों में व मूता नेणसीकी ख्यात में भी उल्लेख है, उससे व इनका राज अमल का समय देखने कभी ऐसा अनुमान किया जाय कि पृथ्वीराज रासा में जो समरसी रावळ को चित्तौड का राजा होना बताया जाता है वह जालोर का राजा समरसिंह हो, क्योंकि इतिहासवेत्ताओं की दृष्टील है कि उस समय में ' समरसी ' नामका राजा नहीं था। वलिक टॉड राजस्थान में लिखा है कि चित्तौड के राजा कर्णसिंह मानसिक दुःख से विदित होनेके कारण अपने ननिहाल जालोर में पडा रहता था, और उसने अपनी पुत्री का विवाह भी जालोर के सोनगरा रणधवल के साथ किया था। जबकि कर्णसिंह का देहान्त हुआ तब सोनगरे सरदारों ने रणधवल को चित्तौडकी गद्दी पर बैठा दिया, जिस पर एक मारने राजा ' रायप ' को उत्तेजित करके चित्तौड कब्जे करने की प्रेरणा करनेसे रायप ने फौज इकट्ठी करके रणधवल पर चढाई की। दोनों सैन्य का ' पानी नगर ' के पास मुकाबला हुआ जिसमें सिसोदिया रायप को विजय प्राप्त हुआ। यह घटना का समय

नं. ३ मानसिंह उर्फ माणीजी की ओलाद वालों ने सिरोही का अलग राज्य प्राप्त करके कायम किया था, जिससे इनकी ख्यात 'देवडा चौहान' के प्रकरणों में लिखी गई है. जो कि सिरोही के बडुआ की पुस्तक में माणीजी का वि. सं. १२७० से १२८५ तक व उनका बडा पुत्र देवराज का वि. सं. १२८५ से १३०७ तक जालोर में होना लिखा गया है, परन्तु उदयसिंह का जालोर में गद्दीपर आनेका समय वि. सं. १२६२ के पहिले का होनेसे मानसिंह व उनके उत्तराधिकारियों की ख्यात सिरोही की ख्यात में लिखना उचित समजा गया है.

नं. ३ रावल उदयसिंह के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा है कि यह जालोर की गद्दी पर आया और बडा ही पराक्रमी राजा हुआ. इसने नाडोल का राज्य अपने राज्य में मिलाकर जालोर को विस्तीर्ण देश का राज्य बनाया. इसके आधीन नाडोल, जालोर, मंडोर, बाहडभेर, सुराचन्द्र, राटहद, रामसेण, श्रीमाल, (भीनमाल) रत्नपुर और सत्यपुर (सांचौर) आदि देश थे. 'ताजुलम आसिर' नामक फारसी तवारीख में लिखा है कि हि. स. ६०७ (वि. सं. १२६७) में 'शम्शुद्दीन अल्तिमश' ने जालोर के किले पर चढाई की और वहां के राजा उदेशाह पर विजय पाकर १०० ऊंट व २० घोडे खिराज में लेकर सुलह कर ली, परन्तु इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'उदयसिंह के समय में (वि. सं. १२९८ में माह सुद ५ को) 'जलालुद्दीन' सुलतान जालोर पर आया लेकिन उसको भागना पडा.' इस विषय में निशाणी का दोहा है कि:-

“ सुंदरसर असुरह दले जलपीयो वेणेह; ऊदे नरपद काढीयो तस नारी नयणेह. ”

सि. रा. ई. की पुस्तक के लेखक की यह राय है कि सूंधा के लेख में लिखा गया है कि उदयसिंह ने तुकों के बादशाह का गर्व गंजन कर दिया. और नेणसी मूता की ख्यात में भी मुसलमानों को भगाना लिखा है. इस बातों के साथ सिर्फ १०० ऊंट व २० घोडे खिराज में लेकर बादशाह का लौट जाना, इन बातों का मुकाबला करके निर्णय करने का काम पाठकों पर हम छोड देते हैं. वस्तुतः मुसलमान बादशाहों का अपने शत्रुओं के साथ के बरताव पर खयाल किया जाय तो यही अनुमान होता है कि बादशाह को सफलता प्राप्त न होने से १०० ऊंट व २० घोडे इधर उधर से छोन कर चले गये होंगे, और अपना विजय दर्शाने के वास्ते खिराज में लाने का प्रसिद्ध किया गया होगा.

वि. सं. १२९७ के पहिले बारह वर्ष पर होनका उक्त पुस्तक में उल्लेख हुआ है. दूसरी छपी हुई ख्यातों में भी जालोर के सोनगरे चौहानों ने वि. सं. की तेरहवीं सदी में चित्तौड कुछ वर्षों तक दबा लिया था, वैसा लिखा गया है, परन्तु सूंधा पहाड के शिलालेख में उम बात कुछ भी जिक्र नहीं हैं. अनुमान हो सक्ता है कि रावल समरसिंह के पास उम समय चित्तौड होनेसे चित्तौड के रावल समरसी के नामसे मशहूर हुए होंगे और चित्तौड का रावल कर्णसिंह जिसका नाम रणसिंह होना मेवाड के इतिहास में प्रसिद्ध है, उससे पृथ्वीराज की बहिन पृथा बिहाई हो, और रणसिंह के बदले उसका नाम समरसिंह 'रासा' में लिखा गया हो.



उदयसिंह साहसिक व बहादुर राजा होनेसे शहाबुद्दीन गोरी ने देहली का 'चौहान राज्य' को नष्ट कर दिया था, जिसका बदला लेनेको मुसलमानों पर हमला शुरू किया, और सिंधुराज को मारा. इसने जालोर में दो शिवालय बनवाये. यह भारत आदि ग्रंथों का ज्ञाता था. इसकी राणी 'प्रल्हादन देवी' से चाचिगदेव व चामुण्डराज नामक दो पुत्र हुए. (सि. रा. इ. पर से.) इसका देहान्त वि. सं. १३०६ से १३१९ के दरमियान होना पाया जाता है.

नं. ४ रावल चाचिगदेव के विषयमें सि. रा. इ. की पुस्तक के पृष्ठ १८३ की टीप्पणी से पाया जाता है कि इसके समय के वि. सं. १३१९ से १३३३ तक के शिलालेख मिले हैं. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि रावल चाचिगदेव ने वि. सं. १३१२ में सूंधा पहाड पर चामुण्डा देवी का मन्दिर बनवाया था. सिरोही के वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि राव चाचिगदेव ने बुआडा (सिरोही राज्य का गांव है.) में 'मात्रा माता' का देवल बंधाया, और सूंधा भाखर (पहाड) में चामुण्डाजी का मन्दिर कराया. इसके सात राणीयां थी जिसमें पाटराणी आबु के परमार उदयसिंह (चंद्रावती का परमार राजा विक्रमसिंह जो पदभ्रष्ट हुआ था, उसका पुत्र था.) की पुत्री 'सरादेवी' थी. इसका देहान्त का समय वि. सं. १३३३ से १३३९ के दरमियान का होना पाया जाता है.

नं. ४ चामुण्ड व नं. ४ चंद्र के नाम सूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध हुए हैं. इनके विषय में दूसरा इतिहास नहीं मिला है.

नं. ५ रावल सामन्तसिंह के समय के वि. सं १३३९ से १३५९ तक के शिलालेख होना सि. रा. इ. की पुस्तक से जाहिर है. इसके पुत्रों के विषय में सूता नेणसी की ख्यात मुआफिक कान्हडदेव व मालदेव ये दो पुत्र होना पाया जाता है, तब देवडा चौहानों को अलग २ ख्यातों से ज्यादा पुत्र होने मालूम होता है. 'कान्हडदे प्रबंध' नामक पुस्तक में भी सूता नेणसी की ख्यात में लिखे हुए नाम अंकित हैं, परन्तु प्राचीन कवितों में ज्यादा नाम मिलते हैं. जो कि सामन्तसिंह के पुत्रों में से सिर्फ मालदेव का वंश चलना पाया गया है, लेकिन यह पुस्तक खास वंशवृक्षों का होनेसे जो जो नाम उपलब्ध हुए हैं वे सब अंकित किये हैं, जिससे इसके आठ पुत्र होना माना गया है.

नं. ६ गजसिंह का नाम सिर्फ खा. व. सुंशी न्यामतअलीखां की ख्यात में मिला है, उससे मालूम होता है कि गजसिंह को हमीर व हदलींग नामक दो पुत्र थे. हदलींग के विषय में कुछ इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु हमीर के वीरम व अजीत नामके पुत्र होना और वे दोनों बादशाह के हाथ से मारे जानेका उक्त ख्यात में उल्लेख किया गया है.

नं. ६ सुन्दर के विषय में मुंशी न्यामतअलीखां की ख्यात में लिखा है कि वह 'चंदल' में मारा गया, और नं. ६ गजसिंह के विषय में लिखा है कि वह भीनमाल में काम आया. पाया जाता है कि ये दोनों सामन्तसिंह की हयाती में ही काम आ चुके थे.

नं. ६ रावल कान्हडदेव अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी से अरसे तक विग्रह चलू रहा. कान्हडदेव के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कहां कहां युद्ध किया, उस विषय में कवि पद्मनाभ ने गुजराती भाषा में वि. सं. १५४५ में 'कान्हडदे प्रबंध' नामक पुस्तक की कविता में रचना की है. जिसका सारांश 'कान्हडदे प्रबंध' नामके अलग प्रकरण में लिखा गया है. जालोर गढ राव कान्हडदेव के हाथसे वि. सं. १३६८ में जाना प्रसिद्ध है. कान्हडदेव के विषय में मूता नेणसी की ख्यात व दूसरे गीत कवित्तों में भी बहुत कुछ कहा गया है, उक्त पुस्तक और दूसरी हरएक प्रति में लिखा गया है कि कान्हडदेव श्रीकृष्ण का दशवां अवतार था, जो जालोर गढ से अलोप हो गया.

कान्हडदेव बड़ा वीर पुरुष था, उसी कारण से वि. सं. १३६८ तक जालोर गढ +इसके कब्जे में रहने पाया था. कान्हडदेव के साथ बादशाह अलाउद्दीन को विरोध होने का यह कारण नेणसी की ख्यात में लिखा है कि गुजरातदेश का प्रधान 'माधव' शाही फौज लेकर गुजरात पर जाता था, उस फौज को अपनी सीमा में से कान्हडदेव ने जाने न दी. और जब शाही फौज गुजरात, सौराष्ट्र आदि देशों को बरबाद करके सोमनाथ महादेव के लींग को उखेड कर देहली ले जा रही थी, तब जबरदस्ती जालोर की सीमा में आनेसे कान्हडदेव ने शाही फौज से युद्ध कर सोमनाथ महादेव के लींग को छुड़ा लिया, जिससे युद्ध की चिणगारी शुरु हो गई, पीछेसे अलाउद्दीन की शाहजादी ने कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के साथ शादी करना चाहा, जिस बात को सोनगरे चौहानों ने मंजुर न की, उस पर शाही फौज ने जालोर गढ पर घेरा डाला, जिसमें बादशाह को सफलता प्राप्त न हुई, परन्तु 'विका दहिया' नामक राजपूत ने लालच वश होकर दूश्मनों को किले में दाखिल किये, जिससे गढ तूटा. उस समय कान्हडदेव अलोप हो गये, और बहुत से सोनगरे चौहानों के साथ देवडा कांधल, उलेचा कांधल, लखमण सोभात, देवडा जेता, वाघेला जेता, लूणकरण, मान लणवाया, अर्जुन विहल, चांदो विहल, जेतपाल, रा. सातल, सोमवद व्यास, सलो राठौर, सलो सेबटो, जांझण भंडारी, गाडण सैहजपाल, वगैरह वडे २ सरदार काम आये, और चार राणीयां सती हुई. इसके विषय में 'कान्हडदे प्रबंध' नामके प्रकरण में सवि-

\* मूता नेणसी की ख्यात से पाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वि. सं. १३५० में मान तंवर से ग्वाडियर, वि. सं. १३५२ में यादवराम से दोलताबाद, वि. सं. १३५३ में काणगेहड्डा के पास से गुजरात, वि. सं. १३५५ में रावल रत्न से चितौड, वि. सं. १३५८ में चौहान हमीरदे से रणधंभोर, वि. सं. १३६४ में चौहान सातल-सोम से निवाणागढ, वि. सं. १३६५ में अजमेर, और वि. सं. १३६८ में चौहान कान्हडदे-वीरमदेव से जालोर का किला लिया.

स्तर इतिहास लिखा गया है. सिसोदियों की ख्यात में मूता नेणसी ने लिखा है कि महाराणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिंह नामक था वह भी इस युद्ध में जालोर काम आया.

नं. ६ वणवीर के विषय में 'वीरमदेव सोनगरा' नामकी पुस्तक से व नेणसी की ख्यात में लिखी हुई दंतकथा की बातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई था, और इसका पुत्र राणकदेव था.

नं. ६ गोकलीनाथ व नं. ६ रुडराव यह दोनों लडाईं में काम आये थे ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा है कि रुडराव उर्फ डुडरावत की ओलाद वाले 'रेवडिया चौहान' हुए हैं.

नं. ६ सालजी के विषय में बडुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में लिखा है कि इसकी ओलाद में 'सांचौरा चौहान' हुए, लेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्यों कि सांचौरा चौहान की शाखा नाडोल के चौहान वंश वृक्ष में नं. ६ विजयसिंह से विभक्त हो चुकी थी, और कान्हडदेव के समय में बादशाह के साथ युद्ध हुआ उसमें सालहा सौभात सांचौरा बड़ी वीरता से युद्ध करके काम आया था. (जिसका अहवाल सांचौरा चौहान के प्रकरण में लिखा है.) पाया जाता है कि यही सालहा सांचौरे को कान्हडदेव का भाई होना कयास से ही लिख दिया है.

नं. ६ मालदेव के विषय में नेणसी की ख्यात और दूसरे प्रमाणों से पाया जाता है कि जालोर के युद्ध में सिर्फ यही बचने पाया था, जिसको पीछेसे बादशाह अलाउद्दीन ने चितौड़ गढ़ दिया. इसकी ज्यादा ख्यात 'दूसरे सोनगरे चौहान' के प्रकरण में लिखी गई है.

नं. ७ वीरमदेव के विषय में सविस्तर अहवाल 'कान्हडदे प्रबंध' नामके दूसरे प्रकरण में लिखा गया है. मूतानेणसी की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव अलोप होजाने बाद तीन दिन तक वीरमदेव ने शाही फौज के साथ प्रचंड युद्ध मचाया. इसको प्रशंसा में 'वीरमदेव सोनगरा' नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई बातें लिखी गई हैं, 'जिसमें इसकी मल्ल विद्या की कुशलता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके साथ शादी करने का निश्चय करना, व बादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको देहली बुलवाकर अपनी शाहजादी से सगाई करने की तजवीज की, जिस पर वरात लेकर आनेके वास्ते तीन वर्ष की मोहोलत लेकर वीरमदेव जालोर आया, लेकिन बादशाह ने बतोर जमानत उसके काका वणवीर के पुत्र राणकदेव को देहली में रखा. जब म्याद गुजर जाने पर भी वीरमदेव वरात लेकर नहीं आया, तब बादशाह ने राणकदेव को बेडी पहनाकर पूरे जाव्ते से रखने का हुकम किया, परन्तु राणकदेव भाग आया, जिससे जालोर पर शाही फौज ने घेरा डाला.' वगैरह बातें लिखी गई हैं. 'कान्हडदे प्रबंध' की पुस्तक में यह बातें नहीं हैं, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालोरगढ़ पर घेरा डाला

गया और साढेतीन दिन युद्ध करके वीरमदेव काम आनेकी बात अंकित की गई है. वीरमदेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहल अडवाल, देवडा अलहण, सोहड अलहड, सोढा धारा, धांधल भाणा, सिंधल पत्ता, व पडियार जांझण नामके बहादुर राजपूत काम आये, और गेहलोत लूढो, मेरो, अरसो, विजयसी, सेलार सांगो, सलूणो, जैसो, लखमण, दहियो लूणो, धुंधलियो साहणी, दहियो पत्तो, विलण सोभत, सेपटो मूलू, लालो, सिंधल नरसिंघ, सिंधल जगसी, व करमसी यह राजपूतों अपनी जान बचाकर युद्ध में से भाग गये.

वीरमदेव की वीरता के विषय में और दूसरी बातें जो जो प्रसिद्धि में आई हैं उनके विषय में इस पुस्तक के लेखक ने ' देवी खड्ग अने चितोड नी पुनः प्राप्ति ' नामक ऐतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषामें वि. सं. १९७१ में प्रसिद्ध किया है. जो कि इसके विषय में उपलब्ध होते प्राचीन हस्त लिखित ग्रंथो में अतिशयोक्तिपन व ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा मालूम होती है, परन्तु प्राचीन विद्वानों और कवियों ने इसके वास्ते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक और क्षत्रीवट के वास्ते मानभरी दृष्टिसे देखना ही पडता है. इसकी हठ के बारे में एक कविने कहा है कि.

“ शीष फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थाळनां मांय, शाहवेगम सत् वाधियो मंगळ धवल गवाय. ”

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक सुवर्ण थाल में रख कर शाहजादी ने जब उसको वरमाल पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ मस्तक उलटा फिर गया, जो सात दिन बाद जब शाहजादीने पूर्व जन्मों की कथा उसको सूनाई तब सूलटा हुआ. लेकिन दूसरा कवि कहता है कि वीरमदेव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहजादी का संह नहीं देखा, बल्कि उसके कटे हुए मस्तकने भी फिटकार देकर उलटा संह कर दिया. इस विषय में कवि कहता है कि—

“समशेर कटाये कटे नह शकीयो, डार न शकिया अहर दुख; फेरतां भञो वीर गुर फरीयो, पंड वीण शीष परार मुख.”

“पैहम पटोलो वीर पूजीयो, देखे कुँवरज मांही दिवांण; आर्णाये पळे हुआ उपराठे सीरताय शोभ वदे मूलतान.”

“ राय कुंवर न रुचे राय जादो, राय प्रवित रीझीयो रुख; वरवा कज उभी शशी वदनी; मख देखे फेरायो मुख.”

“ छवोक छत्तिस पहोरची छेटी, वीर तव्हे तन विसरियो; वढियां पळे भले विरमदे, फोट फोट कही कमल फारीयो.”

“ सोनिगरा कान्हडदे संभ्रम, घट पालट नै मैळघर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश वीखाणे, वॅरतो भली के भलो वर”

“ इंद्र महल वीरमदे आयो, सूर रंभा मानय सुख, सुलतार्णा धी जोयो सामहो, मरीयो ताग, फेरीयो मुख.”

नं. ७ राणकदेव के विषय में 'दूसरे सोनगरे चौहान' के प्रकरण में अहवाल लिखा गया ह.

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने बाद जालोरगढ सोनगरे चौहानों के हाथसे छूट गया. वर्तमान समय में सोनगरे चौहानों की छोटी बडी जागीरें राजपूताना व गुजरात में विद्यमान है.



स्तर इतिहास लिखा गया है. सिसोदियों की ख्यात में मूता नेणसी ने लिखा है कि महाराणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिंह नामक था वह भी इस युद्ध में जालोर काम आया.

नं. ६ वणवीर के विषय में 'वीरमदेव सोनगरा' नामकी पुस्तक से व नेणसी की ख्यात में लिखी हुई दंतकथा की बातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई था, और इसका पुत्र राणकदेव था.

नं. ६ गोकलीनाथ व नं. ६ रुडराव यह दोनों लडाई में काम आये थे ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा है कि रुडराव उर्फ डुडरावत की औलाद वाले 'रेवडिया चौहान' हुए हैं.

नं. ६ सालजी के विषय में बडुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में लिखा है कि इसकी ओलाद में 'सांचौरा चौहान' हुए, लेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्यों कि सांचौरा चौहान की शाखा नाडोल के चौहान वंश वृक्ष में नं. ६ विजयसिंह से विभक्त हो चुकी थी, और कान्हडदेव के समय में बादशाह के साथ युद्ध हुआ उसमें साल्हा सौभात सांचौरा बड़ी वीरता से युद्ध करके काम आया था. (जिसका अहवाल सांचौरा चौहान के प्रकरण में लिखा है.) पाया जाता है कि यही साल्हा सांचौरे को कान्हडदेव का भाई होना कयास से ही लिख दिया है.

नं. ६ सालदेव के विषय में नेणसी की ख्यात और दूसरे प्रमाणों से पाया जाता है कि जालोर के युद्ध में सिर्फ यही बचने पाया था, जिसको पीछेसे बादशाह अलाउद्दीन ने चितौड़ गढ़ दिया. इसकी ज्यादा ख्यात 'दूसरे सोनगरे चौहान' के प्रकरण में लिखी गई है.

नं. ७ वीरमदेव के विषय में सविस्तर अहवाल 'कान्हडदे प्रबंध' नामके दूसरे प्रकरण में लिखा गया है. मूतानेणसी की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव अलोप होजाने बाद तीन दिन तक वीरमदेव ने शाही फौज के साथ प्रचंड युद्ध मचाया. इसको प्रशंसा में 'वीरमदेव सोनगरा' नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई बातें लिखी गई हैं, 'जिसमें इसकी मल्ल विद्या की कुशलता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके साथ शादी करने का निश्चय करना, व बादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको देहली बुलवाकर अपनी शाहजादी से सगाई करने की तजवीज की, जिस पर बरात लेकर आनेके वास्ते तीन वर्ष की मोहोलत लेकर वीरमदेव जालोर आया, लेकिन बादशाह ने बतोर जमानत उसके काका वणवीर के पुत्र राणकदेव को देहली में रखा. जब म्याद गुजर जाने पर भी वीरमदेव बरात लेकर नहीं आया, तब बादशाह ने राणकदेव को बेडी पहनाकर पूरे जावते से रखने का हुकम किया, परन्तु राणकदेव भाग आया, जिससे जालोर पर शाही फौज ने घेरा डाला.' वगैरह बातें लिखी गई हैं. 'कान्हडदे प्रबंध' की पुस्तक में यह बातें नहीं हैं, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालोरगढ़ पर घेरा डाला

गया और साढेतीन दिन युद्ध करके वीरमदेव काम आनेकी बात अंकित की गई है. वीरमदेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहल अडवाल, देवडा अलहण, सोहड अलहड, सोढा धारा, धांधल भाणा, सिंधल पत्ता, व पडियार जांझण नामके बहादुर राजपूत काम आये, और गेहलोत लूढो, मेरो, अरसो, विजयसो, सेलार सांगो, सलूणो, जैसो, लखमण, दहियो लूणो, धुंधलियो साहणी, दहियो पत्तो, विलण सोभत, सेपटो मूलू, लालो, सिंधल नरसिंघ, सिंधल जगसो, व करमसी यह राजपूतों अपनी जान बचाकर युद्ध में से भाग गये.

वीरमदेव की वीरता के विषय में और दूसरी बातें जो जो प्रसिद्धि में आई हैं उनके विषय में इस पुस्तक के लेखक ने ' देवी खड्ग अने चितोड नी पुनः प्राप्ति ' नामक ऐतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषामें वि. सं. १९७१ में प्रसिद्ध किया है. जो कि इसके विषय में उपलब्ध होते प्राचीन हस्त लिखित ग्रंथों में अतिशयोक्तिपन व ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा मालूम होती है, परन्तु प्राचीन विद्वानों और कवियों ने इसके वास्ते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक और क्षत्रीवट के वास्ते मानभरी दृष्टिसे देखना ही पडता है. इसकी हठ के बारे में एक कविने कहा है कि.

“ शीष फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थाळनां मांय, शाहवेगम सत् वाधियो मंगळ धवल गदाय. ”

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक सुवर्ण थाल में रख कर शाहजादी ने जब उसको वरसाल पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ मस्तक उलटा फिर गया, जो सात दिन बाद जब शाहजादी ने पूर्व जन्मों की कथा उसको सुनाई तब सूलटा हुआ. लेकिन दूसरा कवि कहता है कि वीरमदेव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहजादी का संह नहीं देखा, बल्कि उसके कटे हुए मस्तकने भी फिटकार देकर उलटा संह कर दिया. इस विषय में कवि कहता है कि—

“समशेर कटाये कटे नह शकीयो, डार न शकिया अहर दुख; फेरतां भलो वीर गुर फरीयो, पंड वीण शीष परार मुख.”

“पैहम पटोलो वीर पूजीयो, देखे कुंवरज मांही दिवांण; आणाये पळे हुओ उपराठे सीरताय गोभ वदे मूलतान.”

“ राय कुंवर न रुचे राय जादो, राय प्रवित रीझीयो रुख; वरवा कज उभी शशी वदनी; मख देखे फरायो मुख.”

“ छचोक छत्तिस पहोरची छेटी, वीर तव्हे तन विसरियो; वढियां पळे भले विरमदे, फोट फोट कही कमल फारीयो.”

“ सोनिगरा कान्हडदे संभ्रम, घट पालट नै मैछपर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश वीखाणे, वैरतो भली के भलो वर”

“ इंद्र महल वीरमदे आयो, सूर रंभा मानय मुख, सुलतार्गा धी जोयो सापहो, मरीयो ताग, फेरीयो मुख.”

.नं. ७ राणकदेव के विषय में 'दूसरे सोनगरे चौहान' के प्रकरण में अहवाल लिखा गया ह.

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने बाद जालोरगढ सोनगरे चौहानों के हाथसे छूट गया. वर्तमान समय में सोनगरे चौहानों की छोटी बडी जागीरें राजपूताना व गुजरात में विद्यमान है.



## प्रकरण २१ वाँ.

### ‘ कान्हडदे प्रबंध. ’

जालोर के राव कान्हडदेव व वीरमदेव के विषय में राजपुताना के प्रदेश में बहुतसी दंत कथा व हस्त लिखित गद्यपद्य की प्रतिभां प्राप्त होती है, परन्तु ‘ कान्हडदे प्रबंध ’ की पुस्तक ( जिसका अनुवाद गुजराती भाषा में श्रीयूत डाह्याभाई पीतांबरदास देराशरी चार-एट-लॉ. अहमदाबाद निवासी ने किया है. ) देखने से पाया गया कि, उसमें से राव कान्हडदेव का जितना इतिहास मिल सकता है उतना और पुस्तकों में नहीं है. बल्कि इस पुस्तक का जितना महत्त्व ‘ पुरानी गुजराती भाषा ’ के वास्ते गिना जा रहा है, उन्में ज्यादाह महत्त्व इसके इतिहास में है. इसी कारण से कवि पद्मनाभ का यह ऐतिहासिक काव्य के वास्ते एक खास प्रकरण इस ग्रंथ में रखना उचित समजा गया है.

यह पुस्तक विशनगरा नागर ब्राह्मण कवी पद्मनाभ ने अखेराज सोनगरा की आज्ञा से काव्य में रचा है, पुस्तक की रचना के वास्ते, चौथे खंड की चोपाई अंक ३३६ व ३३७ में लिखता है कि

“ अखेराज आज्ञा अनुसरी, किर्ति पद्मनाभे विस्तरी; सुगतां सांख शरीर उलहसे, चोपाई बंध ऐसी सातसें. ”  
“ पिस्तालीसो पुठ वरीश, मास मागसर पुनम दीस, संवत पंदरसें ने वार, विस्तारी दिने सोमवार. ”

इससे पायाजाता है कि अखेराज सोनगरा जो पालीनगर का जागीरदार था, उसने अपने बडाउओं की तारिफ में वि. सं. १५४५ में जालोरगढ में काव्य रचना कराई है. उपरोक्त चोपाई से ऐसा भी मालूम होता है कि “ संवत पंदरसें ने वार ” यानो वि. सं. १५१२ हो, परन्तु वैसा नहीं है, क्योंकि अखेराज सोनगरा का देहान्त वि. सं. १६०० में हुआ था. जिससे वि. सं. १५१२ में शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, अगर जन्म हुआ भी हो तब भी काव्य रचना कराने जितनी उम्र उस समय तक में होना असम्भवित है, बल्कि “ पिस्तालीसो पुठवरीश. ” का मायना ‘ पीस्तालीसो ’ ( ४५ ) वता ते है, और वह ठीक है.

अखेराज सोनगरा का राव कान्हडदेव के साथ क्या सम्बन्ध था, उस विषय में मूतानेणसी की ख्यात से मालूम होता है कि कान्हडदेव के भाई मालदेव की ओलाद में क्रमशः २ वणवीर, ३ राणकदेव, ४ लोला, ५ सता, ६ रणधीर व उसका पुत्र ७ अखेराज था, परन्तु कान्हडदे प्रबंध की पुस्तक ( चौथा खंड की चोपाई अंक ३२८-३२९-३३० ) में लिखा है कि-

“ कान्ह तणो उत्तम अवतार, कलिपां खट दर्शन दातार, ते वंशे वीरमदे नंद मेगलदे थयो आनंद. ”

“ सोनगिरा कूल साहसी घणो, अंबुराज मेगलदे तणो, पन्ननाभ कवि बोले एम, खेतपी अंबु केरो तेम. ”

“ लक्ष्मी वंत खेतसी तणो, अखय राज सोनगिरो गणो, ब्राह्मण कने कराव्या जाग, सवालाख दीधा छे ताग. ”

इससे यह पाया जाता है कि कान्हडदेव से क्रमशः २ वीरमदेव, ३ मेगलदेव, (शायद यही मालदेव की जगह हो तो ताज्जुब नहीं) ४ अंबुराज, ५ खेतसिंह व उसके पीछे ६ अखयराज हुआ है.

राव कान्हडदेव वि. सं. १३५९ बाद गद्दी पर आये, और वि. सं. १३६८ में उसका देहान्त हुआ, यह बात निर्विवाद है. कान्हडदे प्रबंध, में इसकी गद्दी नशिनी का संवत् नहीं दिया गया है, वैसे इसके भाई भत्तीजों में सिर्फ मालदेव व सांतल का नाम अंकित है. जिसमें सांतल जो ‘सवियाणे’ रहता था वह कान्हडदेव का भत्तिजा होना लिखा है. इस पुस्तकमें जो जो नाम उपलब्ध होते हैं वह ओर साहित्यों के साथ मिलान करने से मिलते हैं, जिससे पाया जाता है कि कवि ने कल्पित नाम व कल्पित इतिहास के काव्य नहीं रचते ऐतिहासिक तत्त्व के पाया पर ग्रंथ रचना की है, ओर चार खंडों में चार अलग २ प्रसंग बता कर सोनगरे चौहानों की अच्छी सेवा बजाई है.

पहिले खंड में अलाउद्दीन बाहशाह अणहिल पट्टन के उपर गुजरात के मंत्री माधव की प्रेरणा से जाना चाहता था, उसको कान्हडदेव ने अपनी सीमा में होकर जाने की मनाई की. जिससे रावल समरसी की सीमा में (मेवाड में) होकर शाही फौज गुजरात पर गई, उसने गुजरात, सौराष्ट्र आदि देश जीतकर सोरठी सोमनाथ का लींग उखेड लिया, और सौराष्ट्र व गुजरात में से बहुत से केदी गिरफ्तार करके सोमनाथ के लींग के साथ वापिस लौटते समय रास्ते में कान्हडदेव को सजा देनेके लिये शाही फौज ने जालोर की हदमें मुकाम किया. कान्हडदेव को यह समाचार मालूम होने पर उसने, १ व्यास सोमचंद्र, २ जयतदेवडा, ३ सेवडा लक्ष्मण, ४ लूणकरण, ५ सांचौरा साल्ह, सोभ्रंत (देखो सांचौरा चौहान वंशवृक्ष में नं. ४ व नं. ३ वाले.) ६ लक्ष्मण रावत, आदि सत्ताईस सरदारों को शाही छावणी में तपास करने को भेजे, उन्होंने बादशाह के अत्याचार की राव कान्हडदेव को खबर देने पर कान्हडदेव ने कहा कि जब तक सोमैया महादेव के साथ सोरठिया व गुजराती केदीओं को मुक्त नहीं कर सकुं वहां तक अन्न प्राशन नहीं करूंगा, ऐसी सख्त प्रतिज्ञा करके जयत देवडा की सरदारी से उनपर फौज भेजी.

जयत देवडा ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें शाही फौज का पराजय हुआ. शाही फौज का सरदार अलेफखान भाग गया, मलिक उमर मारा गया, सादल और सिंह (इसका नाम सिंह पातला था.) गिरफ्तार हुए, और सोमैया महादेव के लींगों के साथ, बादशाह के केदी व फौज का माल असवाब लेकर जयत देवडा,



कान्हडदेव के पास आया, राव कान्हडदेव ने, सब केदीओं को मालमता देकर अपने २ वतन को भेज दिये, और महादेव का एक लींग सौराष्ट्र में, दूसरा वागडमें, तिसरा आवु पहाडपर, चौथा जावालीपुर में, व पांचवा, अपनी वाडी में स्थापन कराया.

सूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि बादशाह ने सोमैया महादेव का लींग आले चमडे में लपेट कर देहली लेजाना चाहा था, जिससे कितनेक हिन्दु केदीओं को साथ रखकर वह लींग ले जा रहा था, रास्ते में जालोर से नौ कोस दूर 'सकराणा' गांव में डेरा किया, यह खबर कान्हडदेव को होने पर उसने अपना प्रधान कांधल आलेचा को दूसरे चार सरदारों के साथ बादशाह को यह कहलाने को भेजे कि आपने हिन्दुओं को मारवांध कर सोमैया लींग के साथ मेरी हदमें मेरे गढ के नजदीक सुकाम किया यह अच्छा नहीं है.

कांधल आलेचा बादशाह के वजीर सिंहपातला को मिला, और कान्हडदेव का समाचार बादशाह को पहुंचाने की गरज से सिंहपातला को सूनाया. सिंहपातला ने वह समाचार बादशाह को निवेदन कर के कहा कि, कांधल देखने जैसा राजपूत है, जिससे बादशाह ने उसको अपने पास ले आनेका हुकम दिया. मगर सिंहपातला ने अर्ज किया कि कांधल वहादुर राजपूत है, वह कान्हडदेव के सिवाय अन्य किसी को जुहार नहीं करता है ऐसा न हो कि कुछ खूनरेजी हो जाय, जिस पर बादशाह ने दरगुजर करनेका वचन देनेसे सिंहपातला उसको ले आया, कांधल को देख कर बादशाह ने कहा कि हमारा यह नियम है कि रास्ता के बीचमें जो गढ आवे, उसको लिये बगैर आगे नहीं बढना, तब भी कान्हडदेव के साथ दोस्ताना होनेसे हम अपने रास्ते २ जा रहे हैं, उसमें भी कान्हडदेव ऐसा कहलाते है तो अब हम जालोर छिन कर आगे बढेंगे.

कांधल शाहीदरवार में विद्यमान था, तब बादशाह ने अपना सामर्थ्य दिखलाने के वास्ते तीरंदाजों को हुकम किया कि देखो वह 'सांवली' ( चील ) फौज के उपर गीरना चाहती है उसको तीरों से रोक दो, यह सूनकर तीरंदाजों ने तीर चलाने शुरू किये. कांधल समजा कि यह मेरेको दिखलाया जा रहा है, जिस पर उसने 'सादूला' नामका बडा भारी भैंसा (जिसके सींग पूछ तक पहुंचे थे और पांणी की पखाल भरी हुई उसपर लदी थी) जो वहां खडा था, उस पर अपनी तलवार चलाई. कांधल की तलवार के एक झटके से सींग समेत पाडा कट गया, ओर तलवार जमीन में जा बैठी, उस रक्त को देख कर 'सांवली' उस पर आई. और पखाल का पांणी रक्त के साथ बहने लगा जिसमें वह बह गई. इस विषय में पद्मनाभ कवि अपने काव्य मे लिखता है कि—

“ खाने सान करीके मुगले पणछे परठी तीर; ताणी गगने पंखिणी विंधी, न्याले मोटा मीर. ”

“ लखण राज तें एकज घा ये खांडे सहीत म्याने; पाडो रेंशी कीध वे कडका, वखाण करियां खाने. ”

“ पूछे खान कान्हड घर केटला त्दारा जेवा शूरा ? सुणो लखण कहे पूछो छो तो छे चोवीसें पूरा. ”

इससे पाया जाता है कि ‘ लक्ष्मण ’ ने शाही फौज में भैंसा मारने का पराक्रम दिखाया था, और उस फौज में बादशाह विमान नहीं था ‘मगर अलुखान’ (अल्फ़खान) था यह लक्ष्मण राऊत ( राव का पुत्र ) राव बीजड ( देखो देवडा चौहान वंशवृक्ष मं. २ वाला ) का पुत्र था.

‘ सांवली ’ जमीन पर गिरने से तीरंदाजों को नीचा मुंह करना पडा, और उन्होंने कांधल के उपर तीर चलाना चाहा, तब सिंहपातला ने त्रिचमें आकर रोका, पीछे कांधल सोमैया महादेव के लींग के पास आया, ओर कहा कि जल तो पीना होगा लेकिन जबतक महादेव के लींग बादशाह के हाथसे न छोडाऊं वहांतक अन्नप्राशन नहीं करूंगा, यह बात शाही फौज के सरदार ‘ ममुसाह ’ व ‘ सीरगाभरू ’ ने सूनी वे दोनों भाई थे, और पचीस हजार घोडों के सरदार थे, बादशाह ने उनका अपमान किया था. जिससे वे दोनों कांधल को मिले. अपमान करने के विषय में ख्यात में लिखा है कि “ हरभरी खुट कनै मुरगा ब्यांपगां उठाणा सा तीजै भाईनुं आ पडीयो थो सो. आ घणो वात छे.” इन दोनों भाईओं ने कांधल को सहायता देनेका कहा.

कांधलने यह सब समाचार रावल कान्हडदेव को विदीत करने पर सोनगरों की फौज शाह के सामने आई. एक तरफ से ममुसाह व सीरगाभरू ने हमला किया, और दूसरी तरफ से राजपूतो ने युद्ध शुरू किया, बादशाह भाग निकला, और कान्हडदेव ने अपनी पीठ पर सोमैया का लींग उठाकर ‘ सकराणा गाँव ’ में स्थापन किया. दोनों मुसलमान सरदार कान्हडदेव के पास रहे, मगर उनके पास ‘ धारू पात्रीयां ’ ( वेइया ) थी, वह सांगी गई. जिससे वे रणथंभोर के हमीर हठीला पास चले गये, बादशाह ने ‘ हमीर हठीला ’ को इन दोनों को अपने पाससे नीकाल देनेका कहलाया, लेकिन शरणागत के विरद के वास्ते उसने नहीं माना, इसी कारण से रणथंभोर का युद्ध वि. सं. १३५८ में हुआ और रणथंभोर चौहानों के हाथ से छूट गया.

मूतानेणसी की ख्यात व कान्हडदे प्रबंध की पुस्तकों से पाया जाता है कि यह युद्ध वि. सं. १३५३ बाद व वि. सं. १३५८ पहिले हुआ था. इससे यह भी पाया जाता है कि उस समय में जालोर की गद्दी पर राव सामन्तसिंह था, और कान्हडदेव युवराज पद पर होगा, क्यों कि सामन्तसिंह के समय का वि. सं. १३५९ का शिलालेख मिलता है.

कान्हडदे प्रबंध के दूसरे खंड में अलाउद्दीन बादशाह ने सवियाणा का किला लेने के वास्ते तीन दफे फौज भेजी, उसका वर्णन कवि ने किया है. मूतानेणसी की ख्यात से इतनाही मालूम होता है कि वि. सं. १३६४ में सिवाणागढ बादशाह अलाउद्दीन ने लिया, और चौहान सातल, व सोम, काम आये.

सवियाणा के युद्ध के विषय में कवि पद्मनाभ अपने काव्य में लिखते हैं कि सोमैया महादेव का लींग, कान्हडदेव ने छूड़ा लेनेसे, बादशाह 'अलुखान' पर नाखूश हुआ और मलिक 'नाहरखान' को बड़ी फौज के साथ, जालोर पर भेजा. नाहरखान ने सवियाणा पर हमला किया, उस समय वहां का थाणेदार 'सांतल' था, उसने युद्ध करके शाही फौज को हराई, और नाहरखान भाग गया. जिस पर बादशाह ने दूसरी फौज सवियाणा पर भेजी, जिसने गढ पर घेरा डाला, यह खबर सूनकर कान्हडदेव खुद सांतल की सहायता करने के वास्ते सवियाणे गया. दोनों सैन्य का मुकाबला हुआ जिसमें मलिक नाहरखान और 'ओजला' नामक शाही सरदार मारे गये, और फौज भाग गई, कान्हडदेव की फौज में 'सपराण सिंघल' काम आया.

दो दफे शाही फौज का पराजय होने से बादशाह ने मलिक खानजहान, मलिक कमालुद्दीन, मलिक अमादल व मलिक नेव ( नवीवक्ष ) यह चारों सरदारों को बुलाकर कहा कि, मैंने हिन्दुस्तान के सब बड़े २ किले फतह किये. काश्मीर से समुद्रद्वार पर्यंत जोर तल्वी वसुल लेता हूं. खुरासान्, जीत लिया और चीन, भूतान, दंडुर, आदि देशों से नजराने आते हैं, देवगीरी के राजा रामदेव ने मेरे को अपनी बेटी ब्याह दी, सिंहल-द्वीप का राजा हाथी की भेट देता है, ऊच ( कच्छ होना चाहिये ) कलहथ, जावा-वंदर, व होरमज ( इरान का वंदर ) वगैरह जगह से खिराज आती है, लेकिन जालोर में दो च्यार दफे हार हुई, जिससे बड़ी लज्जा आती है, सो अब जालोर पर चढाई की जाय, कहां तो सोनगिरी जीत लेवे या तो हथियार त्याज कर दिये जाय.

बादशाह ने ऐसी प्रतिज्ञा करके गुजरात के सूबा को भी बुलालिया और बड़ी फौज का जमाव करके खुद चला, कवि ने शाही फौज की कूच का इन्तजाम बहुत कुशलता व विस्तार से वर्णन किया है, परन्तु स्थल के संकोच के कारण यहां इतनाही लिखना योग्य है कि वह अपनी सम्पूर्ण सामग्री के साथ मारवाड में आया. और सवियाणा गढ पर घेरा डाला. सांतल सोनगरा ने गढ के कोट पर यंत्र चढाकर युद्ध करना शुरू किया, सात वर्ष तक यह घेरा पडा रहा. सवियाणा गढ में अन्नादिक सामग्री घट जाने जैसा नहीं था, ओर गढ की रचना अच्छी होनेके कारण राजपूत लोग निर्भय होकर युद्ध करते थे और खेफिकर रहते थे, कवि लिखता है कि, जब कोई प्रकार से बादशाह को सवियाणा गढ जीतने की उम्मेद न रही, तब किले के तलाव में, गौमांस डलवाने का प्रपंच किया. गौरक्त वाला पांणी देखकर हिन्दुओं ने वह जल अपवित्र होना मानकर

\* कविने इम जगह एक रघुजी किस्सा लिखा है कि राजपूत लोग किले पर नाटारंग कर रहे थे; वह देख कर बादशाह ने कहा कि यह जलसा कोई तीरंदाज भंग करे उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, जिस पर मलिक अमादल का पुत्र 'हवाखुमीर' ने तीर चलाया जो सोदी राणी को लगा. जिससे रंगमें भंग हो गया. उस पर सांतल के राजपूतों मेंसे 'रामसिंह' नामका राजपूत ने शाहीफौज पर तीर चलाया जिससे हवाखुमीर मारा गया, और बादशाह का तख्त टूट पडा व बादशाह उठ कर भागा.

पीने के काम में न लाया. पानी न होने से सांतल ने केशरियां करने का निश्चय किया. राजपूताणीओं ने झमर खड़का और सांतल की राणी ‘नारिंगदे व प्रेमादे’ ने अग्नि प्रवेश किया. दूसरे दिन सांतल ने गढ के दरवज्जे खोल कर केशरियां किया. तीन पहर तक युद्ध करके सांतल काम आया.

सांतल के शाखा के विषय में कवि ने दंतकथानुसार वर्णन किया है कि सांतल ने अपनी इष्ट देवी आशापुरी का ध्यान करने पर देवी ने दर्शन दिये और सांतल को देवी, उस बादशाह पास ले गई, बादशाह उस समय निद्रावश था. सांतल ने देखा तो बादशाह रूद्ररूप में नजर आया. सदाशिव के जैसा पंचमुख, त्रिनेत्र, आदि देख कर सांतल ने उसको प्रणाम किया, और उसी कारण से उसको मार डालने की तजवीज नहीं करते बादशाह का ‘गुर्ज’ पडा था, वह लेकर सांतल किले पर आया. जब कि तलाव का पानी अपवित्र हो गया, और शाखा करने का समय आ पहुंचा, तब उसने वह ‘गुर्ज’ बादशाह के पास भेजकर कहलाया कि हमारी भलाई देखो, अगर मैं चाहता तो तुमको मार देता, जिस पर बादशाह ने सांतल को कहलाया, कि अगर हमारे साथ दोस्ताना रखो तो मैं गुजरात का प्रदेश तुम्हें दूंगा, लेकिन सांतल ने इनकार किया.

कान्हडदेव प्रबंध के तीसरे खंड में, अलाउद्दीन बादशाह के साथ बाहडमेर, भीनमाल, ओर जालोर में युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है, जिसके वास्ते कवि पद्मनाम अपने काव्यग्रंथ में लिखता है कि सवियाणा का किला लेने बाद बादशाह ने अपने वजीर को जालोर भेजकर कान्हडदेव को कहलाया कि जैसे सवियाणा गढ लिया गया उसी मुआफिक जालोर भी लिया जायगा. बहतर है कि, जो युद्ध में हारते नहीं हैं वैसे के साथ हठ नहीं करना चाहिये और मेलझोल रखना चाहिये जिसका प्रत्युत्तर कास्हडदेव ने दिया कि—

“ सुलतानी दल दब्धुं सांतले, रखड्या सात वरस गढ तळे; पादशाहनी एवडी आय, पल वावर्धुं सहस्र पळ मांय. ” ९

“ सरवर जळ पीधुं पोपटे, कही केडलुं तेथी घटे ? कान्ह वचन बोले ए विधे, शो पुरुषार्थ सवियाणुं लिधे. ” १०

“ जो सागर बडवानल समे, तो कान्हड तुरको ने नमे ? शानो गर्व तमे मन धरो, वरसे सात लीधो टेकरो. ”

तात्पर्य यह हुआ कि कान्हडदेव ने शाही वजीर की कुच्छ भी दरकार न की, जिस पर बादशाह ने बाहडमेर पर हमला करके उसको वरबाद किया, ओर भीनमाल पर

+ कविने सांतल के विषय में लिखा है कि अलाउद्दीन ने सांतल को लालच बताई कि तुं मेरे पक्ष में आजाय तो गुजरात का प्रदेश तुझे देदूं. जिसका जुवाब सांतलने दिया कि —“ तजुप्राण, पण न तजु मान; लाजे शाख भली चौहान ” सांतल का यह प्रत्युत्तर और कविके कथन में यदकिंचित् अनिश्चोक्ति नहीं है, चौहानों के इतिहास के तत्वमार जगह २ यही कथन की पुष्टि कर रहा है यदि चौहान राजपूतों ने स्वमान की तात्र महत्वाकांक्षा और नेकटेक रखने के वास्ते जातिय स्वभाव न होता, तो वर्तमान समयमें जो सिर्फ सात रियासतें छोटी २ रहन पाई हैं, उस जगह उनकी वीरता के कारण बहुत सी बडी २ रियासतें रहने पाती.

आक्रमण करना चाहा. भीनमाल में ब्राह्मणों का निवास होनेसे उनकी रक्षा के वास्ते कान्हडदेव ने देवडा महीप व जयत की सरदारी में बड़े २ वीर राजपूतों को भेजे, शाही फौज में से १ मलिक हाजी, २ मलिक मौताज, ३ मलिक शाहबाज, ४ मलिक बुवन, ५ मलिक कवीर, ६ मलिक अबु, ७ मलिक रसीद, व ८ मलिक फरीद नाम के आठ बड़े सरदारों ने भीनमाल पर हमला करने से, दोनों फौजों का मुकाबिला होतेही युद्धने उग्र रूप धारण किया. इस युद्ध में शाही फौज के आठों सरदार काम आये, और फौज भाग जानेसे राजपूतों ने शाही फौज के हथियार, घोड़े, आदि माल असबाब लूट लिया.

युद्ध बंध होजाने पर देवडा महीप और जयत दोनों फौज को भीनमाल छोडकर जालोर को चले गये, और विजय प्राप्त करने का समाचार राव कान्हडदेव को विदित किया.

राजपूत सैन्य भीनमाल में पडा था, और उस रोज अमावस्या होनेसे सेवटा लक्ष्मण व सांचौरा सालहा शोभावत दोनों ने तलाव के किनारे अपने अश्व खडे रख कर व दूसरे कितनेक राजपूतों ने तलाव में स्नान करना शुरू किया, यह बात शाही फौज के सरदार मलिक नेव (नवीबख्श) को मालूम हो जानेसे उसने तीस हाथी व छत्तीस हजार घोडों से आकर तलाव पर घेरा डाला, और जो जो राजपूत सुभट स्नान कर रहे थे उन पर तीरों का मारा चलाया, जिससे वह बहुत ही जखिम होने लगे, राजपूतों तीरों का मार खाते खाते खुल्ले बदन किनारे पर पहुंचे, वहां पर भाले तलवार आदि शस्त्रों के उन पर प्रहार होने लगे. इतना मार पडने पर भी कितनेक राजपूत खुल्ले बदन घोडों पर सवार हुए और युद्ध किया. इस युद्ध में अजयसी सोलहण, और सालहा शोभावत ने कइ एक घाव लगने पर भी दुश्मनों के साथ युद्ध करके काम आये. लक्ष्मण सेवटा ने ईकोस हमले करके ऐसी वीरता दिखला कर काम आया कि दुश्मन ने उसके रक्त का अपने ललाट पर टीका करके उसकी बहादुरी की प्रशंसा की इस विषय में कवि कहता है कि.

“ मलिके लोही लख्खणा तणु, अर्ची ललाट कर्षु बंदणु, कीधी वळी प्रशंसा घणी, धन्य धन्य माडी तुज तणी. ” १०५

“ रण रजपुत वट लखणा जसी, हिंदु तुरकमां संभवी नथी, समरांगण सामा जे मरे, सह सूर तेने बंदन करे. ” १०६

इस युद्ध में चार हजार राजपूत काम आये, और एक भी वचने नहीं पाया. जबकि भीनमाल से राजपूतों की फौज वापिस नहीं लौटी तब कान्हडदेव ने पूछा की जीत हुई और फौज क्यों न आई ? जिभपर व्यास ने कहा कि होनहार मिथ्या नहीं होता है.

दूसरी तरफ महीप देवडा की पुत्री ने अपने पिता को कहा कि आप मार के डर से भाग कर आये हो, जीतकर नहीं आये. यह सूनते ही महीप देवडा लजाशील होकर शाही फौज पर गया. और दोसौ सिपाईओं के साथ मलिक सरूप को मारकर खुद भी अपने पचास सैनिकों के साथ काम आया, तात्पर्य यह है कि, बादशाह ने भीनमाल में फतह पाई और जालोर तरफ प्रयाण किया.

जालोर तरफ शाही फौज चली उस समय बादशाह की शाहजादी सीताई ने बादशाह को नमन करके अर्ज गुजारी कि मैं पूर्व जन्म की कथा जानती हूं, जिससे कहती हूं कि आदि पुरुष परमात्मा ने नौ अवतार धारण करके असुरों का संहार किया था, उसी देवता ने यह दशवीं दफे चौहान कुल में कान्हडदेव के नामसे अवतार लिया है. सो आप मारे जावेंगे, लेकिन बादशाह ने वह बात नहीं मानी और प्रयाण चलू रखा, सीताई ने फिर बादशाह को कहा कि मेरी इच्छा कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के साथ शादी करने की है, बादशाह ने कहा कि हिन्दु व तूरक का व्याह नहीं हो सक्ता है, किसी शाहजादा से तेरी शादी कर दूं गा. उसपर शाहजादी ने हठ करके वीरमदेव से शादी करने की प्रतिज्ञा की इस विषय में कवि कहता है कि.

“ तूरक कोई परण्यो नव लहु, भले तात कुंवारी रहुं; कहे कुंवरी वीरमदे वरुं, तात निकर हुं निश्रे मरु. ”

बादशाह ने शाहजादी की हठ देखकर उसकी इच्छा पूरण करने के वास्ते, ‘गोलहणसा’ नामके आठ को कान्हडदेव के पास भेजा, गोलहणसाने, वीरमदेव कुमार के साथ, शाहजादी की शादी करने का प्रस्ताव कान्हडदेव को सुनाकर उसके साथ गुजरात का प्रदेश भी देनेका कहा, लेकिन सोनगरों ने इनकार किया, जिसपर बादशाह शाही फौज के साथ जालोर पर आया, सात दिन तक युद्ध हुआ, जिस में शाही फौज को नुकसान पहुंचने से बादशाह ने देहली जाने को कूच की शाही फौज ने कूच कर के गढ़ी में मुकाम किया, वहां राव कान्हडदेव की आज्ञा से, १ मालदेव, २ कुमार वीरमदेव, ३ आनंद सिसोदीया, ४ जयत वाघेला, ५ जयत देवडा, ६ दानकरण मालहण, ७ देवडा सोभीत, व ८ सहजपाल, यह आठ सरदारों ने बादशाह के जमाई समशेरखान के उपर आक्रमण किया, जिसमें शाही फौज के तीन हजार सैनिक मारे गये, और समशेरखान व उसकी बीबी ( बादशाह की शाहजादी ) को पकडकर जालोर ले आये. जबकि अलाउद्दीन को यह खबर पहुंची तब शाहजाद सीताई ने कहा कि मैं अपनी वहिन और वहिनोई को जालोर से छूडा लाऊंगी, जिसपर बादशाह ने उसको भेजी, सीताई ने कान्हडदेव से मिलकर, मलिक शार्दूल, सिंहपातला, समशेरखान, व अपनी वहिन, को छुडाए, इस शर्त पर कि आयंदा शाही फौज किसी देवल को न तोडे और गौ ब्राह्मण और प्रजा को जालोर की हद में तकलिफ न देवे.

चौथे खंड में कवि ने जालोरगढ पतन होने की कथा का खूबसूरती के साथ वर्णन किया है, जिसका सारांश यह है कि, शाहजादी अपनी वहिन व वहनोई आदि को छूडवाकर बादशाह को रास्ते में जा मिली, जिस पर बादशाह ने जालोरगढ की रचनाका हाल दरियाफत करने पर शाहजादी ने उसका वर्णन किया. जालोर की तागीफ सूनने पर उस गढ को लेनेकी तीव्र अभिलाषा बादशाह को हुई, ओर देहली पहुंच कर मलिक

कमालुद्दीन, सिंहपातला, मलिक सादल, मलिक अमादल, मलिक नयामद्दीन, मलिक नेव, मलिक बहाद्दीन वगैरह सरदारों को बड़ी फौज के साथ, जालोर पर भेजे. उन्होंने जगह २ सोनगरे चौहानों से युद्ध किया, लेकिन सफलता न हुई जिससे बादशाह ने खानजहान बजीर को भेजा, शाही फौज ने जालोर पर आक्रमण किया, जिसमें मलिक नयामद्दीन, कान्ह उलेचा के हाथसे मारा गया, जबकि जालोरगढ तूटने की कोई उम्मेद न रही तब शाही फौज ने घेरा उठाकर देहली तरफ प्रयाण किया, यह खबर सूनने पर सेजपाल विका ( जो कान्हडदेव का सरदार था ) आधी रात को जाकर सिंहपातला को गिला, और जालोरगढ खुद को मिले इस शर्त पर किले का भेद बताने को जाहिर किया, शाही सेनापति ने उसको कितनाक द्रव्य देकर जालोर देनेका भी अंजूर किया, जिससे विका ने आगे होकर आधी रात के समय पर शाही फौज को किले में दाखिल की. विका की स्त्री हीरादे को यह बात मालूम होने पर उसने अपने पति को फिटकार देकर नंगली उसपर फैंकी जिससे विका का देहान्त हो गया. हीरादे ने तुरन्त ही किले में दुश्मनों के प्रवेश होनेकी खबर राव कान्हडदेव को दी. जिसपर राजपूतों ने उनका सांभना किया.

किले में प्रवेश करने का मौका हाथ लगने से मुशलमान सैनिकोंने अपनी सम्पूर्ण ताकत अजमाई, राजपूतों ने मरणीये होकर शाही फौज को हटाने का प्रयत्न किया, लेकिन इस युद्ध में कांधल उलेचा, कान्ह उलेचा, जयत देवडा, जयत वाघेला, लूणकरण मोल्हण, व वडाउला अर्जून, आदि मुख्य २ सरदार काम आये, राव कान्हडदेव ने किला बचाने की आशा छोड दी. और सोनगरों की सम्पत्ती दुश्मन के हाथ नहीं जावे उसके वास्ते दान पुन्य करके बाकी का द्रव्य रत्नादिक भंडार को झालरवाव में डाल दिया. वि. सं. १३६८ वैशाख सुदि ५ के रोज उसने अपने कुमार वीरमदेव को गद्दी पर बैठाया. कान्हडदेव की चार राणीयां, जयतदे, भावलदे, उमादे, व कमलादे, १५८४ अन्य स्त्रीयों के साथ झमर रचकर जल गई. कान्हडदेव ने केशरियां किया, और स्वधाम पहुंचा.

कान्हडदेव स्वधाम पहुंचने पर वीरमदेव ने युद्ध करना शुरू किया, कान्हडदेव के साथ बहुत से राजपूत काम आये थे, और कितनेक राजपूत विजय की आशा न होनेसे भाग गये थे, जिससे वीरमदेव को गढका रक्षण करने को उम्मेद नहीं थी. परन्तु हठीला चौहान ने अपनी हठ पुरण करने को, अपनी राणी को झमर में जलादी, और गिरफ्तार न होने पावे उस कारण से अपने वदन में कटारी मार कर घाव पर मजबूत पाटा बांध कर केशरियां किया. इसने साढेतीन दिन तक राज्य किया, और वह समय युद्ध में हीव्यतित हुआ, इसने दुश्मनों को हटाकर किलेसे नीचे उतार दिये. वीरमदेव की सहायता में आये हुए बहुत से राजपूत काम आ चुके थे, जिससे शाही फौज ने एकत्र

होकर उसको जिन्दा पकडने के वास्ते चारों तरफ से मरणीये होकर धावा किया, वीर राजपूत्र ने अपना देहान्त होने तक दुश्मनों को हाथ अडाने नहीं दिया और वि. सं. १३६८ वैशाख सुदि ८ के रोज काम आया.

शाही फौज ने जालोरगढ कब्जे किया, और वीरमदेव का शिर काटकर बादशाह के पास ले गये, जहांपर सुवर्ण थाल में रख कर शाही जनाने में पहुंचाया गया, जबकि शाहजादी सीताई उसके तरफ आई, तब हठीला चौहान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरण करने के वास्ते मुंह फिरा दिया, यानी शाहजादी का मुंह जिन्दगी हालत में नहीं देखा था, परन्तु मरजाने पर भी कटे हुए मस्तक ने अपनी हठ नहीं छोडी, शाहजादी ने उस मस्तक की प्रशंसा करके ×पूर्व जन्मकी कथा सूनाई और यमुना के किनारे जाकर उसका अग्नि संस्कार करके खुद यमुना के जलमें झंपापात करके मर गई.

× शाहजादी ने वीरमदेव के साथ अपने पूर्व जन्मों का सम्बन्ध होनेकी. व कान्हडदेव, अलाउद्दीन के पूर्वजन्म की कथा, अपने पिता को व वीरमदेव को सूनानेका कान्हडदेव प्रबंध में उल्लेख किया है. उमी मुआफिक दूमरी हस्त लिखित प्रति जो ‘ वीरमदेव सोनगरा ’ नामकी है, उसमें शाहजादी व वीरमदेव के अगले जन्मों का वृत्तान्त लिखा गया है, और मृता नेणसी की ख्यात म कान्हडदेव व अलाउद्दीन के पूर्वजन्म का वृत्तान्त उपलब्ध होता है, अतएव इतिहास के वास्ते वह कथा जरूरी न होनेसे उसके लिए विवेचन नहीं किया गया है परन्तु यह तीनों पुस्तकों की कथा एक दूसरे से मिलती नहीं है, जिससे पाया जाता है कि यह कथा प्राचीन पुराणादि काव्यों की रीति मुआफिक दंतकथा के आधार से या कवि ने अपनी तर्कशक्ति से कल्पना करके लिखी है.

कान्हडदेव प्रबंध में वीरमदेव अगले जन्म में, सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज होना, और शाहजादी पाल्हण की पुत्री पद्मावती होकर पृथ्वीराज की राणी होना लिखा है. जब ‘ वीरमदेव सोनगरा ’ की प्रति में वीरमदेव पूर्व जन्म में शाहुकार का पुत्र होना व शाहजादी दूसरे शाहुकार की पुत्री होकर उसकी स्त्री होनेका उल्लेख किया है, उसी मुआफिक कान्हडदेव प्रबंध में कान्हडदेव ईश्वरका दशमा अवतार होना और अलाउद्दीन पूर्व जन्म में असूर होना लिखा है, तब मृता नेणसी की ख्यात में एरु तापस ब्राह्मण के आधा अंग का अलाउद्दीन होना और आधा अंग का कान्हडदेव होना लिखा गया है.

‘ वीरमदेव सोनगरा ’ की पुस्तक, मृता नेणसी की ख्यात व दंतकथा में कान्हडदेव युद्ध में काम नहीं आते ‘ अलोप ’ हो गये वैसा लिखा है, तब कान्हडदेव प्रबंध में रामचंद्र व्यास के कहनेपर अवतार लेनेका कार्य सम्पूर्ण होनेसे स्वधाम जानेका उल्लेख किया है.

कान्हडदे प्रबंध के पुस्तक में वीरमदेव का शिर काटकर देहली ले जाना और यमुना के तटपर उसका अग्नि संस्कार कर के शाहजादी ने यमुना के जलमें देह पात किया. वैसा उल्लेख है तब ‘ वीरमदे सोनगरा ’ नामक पुस्तक में वीरमदेव को शाही सैनिकों ने जिन्दा पकडा और छावणी में बादशाह पास ले गये, बादशाह ने उसको स्नान कराकर सुसलमान बनाने बाद शाहजादी से शादी करने का हुकम दिया, जिसपर हमाम में स्नान कराने को ले गये. वीरमदेव ने पहिले से ही आंतरले काटे रक्खे थे, जब कि कम्मर खोली गई तब सब आंतरले बहार निकर आए, और उसी समय उसका देहान्त, हमाम में हो गया, जिसपर शाहजादी ने उसके शिर के साथ शादी करना चाहा तब शिर उल्टा फिर गया. सो सात दिन तक सोने के थाल में रख का शाहजादी ने उसके आगे विनती की. जबकि उसको पूर्व के सब जन्मों की सम्बन्ध की कथा शाहजादी ने सूनाई तब शिर सूल्टा फिरा, और शाहजादी ने उसको वरमाल पहिनाकर उसके साथ जालोर में ही सती हो गई.

कान्हडदे प्रबंध के काव्य की पूर्वजन्म की कथा में से एक ऐतिहासिक तत्त्व ऐमा उपलब्ध होता है कि जो देहली का अंतिम हिन्दुराजा महान पृथ्वीराज के इतिहास पर खास बात पर असर डालता है यानी दंतकथा व पृथ्वीराज रासा से पाया जाता है कि शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज को पकड लिया, और गिजनी ले गया, पिछेसे चंद्र वारोट ने गिजनी जाकर सुलतान को बाण



काहनडदे प्रबंध के मुआफिक कान्हडदेव के साथ जालोर के अन्तीम युद्ध में ५० मुख्य सरदार (जो खास रावत यानी राजा के पुत्र) काम आये थे, जिनके नाम मूता नेणसी की ख्यात में उपलब्ध होते नामों के साथ मिलते हैं.



वेष का तमाशा दिखलाया, जिसमें पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को मारा और चंद्र व पृथ्वीराज आपस में हथियार चलाकर मर गये लेकिन कान्हडदे प्रबंध में लिखा है कि पृथ्वीराज घाघर नदी के तटपर मारा गया, और राणी पद्मावती अयोध्या में सती हुई, जिसके वास्ते कवि लिखता है कि—

“ सोमेश्वर घर छट्टीवार, लीधो पृथ्वीराज अवतार. पाल्हण ने घेर हुं पछी फरी, पद्मावती नामे अवतरी. ” २०३

“ ते जन्मे दुष्कृत आचगु, गाय विणासी कामण कर्तुं, साध्यो मंत्र गर्भे गायने, चित्त विकार ययो रायने. ” २०४

“ राय वश कर्या लोपी लाज, हण्या प्रधान भोगवियुं राज; शाहबुद्दीन सुलताने सूर्यो, पति घाघर ने तीरे हण्यो. ” २०५

( देहली के तख्त पर बैठने वाले राजाओं की राजावली में अंतिम हिन्दुराजा जयमल हुआ, जिसको शहाबुद्दीन ने किले हांसी में पकड़ लिया और घाघर में मार डाला ( देखो प्रकरण ६ वा में ) वैसा कई प्रति में लिखा है ).

उपर्युक्त चोपाईओं से पाया जाता है कि वि. सं. १९४९ तक यह बात प्रसिद्धि में थी कि पृथ्वीराज गिजनी में नहीं मारा गया, लेकिन गग्गर नदी के तटपर मारा गया था. पाया जाता है कि बानवेष भी गग्गर नदी के तट पर पर हुआ होगा.

## प्रकरण २२ वां.

‘दूसरे सोनगरे चौहान’

सोनगरे चौहानों के हाथसे जालोर का राज्य जाने बाद सिर्फ जालोर के राव कान्हडदेव का भाई मालदेव बचने पाया था, वैसा मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है, परन्तु बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि जालोर के राव कान्हडदेव के मालदेव के सिवाय दूसरे पांच भाई और थे, जिनके नाम क्रमशः १ वणवीर, २ गोकलीनाथ, ३ सालजी, ४ किरतपाल, व ५ रूडराव थे. मालदेव इन सब से छोटा था.

एक कवित जिसमें जालोर के कान्हडदेव व उसके तीन भाई जो ‘धनुर विद्या’ में कुशल गिने जाते थे उनका मुकाविला ओर चौहान वीर राजपुत्रों के साथ करने में आया है उसमें लिखा है कि,

“ वडोराव वणवीर, हुवो हमीर हठालो; मूछालो मालदे, तको थारू वकता रो. ”

“ तगो उभा रण तेग, गोग मामा सव जाणे; आली शीर पृथीराज, चाह पुगो चहुआणे. ”

“ गोकलीनाथ, कान्हड हुवा, विशालदे जुग जाण रे; अतरा जोध अणवर हुवा, धनुर धार चहुआण रे. ”

इस कवित में नं. १ वणवीर, २ मालदे मूछाला ३ गोकलीनाथ, व ४ कान्हडदेव, यह नाम बडुआ की पुस्तक के नामोंके साथ मिलते हैं. इसके सिवाय एक दूसरा गीत जिस में कान्हडदेव गद्दी पर आये तब देठ क्रोड नव लाख सुवर्ण का दान दिया गया था, जिस के वासते जालोर गढ के महल में शिलालेख होना कहा जाता है, यह दान किस किस ने किया उस विषय में कवित है कि,

“ तीन सहस तोखार, पांच मेगळ मेमंता; तीण उपर दश गाम, तको सासन सहेता. ”

“ सोला सेर मूर्वर्ण, पांच माला मुक्ताहर; दीधा नां जर कपर, सो वाहन धोलाहर. ”

“ सेजपाल सर सामन्त रे, दत्तकर भोजांदानजी; जालोर पाट वेठां जदी, क्रोड समरपो कानजी. ”

“ बीस लाख वणवीर, तुरत आपीया त्यागी; बीस लाख मालदे, आण धरीया मों आगी. ”

“ सात लाख सालजी, दियोँ रूपो मूर्वरणे; एक लाख पवार, साग आपीयो कवन ने. ”

“ सेज पाल सर सामन्त रे, पाली अग लुणी सवर; चहुआण राण लेखे क्रोडसु उपर मोज कर. ”

इस कवित से १ कान्हडदेव, २ वणवीर, ३ मालदे व ४ सालजी, यह चार नाम मिलते हैं, इससे अनुमान होसक्ता है कि बडुआ की पुस्तक में जो नाम लिखे हैं वह विश्वास पात्र हैं. बडुआ की पुस्तक में यह भी लिखा है कि गोकलीनाथ व रूडराव लडाईं में काम आये, और नाओलाद हुए. सालजी ने सांचोर लिया, बाकी रहे वणवीर, कीरतपाल, व मालदेव की ओलाद वाले ‘सोनगरे चौहान’ कहलाये गये. मालदेव को चितौड मिला, और वणवीर की ओलाद वाले वर्तमान समय में जोधपुर रियासत ( परगने गोडवार में)

के गाँव बोईओ, सादलो, मादलो, व लाटाड, आदि में. और मालवे में गाँव नामली व मेवाड में भोमट कहलाता प्रदेश जुडा-मीरपुर में है.

दंत कथा व प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में यह बात मशहूर है कि वणवीर का पुत्र राणकदेव उर्फ राणुआ था, जो बड़ा पराक्रमी और वीर राजपूत हुआ, इसके विषय में कवियों ने बहुत प्रशंसा के गीत कवित रचे हैं, जबकि कान्हडदेव का कुमार विरमदेव, पंजुनायक के साथ कुश्ती खेलने को बादशाह के पास देहली गया, तब राणकदेव उसके साथ था, और शाहजादी से शादी करने की जमानत में राणकदेव को बादशाह ने अपने पास रोक रखा था, कोल सुआफिक विरमदेव बरात लेकर नहीं आनेसे बादशाह ने राणकदेव से पूछा कि विरमदेव कहां है? उसपर राणकदेव ने वीरमदेव शूम हो जानेका कहा, लेकिन थोड़े समय में ही बादशाह को खबर मिली कि वीरमदेव जालोर में माजूद है.

बादशाह ने पहिले से ही राणकदेव को तघलखां की हवेली में नजर बंध रखा था, मगर वह कभी भाग कर चला जावे इस खयाल से उसके पैर में सोने की बेडी डालकर रखने का हुकम किया. तघलखां व मघलखां नामके दो सरदार उसको सोनेकी बेडी पहनाने को हवेली पर आये, उनको देखकर 'आसा' नामका चारण जो राणकदेव की तहनात में था उसने कहा कि,

“ रणका सुण जुणैह, राय आंगण रमो नहि; तो पहिरीस केम पगेह, वड नैवरी वणवीर उक्त. ”

जो सूनते ही राणकदेव चेतन हुआ, और 'झींथड' नामक घोड़े पर पलाण सांडने की खवास को आज्ञा दी. जिस पर मुसलमानों ने उसको 'तुं' कारा से रोकना चाहा. तब आसा चारण ने कहा कि,

“ तगा तगाई मत कर, वोलै मुंह संभाल; नाहर ने रजपूत नै, रें कारे ही गाल. ”

इतना सूनतेही राणकदेव ने कटार नीकाली और दोनों सरदारों को मारकर घोड़े पर चढ के रवाना हुआ. ईस विषय में कविने कहा है कि,

“ तगा मगा रे तूत, उडे पतशाह आगले; दानव दौय जमदुत, रेशम कीधा राणुवे. ”

“ तातो कर तोखार, नीसरीयो उभे नगर; मगा तगा ने मार, रंगी कटारी राणुवा. ”

“ जमदंड ग्रहियो जाय, चोल वरण वां चौवटे; असुर न आडो धाय, राणुवो रातेखी थयो. ”

“ तगा न जाणे तोल, मुख मशरिका तणो; कारण एक क वोल मारे के पंडे मरे. ”

जब कि रूधिर से भरी हुई कटारी और खूनसे भरी आँखो से राणकदेव बजार बीच होकर निकला तब बाजार में बड़ा भारी कोलाहल मच उठा, और वह बादशाह ने सूना ब्रजसपर बादशाह कहता है कि,

“ कहो कोलाहल क्रटक, सुध पूछे सुलताण; के मयंगल थंभ मरोडियो, के रिसाणो राण. ”

राणकदेव इस रीत से कुशलक्षेम देहली से जालोर चला आया, इसके विषय में ‘वीरमदेव सोनगरा’ नामक हस्त लिखित प्राचीन ग्रंथ में सविस्तर अहवाल लिखा हुआ है.

राणकदेव के दो पुत्र थे जिसमें सोडमल की ओलाद गोडवार व मालवे में उपर लिखे गाँवों में है. और दूसरा पुत्र शांगा की ओलाद वाले सिरोही रियासत की सीमापर आडावला पहाड़ के जंगली प्रदेश में जुडा-मीरपुर नामकी भोमट है वहाँ मौजूद है, जो ‘रावत’ कहलाते हैं. दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जब जालोर सोनगरों के हाथ से छूट गया, तब शांगा या उसकी ओलाद का कोई सानगरा राजपूत इस प्रदेश में होकर जा रहा था, रास्ते में प्यास लगने से वहाँ के भील नायक के घर का पानी उसने बगैः पूछे पी लिया, और पिछे से जात भात पूछी, जब मालूम हुआ कि यह भील के घर का पानी था, तब वह बहुत रंज करने लगा, जिससे भील नायक ने अपनी बेटी की शादी उससे करके अपना राज उसको दे दिया. इस समयमें जुडा के रावत का दूसरे राजपूतों के साथ, रोटी, बेटी, का सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दंतकथा की बातें भी सम्पूर्ण विश्वास पात्र पाई नहीं जाती, क्यों कि यह अरवल्ली के प्रदेश में अलग २ कई एक भोमटें हैं, जो ‘नवसौ नाहर’ के नामसे मशहूर हैं, इन भोमटों में भोसोये सोलंकी आदि दूसरी खांप के राजपूत भी हैं, इन लोगों का रोटी बेटी व्यवहार एक दूसरी भोमट में होता रहता है, यदि जुडा-मीरपुर के सोनगरे चौहान ने भील के घरका पानी पी लिया, जिससे उसका बहिष्कार होनेकी दंतकथा सच्ची मानी जाय, तब भी दूसरी भोमट वाले राजपूतों का बहिष्कार क्यों हुआ. इस प्रश्न का भी खुलासा होना चाहिये. पाया जाता है कि यह सब भोमटें जंगली व पहाड़ी प्रदेश में (इस प्रदेश में अबतक गाडे जासके वैसा रास्ता नहीं है) होनेसे व इस प्रदेश की आवहवा ना दूरस्त होनेके कारण से (इस जमाने में भी वहाँ की आवहवा ना दूरस्त होनेके कारण सपाट प्रदेश का रहनेवाला वहाँ जाने पर विमार हो जाता है.) सपाट प्रदेश के राजपूतों ने इन भोमट वाले राजपूतों से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रखा है.

सूता नेणसी ने अपनी ख्यात में सांचौरा चौहानों के मुआफिक सोनगरे चौहानों की ख्यात भी उस समय तक की लिखी है, और टॉड राजस्थान में सोनगरे चौहानों का इतिहास, मेवाड के सीसोदीया, व जोधपुर के राठौरों के साथ जुडा हुआ, त्रूटक २ उपलब्ध होता है. परन्तु उससे सिलसीले वार वंशवृक्ष बन सक्ता नहीं है, सिर्फ ‘भारत राज्यमंडल’ नामकी गुजराती भाषा की पुस्तक में, रेवाकांठा एजन्सी के ‘संजेली’ नामक ताल्लुकादार सोनगरा चौहान है, जिसका इतिहास प्राप्त होता है, उस पर से जो वंशवृक्ष बन सक्ते हैं वह इसमें दर्ज किये जाते हैं.


वस्तुतः देवडे चौहान, बोडा, बालोतर, सीवा, अवसो, आदि सिरोही के देवडे चौहानों

से ताह्लुक रखनेवाले चौहान सोनगरे चौहानों की शाखाएं हैं, जिसका सम्पूर्ण वृत्तान्त इस पुस्तक के दूसरे विभाग में दिया गया है. उनके सिवाय के सोनगरे चौहानों का इतिहास इस प्रकरण में देने में आया है. दूसरे सोनगरे चौहानों का इतिहास प्रसिद्धि में नहीं आनेका यह भी कारण है कि, उनका कोई राजस्थान नहीं है, अगर संजेली के सोनगरे के मुआफिक दूसरे स्वतंत्र ताह्लुकदार भी होते, तो भी उनका इतिहास जरूर प्रसिद्धि में आता. वर्तमान समय में संजेली के सिवाय, गुजरात, राजपूताना, व मालवा, में जो जो सोनगरे हैं, वह दूसरे देशी राज्यों की तहत में होनेसे ही उनका इतिहास अप्रसिद्ध रहने पाया है. उन लोगों को अपना प्राचीन इतिहास मालूम हो सके और सूता नेणसी ने जो श्रम उठाया है, उसका लाभ सोनगरे चौहानों को मिले, इस कारण से ही मिल सका उतना सोनगरे चौहानों का वृत्तान्त देकर सन्तोष माना जाता है.


इस प्रकरण के वास्ते दूसरे सोनगरे चौहानों का मूल पुरुष जालोर का अंतिम राव कान्हडदेव का छोटा भाई मालदेव सूछाला है, जिसको अलाउद्दीन बादशाह ने चित्तौड़गढ़ दिया था. जिससे उसकी ओलाद वालों का वंशवृक्ष दिया जाता है.

### वंशवृक्ष दूसरे सोनगरे चौहान.


१ मालदेव सूछाला ( देखो जालोर के सोनगरे चौहान वंशवृक्ष में नं. ६ वाला प्रकरण २० वां )




१ जसवंत ( चल् वंशवृक्ष दूसरे सोनगरे चौहान. )



१ भाण ( नं. ७ अखेराज का पुत्र )



( चल् नं. ७ अखेराज के पुत्र नं. १ नं. २ नं. ३ नं. ४ व नं. ५ )



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ मालदेव के विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राव कान्हडदेव (देखो जालोर के सोनगरा चौहान वंशवृक्ष में नं. ६ वाला) ने सोनगरा चौहानों की ओलाद-कायम रखने के वासते इसको युद्ध के समय किला के बाहर निकाल दिया था. इसने बहुत बगावतों की, जिससे सिवाणखान फौज के साथ इसके पीछे पडा था.

मालदेव की मूछां बढकर वह ' मूछाला ' कहलाया इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि, देवी चारण सेणी देहली आई, उसके साथ मालदेव भी आया, और सेणी वीवर में पेठी तब मालदेव भी उसके साथ वीवर में गया, वहां पर ' बडुली जोगण ' बैठी थी, उसने अपने गले का रत्नजडित कंठा, मालदेव को दिया, और एक रक्त भरा हुआ पात्र दिया, लेकिन मालदेव ने रक्त समझकर वह नहीं पिया, सिर्फ थोडासा मुंहपर लगाया, जो मुंछों की जगह पर लगने से मूछबढी, हकीकत में वह रक्त नहीं था, परन्तु अमृत था. पीछे कान्हडदेव की आज्ञासे मालदेव बादशाह की हुजूरमें हाजिर हुआ. बादशाह के उपर बीजली पडी जो मालदेव ने झटका सुं टालदी. पीछे बादशाह ने उसको चित्तौडगढ दिया, जहां सात वर्ष राज्य करके उसका देहान्त हुआ.

टॉड राजस्थान और दूसरी हस्त लिखित प्रतिओं में लिखा है कि 'सीणी' नाम की वेदा चारण की पुत्री थी, उसको विजानंद नामका भूसलिया चारण ने शादी करने के वाद नहीं बुलाने से सत् चढा, और वह हिमाले अपना देहान्त करने को जा रही थी, देहली में मालदेव के वहां उसने मुकाम किया, और वहां पर जोगमाया का विवर था, उसमें जोगणीओं की मुलाकात करने को गई, मालदेव भी उसके साथ गया, सीणी देवी की सिफारिश से जोगणी ने उसको एक माला व खड्ग देकर वरदान दिया कि तुझको चित्तौड मिलेगा, मूछां बढने के विषय में नेणसी की ख्यात से मिलती हुई बात पाई जाती है. इस घटना के वास्ते कवि ने कहा है कि—

“ वेदाणी वर दायनी, राखे रंग सुहाय, मूछां दीनी मालदे, विरद मूछालो पाय. ”

“ दीन खड्ग गढ चित्रकुट, तुमी मशरिका राव; खलजी खोला पाथरे, दियो गुमायो दाव. ”

अलाउद्दीन बादशाह को यह बात मालूम होने पर उसने मालदेव को चित्तौड की सूवागिरी दी. इस विषय में यह बात मशहूर है कि जबतक ' देवी खड्ग ' कब्जे में रहे वहांतक चित्तौड सोनगरों के पास रहेगा ऐसा देवी ने कहा था. लेकिन जबकि राणा हमीर अरसीवत, मालदेव की पुत्री ' वालवाई ' के साथ शादी करने को चित्तौड आया, तब वालवाई द्वारा वह " देवी खड्ग " चूरा कर के लवाडे ले गया. और बाद में चित्तौडगढ दगा से ले लिया. मालदेव के वाद उनके पुत्र वणीवीर आदि मेवाड के राणा की चाकरी में उपस्थित रहकर जागीरें खाने लगे.

देवी खड्ग के विषय में टॉड राजस्थान में लिखा है कि भगवदी चतुर्भूजा ने विश्व-कर्मा द्वारा वप्पा रावल को यह खड्ग दिया था. अलाउद्दीन बादशाह ने चित्तौड लेकर

१ देवीखड्ग के विषय में " देवीखड्ग अने चित्तौड की पुनः प्राप्ति " नामक ऐतिहासिक नवलकथा वा पुस्तक देखने से सविस्तर अहवाल मालूम हो सक्ता है, वर्तमान समय में वह खड्ग उदयपुर महााणा के खास महलात में रक्खा जाकर उसका पूजन किया जाता है.

मालदेव सोनगरा को दिया, जब मालदेव ने धन प्राप्ति अर्थे चित्तौड़ के एक भोंयरे के अंदर प्रवेश किया यह भोंयरा अन्धकारमय व भयंकर था, जैसे २ मालदेव भीतर जाता गया वैसे २ अनेक प्रकार के अदभूत द्रव्य उसके सामने आने लगे, लेकिन उनसे यह भयभीत न होते अपना धैर्य कायम रखवा. दरमियान भयंकर नागणीओं ने, मालदेव को इस स्थान में आनेका कारण पुछने पर मालदेव ने कहा कि वृष्णा रावल को देवी ने जो खड्ग दिया था, उसका पत्ता नहीं चलता है सो आप के पास होतो दे दो, जिस पर नागणीओं ने एक कढ़ाई का ढक्कन खोल दिया, तो मालूम हुआ कि उस कढ़ाई में अनेक प्रकार के प्राणीयों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे, उनके बीचमें एक बालक का हाथ नजर आया, मालदेव उस विषय में विचार कर रहा था. दरमियान नागणीओं ने रक्त मांश और चरबी वाले टुकड़े एक पात्र में रख कर मालदेव को प्राशन करने के वास्ते इशारा किया, मालदेव ने उसमें से कुछ खा लिया. जिससे नागणीओं को निश्चय हुआ कि यह वीर राजपूत खड्ग काम में लानेके वास्ते सम्पूर्ण लायक है. जिससे उन्होंने, मालदेव को खड्ग दिया, जो लेकर वह भोंयरे से बाहर निकला.

राणा हमीरसिंह ने चित्तौड़ कब्जे करने से मालदेव महमुद खीलजी के पास गया, जिसपर खीलजी ने बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई की, और सींगोली में महाराणा की फौज के साथ मुकाबिला हुआ. इस लड़ाई में मालदेव का पुत्र हरिसिंह मारा गया और बादशाह महमुद खीलजी गीरफतार हो गया, जो तीन मास तक केद में रहकर, अजमेर, रणथंभोर, नागौर, सुआ, व शीवपुर, के किलों के साथ पचास लक्ष रूपिये नकद व सौ हाथी राणा को देकर मुक्त हुआ.

नं. ३ वणवीर ने महाराणा हमीरसिंह की आधिपता स्विकार की जिससे उसको निमच, जीरण, रत्नपुर, आदि प्रदेश राणा ने जागीर में दीये.

वणवीर ने अल्प समय में भैंसरोड पर आक्रमण कर वह चित्तौड़ के राज्य में शामिल कर दिया.

मूता नेणसी की ख्यात से मालूम होता है कि वणवीर की ओलाद वालों के तरफ नाडोल आदि प्रदेश भी था. जिसपर राठौर राव रिणमल ने हमला करके वि. सं. १४७९ में नं. ६ करमचंद को और वि. सं. १४८२ में नं. ३ राजधर रणधिरोत को मार डाले. जिस का बदला लेनेके वास्ते सोनगरे चौहानों ने रिणमल को मारने की युक्ती रची, लेकिन रिणमल की भोजाई जो सोनगरी थी, उसने रिणमल को औरत के कपड़े पहिनाकर भगा दिया. इस अपमान का बदला लेनेके लिये रिणमल ने मौका पाकर १४० सोनगरी को मारकर कुए में डाल दिये, और सोनगरे चौहानों का कुल उच्छेदन कर डालने



की दयानत से जहां २ सोनगरे चौहान नजर आये, उन सब को कत्ल कर दिये. सिर्फ नं. ३ राणकदेव की स्त्री जो जैसलमेर के भाटी राजा की पुत्री थी वह गर्भवती होनेके कारण जैसलमेर थी, उसका गर्भ बचा.

नं. ३ राणकदेव के विषय में नेणसी ने अपनी ख्यात में जिस राणुवा की तारीफ की है ( इस पुस्तक में आगे आ चुकी है ) वह राणुवा यही था, ऐसा लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से गौर करते यह बात सही नहीं है, कारण यह है कि सौ वर्ष से ज्यादा अन्तर इनदोनों में पड़ता है.

नं. ५ राघवासिंह जिस वक्त राणा सग्राम और बाबर के दरमियान युद्ध हुआ, उस लड़ाई में राणा की सहायता में मारा गया.

नं. ६ करसचंद व नं. ६ राजधर यह दोनों राठौर राव रिणमल के हाथ से मारे गये.

नं. ६ लोला का जन्म, जैसलमेर में हुआ, जब वह बारह साल का हुआ, उस समय राव रिणमल, जैसलमेर के रावल के वहां मेहमान हुआ, जैसलमेर के भाटी राजा व राव रिणमल शिकार को गये तब उनके साथ लोला भी हुजूरिया के तौरपर गया था. शिकार में एक प्रचंड नाहर ने शिकारीयों का सामना करने से सब पीछे हट गये, लेकिन लोला ने अपनी छोटीसी बरछी से नाहर पर आक्रमण करके ऐसी चोट लगाई कि नाहर के चार दांत गीराकर बरछी मुँह में होकर गुदा से बाहर निकली, यह दृश्य देखकर राव रिणमल ने कहा कि यह सोनगरा जैसा दिखता है, उसपर रावल ने कहा कि सब सोनगरों को आपने मार डाले, सिर्फ यह बच्चा अपनी माता के उदर में होनेके कारण बचने पाया है, जिसपर राव रिणमल ने जैसलमेर से विदाय होते वक्त लोला को रावल से मांग लिया, और अपने साथ लाकर राव जोधा की पुत्री सुन्दर से उसका विवाह करके पाली की जागीर उसको दी. उस समय से सोनगरे चौहान राठौरों की चाकरी में उपस्थित हुए.

लोला से चौथी पुस्तपर नं. ७ अखेराज सोनगरा हुआ. अखेराज का पुत्र नं. ६ भाण की पुत्री चितौड़ के पाटवी कुमार उदयसिंह को व्याही थी. जब कि चितौड़ की गद्दी वणवीर ने दवा ली, तब उदयसिंह ने अखेराज सोनगरा की सहायता चाही, जिस पर अखेराज ने सारवाड के बहादुर राजपूतों के साथ उदयसिंह की सहायता की, और वणवीर का पराजय करके उदयसिंह को कुंभलनेर में गद्दी पर बैठाया, अखेराज सोनगरा पराक्रमी, दातार, और प्रभावशाली राजपूत था, मूता नेणसी ने लिखा है कि, इसके जैसा शायद ही दूसरा राजपूत हुआ होगा. वि. सं. १६०० के पोस महिने में जोधपुर के राव मालदेव ने बादशाह के साथ युद्ध किया उसमें अखेराज काम आया.

नं. ८ मानसिंह अपने पिता के जैसा प्रभावशाली राजपूत था, जबकि राणा उदयसिंह का देहान्त हुआ और राणा के पाटवी कुमार प्रतापसिंह को गद्दी पर नहीं बैठाते राणा उदयसिंह की ईच्छानुसार दूसरे पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठाने की तजवीज हुई, तब अपने भांणेज प्रतापसिंह को गद्दी पर बैठाने के लिये मानसिंह ने मेवाड के सरदारों के आगे अपना प्रस्ताव रजु किया, जिस पर मेवाड के सरदारों ने प्रतापसिंह को गद्दी पर बैठाया. वि. सं. १६२१ से मानसिंह ने राठौरों की सेवा छोडकर मेवाड के राणा की चाकरी करना शुरू किया था, और वि. सं. १६३२ में जब महाराणा प्रताप ने अकबर बादशाह की फौज के साथ हलदीघाट में युद्ध किया तब यह काम आया.

नं. ६ भाण की एक पुत्री का विवाह महाराणा उदयसिंह के साथ व दूसरी पुत्री का विवाह जोधपुर के उदयसिंह राठौर (मोटा राजा) के साथ हुआ था. यह शाहबाजखां के साथ महाराणा का कुंभलनेर में युद्ध हुआ तब काम आया.

नं. ३ भोजराज यह कुंभा महेराजोत के पास रहता था, और कुंभा की सहायता में काम आया.

नं. ६ जयमल वीकानेर में रहता था, जिसको ‘रिणीनीजो’ के पट्टे की जागीर मिली थी.

नं. ९ जसवंत बहुत बडा सरदार हुआ. जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह ने इसको मेवाड के महाराणा के पाससे बुलाकर वि. सं, १६४४ में पाली पट्टे की जागीर २७ गांवों के साथ दी. पीछे ३० गांव और भी दिये. वि. सं. १६६५ में यह राठौरों की फौज के साथ अहमदावाद गया था, और वहांपर इसने गांव ‘देवीखेडा’ मांगा, लेकिन वह गांव धनराज ने मांग लेनेसे, इसको कहा कि उसके बदले में हम तुमको दूसरा गांव देंगे, जिससे यह नाखुश होकर मेवाड में चला गया, और वहां ही इसका देहान्त हुआ. इसके विषय में प्रख्यात कवि आडा दूरसा ने कहा है कि—

- ‘ अगर झालियो हुंगरा वाग झाले अरण, मूर के इसां वेहुं साथे;  
माजीयां तणे मूह जसे मांडीया, मान जुद्ध मांडियो जसा साथे. ”
- “ कान हर मान ने संपेखे करमसी, वाज सुंसतो कियो अरण गह वाज;  
सतां सेंधा मुहां डाव मांडियो सबल, जोये तो उपर आज जस राज. ”
- “ सोर सर पाथरां तणो वरसे सघण, पेल जे सेल खग चढे पिठाण;  
हाथ उभा कियो मुगले हिन्दवा, भागरो त्यार वखाणीयो भाण. ”
- “ जेम हुई जीवियो तेम जाणे जगत, कहु मूह कसु करणाल कहियो;  
जिवत संभ ताहरी रही वाजी जसा, खख अरथे पछे भींच रहीयो. ”

नं. ९ नारायणदास भाणावत, यह शाही चाकरी में उपस्थित हुआ था, बाद राठौर उदयसिंह ने वि. सं. १६४१ में अपने पास बुलाकर भाद्राजण की जागीर दी. वि. सं.

१६४५ में राठौर उदयसिंह जब सिरोही पर चढाई लेजाता था, तब उसकी खबर नारायणदास ने सिरोही के राव सुरताणसिंह को पहुँचाई, जिससे राठौर उदयसिंह ने इसकी जागीर लेली, उस पर नारायणदास मेवाड के महाराणा के पास चला गया, वहाँ पर महाराणा ने इसको खोड के पट्टे की जागीर दी.

नं. १/१० सूरजमल को वि. सं. १६५७ में पाली की जागीर का पट्टा नं. १/१० शक्तसिंह के शामिल था. वि. सं. १६६५ में शक्तसिंह गुजर जाने बाद नं. १/१० देवसिंह को शक्तसिंह का हिस्सा मिला, वि. सं. १६७१ में सूरजमल ने पाली छोड दी और मेवाड में गया लेकिन, वि. सं. १६७३ में फिर वापिस मारवाड में आया, जहाँ इसको 'नवसरा' का पट्टा सात गांवों से मिला, बाद में वि. सं. १६७४ में 'देछु' का पट्टा छः गांवों से मिला.

नं. १/१० शक्तसिंह को सूरजमल के साथ, आधी पाली की जागीर पट्टे में थी. यह वि. सं. १६६२ में सर गया.

नं. १/१० जगन्नाथ, वि. सं. १६६७ में मेवाड में, राणा के पास था, वहाँ इसको 'सिणगारी' गांव का पट्टा मिला, पोछे वि. सं. १६७७ में मारवाड में पाली का पट्टा मिला, वि. सं. १६९१ में यह कुमार अमरसिंह के साथ जानेसे इसकी पाली के पट्टे की जागीर चली गई. विकानेर के राठौरों के साथ मेवाड के महाराणा का युद्ध हुआ उसमें इसने बडी वीरता दीखाई थी. इस विषय में कवि आडा किसना ने कहा है कि—

“ उवारिया असत मारका अडीया, अवडो कुण लोपे अनड; वीकाणा जोधपुर विचाले, जालंधर मंडीयो जगड. ”

“ निव जण गया प्रसण निठहीया, सूर मंडल अभीये सिर; जस राणो मंडाणो जाणे गढां विऊ विच सोनलगिर. ”

“ आडे दीहे गया अपांणा, मारणहार न फाडे मोर; जंगल दलां हीये जालोरो, जाणे ने ठहीयो जालोर. ”

“ उवारिया कटक आपांणा, वीकां कटक सरस घाये वाज; मूछालो मशरिक मालदे, अजुआलियो विये अखेराज. ”

नं. १/१० श्यामसिंह को वि. सं. १६७९ में जोधपुर की तरफ से गुडा पट्टा की जागीर थी. वि. सं. १६९० में भाद्राजण की जागीर मिली, मगर यह एक साल रहा.

नं. १/१० राजसिंह वि. सं. १६६६ में मेवाड में राणा के पास गया, वहाँ पर इसको कुंढणा का पट्टा पांच गांवों से मिला. वि. सं. १६७२ में नं. १/१० सूरजमल पाली छोडकर चला गया तब सूरजमल का हिस्सा इसको मिला. वि. सं. १६७७ में पाली की जागीर इससे छोन कर नं. १/१० जगन्नाथ को दी. जिससे यह रामसिंह सिसोदिया के पास गया, वहाँ वि. सं. १६९२ में कच्छवाह के हाथ से यह मारा गया.

नं. १/१० सांतल को वि. सं. १६८२ में भाद्राजण का पट्टा जागीर में था. वि. सं. १६८३ में नवसरा का पट्टा दस गांवा से इसको मिला, जो वि. सं. १६८८ में छूट गया.

नं.  $\frac{१०}{११}$  चत्रभूज बहादुर राजपूत हुआ, यह शाही चाकरी करता था, इसको ‘ पखेरीगढ ’ की जागीर मिली थी.

नं.  $\frac{१०}{१२}$  पृथ्वीराज के तरफ वि. सं. १६७८ में एहनला पट्टा की जागीर थी, बाद वि. सं. १६८८ में कुंढला गांव की जागीर फिर मिली थी.

नं.  $\frac{१०}{१३}$  माधवदास यह बहादुर राजपूत था, वि. सं. १६८४ में इसके पास भवराणी पट्टे की जागीर दस गांवों से थी. पीछे वह छोड़ देनेसे वि. सं. १७०० में सोलह हजार रूपयों की रेख का ‘ गुंदवच ’ पट्टा जागीर में मिला, वि. सं. १७१४ के वैशाख महिने में यह उज्जेन में काम आया.

नं.  $\frac{१०}{१४}$  देवीसिंह इसके तरफ आधी पाली की जागीर थी, और इसका भाई नं.  $\frac{१०}{१५}$  वणवीर को वि. सं. १६७७ में भंवरी का पट्टा दो गांवों से मिला था.

नं.  $\frac{१०}{१६}$  मुकुन्ददास बगावत में रहा था, बाद वि. सं. १६८५ में इसको भाद्राजण का गांव दांमण का पट्टा मिला.

नं.  $\frac{१०}{१७}$  जसवंत, यह राठौर दलपत रायसिंगोत के पास था, पीछे वह भटनेर रहा. भटनेर पर बादशाह की फौज ने घेरा डाला तब यह वहा काम आया.

नं.  $\frac{१०}{१८}$  केशवदास को युद्ध में जाटों ने मारा.

नं.  $\frac{१०}{१९}$  राव यह नं. ९ जसवंत सोनगरा के पास रहता था.

नं.  $\frac{११}{१३}$  जगतसिंह को पट्टा नहीं था, यह उज्जेन में जरुमी हुआ, और धोलपुर में काम आया.

नं.  $\frac{११}{१६}$  भींव, यह मेवाड के राणा की सहायता में मारा गया.

नं.  $\frac{११}{२०}$  जेतसी वि. सं. १६८७ में आसा नीवावत के साथ जोधपुर भेजा गया वहां काम आया.

उपर्युक्त वंशवृक्ष के सोनगरे चौहानों की ओलादवाले वर्तमान समय में राजपूताना व गुजरात के प्रदेश में छोटी बड़ी जागीरों के मालिक हैं, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं होनेसे, गुजरात में रेवाकांठा एजंसी के संजेली नामक ताहुकदार जो सोनगरे चौहान हैं उनका वंशवृक्ष जो दूसरे पुस्तकों की ख्यात से मिला है वह लिखा जाता है.


### ४ संजेली के सोनगरे चौहान.

संजेली के सोनगरे चौहान के वास्ते उनके इतिहास में लिखा है कि मालदेव सोनगरा का पुत्र छत्रसाल हुआ, जो चितौड़ छोडकर 'मांडवगढ' गया, वहांपर उसने आसीरगढ के चौहान राजा असोगंध को जीतकर आसीरगढ बादशाह को दिया, उसके अलावा एक वागी वेगम को माहत की व खानदेश और नीमाड जीतकर बादशाह को दिये, उनके बदले में बादशाह ने उसको छः सौ छत्रीसी नामका, सातसौ गांवों का एक परगना दिया, बाद इसने राजपुर ( जो वारियां के राज में है) के भील सरदार डुंगरसिंह को मारकर वहां अपनी राजधानी की. छत्रसाल के बाद क्रमशः २ नाहरसिंह, ३ पृथ्वी-राज, ४ रणछोडदास, ५ वजेसिंह, ६ अभयसिंह, ७ रायसिंह, ८ उग्रसिंह, ९ महासिंह, १० उम्मेदसिंह, ११ अनोपसिंह, १२ कनकसिंह, १३ कल्याणसिंह १४ वाघसिंह, १५ मोती-सिंह, १६ गुलावसिंह, १७ तग्रामसिंह, १८ मेघराज, १९ दलेलसिंह, २० कुशलसिंह, २१ हरिसिंह, २२ हमीरसिंह, २३ लालसिंह, २४ गोकुलनाथ, २५ भींवसिंह, २६ रत्नसिंह, २७ मानसिंह, २८ दयालदास, २९ नवलसिंह, ३० भगवानदास, ३१ धीरसिंह, ३२ खुमाण-सिंह, ३३ रूपसिंह, ३४ रणमलसिंह, ३५ इन्द्रसिंह, ३६ केशवदास, ३७ बोलसिंह, व उसके बाद नं. ३८ सरदारसिंह गद्दी पर आये.

नं. ३८ सरदारसिंह के विषय में लिखा है कि उसको देवगढ वारिया के राजा साहेवसिंह ने दगासे मारकर उसका प्रदेश छीन लिया, जिससे सरदारसिंह की राणी अपने कुमार बहादुरसिंह को लेकर अपना पीहर 'जोबट' में था वहां चली गई, बहादुरसिंह लायक उम्र होने पर उसने वारिया के राजा जसवंतसिंह के साथ युद्ध करके अपने पिता की जागीर हांसिल की, और वि. सं. १८५२ ( ई. स. १७९६ ) में गद्दी पर आया.

जोकि मालदेव से लगाकर बहादुरसिंह तक में ४० पुत्रों होना उपर्युक्त इतिहास से मालूम होता है, लेकिन मालदेव विक्रम संवत् की चौदहवीं सदी के पीछले हिस्से में हुआ था, जिससे पांच सौ वर्षों के अरसा के दरमियान में, चालीस पुत्र होना यह बात असम्भवोत है.

नं. ३९ बहादुरसिंह के पीछे नं ४० जगतसिंह ने संजेली में अपना राजस्थान किया, जो 'पुछडीया राजा' के नामसे मशहूर था. जगतसिंह नाओलाद गुजरने से इसके भायात जीतसिंह का कुमार नं. ४१ प्रतापसिंह गोद आया, उसके बाद नं. ४२ रणजीत-सिंह हुए.



## प्रकरण २३ वाँ.

‘ देवडा चौहान ’ शाखा कहलाने का सम्बन्ध.

‘ देवडा चौहान ’ की शाखा कब निकली ? इस विषय में प्राचीन साहित्यों के प्रमाणों में बहुत मतभेद है. वंशभास्कर की पुस्तकानुसार सांभर के माणकराज का पुत्र निर्वाण से ‘ नीरवाण ’ व ‘ देवडा ’ यह दो शाखाएं होनेका उल्लेख है. पूर्विया चौहानों की ख्यात मुआफिक सांभर के लाखणसी का पुत्र ‘ देवराज ’ के नामसे ‘ देवडा ’ शाखा होनेका अंकित हुआ है. सिरोही के वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि सांभर के माणकराज के पुत्र जेवराज व उसके पुत्र गोगराज उर्फ गोगादेव, और गोगादेव के दूसरा पुत्र ‘ देवसेन ’ था, ( देखो पृष्ठ २२ पर नं. २४५ वाला. ) जिसके नामसे उस जमाने में ( वि. सं. ७८२ में गोगराज था जिससे कुछ समय बाद ) ‘ देवडा ’ शाखा हुई थी. उस देवसेन की ओलाद में नाडोल का लाखणसी हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में सिरोही रियासत के ‘ देवडे चौहान ’ कहे जाते हैं वे जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी के पुत्र प्रतापसिंह उर्फ देवराज के नामसे ‘ देवरा ’ या ‘ देवडा ’ कहलाये हैं.

‘ सिरोही राज्य का इतिहास ’ नामकी पुस्तक में पृष्ठ १६२-१६३ की टीप्पणी में इस विषय में लिखा गया है कि “ सिरोही की ख्यात में लिखा है, कि राव मानसिंह के पुत्र का नाम ‘ देवराज ’ था, जिसके नाम परसे उसके वंशज ‘ देवडे ’ कहलाये. इस लेख को हम सर्वथा विश्वास योग्य नहीं मान सकते. ” इसका कारण यह बताया है कि ‘ देवराज ’ उर्फ प्रतापसिंह वि. सं. १२६० के पीछे होनेका सम्भव है, और उस समय के पहिले के जालोर के सोनगरे चौहान राजा समरसिंह के समय के वि. सं. १२३९ व १२४२ के शिला लेखों में उसका पुत्र मानसिंह ( प्रतापसिंह उर्फ देवराज के पिता ) का नाम उपलब्ध हुआ है, और वि. सं. १२२५ व १२२९ के शिलालेख आबु पर अचलेश्वरजी के मन्दिर बाहिर विद्यमान है उसमें ‘ देवडा ’ नाम लिखा हुआ है. जो कि उपर्युक्त शिलालेख व दूसरे प्राचीन साहित्यों से भी जालोर के राव मानसिंह के समय में ‘ देवडा ’ कहलाते चौहान विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं है, और चौहान वंश के दूसरे पुस्तकों में भी ‘ सांभर ’ से ही ‘ देवडा ’ नाम की शाखा हुई थी वैसे जगह २ लिखा हुआ है. लेकिन उसी कारण से सिरोही के वर्तमान समय के ‘ देवडे चौहान ’ जालोर के मानसिंह के पुत्र देवराज के नाम परसे ‘ देवडे ’ कहलाये, यह विश्वास योग्य नहीं मानने की जो राय सि. रा. ई. के लेखक ने जाहिर की है वह स्वीकार होने जैसी नहीं

है, क्यों कि शाखाओं का कहलाना और अस्त होना ' नामी ' ( प्रसिद्ध ) पुरुष पर आधार रखता है.

सि. रा. ई. के पुस्तक के लेखक की यह मान्यता हुई है कि नाडोल के राव लाखणसिंह के पुत्र सोहिय के बेटे का नाम देवराज था, जिसका नाम शिलालेख, व ताम्रपत्रों में ' वलीराज ' मिलता है, उससे देवडे कहलाये है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि " राव लाखण नाडुल धणी तिणरी पोढी आसराव हुवौ तिणरै घरै वाचाछल देवोजी आया छै तिणरै पेटरा बेटा ३ हुवा सु ' देवडा ' कहाणां छे. " तात्पर्य यह है कि नाडोल राज्यस्थान से ही देवडा चौहानों की शाखा कहलाई गई थी, वैसा माना गया है.

वस्तुतः देवडा चौहान की शाखा सांभर से कहलाई गई, या नाडोल से कहलाई हो, परन्तु जालोर के सोनगरा माणीजी के पहिले भी ' देवडे ' कहलाते थे. लेकिन सिरोही रियासत के जो चौहान विद्यमान है वे सोनगरा चौहान की शाखा के वंशज है, और सोनगरा माणीजी उर्फ मानसिंह का पुत्र देवराज के नामसे ही यह सोनगरा शाखा वाले ' देवडा ' कहलाये है, और उसके पहिले जो ' देवडा शाखा ' कहलाई थी उसका अस्त हो गया है. अगर ऐसा न हुआ होता तो नाडोल से निकली हुई १ वागडिया, २ सोनगरा, ३ खीची, ४ हाडा, ५ वाव के चौहान, ६ सांचौरा आदि शाखा वाले भी ' देवडा ' कहलाते. ( देखो पृष्ठ ५२ पर नाडोल के नं. ७ अश्वराज से निकली हुई शाखाएं. ) कभी ऐसा खयाल किया जाय कि उन शाखा वालों ने अपनी नई शाखा प्रसिद्धि में आनेसे पुरानी शाखा का नाम छोड दिया है, और अचलेश्वरजी के मन्दिर के वि. सं. १२२५ व १२२९ के शिलालेखों में जो ' देवडा चौहानों ' के नाम लिखे हुए है वे नाडोल के चौहानों के नाम है, तब भी उन नाम वालों की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज सिरोही के देवडे चौहान न होनेसे नाडोल में देवडा कहलाती शाखा से ही यह देवडे कहलाये गये वैसा माना नहीं जाता, क्योंकि सिरोही का चौहान राज्यवंश जालोर के सोनगरे

\* आसराव ने देवी को वचन बंध करके वाचा छल किया, उस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में निम्न लिखा है.

“ आसराव नाडुल सिंकार रमतो हुतो. सो बडो दृढ राजवी हुवो तिणरुं देवी बीहाडण लागी, सु आसराव बीहै नहीं ने वाण हिरणरुं साधीयो हुतो सु वाछो तैर देवी खुशी हुई ने आसरावतु कहेण लागी तोरुं हु तूटो. तूं जाणे सूं माग. तैर आसराव देवीरो रूप देखने जाणीयो इसडी बर व्हे तो भञ्जे. तैर देवी नूं कछो तूं म्हारे बर हुय घरै रही. तैर वावावल आई, तैर कश्यो अतरी वात हुं पहली कहूं छूं. कोई मोरुं जाणे सो तैर हुं परी जाईस. थूं कहीनै देवी बर आई तिणरै पेट कहे छे च्यार बेटा हुवा. माणकराव, मोकरुल, अलहण हुवा. ७ तिणरो बेटो केलण हुवो. ”

नोट—खीचचीपूर की हस्त लिखित ख्यात में सांभर के राजा विशलदेव के चौबीस पुत्र में एक ' देवीसिंह ' नामक था, उसके वंशज ' देवडा ' कहलाये गये, ऐसा अंकित किया गया है, और वे सिरोही के ' देवडा चौहान ' होनेका उल्लेख हुआ है.

चौहान के वंशज है, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है, और उनको अपने बाप दादों की शाखा का नाम चलाना होता तो 'सोनगरा' कहलाते, क्योंकि नाडोल के देवडों के मुकाबले में 'सोनगरा' कहलाना बहुत वाजिब गिना जाता. इससे यही मानना योग्य है कि नाडोल के चौहानों के समय में जो 'देवडा' शाखा कहलाई गई थी, उस शाखा का अस्त हो गया, और जालोर के देवराज से पुनः 'देवडा शाखा' कहलाई गई.

माण्जी के पुत्र देवराज से देवडा शाखा कहलाई गई, यह सिर्फ बडुआ की पुस्तक से ही नहीं, परन्तु राणी मगा, कुलगर, राजपुरोहित की पुस्तकों में व दंतकथा में भी यह कहा जाता है, बल्कि एक-हस्त लिखित प्रति जिसमें तंवर, सिसोदिया, चौहान, व देहली के राजवंश की ख्यात लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि—

“ राव माणीजी चंडावल नगरी सूरेला तलाव शिकार पधारिया जरै देवी 'चंडका भवानी' घर वासे आई तिणरो बेटो देवराज पातोराव. जठा सु 'देवडा' केवाणां. देवी रा पुत्र ज है. ”

दंतकथा में कहा जाता है कि राव माणीजी शिकार करने के वास्ते निकले थे, उसके बल की परिक्षा करने के वास्ते देवी ने 'सूर' का रूप धारण किया. माणीजी सूर को देख कर उसका शिकार करने को पीछे पडे. वह सूर ने इसको इधर उधर बहुत भमाया और, चंद्रावती नगर से पश्चिम दिशामें (आंबु पहाड की तलेटी में.) एक तलाव है वहां पहुंच कर देवी अंतर्धान हो गई, लेकिन माणीजी ने उस समय सूर को भाला मार दिया, जिससे वहां पर पत्थर का सूर हो गया, और भाला उस पत्थर के सूर को भेद कर जमीन में जा बैठा. देवी ने उसका प्रराक्रम देख कर दर्शन दिये और वरदान मांगने की आज्ञा दी, जिसपर माणीजी ने अपनी स्त्री होकर रहने का वरदान चाहा, देवी ने उस कारण से उसकी स्त्री होकर रहना स्वीकार किया, जिससे पाता उर्फ प्रतापसिंह नामका पुत्र हुआ, बाद देवी चली गई. देवी के पुत्र होनेके कारण उसका नाम देवराज पडा, और उसकी ओलाद वाले 'देवडा' कहलाये. माणीजी ने जिस तलाव पर सूर को भाला मारा उस तलाव का नाम 'सूरेला' पडा.

+ यह हस्त लिखित प्रति सिरोही नगर निवासी शाह लक्ष्मिचंद जो सिरोही में दिवान भी थे, उसने उदयपुर से प्राप्त की थी, और संगी भभूतमल सावक रेवन्गु कमीस्तर ने इस पुस्तक के लेखक को दी थी.

\*सूरेला तलाव वर्तमान समय में भी विद्यमान है और 'सूरेला' के नाम से कहलाता है. कहा जाता है कि वह पत्थर का 'सूर' भी उस जगह भाला लगने का निशान वाला मौजूद था. (लेखक ने इस विषय में मौफ पर तपास की परन्तु पत्थर का सूर नहीं मिला.)

नोट—जालोर के रावल कान्हडदेव के समय में १ अजित देवडा, २ कांवल देवडा वगैरह देवडे कहलाते राजपूत उसरी सेवा में थे, जो अलाउद्दीन के साथ वि. सं. १३६८ में युद्ध हुआ, उसमें बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये—



सिरोही के वडुआ की पुस्तक में माणीजी की राणीयां कौन २ थी, उनके नाम खास तौरपर देखने से मालूम हुआ, कि उसमें माणीजी के पुत्र 'देवराज' का नाम लिखा है, परन्तु उसकी माता का नाम ठाम नहीं लिखा गया है. लेकिन उक्त हस्त लिखित प्रति में देवराज के पांच भाई ओर होना लिखा है, जिनको माता के नाम ठाम भी दर्ज किये हैं. यानी माणीजी की पहिली राणी चावडीजी 'पद्मकुंवर' माणसा के चावडा राव भाण सूरवत की पुत्री से कुमार १ बोडा व २ बाला, दूसरी पवार राणी 'कनकावती' चंद्रावती का पवार कर्मसिंह की पुत्री से कुमार ३ विशलदेव, व ४ चीवा, और तीसरी राणी राठौरीजी 'केशरदे' राठौर राव तींडा की पुत्री से कुमार ५ अभयसिंह के जन्म हुए थे.

उपर के वृतान्त से यह बात निर्विवाद है कि चाहे सांभर से या नाडोल से अब्बल 'देवडा चौहान' की शाखा कहलाई गई थी, लेकिन वह शाखा पीछे से कम हुई या नाबूद हुई, और जालोर के सोनगरा माणीजी के पुत्र देवराज के नाम से पुनः 'देवडा' शाखा कहलाई गई, जिसके वंशज वर्तमान समय में सिरोही के देवडे चौहान हैं. देवराज के पुत्रों की ओलाद वाले ही देवडा कहलाये, उसका यह भी संगीन प्रमाण है कि माणीजी के दूसरे पांच पुत्रों में से नं. ३ विशलदेव के सिवाय के पुत्रों की ओलाद विद्यमान है. जो १ बोडा के नामसे बोडा या बोडावत, २ बाला के नामसे बालोतर, ४ चीवा के नामसे चीवा या चीवावत, और ५ अभयसिंह के नामसे अबसी या अबावत कहलाते हैं. इसी मुआफिक देवराज के नाम से 'देवडा' कहलाये है.



ये, जिसका वृतान्त 'कान्हडदेव प्रबंध' में सविस्तर लिखा गया है, और मृता नेणसी की ख्यात में भी वह नाम मिलते हैं. इसका अहवाल सोनगरे चौहानों के प्रकरणों में लिखा गया है, यह देवडे मानसिंह उर्फ माणीजी की ओलाद से भिन्न थे, जिससे अनुमान होता है कि नाडोल वंशवृक्ष में नं. ९ रायपाल की ओलाद वाले होंगे और उसी कारण से देवडे कहलाये है. बाद उस शाखा का अंत हुआ होगा.

नोट—मृता नेणसी की ख्यात में चौहानों की चौबीस शाखा की गिनती में चीवा, व बोडा, शाखा 'देवडा शाखा' से भिन्न होनेका लिखा है. जैसे सिरोही के पुरोहित की पुस्तकमें भी बालोतर, बोडा, व चीवा की शाखाएं देवडा शाखा से भिन्न होना अंकित हुआ है. ( देखो पृष्ठ १२ पर दर्ज हुए चौबीस शाखाएं के प्रमाणों में. )





सिरोही राज्य के देवडा चौहानों का राज्य चिन्ह.

आबु पहाड पर देवडा चौहान का कब्जा.

आबु पहाड की आसपास की भूमि अबूद भूमि कीवा 'अबूदारण्य' के नामसे प्रख्यात थी, जो वर्तमान समय में सिरोही रियासत कहलाई जाती है. जबकि जालोर गढ पर सोनगरे चौहानों का राज्य था, तब अबूदारण्य का पाट नगर +चंद्रावती उर्फ चंदावल में परमार राजपूतों का राज्यस्थान था, और आबु पहाड उनके कब्जे में था. आबु पहाड हिंदुस्तान में प्रसिद्ध जगह हानेसे इस देश के राजा 'आबु नरेश' कहलाये जाते है.

नाडोल के चौहानों ने जालोर, भीनमाल, केराडु आदि परमारों के राज्य कब्जे कर लिये थे, उसी मुआफिक जालोर में राज्य स्थान होने बाद आबु के परमारों के राज्य पर भी अपनी नजर डाली. चंद्रावती का परमार राजा 'धारावर्षादेव' व उसके भाई पालहनदेव के समय तक अबूदारण्य के प्रदेश में जालोर के चौहानों ने ज्यादा दखल नहीं किया, परन्तु उनकी वृद्धावस्था में सरणुआ पहाड की पश्चिम दिशा के देश में जालोर के +सोनगरा का प्रवेश हो चुका था. धारावर्षादेव के देहान्त बाद परमार राजपूतों की पडती शुरू हुई. आबु पहाड के पश्चिम दिशा के प्रदेश में मठार व वांकडिया वडगांव नामक परगने मुसलमानों ने दबाकर वहां पर उन्होंने अपना अमल कर लिया, उसी मुआफिक आबु की पूर्व दिशा के प्रदेश पर मेवाड के सिसोदिये का आक्रमण हुआ, और श्रीमंताई में श्रेष्ठ गिना जाता 'चंद्रावती' नगर की लक्षिम पर लूट फाट होने लगी.

चंद्रावती के परमार राजा गुजरात के सोलंकी राजा के मांडलीक थे, जिससे जब जब मुसलानों का गुजरात पर हमला हुआ करता था, तब यह गुजरात के दरवाजे के स्थान पर गिना जाता चंद्रावती नगर पर प्रथम प्रहार होता था, इसी कारण से

+ चंद्रावती नगर आबुरोड के रेलवे स्टेशन से दक्षिण दिशा में तीन माईल पर था. वर्तमान समय में वह जगह 'चंद्रावती' नामके छोटासा गांव के नाम से मशहूर है. दंतकथानुसार यह नगर में सैकड़ों देवालय और तीनों साठ क्रोडपति शाहुकार रहते थे. आबु पहाड पर क्रोडों खपिये खर्च करके जैन मन्दिर बंधाने वाला 'विपलशाह' चंद्रावती का रहिष था. वर्तमान समय में उम स्थान पर मन्दिर, कुए, वावडी आदि स्थानों के खंडेर विद्यमान है, और वे सब संगेमरमर के पत्थर से बने हुए थे, वैसा वहां पर पडे हुए पत्थरों से स्पष्ट मालूम होता है. चंद्रावती नगर परमारों के हाथ से छूट कर देवडा चौहानों के तरफ गया, और देवडा चौहानों ने करीब एकसौ वर्ष वहां पर राज्य गद्दी रख कर पीछे से सिरोही नगर बसाकर वहां पर गद्दी कायम की, जिससे यह गुलजार नगर ब्वेरान हो गया. कहा जाता है कि इस नगर के देवाल्यों के संगेमरमर के पत्थरों से अहमदाबाद की जुमा मशजिद बनी है.

चंद्रावती के परमारों का बल क्षीण होता रहा, और मेवाड के सिसोदियों ने कुछ समय तक चंद्रावती नगर व उसके आसपास (आबु की पूर्व दिशा) के परगनों पर अपना अमल जमा लिया था, लेकिन आबु पहाड 'अजीत दूर्ग' जैसा होनेसे आबु पर परमारों का कब्जा रहने पाया, जिससे परमारों ने ❀पुनः चंद्रावती नगर अपने कब्जे कर लिया था.

+ दंतकथानुसार आबु पर प्रथम 'राठौरों' का राज्य था, बाद 'गोहिल' राजपूतों का राज्य हुआ. उनसे परमारों ने आबु ले लिया, और परमारों से चौहानों ने लिया. इस विषय में जब कि देवडा चौहान 'लूभकरण उर्फ लूभा' ने आबु कब्जे किया तब 'आढा' खांप के कवि ने एक छप्पय में कहा है कि—

“ आढ पाट अरवद प्रथम राठौर परठे; ता पिछे गोहल, वनसे बरस वयठे. ”

“ ता जाडा उवाड लीयो प्रमार न्रभे तण; विच धारा वेराट; जश विसतरे जणो जण. ”

“ परमार अबुठे रण वहे, लूभ करण लीधो लखे; कव अट्ट सुकर जोडे कहे, कैलास तास होसी अखे. ”

आबु पहाड व चंद्रावती नगर एक ही परमार राजा के संपूर्ण अधिकार में थे, या यह दोनों जगह पर अलग २ परमार राजपूतों का अधिकार था, यह शंकास्पद है. 'पृथ्वीराज रासा' नामक काव्य ग्रंथ से पाया जाता है कि, महान् पृथ्वीराज के समय में x आबुपर 'जेतसिंह' नामके परमार का अधिकार था, और उसका पुत्र 'सलख' परमार था. जेतसिंह परमार पृथ्वीराज की सहायता में शहाबुद्दीन गोरी के साथ युद्ध करके काम आया. सलख की पुत्री ÷ 'इच्छनी' पृथ्वीराज की राणी थी. 'सलख' के बाद आबु पर कौन २ परमार हुए, उनका शृंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, जिससे चौहानों ने किस परमार से आबु पहाड लिया, वह शंका का ❀निर्णय नहीं हुआ है.

देवडा चौहानों ने आबु पहाड किस परमार से लिया उसके लिये जैसी शंका है, वैसेही शंका आबु किस देवडे चौहान ने कब्जे किया उसके विषय में भी है. महाराव

\* इस विषय में ज्यादा अहवाल प्रकरण २९ वां में लिखा गया है.

+ अर्जुनारण्य के देश में किस २ के राज्य हुए, वह वृत्तान्त "सिरोही राज्य का इतिहास" नामक पुस्तक में सविस्तर लिखा है उस मुताबिक— १ मौर्य वंश, २ क्षत्रप वंश, ३ गुप्त वंश, ४ हुण वंश, ५ वैस वंश, ६ चावडा वंश, ७ गुहिल वंश, ८ पडिहार वंश, ९ सोलंकी वंश, व १० परमार वंश के राजाओं का अधिकार प्राचीन समय में होनेका उल्लेख हुआ है, लेकिन इन वंशों में सिवाय परमारों के दूसरे राजवंशियों ने अपना पाटनगर अर्जुनारण्य के प्रदेश में किया हो, वैसा उक्त पुस्तक से पाया नहीं जाता है. बल्कि इस देश के वास्ते किसने कब आक्रमण किया, और आबु पहाड कब किस वंश के राजाने अपने कब्जे किया वह उल्लेख भी नहीं होते सिर्फ उक्त वंशों के इतिहास दर्ज हुए है.

x जेतसिंह के समय में चंद्रावती नगर में प्रख्यात परमार राजा 'धारावर्षादेव' का राज्य अमल था, और जेतसिंह उमका मांडलिक भायात था.

÷ 'इच्छनी' के साथ गुजरात का राजा भीमदेव लग्न करना चाहता था, मगर जेतसिंह ने मंजूर नहीं किया, जिससे भीमदेव ने आबु पर चढ़ाई की, यह वृत्तान्त गुजरात के इतिहास व पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में भी सविस्तर लिखा गया है.

\* इस विषय में दंतकथा व गीत कवित्तों से जो अहवाल उपलब्ध हुआ है, वह इप प्रकरण में लिखा गया है.

लुंभा के समय का वि. सं. १३७७ का शिलालेख जो अचलेश्वरजी के मन्दिर में है, उसकी लिखावट में लिखा है कि, “ महाराव लुंभा ने अपने प्रताप से चंद्रावती तथा अर्बुद का दिव्य देश प्राप्त किया. ” यानी देवडा चौहान लुंभा जो बिजलराय उर्फ बीजड का पुत्र था, उसने परमारों के हाथसे आबु लिया, परन्तु आबु लेनेके समय में जो युद्ध हुआ उस वक्त बिजलराय ( देवराज का पुत्र ) विद्यमान था. ऐसा अनुमान होता है.

वस्तुतः जालोर के रावल समरसिंह का बड़ा पुत्र मानसिंह उर्फ माणीजी था, वैसा अचलेश्वरजी के मन्दिर में लगा हुआ वि. सं. १३७७ के शिलालेख से व बडुआ की पुस्तक से भी मालूम होता है, लेकिन उसका छोटा भाई उदयसिंह जो बड़ा पराक्रमी राजा हुआ, उसने जालोर की गद्दी दबा ली. ( माणीजी ने बडुआ को सीख देनेका उसके पुस्तक में दाखला नहीं है जिससे पाया जाता है कि, वह जालोर छोड़ कर दूसरी जगह चला गया होगा. ) बडुआ की पुस्तक मुताबिक माणीजी का पुत्र देवराज ने वि. सं. १२९० में बडुआ को सीख दी है, जिससे पाया जाता है कि, उसके पहिले माणीजी का देहान्त हो गया था. बल्कि उक्त पुस्तक मुआफिक देवराज का देहान्त वि. सं. १२९९ में होना पाया जाता है.

देवराज के पुत्र बिजलराय और अरिसिंह ने स्वपराक्रम से अपना दूसरा राज्य स्थापन करने की शुरुआत की. वि. सं. १३०७ में उन्होंने ने पाखरवा पठाण को मार कर वांकडीया बडगाम लिया, और वहां से आबु की पश्चिम दिशा के देश पर कब्जा करते २ वि. सं. १३३३ तक में आबु की तलेटी तक का मुलक कब्जे कर लिया था, वैसा वि. सं. १३३३ के ‘ टोकरा ’ गांव के शिलालेख से पाया जाता है, क्योंकि वह लेख में बिजलराय का नाम है. वि. सं. १३४० में उसने मठार परगना ( सायठ ) ‘ पडपसाण ’ नामका मुगल को मार कर कब्जे किया, और मठार में रहने लगे. इस लडाई में

+ देवडा चौहान के बडुआ की पुस्तक में समरसिंह के एक ही पुत्र मानसिंह उर्फ माणीजी होना लिखा है. बल्कि जालोर के राजवंश में से रावल उदयसिंह का नाम भी उडा दिया है, और उसकी जगह ‘ चाचिगदेव ’ ( जो उदयसिंह के पुत्र होना अन्य प्रमाणों से सिद्ध है उसका ) नाम लिखा है. यही चाचिगदेव के समय ( वि. सं. १३१९ ) में सूधा पहाड का ऐतिहासिक शिलालेख लिखा गया है, उसमें ‘ माणीजी ’ का नाम अंकित नहीं किया है. पाया जाता है कि द्वेश बुद्धि से जैसे सूधा के लेख में माणीजी का नाम नहीं लिखा गया, उसी मुआफिक बडुआ ने जालोर की गद्दी छीन लेनेवाला भ्रातृदोही उदयसिंह का नाम अपनी पुस्तक में नहीं लिखा है, बल्कि बडुआ की पुस्तक में उल्लेख किया गया है, कि ‘ माणीजी वि. सं. १२७० में जालोर गद्दी पर बैठा, और पंदरह साल जालोर रहा. ’ इससे पाया जाता है कि उदयसिंह ने कहां तो समरसिंह के देहान्त होने पर या पीछे से माणीजी से गद्दी छीन ली. सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में पृष्ठ १८० में लिखा है कि—× × “ सिरोही के बडुवे की पुस्तक में उदयसिंह का बडा भाई लिखा है. × × ” वह ठीक नहीं है, क्योंकि बडुआकी पुस्तक में उपर लिखे मुआफिक उदयसिंह का नाम भी नहीं लिखा गया है. बल्कि बडुआ लक्ष्मणसिंह से दरियाफत करने पर उसने जाहिर किया कि मेरी पुस्तक से सिरोही राज्य के इतिहास के लेखक ने, न सहायता ली न मेरी पुस्तक देखी है, बल्कि मुलाकात भी न होनेका जाहिर किया. पाया जाता है कि राणीमगा भाटों की वही को बडुआ की पुस्तक मानी गई है.

वीजलराय का एक पुत्र लूणा उर्फ लूणकरण 'पडपसाण' मुगल जो भाग जाता था उसके पीछे पडा, उसने मुगल को धोरा ( रेत का छोटा पहाड ) के पास मार डाला, परन्तु एकिला होनेसे स्वयं भी सख्त जख्मी होकर वहां ही गीर पडा. लूणकरण को गीरा हुआ देख कर, उसको धूप से वचाने को ' सिंधुवा ' नामके चारण ने अपनी पछेडी उस पर ओढाई, यह बात लूणकरण होश में आने पर मालूम होनेसे, उस चारण को मढार गांव में कितनोक भूमि, और मढार परगने के ६० गांवों पर चौरी दापा का हक वक्षा. वर्तमान समय में वह भूमि का टुकडा ' चारणिया पोह ' के नामसे मशहूर है. दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जख्मी हुआ लूणकरण बाद में गुजर गया था, जिसके स्मारक का चबूतरा मढार में विद्यमान है, और ' लूणाजी का चबूतरा ' के नामसे प्रसिद्धि में है.

विजलराय का वि. सं. १२९९ में पाट बैठना, और वि. सं. १३६७ में देहान्त होना वडुआ की पुस्तक से पाया जाता है. इसके पांच पुत्रों को कवि ने पांडव की उपमा देकर प्रशंसा की है. जिस समय जालोर की गद्दी पर सोनगरा रावल कान्हडदेव हुआ, उसी समय में विजलराय व उसके पुत्रों ने सरणुआ (वर्तमान समय में सिरोही नगर सरणुआ पहाड की तलेटी में है वहां) पहाड पर अपना अधिकार जमा लिया था, और आबु के परमारों के साथ विवाह करने के बहाने से युद्ध करने की तद्वीर रचने में आई. इस विषय में सिरोही राजवंश की राजावली का जो कवित मूता नेणसी की ख्यात में है, उसमें कवि ने कहा है कि.

“ वीजड तणो वोआव पांच पांचैही पांडव, पर एके अगांह औभ गुह राखे असमर. ”  
 “ जसवंत समर लूणो जिसा लोह गढ लूभा लखा, इक एक विरद गह उठिया मार मार करता मुखा. ”  
 “ अरवद परमार, कान्ह एका कणियागर, सिंह पांच सरुणवे सहै कोटां ताके शिर. ”  
 “ वीजड धरां वेध वसै विनलोथ विचाले, क्रांमत है कां करे चक्र है काहु चाले. ”  
 “ मा वं नहि से वीहै न, मन पोहव प्रमाण प्रगटीया, देवडा रूँठ देशां दहण आग खाय कर उठीया. ”

आबु कब्जे लेनेके विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, कि आबु पर

१ जालोर का रावल कान्हडदेव वि. सं. १३५९ बाद गद्दी पर बैठा; और वि. सं. १३६८ में देवलोक हुआ था  
 २ सरणुआ पहाड का देश विजलरायने कान्हडदेव के समयमें कब्जे किया था, जिससे यह अनुमान होता है कि, वि. सं. १३५९ तक में विजलरायने आबु व सरणुआ की पश्चिम दिशा का मुलक कब्जे कर लिया था.  
 ३ तद्वीर की अणी पर आकाश को रखे ऐसे. ४ जालोर गढ का प्राचीन नाम कणियागर है. ५ कवि का आशय यह है कि आबु पर परमार था, कणियागर में एक ही कान्हडदेव था, और सरणुआ में विजलराय के पांच पुत्रों—पांच सिंह की नाई उनके शिर पर ताक रहे थे. ६ करामत यानी तद्वीर, ७ कवि का आशय यह है कि, विजलराय के पुत्रों भूमि प्राप्त करने के वास्ते अनेक प्रकार की करामत करके, जगह २ युद्ध करने को चक्र लगाने लगे. वे किसी का डर नहीं गिनते अपनी मरजी मुआफिक चक्कर अग्नि प्राशन किया न हो वैसे गुप्ते में आकर देश को दहन (जलाने) करने लगे. (पाया जाता है कि जालोर की गद्दी का हक जानसे वे बगावत में रहे है).

जेत परमार था, वह पृथ्वीराज चौहान की सहायता में मारा गया, उसके वंशज आबु पर थे. जबकि सोनगरा कान्हडदेव जालोर की गद्दी पर था, तब देवडा विजड के पुत्रों (जसमरो, लूणो, लूभो, लखो व तेजसी,) सरणुआ के पहाड में रहते थे, उन्होंने आबु कब्जे करने का विचार किया, दरमियान परमारों का एक चारण वहां पर आया, उस चारण के आगे पांच भाईओं के पांच २ पुत्री होना बताकर, उनकी शादी के विषय में चिन्ता प्रगट की. जिसपर चारण ने आबु के परमारों के साथ उनकी शादी करा देने की आशा दी, और चारण ने आबु पर पंद्रह कर परमारों को निवेदन किया, जिसपर वे शादी करने के वास्ते तैयार हुए, परन्तु धोका होने की शंका आनेसे, विजड के पुत्र लूणा को बतौर जामिन आबु पर अपने पास रखने की शर्त की. देवडों ने वह शर्त मंजूर रखी, और लूणा को आबु पर भेज दिया. बाद पचीस परमारों की बरात आई. देवडे चौहानों ने बरातीओं की अच्छी सरभरा महमानगिरी करके, शराब पिलाकर नशे में गुलतान कर दिये, और अपनी तरफ के पचीस जवान लडकों को स्त्री के कपडे पहिना कर, उनको कटारियां देकर चौरी में उपस्थित किये. उन लडकों को यह सूचना की गई थी कि, जब फेरा फिरने का कहा जाय, तब एक एक विंद पर एक साथ कटारी चलाना. जब कि २५ परमार विंद शादी के वास्ते मंडप में आये, तब बहुत से बराती नशे में चकनाचूर होनेसे डेरे पर पडे रहे थे, जिससे सिर्फ ४९ बराती विंदो के साथ चौरी पर आये थे, परन्तु देवडों ने मर्यादा भंग होनेका बहाना बताकर उनको भी बहार रखे, और सिर्फ विंदों को ही चौरी में लिये गये, जिनको चौरी में ही पूर्व संकेतनुसार मार डाले, और बरातीओं को भी जानीवास में मार दिये. बाद एक राजपूत को आबु पर भेजा गया.

जब कि भेजा हुआ राजपूत आबु पर पहुचा, तब देवडा लूणा व आबु का 'दलपत' परमार दोनों बात कर रहे थे, जिनको राजपूत ने शादी हो जानेका समाचार निवेदन किया, जिस पर लूणा ने पूछा कि विवाह का जश किसको रहा? राजपूत ने चौहानों को जश मिलने का कहा, वह सूनते ही दलपत परमार को लूणा ने कहा कि, आबु मेरा है, अब तेरी दशा भी उसी बरातीओं के नाई होगी, इस तरह वात वात में ही दोनों के बीच लडाई हुई, और दोनों वहां काम आये, इतने में बरातीओं को मार कर दूसरे देवडे चौहानों भी आबु पर आपहुंचे और आबु कब्जे कर लिया.

× विजडराय के पांच पुत्रों के नाम में भी मतभेद है. बडुआ की पुस्तक में व दूसरे कवित्तों में १ लूमा, २ लूणा, ३ लक्ष्मण, ४ चूडराय व ५ लूडा, यह नाम अंकित है. उपर्युक्त कवित्त में जशवंत व समर नाम उपलब्ध होते हैं, व नेणसी की ख्यात में जसमरो व तेजसी के नाम लिखे हैं, इस विषय में ज्यादाह खुलासा प्रकरण २९ वां में किया गया है.

+ देवडा चौहानों में वर्तमान समय में भी शादी के समय पर विंद के पक्ष के, सिवाय विंद के दूसरे किसी आदमी को चौरी पर नहीं आने देते हैं.

\* आबु कब्जे करने के विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि, देवडा चौहानों ने अपनी २९ कन्याओं के विवाह



इस विषय में उक्त पुस्तक में चौहानों की राजावली के कवित्त में कविने कहा है कि—

x x x x x x x

“ पंचवीस पंवार तेड तोना तिड तोडै, थांणे गूजर खंड मुगल मंडाहर मोडै. ”

“ लणो सामो लोह मुवो दल्पल पंमारो, तेजसिंह अरवद सेस पीतीयै वधारे. ”

“ पग आण धरा गिर पालटे, वणु विरद आत्रत घणां; मूर थांन गया राखै सिको तपे त्रुग वीजड तणां. ”

x x x x x x x

उपर्युक्त कवित्त से पाया जाता है कि तेजसिंह नामके देवडा चौहान ने प्रथम आवु पर आकर ‘दलपत’ नामके परमार के हाथ से आवु कब्जे किया. तेजसिंह ने ही आवु लिया, उस विषय में एक दूसरा कवित्त के अखीर के चरण में कविने कहा है कि—

“ आवु तेजल आन दवावे, मछर परमार सातसें मारे. ”

वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, विजलराय के समयमें वि. सं. १३०७ में वडगाम व वि. सं. १३१० में मठार लिया गया, और वि. सं. १३५२ में परमारों के साथ ‘वाडेली’ में युद्ध हुआ, उसमें आवु कब्जे करने का संवत् दर्ज नहीं है, परन्तु दूसरी हस्त लिखित प्रति में लिखा है कि—

x x x x x x x

“ राव लुवोजी तथा पांचेई भाई आवु लीधो परमारां ने मार ने. गाम वाडेली वाद हुवो. संवत १३५२ साल परमार ७५२ मारीया. श्री अचलेश्वरजी वर हुओ. ”

x x x x x x x

परमारों के साथ करने का ठहराव मठार राज्यस्थान से किया, मगर परमारों ने बरात लेकर मठार आनेका मंजूर नहीं करनेसे आवु से पश्चिम दिशा में ‘पाईमता’ नामक पहाड की तलेटी में देवडे चौहानों ने लग्न समारंभ की तैयारी की. परमारों ने पहिले से एक अपने चारण को वहां पर भेज रखा था, उसकी देवडे चौहानों ने अच्छी सरभरा की, मगर वह जाने न पावे और कुछ भी समाचार न भेज सके, उसके वास्ते पक्का इन्तिजाम रखा गया. चालाक चारण को लग्न की तैयारी के साथ हथियार दुरूस्त होनेकी बातमी भी मिली, लेकिन वह समाचार कहलाने का मौका हाथ न लगा, जिससे मौका पाकर एक मिट्टी के ठिकरे पर कोयला से कुछ लिख कर एक भीड़ आवु पर जा रहा था, उसको जंगल में वह ठिकरा देकर परमारों को दे देने की समजूत की. उममें लिखा था कि—

“ विजड रे विवाह वख गोलीजे वाठके, बलके रे वाणां, सावल होवे सांतरा. ”

भीरने आवु पर वह ठिकरा पहुंचा दिया. उसको पढ कर परमारों ने यह मतलब निकाला कि विजलराय के वहां विवाह की तैयारी बड़ी धामधूम से हो रही है, और अफीम कसुंवा कटोरे भर २ के निकल रहे है, जिसकी खबर चारण न दी है. वस्तुतः चारण ने यह मतलब से लिखा था कि—“ विजलराय के वहां विवाह की सामग्री में तीरों के भाथे बलक ( झलक ) रहे है, और भाले दुरूस्त किये जाते हैं, यानी तुम्हारे वास्ते कटोरे भर २ के विप तैयार हो रहा है. ”

यह भी कहा जाता है कि पचीस परमारों की बरात आ पहुंची तब चारण ने एक विद को सान करके भाग जानेका इशारा किया, जिससे वह शाही में शामिल न रहते भाग गया, जिससे उनकी जान बचाने पाई, और वह रह गया जिससे ‘गियार’ यानी ‘बचा हुआ विद’ कहलया. जिसकी ओलाद वर्तमान समय में महीकांठा एजन्सी में ‘मोहनपुर’ आदि के नामसे मशहूर है. और परमारों में उनकी पहिचान ‘रीयोवर’ नामकी शाखा से कहलाई जाती है. जिस स्थान पर यह लग्न सम्पन्न हुआ वहां पर ही मत्र परमार कतल हो गये, वह स्थान ‘वाडेली’ यानी कतल करनेकी जगह के नामसे मशहूर है, वनिक वहां पर जो गांव बनाया गया वह “ वाडेली ” कहलाता है.

उक्त प्रति में यह दोहा अंकित है कि—

“ वीजड सूरं जे वडीयां, परमार सात सें परचंड; जालोर पत लीधो जुडे, आवै गढ अरबुद ”

मूता नेणसी की ख्यात के कवित्त व दूसरे प्रमाणों में मंत भेद इतना ही है, कि नेणसी की ख्यात मुआफिक जालोर में रावल कान्हडदेव था, उस समय में देवडे चौहानों ने आबु लिया वैसा मालूम होता है, और बडुआ की पुस्तक व दूसरी हस्त लिखित प्रति अनुसार वि. सं. १३५२ में वाडेली में युद्ध हुआ, और आबु कब्जे किया वैसा उल्लेख हुआ है. नेणसी की ख्यात में एक जगह लिखा गया है कि “ वि. सं. १२१६ महा वदि १ के रोज लूणा ने अपना पुत्र तेजसिंह की मदद से आबु लिया. ” परन्तु इसमें दर्ज हुआ संबत् विश्वास पात्र नहीं है.

आबु पहाड देवडे चौहानों ने कौन संबत् में लिया ? इस विषय में हस्त लिखित प्रति से पाया जाता है कि आबु कब्जे आने पीछे सात वर्ष बाद, ( वि. सं. १३५९ में ) राव लूभा ने चंद्रावती कब्जे किया, परन्तु बडुआ की पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया है कि महारावलूभा ने वि. सं. १३६७ में चंद्रावती में राज्यस्थान किया और गद्दी पर बैठा. सि.रा.ई. में अचलेश्वर के वि. सं. १३७७ के शिलालेख अनुसार, लूभा ने वि. सं. १३६८ में चंद्रावती में राज्यस्थान करने का लिखा है. जिससे अनुमान होता है, कि वि. सं. १३६० के अरसे में आबु पहाड देवडा चौहानों के कब्जे में आया है, क्योंकि उस समय जालोर में रावल कान्हडदेव गद्दी पर आ चुका था.

मूता नेणसी की ख्यात व दंतकथा में यह बात मशहूर की गई है कि देवडे चौहानों ने अपनी पचीस कन्या के विवाह के बहाने से आबु के परमारों को बुला कर मार डाले, परन्तु बडुआ की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित प्रति, जो उदयपुर से प्राप्त हुई है, ( जिसमें सिर्फ देवडे चौहानों का नहीं परन्तु दूसरे राज्य वंशों का भी अहवाल लिखा हुआ है. ) उसमें विवाह के बहाने का मुतलक जिक्र नहीं है, बल्कि वाडेली में युद्ध हुआ उसमें ७५२ परमार मारे गये, वैसा उल्लेख किया है. वस्तुतः ७०० ( कवित्त में सातसों है. ) या ७५२ परमारों का ‘ वाडेली ’ में दगा से मारा जाना, यह असम्भवित बात पाई जाती है, बल्कि पचीस विंदो की एक साथ वरात जाना, और धोका होनेके खोफ से मठार में शादी करने को नहीं जाते, पाईमता पहाड की तलेटी में डेरें खडे कराकर वहां पर लग्न समारंभ की तैयारी कराना, देवडा लूणा को आबु पर बतौर जामिन ओल में रखकर, वाद वरात लेजाना, वगैरह बातें इतनी अतिशयोक्ति वाली पाई जाती है, कि वह ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करने वाले हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते हैं. पाया जाता है कि देवडे चौहानों ने युद्ध करने के वास्ते

पाइमता पहाड की तलेटी में डेरे लगाकर अपनी छावनी की, और आबु के परमारों के पचीस सरदार, दृल्हा के नांइ वन ठन कर अपनी फौज के साथ उनसे युद्ध करने को वहां पहुंचे, जो सातसों परमारों के साथ वहां काम आये, और +तेजसिह देवडा ने दूसरी तरफ से आबु पहाड पर पहुंच कर, दलपत परमार आदि जो आबु पर रहे थे, उनके साथ युद्ध करके आबु कब्जे किया है, जिसके वास्ते शादी के अलंकार देकर किसी कविने यह घटना जोडने की तजवीज की है, कींवा परमारों की बरात देवडों के वहां जाने पर शादी में कुछ तकरार उपस्थित होनेसे पचीस परमार सरदारों ने उन पर आक्रमण करनेसे 'वाडेली' में आकर देवडे चौहानों से लडाई की होगी.




+ तेजसिह विजयराय के पुत्र लूणा का पुत्र था. नेणसी की ख्यात में लूणा आबु पर दलपत परमार के साथ लडकर मारा जाना लिखा है, परन्तु दंतकथा व बहुभा की पुस्तक से 'लूणा' मदार के युद्ध में काम आया था, वैसा मालूम होता है.



महाराव लूभा ने मेरूपतंग नामके परमार को मारकर चंद्रावती लिया, ऐसा हस्त लिखित प्रति में लिखा है, परन्तु चंद्रावती के परमारों के इतिहास परसे, अग्रसेन व उसका पुत्र मेरूपतंग चंद्रावती में राजा थे ऐसा मालूम नहीं होता है, जिससे यह अनुमान होता है कि महाराव लूभा ने चंद्रावती नगर कब्जे किया, उस समय में चंद्रावती के परमारों की स्थिति बहुत अव्यवस्थित होजाने के कारण से चंद्रावती नगर एकही राजा के कब्जे में स्थायी नहीं रहने पाया था.

### १ वंशवृक्ष चंद्रावती के देवडे चौहान.

१ मानसिंह उर्फ माणीजी ( जालोर के सोनगरा चौहान वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. )



### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ माणीजी व नं. २ देवराज का अहवाल प्रकरण २३ व २४ में आचूका है.

नं. ३ वोडा के पोते 'विकल' को चंद्रावती में राज्यस्थान होजाने बाद काछोल पट्टा को जागीर दी गई, और बाद में वह छूटाकर सियाणा का पट्टा १३ गांवों से दिया. इसकी ओलाद वाले 'वोडावत' या 'वोडा चौहान' कहलाते हैं. वर्तमान समय में

÷ चंद्रावती के परमार राजाओं के इतिहास में वि. सं. १३४४ में परमार प्रतापसिंह होना पाटनारायण के मन्दिर के शिलालेख से, वि. सं. १३४७ में प्रतापसिंह का पुत्र अर्जुनसिंह होना धांधपुर गांव के शिलालेख से, और वि. सं. १३९६ में विक्रमसिंह होना बर्माण गांव के सूर्यमन्दिर में ढगे हुए शिलालेख से, मालूम होता है. बडुआ की पुस्तक में विवाह शादी के अहवाल में जो जो परमारों के नाम उपलब्ध होते हैं, उनसे उस समय में जालोर के रावल चाचिगदेव की परमार राणी आवु के पंवार उदयसिंह की पुत्री थी, व महाराव लूभा की परमार राणी परमार कर्णसिंह की पुत्री होना लिखा है, (कर्णसिंह कहां का या वह नहीं लिखा है.)

नोट:— उपर्युक्त वंशवृक्ष में जो जो शाखाएं बतलाई हैं उनमें से, नं. ३ बावनगरा देवडा व नं. ४ वसी के देवडा, इनका अहवाल इस प्रकरण में लिखा है, और दूसरी शाखों का वंशवृक्ष इस पुस्तक के दूसरे विभाग में दिया गया है, जिससे उनके बाप्ने ज्यादा अहवाल इस प्रकरण में नहीं लिखा है.

बोडावतों के पाटवी 'सियाणा' के ठाकुर हैं, और वह जागिर जोधपुर राज्य में है, बोडावतों की दूसरी जागीरें परगने जालोर व दहियावटी में भी हैं.

नं. २ वाला की ओलाद वाले 'वालोटर चौहान' कहलाते हैं, वालाजी के पुत्र विसलदेव 'गुडा' छोड़कर चंद्रावती आया, जिसको वि. सं. १३७९ में डोडीआली पट्टे की जागीर ८४ गांवों के साथ दी गई, डोडीआली पट्टा इस समय में भी वालोटर चौहानों के कब्जे में जोधपुर रियासत में है.

नं. ३ चीवा के पुत्र सग्रामसिंह को वि. सं. १३६५ में आबु राज्यस्थान होने बाद 'कोरटा' पट्टे की जागीर ४२ गांवों के साथ दी गई, बाद में वह पट्टा छुट गया, और कालंद्री व मेर मांडवाडा आदि की जागीरें देनेमें आई थी, लेकिन पीछेसे वह जागीरें दूसरों को देकर चीवावतों को कपासीआ, पांथावाडा, आदि गांवों की जागीरें दी गईं. चीवा की ओलाद वाले 'चीवावत' या 'चीवा चौहान' कहलाते हैं. इस समय में चीवावतों की जागीर के कितनेक गांव रिसायत पालनपुर में व कितनेक सिरोही रिसायत में हैं.

नं. ४ अभयसिंह को ओलादवाले 'अवसी' या 'अवावत' नाम से मशहूर है. अभयसिंह के पोता वाघसिंह के दोनों पुत्र 'हरपाल व हमीर' जालोर से मिली हुई 'गुडा' की जागीर छोड़कर चंद्रावती में आये, जिससे वि. सं. १३९१ में उनको जीरावल, मांडवाडा, काइद्रा, आदि गांवों की जागीरें दी गईं, परन्तु वह जागीरें नाओलाद होने पर खालसा राज हुई. इस समय अवावत चौहानों के तरफ सिरोही रियासत में, देलदर, कीवरली, आदि गांवों की जागीरें हैं.

नं. ३ बिजलराय का अहवाल अगले प्रकरण में आ चुका है.

नं. ३ अरिसिंह के पुत्र वरसिंह को मामावली पट्टा जागीर में मिला था, जिससे इसकी ओलाद वाले 'मामावला देवडा' कहलाये गये. इस समय मामावले देवडों की खास स्वतंत्र जागीर नहीं है, मगर बाज २ जगह राजपूत दावे से अरठ, जमीन, दूसरे जागीरदारों की तहत में खा रहे हैं.

नं. ४ महाराव लूभा उर्फ लूभकर्ण देवडा चौहानों के राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरुष है. इसके विषय में, सि. रा. ई. के पृष्ठ १९० पर लिखा गया है कि 'उनके समय के वि. सं. १३७२-१३७३-१३७७ के शिलालेख आबु पर से मिले हैं. उन्होंने अचलेश्वर महादेव के मन्दिर में मंडप का जिर्णोद्धार कराकर उक्त मन्दिर में अपनी व अपनी राणी की मुर्तियां स्थापन की. तथा हेठुंजी (हेटमजी) गांव अचलेश्वर महादेव को अर्पण किया. इनका मुख्य मंत्री साह देवीसिंह था.' वडुआ की पुस्तक मुआफिक इसकी राणी सिसोदणी सहोदरादेवी चित्तौड के रावल रतनसिंह की पुत्री थी, उससे

कुमार सलख का, और भटीयाणी गुमानदेवी जैसलमेर के रावल मेहाजल की पुत्री से कुमार दृदा का, व राठौरी द्रुपादेवी ' जोहल ' के राठौर भाणा जेतमलोट की पुत्री से कुमार चाहड का, जन्म हुए थे. महाराव लूभा का देहान्त वि. सं. १३८९ में हुआ.

नं. ६ लूणा की ओलाद के वास्ते, वडुआ की पुस्तक मुआफिक उसका पुत्र नं. ६ तेजसिंह को आवु, मढार, वांकडीया वडगाम, आदि गांव देनेमें आये थे, और दूसरा पुत्र नं. ६ तिहणुक को ' धाका धानेरा ' आदि गांव मिले थे, लेकिन तेजसिंह की ओलाद में ना ओलादी होनेसे, आवु व मढार की जागीरें रियासत में शामिल हो गई, और वांकडीया वडगाम की जागीर तिहणुक के पोता देवीसिंह को देनेमें आई, जिसकी ओलाद वाले ' वडगामा देवडा ' कहलाते हैं.

वडगामा देवडों का एक ' आकुना ' नामक गांव सिरोही रियासत में है. और दूसरी सब जागीरें रियासत जोधपुर की हद में जाने पाई हैं.

सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में, नं. ६ तेजसिंह के नामके वि. सं. १३७८-१३८७-१३९३ के शिलालेख आवु पर विमलशाह के बनाये हुए जैन मन्दिर में व अचलेश्वर के मन्दिर में होनेसे, उसको महाराव लूभा का पुत्र, और उसके पीछे चंद्रावती का राजा होना माना गया है. सिरोही गेझेटियर में राव लूभा के तेजसिंह, कान्हडदेव, सलखा, व रणमल नामके चार पुत्र होना लिखा है, परन्तु देवडा चौहानों के वडुआ की पुस्तक, और दूसरी हरएक हस्त लिखित प्रतिओं में, व सूता नेणसी की ख्यात में भी तेजसिंह को लूभा का पुत्र होना नहीं लिखा है, बल्कि महाराव लूभा के पीछे उसका पुत्र + ' सलखा ' चंद्रावती में गद्दी पर आया था, वैसा स्पष्ट लिखा है. दंत कथा व गीत कवितों में भी लूणा का पुत्र तेजसिंह होना, व ' सलखा ' महाराव लूभा का पुत्र होना पाया जाता है. सूता नेणसी की ख्यात में देवडा चौहान राज्यवंश का जो कवित है उसमें लिखा है कि.

“ तेजसिंह प्रमार उभै चूके आवंटे; दशमो ग्राह लूभेण पुत्र ते 'सलख' प्रगटै. ”

इस विषय में दूसरे कवि ने कहा है कि.

“ तिये लूणा तणां कुंवर लंकाळ; तेजसी तेहणो ने रावत काळ. ”

“ आप तेहणो वडनगर वालो; मंडाहर तेजल मूछालो. ”

“ आवु तेजल आण दवावे; मछर प्रमार सात सें मारे. ”

+ सूता नेणसी की ख्यात में राठौर ' सिंहा ' के इतिहास में लिखा है कि ' सिंहा ' के बाद उसकी ओलाद में कन्नश: आमपान, घुहड, रायपाल, व कान्ह हुए. कान्ह का विवाह देवडीजी कल्याणदे राव सलखा लूमावत की पुत्री के साथ हुआ था. इससे स्पष्ट मालूम होता है कि लूभाजी का पुत्र ' सलख ' ही था.

पाया जाता है कि तेजसिंह के तरफ पहिले मठार का पट्टा था, और चंद्रावती में राज्य स्थान होने बाद आबु भी तेजसिंह के तरफ रहा. आबु तेजसिंह के कब्जे में होनेके कारण से वहां के मन्दिरों में उस समय के कब्जे वालों का नाम राजा के तौर पर शिला लेखों में लिखा गया है, जो लिखने का सामूली प्रचार था.

नं. ४ लक्ष्मणसिंह को 'सकुडा' (जो आबु के पहाड की दक्षिण दिशा की तलेटी में है) पट्टा की जागीर दी गई थी. इसकी ओलाद वाले पीछेसे "बावनगरा देवडा" कहलाये. बावनगर कहलाने का कारण यह है कि, उन्होंने मेवाड के पहाडों में 'बावन गिरोह' अलग २ होकर निवास किया था, जिस जगह पर पीछेसे महाराणा उदयसिंह ने अपने नामसे 'उदयपुर' शहर बसाया, जिससे उन देवडों के कितनेक गांव, शहर की आवादी में व कितनेक गांव 'पीछोला' तालाव बनवाया उसके नीचे गये. 'बावनगरा देवडों' की मेवाड में मटोड, देवारी, लकडवास, आदि जागीरें हैं, और कितनीक मालवे में गांव बरडीया, वेपुर, आदि स्थान में हैं.

नं. ४ लूढा के पुत्र विशलदेव को ऊमरणी की (जो आबुराज के तलेटी में अमरावती नगर के नामसे मशहूर था) जागीर दी गई थी. विशलदेव एक सेर अमल (अफीम) रोजमररा खाता था, यह मेवाड के राणा साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. इसके दो पुत्र माणिक व मोकल थे, वे मांडवगढ के बादशाह की सेवामें उपस्थित हुए थे, जिससे उनको वहां अच्छी जागीरें मिली, मगर पीछे वह जागीरें छूट जानेसे 'वसी' गये, जिनकी ओलाद वाले 'वसी के देवडे' कहलाये. इस समय में 'वसी' की जागीर ग्वालियर रियासत की तहत में है.

नं. ५ महाराव सलखा के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि. सं. १३८९ में चंद्रावती को गद्दी पर आया, परन्तु 'सिरोहो राज्य का इतिहास' नामकी पुस्तक में, राव लूभा के पुत्र तेजसिंह वि. सं. १३७८ के अरसे में गद्दी पर आना, और उसके पीछे तेजसिंह के पुत्र राव कान्हडदेव वि. सं. १३९४ में गद्दी बैठने का लिखा गया है, और उसके समर्थन में (पृष्ठ १९०-१९१-१९२ पर) लिखा है कि आबु पर तेजसिंह

१ बावनगरा देवडा के स्थान के विषय में मृता नेणसी की ख्यात में उदयपुर बसाने की तवारीख में लिखा है कि.

× × × × "उदयपुर री ठोड अठे देवडा वसता गांव, ५२ गिरवार रा कहावता, तिका गांवांरी वीगत. गिरवार देवडारो. अजेस देवडा इण गावां मांहे माणस हजार २००० रहे छे, १ पीछोली, १ पाळडी री ठोड उदैपुर-आहाड १ दहवारी १ दीकली १ लकडवा १ कलडवा १ मटुण १ कोटको १ तीतरडी १ भवणो १ अंवेरी वेदलो १ रूआंध १ छापरोली १ लखाहोली १ वेहडवा १ चीखलवा, १ वडगांव १ देवली १ मुंडखसोल १ वडी १ थूर १ वरसडा १ नाई १ बुजडो १ सीतारमो १ धार देवडो बलू उदै भाणोत देवडां में वडेरा दीवाण रो चाकरछे टका १५००० रेख पावे छे." × × × ×

\* बडुआ की पुस्तक में राव लूभा ने वि. सं. १३७९ में, व राव सलखा ने वि. सं. १३८९ में बडुआ हन्दिान को सीख देनेका लिखा है.



के समय के वि. सं. १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेख हैं, उसमें उसका नाम मिलता है, जिसने झामडुं, ज्यातुली, और तेजलपुर यह तीन गांव वशिष्ठजी के मन्दिर को अर्पण किये थे. उसी मुआफिक कान्हडदेव के समय के वि. सं. १३९४ व १४००, के शिलालेख आवु पर हैं, जिसके समय में आवु पर वशिष्ठजी का मन्दिर, जो विद्यमान है वह नयेसर बना. कान्हडदेव की मूर्ति अचलेश्वर के मन्दिर के सभा मंडप में है, व उसके समय में वीरवाडा गांव वशिष्ठ के मन्दिर को भेट किया. कान्हडदेव के पीछे उसका पुत्र सामन्तसिंह गद्दी पर आया, जिसने लुहुणी, छापुली, और किरणथला, यह तीन गांव वशिष्ठ के मन्दिर को भेट किये, उसके बाद 'सलख' चंद्रावती की गद्दी पर आया. उक्त पुस्तक के पृष्ठ १९२ में यह तीन राजाओं के नाम और किसी जगह न होनेका कारण यह बताया है कि, राव लूंभा के दो पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र तेजसिंह के घराणा में राज्य रहने बाद, छोटे पुत्र तिहणाक के वंश में राज गया हो, और उसमें 'राव सलखा' पहिला राजा हुआ होगा. ६

बहुआ की पुस्तक मुआफिक राव सलखा को चार राणीयां थी, जिसमें झाली जतनादेवी देलवाडा के झालाराज अजा की पुत्री से कुमार रडमल्ल का, व चुडासमा के राव भाण की पुत्री सरलादेवी से कुमार भाखरसिंह, के जन्म हुए थे. राव सलखा ने वि. सं. १३९९ के चैत्र वदि २ को आवु की तलेटी में ऋषिकेश का मन्दिर बंधाया, और वि. सं. १४०४ में युद्ध में काम आया. ( युद्ध किसके साथ हुआ, वह लिखा नहीं है, लेकिन नं. ४ लूंढा का पुत्र विशलदेव मेवाड के महाराणा के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया है, जिससे पाया जाता है कि शायद राव सलखा भी उसी युद्ध में काम आया होगा. ) इसके देहान्त होनेके कारण में यह भी कहा जाता है कि, उसने आवु पर 'ईशान भेरू' नामक एक मणीधर सर्प का मणी निकाल लेनेके वास्ते, तेलकी कढाई गरम कराकर उसमें मणीधरको डालने का प्रयत्न किया, जिसपर 'ईशान भेरू' चार वर्ष के बालक रूप में तेलकी कढाई पास आया, और पीछेसे भयंकर रूप करके गरम तेल पी गया, बाद सलखा मारा गया.

१ उपर्युक्त वशिष्ठजी के मन्दिर में चढ़ाये हुए गांव, इस समय में मन्दिर के तरफ नहीं है, और सिवाय वीखाडा गांव के दूसरे सब गांवों के ताहुक आवु व म्दार परगने से हैं. तिहणाक की ओलाद में उनके पुत्र रामसिंह व सबलसिंह होना बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है, और इन दोनों की ओलाद वाले वर्तमान समय में बडगामा व वागडिया देवडा कहलते है. ( देखो दृग्ग विभागमें वंशवृक्ष बडगामा देवडा. )

नोट—दंतकथा में कहा जाता है कि राव सलखा के पीछे जो राजा हुआ. वह अपनी दो राणीयां के साथ आवुपर अचलेश्वर के मन्दिर पास जो मंदाकनी है, उसमें जलक्रीडा करने को गये. जिस पर महादेव के पुजारी को स्वप्न हुआ. पुजारी ने राजाको कहा, मगर उमने नहीं माना, और जलक्रीडा की, जिससे उसकी राणी का कुंडल मंदाकनी में गिर गया. वह निकालने के वास्ते राजाने जल में डुबकी मारी, लेकिन वापिस नहीं आया, उप पर उसकी दोनों राणीयां ने महादेव के मन्दिर में धरणा दिया, तब तीन पहर पीछे कटा हुआ शिर् बहार आया, और देह पहर बाद धड आया, उसको लेकर दोनों राणीयां वहां मनी हुई.

नं. १/१ दूदा की ओलाद में : 'कीतु' हुआ, जिससे उसकी ओलाद वाले 'कीतावत देवडे' कहलाये, वर्तमान समय में इसकी ओलाद सिरोही रियासत में व जोधपुर रियासत में विद्यमान है.

नं. १/२ चाहड के पुत्र गोसल के नामसे उसकी ओलाद वाले 'गोसलावत देवडे' कहलाये, जिसकी ओलाद वाले सिरोही रियासत में 'मामावली' गांव में विद्यमान है.

नं. ६ महाराव रडमल उर्फ रणमल वि. सं. १४०४ में चंद्रावती में गद्दी पर बैठा, इसकी चार राणीयां थी, उनमें से मेवसीजी भगवतीदेवी राव मेहाजल की पुत्री से कुमार शोभा का, व राठौरी जतनादेवी राठौर राव सेका वाघावत की पुत्री से कुमार गजेसिंह का, जन्म हुए थे.

इस महाराव के समय में काछेल (जोधपुर रियासत में सियाणे के पास के पहाड को काछेल कहते हैं.) के बोडा चौहान 'विकलसिंह' ने सोलंकीयों की सहायता से बंड उठाया, जिसपर उसको मारकर 'काछेल' छीना गया, और बादमें उसके पुत्र महिपाल को 'सियाणा' पट्टा की जागीर १३ गांवों से दी गई, विकलसिंह की यह कसूर में उसकी ओलाद वालों को बहुत कम जागीर दूसरे भाईओं के मुकाबले में रही.

विकल के साथ जो युद्ध हुआ, उस विषय में कवि ने कहा है कि.

- x x x
- “ अरवद ही रिणमल, अने विकल काचोले; सोलंकीयां सहाय, बोल हुय भारी बोले. ”  
 “ कटके ढक अरजक निवह देवडो निहदे; बोडो विरदपगार आव विसर आ हटे. ”  
 “ पलखंड चंड भुव डंड, रिबडात कारण खल खुंटीयां, चापडै वीस चवदह चढे आरोयण आवटीया ”

नं. ७ महाराव शोभा उर्फ शिवभाण वि. सं. १४४९ में चंद्रावती में गद्दी पर आया. इसने चंद्रावती नगर को राज्यधानी के काबिल न समजने से सरणुआ पहाड की तलेटी में वि. सं. १४६२ में अपने नामसे 'शिवपुरी' नामक शहर व किला बनाने का 'सिरोही राज्य का ईतिहास' नामकी पुस्तक में लिखा है. बडुआ की पुस्तक में उसने वि. सं. १४६० में खोबा की सिरोही बसाना लिखा गया है. दूसरी हस्त लिखित प्रति में वि. सं. १४६१ में सिरोही बसाना दर्ज हुआ है. जो जगह इस समय 'पुरानी सिरोही' कही जाती है, उसके प्राचीन खंडेर नष्ट प्राय हो गये हैं, परन्तु श्री आदिनाथ का जैन मन्दिर जो उस समय में बंधाया गया था, वह महाराव शोभा व पुरानी सिरोही का स्थायी स्मारक है. इस मन्दिर के पास वि. सं. १४७५ का शिला लेख है, जिसमें 'महाराजा-धिराज देवडा शोभा केन, राजश्री सहसमल सहितेन 'सिरोही स्थाने' यह हरूफ लिखे हुए है. यह शिला लेख आदिनाथ की पुजार्थे जमीन देनेका प्रमाण होना कहा जाता है. वर्तमान समय में यह जगह 'थुंकीवाडी' के नामसे प्रसिद्धि में है.

महाराव शोभा की राणीयां में जुनागढ का यादव राजा 'सोढा' की पुत्री 'चंदा देवी' महासती होना, और वह वि. सं. १४७२ में सती होना बडुआ की पुस्तक में लिखा है, परन्तु राव शोभा का देहान्त होनेका समय वि. सं. १४८१ का होना बताया है. उपर्युक्त शिलालेख से राव शोभा वि. सं. १४७५ में विद्यमान था. इस सूरत में राणी चंदादेवी को महासती होनेका कोई खास कारण होना चाहिये.

नं. ५ गजेसिंह चंद्रावती में ही विद्यमान था, और उसका देहान्त भी चंद्रावती में होनेसे उसकी राणी 'देवकुंवर' सोलंकी जगमाल वीदावत की पुत्री चंद्रावती में सती हुई. उसके पुत्र 'डुंगरसिंह' को चंद्रावती राज्यस्थान से ही 'राडवर' की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद वाले 'डुंगरावत देवडे' कहलाये गये. सिरोही रियासत में पाडिव, कालंद्री, मोटागांव, व जावाल, ठिकाणों के सरदार डुंगरावत हैं, जो मुख्य सरायत (सामन्त) हैं.

महाराव शोभा ने सिरोही में राज्यस्थान करने से चंद्रावती नगर बरबाद होने की शरूआत होकर वह विक्रम संवत् की सोलहवीं सदी की शरूआत में ही नष्ट हो गया, और शनै, शनै, इस नगर के आरसपहाण से बने हुए मन्दिरों ने भी उनके बनाने वालों के नाम नष्ट प्राय करने के वास्ते, जमीन दोस्त होने की शरूआत करके, नगर को झगर बना दिया. वर्तमान समय में उनके खंडेर उनकी मुलाकात लेने वाले को, कुदरत के कोष की यादगार दिलाकर गर्वित मनुष्यों के गर्व गलित कर देते हैं.




## प्रकरण २६ वाँ.

### देवडा चौहान का सिरोही में राज्यस्थान.


चलू देवडा चौहान सिरोही. ( नं. ७ शिवभाण से नं. ११ अखेराज तक. )

७ शिवभाण उर्फ शोभा ( राज्यस्थान सिरोही नगर )



\* नं. ३३ रत्नसिंह का नाम भूता नेणसी की ख्यात में है, जिसमें नं. ३३ नरहरदास को नं. १७ महाराज अखेराज ने चूक करके मारा था, वैसा उल्लेख किया है.

२१ जगतसिंह ( चल्द नं. २० मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह का पुत्र. )



नोट—इस वंशवृक्ष में बड़े हरफों वाले नाम सिरोही के गद्दी पर बैठे हुए महारावों के हैं.

### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. ७ महाराव शिवभाण उर्फ शोभा के विषय में प्रकरण २५ वां में अहवाल आचूका है.

नं. ८ महाराव सहसमल उर्फ शोसमल, वि. सं. १४८१ में पुरानी सिरोही में गद्दी पर बैठा. यह एक दिन सरणुआ पहाड की पश्चीम दिशा की तलेटी तरफ शिकार खेलने को गया था, वहां सिचांणा आकाश में उड रहा था, उसके उपर खरगोश ने फाल भर करके सामना करने का तमाशा नजर आनेसे, वह भूमि वीरत्व वाली होनेका अनुमान कर, उस जगह पर नगर बसाने का निश्चय किया, और वि. सं. १४८२ के वैशाख सुद २ के रोज वर्तमान सिरोही नगर की नींव डाली गई. इस विषय में किसी कविने कहा है कि,

छप्पय

“ सम्मत चउदेसाल बरस वियासी बखाने; बीज सुद्ध वैशाख, जको गुरुवार ही जाणै. ”

“ श्री-नृप चढे शिकार, धरा पुरव जण धरियो; शांचाणे खरगोश, फालदे पाछो फरियो. ”

“ गरमी जगा देखे सुधर, खरे नेम बेला खरी; सहसमल्ल राव शोभा तणे, सिरोही थापन करी. ”

इस महाराव के समय में मेवाड के राणा कुंभा को मेवाड छोडना पडा, जिसको महाराव ने आश्रय देकर वसंतगढ में रखा, और बाद में आवु पर अचलेश्वर में निवास-स्थान दिया. आवु जैसी जगह हाथ लगने पर, राणा कुंभा की दियानत में फुरक आया, उसने मकान दुरूस्त करने के बहाने से अचलगढ के किले की मरम्मत कराई, और बादमें भालिक बनकर बैठ गया. ‘सिरोही राज्य का इतिहास’ नामक ग्रंथ में लिखा है कि, राणा कुंभा गुजरात के सूलतान की फौज से हारकर, महाराव लाखा की

रजामन्दि से आबु पर आ रहा था, और सिरोही की ख्यात में भी वैसा लिखा है, परन्तु मेवाड की ख्यात से मालूम होता है कि, सिरोही के महाराव सहसमल ने मेवाड के कितनेक गांव दबा लिये, जिससे राणा कुंभा ने आबु का किला अपने राज्य में मिलाना चाहा, और सिरोही पर फौज भेजकर आबु आदि स्थान छीने गये. कुंभा ने सिरोही की सीमा में वसंतगढ का किला बनवाया, और वि. सं. १५०९ में अचलगढ का किला दुरूस्त करके, अचलेश्वर के मन्दिर के पास कुंभ स्वामी का देवल और कुंड बनाये.

दंत कथा में कहा जाता है कि राणा कुंभा के समय में, सिरोही रियासत के रुवाई व भितरोट ( पिन्डवारा, रोहीडा व सांतपुर ) परगने, मेवाड के कब्जे में चले गये थे, और वर्तमान सिरोही से देढ कोश पर ' बारी घाटा ' नामक जगह पर मेवाडीओं की चौकी बैठी थी.

देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि मालवे के सुलतान ने राणा कुंभा को मेवाड से भगाया, तब सिरोही के महाराव सहसमल ने उसको आश्रय देकर आबु पर शरणे रखा, बाद में मौका पाकर कुंभा ने आबु पर अपना कब्जा कर लिया. पाया जाता है कि महाराव सहसमल ने उसको आश्रय देकर रखने के बाद, उसकी दियानत में फर्क आनेसे जब उससे आबु छूडाने की तजवीज की है, तब उसने सिरोही पर आक्रमण करके यह परगने भी छीने है.

राणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण करने से, उस युद्ध में+ कितनेक देवडे सरदार काम आने का बडुआ की पुस्तक से भी पाया जाता है, बल्कि महाराव सहसमल का बडा पुत्र ' देवीसिंह ' वि. सं. १५०७ में कुंभा के साथ युद्ध में काम आनेका उक्त पुस्तक में उल्लेख हुआ है.

महाराव सहसमल ने राणा कुंभा से आबु छूडा ने के वास्ते बहुत युद्ध किया, परन्तु सफलता प्राप्त न होनेसे उसने गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन की सहायता लेना चाहा था, वैसा मूता नेणसी की ख्यात में लिखे हुए कवित से पाया जाता है, यानी कवि इस विषय में कहता है कि—

x                    x                    x                    x                    x                    x

“ कुंभ करण अरबद लियो, म सरणुओ सहेतो, साहसमल सुलतान, जाय श्रेग वास पहुंतो. ”  
 “ कर उपर क्रुतवदी, ईतो क्युं वेगो आवे, गयो राण ओघाट, घाट पर गढ पाडावै. ”  
 “ वीटे बहुरंग थाणे व्रहै, पनरेती पालेटीया, मछरिक सु कर मेवाडरा, असंख शेर आहुटीया. ”  
 “ पग आणे धर प्राण, संपरण साहसमल मंगे, तणे पाट लख धीर, मयंक उग्रे जग मंगे. ”

x                    x                    x                    x                    x

+ बडुआ की पुस्तक में चित्रा चौहानों की ख्यात में लिखा है कि चित्रा रायघर शोभ्रोत, मेवाड के राणा कुंभा ने वि. सं. १४९९ में सिरोही पर रुवाई की तब सारणेश्वरजी के स्थान में युद्ध में मरा गया.

इस कवित्त का आशय यह है कि, राणा कुंभा ने आबु लेनेसे सरणुआ का सहेसमल खामोश नहीं कर सका. उसने सुलतान कुतबुद्दीन की सहायता चाही, और सुलतान से कहा कि राणा का घरका मुलक चला गया, और दूसरे का मुलक दबाना चाहता है. सहसमल ने बहुत दफे मेवाड के थाणो पर घेरा दे दे कर असंख्य मेवाडी सरदारों को मारे, और भूमी कब्जे करने के उद्योग में हो अपना प्राण दिया.

महाराव सहसमल की चार राणीयां थी. जिसमें सिसोदणी 'राजादेवी' वागोर के महाराज जशराज की पुत्री से कुमार देवीसिंह, व लखा, के जन्म हुए, और राठौरी 'वजादेवी' सेहवाल के राठौर सामंतसिंह की पुत्री से कुमार शांगा का जन्म हुआ, जो बालक अवस्था में ही गुजर गया. वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, इसका देहान्त वि. सं. १५०८ में हुआ, और इसकी तीन राणीयां सती हुईं.

नं. ६ 'शिहा' की ओलाद वाले 'लोटानचा देवडा' के नामसे, प्रसिद्ध हुए. जिसकी ओलाद सिरोही रियासत में विद्यमान है.

नं. ७ सातल की ओलादवाले 'लखमणोत देवडा' कहलाये जिसकी ओलाद सिरोही व जोधपुर रियासत में विद्यमान है.

नं. ९ देवीसिंह कुंवर पद पर ही, महाराणा कुंभा के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. जिससे महाराव सहसमल का दूसरा पुत्र लखा सिरोही की गद्दी पर बैठा.

नं. १ महाराव लखा वडा पराक्रमी राजा हुआ, इसके नामसे देवडा चौहानों में 'लखावत' नामकी शाखा प्रसिद्धि में आई. इसने आबु पहाड पर से मेवाडीओं को हटाकर पुनः अपना कब्जा कर लिया, और महाराव सहसमल के समय में डोडियाली के बालोतर, गोडवार के बालीसे चौहान, स्वतंत्र हो गये थे उनको सजा देकर अपनी हुकूमत जमाई, और कांछेल पहाड के नजदीक रहने वाले कोलीयों को वश कर के अपने राज्य की सीमा में बहुत तरक्की की.

इसके समय में माल मगरे के आसपास (लाय, मणादर आदि) रहने वाले सोलंकीओं ने सामना करने से, उन पर चढाई कर सोलंकी ×भोज को मार कर उनके परिवार को देश नीकाल कर दिये.

महाराव लखा के विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में अंकित हुआ कवित्त में लिखा है कि—

× × × ×  
"जे बालोतो सिंह नला आकासह नांसे, औबासे उस सै ठाण कोटां नुं धांसे." ×

"शिवपुर वसै ग्रह सरणुवी, दैसां उपर देखीयो; बल सबल महाबल बोलीयो, परगह आप न पेखीयो." ×

“ सोलंकी संग्राम सात फेरा संघारे, गोवुपर गाहटे मछर चढ हुंगर मारे. ”

“ डोडीयाल काचेल सहन डंडे वालीसां, कोलीयां कडज काढ वोपतीसी चोवीसां. ”

“ जिण सयल तणां नदी नीर, जिम जीता सेन असंख जिण, लख धीर तणो सूरताण लग ताप न खिमे रोद्रतणं ”

x

x

x

x

महाराव लखा ने आबु पहाड लेनेके विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि ‘लखनऊ’ का नव्वाब, महाराव का पगडीबंध भाई था, जिससे महाराव ने गुजरात के सुलतान महमुद बेगडा को ‘पावागढ’ फतह करने में सहायता की थी, जिसके एवज में गुजरात के सुलतान ने इसको १७०० गांव गुजरात के दिये, लेकिन वह मंजूर नहीं रखते राणा कुंभा से आबु छूडा ने की इच्छा प्रगट की. सुलतान ने अपनी फौज महाराव को दी, और उनकी सहायता से आबु कब्जे किया, परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इस विषय में उल्लेख है कि—“ आबु पर राणा कुंभा का कब्जा होना इससे ( महाराव लखासे ) सहन न होसका, परन्तु ऐसे प्रबल राजा से युद्ध करके आबु खाली कराना असम्भव होनेसे, जबकि गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन, और मालवा के सुलतान महमुद ने शरीक होकर कुंभा राणा के उपर चढाई की, तब आबु पर से मेवाड की अधिकतर फौज कुंभलगढ तरफ चली गई, और थोडेसे आदमी आबु पर रहे, उस समय ( वि. सं. १५१४ ) में गुजरात के सुलतान की सहायता से आबु पर अपना अधिकार कर लिया. ”

गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने ई. स. १४५८ ( वि. सं. १५१३-१४ ) में आबु कब्जे करने का रास माला नामक पुस्तक की पृष्ठ ५०६ में अंकित हुआ है, जिससे पाया जाता है कि महमुद बेगडा के समय में नहीं, परन्तु कुतबुद्दीन के समय में ही आबु कुंभा राणा के हाथ से छूडाया गया था.

महाराव लखा ने गुजरात के सुलतान महमुद बेगडा को ‘पावागढ’ फतह करने के कार्य में सहायता करने का कई एक ख्यातों में उल्लेख हुआ है, परन्तु ‘पावागढ’ फतह करने का समय वि. सं. १५४१ का होना नीर्विवाद है. ( देखो गुजरात के खीची चौहान के प्रकरण १५ वां में पृष्ठ ११८ पर ) इससे अनुमान होता है कि शायद वि. सं. १५१४ में राणा कुंभा से गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने आबु अपने कब्जे में लिया है, परन्तु महाराव लखा के स्वतंत्र अधिकार में आबु पहाड नहीं लिया गया था, और आबु पर अपना स्वतंत्र कब्जा करने की गरज से ही, महाराव लखा ने ‘पावागढ’ लेनेके कार्य में सहायता करके उसके एवज में दिये जाते गुजरात के १७०० गांव नहीं लेते आबु पर अपना स्वतंत्र कब्जा कर लेना पसंद किया है.

यह बात प्रसिद्धि में है कि पावागढ फतह करने में शामिल होनेके कारण ‘पावा’की



अधिष्ठात्री देवी कालकाजी की प्रतिमा पावागढ से लाकर, महाराव लखा ने सिरोही में अखेलाव तलाव के ऊपर +स्थापित की, जो वर्तमान समय में वहां पर विद्यमान है.

महाराव लखा ने माल के मगरे का सोलंकी भोज को मारने के विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में सोलंकीयों के इतिहास में लिखा है कि, सोलंकी भोजा देपावत सिरोही के गांव लास, मुणावद, में रहता था, उसको सिरोही के राव लखा के साथ अदावत होनेसे युद्ध हुए, जिसमें पांच छः दफे सोलंकीयों ने सफलता न होने दी, जिससे ईडर के राजा की सहायता से हमला करके सोलंकी भोज को मार डाला.

इस विषय में रासमाला नामक पुस्तक को पृष्ठ ६२५ में उल्लेख किया है कि, इडर के राजा राव भाण ने लास गांव के सोलंकीयों को सजा देनेके कार्य में, सिरोही के राव लखा को सहायता की थी.

सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि महाराव लखा ने सोलंकी भोज को मारा, और उसका इलाका छीन लिया, जिससे उसके बेटा रायमल व पोते शंकरसिंह, सामन्तसिंह, सखरा व भाण, सेवाद में चले गये.

महाराव लखा ने पावागढ सर करने के कारण, गुजरात के बादशाह महमुद बेगडा ने इनको 'राव' की पदवी दी. ऐसा पुरोहित की पुस्तक में और दूसरी हस्त लिखित ख्यात की प्रति में उल्लेख है. इसने वि. सं. १५१५ में बडुआ हरपाल को 'ढढमणा' गांव वक्षा. और अपने नामसे 'लखेराव' तलाव बंधाया. इसकी राणी अपूर्व देवी ने वि. सं. १५२६ में सारणेश्वरजी में हनुमान की मुर्ति स्थापित की. वि. सं. १५२८ में इसने अपने पुत्रों हमीरसिंह, शंकरसिंह, उदयसिंह व मांडण को जागीरें दी.

बडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके सात राणीयां थी, जिसमें १ भटीयांणीजी राजां दे जेसलमेर के भाटी रायसिंह की पुत्री से जगमाल, २ राठौरीजी 'जतनां देवी' जोधपुर के राठौर राव सुंढा वीरमोत की पुत्री से हमीरसिंह, ३ चावडीजी जसां देवी मांणसा के चावडा हमीरसिंह को पुत्री से शंकरसिंह व उदयसिंह, ४ वाघेलीजी

+ सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में पृष्ठ २०० की टीपण्णी में लिखा है कि, " कालिका माता की मुर्ति वि. सं. १५१८ में पावागढ से लाई गई ऐमा एक ख्यात की पुस्तक में लिखा है " परन्तु जब कि वि. सं. १५४१ में महमुद बेगडा ने पावागढ पनाई रावल से लेलेना मां वित है तब वि. सं. १५१८ में काञ्जानी की मुर्ति पावागढ से लांकी बात अस्पष्ट वित पाई जाती है.

॥ सोलंकी भोज के साथ महाराव लखा को अदावत होनेका कारण यह था कि सोलंकी भोजा के पास एक नामी घोडा था, उस घोडे को महागव ने मांगा, जिस पर अपनी पुत्री के साथ विवाह करने पर घोडा देनेका उमन भंजुर किया. महाराव ने भोज की पुत्री के साथ शादी कर ली. पीछेमे भोज ने घोडा नहीं देते बहाना बताया कि यह घोडा मेरे भाई संग्राम का है सो देना न देना उसकी मर्जी पर है. महाराव ने सोलंकी संग्राम से घोडा मांगा परन्तु उसने नहीं दिया जिससे अदावत हुई, और उन लोगों पर चढ़ाई करके मारकर देश निकाल कर दिये.

देवादेवी साणंद के वाघेला वाघसिंह की पुत्री से मांडण, ५ सोलंकणीजी कुंभादेवी सोलंकी भोजा दीपावत की पुत्री से बाई फुलकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह चित्तौड़ के महाराणा लखा के साथ हुआ. इसकी एक राणी +सिसोदणीजी जसांदेवी चित्तौड़ के महाराणा रायमल की पुत्री थी, परन्तु सि. रा. ई. में इसकी एक राणी मेवाड के महाराणा शांगा की पुत्री होनेका अंकित हुआ है, लेकिन महाराणा शांगा वि. सं. १५६५ में गद्दी पर आया था, उस समय से ३५ वर्ष पहिले महाराव लखा का देहान्त होगया था. जिससे अनुमान होता है कि महाराणा रायमल की पुत्री होना बडुआ की पुस्त में लिखा है वह ठीक होगा.

महाराव लखा के ५ पुत्र होनेका बडुआ की पुस्तक में व एक कवित में उल्लेख है यानी—

“ लखपत रे झगडे हमीर जनमीया, साकर उदयासिंघ, मांडण कुंवर महावली, धराधर राखण धींग. ”

“ मुख आदर नेणां अमी, पाणे लाख पसाव, राव लखारा पांडरू, रायां उपर राव. ”

परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इनके सिवाय पृथ्वीराज व राणेराव नामके दो पुत्र और होना अंकित हुआ है. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित ख्यात की प्रति में, उन पांच पुत्रों के सिवाय सिर्फ पृथ्वीराज का नाम उपलब्ध होता है. बडुआ की पुस्तक में पृथ्वीराज का नाम नहीं है, परन्तु महाराव लखा का पोता ( हमीरसिंह का पुत्र ) राणुजी होना अंकित हुआ है. बल्कि हमीरसिंह के समय का वि. सं. १५४५ के महा सुद ३ के असवा गांव के शिलालेख में ( हमीरसिंह ने दी हुई भूमी के दान पत्र में ) हमीर के पुत्र देवडा राणा, जोधा, जीवा व बाई सूरताणदे, नवरंगदे, के नाम मिलते हैं. जिससे पाया जाता है कि राणेराव महाराव लखा का पोता होता था.

महाराव लखा के देहान्त के समय के विषय में मत भेद है. सोलंकीयों के इतिहास में लिखा है कि वि. सं. १४८८ के कातीक सुद १० को सोलंकी भोज के साथ युद्ध हुआ, जिसमें महाराव लखा अपने तीन पुत्रों सहित व सोलंकी भोज अपने पांच पुत्रों सहित मारे गये. परन्तु यह लिखना भरोसा पात्र नहीं है, क्योंकि वि. सं. १४८८ में सिरोही को गद्दी पर महाराव सहसमल विद्यमान था, और महाराव लखा अपने तीन

+ सि. रा. ई. में लिखा है कि महाराव लखा की एक राणी महाराणा शांगाकी पुत्री लक्ष्मीकुंवर थी. वैसे मेवाड के महाराणा रायमल का विवाह महाराव लखा की पुत्री चंपाकुंवर के साथ हुआ था. लेकिन बडुआ की पुस्तक में या सिरोही की दूसरी ख्यातो में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं है. पाया जाता है कि मेवाड की तवारिख से यह लिखा गया होगा.

\* राणा लखा वि. सं. १४३९ में मेवाड में हुआ था, जिससे बडुआ की पुस्तक में फूलकुंवर का विवाह उसके साथ होनेका लिखा है वह सही नहीं है, पाया जाता है कि राणा रायमल के साथ होना सि. रा. ई. में अंकित हुआ है वह दुरुस्त है.

पुत्रों के साथ काम आनेका दूसरी किसी ख्यातों में या दंत कथा में भी जाहिर नहीं हुआ है.

सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १५४० में होनेका लिखा है, परन्तु वह किस पर से लिखा गया वह अंकित नहीं हुआ है. बडुआ की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १५३० में होनेका उल्लेख है.

नं. १० महाराव जगमाल अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. जो कि महाराव लखा ने अपने हाथ से ही सब पुत्रों को जागीरें दे दी थी, परन्तु हमोरसिंह वडा चालाक था उसको संतोष न होनेसे, उसने महाराव जगमाल से आधा राज लेने के वास्ते झगडा फैलाया. महाराव अपने भाइयों पर वडा प्रेम रखते थे, जिससे उसने करीब आधा राज जितनी जागीर उसको दी, लेकिन उस पर वह रजामंद नहीं हुआ, जिससे महाराव ने उसको दवाने के वास्ते फौज भेजी. हमोरसिंह ने उस फौज का सामना किया और युद्ध में काम आया.

इस विषय में सूतानेणसी की ख्यात में जो कवित लिखा है उसमें उल्लेख हुआ है कि.

“ धर खाटे लख धीर दीध जगमाल हर्षारा; विने पाट पत वेध वेहुवै वर वीरा. ”

“ एक राव अरबद वीयो, सरणुयै वयाठो; एकाएक आगाह एक एकाह अपूठो. ”

“ राय भाण अनै सत नथ राय, द्रोखे आर x x ख वे धीयो. ”

“ भूय तणो ग्रास विहु भाइयां, आधो आध निमंधीयो. ”

“ दल मेले जगमाल पीड हमीर पहारै; विहलिखीयो धर वेध तां मस हवर संवारै. ”

इस कवित का आशय यह है कि महाराव लखा ने भूमि सम्पादन की, और जगमल व हमोर को दी, जिससे दोए पाट ( गद्दी ) हुए. और आपस में विरोध होने लगा. वह तकरार राव भाण ( इडर का राजा जो महाराव लखा का मित्र था, ) ने मिटाई, और आधो आध जमीन वांट दी. हमीर तब भी हेरान करने लगा, जिससे जगमाल ने फौज भेजी, और इस वहाने से हमोर को मार डाला.

+ महाराव लखा का देहान्त वि. सं. १५३० या वि. सं. १५४० में होनेकी बात इसने गुजरात के सुल्तान महमूद वेगडा को पावागढ फतह करने के कार्य में सहायता की थी इस घटना के साथ सम्पूर्ण तौरसे बंध बैठती नहीं है, क्यों कि वि. सं. १५४१ में महमूद वेगडा ने पावागढ कब्जे किया था. अगर महाराव लखा ने पावागढ फतह करने में, गुजरात के सुल्तान को सहायता की थी, यह बात मान्य रखी जाय तो यह अनुमान होता है कि, महमूद वेगडा के समय में नहीं परन्तु उनके पहिले गुजरात के सुल्तान महमूद ( जो वि. सं. की पंद्रहवी सदी में हुआ था. ) ने पावागढ के रावठ गंगदास पर चढ़ाई की थी, उसको सहायता की होगी. अगर इडर का राजा राव भाण के साथ महाराव लखाकी ज्यादा मित्रता थी और राव भाण ने अपमान का बदला लेनेके वास्ते पावागढ के रावठ गंगदास के उपर आक्रमण करके उसको कैद किया था, उस कार्य में सहायता करने के कारण महाराव लखा ने पावागढ सर किया था ऐसा जगह २ ख्यातों में लिखा गया है.

नोट—पामेरा गांव में मंडलेश्वर महादेव के मन्दिर पास एक शिलालेख वि. सं. १५३५ वैसाख सुदि ७ का है उसमें ' महागाय श्री जगमाल ' ने मंडलेश्वर का प्रासाद बनाने का अंकित है.

महाराव जगमाल की राणीयां व पुत्रादिक के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी पांच राणीयां थी, जिनमें एक मेवाड के महाराणा रायमल की पुत्री आनंदाबाई थी, और इसके तीन पुत्र अखेराज, मेहाजल और देदा व पद्मावती बाई नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के राठौर राव गांगा से हुआ था.

इस विषय में बडुआ की पुस्तक में महाराव जगमाल की राणी भटियाणीजी जैसलमेर के रावल जसपाल की पुत्री ' हीरादे ' का नाम सिर्फ अंकित है, और उससे कुमार अखेराज व मेहाजल के जन्म होनेका उल्लेख किया है, लेकिन एक जगह जगमाल का एक कुमार रत्नसिंह नामका फिर था वैसा दाखला मिला है, जिसकी ओलाद चली थी वह वंशवृक्ष में अंकित की है.

' टॉड राज्यस्थान ' की पुस्तक में लिखा है कि मेवाड के राणा रायमल की एक कुंवरी का विवाह सिरोही के राव ' जयमल ' ( जगमाल ) के साथ हुआ था, वह सिसोदणी राणी को दुःख देता था, जिससे राव जगमाल का साला पृथ्वीराज सिसोदिया ने सिरोही जाकर महाराव जगमाल को दवाकर अपनी बहिन का दुःख मिटा दिया, लेकिन उसका वैर लेनेके लिये महाराव जगमाल ने विष मिश्रित औषध पृथ्वीराज को दिया. पृथ्वीराज ने सिरोही से वापस मेवाड में लौटते रास्ते में उस औषध को खाया, जिससे उसका देहान्त हो गया, परन्तु सिरोही के बडुआ की पुस्तक में या दूसरी सिरोही की ख्यात में जगमाल का विवाह मेवाड के महाराणा के वहां होनेका उल्लेख नहीं है, बल्कि बडुआ की पुस्तक में महाराव लखा का विवाह मेवाड के राणा रायमल की पुत्री ' जसांदेवी ' के साथ होनेका लिखा गया है.

महाराव जगमाल के देहान्त के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १५८० अंकित हुआ है, परन्तु बडुआ की पुस्तकमें वि. सं. १५५७ में इसका देहान्त होनेका उल्लेख किया है, और वह ज्य्यादह भरोसा पात्र होना पाया जाता है.

नं. १<sup>०</sup> हमीरसिंह ने अपने नामसे हमीरपुरा गांव बसाया. यह महाराव जगमाल के साथ युद्ध में काम आया. इसके पुत्र राणा, जोधा व जीवा नामक होना वि. सं. १५४५ के असावा गांव के शिलालेख से पाया जाता है. राणा को धोरी पावटी के पट्टे की


× सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि पद्मावती बाई से जोधपुर के राव मालदेव, बरसल व मानसिंह नामके तीन कुमार व सोनाबाई नामकी कुंवरी के जन्म हुए. पद्मावतीबाई ने जोधपुर में ' पदमलसर ' तालाब बनवाया और वह वि. सं. १९८८ में अपने पति के साथ सती हुई.

\* महाराव जगमाल का देहान्त वि. सं. १९९७ में होना ज्य्यादह भरोसा पात्र मानने का कारण यह है कि इधका देहान्त वि. सं. १९८० में होनेका कोई प्रमाण सि. रा. ई. की पुस्तक में बताया नहीं है, जब इसका पुत्र अखेराज का वि. सं. १९९७ में गद्दी पर आना, वि. सं. १९६० में उसकी तरफ से ' अखेलाव ' तलाब बंधाना, व वि. सं. १९६२ में जालोर के खान मुजाखान को पकड़ लेना पाया जाता है, जिससे महाराव जगमाल का देहान्त वि. सं. १९९७ में होना सम्भवित है.

जागीर मिली थी, लेकिन वह नाओलाद होनेसे लखावत भाणसिंह रणधीरोत का बड़ा पुत्र शार्दूलसिंह उसके गोद गया, जो भी धोरी पावटी में लडाई में काम आया.

नं. १<sup>०</sup> शंकरसिंह को सांतपुर पट्टा की जागीर मिली थी, मगर उसके ओलाद न होनेसे वह जागीर राज्य में शामिल हो गई.

नं. १<sup>०</sup> उदयसिंह को वि. सं. १५२८ में नादीआ पट्टा की जागीर मिली. इसको ओलाद वाले सिरौही के लखावत कहलाये यानी—



(नं. ४ शार्दूलसिंह नं. १<sup>०</sup> हमीर के पुत्र राणा के गोद गया. नं. ४<sup>०</sup> सूरताणसिंह नं. १४ महाराव मानसिंह के गोद जानेसे सिरौही के महाराव हुए, जिसके वंशज वर्तमान समय के महाराव हैं, नं. ४<sup>०</sup> सामीदास, नं. ४<sup>०</sup> पृथ्वीराज, नं. ४<sup>०</sup> तेजसिंह, नं. ४<sup>०</sup> शार्दूलसिंह व नं. ३<sup>०</sup> सामन्तसिंह की ओलाद वाले क्रमशः दवाणी, निवज, भटाणा, दताणी व रहुआ आदि के लखावत सरदार हैं.)

नं. १<sup>०</sup> मांडण को दताणी पट्टा की जागीर मिली थी, मगर वह नाओलाद हुआ.

नं. १<sup>०</sup> पृथ्वीराज के विषय में कोई हाल मालूम नहीं हुआ.

नं. ११ महाराव अखेराज बड़ा वहादुर राजा हुआ. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि.सं. १५५७ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. वि.सं. १५६० में इसने सिरौही में अखेलाव तालाव बंधाया, और वि. सं. १५६२ में जालोर के सूबा मुजाखान को पकड़ कर सिरौही में कैद रखा. इसने दियोल राजपूतों के प्रदेश पर हमला कर उनको हराये, और लोहीयाणा का किला फतह किया. गुजरात के बढियार परगने से जमीन का महसूल वसूल किया. इसका हमला इतनी झड़प से होताथा कि, उड़ कर आया न हो वेसा मालूम होता था, जिससे यह ' उडणा अखेराज ' के नामसे मशहूर हुआ. इस विषय में खीमराज नामक कवि ने कहा है कि—

“ लोहियाणा गढ लियो दाव दियोलां सर दीनो, मुजाखान मुगल पकड वेडी वस कीनो. ”

“ वाले खेत वढियार वढासुं भोग अणावे, अरवद धणी अभंग चांव जुद्ध परिया साडे. ”

“ जग जीत हुवो दूर्ईजो जगो कवचे दारिद्र कापियो, उडणे अखे खेमाय ने सासन गाम समापियो. ”

इसी मुताबिक मूता नेणसो की ख्यात में देवडे चौहानों की राजावली का जो कवित है उसमें इसके वास्ते लिखा है कि—

× × × × × × ×  
“ रस तर संघण लील राज बक वाल वि वेनो, तेण पाट वुड ताण पछै अखई उतपनो. ”

“ अखेराज अर कर आहोसियो नर नरंद भंजेव निस, कल कले किरण दीपे कमल दसही दिस चत्वार दिस. ”

“ जिके इंदु फण इंद कंता गलै निकासे, जुद्ध वीण रढ रांण यांण त्यां हूरि पिया से. ”

“ जिके छत्र गज गत जत्र त्याहु ये अलगा, जिके काल लंकाल लुलै लुल पाये लगा. ”

“ पूरवा पछिम उत्तर दखिण कीती रेण खत्र भले, अखेराज अरक ओहीसीयो हुय नरंद हालोहले. ”

“ बंध खाण आप वल मांण मेजे मिलकाणो, धरा राज धर धूण लीयो चांपै लोईयांणो. ”

“ डोडियाल की वेळ वास गोयंभ वसावे, चापे तीस चोवी सरधर सत्र मनावे. ”

“ पतसाह सरस दस वार पीड जै ढंढो लैगा दलां, अखेराज साल इल न अंतरे उरह निमंथे एतलां. ”

× × × × × × ×

वढियार परगने का महसूल वसूल करने का कारण यह प्रसिद्धि में है कि सिरोही रियासत से निकली हुई बनास नदी का पानी समुद्रमें नहीं जाते. वढियार परगने की जमीन में फैलाव करके गुप्त होजाता था, जिससे उस जमीन में बगैर पानी पिलाये अच्छी खेती होती थी. अपनी रियासत की नदी के पानी से खेती होनेके कारण इसने महसूल लेनेका +हक कायम किया.

महाराव अखेराज के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि, इसने वि. सं. १५८० में लोहियाणा का किला बनवाया. वि. सं. १५८८ में पालडी गांव के ब्राह्मणों की चौकीदारी मुआफ की. इसके समय का शिलालेख 'वाडला' नामक वैरान गांव में वि. सं. १५८९ पोस वदि ७ का लिखा हुआ है.


इसकी राणीयों के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसकी राणी सीसोदणीजी, सजनादेवी महाराज रूपसिंह (वागोर ई. मेवाड.) की पुत्री थी, जिससे कुमार \*रायसिंह व दुदा उर्फ दुर्जनसाल के जन्म हुए.

महाराव अखेराज का देहान्त वि. सं. १५९० में होनेका सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु बडुआ की पुस्तक में वि. सं. १५९२ में देहान्त होनेका उल्लेख किया है.

+ दंतकथा में कहा जाता है कि वढियार परगने से हजारों गाडी अनाज महसूल का सिरोही में आता था, लेकिन उन गाडीयांवालों को रास्ते में आने जाने के समय में खुराक राज्य से देनेका दम्तुर होनेसे लम्बी मजल के कारण इतना खर्च होजाता था, कि आये हुए अनाज में से रियासत को कुछ बचत नहीं रहती थी, जिमसे पीछे से सिरोही के महाराव ने वढियार परगने का महसूल छोड दिया. ( वढियार परगना वर्तमान समय में राधनपुर रियासत के तरफ है. )

\* रायसिंह का जन्म वि. सं. १५७८ के पोष वदि ९ को होनेका सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है.

नं.  $\frac{३३}{४}$  मेहाजल को 'वागसीण' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन बाद में मेहाजल का पुत्र राव कला ने सीसोदियों की मदद से सिरोही कब्जे किया, और पीछेसे सिरोही उसके हाथ से छूट जानेके कारण राव कला को जोधपुर रियासत से जागीर मिली, बाद में इनकी ओलाद वालों को विसलपुर आदि जागीरें प्राप्त हुईं, जिससे वे लोग विसलपुर के लखावत कहलाते हैं. वर्तमान समय में विसलपुर के लखावतों की जागीरें जोधपुर रियासत से विद्यमान हैं.



## प्रकरण २७ वाँ.

### चलू देकडा चौहान.

( नं. १२ महाराव रायसिंह से नं. १४ महाराव मानसिंह तक. )

नं. १२ महाराव रायसिंह (पहिले) अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. सिरोही के राजाओं में इसका नाम, इसकी उदारता, परोपकार, और वीरत्व के विषय में ज्यादा प्रसिद्धि में आया हुआ है. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि.

“ राव रायसिंह महाराजा हुवो, पछे घणां दान पुन्य किया. मेवाड रो धणीयां सुं, जोधपुर रा धणीयां सुं बडा उपगार किया. माल आसीया नुं कोड दी, तिण मांहे गांव 'खाण' सासण कर दी छै. सुकाल दुकाल अरहट ३०० हुवै छै. पता कलहट नुं कोड दी, तिण मांहे गांव 'मोटासण' गुजरात रै पैडै नजीक छे. वडगांव कनै तिण अरहट ५० हुवै छै. ”

लेकिन मेवाड के महाराणा व जोधपुर के महाराजा के उपर क्या + उपकार किया

+ महाराव रायसिंह ने क्या उपकार किया, इस विषय में कवि आसीया करमसी खीवा सूरतर ने कहे हुए मरसियों में चौथे मरसिये में कहा है, उससे मालूम होता है कि इसने कइएक राजाओं को शरणे रख कर उनका रक्षण किया था. जिसके वास्ते कवि कहता है कि,

“ केहीज राव रखीया भोम निगमी भ्रंमता, कहिज राव रखीया भयै खुरमाण पुलंता. ”

“ केहीज लोभ रखीया तणे पतसाह उदाले; केहीज रंक रखीया महा रौरवै दुकाले. ”

“ रिण खेत पिसण केही रखीया, कन्ही काय कवि पात्र कही; अभिनमो क्रन दानेसवर रायसिंह विवनोम कही. ” (४)

इस कवित के प्रथम चरण का भावार्थ यह है कि कितनेक राजा जो जमोन गुमाकर भटकते हो गये थे उनका, कितनेक राजा मुसलमानों के डर से भयभित थे उनका रक्षण किया, पाया जाता है कि जब कि राणा संग्रामसिंह से वावर बादशाह ने मेवाड ले लिया तब इसने महाराणा को आश्रय दिया था, वैसे जोधपुर के राठौर राजा मालदेव पर मुसलमानों ने आक्रमण किया तब इसने सहायता करके उसका रक्षण किया है, जिससे ही इन दोनों राजाओं के उपर बड़े उपकार होनेका, सूता नेणसी ने मोघम लफजों में अपनी ख्यात में लिखा है, और उसी मुआफिक उपर्युक्त कवितमें भी अपनी अपनी ख्यातमें अंकित करने से उस विषय में ज्यादा खुलासा नहीं लिखा हो.

इस महाराव के विषय में मेवाड के सरसिया गांव के कवि मेहडू विहारीदान ने कहा है कि—

“ तिसका ( महाराव सूरताणसिंह का ) बाबा ( दादा ) राव रायांसिंह. सो किसा जी ! पट तीस वंश छतीस नीयातः षट दामण कु दुभर वार का ग्रेहणाः तंग वखत का खजानाः चौ सरी हेला सूकोड. का वरीसः जिसके गुजराती पातसाहः सरण आया सौ रहायाः नव कोटी मारवाड सरण राखीः तीस बातका जीहांन साखीः ”

इसमें कवि ने खुद मेवाड के वतनी होनेसे मेवाड के राणा को शरण रखने का अहवाल जाहिर में नहीं लाया है, परन्तु इसका कथन भी कवि आसीया करमसी के कवित से मिलता है.



उसका खुलासा नहीं लिखा है. इस विषय में उदयपुर के 'वीरविनोद' नामक हस्त लिखित पुस्तक में उपरोक्त सू. ने. की ख्यात की तहरीर के आधार से ही लिखा गया है कि "इसने (महाराव रायसिंह ने) मेवाड और मारवाड के राजाओं की फौजों में बड़ी बहादुरीयां दिखलाई." जिसका पढ़ने वालों को यही आशय मालूम होता है कि यह मेवाड व मारवाड के राजाओं का मातहत था, और उनकी फौजों में लडकर इसने वीरत्व बताया था. जो कि सू. ने. की ख्यात में स्पष्ट उल्लेख किया है की दोनों राजाओं पर इसने बड़ा इहसान किया, परन्तु पक्षपात से 'वीर विनोद' के लेखक ने और ही लफ्जों में वह बातें अपनी पुस्तक में लिखी है.

महाराव रायसिंह के समय में कवि आसीया माला ने सिरोही के पाटवीओं की राजावली का कवित रचा है, जो सूता नेणसी की ख्यात में लिखा गया है. जिसमें इसके विषय में कवि कहता है कि—

- "कोड प्रवाडा करे सरग आखई (अखेराज) संप्रतो; रायसिंघ तिणपाट अरक वेदे उगंतो. "
- "किरण ब्राल इल हले अं व अवर ओहासे; सपत दाप सारीख वदन उदोत विकासे. "
- "नव मंक छत्र छाया निजरन, अठारह विल कुले; यह सिंघ प्रतये शिवपुरी जोत विं व जिम ब्राल हले. "
- "काय भोज विकम काय रुद्र नाग अरजन, काय रामणा बलराज काय जुजै ठल अर गंजन. "
- "क्रन काय हरचंद क्रनं कंज जुग हर कहंता, काय सपर दधियच काय जीवाहन जंता "
- "मृजसिंघ सही मृजसिंघ सत एह न आरख आवरां; काय वात न माने पर किणी क्रग दिध जल तो करां. "

महाराव रायसिंह के समय का वि. सं. १५९९ का आसो वदि ३ का शिलालेख आवु की तलेटी में श्री हृषिकेश के मन्दिर में विद्यमान है, उससे मालूम होता है कि उसके समय में हृषिकेश का मठ बनाया गया, जिसमें रु. २०५०० पिरोजी खर्च हुआ था.

इसकी एक राणी राठौरीजी भावांदि जोधपुर के राठौर राव + वाघा की पुत्री थी जिससे कुमार उदयसिंह का जन्म हुआ. दूसरी राणी झालीजी जालमदे देलवाडा (मेवाड) के झालाराज अजयसिंह की पुत्री थी.

महाराव रायसिंह ने भीनमाल कब्जे करने के वास्ते विहारी पठाण पर चढाई कर भीनमाल पर घेरा डाला, लेकिन कोट के भीतर से विहारी की सहायता में आया हुआ, एक कावा परमार ने तीर मारा, जो महाराव के बख्तर की वांई में से कांख में लगा, जिससे इसका देहान्त हुआ, और कालंद्री गांव में इसका अग्नि संस्कार किया गया, और झाली राणी कालंद्री में अपने पति के साथ सती हुई.

महाराव ने अंतकाल के समय में अपने छोटे भाई दूदा उर्फ दुर्जनसाल को अपने

+ सूता नेणसी की ख्यात में महाराव रायसिंह की राणी चंपाबाई राठौर राव गांगा की पुत्री होना अंकित हुआ है. गांगा जाता है कि बड़भा की पुस्तक में गांगा के बड़े बाबा नाम लिखा गया है.

पीछे गद्दी पर बैठाने का सरदारों को हुकम किया और यह उम्मेद वतलाई कि दूदा मेरे बालक पुत्र उदयसिंह की परवरिश करके बड़ा करेंगे. इसके अंतकाल होने पर कवि आसिया करमसिंह ने ७ मरसिये कहे जिसमें कवि कहता है कि—

- “ जै ऊपर रोट भरोसु पर वैह वार लहंतो; जिण थूं आ उपरी फाड़ फड़ वक फाड़ंतो. ”  
 “ जिण समये सोत्रंन जेण वदरा बंधावै; जिण सोझावै हाट जेण लासा लूसवै. ”  
 “ सू नीज रस संभार सदन वणो कृपणां तणा विरांमीयो; कर सू पर कांति करमसी रायसिंघ विसरामीयो ” (१)  
 “ जहां अंब फल बछ सतही नींव फल न पामसि; जहां वाणी पकवान तहां को कसरथ मानसि. ”  
 “ जहां जाय सूजपे तहां आदर नह पायस; जहां उपायस वोहत तहां वोहतेरो खायस. ”  
 “ औषद दांन देशो कवण नहीणा विदोर्खायै; हाय हाय शरीर छटो नही रायसिंघ अपरो खियो. ” (२)  
 “ राव राय रखपाल राव रहडण रिमराहां; राव कु रूप रायह राव घेरी पतसाहां; ”  
 “ राव रोर विडार राव संसार उधारै; राव भ्रम उधरै राव इकातेर तारै. ”  
 “ तण जास पास नय कुल सीवे भोर आसा सही; अभी नमो क्रन दाने सवर रायसिंघ विवनोम कही. ” (३)

( चौथा मरसिया टीप्पणी में दर्ज हुआ है. )

- “ कुण चारण कुण चंड कवण वंभण वंभेसर; कुण जोगी कुण जती कवण रवेस दिगंवर. ”  
 “ कुण पंडित कुण पात्र कवण पंखी परदेशी; जावै जौ तलान दनीय भद निवेसो. ”  
 “ रिण हुवो सीस दुहिला रहै रू लियो नह बुकै रिणा; हिन्दवै राव विवनै हुवै मोटो छे हो मागणां. ” (५)  
 “ कहि कं हिम मेर डोल है कयम मजल है सायर; कहि म चंद लुकि है कहि माछे हळ है देवायर. ”  
 “ कहि म विस ब्रह मंड गाट छेडे है गगल, कहि मसपत पाताल चले जाय हुंत अण चल. ”  
 “ खड हडै इन्द्र कालम तरै पडै रूद्र ब्रह्मा पडै, रूपक नाम रायसिंघरो ताही जरा न आमडै. ” (६)  
 “ वित सुमाग खरचीयो चीत लीणो हरपाए, जिसो वेदे वावायो तिसी पर सिधायै. ”  
 “ सुरा खान नही कियो सर नार नरे तो, सायला धरम साव वे परम दरगह संप्रतो. ”  
 “ आखंत ब्रद चुवार अधिक अपछर आरती करै, सुर भुवण राव प्रभु वाड मल जयजयकार उव धरै. ” (७)

सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके देहान्त का समय वि. सं. १६०० का होना लिखा है. बडुआ की पुस्तक में इसके पीछे, इसका पुत्र उदयसिंह वि. सं. १६०३ में गद्दी पर बैठने का अंकित हुआ है, परन्तु इसका छोटा भाई दूदा इसके पीछे गद्दी पर आनेका महाराव दूदा के समय के शिलालेखों से व दूसरी ख्यात से भी पाया गया है.

नं. १<sup>२</sup> महाराव दूदा उर्फ दुर्जनसाल अपने बड़े भाई महाराव रायसिंह के पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव दूदा गद्दी पर बैठा परन्तु राज वैभव का मालिक महाराव रायसिंह का बालक पुत्र उदयसिंह को समजकर

\* इम पुस्तक के लेखक को महाराव दूदा के समय के जो शिलालेख मिले हे उसमें रोहीडा गांव में वाटेरा की सरहद पर काला पत्थर का शिलालेख वि. सं. १६०१ आसो सुदि १२ का है उमें सिर्फ महाराव ' दरजणसाळ ' का नाम अंकित है. लेकिन वि. सं. १६०३ कातिक सुदि १५ का ताम्रपत्र जो पाडिव गांव में चंद्रगृहण पर अरहट देनेका दानपत्र के निमित्त लिखा गया है, उसमें " महाराय श्री उदिसंघजी श्री दूजणसलजी " नाम अंकित हुए हैं. तीसरा शिलालेख वि. सं. १६०८ के असाठ सुदि २ का मिला है उसमें " श्री दूदाजी रू दत्त " नाम पढा जाता है.

उदयसिंह के साथ वैसाही बरताव रखताथा, और अपना पुत्र मानसिंह को अपने पास नहीं आने देता था. इसने बाघेला अदा ( कहां का था वह नहीं लिखा. ) का गांव मारा, जिसके लिये कवि कलहट पता ने इस महाराव की प्रशंसा के बहुत से कवित्त कहे है.

बडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसकी राणी कछवाही मानदेजी कछवाह जगराम अनंदसिंघोत की पुत्री थी, जिससे कुमार मानसिंह का जन्म हुआ.

मू. ने, ख्या. में लिखा है कि महाराव दूदा ने अपने देहान्त के समय कहा कि मेरा पुत्र मानसिंह को गद्दी नहीं देना, और महाराव रायसिंह के पुत्र उदयसिंह को गद्दी पर बैठाना, बल्कि उदयसिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि तेरी मर्जी होवे तो मेरा पुत्र मानसिंह को लोहियाणा गांव देना, उस मुआफिक इसका देहान्त होनेपर सरदारों ने उदयसिंह को गद्दी पर बैठाया, और मानसिंह को लोहियाणा दिया.

महाराव दूदा का देहान्त किस संवत् में हुआ, उसके लिये बडुआ की पुस्तक में खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में जोधपुर के प्राचीन हस्त लिखित प्रति से इसका जन्म वि. सं. १५८० में होनेका लिखा है, और देहान्त वि. सं. १६१० में होनेका अंकित हुआ है.

नं. १३ महाराव उदयसिंह अपने काका के पीछे गद्दी पर बैठा. मू. ने, ख्या. में लिखा है कि महाराव उदयसिंह ने एक साल तक तो भली बुरी रीति से निभाया, परन्तु पीछेसे महाराव की दियानत में फर्क आनेसे उसने बात चलाई, कि मानसिंह ने मेरे पर 'तुका' बाह्या था, जिसपर राजपूतो ने कहा कि मानसिंह के पिता ने आप के साथ झलाई करके अपने पुत्र को गद्दी न देते आपको गद्दी पर बैठाये, और मानसिंह भी आपके हुकम में रहता है, परन्तु उदयसिंह ने कहा कि मैं उसको लोहियाणे से निकाल दूंगा, और वाकेही लोहियाणे पर फौज भेजकर निकाल दिया. मानसिंह मेवाड के महाराणा उदयसिंह के पास गया, जहां पर महाराणा ने 'वरकाण विजेवा' की जागीर अठारह गांवों के साथ दी. पीछे मानसिंह ने दो चार दफे शिकार में मुजरा किया जिससे महाराणा की उस पर महारवानी हुई.

उक्त ख्यात में लिखा है कि एक वर्षवाद महाराव उदयसिंह को सीतला की विमारी होनेकी खबर मानसिंह को मिली, उस समय महाराणा उदयसिंह कुंभलनेर के तरफ शिकार को आया था, लेकिन उसको इस विमारी की खबर नहीं थी. दरमियान सिरोही से आये हुए दूसरे आदमी ने महाराव उदयसिंह की विमारो सख्त होनेकी बात मानसिंह को कही. इसी विमारी में महाराव उदयसिंह गुजर गया, तब सिरोही के सरदारों ने सोचा कि महाराव को पुत्र नहीं है और मानसिंह महाराणा के पास है, अगर यह खबर महाराणा को मालूम होवे, और मानसिंह को वहां ही मार कर कुंभलनेर.

से आगे बढ़कर इस तरफ आपहुंचे, तो देवडों के घर से आबु मेवाड के राणा के हाथ में चला जायगा, जिससे सरदारों ने महाराव के देहान्त की बात दो पहर तक छिपा कर 'जयमल साहाणी' नामका मौजिज व भरोसा पात्र राजपूत को मानसिंह के पास पत्र देकर भेजा, और सब बात समजा दी, वह रवाने होजाने वाद महाराव का अग्निसंस्कार किया.

साहाणी जयमल सारी रात मुसाफरी करके पहर दिन चढते कुंभलनेर में मानसिंह के डेरे आया. उस वक्त मानसिंह महाराणा के पास दरबार में था, और चीवासामन्तसिंह डेरे पर मिला. जयमल ने यह सब बात सामन्तसिंह को कही, और दोनों मानसिंह के पास गये, मानसिंह उनको देख कर बहार आया, और जयमल से मिला. जयमल ने आंख के इशारे से सब बातें समजाई, जिससे मानसिंह डेरे पर आया. मानसिंह ने चीवा सामन्तसिंह को सब बात समजाकर महाराणा के आदमी बुलाने को आवे तो कहना कि मानसिंह ने दो सूअर देखे हैं वहां गया है, वैसा कहकर पांच सवारों के साथ वह सिरोही के तरफ रवाना हो गया, एक पहर रात होते ही उन्होंने सिरोही नजदीक वगीचे में आकर मुकाम किया, जहांपर सब सरदार मानसिंह को आमिले.

दूसरी तरफ महाराणा ने मानसिंह को बुलाने के लिये आदमी भेजा, तब सामन्त सिंह ने सूअर के पीछे गया है सो अभी आवेगा ऐसा कहलाया, सूर्यास्त होने पर फिर महाराणा ने मानसिंह को याद किया, तब एक आदमी ने कहा कि दूपहर के वक्त यहां से १० कोश के फासले पर ५ घोडे सवारों के साथ मानसिंह सिरोही के तरफ भाग जाता था, जिस पर महाराणा ने पूछा के तेरे को कैसे मालूम हुआ? उस पर उसने जवाब दिया कि मेरे यहां सिरोही से एक आदमी आया है, उसको वह रास्ते में मिला था, वह आदमी यह भी कहता था कि महाराव उदयसिंह को सीतला निकली है, और बहुत दुःखी है.

यह बात सूनते ही महाराणा समज गया कि महाराव उदयसिंह गुजर गया, जिससे मानसिंह के डेरे से उसके राजपूत को बुलाने को आदमी भेजा. उस वक्त डेरे पर देवडा ( बालिसा ) जगमाल नामका मौजिज राजपूत था, वह महाराणा पास हाजिर आया, महाराणा ने पूछा कि मानसिंह इस तरह क्यों भाग गया? उसका जगमाल ने जवाब दिया कि वह जाणे. जिस पर महाराणा ने जगमाल को कहा कि सिरोही के चार परगने हमको लिख दो, यह सून कर जगमाल ने सोचा कि मैं उजर करूंगा तो, महाराणा अपनी फौज के साथ पीछा करके मानसिंह को नुकसान पहुंचावेगा, जिससे उसने अर्ज की कि मानसिंह आपका ( महाराणा का ) चाकर है, मैं क्यों उजर करूं? मुनासिंह हो उतना मुलक दिवाण ले सक्ते हैं, और मानसिंह देंगे. महाराणा ने उसी वक्त ४ परगने लेने का कागज लिखाया, लेकिन बात चीत में बहुत रात्रि चली जानेसे दूसरे दिन सही मत्ता

कराने का मुलतवी रखा. दूसरे दिन प्रभात होते ही जगमाल हथियार सज्ज के राणा के पास सीख मांगने को गया. जगमाल को देखकर महाराणा ने कहा कि, जो ४ परगने देनेका कागज लिख दिया है उस पर मत्ता कर दो, जिस पर जगमाल ने जवाब दिया कि मानसिंह और सिरोही के सब सरदार वहां है, मेरा मत्ता करने से क्या होवे ? तब महाराणा ने कहा कि राजपूत ने अपना अच्छा दाव दिखलाया, उसने जगमाल को कहा कि मैं ४ परगने लेना चाहता हूं, सो तेरे साथ आदमी कर दूंगा, तुं उन परगनों में थाणे बैठा कर अलग होजाना, जगमाल ने जवाब दिया कि सिरोही के धणी आप के सगे है, चाकर है, और आप ऐसी बात क्युं करते हो ? अच्छा यह है कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ भेजदो, वह महाराव से बात करके वापस आकर जवाब देगा, जिसपर महाराणा ने अपने पुरोहित को जगमाल के साथ भेजा.

महाराव उदयसिंह के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव उदयसिंह वि. सं. १६०३ में गद्दी पर बैठा, और वि. सं. १६१२ में हृषिकेश के कुंड में डूब कर मर गया, जहांपर उसको राणी सवागदेवी भटोयाणी सती हुई. परन्तु सिरोही राज्य के इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि जोधपुर में प्राचीन हस्त लिखित पंचांगों में कहीं २ ऐतिहासिक घटनाएं लिख दी जाती थी, उनमें इसका देहान्त वि. सं. १६१९ आसो सुदि ११ को होना लिखा है, और उक्त पुस्तक के लेखक को मिली हुई सिरोही की ख्यात में इसका देहान्त वि. सं. १६२० में होनेका लिखा है. ( सि. रा. ई. पृष्ठ २०९ की टिप्पणी में ) उक्त पुस्तक में ( सि. रा. ई. में ) यह भी लिखा है कि महाराव उदयसिंह को १० राणीयां थी जिसमें ७ राणीयां सती हुई, और उनके अतिरिक्त तीन और

\* महाराव उदयसिंह के देहान्त के समय के वाक्ते उपरोक्त अलग २ संवत्तों, अंकित होनसे शंका उपस्थित होती है. क्यों कि महाराव दूदा का देहान्त वि. सं. १६१० में हुआ था, उससे एक वर्ष बाद महाराव उदयसिंह ने मानसिंह से लोहियाणा लेलिया, जिससे मानसिंह मेवाड के महाराणा पास गया, और उसको मेवाड में जानेको एक वर्ष होने पर महाराव उदयसिंह का सीतला की बीमारी से देहान्त हुआ, ऐसा मृता नेणसी की ख्यात में उल्लेख हुआ है, जिससे बडुआ की पुस्तक में इसका देहान्त का समय वि. सं. १६१२ होना अंकित हुआ है, वह ज्यादा भरोसा पात्र मालूम होता है.

इस पुस्तक के लेखक को महाराव मानसिंह के समय का एक ताम्रपत्र मिला है, उससे पाया गया है कि वि. सं. १६१९ के आसो सुदि ११ ( उदयसिंह की मरण तीथी अंकित हुई हे उस दिन ) के पहिले महाराव मानसिंह सिरोही की गद्दी पर आ चूके थे, क्योंकि उक्त ताम्रपत्र में वि. सं. १६१९ के आसो सुदि १० की मिति दर्ज है, और "महाराए मानसिंह वचनाएतां" इस नामसे ताम्रपत्र लिखा गया है. जिसमें बाईं श्री चांपवाजी ने सारणेश्वरजी में सूर्य ग्रहण के पर्व में त्रवाडी हरदास को पिन्डवारा में लोहारा पुजा गांगा वाला खेत्र देनेका उल्लेख हुआ है, इससे भी महाराव उदयसिंह का देहान्त के विषय में प्राचीन हस्तलिखित पंचांग में जो मिति लिखी है वह सही होना पाया नहीं जाता, जिससे इस बाबत का निर्णय करने का काम अपूर्ण ही रहता है.

÷ सात राणीयां सती हुई जिनके नाम १ सीसोदणीजी हरकुंवर महाराणा उदयसिंह की पुत्री, २ राठौरीजी राठौर कृपा मेहरानोत की पुत्री, ३ राठौरीजी जगमालोत वीरमदेवोत की पुत्री, ४ झालीजी, ५ प्रखणीजी, ६ भटियाणीजी, ७ सरवाणीजी.

जो तीन राणीयां सती होना चाहती थी और उनको रोकी वे ये हैं. १ नीकानेरीजी महाराव कल्याणमल की पुत्री, २ सिंघली सिंदल सींहा की बेटी, ३ बाघेलीजी.

राणीयां भी सती होना चाहती थी, परन्तु उनको बड़ी मुश्किल से रोकी, इन तीन राणीयां में बीकानेर के महाराजा कल्याणमल की पुत्री राणी बीकानेरी गर्भवती थी.

नं. १४ महाराव मानसिंह के विषय में सूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव उदयसिंह का देहान्त होने पर यह गद्दी पर बैठा, बाद जगमाल के साथ महाराणा उदयसिंह का पुरोहित भी सिरोही आ पहुंचा, महाराव ने उसका बहुत आदर सत्कार करके महाराणा को नजर करने के वास्ते १ हाथी व ४ घोड़े पुरोहित को दिये, और पत्र लिख दिया जिसमें बहुत मनुहार के साथ लिखा कि ४ परगने की क्या बात है, सिरोही का सब मुलक दिवाण ( महाराणा ) का है, और मैं भी दिवाण का राजपूत हूं, महाराणा इससे खुश हो गया.

उक्त ख्यात में लिखा है कि राव मानसिंह बड़ा बहादुर राजा हुआ, सिरोही का तेज प्रताप इसके समय में बहुत बढ़ा, बादशाह की फौज के साथ इसने बहुत लड़ाईयां की, और सिरोही की गुजरात तरफ की सरहद पर कोली लोगों का बड़ा नेवासी प्रदेश था, जिनपर उस समय पहिले किसी राजा ने कब भी अमल नहीं किया था, उन पर महाराव मानसिंह ने एक दिन में २२ जगह फौज भेजी, और हर जगह पर फतह पाकर कोलीयों को निकाल कर अपने थाणे बैठा दिये, छः सहिने थाणे रहने के बाद सब कोली लोग महाराव के पैरों में आकर गिरे, और जो हुकम किया गया उसको सिर पर चढ़ा लिया, जिससे महाराव ने खुश होकर उनको जजीन वापस की, और वहांसे अपने थाणे बुला लिये.

महाराव मानसिंह के विषय में मरहूम महाराव उदयसिंह की माता चंपावाई कहती रही कि, मेरी बहू गर्भवती है सो उसको कल पुत्र होगा, मानसिंह क्या चीज है जो राज करता है ? जिस पर मानसिंह ने चंपावाई को व मरहूम महाराव उदयसिंह की बिकानेरी राणी को मार डाली, वैसा सू. ने. ख्या. में उल्लेख है.

इस विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में जोधपुर के हस्त लिखित चंद्र पंचांग में लिखि हुई ऐतिहासिक घटना के आधार से लिखा है कि, यह घटना वि. सं. १६२० के चैत्र सुदि ६ को हुई. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि चंपावाई ने महाराव मानसिंह को कहलाया कि मेरे पुत्र की राणी बीकानेरी के गर्भ है, इसलिये यदि कुंवर पैदा हुआ तो तुम गद्दी से खारिज समझे जाओगे, इसपर इसको ( मानसिंह को ) बहुत क्रोध चढ़ा, और इनके तथा चंपावाई के बीच वैर बंध गया. फिर एक दिन बोल चाल यहां तक बढ़ गई कि, इसने जनाने में जाकर चंपावाई तथा बीकानेरी दोनों को मार डाला, बीकानेरी के पेट से आठ मास का गर्भ निकला जिसको भी इसने वहीं मार डाला.

वडुआ की पुस्तक में इस विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु दंत कथा में यह बात कही जाती है कि, महाराव मानसिंह को झाली राणी के साथ चंपाबाई को हमेशा बोल चाल होती रहती थी, जिसमें चंपाबाई, महाराव मानसिंह व झाली राणी को सख्त व बड़ कलांम के लफजों से गाली देती थी. महाराव ने उसको समजा ने की तजवीज करने पर सास व बहू दोनों सामने आकर गालीयां देने लगी, उन्होंने ऐसे बुरे लफज कहे कि, उससे महाराव को सख्त गुस्सा आया, और क्रोधावेश में बीकानेरी राणी को हाथ से धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ी, गिरते ही उसका गर्भ पुत्र पृथ्वी पर पड़ा, जो तुरन्त ही मर गया. यह देख कर चंपाबाई ने दिवाल में अपना शिर फोड़ कर आप घात किया, यह भी कहा जाता है कि, गर्भ गलित होनेके कारण बीकानेरी राणी भी मर गई, और उसने मरते वक्त शाप दिया कि मेरा हुआ है जैसा तेरा भी होगा.

महाराव मानसिंह के विषय में किसी कविने कहा है कि—

“ एकला सो ना भला, भला सो मानाराव; दीधा दुजण सल रे, सर दीली रे पाव. ”

कवि का आशय यह है कि एक आदमी से बड़ा काम नहीं पार पड सकता, जिससे अकेला होना अच्छा नहीं है, परन्तु मानराव ( महाराव मानसिंह ) को भला कहना चाहिये, ( शावाशी देना चाहिये ) यानी दुर्जनसाल के पुत्र ने ( अकेले ने ) देहली के सिर पर अपना पैर रखा. यह एक दोहे में इतनी ऐतिहासिक घटनाएं आजाती है कि जिसका विस्तार से वर्णन करने में एक स्वतंत्र पुस्तक होती है. यदि इतिहास लिखने वालों ने इस दोहे की ऐतिहासिक घटना का किसी जगह इशारा नहीं किया है, परन्तु भूतानेणसी की ख्यात में निम्न वाक्यों, इस महाराव के विषय में लिखे हैं. यानी—नेणसी लिखता है कि.

“ राव मानसिंघ दूदारो वडो दूठ ठाकुर राव हुवो. सीरोही घणौ तपोयो. पातसाही फौजां सुं घणी बेट कीवो. ” यह तीनों वाक्यों का ताछुक उपरोक्त दोहे से है, और उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समयमें इस दोहे की +घटना के परिणाम

+ इस दोहे की ऐतिहासिक घटना के विषय में जो दंत कथा प्रसिद्धि में है, उसमें कितनीक मिलावट कल्पना से करके किसी चारण ने यह प्रसंग लिखाया है जो ' राजवीर कथा ' नामक पुस्तक गुजराती भाषामें छपी है. इस घटना का सारांश यह है कि महाराव मानसिंह की एक राणी 'झाली' थी, वह उद्धत स्वभाव की होनेके कारण महाराव ने कुछ नसीहत करने से अकबर बादशाह के साथ देहली चली गई, जिस पर मानराव सिर्फ एक ' दिया ' राजपूत के साथ देहली पहुंचा, और शाही महल में प्रवेश करके झाली राणी को वापस सिरोही ले आया, और उसको जिन्दी महल की दिवाल में गडवाने की सजा दी. जो दिया राजपूत उसके साथ गया था, उसने देहली के किले में प्रवेश करने के कार्य में अपनी जान दी, जिससे महाराव ने उसके पुत्र को ' केर पाटग ' नामके गांव की जागीर न कती ( राज का कर नहीं लेने की शर्त से ) दी. जो वर्तमान समय में भी वह जागीर उस दिया राजपूत के वंशज के तरफ है. और सिरोही रियासत के राजपूत जागीरदारों में सिर्फ ' केर ' की जागीर उपरोक्त

रूप, दिया राजपूत के वंशज के तरफ ' केर ' गांव की न करी ( वगेर राजहक वाली, ) जागीर विद्यमान है, और देवडे चौहान अबतक झाला राजपूतों की कन्या के साथ लग्न नहीं करते हैं.

महाराव मानसिंह ने स्वपराक्रम से सिरोही रियासत को सीमा में बहुत तरकी की. इसके समय में कई दफे मुसलमानों ने सिरोही पर आक्रमण किये थे, परन्तु उनको सफलता न होने दी, बल्कि अकबर बादशाह खुद एक दफा फौज के साथ सिरोही पर आया था. इस महाराव के समय में सिरोही राज्य में अठारह गढ थे, जिसके लिये कवि ने कहा है कि—

“ अनड सरे अखुद ज्युं सूंधो जाहेर; बुडथलो राणेक वल नांदवणो निलेर. ”

“ नांदवणो निलेर पाट सरणवो पर्णाजे; धोलागर धिधंग गडा श्रीकंठ गणीजे. ”

“ चोटांलो काछेल भलो कणीयागर भालो; निखंगर नरवह वले पाइमता वालो. ”

“ डोंढो लुकडीयो दरंग युं आखे कीरत अला; मानसिंह राव जय मंडली तो सूं अठारे गढ उजला. ”

बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसके समय में अकबर बादशाह फकीर के लिबास में आबु पहाड +देखने को आया था, और वहां से उसको भागना पडा था.

कारण से, और ' बारी घाटे ' का ' वालदा ' गांव की जागीर राजकुल में मरण हावे तब अग्नि संस्कार करने की फर्ज अदायगी के कारण से सम्पूर्ण माफी में पल रही है. दूसरी हरएक जागीरों में राजहक की अमुक आनी ली जाती है.

महाराव मानसिंह ने अकेले शाही महल में प्रवेश कर बादशाह की मौजूदगी में उसको अपना सामर्थ्य बताकर झाली राणी को वापस लाई, जिसको कविने ( दीषा दुजणसल रे सर दीली रे पाव. ) ' देहली के सिर पर दुर्जनसाल के पुत्र ने पैर देनेका कार्य किया. ' वैसा बताया है. कहा जाता है कि इसी कारण से उस समय से देवडा चौहानों ने झाला राजपूतों की कन्या से लग्न करने का मुलतवी कर रखा है.

इस दोहे की ऐतिहासिक घटना के विषय में इस पुस्तक के लेखक ने ' बलहठ बंका देवडा ' नामक ऐतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषा में रचा है जो प्रेम म. छप रहा है, उसमें विस्तार से सब बातें लिखने में आई है, जिससे इस पुस्तक में ज्यादा लिखना उचित नहीं समजा गया है.

+ दंतकथा में यह बात मशहूर है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में आबु पहाड पर आया, और अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के वास्ते उम मन्दिर में प्रवेश करने लगा, तब उसको गोकने के लिये, तीन गेत्री आवाज हुए, जिसकी दरकार न करने से लाखों भमरे उसके पीछे लगे, और बादशाह को डंभने से भयभीत कर दिया; जिससे बादशाह वहांसे भागा, और एक महात्मा का शरणा लिया. महात्मा के आगे बादशाह ने आबुराज व अर्बुदारण्य के तीर्थ मन्दिर और साधुओं को अपवीत्र न करने की प्रतिज्ञा करने से, महात्मा ने बादशाह को भर्गों के त्रास से मुक्त कराया, इस नास भाग में बादशाह का बदन छील गया, और पैर में कई कांटे लगे थे, जिससे व्याकुल होकर वह ' नखी ' तलाव के किनारे पर पडा था, जहां पर इसको साधु मानकर महाराव मानसिंह के मुआहिब वजेसिंह डुंगरावत की माता ( जो नखी तलाव में तीर्थ स्नान करने को आई थी. ) ने दया लाकर बादशाह के पैर में, जो कांटे लगे थे वह निकाल दिये, जिमपर बादशाह ने केतकी के पत्तेपर छीद्र करके उसको दिया, और कहा कि कभी जरूरत पडे तो यह पत्ता लेकर तुम्हारे पुत्र को अकबर बादशाह के पास भेजना. कहा जाता है कि इसी जरिये से डुंगरावत वजेसिंह, महाराव सूरताणसिंह के समय में बादशाह की हुजूर में हाजिर हो सका था.

इस विषय में सिरोही के राजपुरोहित की वही में व दूसरी हस्तलिखित प्रति में लिखा है कि—“ मानसिंह दूदाउत ने सिरोही रो पाट आयो तण वार में बादशाह अकबर फकीर रे वेस श्री आबुजी आयो. तणे श्री आबुजी रा मलक में खेदो करण री तलाक घाली. ”



यह भी बात मशहूर है कि अकबर बादशाह जब फौज लेकर सिरोही पर आया, तब सारणेश्वरजी महादेव की वाणगंगा के जल से, बादशाह के पैर में कोढ़ था वह मिट गया, जिससे बादशाह ने कई लाख रूपियों का खजाना महादेव को अर्पण करके वापस देहली को लौट गये.

दंत कथामें यह बात प्रसिद्ध है कि महाराव मानसिंह का मुसाहिव डुंगरावत वजेसिंह, प्रेमा नामक खवास के साथ जासूसी के कार्य के वास्ते शाही दरबार में गया था, वहांपर शाही इक्रे के साथ प्रेमा खवास को मल्ल युद्ध करने का प्रसंग बादशाह के सामने उपस्थित हुआ, प्रेमा ने इक्रे को युद्ध में मारदिया, जिससे पुछगाछ करने पर वजेसिंह को अपना नाम जाहिर करना पडा. बादशाह ने देवडे चौहानों में कलह उपस्थित कराने की गरज से, वजेसिंह को कई लालचें देकर अपनी सेवा में रखना चाहा, शाही दरबार के ठाठ माठ, और उसकी सेवामें रहे हुए बड़े बड़े राजवी व अमीर उमराओं को देखकर, वजेसिंह के दोलमें भी राज्य प्राप्ति करने की अभीलाषा के अंकुर पैदा हुए, परन्तु प्रेमा खवास ने बादशाह की तरफ से दी जाती लालच सूनकर उसको कहा कि.

“ वजेसिंह हरराज रो, प्रत पाली संभाळ, माथे तरणो भेलतां, थने उठी न मंगल झाळ. ”

“ थारी वेळे थाळ, भळ वाजीयो हरराजरा; कोरे कीधो काळ, हद सामत हरराज उत. ”

यह सुनते ही वजेसिंह की आशा के अंकुर दब गये, और बादशाह की लालचों का तीरस्कार करके इजलास से चल निकला, और देहली से सिरोही को चला आया, जिससे बादशाह ने महाराव मानसिंह को अपना मातहत बनाने के वास्ते सिरोही पर कई सरतवे फौज भेजी.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी माता धारवाई ने सिरोही के पास धारावती नामक वावडी बनाई, जो वावडी धारावती के नामसे वर्तमान समय में भी स्वरूप बिलास नामक वाग में विद्यमान है.

इसके राणीयां के विषय में बडुआ की पुस्तक में ४ राणी होनेका अंकित है, और पुत्रीयो के विषय में कुछ भी खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में इसकी ६ राणीयां होना, और ७दो पुत्री होना लिखा है, जिसमें वाई उंकार कुंवर का विवाह वि. सं. १६२४ में जोधपुर के महाराव चंद्रसेन के साथ हुआ था, और दूसरी का विवाह मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का भाई जगमाल के साथ होनेका उल्लेख किया है.

× बादशाह ने वजेसिंह को सिरोही का राज व मन्सब बनाने की लालच इस शर्त पर दी थी कि, वह बादशाह की मातहती में रहकर शाही फौज की मदद से मानराव को उसके जनाने के साथ वैद करके बादशाह के आगे हाजिर करे. और डौला नौगोज की कलंकित पृथा का स्वीकार करे.

\* महाराव मानसिंह की प्रजा के विषय में ' राजवीरकथा ' नामक गुजराती भाषा का पुस्तक में वह पुरुषार्थ म न होनेसे प्रजा उत्पत्ति के कारण, उसने किसी साधु से पुरुषार्थ प्राप्ति की दवा खाई थी, वैसा लिख कर लज्जित वार्ते अंकित की हैं, परन्तु ख्यातों से उनको दो राजकुमारीयां थी, और उनके विवाह भी उसके देहान्त होने पहिले हो चुके थे, जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उक्त पुस्तक में गलत और बनावटी वार्ते इस विषय में लिखने में आई है.

इसके देहान्त के विषय में सू. ने. ख्या. में लिखा है कि महाराव मानसिंह ने अबावत सूरताण ( जो उसका फौज बक्षी था. ) के साथ प्रधान पंचायण परमार अदावत रखता था, जिससे पंचायण को जहर दिया. पंचायण का भतीजा कला परमार भी महाराव की चाकरी में था, वह महाराव के साथ आवु पर गया था, वहां कला को धक्का दिलाया, जिससे साम को महाराव थाल जिमते थे उस सौके पर कला ने महाराव को कटारो से चूक किया, और भाग गया, कटारो लगने के बाद एक पहर महाराव जिन्दे रहे. इस विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि यह घटना वि. सं. १६२८ में हुई और इसकी दग्ध क्रिया आवु पर अचलेश्वर के मन्दिर के सामने हुई, जहां इसके साथ, ५ राणीयां सती हुई. इस स्थान पर महाराव की माता धारवाई ने मानेश्वर का मन्दिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि. सं. १६३४ में हुई, उस मन्दिर में महाराव व उसकी राणीयां की मुर्तियां स्थापित हुई हैं.

महाराव मानसिंह को पुत्र न होनेके कारण उसने अपने पीछे लखावत भाणसिंह रणधीरोत के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही की गद्दी पर विठलाने की अपने सरदारों को आज्ञा की. इस विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि जब महाराव को चूक हुआ, तब उस जगह अबावत सूरताण और सवरसिंह डुंगरावत आदि सरदार मौजूद थे, उनको महाराव ने अपने देहान्त के समय कहा कि सिरोही का मालिक सूरताण होवे वैसे तजवीज करना, जिसपर अबावत सूरताण ने सबको कहा कि महाराव ने मेरे को मालिक बनाया है, यह सूनकर डुंगरावत सवरसिंह ने महाराव को अर्ज किया कि, कौन से सूरताण को हम मालिक गिने? तब उसने लखावत भाण के सूरताण का नाम बताया. इस विषय में कवि संडायस पूनाने कहा है कि—

“ आखीर वखत चुआंण, मान सुगायो महीपती; छे धणा सूरताण, अणवध कीजो उमरां. ” ॥ १ ॥

“ अवी सूरताणै उठ, सवने हुकम सुणावीयो; जाहर वात न झुठ, सव पर धर मोए सुंपीई ” ॥ २ ॥

“ ऊण पल सवरै आये, सो नृप अरज सुगावीई; कयां सूरताण कहाय, वणने में मालक वनां. ” ॥ ३ ॥

“ जाहर क्रांति जांण, भांण तणा सूरताण है; पोरस मेर प्रमाग सो मालक थारे सही. ” ॥ ४ ॥

सरदारों ने महाराव की इच्छानुसार भाणसिंह के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही की गद्दी पर बैठाने की तजवीज की.



⇒ दंतकथा में यह बात कही जाती है कि परमार पंचायण मरहूम महाराव उदयसिंह का प्रधान था, और उमने महाराव मानसिंह को चूक करने का षडयंत्र रचा था, लेकिन उसमें वह खुद मारा गया. यह भी कहा जाता है कि पंचायण का भतीजा कला, जोधपुर के राठौर कुमार उदयसिंह ( मोटा राजा ) की प्रेरणा से, चूक करने के इरादे से ही महाराव की सेवा में उपस्थित हुआ था, और मौका मिलने से चूक किया.

नोट—महाराव मानसिंह का देहान्त आवु पर होनेका बडुआ की पुस्तक में लिखा है परन्तु संवत् १६२२ अंकित किया है. दूसरी हस्तलिखित प्रति व पुरोहित की वही में भी वि. सं. १६२२ दर्ज है, परन्तु ‘ केर ’ गांव के पास एक शिलालेख गड़ा हुआ है जिसकी तहरीर हर्षक विगडे हुए होनेसे पढ़ने में नहीं आती है, लेकिन संवत् का अंक वि. सं. १६२७ होना पाया जाता है, जिसको वहां के लोग केर गांव, दिया राजपूत को महाराव मानसिंह ने बक्षी उसको सरी ( शिलालेख ) होना बतलाते हैं, जिससे सि. रा. ई. की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १६२८ में होनेका अंकित हुआ है वह ज्यादा मानने योग्य है.

## प्रकरण २८ वां.

कूल देवडा चौहान. ( महाराव सूरताणसिंह. )

( महाराव सूरताणसिंह से सिरोही छूटना व पुनः प्राप्त होना. )

सिरोही रियासत की गद्दी पर आये हुए देवडा चौहान राजाओं में, महाराव सूरताणसिंह का नाम ( जिस तरह मेवाड में महाराणा प्रतापसिंह अग्र पद पर गिना गया है, उस तरह ) अग्र पदे है. भाट चारणों ने व इतिहासकारों ने भी यह बहादुर, स्वाभिमानी, उदार व शरणांगत का विरद रखने वाला, महाराव को इनसाफ दिया है. यदि कर्नल टॉड साहिब जैसे विद्वान व निष्पक्षपाती लेखक को इसका इतिहास (मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का इतिहास लिखा गया है, उस मुआफिक.) लिखने का मौका मिल जाता, तो मुगल सलतनत के समय के इतिहास में, ( पूर्वकाल में जैसी चौहान राजपूतों की कीर्ति जग प्रसिद्ध हुई है, वैसी ही ) चौहानों के गौरव व नेक टेक के विषय में ज्यादा प्रकाश मालूम होता.

महाराव सूरताण, महाराणा प्रतापसिंह के समकालिन था, और इसके ३९ वर्ष के राज्य अमल में, देहली में महान् अकबर बादशाह का शासन विद्यमान था. अकबर बादशाह के राजसुत्र में राजपूत राजाओं के पास तावेदारी का स्वीकार करा कर उनसे 'डौला' ( राजपूतों की कन्या का पाणी ग्रहण करना. ) व 'नौरोज' ( बादशाह ने एक दिन हर माहा में ऐसा मुकरर कर रखा था, कि उस रोज किले में सब अमार उमरा व राजा महाराजा की शणीयां सोदा खरिदने को हाजिर आवे. जिसमें सोदागरी करने वाली व सोदा खरीदने वाली सब स्त्रीयां होती थी, उस दिन में भरे जाते मेले को 'नौरोज.' कहते थे. ) लेना, जिस पृथा को अपमान कारक व कलंकित होना राजपूत लोग मानते थे. वल्कि कवि लोग इस पृथा को 'काजल' ( नैत्रांजन ) की कोटडी के रूपक से जाहिर करते थे.

अकबर बादशाह के पराक्रम से, किंवा प्रारब्ध योग से यह तीनों अपमान कारक पृथा कई एक राजपूत राजाओं ने कबूल की थी, परन्तु उस में सिरोही के देवडा चौहान व मेवाड के सिसोदिये अलिप्त होनेसे, उनको लिप्त करने के वास्ते सिर्फ अकबर बादशाह नहीं परन्तु उनकी सेवा में उपस्थित रहे हुए दूसरी कोम के राजपूतों का सतत् प्रयाश रहा था, और उसी कारण से मेवाड व सिरोही के मुलक में शाही फौज के आक्रमण होते रहते थे. अकबर बादशाह ने करीब २ ( सिसोदिया व देवडा चौहान के सिवाय के )

राजपूताना के दूसरे राजाओं के पास, शाही ताबेदारी का स्वीकार करा लेने वाद, सिसोदिया से चित्तौडगढ लेनेके वास्ते व देवडा चौहानों से आबु पहाड लेनेके लिये प्रयत्न शुरु किया. कछवाहा भगवानदास की सहायता से वि. सं. १६२४ में अकबर बादशाह ने चित्तौडगढ ले लिया, परन्तु महाराणा उदयसिंह ने शाही ताबेदारी का स्वीकार नहीं किया. उसी मुआफिक आबु लेनेके वास्ते सिरोही के महाराव मानसिंह के समय में बादशाह ने कई दफे आक्रमण किये परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई, वैसे महाराणा प्रतापसिंह व महाराव सूरताणसिंह ने भी शाही ताबेदारी का स्वीकार नहीं किया, जिससे कवि ने उक्त दोनों राजाओं की प्रशंसा में कहा है कि—

“ अवर वृष पतशाह अगे, होय भ्रत जोडे हाथ. ”

“ नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाथ. ”

जो कि कविने तारिफ के वास्ते सच्ची बीना जाहिर की, लेकिन उसकी असर राजपूताना के दूसरे राजाओं के उपर और ही हुई, जिससे अपनी पंक्ति में लानेके वास्ते जितना प्रयत्न बादशाह ने किया उससे ज्यादा प्रयत्न शाही सेवा में उपस्थित रहे राजाओं ने करके, यह दोनों रियासत के राजाओं को एक दिन भी अपनी शमशेर भ्यान करने न दी.

अकबर नामा लिखने वाला अबुलफजल ने पक्षपात से बादशाह की बडाई और शाही ताबेदारी न स्वीकारने वालों की घृणा करने का प्रयत्न अपनी लिखी हुई ख्यात में किया है. उसने सिरोही के महाराव पर फतह पाने का, सिरोही में शाही सूवा वि. सं. १६३३ से १६३८ तक रहने का, और एक दफे सिरोही का ‘राव सूरताण’ को बादशाह के पास पेश करने का, अहवाल पक्षपात से अपनी ख्यात में लिखा है, परन्तु सिरोही के किसी महाराव ने (महाराव सूरताणसिंह और उसके पीछे भी.) मुगल बादशाह की ताबेदारी स्वीकार करने का, या सिरोही के महाराव ने राजपूताना के दूसरे राजाओं के (जिसमें मेवाड के महाराणाओं भी शामिल है, क्योंकि महाराणा अमरसिंह ने शाही चाकरी कबूल करके अहेदनामा कर लिया था.) मुआफिक शाही चाकरी स्वीकार करने का, या अहेदनामा करने का किंवा खिराज देनेका अहवाल किसी मुसलमान ख्यात नविश ने भी नहीं लिखा है.

वस्तुतः काजल से भरी हुई कोटडी का दाग कवि लोगो ने ‘डौला व नौरोज’ की कलंकित पृथा के वास्ते ही कहा है, उससे ‘चौहान राजपूत’ वेदाग रहने पाए जिसके लिये कवि मोघम कहता है कि—

“ काजल हंदी कुपली, दली सलताणां; सवको कलंक लग गयो वना चहुआणा. ”

कवि दूसरे दोहे में 'डौला-नौरोज' का स्पष्ट उल्लेख करके कहता है कि—

“ धन चहुआणी धियडी, धन चहुआणी नार; असपत रे आगले, सज न गई शणगार. ”

चौहानों की कन्या को धन्य वाद है कि वेगम बनने से वे वची, यानी चौहान राजपूतों ने वादशाह को डौला नहीं दिया. और चौहानों की राणीओं को भी धन्य वाद है कि उनको शणगार सज के वादशाह के पास जाना नहीं पडा, यानी 'नौरोज' में नहीं गई.

ऐसी २ कटाक्षें व ताना बाजी की कविता से दूसरे राजपूतों भी चौहानों का द्वेष ज्यादा करने लगे, लेकिन उसमें कभी चौहानों ने सफलता न होने दी, जिसमें सिरोही के महाराव सूरताणसिंह ने शाही सेवा, व डौला, नौरोज, यह तीनों बातों का अस्वीकार करने से, उस पर वादशाह की फौज के वावन दफे हमले हुए. जिसके वास्ते कवि दधवाडिया खेमराज ने अपने कवित के एक चरण में कहा है कि—

×                    ×                    ×                    ×                    ×                    ×  
 “ एका वन वरस जीव्यो अनाड, जीतो नीज वावन महाराड. ”  
 ×                    ×                    ×                    ×                    ×                    ×

महाराव सूरताणसिंह व मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह की गद्दी नशिनी के समय में सिर्फ कुछ सहिने का अन्तर है, दोनों राजाओं के गद्दी नशिनी के समय पर ही अपने भायातों में वैर भाव होने के संयोग उपस्थित हुए थे, लेकिन महाराणा प्रतापसिंह गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र ३३ वर्ष की थी, जब महाराव सूरताणसिंह बारह वर्ष के बालक पन में सिरोही की गद्दी पर बैठा था, जिससे वह पुख्त उम्र में आया, वहांतक में राज्य तृष्णा के लोभ वाले भायात सरदारों ने उसकी बाल्यवस्था का लाभ लेकर अनेक आफते खडी की, बल्कि उसकी सोलह वर्ष की उम्र होने पहिले उसको सिरोही छौडने का व पुनः प्राप्त करने का प्रसंग उपस्थित हुआ, जिसमें सिरोही रियासत के चार परगने हमेश के वास्ते जालोर के तरफ चले गये, इतना ही नहीं परन्तु इसकी भलमनसाई, उदारता, वचन पालन राजनितो, और बाल्यवस्था का गेरव्याजवी लाभ लेकर, विकानेर के महाराजा रायसिंह ने मित्र भाव बताकर छल से इससे आधा राज्य लिखा लिया था, जिससे इसको अपनी जिन्दगी खूछी तलवार से व्यतित करना पडा.

हकीकत में 'चित्तौडगढ' राजपूताना व मालवे के केन्द्र स्थान होनेसे उसको सर करने की जितनी जरूरत वादशाह को थी, उसी मुआफिक आबु पहाड राजपूताना व गुजरात का केन्द्र होनेसे, और दूसरे पहाडों के मुकाबले में आबु की गौरवता

+ कविने उपर्युक्त दोह सब चौहान राजाओं के वास्ते कहे ह, जो कि वूंदी के हाडा चौहान शाही सेवा में उपस्थित हुए थे, परन्तु ऐसी अपमान कारक पृथा से मुक्त रखने की खास शर्त वादशाह ने मंजूर करने वाद उन्होंने ने शाही सेवा में रहना मंजूर किया था. वूंदी के हाडा राव सूरजन व भोजराज ने की हुई शर्तों के विषय में इस पुस्तक के पृष्ठ ७२ की टीप्पणी व पृष्ठ ७३ में सविस्तर अहवाल अंकित किया गया है.

ज्यादह होनेके कारण अकबर वदशाह ने आबु पहाड सर करने के वास्ते अथाग श्रम उठाया था, परन्तु सफलता नहीं होनेसे रातदिन उसके हृदय में आबु का राजा खटकता था, इसी कारण सिरोही के महाराव ने अपने मुलक की ज्यादह दरकार न करते आबु पहाड संभाल ने की खास जरूरत समजी थी.

महाराव मानसिंह का अकाल देहान्त होनेसे उसके मुसाहिव वजेसिंह व वक्षी सूरताण अबावत को राज्य का मुकुट धारण करने की अभिलाषा पैदा हुई, और जब कि महाराव के नजदीकी भाई ' कला मेहाजलोट ' का नाम जाहिर न होते, ' सूरताण ' का नाम जाहिर हुआ, तब अबावत सूरताण की लोलुप्ता बढ गई, परन्तु उसमें निष्फलता मिलने से, वह महाराव सूरताणसिंह का विरोधी बन गया. उसी मुआफिक डुंगरावत वजेसिंह को अगले प्रकरण में लिखे मुआफिक शाही दरवार में दिखलाई हुई लालचों से राज्य लोभ के अंकुर पैदा हो चूके थे, और बाल राजा के समय का लाभ लेना चाहता था. महाराव सूरताणसिंह ने उसका अपना मुसाहिव रखने से राज्याधिकार को लगाम उसके हाथ में थी, जिससे उसको कुछ सबर थी, परन्तु बाल राजा को देवडे सरदारों ने उसके काका सूजा रणधीरोत के संरक्षण में रखने से लखावत सूजा सब काम देखने लगा, जिससे डुंगरावत वजेसिंह के स्वतंत्र व स्वच्छंदी राज्यकारोबार में बाधा पडने लगी.

मू. ने. ख्या. में इस विषय में लिखा है कि देवडा विजा ( वजेसिंह ) धणाधोरी वंशिकर राज्य कारोबार चलाता था, और उसके कहने मुआफिक महाराव चलता था, परन्तु महाराव के काका सूजा रणधीरोत के पास अच्छे २ राजपूत व घोडे होनेसे विजा उसकी इर्षा करने लगा, दरमियान मरहूम महाराव मानसिंह की बाहडमेरी राणी को +पुत्र का जन्म हुआ, जिससे विजा ने सोचा कि महाराव सूरताणसिंह को हटाकर बाहडमेरी के पुत्र को गद्दी पर बैठा दूं तो मेरी उम्मेद बर आवेगी, परन्तु जबतक लखावत सूजा विद्यमान होवे वहांतक महाराव को गद्दी से हटाने का मौका नहीं होनेसे, उसने लखावत सूजा को चूक करके मारने के लिये अपने आदमीयों से कहा, लेकिन सब ने इसको कहा कि सिरोही का धणी सूरताणसिंह हो चूका है, तुम महाराव के काका को मत मारो, परन्तु विजा ने किसी का कहां नहीं माना, और अपने चचेरे भाई देवडा रावत सेखावत के पास लखावत सूजा को ( जो उस समय जगमाल वालीसा के डेरे पर था. ) चूक कराया, उधर विजा खूद लखावत सूजा का डेरा लूट ने को गया, जहां लखावत गोविन्ददास मौजूद था, उसने इसका सामना किया जिसमें गोविन्ददास काम आया.

+ मरहूम महाराव मानसिंह की बाहडमेरी राणी गर्भवती थी, उसको देवडा वजेसिंह ने बगला कर ( शायद महाराव सूरताणसिंह मार देगा ऐसा भय ब्रता कर. ) बाहडमेरी ( उसके पीहर ) भेज दी थी, जहां पर उसको पुत्र का जन्म हुआ.

देवडा विजा ने बाहडमेरी राणी को अपने पुत्र के साथ बुलाई थी, वे जब सिरोही के नजदीक आने की खबर मिली तब विजा उनकी पेशवाई करने को कालंद्री गया, जाते वक्त उसने अपने भरोसा वाले दो राजपूतों ( जिसमें एक हुंगरावत व दूसरा चौवादत सरदार थे. ) को सूरताणसिंह को नजरबंद रखने की आज्ञा की. महाराव सूरताणसिंह ने सोचा कि अब विजा वापस आकर मुजको चूक करेगा, जिससे उसने हुंगरावत राजपूत को समजाया कि तू मेरे को यहां से बाहिर निकाल दे, यदि मैं मेवाड या जोधपुर के राजा के पास जाकर रहूंगा तो भी मुजे रू. २००००) की जागीर तो जरूर देंगे, और मैं तुजको पालुंगा, वल्कि उस बात का सारणेश्वरजी को बीच में रख कर वचन कथन किया, और शिकार के वहाने से महाराव बहार निकल गये, चौवा राजपूत को इस बात का भेद मालूम नहीं था, जब कि दो कोश निकल गये तब चौवा राजपूत ने हुंगरावत से कहा कि मैं कुछ जानता नहीं हुं इसको मत जाने दो, जिस पर हुंगरावत ने जवाब दिया कि, तू सीधा २ आ जा नहीं तो तुजे मार दुंगा, तब चौवा राजपूत झक मारकर चूप रहा, और महाराव ❀ ' रामसिण ' चले गये.

देवडा वजेसिंह सामैया करने को गया, वहां बाहडमेरी राणी ने अपना बालक पुत्र को वजेसिंह के खोले में रखा, लेकिन उस बालक को कुछ बलाए होनेसे अचानक मर गया. सिरोही में आने बाद महाराव चले जानेकी खबर मिलने पर, वजेसिंह ने लखावत सूजा की जागीर के गांव पर फौज भेजी, जिसमें सूजा का एक पुत्र मालदेव काम आया, सूजा की राणी ने अपने दूसरे पुत्र पृथ्वीराज व श्यामदास को एक कुए जैसे खड्डे में छिपा रखे, वजेसिंह की फौज गांव को लूट कर चली गई, बाद रात्री के समय में सूजा की राणी अपने पुत्रों को लेकर आबु पहाड के गोड में गई. सूरताणसिंह ने रामसिण जाकर सूजा के परिवार को गाडियां भेज कर माल असबाब के साथ रामसिण बुला लिये.

बाहडमेरी राणी का पुत्र गुजर जानेसे देवडा सवरसिंह को वजेसिंह ने कहा कि मेरे को गद्दी पर बैठा दो, जिस पर उसने जवाब दिया कि, महाराव लखा की ओलाद के इस समय बीस डील मौजूद है, जब तक एक दो वर्ष का भी बालक उनकी ओलाद में मौजूद हो, वहां तक तेरी क्या मजाल है कि तू सिरोही की गद्दी पर बैठ सके, जिससे इन दोनों के बीच में विरोध हुआ, और देवडा सवरसिंह नाखुश होकर वहां से चला गया, लेकिन वजेसिंह अपने मते से सिरोही का मालिक बन बैठा.

दूसरी तरफ अवावत सूरताण जो महाराव सूरताणसिंह को गद्दी पर बैठाने से

\* रामसिण के ठाकुर कावा परमार केशवदास सिरोही रियासत का एक नमकहलाल सामन्त था, केशवदास की विधवा बहिन ( जो महाराव सूरताणसिंह के बड़े भाई शार्दूलसिंह की पत्नि थी. ) कानीजी रामसिण में रहती थी, जिससे महाराव रामसिण गये.

नाखुश हुआ था, उसने चीवा खेमराज से मिल कर लखावत कला मेहाजलोत को सिरोही की गद्दी पर बैठाने का उद्योग शुरू किया था, जिसके लिये कवि संडायस पुना ने कहा है कि—

×                      ×                      ×                      ×

“ अर्वाये करे उपाय चावा खेभो साथ ले; काजे जेज न काय कलानुं मालक करां. ” ॥ ५ ॥

×                      ×                      ×                      ×

वजेसिंह को सिरोही का मालिक बना हुआ देखकर, चीवा खेमराज जो उसका विरोधी था, उसने इस मौके पर लखावत कला मेहाजलोत को मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह ( जो लखावत कला का सगा होता था. ) की सहायता लेकर सिरोही कब्जे करने को कहा.

वस्तुतः लखावत कला मेहाजलोत महाराव सूरताणसिंह के मुकाबले में नजदीक का हकदार वारिस था, परन्तु महाराव मानसिंह ने अपने मुंह से सूरताणसिंह को सिरोही का राजा जाहिर करने से वह चूप बैठा था, लेकिन जबकि महाराव सूरताणसिंह सिरोही छोड़ कर रामसिंह चले गये, और देवडा वजेसिंह सिरोही दबा कर बैठ गया, तब सिरोही की गद्दी पर लखावत कला का हक होनेसे, मेवाड के महाराणा ने फौज की सहायता दी. इस विषय में मू. ने. ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ४ महिने से सिरोही का राज्य भोग रहा है यह बात मेवाड के राणा ने सूनी, तब राव कला जो महाराणा का भांजा होता था, उसको टीका देकर फौज के साथ सिरोही विदा किया. राव कला सिरोही आतेही देवडा विजा भाग कर इडर चला गया, और राव कला सिरोही का मालिक हुआ, लेकिन उसका सब दारमदार चीवा खेमराज भारमलोत पर था. राव कला के पास बाद में देवडा सवरसिंह व देवडा हरराज ( देवडा वजेसिंह का पिता ) हाजिर हुए, और कहा जाता है कि महाराव सूरताण ने भी आकर, कला को जुहार किया जिससे कईएक गांव जागीर में दिये, वहां रहकर सूरताणसिंह चाकरो भी करते थे.

उक्त ख्यातमें यह भी लिखा है कि एक दिन राव कला दरवार में से उठकर चला गया, और देवडा सवरसिंह, सूरसिंह ( सवरसिंह का भाई ) व हरराज गालिचे पर बैठे थे, तब चीवा पाता ( चीवा खेमराज का भाई. ) ने फर्सास को कहा कि गालिचा ले आ, लेकिन ठाकुर लोगों को उस पर बैठे हुए देख कर समाचार विदीत किया, उस पर फर्सास को गाली देकर चीवा पाता ने कहा कि जा गालिचा ले आ, जिससे पुनः गालिचे के पास आया, फर्सास को बार २ आकर गालिचा के तरफ नजर डालता देख कर, सरदारों ने पूछा कि क्या चीवा पाता गालिचा मंगाता है, तब फर्सास ने कहा कि आप सब बात समजते हो, यह सूनतेही वे लोग उठे और कहा कि परमेश्वर करेगा



तो राव कला को जाजम पर नहीं बैठेंगे, इतना कहकर रीस करके वहां से चले गये. इस विषय में कवि संडायस पुना ने अपने कवित में कहा है कि—

“ पांतल राण प्रमाण कलारी मदतज करण, जाहर सगपण जाण सेना भेजी सामटी. ” ॥ ६ ॥  
 “ हुंगर दरवारां ए पण शीवपुर आवीयां, बुई जाजम वारां ए हुंगर सब उठोया. ” ॥ ७ ॥  
 “ उण पल हुंगर उठ आप घरां दस आविया; जुध कर भडसां जुठ कला सुं भारत करां. ” ॥ ८ ॥

हुंगरावत सरदार चले जाने बाद राव कला ने क्या तजवीज की इस विषय में मू. ने. ख्या. में कोई उल्लेख नहीं हुआ है परन्तु कवि पुना ने अपनी कविता में कहा है कि—

“ हुगरां पर देसोत कलारा आया कटक; उगां भाण उद्योत विध विध खागां वाजियां. ” ॥ ९ ॥  
 “ आंपां वातां उच उण मुख सुं जद उचरी; मुंह पर राखां मूळ सज फोजां लोहां चडां. ” ॥१०॥  
 “ सही पर रहसी माण ए वाता रहसी अमर; तप धारी सरताण अणरो तप लडसी अवस. ” ॥११॥  
 “ के लड थल लंकाल लुहर भालां ले रहां; कालंद्री भारत कले डेरा दोए फोजां दिया. ” ॥१२॥  
 “ मूरे खाग सवाए सवरे भाग सात्रवां; मगरारी धर मांए कला रा वलीया कटक. ” ॥१३॥  
 “ आप अखा गढ आवे सूरु पोरसीयो सवर; दोखीयां देसां दाव अरवद घर करां आपरां. ” ॥१४॥  
 “ छे धणी सरताण मूरे ने कहियो सवर; दल भांजां दर्ईवाण कला सुं भारत करां. ” ॥१५॥

मू. ने. ख्या. में लिखा है कि हुंगरावतों ने महाराव सूरताण को समाचार भेजा कि आप हमारे साथ होजाओ, जिस पर महाराव सूरताण उनको आमिला. हुंगरावतों ने इकट्ठे होकर, महाराव सूरताण को टोका किया, और देवडा विजा जो 'इडर' के राजा की चाकरी में था उसको बुला लिया. इस विषय में कवि पुना ने अपनी कविता में कहा है कि—

“ फोजां फरमांणा मूरे लखीयो सोढने; धर आबु थाणां, दोय हां छावा देवडा. ” ॥१६॥  
 “ राज तणा रजपूत सब दी करसां चाकरी; राखां परीयां रीत सज फोजां लोहां चडां. ” ॥१७॥  
 “ पहला पामेरा भला हता जद भाण रे; मोहरे था मारे सपण्या कले सोढ ने. ” ॥१८॥  
 “ खरोज साथ खंदार पायल खल लीधां प्रसण; आप होए असवार डेरा पामेरे दीया. ” ॥१९॥  
 “ पामेरे अणपार कर आया हुंगर कटक; मोटां मगरां मांहे पाखरणो किधो पवंग. ” ॥२०॥  
 “ हुगरां रा दल देख सोढ पवंग चलावीया; उचल गीया अनेक कलारो भागो कटक. ” ॥२१॥  
 “ खुव कही ह्य नाल धुकारव माती धनंक; चोरंग वांधे चाल मूरो ने लडीया सवर. ” ॥२२॥  
 “ चदीयां घोडो सोढ मूरो ने लेगा सवर; गाजे आबु गोड कला सुं भारथ कियो. ” ॥२३॥  
 “ आप अखागढ आंण सोढ तिलक दीधो सही; पृथो लई खगपांण अरवद गढ कियो आपरो. ” ॥२४॥  
 “ अण वध करे उपाय दोए वध रा कागद दिया; जो इडर धर जाय वेगा पहोंचावो वजा. ” ॥२५॥  
 “ कागद कासिदे वेग दिया वजपाल ने; लंठाई धर ले अखागढ कियो आपरो. ” ॥२६॥

मू. ने. ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ने इडर से रवाना होकर 'रोह, सरोतरे' आकर मुकाम किया, तब वह खबर चीवा पाता ने राव कला को पहुंचाई, जिसपर राव कला ने देवडा रावत हामावत ( चूली गांव का देवडा हामा रतनावत जिसको महाराव

मानसिंह ने मारा था, जिसका पुत्र रावतसिंह था ) को ५०० सवार देकर, देवडा विजा के सामने घाटा ( तोडा का दरवज्जा ) के नाकेपर भेजा, परन्तु रावत हामावत ने जब मालगांव में आकर मुकाम किया, तब देवडा विजा घाटे के नाके से वाहिर आ चूका था. वजेसिंह पास १५० सवार थे, वरमांण गांव से एक कोश के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, जिसमें देवडा विजा की जीत हुई, और राव कला की फौज के ४० आदमी काम आए, ६० आदमी जखमी हुए, और रावत हामावत सख्त जखमी होकर गिरा. देवडा विजा के १३ आदमी काम आए, और वह रामसिंह में महाराव सूरताणसिंह को जा मिला. इस विषय में कवि संडायस पुना ने इस लड़ाई का सवीस्तर वर्णन अपनी कविता में किया है, उससे पाया जाता है कि जीरावल गांव की कांकण पर यह युद्ध हुआ था, और चीबा खेमराज भी देवडा रावत हामावत की सहायता में आ पहुंचा था. कवि इसके वर्णन में कहता है कि—

×

×

×

×

- “ वचन सुणे वजपाल उससीयो लागो अमर; भारथ भीम भजाल देखो दखीयो देवडो. ” ॥२७॥  
 “ घणा साथ गमसांण दल मेले फोजां डमर; पोरस मेर परमांण वर दायक चढीयो वजो. ” ॥२८॥  
 “ वीरमदेरी वार इडर रा ले उमरा; सोह अंग भीड सनाह पाखरीया खडीया पवंग. ” ॥२९॥  
 “ उडे खेह अपार खरीयाव भालांखवे; भोयंग न झेले भार वच फोजां सोभे वजो. ” ॥३०॥  
 “ ओ पंचायण एक अरवद री धर आवीयो; उडे गंगम अनेक भाग गीया सोह भाखरां. ” ॥३१॥  
 “ रावत कहीयो राव सोढ सुर मालक सही; तारां ज्युं तरसाव दन कर उगां देखीयो. ” ॥३२॥  
 “ राखे जतने राव खीमो ने रावत खडे; दोखीयां देसां दाव कांकल जीरावल करां. ” ॥३३॥  
 “ वजा तणा सुण वेण कलोज चढीयो जोर कर; तहां वजमल खग तोल विध विध खागां वाजीयो. ” ॥३४॥  
 “ कांकल जो करणा सुण खेमा रावत सपह; वजमल सुं लढणा भारथ में वाथां भरे. ” ॥३५॥  
 “ आडी फोजां एक, खेमो ने रावत खडे; ते खत्रवत री टेक, वरदायक राखी वजा. ” ॥३६॥  
 “ उडे सोर अपार, हथ नालां की हुक्के; भुज है खत्रवट भार, वेरीयां पर झुझे वजो. ” ॥३७॥  
 “ ध्रपव्यां भालां धीव, जीके सत्र कै झीकीया; हथ नालां पड हीव, गोले दोणा गुडावीया. ” ॥३८॥  
 “ राड करे रजपूत, वढवा उभो वीर वर; दोखीयां पर जम दूत, वीच फोजां दीसे वजो. ” ॥३९॥  
 “ करे कईक झटके, क्रुते अने कटारीऐ; कला तणे कटके, दसमो ग्रह वजमल दीपे ” ॥४०॥  
 “ धडचे खग धारां, वच फोजां जीतो वजो; पोरस अणपारां, वजमल अरी वखंडणो. ” ॥४१॥  
 “ वढतां थे वजपाल, लोबो खीमो साजीओ; वेरज लीधो वाल, पडीयो रावत पागती. ” ॥४२॥  
 “ हद कीधी हथवाह, वाह केहतां वाहीई; अणवध करे उपाह, गडथल खाए रावत गीयो. ” ॥४३॥  
 “ जोए जोए सूरु जात, क्षत्री कईक साजीया; वजा कलारी वात, च्यार जुगां रे’ सी सदा. ” ॥४४॥  
 “ जुध जीते जमराण, वरदायक चढीयो वजो; घण घोडां गमसांण, चढ सूरु आया सवर. ” ॥४५॥  
 “ भारथ फोजां भंज, कांकल जीरावल करे; गडपत मोटा गज, वड कुसले आयो वजो. ” ॥४६॥  
 “ लंगर फोजां लार अखागढ आयो अनड; ते झाली तरवार, कलासु भारत करण. ” ॥४७॥  
 “ आयो पारेवो ऊंट भलहथ सोना भारीयो; लाखों मालज लूट, सारंग दीधो सोढ ने. ” ॥४८॥

×

×

×

×

वजेसिंह ने आकर महाराव सूरताण को मुजरा किया, और घोडा नजर करके अपने कसूर की मुआफि मांगी. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा विजा

आमिलने से राव सूरताण ज्यादा बलवान हुए. विजा देवडा पहिले से बंदोबस्त करके आगे बढ़ने वाला राजपूत था, उसने महाराव को कहा कि जालोर के मलिकखान को सहायता लेना चाहीये, जिस पर मलिकखान के पास आदमी भेज कर कहलाया कि हम एक लक्ष रूपिये सहायता करने के एवज में देवेंगे, लेकिन उसने जुवाब दिया कि लक्ष रूपिये के वास्ते भाई बन्धु नहीं मराये जावे, सिरोही रियासत के सियाणा, वडगांव, लोहियाणा व डोडियाली यह चार परगने दे दो, तो मैं सहायता करने को तय्यार हूं. इस बात पर सलाह मसलत की गई तब विजा ने कहा कि खान अपने सिर के बदले में परगने मांग रहा है, खुशी से दे दो, जिससे चार परगने खान को सुपुर्द किये गये, और वह १५०० सवारों के साथ सहायता करने को आया.

राव कला ने ४००० फौज के साथ सिरोही से कूच की और कालंद्री के नजदीक मुकाम करके मोरचे बंदी की. महाराव सूरताण के पास ३००० सैनिक थे. राव कला की तरफ से कालंद्री में युद्ध की तय्यारी करने का हाल सून कर, महाराव सूरताणसिंह ने उसके सामने वहां जाने का इरादा किया, परन्तु उसके पास डुंगरावत सवरसिंह, सूरसिंह व वजेसिंह आदि बड़े चतुर और दीर्घ दृष्टि राजपूत थे, उन्होंने कहा कि अपने को कालंद्री से क्या मतलब है ? सीधे सिरोही पर जायेंगे, यदि राव कला को लडना होगा तो आकर लडेगा, जिस पर फौज के तीन हिस्से करके सिरोही तरफ महाराव की फौज ने कूच किया, जब कि कालंद्री से एक कोश के अन्तर पर वे पहुंचे तब राव कला रोकने के वास्ते आया, जिससे वहां ही युद्ध हुआ, और राव कला की हार हुई. इस युद्ध में विहारीओं ने (जालोर के खान की फौज ने.) बहुत अच्छा काम दिया. राव सूरताणसिंह की फौज में दस बीस आदमी काम आये, जिसमें मुख्य डुंगरावत सूरसिंह नरसिंहोत था, वह बड़ी वीरता से युद्ध कर काम आया. राव कला की तरफ के चीवा पाता, सीसोदिया मुकुन्ददास, सीसोदिया श्यामदास, सीसोदिया दलपत, यह चार मुख सरदार मारे गये, और राव कला भाग गया, महाराव सूरताणसिंह ने सिरोही पहुंच कर अपना कब्जा कर लिया.

इस विषय में कवि संडायस पुना की कविता से पाया जाता है कि, यह लडाई में देवडा रावत हामावत और चीवा खेमराज भी काम आये थे, जो डुंगरावत सूरसिंह के हाथ से मारे गये थे. वडुआ की पुस्तक में भी चीवा खेमराज इस युद्ध में मारा जाना लिखा है. उक्त कविता में लिखा है कि यह युद्ध 'बराळ व कालंद्री' गांव की सीमा पर हुआ, और राव कला भाग निकला. इस युद्ध में डुंगरावत सूरसिंह ने और सवरसिंह, वजेसिंह, आदि सरदारों ने जो वीरत्व दिखाया उसका कवि ने वर्णन किया है, कहा जाता है कि सूरताणसिंह के विषय में इस युद्ध के प्रसंग तक का इतिहास कवि पुना ने

७४ सोरठे में रच कर सूजाने से महाराव सूरताणसिंह ने कवि को एक गांव वक्षा, जो 'पुनावा' गांव के नामसे वर्तमान समय में उसको ओलाद वालों के तरफ विद्यमान है. कालंद्री की लडाई के विषय में कवि ने कहा है कि—

- × × ×
- “ भाई कर भेला कर हुंगर चढीया कटक; अरीयां उथेला कला सु भारथ करां. ” ॥४९॥
- “ कटकां कुच करे वरदायक चढीयो वजो; फोजां वेंट फरे चढ सूरु आया सवर. ” ॥५०॥
- “ पवंगज पाखरीया जोधां रे भीडे जरद; उपर खड आया चढ वजमल सुरो सवर. ” ॥५१॥
- “ सोढ वीजली चलाव हाली हीमाला हुंती; तड आणीया तलाव तारु ज्युं सूरु तवां. ” ॥५२॥
- “ जाणे वगला जाए दंतु सल उजल दीपे; महारे फोजां माए सिंधुर दीसे सांमठा. ” ॥५३॥
- “ कर कांटल काली वच फोजां हाथी वे है; वा पलवट वाली, गीमर सुरे गुडावीया. ” ॥५४॥
- “ पाडे पाखरीया गीमर कई एक गुडावीया; पाएल के पडीया धड वेडे कीधा ढगे. ” ॥५५॥
- “ एकण कोर कनेक, हेकण कोर हरराजरो; ते क्षत्रवट री टेक, वरदायक राखी वजा. ” ॥५६॥
- “ लुणो वाहे लोह, धडछे सत्र खागां धनो; जुध में मानो जोह, वेरीयां दल भाजे वजे. ” ॥५७॥
- “ मोटा मींगल मार, गीमर कई कीधा गरद; ते वाही तरवार, चढ दंतु सल सुरीया. ” ॥५८॥
- “ रावसुं मचीयां राड, ब्राहल कालंद्री वचे; आयो खाग ऊपाड, सुर धनंजेय सारखो. ” ॥५९॥
- “ पेदल हेय दल पाड, कर कांकल मछवे कला; मात्रव चाती चाड, धडचे सत्र कीधा ढगे. ” ॥६०॥
- “ कटके कीया के वांण, सुरो वाहे चापडे; वेरी करे वखांण; कर भारथ राखी कथा. ” ॥६१॥
- “ मार पडे रण मांए, फरडे कालज फोफरा; माटी अरी मलाए, सुरे मछव्यो सीफलो. ” ॥६२॥
- “ ऊडे सोर अपार, हथ नालां की हुव के; मेवाडां दलमार, काले नर दलीया कटक. ” ॥६३॥
- “ फोजां न पडे फेर, कर कांकल भागो कलो; मंडीयो सुरो मेर, ब्राहल कालंद्री वचे. ” ॥६४॥
- “ उकलीया आरांण, गणवा जे भाजे गणा; प्रसण पडै खंग पांण, धमचक माचवीयो धरा. ” ॥६५॥
- “ ऊभो दये उजेल सूरु वागज चापडे; मेवाडा जुध मेल, घाएल होए नाटा गणा. ” ॥६६॥
- “ तंडल तरवारे, धड वेहडे कीधा ढगे; मोह वडीया मारे, काले नीटवीया कटक. ” ॥६७॥
- “ मारे +मेवाडा, कण कण दल फोजां कीया; पुरा पवाडा, कला सुं सूरै कीया. ” ॥६८॥
- “ रणवट कर रटका, दोखी भगाया हुंगरे; वे वे कर वटका, फोजों रा दल फेरीया. ” ॥६९॥
- “ छीवो खीमो साज, पाचटोयो रावत प्रसण; वेरीयो सांमो वाज, काले रामायण कायो. ” ॥७०॥
- “ पहेलो खेमो पाड पछेज रावत पाडीयो; रंग हो जीतो राड, पछेज सूरु पोढीयो. ” ॥७१॥
- “ अपछर लुण ऊतार, गई सुरग ले गावती; धुरजटी सरदार, माला संकर रे मही. ” ॥७२॥
- “ नरसिंघोत न डार, सुरो पहुंच्यो सरग ने; सबलां वाए सार, कर भारथ राखी कथा ” ॥७३॥
- “ सुरे दीधी सोढ ने, सिरोही सब दीह; कहेतो जेसो थे कीयो, जस बोले कव जीह. ” ॥७४॥

कवित छप्पय.

- “ वढे वीर विराध, जुध जीतो जेताई; खीमो पाडे रणखेत, वढे रावत वरदाई. ”
- “ वढे हुंगर वजपाल, करे भारथ कालंधरा; मेवाडा दल मार, कण कण इम फोजां करी. ”
- “ कलारा भागे कटक, वड हत इम वरदावरी; सांम भ्रम लडे सूरु सवर. सोढ समापी सीवपुरी ”


+ गव कला के साथ महाराव सूरताणसिंह का कालंद्री के पाम युद्ध हुआ इस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि— जब कि महाराव सूरताणसिंह बल्तर टोप सज कर ममरांगण में उपस्थित हुआ, और राव कला की फौज के पैर उखड ने लगे तब ( सिवाय चीवावतों के ) हमारे मत्र सिरोही के सरदार जो कथा की सहायता में थे, उन्होंने किनारा लिया, और राव कथा भाग गया, लेकिन सीसोदियों को युद्ध में से मीछे पैर देनेमें लज्जा आनेसे वे अपने देहान्त तक लडने रहे, जिससे सिंसोदियों की बहुत फौज इस युद्ध में मारी गई.

“ कालंधरी जुध करे, स खर खीमो सकोडे; कलो भाज काढीयो, वोहस इम खाग व्होडे. ”

“ सुरे सवरे वजे कीयो भारत सु पांणे; उग्राहीयो अरवद, रेस खग दीवो सु रांणे. ”

“ नवड भड व्ह मोटे नरे, कलह नांम चंदो कीयो, सोढ ने घणा दिन सरणुए अवचल सूरें थपीयो. ”

यह लडाईं वि. सं. १६३१ में होना पाया जाता है, क्यों कि डुंगरावत सूरसिंह वि. सं. १६३१ में काम आनेका उल्लेख उसके स्मारक की बनी हुई छत्री के लेख में किया गया है. महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे करने बाद राव कला के जनाने वाले जो सिरोही में विद्यमान थे, उनको बडी इज्जत व हिफाजत के साथ कला के पास पहुंचा दिये, और चीवा खेमराज के तरफ कालंद्री पट्टे की जागीर थी वह डुंगरावत सूरसिंह के पुत्र सामन्तसिंह को दी, जो अवतक उनके वंशजों के तरफ है. महाराव सूरताणसिंह के हाथ से कौन संवत् में सिरोही छूट गया, और कौन संवत् में पुनः कब्जा किया, उसका स्पष्ट खुलासा किसी ख्यात में नहीं है, परन्तु उसके समय के कितनेक ताम्रपत्र व शिलालेख (जो इस पुस्तक के लेखक को) मिले हैं, उनसे मालूम हुआ है कि वि. सं. १६२९ के आसो सुदि १३ के दिन उसने 'देरोल' नामका गांव देनेका ताम्रपत्र कर दिया है, और वि. सं. १६३२ के श्रावण वदि १३ के रोज 'कांटी' नामका गांव देनेका शिलालेख से पाया जाता है, जिससे अनुमान होता है कि इस दरमियान के समय में यह घटनाएं हुई हैं. बडुआ की पुस्तक में विसलपुर के लखावतों की ख्यात में उल्लेख है कि, वि. सं. १६३० में राव कला ने महाराणा की सहायता से सिरोही पर कब्जा किया था, और सूरसिंह डुंगरावत का काम आनेका संवत् १६३१ मालूम हुआ है, जिससे भी पाया जाता है कि वि. सं. १६३१ में महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे किया है.



## प्रकरण २९ वाँ.

बलू देवडा वजेसिंहान. ( महाराव सूरताणसिंह. )

( महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं. )

महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कब्जे किया तब उसकी उम्र पंद्रह साल की थी. यदि उसने बालकपन से ही युद्ध की तालीम पाई थी, और डुंगरावत सरदारों के साथ अग्रणी होकर पामेरा की लड़ाई में और कालंद्री के युद्ध में भाग लिया था, परन्तु पुस्तक वय न होनेसे राजकारोबार का बोझ उठाने का उसमें चाहिये जैसा सामर्थ्य न होनेसे, राजतंत्र निभाने के वास्ते पुनः देवडा वजेसिंह को अपना मुसाहिब बनाया. इस महाराव ने पुनः सिरोही में आने बाद ( वि. सं. १६३१ से ) वि. सं. १६४० में दताणी की लड़ाई हुई, उस दरमियान का अहवाल मूतानेणसी की ख्यात से व गाँव कवितों से उपलब्ध होता है, परन्तु उसमें किस समय में वे ऐतिहासिक घटनाएं हुई उनके संबन्ध किसी जगह अंकित होना पाया नहीं गया है. सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में मुसलमानी तवारिख पर से हाल अंकित हुआ है, उसमें और ही बातें दर्ज हैं, और

× दत्तकथा में कहा जाता है कि महाराव सूरताणसिंह बालकपन से ही तीर चढ़ाने में इतना कुशल था कि जब कि वह १० साल की उम्र में था, तब अच्छे तीरंदाज का तीर जितने दूर जाता था उससे ज्यादा फासले पर इसका तीर पहुंचता था. यह कुशलता उसने अपने पिता भाण रणधीरोत से तालीम पाकर हासिल की थी. इसका पिता 'सुत्रपाणेश्वर' ( जो वर्तमान समय में सूरताणेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान है. यह स्थान 'नादीआ' गाँव के पास 'लोटाणा' नामक गाँव के पहाड़ में विद्यमान है. ) महादेव का परम भक्त था, और 'भजनी भाण' के नामसे मशहूर था. भाण रणधीरोत की वृद्धावस्था में सूरताणसिंह का जन्म होनेसे भजनी भाण के बड़े बालक का सूरताण चाकरी में उपस्थित रहता था. कहा जाता है कि महाराव मानसिंह के समय में अकबर बादशाह खुद सिरोही पर चढ़ाई लाया, तब सूरताण भाणवत के तीर से वह जख्मी हुआ था. जिसके लिये कवि ने कहा है कि—

“ पर्वत जतो प्रमाण, नख जतरो अंजस नहीं; त्रां सहजा सूतान, विंधो भाण नरंद वत. ”

कवि कहता है कि मुकाबला किया जाय तो एक तरफ बड़ा पहाड़, ( यानी बादशाह ) और दूसरी तरफ नख का प्रमाण ( यानी बालक सूरताण. ) तब भी हे, भाण नरेन्द्र का पुत्र तेने सहज में सुलतान को विंध डाला.

सूरताणसिंह के बल पराक्रम से महाराव मानसिंह अच्छी तरह वाकिफगार था, जिससे उसने अपने पीछे उसको सिरोही के मालिक बनाना योग्य समजा, बल्कि उसने अपने देहान्त के समय डुंगरावत सवरसिंह के पूछने पर सूरताणसिंह के बल पराक्रम के विषय में इशारा किया था कि जिसकी मर्दानगी मेरू के समान जाहिर में आ चुकी है, वह भाण का सूरताण तुम्हारा मालिक है. जिसके वास्ते कवि पुना ने महाराव के लफज खाम कर अपनी कविता में अंकित किये हैं, यानी सवरसिंह ने पूछा कि कौन से सूरताण को हम मालिक माने, जिसके जुवाव में महाराव कहते हैं कि—

“ जाहरःक्रांतीजान, भाण तणा सूरताण है; पोरस भेर प्रमाण, सो मालक थांरेसही. ”

उन बातों के संवत् भी दर्ज किये हैं, जैसे 'रासमाला' नामक पुस्तक में भी मुसलमानी त्वाखिख के आधार से संवत् के साथ कुछ हाल लिखा गया है. उन सब के सारांश यह है कि-

१ वि. सं. १६३२ में राजा टोडरमल ( अकबर बादशाह का मुस्ताहिब. ) गुजरात में आया तब, सिरोही के राजा ने रू. ५००) नकद व एकसौ मुहरें की खिराज दी. ( रा. सा. पृ. ६५० ).

२ वि. सं. १६३३ में अकबर बादशाह ने सिरोही पर फौज भेजी, जिसमें तरसुखां, वीकानेर के राव रायसिंह और सय्यद हासम को फौज के साथ भेजे गये, लेकिन महाराव सूरताण ने उनसे मुलाकात करली, जिससे वे वापस चले गये. ( सि. रा. ई. पृ. २३७ ).

३ उसी समय ( वि. सं. १६३३ ) में अकबर बादशाह मेवाड में राणा प्रतापसिंह से लड़ाई कर रहाथा, जब बादशाह वांसवाडे पहुंचा तब खबर मिली के राव सूरताण ने फिर फसाद शुरू किया है, उस पर बादशाह ने वीकानेर के रायसिंह व सय्यद हासम को फिर सिरोही पर भेजे, सूरताण किले में बैठकर उनका सामना करने लगा, शाही फौजने कई बार किले पर हमले किये, लेकिन हरवक्त हारकर लौटना पडा, इस तरह लडकर किला फतह करने की उम्मेद निष्फल जाने से वे किले को घेर कर पडे रहे. ( सि. रा. ई. पृ. २३७ ).

४ इन्हीं दिनों में वीकानेर के राव रायसिंह का जनाना वीकानेर से आता हुआ सिरोही की हद में पहुंचा, जिसकी खबर पाकर महाराव सूरताण उसको लूटने के लिये गया, लेकिन वह रायसिंह के राजपूतों से हार कर आवु पर चला गया. रायसिंह किले पर अधिकार कर आवु पर जापहुंचा, राव सूरताण ने सुलह करना चाहा और राव रायसिंह से मिलकर उसके साथ बादशाह के पास चला गया, और सय्यद हासम हाकिम के तौर पर सिरोही में रहा. ( सि. रा. ई. पृ. २३७ )

५ वि. सं. १६३८ में राव सूरताण के बडे बेटे ने कुछ फौज इकट्ठी कर सय्यद हासम को मार डाला, और राव सूरताण भी अपने बेटे से जो मिला, इस पर बादशाह ने राणा प्रतापसिंह के भाई जगमाल को सिरोही का राज देकर, ऐतमादखां जालोरी को लिखा कि सिरोही का राज सूरताण से छीन कर जगमाल को दिला देना, जगमाल जालोर आया, जहांसे ऐतमादखां को साथ ले सिरोही पर गया, सूरताण ने उसका मुकाबला किया, लेकिन हार कर पहाडो में जाना पडा, जगमाल सिरोही पर काबिज हो गया, फिर राव मालदेव राठौर के पोते रायसिंह, विजा देवडा और बहुत सी फौज जगमाल की मदद के लिये छोड कर ऐतमादखां जालोर चला गया. ( सि. रा. ई. पृ. २३८ )

६ वि. सं. १६४० में जालोर वालों ने कुछ फसाद किया, जिसको मिटाने के लिये देवडा विजा तो जालोर गया, और सूरताण जो घात में लगा हुआ था, पोशिदा रास्ते से अपने महलों में चला आया. उस वक्त जगमाल और रायसिंह को, जो सोये हुए थे, घेर लिये तो उन दोनों ने सामना किया, परन्तु दोनों मारे गये. ( सि. रा. ई. पृ. २३८ )

उपर्युक्त बातों से यह पाया जाता है कि वि. सं. १६३३ में महाराव सूरताण से सिरोही का राज छूट गया था, और उस समय से वि. सं. १६३८ तक सय्यद हासम बादशाह के तरफ से बतौर हाकिम सिरोही में रहा था, और वि. सं. १६४० में सीमोदिया जगमाल व राठौर रायसिंह सिरोही के महलों में मारे गये थे. सिरोही राज्य के इतिहास के लेखक ने यह बातें पक्षपात से अकबर नामे में लिखि जानेका कारण बताकर उल्लेख किया है, तदुपरांत महाराव सूरताणसिंह ने दिये हुए दान के बहुत से ताम्रपत्र व शिलालेख विद्यमान हैं, जिसमें वि. सं. १६२९-१६३२-१६३४-१६३७-१६३८-१६३९ व १६४० के संवतों में अलग २ गांवों में भूमिदान करने के प्रमाण मिल रहे हैं, जिससे वि. सं. १६३३ से १६३८ तक सिरोही राज्य का कब्जा महाराव सूरताणसिंह का नहीं होते शाही हाकिम के तरफ रहने का अकबर नामा में लिखा गया है वह गलत होना पाया जाता है. उसी मुआफिक महाराव सूरताणसिंह के बड़े बेटे ने वि. सं. १६३८ में सय्यद हासम को मार डालने की बात भी बिन पायेदार है, क्योंकि उस समय में खुद महाराव की उम्र २२ वर्ष की थी. अकबर नामे में यह भी लिखा है कि वि. सं. १६२८ में अकबर बादशाह के सरदार खान कलां जो गुजरात के तरफ जा रहा था, उसको सिरोही के कोई राजपूत ने खसखत जखमी कर दिया, उसका बदला लेनेके वास्ते शाही फौज सिरोही पर गई, राव ( सूरताण ) सिरोही छोड कर पहाडों में चला गया, और १५० राजपूतों ने सिरोही में शाही फौज का सामना किया, और वे सब लडकर मारे गये, लेकिन वि. सं. १६२८ व वि. सं. १६३८ में सिरोही में कौन राजा था, उसका नाम भी दर्ज नहीं है. अनुमान होता है कि वि. सं. १६२८ की घटना महाराव मानसिंह के समय में हुई थी, और वि. सं. १६३८ में सय्यद हासम को महाराव के बड़े पुत्र ने नहीं परन्तु खुद महाराव सूरताणसिंह ने मार डाला होगा.

महाराव सूरताणसिंह ने वि. सं. १६३३ में अकबर नामे में लिखे मुआफिक शाही फौज सिरोही के किले पर घेरा डाल कर पडी हुई थी, उस मौके पर वीकानेर के महाराजा रायसिंह के जनाने को लूटने का प्रयत्न किया था, यह बात भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब कि फौज घेरा डाल कर पडी थी, तो उसका घेरे में से चला जाना ही मुश्किल था, दोगम-वीकानेर के रायसिंह के साथ उसका रिश्ता था, सोयम

× दतक्या में महाराव मानसिंह के समय में खुद अकबर बादशाह सिरोही पर आया था, और सूरताण के तीरसे जखमी होनेका कहा जाता है.



महाराव सूरताणसिंह ऐसी प्रकृति के राजा नहीं था कि जनानी सदाओं की मर्यादा का पालन नहीं करते, उसको तकलिफ देनेका इरादा करे, बल्कि सू. ने. की ख्यात में लिखा है कि वीकानेर के महाराजा सौराष्ट्र में जाते थे, तब सिरोही के पास होकर निकलने से महाराव सूरताणसिंह ने उनका उत्तम प्रकार से आतिथ्य किया था. सब से बड़ी बात यह है कि अकबर नामे में लिखे मुआफिक सिरोही का राज्य बादशाह के कब्जे में हो गया होता तो, शाही कब्जे से आबु पहाड सहल से पुनः महाराव के कब्जे में नहीं आने पाता. वगैरह कारणों से स्पष्ट पाया जाता है कि महाराव सूरताण के समय में सिरोही राज्य पर शाही फौज के बार बार हमले होने पर भी सफलता न मिलने से, सिर्फ बड़ाई दिखलाने के खातिर ऐसी बनावटी बातें लिखी गई हैं. इसी मुआफिक सिसोदिया जगमाल व राठौर रायसिंह चन्द्रसेनोत को सिरोही के महलों में मारे जानेकी बात भी गलत है, क्यों कि वे दोनों दूसरे कइएक सरदारों के साथ 'दताणी' में मारे जानेका अहवाल दूसरी हरएक ख्यातों से व गीत कवितों से भी मालूम होता है.

सिरोही राज्य के बडुआ की पुस्तक और दूसरे कवियों के गीत कवितों से मालूम होता है कि, महाराव सूरताणसिंह ने राव रायसिंह चंद्रसेनोत को व मेवाड के महाराणा को आपत्ति काल में आश्रय देकर बहुत नामवरी पाई है, इस विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में (पृष्ठ २४३ पर.) लिखा है कि "ये बडे ही मिलनसार थे, और राजपूताना के कई राजाओं के साथ इनकी मैत्री थी. जोधपुर के महाराव चंद्रसेन को बादशाह ने मारवाड से निकाल दिया उस वक्त दो वर्ष तक वे सिरोही राज्य में रहे, उस समय इन्होंने ने उनका बहुत कुछ सन्मान किया, और जब वे डुंगरपुर वांसवाडे की तरफ गये, उस समय अपनी माता तथा राणीयां को सिरोही छोड गये थे." मेवाड के महाराणा के विषय में उक्त पुस्तक में इतना ही लिखा है कि "महाराणा के साथ इनका स्नेह वैसाही बना रहा, जब उक्त महाराणा की विद्यमानता में उनके कुंवर अमरसिंह की पुत्री केसर कुंवर का सम्बन्ध महाराव सूरताण से होता देख, उनके भाई सगर ने उनसे निवेदन किया कि, अपने भाई जगमाल को सूरताण ने ही मारा है, इस लिये सिरोही वालों से तो वैर लेना चाहिये, परन्तु उक्त महाराणाने इनके साथ के स्नेह के कारण सगर के निवेदन पर कुछ भी ध्यान न दिया, जिससे उसने अप्रसन्न होकर कहा कि मुजे सोख दो, इस पर महाराणा ने यही उत्तर दिया कि तुम चाहो तो भले ही चले जाओ, परन्तु नामवरी तो जब जाने कि हमारे घराने के नामसे +देहली जाकर

+ महाराणा प्रताप का भाई सगर बादशाह के पास देहली चला गया था, उसके कारण के विषय में मृता नेपत्ती ने भीसोदिया की ख्यात में लिखा है कि—जगमाल सगर का सगा भाई था. सगर का ख्याल था कि राव सूरताण ने जगमाल को मारा है तब भी दिवान (महाराणा) उनकी ताफदारी कर रहे हैं, लेकिन राणा अमरसिंह राव सूरताण के पास जगमाल का वैर मांगे, परन्तु महाराणा ने राव सूरताण को ओलमा भी नहीं देते, उसके साथ फिर भी स्नेह रखा, और राव सूरताण को अपनी पुत्री बहिई. इस बातसे सगर को बहुत बुरा लगा और बादशाह के पास आया, उसने मेवाड की कुछ हकीकत बादशाह जहांगीर को

मुसलमानों की सेवा में पेट न भरो, इस प्रकार अपने भाई से विगाड करके भी उक्त महाराणा ने अपनी पौत्री का विवाह अपने समान गुणशील वाले इन महाराज से करही दिया. ”

महाराणा प्रतासिंह के साथ सिरोही के महाराज सूरताणसिंह का स्नेह क्यों हुआ ? और महाराणा के भाई सगर के कथन की दरकार न करते, महाराणा ने महाराज सूरताणसिंह से ज्यादा पक्षपात क्यों रखा ? इसके वास्ते सिरोही राज्य के इतिहास के लेखक ने व दूसरे ख्यात नविशों ने अपनी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं किया है, परन्तु सिरोही के बडुआ की पुस्तक में महाराज सूरताणसिंह के समय में ही रचे हुए दो कवितों की नुंद हुई है, उससे मालूम होता है कि जबकि महाराणा प्रतापसिंह से उदयपुर भी बादशाह ने छीन लिया तब वे कुंभलमेर आये, और वहां से भी शाही फौज के आक्रमण से भागना पडा. यानी जब कि महाराणा प्रतापसिंह ने हताश होकर मेवाड भूमि का त्याग करके सिंध के तरफ प्रयाण किया, तब महाराज सूरताणसिंह ने उसको आश्रय देकर ‘सूधा पहाड’ में रखा, ( जिसके वास्ते टॉड राजस्थान के पुस्तक में उल्लेख किया है कि ‘अरवली के शिखर पर से उतरकर महाराणा मरूभूमी की सीमा पर आये. ’ ) और उनकी हर तरह की हिफाजत रख कर किसी तरह की उणप न आने दी. जिसके वास्ते कवि ने उक्त कवितों में कहा है कि.

“ मरहट मरहटां कूल कुमेलनेर आवे राण सरखा; खाकी पहेर खाक, तुरत नाठा मूण तरकां. ”

“ दाखे वोलिया दिवाण, दशा राण कै दशा दोडो; लखावत देखे लंकाल, शरण आयो चितोडो. ”

“ राखीयो शरण राणो जतन, चंद सूरज कर साखीयो; पृथीपत वाहदर हता पता, दर्ला जोधाणां जश दाखायो. ”

भावार्थ यह है कि युद्ध में देहान्त पर ही जो हटते थे, वैसे महाराणा के बहादुर सैनिक सब काम आजाने से राणा कुंभलमेर आया, परन्तु वहांपर भी मुसलमान सैन्य आपहुंचने का समाचार सूनकर सीसोदिये भाग निकले, उस समय में महाराणा ने दुःखी होकर कहा है कि, अब कौन दिशा में अपन जा सक्ते हैं ? उसको उस समय में लंका के रावण जैसा बहादुर व हठिला लखावत सूरताणसिंह पाया गया,

जाहिर का सहल रास्ता दिखया, जिससे बादशाह जहांगीर ने सगर को राणा की पदवी देकर चितौड के साथ मेवाड का सब राज देदिया, तदुपरान्त नागोर, अजमेर और दूसरे कईएक परगने दिये, सगर ने १९ वर्ष चितौड में राज किया. वि. सं. १६७१ में महाराणा अमरसिंह ने शाहजादा खुर्रम से मिलकर १००० घोडे से शाही चाकरी करना कबुल किया, तब जहांगीर बादशाह ने मेवाड का राज महाराणा अमरसिंह को दिया, और सगर को ‘रावत’ की पदवी देकर पूर्व में जागीर दी.

टोड राजस्थान की पुस्तक में इस विषय में लिखा है कि—सगर ने खूद पश्चाताप करके अपने भतीजे महाराणा अमरसिंह को बुलाकर अपनी तरफ से ही मेवाड का राज सुंप दिया, और आप वानप्रस्थ होकर ‘कंवार’ नामक पहाड पर विश्रान्ती लेने लगा, परन्तु वहां पर उसको शान्ती नहीं मिली, कुछ समय बाद बादशाह की आज्ञा से वह देहली गया, जहां पर बादशाह ने उसका बहुत तिरस्कार किया, जिससे आम दरवार में उसने अपने हाथ से कटार खा कर, बादशाह के समक्ष अपना प्राण छोडा.

जिससे चित्तौड़ के महाराणा उसके शरण आया. महाराव सूरताणसिंह ने दुश्मनों से रक्षण कर वफादार रहने की प्रतिज्ञा सूर्य और चंद्र की साक्षी से की, और बहुत जतन के साथ महाराणा को रखा. जो कि उस समय में दूसरे बहुत से वहादुर व प्रतापी राजा विद्यमान थे, परन्तु सूरताणसिंह का यश देहली दरवार के सब योद्धाओं पर प्रकाशित हुआ.

दूसरा कवित जो आढा दुरशा ने कहा है जिसमें राठौर रायसिंह व राणा को महाराव सूरताणसिंह ने शरणे रखने का उल्लेख है, उसमें कवि कहता है कि—

- “ सूरताण कियो खुमाण सहामण, सुजश लखावत होत सवाये; राय शरणे रायसिंह राखियो,  
राणोई शरणे रांखीयो राये. ”
- “ उपर माल अंबर उलटिया, हवे पत वेलां हरण, अण शरणे गांगा उगरिया, सांगा उगरिया सोढ तके शरण. ”
- “ उगारवा तर्णा राव आवु आ, हरजो न करत अखाहर, घर घर हुत गंगेव तणो घर, घर घर हुत हमीर घर. ”
- “ वेहु सायेर्षा पर्णा राखी दोऊ, वाले धरा वछटो वंक; सबला अनळ वेहु तणे सिर, आवु अनळ तिहारो अंक. ”

भावार्थ यह है कि—सूरताण ने खुमाण यानी महाराणा को सहायता करने से महाराव लखा के वंशज लखावतों का सुजश हुआ. जिस राव ने राव चंद्रसेन के पुत्र राव रायसिंह को शरणे रखा था, और उसी राव ने महाराणा को जबकि आमेर के कछवाहा मानसिंह पीछे पडे, जिससे पत जानेका वक्त आया, तब उनको आश्रय दिया. महाराव सूरताणसिंह के आश्रय से ही जोधपुर के महाराव राठौर गांगा की ओलाद वाले का वचाव हुआ, और सांगा यानी महाराणा संग्रामसिंह के वंशज भी सोढ यानी सूरताणसिंह के आश्रय में आनेसे बच गये. अगर अखाहर यानी महाराव अखेराज उडणा के पोते अरबुद के राव ने इनको बचाने के वास्ते प्रयत्न न किया होता तो गंगेव का परिवार यानी राठौर गांगा के वंशज, और हमीर का परिवार यानी मेवाड के महाराणा हमीरसिंह के वंशज, घरघर भटकते यानी छीन्न भौन्न हो गये होते, परन्तु उनकी अच्छीतरह साहेबी यानी ठकुराई कायम रहकर पुनः राज्य प्राप्ति होकर आफत से (वे) मुक्त हुए. ऐसे दो समर्थ राजाओं के शिर पर (हे) अरबुद नरेश तेरा हाथ रहा.

उपर्युक्त कवितों से पाया जाता है कि महाराणा प्रतापसिंह का महाराव सूरताणसिंह के उपर ज्यादाह स्नेह होनेका कारण यही था कि, महाराव ने उसको निराधार बन जानेके समय में आश्रय देकर उसका वचाव किया था, और अपने भाई जगमाल को महाराव ने मार देने पर भी उसका बैर न लेते, किये हुए उपकार की किंमत व कदर महाराणा के नजदीक इतनी समझी जाती थी कि, उसने अपने भाई सगर के कथन की परवाह न की, और स्नेह में वृद्धी करने के वास्ते अपनी पौती का, महाराव सूरताणसिंह के साथ विवाह किया.

सूता नेणसी की ख्यात में महाराव सूरताणसिंह व सीसोदिया जगमाल के दरमियान विग्रह होनेके विषय में लिखा है कि, राव कला से महाराव सूरताण ने सिरोही ले लिया, लेकिन राज काज का सब दारमदार देवडा विजा पर था, और देवडा विजा दिन व दिन ज्यादा बलवान होता जाता था, जिससे महाराव बहुत नाखुश थे परन्तु देवडा विजा को पहुंच नहीं सके थे, उन दिनों में सूरताणसिंह का ×विवाह बाहडमेर हुआ. जबकि बाहडमेरी राणी सिरोही आई, तब देवडा विजा का ठाठ व रीत भात देखकर उसने महाराव से पूछा कि मालिक आप हैं या विजा ? महाराव ने जुवाब दिया कि मेरे पास ऐसे राजपूत नहीं है कि वे विजा से सामना करें, जिसपर बाहडमेरी राणी ने कहा कि पेटपूर खाना दोगे तो बहुत राजपूत मिलेंगे. महाराव ने इसपर से १० आदमी बुलाने का राणी को कहा, जिसपर उसने अपने पीहर से २० बहादुर राजपूत बुलाकर महाराव के पास रखे. जब महाराव की हालत औरों को अच्छी मालूम हुई तब दूसरे और भी अच्छे २ राजपूत उसकी सेवामें उपस्थित हुए. महाराव और देवडा विजा के दरमियान शिर सट्टे की नोबत आपहुंची, उस मौके पर देवडा विजा के भाई देवडा लूणा व साना जो बहादुर राजपूत थे, वे भी देवडा विजा से विरुद्ध होकर महाराव के पक्ष में आये, इस तरह महाराव का पक्ष मजबूत होनेसे देवडा विजा को सिरोही से निकाल दिया.

देवडा विजा अपनी जागीर के गांव में रहता था, उन दिनों में बीकानेर के महाराजा रायसिंह सौराष्ट्र तरफ जा रहे थे, जब वह सिरोही के पास आया, तब महाराव सूरताणसिंह उससे मिले. महाराजा ने महाराव का बहुत आदर सन्मान किया, पीछेसे देवडा विजा भी बहुत आदमीओं के साथ रायसिंह को मिला, उसने बहुतसी लालच दिखलाई लेकिन उनका स्वीकार नहीं किया. महाराजा रायसिंह ने महाराव से बातचीत करके सिरोही का आधा राज बादशाह का और आधा राज महाराव को रहेवे इस शर्त पर देवडा विजा को निकाल देनेका ठहराव किया, और उसको निकाल दिया.

× दंतकथा में कहा जाता है कि ' बाहडमेर ' के रावल ने अपनी एक कन्या कि सगाई महाराव से व दूसरी की देवडा वजेसिंह के साथ की थी. और उसमें छोटी कन्या जो बहुत रूपवान थी उसका लग्न महाराव से करनेका था. वजेसिंह को यह मालूम होने पर उसने रावल की दासीओं को फोड कर जब कि कन्या को ' चवरी ' में लाई गई, तब छोटी कन्या को वजेसिंह के तरफ रखवा दी. जब कि महाराव विवाह करके सिरोही आये, तब महाराव के साथ विहाई हुई ( बडी पुत्री ) कन्याने महाराव को कहा कि मेरे प्रारब्ध में आपकी राणी होना विधिने अंकित किया था सो हो गई, परन्तु आप के मुसाहिव ने ऐसा प्रपंच किया है.

वस्तुतः बाहडमेर रावल की बडी पुत्री बहुत चतुर व वीर बाला थी, उसकी युक्ति व सहायता से देवडा वजेसिंह को मुसाहिव पद से हटाया गया. यह कहा जाता है कि जब देवडा वजेसिंह अपनी जागीर के गांव ' बावली ' में रहने लगा तब उसको अपने जान की सलामती का खतरा मालूम हुआ, जिससे उसने अपनी ठकुराणी ( बाहडमेरी ) को उसकी बहिन ( राणी बाहडमेरी ) के पास भेज कर अपना सौभाग्य अखंड रखने की मांगणी कराई. उदार महाराव ने उसको वचन दिया कि जब तक वजेसिंह मेरी नजर के सामने शस्त्र ग्रहण करके उपस्थित न होगा वहां तक तुम्हारा सौभाग्य मेरे हाथसे खंडित नहीं होगा. इस वचन के आधार से वजेसिंह ने बहुत फायदा उठाया था.

महाराजा रायसिंह ने आधा राज की संभाल के वास्ते मदनसिंह पातावत को ५०० सवार देकर सिरोही में रखा, जब वह सौराष्ट्र से वापिस वादशाह के पास गये तब अर्ज की कि, सिरोही के मालिक राव सूरताणसिंह को उसके सरदार विजा ने दबाया था, सो राव मेरे से मिला और आधा राज देना कबूल करने से मैंने राव का पक्ष लेकर विजा हरराजोत को निकाल दिया है, वैसे वह आधा राज शहेनशाहत में खालसा कर उसकी संभाल के वास्ते ५०० सवारों के साथ मैं अपना आदमी वहां छोड़ आया हूं, सो मुनासिव हो वैसे वन्दोवस्त किया जाय. जिसपर वादशाह के वजीर, बक्षी आदि सिरोही के आधे राज की क्या तजवीज करना वह सोच रहे थे, दरमियान मेवाड के सरहूम महाराणा उदयसिंह का पुत्र जगमाल जो सिरोही के सरहूम महाराव मानसिंह का जवाई होता था, और शाही सेवा में उपस्थित था, उसने सिरोही का आधा राज मिलने की अर्ज की, जो बात उन्होंने अकबर वादशाह को जाहिर करने पर वादशाह ने मंजूर कर फरमान लिख दिया. देवडा विजा भी सिरोही का आधा राज प्राप्त करने के वास्ते वादशाह के पास पहुंचा था, लेकिन सफलता न हुई, जिससे वह भी सीसोदिया जगमाल के साथ सिरोही आया. महाराव ने सीसोदिया जगमाल का सन्मान कर के उसको आधा राज दे दिया.

महाराव सूरताणसिंह महल में रहता था, और सीसोदिया जगमाल दूसरे घर में रहताथा, जिससे जगमाल की राणीने कहा कि मेरे पिता के महल में मेरी मौजूदगी में दूसरे क्यों रहवे ? उस समय में महाराव कुछ दिनों के वास्ते वहार गये थे, जिससे मौका पाकर सीसोदिया जगमाल व डुंगरावत वजेसिंह ने महल पर हमला किया, लेकिन सोलंकी सांगा व कवि आसीया दूदा आदि जो महल में थे उन्होंने ने सामना किया, जिससे लज्जित होकर उनको सिरोही छोडकर वादशाह के पास जाना पडा. वादशाह ने जगमाल की सहायता में राव रायसिंह चंद्रसेनोत ( जोधपुर के राजा चंद्रसेन का पुत्र. ) व दांतीवाडा के कोलीसिंह को मुसलमानी फौज की मदद देकर सिरोही पर भेजे. राव रायसिंह फौज के साथ सिरोही आया तब महाराव सूरताणसिंह सिरोही छोड कर पहाड में चले गये, जगमाल ने महल का कब्जा किया. कुछ दिन बाद जगमाल ने सोचा की, शहर ( सिरोही ) तो लेलिया लेकिन अब चढाई करके महाराव सूरताणसिंह से आवु की तलेटी भी छूडाना चाहिये, जिससे जगमाल ने चढाई की, महाराव ने भी उसके सामने दो कोश के फासले पर अपना मुकाम किया.

सीसोदिया जगमाल से महाराव सूरताणसिंह का विरोध होनेका कारण व उस कारण से पीछेसे जो शाही फौज के साथ युद्ध का प्रसंग उपस्थित हुआ, उसकी ऐतिहासिक घटना के विषय में प्रख्यात कविः आढा दुरशा ने अपनी नजर से देखा हुआ

८ कवि आढा दुरशा नोषपुर रियासत के पांचेटिया नामक गांव में हुआ था. उसका जन्म वि. सं. १५९२ में हुआ, वह

अहवाल गीत कवितों में रचा है, जिसमें “ राव सूरताण के झुलणे ” मुख्य है. उनमें उपरोक्त घटना के विषय में कवि कहता है कि.

महाराव सूरताणसिंह के झुलणे कवि आढा दुरशा कृत.

“ श्याम गुणेश प्रसन्न हुय, सब्ब सुर अगत्राणां; शूंडा दूंड प्रचंड में मूद बूद्ध घराणां. ” ॥१॥

“ मेक डसण लंबो उदर फरसी धर पाणां; वंद वै आस वरणवू जीण कि धर पाणां. ” ॥२॥

“ हंसा वाहन सुभ धरणो पुत्री ब्रह्माणां, शारद भात सुमन दे सूरताण वखाणां. ” ॥३॥

“ रूप चहूं ठकुराईयो वायक चहुवाणां; कथ वरणु हूं सखरी सरसी खुमाणां. ” ॥४॥

x x x x x x

कवि मंगलाचरण में गणपति व शारदा की स्तुति करके चहुआणों की कथा के आरंभ में कहता है कि—‘सरसी खूमाणां’ यानी सीसोदियों से (महाराणा प्रतापसिंह से) भी अच्छी ख्यात वाले चहुआणों (सूरताणसिंह) की कथा वर्णन करता हूं ऐसा कहकर बाद में कथा शुरू करता है कि—

x x x x x x

“ कुल नारी धर कारणे सब दी जुद्ध च चवां; हुवा तुरकां हिन्दुवां किन्नर गंध्रवां. ” ॥५॥

“ सुभ निसुंभ शक्तियां, कथ वांचत कव्वां; कमला नार कुवारियां नाहां नव नव्वां. ” ॥६॥

“ विद्ध हमीरां वीजडां ते आर खतव्वां; हारी जेत होई दीयां करतार वखव्वां. ” ॥७॥

“ गाजी शाह सम्मापिया अरवद उज्जला; बलिया राण प्रमाण कर ले पांन महोला. ” ॥ ८ ॥

“ चढ खडीया खड आविया, युं कीद्ध अपल्ला; सांमा मलिया सूरसह दल मेळ दुज्जला. ” ॥ ९ ॥

“ शंकर बीच वे भाग धर किय चंगी गल्ला; आधी रेयत सा ‘ रही वांसे उथल्ला. ” ॥ १० ॥

“ जहां भलापन जाणवे, उर मज्ज अपल्ला; घात विधातां ओधतां जोये जगमल्ला. ” ॥ ११ ॥

“ शेल सीधाणां सूरतां हतत जोध न हल्ला; आय हुवा वे एकठा रख सारा हल्ला. ” ॥ १२ ॥

“ तेडा दे तेडा विया वंका वज पाला; महलों उपर मंडिया चीतोडे चाला. ” ॥ १३ ॥

“ सात खणे सीरोहीया पेठा पूछाला; अरि दरवाजे आविया कै उपर माला. ” ॥ १४ ॥

जोधपुर के महाराजा के पास रहता था, और पीछेसे राठौर राव रायसिंह चंद्रसेनोत के पास रहने के कारण जब कि राव रायसिंह चंद्रसेनोत शाही फौज के साथ सिरोही पर आया, तब कवि आढा दुरशा भी उसके साथ विद्यमान था, बल्कि दत्ताणी के युद्ध में वह शामिल होनेसे सख्त जख्मी हुआ था. कवि आढा दुरशा १२० वर्षकी लम्बी जिन्दगी मुगत कर वि. सं. १७१२ में गुजरा. इस कवि ने उस समय के राजा बादशाहों के यश का प्रमाणीकपन से सच्चे यशोगान करने से इसकी प्रतिष्ठा शाही दरबार में व अन्य राजाओं में भी बहुत थी. वि. सं. १६४० की दत्ताणी की लड़ाई में रणखेत संभालते वक्त जख्मी हालत में यह महाराव सूरताण के नजर पडा, शस्त्र ग्रहण कर युद्ध में उपस्थित रहने के कारण, उसको राजपूत सरदार समजा गया था, परन्तु इसने चारण होना जाहिर करने से महाराव ने उसकी परिक्षा करने के वास्ते, उस युद्ध में महाराव का सामन्त देवडा सवरसिंह जो काम आया था, उसके विषय में यश गाने का कहने पर सख्त जख्मी होनेकी हालत में भी इस शिघ्र कवि ने एक दोहे में यश वर्णन किया कि—

“ धर रावां जश दुगरीं ब्रद पोत्रां शत्रु हाण ”

“ सवरे मरण सुधारियो चहू थोकां चहूआण. ”

यह सूनकर महाराव को यकीन हुआ और उसको पाछखी में बैठा कर ले गये, बाद इलाज करके उसकी अच्छी शुश्रुषा की, और उसकी विद्वता व प्रमाणीकता की कदर करके वि. सं. १६६३ में क्रोड पसाव के साथ ‘पेसुआ’ गांव दिया और अपना पोल बारहट मुकार किया. इसके बाद ‘जांखर’ गांव इसको दिया गया. कवि आढा दुरशा को इन गांवों के सिवाय मेवाड व जोधपुर रियासत से भी कितनेक गांव मिले हैं, बल्कि बादशाह अकबर को भी इसके वास्ते बहुमान था.

- “ वाप कारे वेलियां सींधल सपखाला; शांगा भोजा दूसरा रीडमल रढाला. ” ॥ १५ ॥  
 “ भोज कलोधर ढाहियो, भड आण भंडारे; तीर कवोंणां रावतां ले सूंज खंधारे. ” ॥ १६ ॥  
 “ आ वज्जा गिर गाजिया रूध वाज पंवाररे; नायक पायक नमिया चडिया चौवाररे. ” ॥ १७ ॥  
 “ मंदर भेल न सकिया, रख पाल न माररे; आवध वंन्ध खतंगियां, अरिमार विडाररे. ” ॥ १८ ॥  
 “ सवली ओलज सां सही सवले सिरदाररे; पहणता सोर धूणता आया उताररे. ” ॥ १९ ॥  
 “ वाळ वाधा यू वदे थयो शों चोहट्टे; जिम हुआ तिम अखिया फुरमाण प्रगट्टे. ” ॥ २० ॥  
 “ सोढ चढे धर से धणी, नर मोगर थट्टे; शंकर अंवर दिपियो कर डंवर फट्टे. ” ॥ २१ ॥  
 “ राय दमांमां वाजिया, सव नियर चोहट्टे; मरण ना कियो मेलिया संमंधां सट्टे. ” ॥ २२ ॥  
 “ जगा जुआरी हारिया सवले जू हट्टे; दाव अनेरो खेलवा आया कु रसते. ” ॥ २३ ॥  
 “ सगरा विजा आरोहिया, साकुर सम सम्मा; शहर फतेपुर सांमहा पेसाहर प्रणम्मा. ” ॥ २४ ॥  
 “ केती खेड निजाडीया, दरकूच मूकम्मा; आरत उपर आवीया, दरवार दूगम्मा. ” ॥ २५ ॥

× × × × × × ×

भावार्थ—यह है कि शाही फरमान लेकर सीसोदिया जगमाल सिरोही आया तब महाराव सूरताण ने उसका सत्कार करके आधा राज दिया, परन्तु जगमाल ने देवडा वजेसिंह (जिसको महाराव सूरताणसिंह ने निकाल दिया था.) को बूलाकर महाराव के सहल पर आक्रमण किया, लेकिन महल के संरक्षको से हार कर भागना पडा. महाराव को यह बात मालूम होनेपर वह उनके डेरे पर गये, परन्तु सगे होनेके कारण उसका वध नहीं करते भगा दिये. जिससे जगमाल वादशाह के पास चला गया.

× × × × × × ×

- “ अंदर मालूम कीधयां, ब्रेडो जो गम्मा; पै लगो कर धारियां फरियाद खतम्मा. ” ॥ २६ ॥  
 “ असी पूज न सकही, चहुवाणां जम्मा; शाह अरवद्ध उपरां की फोज हुकम्मा. ” ॥ २७ ॥  
 “ नजर दोलत शाह की वर आम सकज्जां; सव्वे हिन्दुस्थानियां खुरशाणां हज्जां. ” ॥ २८ ॥  
 “ राणा ज्यांमे रावलां, राव रावंत रज्जां; सुलतांणां, खानां सहित खोर्जा मीरज्जां. ” ॥ २९ ॥  
 “ वीडा जने फेरिया तने कुल लज्जां; को भड वथथ सम्मथ है कारण पर कज्जां. ” ॥ ३० ॥  
 “ सिंध तरल्ले उठियो, माजी कम थज्जां; वीडा खुद शमापमो में खेतन भज्जां. ” ॥ ३१ ॥  
 “ राह तुरकां हिन्दवां सव्वे सोरसे; तोल प्रमाणे बोलीयो, कुलमाल कलेस्से. ” ॥ ३२ ॥  
 “ पूनम रेणी चंद ल्युं, श्री कमल प्रकाशे; असपत तेडे आगळे, भज पूज सहास्से. ” ॥ ३३ ॥  
 “ दीध नरम्मे कपड्डे, चंगी वर हास्से; मूर वेलाधर वंदिया फिर वेण प्रकास्से. ” ॥ ३४ ॥  
 “ राज करावु राण ने अरवद्ध अवास्से; काय जि रांण प्रणांममां जगमल्ला पासे. ” ॥ ३५ ॥  
 “ रासा सोजत आविया, चहु पंच मजल्लां; उलाका फिर तेडिया जोधा रिडमल्लां. ” ॥ ३६ ॥  
 “ राय लत्तीसे राजकुल, दलमेल दुल्लल्लां; पाये नमे यल नाल हथ पायक अण पल्लां. ” ॥ ३७ ॥  
 “ ऊँटस लीधा तंव्यां, चही फोज हमल्लां; झाटक झीण मंडाविया अब्ब पीठ अलंलां. ” ॥ ३८ ॥  
 “ ल्ह कलोधर मालदे अधकां उपल्लां; खडिया गंग अभे नमे आरत जगमल्लां. ” ॥ ३९ ॥  
 “ अतमत रायांवत कां, सवन अरि लोडाये; आधा जोजन उपरा रा' मंडीयो राये. ” ॥ ४० ॥  
 “ वर वे भान अभे नमो निसाण वज्जाये; मुझ गिरवर कुण लिये अण लगे घायै. ” ॥ ४१ ॥  
 “ किणही गढ पत देवडे चहुआण ( न ) लज्जाये; कमंध सीसोदां कु मखां उतरियां आये. ” ॥ ४२ ॥  
 “ पाए हुकम पातशाह को अब दज्जां आये; सारंग ज्युं दल चडीयो रज अंवर छाये. ” ॥ ४३ ॥  
 “ मेहल गिरवर मान रा तुं की वांसंदा; जगा जमाई से धणी नेहवे नवहंदा. ” ॥ ४४ ॥  
 “ टीलां पुत्रां भाईआं, भात्रीजां हंदा; गढ गिरवर ग्रास ले सिसोदां चंदा. ” ॥ ४५ ॥

“ कुडी टाप न कीजीये दुनिआण हसंदा; कि ज्याणां की थायसी को वाये वजंदा. ” ॥ ४६ ॥

“ सा हे ईश्वर उपरां, सो न्याये करंदा; अन्याई हारंदीयां अर न्याये जीयंदा. ” ॥ ४७ ॥

“ जगमाला दल शिवपुरी, दल सोढ गिरवर; जगमल्ल राये अख्खीओ मुख हुतां नजर. ” ॥ ४८ ॥

“ में धर लांगां तें धणी, खडआवो पांधर; राव अखासर बोलियो जगमाल लखासर. ” ॥ ४९ ॥

“ दि ठाले डेरा दीया, बेहु आण वरावर; बे निंमाण वजाडिया, बे लागा अंवर. ” ॥ ५० ॥

x x x x x x x x

भावार्थ यह है कि—जगमाल ने बादशाह के पास हाजिर होकर फरियाद करने से आबु पर फौज भेजने का बादशाह ने हुकम किया, और अपने दरवार के अमीर, उमराओ, राजा, महाराजाओं में बीडा फिराया कि ऐसा कोई बहादुर योद्धा है कि जो सीसोदिया जगमाल को आबु पर कायम करे, जिस पर राठौर रायसिंह ने बीडा उठाया. बादशाह ने उसका सन्मान करके अच्छे कपड़ों का शिरोपाव आदि दिया. रायसिंह शाही फौज के साथ रवाना होकर सोजत आया, और वहां मुकाम कर अपने इलाके से दूसरे सब सरदारों को साथ लेकर सिरोही तरफ कूच की. उसने महाराव सूरताण को कहलाया कि मानराव का महल और गढ छोड दे तेरा क्या लगता है, क्यों कि जगमाल उसका जवाई है वह धणी है, और दूसरे भाई भतीजे आदि सीसोदियों से सिर्फ ग्रास पाने के हकदार है, जिसपर महाराव सूरताणसिंह ने जुवाब दिया कि ऐसी जुट्टी हकदारी करने से दुनिया में हंसी होगी, क्या मालूम कैसा पवन चलेगा और क्या होगा. महाराव सूरताणसिंह ने अपनी फौज आबु पर इकट्ठी की, और जगमाल की फौज सिरोही में आई, जगमाल ने महाराव को कहलाया कि हम मुलक ले लेंगे, अगर तुम मालिक हो तो लडने के वास्ते मैदान में आ जाओ, जिसपर महाराव ने उसके सामने आकर अपनी फौज का डेरा लगाया.





## प्रकरण ३० वाँ.

कलू देवडा चौहान. ( महाराव सूरताणसिंह. )

( दताणी खेत का महायुद्ध. )

सिरोही के देवडा चौहान के इतिहास में ' दताणी खेत ' का युद्ध बहुत विख्यात है. इस युद्ध से चौहानों की विरदावली में यह ' दताणी खेतरा ' इस विरद से मशहूर हुआ है. दताणी की लड़ाई ' बाविसी कटी ' इस नामसे प्रसिद्ध है, और कइएक भाट चारणों ने इस युद्ध के अनेक गीत कवित रचे हैं. सूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि—जगमाल की फौज ने सोचा कि महाराव के सरदारों की जागीरके गांवों पर अलग अलग फौज भेजी जाय, जिससे उनके सरदार अलग २ ( अपनी जागीर संभालने के वास्ते ) विखर जायेंगे, वाद सूरताणसिंह को मार देंगे, और देवडा विजा हरराजोत, खीमा माडणोत, राम रतनसिंहोत, को तुरक की फौज देकर भीतरोट ( आबु पहाड की पूर्व दिशा के परगने. ) के तरफ भेजने का विचार किया, तब देवडा विजा ने जगमाल और रायसिंह को कहा कि तुम्हारे को अलग करोगे तो महाराव तुम्हारे पर एकदम हमला करेगा, जिस पर राठौर ठाकुर ( राव रायसिंह ) ने जवाब दिया कि जिस गांव में कूकडा नहीं होता है वहां भी रात्री गुजरने का मालूम हो जाता है, मतलब यह कि तेरे साथ रहने से ही हमारे सब काम होते हैं ? ऐसा नहीं है, जिससे वजेसिंह भीतरोट के तरफ चला गया. वजेसिंह भीतरोट के तरफ फौज लेकर गया यह बात देवडा सवरसिंह को मालूम होने पर, उसने महाराव को कहा कि अब देर नहीं करना चाहीये, जिससे दताणी गांव में सीसोदिया जगमाल और राव रायसिंह का डेरा था, उनपर महाराव ने नक्कारह देकर चढाई की, एक दो कोश का फासला रहा वहां तक जगमाल को इस चढाई की खबर नहीं हुई, और यह समजे कि महाराव देवडा विजा के पीछे भीतरोट के तरफ जा रहे हैं.

इस विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

- x                      x                      x                      x                      x                      x
- “ वासरणी कर एक दिन चढ आढी डंवर; देख वसमा देवडा अरि पाछा ओसर. ” ॥ ५१ ॥
- “ अरियण निश अलुजीया उग वेहाणे; साढा मंडाहड सामहा दल काथ पंयाणे. ” ॥ ५२ ॥
- “ उत्तर दी चढ आविया, दखणाद मूढाणे; धर मारे धाडां करे जगमाल प्रभाणे. ” ॥ ५३ ॥
- “ गौर करे सह भोमियां आयस आपाणे; मुळां कर वाले वसु चित्त बोल सोहाणे. ” ॥ ५४ ॥
- “ गढां वेयां राजगुर साचा सो जाणे; सोढ न चंडे पागती उर डेरा ताणे. ” ॥ ५५ ॥
- “ निम निम मान् वियंसवे घाडी रव धाये; नेम आहाडो अंजसे, आपो जणाये. ” ॥ ५६ ॥

- “ भीर देखाये भोमियां, त्यम जोर न माये; करणी वातां काळीयां न न वाहर थाये. ” ॥ ५७ ॥  
 “ मुह सांमा जुठा मने परधान पठाये; सोढ माहा जुध तेवडे आलोज उपाये. ” ॥ ५८ ॥  
 “ किध जगमल तेजवर, कि सिंघ पमाये; वाचा वंधी देवडा अरवद न जाये. ” ॥ ५९ ॥  
 “ आकोली सु उपडे, मोगर अन मंधा, सैन दताणी सांमहा; खुमाण कंमंधा. ” ॥ ६० ॥  
 “ आए वोहर अडपीया, जुद्ध मेलण संथां; भीर दखाडण भोमीयां, साथे सनमंधां. ” ॥ ६१ ॥  
 “ जाण महाजूध उपटे, रावण दह कंधां; सोढ न आवे आंगमण, केहर मद गंधां. ” ॥ ६२ ॥  
 “ कीध वजमल वेगलो, की मत कुवुद्धां; वीण सण गल वुंदीयां, वपरीतन वुद्धां. ” ॥ ६३ ॥

x x x x x x

भावार्थ—जगमाल ने देवडों की फौज को देखी, और उनको हराने में कठिनता मालूम होनेसे, एक रात्री विश्रान्ती लेकर दूसरे दिन सायठ परगने में मंडार के तरफ प्रयाण किया, और यह सौचा कि इनके सरदारों के गांव सारंगे तो वे लोग महाराव को छोडकर अपना संभाल ने के वास्ते आयेंगे, इस विचार से उन्होंने सरदारों के गांवों में लूट खोस करना शुरू किया, जो समाचार राजगुरों ने सरदारों को पहुंचाया, परन्तु वे लोग महाराव को छोड कर नहीं गये, सिर्फ देखाव करने को परधान भेजे और कहलाया कि ऐसा करने से देवडों के साथ कोल करके आबु हाथ आया है वह नहीं जायगा, अगर लडना है तो महाराव तैयार है, जिसपर ‘आकोली’ गांव से सीसोदिया व राठौरों की फौज ने कूच करके दताणी तरफ प्रयाण किया, उन लोगों ने रावण के जैसी युद्ध की तय्यारी की, परन्तु जिस तरह हाथी के फंद में सिंह नहीं आता है उस मुआफिक महाराव के उपर उनका बस न चला, और देवडा वजेसिंह को अलग करने से विपरीत परिणाम आवेगा, उसका खयाल न करते वे समज से उसको अलग किया.

देवडा वजेसिंह शाही फौज के साथ भीतरोट के तरफ चले जाने बाद दताणी का युद्ध हुआ, उस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १६४० काती सुद ११ के रोज महाराव सूरताणसिंह ने शाही फौज पर हमला किया. इस लडाई में सीसोदिया जगमाल + राव रायसिंह, कोलीसिंह यह तीनों सरदार काम आये, इनके सिवाय राव गोपालदास किसनदासोत, राठौर शार्दूल महेसोत कूपावत, राठौर पूरणमल मांडणोत कूपावत, राठौर लूणकरन सूरताणोत गंगावत, राठौर केशोदास इसरदासोत, चौहान ( सांचौरा ) सिखो झाझणोत, पडीहार गोरा राघवोत, पडिहार भाण अभावत, देवा उदावत, भाटी नेतसी, मांगलिया जैमल, बारहट इसर, सेहलोत वाला, मांगलिया किशना, धांधु खेतसी, मुं. राजसी राघावत, भाटी कांन आंवावत, मांगलिया गोपाल भोजउत, राठौर खींवो रायसलोत, इंदा आदि रायसिंह की फौज के मुख्य मुख्य सरदार काम आये.

+ राठौर राव रायसिंह जोषपुर के महाराव चंद्रसेन के तीसरा पुत्र था. वि. सं. १६३९ में अकरबर बादशाह ने उसको ‘राव’ की पदवी देकर सोजत का इलाका वक्षा था.

इस विषय में कवि आढा दुरशा ने अपने रचेहुए महाराव सूरताण के झुलणों में प्रथम महाराव की फौज के सैनिकों की पहिचान कराकर युद्ध की तय्यारी का वर्णन करके, बाद महाराव ने इस युद्ध में जो वीरता बताकर, शाही फौज को छीन्न भीन्न की, उसका सविस्तर वर्णन किया है. जिसमें फौज की तय्यारी के विषय में कवि कहता है कि.

- x                      x                      x                      x
- “ श्रवणे सत दल सालले, हुवा दोऊ ठोडां; \*सीसोदां दल देखवा दल मांगण दोडां. ” ॥ ६४ ॥
- “ आपण धर उग्राहवा, थोडण खग थोडां; आली सापर खलवा वाहां खग जोडां. ” ॥ ६५ ॥
- “ वाज धस मस पायेलां, ध्रम वाजी घोडां; करण रसोई पलछरां, खग पांख वीचोडां. ” ॥ ६६ ॥
- “ मान क्लोधर मोझीयां, साजवा सजोडां; रूप चढावण देवडा, मोटां कूल मोडां. ” ॥ ६७ ॥
- “ सोढ धूके सीसोदियां, ऊपर राठोडां;                      x                      x                      x                      x                      x ” ॥ ६८ ॥
- “ पेगो जांक ससार में, रंग रंग त्रीचंदा; छे कडीयां कोऊ ग्रेह, वपतीन वणंदा. ” ॥ ६९ ॥
- “ ऊपर पूछां उप जलां, दसतांन दीपंदा; टोप कवट परठीया, स्रोत्रन झगंदा. ” ॥ ७० ॥
- “ डाहे जम डड्ड जीमणे, वांमे खंग वंदा; सेल भूजा डंड सोहीया, कर वच फुणंदा. ” ॥ ७१ ॥
- “ सूरतांणा रथ पाथजीम, नेडा न आवंदा; आभ लगाडे आजरो, अठार गीरंदा. ” ॥ ७२ ॥
- “ आण पलांणत सांणीही, ताजी पे चंगी; घोडे घाट उलंगीया, पंच नंद उलंगी. ” ॥ ७३ ॥
- “ घट सु घट स तेज मे, सब संग सूरंगी; त्रापो जापे कोप कर, जम नट कुलंगी. ” ॥ ७४ ॥
- “ जेही पेवां काठवे, नारी पे चंगी; पाखर छमर ढोहकर, जम पांत प्रचंगी ” ॥ ७५ ॥
- “ चढीयो सोढ प्रवाड मल, असवार अभंगी; कर ऊचा सह ओपीया, ग्रह पत न हंगी. ” ॥ ७६ ॥
- “ मेख झक कल साखीया, कातल छकडाला; पाधर मंगल चालवे, खेगां खरताला. ” ॥ ७७ ॥
- “ वाज दमांमां गाजगीर, पडसाद पयाला; खेहां अंवर ठंकीया, घ्रम परवत माला. ” ॥ ७८ ॥
- “ करवा मान अभ नमो, धर छक धक छाला; एक छत्र पत आवीयो, दहुसीस छत्राला. ” ॥ ७९ ॥
- “ सिवर जसो कुण सोढ चल, नरसिंघ सूतनां; जांण जूजीष्टर जामीले, भीमेण अजनां ” ॥ ८० ॥
- “ जांण त्रीयोधन पागती, भीसम करनां; जांण लछमण रांम छल, कपी वीर सूतनां. ” ॥ ८१ ॥
- “ छल कुभेण के ईद्रजीत, चत्र खट वदनां; अकर अक्रुर कनेछल, नर वीर सूतनां. ” ॥ ८२ ॥
- “ महण रंभ वल ईश्वर, छल लेण रतनां; दोहु दोहु भीचां सारको, एको वडमनां. ” ॥ ८३ ॥
- “ कर जलां आगे कीया, रावत राहाला; नग्रह धीर कंठीर धीर, लख धीर लंकाला. ” ॥ ८४ ॥
- “ कदट भये कर वीर वर, हुंगर डाढाला; भाखर वाव अभंग भड, वीका वगताला. ” ॥ ८५ ॥
- “ काना दूदा भोजराज रडमाल रढाला; वे वे गीर वर छालता, छीवा चमराला. ” ॥ ८६ ॥
- “ जेत कमधज पीधवा, वाघेल वडाला; जोडे जगड कलो घरण, अवसी अडसाला. ” ॥ ८७ ॥
- “ आया दूदा आसीया, ऊनहा आपाला; आज उजाले आप मल त्रणही त्रह टोला. ” ॥ ८८ ॥
- “ सो हे रावत सूरताण का, भड भीम भूजाला; वेइए वांधीयां वाजूये नायक नेजाला. ” ॥ ८९ ॥
- “ जांणके रावण रांम ही, जुधं लंका वाला;                      x                      x                      x                      x                      x ” ॥ ९० ॥
- x                      x                      x                      x

भावार्थ—दोनों दल की तरफ से तय्यारी होकर युद्ध के मेदान में अपने २ जोडीदारों को संभाल ने लगे, सवारों के सामने सवार, पैदल के सामने पैदल, और सरदार के सामने सरदार, धर्म युद्ध करने को उपस्थित होने लगे. सीसोदिया जगमाल के विस्तीर्ण दल के सामने, देवडे अपने सैन्य की सजावट करके सामने आये. संसार में यश

\* दूसरी प्रति में “ मोसां दोसां मांगवा ” अंकित हुआ है. १ रणखेत. २ मुखिया.

प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा में, युद्ध में होने वाला अनिष्ट परिणाम क [ २६५ ] करते, लग्न समारंभ में तोरण बाँदने के वास्ते विंद जाता न हो ! वैसा उत्साह न नामवरी करने के लिये, सूवर्ण के अलंकार की जगह वक्तर, कवच व टोप, पाश्चिमिणी तरफ जमैया, कटारी व डावी तरफ तलवार बांध कर धनुष, भाथे व आदि अस्त्रशस्त्र को अलंकार मान कर, योद्धे समरांगण में आने लगे. महाराव सूरताणसिंह ने गरुड के जैसे प्रबल वेग वाली घोड़ी पर पाखर डलवाया, और सवारी की, जिससे वह तारों के समूह में चंद्र देदिप्यमान होवे, उस तरह देवडों की फौज में दिपने लगा, जब उसने समरांगण के तरफ प्रयाण किया तब छत्र, चम्मर, ध्वजा पताका, आदि से सैन्य में जगमगाहट हो गया. वाजित्र वाघों के अवाज से अर्बुदगिरी गाजने लगा. घोड़ों की परगी और पैदलों के पैर पहार से इतनी धूल उडने लगी कि सूर्य ढंक गया. इस तरह धम धमाट मचाता हुआ, एक छत्रपति ( महाराव सूरताणसिंह ) दश छत्रपतिओं ( शाही फौज में कईएक छत्र धारण करने वाले ) के उपर चढ आया.

महाराव सूरताणसिंह के साथ देवडा सवरसिंह नरसिंहोत, जैसे युधिष्ठिर के पास भीम-अर्जुन, दूर्योधन के पास भिष्म-कर्ण, राम-लक्ष्मण के पास-कपीवर हनुमान, रावण के पास कुंभकर्ण व ईन्द्रजीत, आदि के मुआफिक सहायक था. जब कि महाराव सूरताणसिंह ने प्रयाण किया तब उसके सैन्य में डुंगरावतो के सिवाय वीकानेरीया भाखरसिंह, वाघा, ( बोडा चौहान सियाणे का, ) भेदावत कान्ह ( चूली गांव का रतना हामावत का पौत्र. ) देदा, भोजराज, ( आकुना का बडगामा देवडा. ) चौवा चौहान जेता खेमराजोत -राठौर पृथ्वीराज, वाघेला, ( सोलंकी सांगा सामन्त ) अवावत चौहान, और कवि आसीया दूदा आदि सरदार थे, और राम-रावण के युद्ध होता न हो ! ऐसी सोभा हो रही.

जबकि दोनों सैन्य अपनी सम्पूर्ण तय्यारी के साथ समरांगण में उपस्थित हुए, तब कवि आढा दुरशा अपने कवित में वर्णन करता है कि—

x

x

x

x

दोहा.

“ महिपत वोएंतर मेलिया, सीत्तेर तुरक समेत. ”

“ आईया अरवद ऊपरे, कमधज कछवाह सहेत. ”

\* वीकानेरीया भाखरसिंह—वीकानेर के राठौर राजा १ वीकासे क्रमशः २ लूणकर्ण, ३ रत्नसिंह ( जिसकी जागीर 'महाजन' नामक पट्टे की थी. ) ४ अर्जुनसिंह ५ खेमराज, ६ करमसी व उसका पुत्र भाखरसिंह था. अन्य मत से भाखरसिंह को लूणकर्ण के पोता होना कहा जाता है. वीका करमसी, महाराव सूरताणसिंह का भांजा होता था, और वीकानेर से नाखुश होकर सिरोही में रहता था. जिससे भाखरसिंह महाराव के पक्ष में था. महाराव ने इन युद्ध की समाप्ति होजाने पर वीका भाखरसिंह को वि. सं. १६४० महा वदि ८ को 'मेडा' नामक पट्टा तेरह गांव से दिया था. परन्तु पीछेसे उसके परिवार में 'मेडा' के पाटवी ठिकाने में नाओलादी हो गई, और उसके छोट भाईओं को राजपूत दावे अलग २ गावों में अरहट खेतों की जागीरी है, जिसमें 'थल' नामक गांव में वीकानेरीया देवसिंह अनाडसिंहोत चौथी पांती के जागीरदार विद्यमान है.

÷ यह सवियाणा के कल राठौर का पुत्र होना अनुमान होता है.

इस विष्णु कियो, अरवद रिसाणुं; ऋई ऋई ऋवंक वाजिया, त्रिपुर सणाणुं. " ॥ ९१ ॥  
 कर, कमधज केवाणुं; जो घर जावां जिवता, भ्रग जिवन जाणुं. " ॥ ९२ ॥  
 प्रथम महा मिल, गिरवर घेराणुं; दस दुना दो लाख ने हुकम फरमाणुं. " ॥ ९३ ॥  
 करके, सत छोटियो, गर मेर संकाणुं; गढ गिरवर घेरीयां इक राव तरकाणुं. " ॥ ९४ ॥  
 उसक्य असह अमंग भड, तेजल सरताणुं; चढिया तेज खुमाण. से क्रपाण झलाणुं. " ॥ ९५ ॥  
 वां ठाहर खां सही, वेजल मकाणुं; उडे सिच असराण के इक रावत राणुं. " ॥ ९६ ॥  
 पोरस एम वोलियो, तेजल सरताणुं; आज न मेलुं जिवता, कर वांण रंगाणुं. " ॥ ९७ ॥  
 धणी थापो वजपाल ने, जद जीता जाणुं; × × × " ॥ ९८ ॥

“ वोल्यो राणो माहावल, सुंण तेजल सूरताण. ”

“ गढ गर वर वर करू, तोडुं तोरो मान. ”

“ केहर मांण न मेलसी, जद जिवत जाणुं; कहियो राण जगमाल ने, सरताण चुहाणुं. ” ॥ ९९ ॥  
 “ कर मूलां पर नांखिया, कमर कस वांणुं; सांणी अस वस लागई ले मन उमंग आंणुं. ” ॥ १०० ॥  
 “ जद सांणी कर जोडिया, हुकम प्रमाणुं; आणी वाहर बोलाय ली 'केसर' भमराणुं. ” ॥ १०१ ॥  
 “ झाटक पिठ असझीण कर, सामान सजाणुं; चढिया नृप सरताण, सिंघण थट मेलाणुं ” ॥ १०२ ॥  
 “ सिंधुरा गज छेडिया, नावत नेसाणुं; राग छत्तीसे घोर पड, कायर कंपाणुं ” ॥ १०३ ॥  
 “ गोलां अरवद गाजियो, धर सेष धुणाणुं; असव दड वड वाजिया कर सेलं झलाणुं. ” ॥ १०४ ॥  
 “ कमधज कलवा रांण ने, सरताण के वाणुं; होये चेतन संग्राम कर रंक रावत राणुं. ” ॥ १०५ ॥

× × × ×

कवि के कथन का आशय यह है कि उन्होंने एक दूसरे को चेतन करने के वास्ते अपना वल पुरूषार्थ प्रगट किया, वाद युद्ध करने की शुरुआत की.

जवकि दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, और युद्ध होने लगा. उस युद्ध के वर्णन में कवि कहता है कि—

× × × ×  
 “ फरियां तोफां रंकलां, धज नेज फरकी; सोर अंवर रवि ढंकियो धर शेष धडकी. ” ॥ १०६ ॥  
 “ तारा मंडल तुट पड रणतुर रडकी; डक डक डमरू वाजिया ग्रिंथाण गडकी. ” ॥ १०७ ॥  
 “ दिन कर थोभिया देखवा, रणझाट झळके; सेल चमकं विजळा, अस व्रजड तरंके. ” ॥ १०८ ॥  
 “ सांगा गंग चैनसी, आरण ताल रछेवा; जड जूसांण के जम गरण, मांझीयां मलेवा. ” ॥ १०९ ॥  
 “ ऊपडीया ऊपडां खीया, असमान छवेवा; मोगर सांमा मलकीया, मारवा मरेवा. ” ॥ ११० ॥  
 “ मूरतांणां भड सांमहा, जल हर जाणेवा; पंखा ले पंखी जता, सूर नर वरेवा. ” ॥ १११ ॥  
 “ जाणक दुलह आवीया, तोरण वांदेवा; × × × ” ॥ ११२ ॥  
 “ आडे घाये आवीया, दोहु घट मूभटां; सुरग गया सुरमा, कायर दह वटां. ” ॥ ११३ ॥  
 “ पूर सोह दल पूरवर; रणमाल मू भटां; भागी मील वहादरां, हुवा खल खटां. ” ॥ ११४ ॥  
 “ झीक छडां फल ऊजलां पटां खग झटां; जम डहा कर जीमणे, वांमे कर चटां. ” ॥ ११५ ॥  
 “ सोह गहे खांडो हथां, ऊभो गज थटां; जाण नदी जल आवटे, मध सायर तटां. ” ॥ ११६ ॥  
 “ वेई समोवड वाजगड, अण रुपाल मछे झड; तीर तड तड कुंत जड कर माल अवझड. ” ॥ ११७ ॥  
 “ शीग कर कड उकरड, पडसीस दड दड; सोक सडवड वाज नड, वहे रथ दडी अड. ” ॥ ११८ ॥  
 “ ग्रीध थड पड पंख झड, हुं वीर हड वड; भीच अण पड वाज थड, होय रूंड रड वड. ” ॥ ११९ ॥  
 “ रत गड गड मोख मड, प्रज डांण खडखड; पोहच व्रवड राठ वड, तो तेज समो वड. ” ॥ १२० ॥  
 “ होये बीजा डर ताक धर, धर वे थ टयो हर; होय पंचा हर राय हर, रख होये अवासर. ” ॥ १२१ ॥

- “ द्रवड पलछर हार हर, वर होये अपछर; खेचर भूचर मंसले, मील रात नीसी चर. ” ॥ १२१ ॥
- “ जोगण चल् अल जकले, ओघांणे पल छर; जालग अंवर सात सर. त्यां राज नरेसर. ” ॥ १२२ ॥
- “ सोढ त्रभे नर वीर वर, गज फोज भयंकर; तुज असमरतो समर, जस भेट नरेसर. ” ॥ १२४ ॥
- “ अंवर तारा कुण गणे, लेहरी महरांणां; सांवण वूदां, रेण कण, अंतर असमांणां. ” ॥ १२५ ॥
- “ कुण आंणे ऊजम करे, प्रथमाद प्रमांणां; सगत चरीत सेख वल, क्रन अरजन वांणां. ” ॥ १२६ ॥
- “ वेद माहातम कुण लहे, प्रम तंत पूरांणां; रीण तण छल रखीयो, राव रावत रांणां. ” ॥ १२७ ॥
- “ परण सूरं कज ऊतरी अपछर अमर की; तेग वहे तेजल री विकराल वजरकी. ” ॥ १२८ ॥
- “ गुंथ माला गल नाखिया शंकर अरसर की; कई खागा वल कापियां तडफे धड अर की. ” ॥ १२९ ॥

दोहा.

“ कहे तेज खुमांणसी, सून उदेपुर राय. ”

“ कमधज कछवा राण ने, मान लिया मं माय. ”

“ मान्या ए महिपति मुज चांमुंडने; खंडु जद मुडला खवर पडसे तने. ” ॥ १३० ॥

“ झाली हथ नाल सणणाट गोला चले; मचे घण ठाठ भाद्रव वादल टले. ”

“ गड गडे तोफ जदी गयंद कोडां गडे; कहे तेजल संग्राम हमे खवरां पडे. ”

दोहा.

“ गर अठारे गुंजियो, लडवा काज लंकाल. ”

“ कमधज कछवा ऊपरां, भड वंकी भूपाल. ”

“ तेजल तीर कवांण छूटां तडके; कमधज भाग कछवा रांण गाये भडके. ”

“ भगा एम भूपति देख सरतांण हथ; कहे एम तेजसी आज राखण कथ. ”

x

x

x

x

भावार्थ—दोनों तरफ से प्रचंड युद्ध हुआ, और खूद महाराव सूरताणसिंह ने अपनी 'केसर' नामकी घोड़ी जिसका भस्मर रंग था, उस पर सवार होकर दुश्मनों पर शस्त्र चलाना शुरू किया, और तोपें व बंदूकों का मारा चल रहा था, उसमें मोखरे आकर कमधज कछवाह व सीसोदियों के उपर ऐसे तीर चलाने लगा कि उससे दुश्मन भडक कर भागने लगे.

दंतकथा में यह बात प्रसिद्ध है कि शाही फौज के सरदारों को महाराव सूरताणसिंह का इतना भय होने लगा कि उसके सामने जाकर युद्ध करने में अपनी सलामती नहीं समजी, जिससे उन्होंने गजदल को मदमाते बनाकर आगे करके उनके पीछे रहने का निश्चय किया. इस विषय में कवि ने भी कहा है कि—

“ मले राज वावन विचार किनो, वावीसैव गजेन्द्र हुकम दीनों. ”

“ भेलां गढ गिरिवर धरा खोस लिजे, वोल्यो राव सूरताण नां. टेक दिजे. ”

दूसरे दिन शाही फौज वालों ने गजदल को मद पिलाकर आगे किया, जो चारह मैघ के मुआफिक गर्जना करते हुए दरवाजे ( दताणी से पूर्व दिशा में आनेके रास्ते में एक दरवाजा बना हुआ है, जो तोडा का दरवाजा कहलाता है, और वर्तमान समय में विद्यमान है. ) तरफ आये, जिसको देखकर महाराव सूरताणसिंह ने अपने सैनिकों

इस विषय पर प्रथम महा करके, उसका (सीलदर का) कुंभा भी चला. आसीया दूदा ने सवियाणा के मरहूम कल्याणमल राठौर को याद कर कवांण पर हाथ डाला, और तीर चला ने लगा उससे हाथीयों के शिर फूटने लगे, और जैसे आये थे वैसे वापिस लौटे, इस विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

दीहा.

- “ दरवाजे हाथी दुजल. मलीया वारे मेग; युं राये मन अखीयो, कोई वाले पाछा वेग. ”  
 “ कर जोडे कव युं कियो दीजे हुकम हमार; जो पाछल बलतां बले लागे केती वार. ”  
 “ अब हुकम मांगु अटे, पीछे करु प्रतिपाल; महिपत पडे महि परे, खलके रूधीर के खाल. ”  
 “ करे अरज +कल्याण कुं, कर नांख्यो कवांण; फुटा सिंच गजंद का ज्युं आया त्युं जांण. ”  
 “ कुंभ कवर भीडी कवर लडवा काज लंकाल; सामत ए रंग सामता भडीयां दल बल माल. ”

+ आसीया दूदा ने कल्याणमल राठौर को याद करने के कारण में दंतकथा में कहा जाता है कि कल्याणमल राठौर जोधपुर के महाराव मालदेव के द्वितिय पुत्र रायसिंह का पुत्र था. उसके तरफ मारवाड में ‘ सवियाणा ’ के किले की जागीर थी, और शाही सेवा में वह रहता था. बूंदी के राव भोजराज की कुंवरी से अकबर बादशाह ने लग्न करना चाहा, परन्तु भोजराज ने वह कन्या की सगाई राठौर कल्याणसिंह से करना जाहिर करने से वादशाह ने कल्याणमल को उससे हाथ उठा लेनेका कहा. लेकिन कल्याणमल राठौर बहादुर, स्वाभिमानी और दृढ निश्चय वाला राजपूत था, उसने वादशाह की परवाह नहीं करते हाडा राव की मुश्किली दूर करने को व क्षात्रवट दिखलानेको, बूंदी जाकर उस कन्या के साथ लग्न कर लिया, और अपने वतन चला गया. वादशाह ने उसको सजा देने के वास्ते सवियाणे पर फौज भेजी.

राठौर कल्याणमल महाराव सूरताणसिंह का भांजा होता था, जिससे महाराव ने ‘ सवियाणे ’ पर शाही फौज आनेका समाचार सूने से आसीया दूदा को उसके पास भेजा. आसीया दूदा ने कल्याणमल को सवियाणा छोड कर सिरोही आनेका कहा, मगर उसने जुवाव दिया कि मेरा काका हरपाल ने ‘ खीपड ’ गांव के खोलडे ( छोटे २ मकान ) बगैर युद्ध के नहीं छोडे तो मैं ‘ सवियाणा ’ जैसा किला कैसे छोडुं ? उस विषय में कवि ने कहा है कि—“ खीपड तणां खोलडां तारे हैये नहीं छुटा हरपाल. ”

राठौर कल्याणमल ने लडने का निश्चय नहीं छोडा, और कवि को कहा कि मैं जरूर केशरियां करके बादशाह को अपना हाथ बताऊंगा, सो आप मेरे कवित कहो, जिस पर दूदा आसीया ने उसके वीरत्व का वर्णन किया. कल्याणमल ने कहा कि मैं कैसी बीरता से काम आउंगा वह सूना चाहता हुं, और आप कहेंगे उसी मुभाफिक युद्ध करूंगा. आसीया दूदाने एक बहादुर राजपुत्र केशरियां करते कैसे पराक्रम करके काम आता है, उसका विवेचन उसके नाम से किया, जिसमें कल्याणमल का देहान्त होने बाद ‘ सवियाणा ’ बादशाह के हाथ में जानेके भाव के कवित कहै. कल्याणमल वह सून कर बहुत खुश हुआ, और कवि को इनाम देने लगा. कविने कहा कि मैंने आपके ‘ मरसिये ’ भी कह दिये, अब आप मर चु हैके जिससे आपके हाथ से मैं दान नहीं ले सका हुं, तब कल्याणमल ने कहा कि यदि मैं इस युद्ध में काम आऊंगा, परन्तु पीछेसे भी आप मुझे याद कर के मेरे कुंडलीये कहोगे तो मैं आप का मनोरथ पूर्ण करूंगा, और उसकी सच्चाई यह समजना कि आप यहां से रवाना होकर ‘ माकरोल ’ गांव के पडवे में ठैर जाना. अगर मेरे देहान्त बाद मेरा घोडा कवांण के साथ आपके पास आ पडूंचे, तो मैं ‘ वीर ’ ( देवयोनी ) हुआ हुं वैसा समज कर कवांण ले जाना, आसीया दूदा ने उस मुभाफिक ‘ माकरोल ’ में मुकाम किया. जब कि कल्याणमल युद्ध में काम आया, तब उसका घोडा कवांण के साथ मगा, और माकरोल पडूंचा. दूदा आसीया ने घोडे पर से कवांण उठा लिया कि घोडा वहां मर गया. जब कि दताणी के युद्ध में हाथी के समूह को पीछे लौटाने का बीडा दूदा आसीया ने

गजदल वापिस लौटतेही महाराव सूरताणसिंह और देवडा सवरसिंह ने शाही फौज पर हमला किया. इस युद्ध में देवडा सवरसिंह बड़ी वीरता के साथ कईएक योद्धाओं को मारकर काम आया, जिसके विषय में कईएक कवियों ने उसकी प्रशंसा के गीत +कवित्त कहे हैं, जो इस पुस्तक के दूसरे विभाग में ठिकाने पाडिव के डुंगरावत देवडों के प्रकरण में अंकित हुए हैं.

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव सूरताणसिंह के तीर से बचने के वास्ते राठौर राव रायसिंह हाथी पर सवार होकर ऐसी हिफाजत से बैठा था, कि उसको तीर या बंदूक का मार न लग सके, जिससे महाराव सूरताणसिंह ने उसके हाथी के सामने अपनी घोड़ी चलाई, चालाक घोड़ी महाराव की इच्छानुसार हाथी के पास जा पहुंची, महाराव ने वहां पहुंचतेही अपनी तलवार से हाथी की सुंढ काट दी, और घोड़ी की

उठाया, तब उसने कल्याणमल की वीरता के कुंडलिये कह कर उसने दो हुई कवांण उठाई, कोइ कहते हैं कि कल्याणमल खुद उसके सामने उपस्थित हुआ और उसने गैबी मदद दी. अन्य मत से कहा जाता है कि कल्याणमल के कुंडलिये कहने बाद कवि के अंग में ऐसा बल संचार हुआ कि उसने तीरों का मारा चला कर गज दल को उलटा लौटा दिया. राठौर कल्याणमल की वीरता की कईएक पुस्तकें रची हुई हैं, और आसीया दुदा ने कहे हुए 'रण बंका राठौर कला' के कुंडलिये राजपूताना के हरएक कवि के मुख पाठ होना मालूम होता है.

+उन कवित्तों में सवरसिंह की रंभा (अपच्छरा) के साथ वातचीत होना, और उससे उत्तेजीत होकर सवरसिंह ने युद्ध में जो अतुल पराक्रम दिखाया उसके विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

- “ फजर उठ सवरो फाण, लेहर हाजत कज; अमर रंभा ऊतरी कामणी सूरं कज. ”  
 “-कहे एम कामनि, सूरवीरां वरण; पडे नां आपके प्रसण पाडे धरण ”  
 “ होमे तन अगन में, नहीं पाछल फरे, वर्यो तन सवरसी मन पवनां फरे. ”  
 “ रंभा वचन सुणी जरां, दिया वचन देसोत; जो पाछल फेरूं जरां, जग अंधेरो होये. ’  
 “ होये जग अंधेरो पछम दस उगसी; भगे का मेदनी दधि सत छोडसी. ”  
 “ रमण उठ रंभ अब केम चंत्या करे; वचन सुण रंभ रा एम सवरो अखे. ”

इसके बाद सवाग ने प्रचंड युद्ध किया जिसके विषय में कवि कहता है कि—

छंद पधरी

- “ जद चढयो वढण सवरेस वेग, मली घटा भूमंडल वरत मेग. ”  
 “ कोप्यो सवरेस विकराल रूप, महिपत सूरताण वरदही भूप.  
 “ भडे भीम वा रण अर्जून भगाल, मली राम लखन कुंभो लंकाल. ”  
 “ मचलात शोस हल चली व्योम, भूपत असव रोहत ह्योती पडत भोम. ”  
 “ भयो रुद्र कोप सवरो नरेश, गुंथत व्रमाल, नाखंत महेश. ”  
 “ थट मले श्रेष्ट भूताल डाल, व्रत आप गिधणी करत आहार. ”  
 “ वक वकत धरा वे’ रूधिर खाल, हणु जेम करत हाकल नृपाल. ”  
 “ सहे इक अंवर मही उडत सोर, ब्रह ब्रह ब्रंभक की वजत ठोर. ”  
 “ घग घाये बुमंत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कूकंत मोर. ”  
 “ शूर धिर पडत कि वरत रंभ, गालण सूरताण केई वडा व्रभ. ”  
 “ धर भेल किया कै वडा धींग, सिंघारिया शेष सवरेस सिंग. ”  
 “ पोळ्यो सवर प्रसणा पसाड, वर गई रंभ वैमान चाड. ”



वाग खींचने पर उसने अपने अगले दो पैर हाथी के दंतूसल के उपर रखे, जिससे महाराव ने हाथी पर बैठे हुए, राठौर रायसिंह पर तलवार चलाकर उसे मार डाला, इस सबब से देवडा चौहानों की विरदावली में “घोड़े चढ हाथीयांरी गजधडारा विदुशण हार” यह चरण दाखिल हुआ है. वैसे कवि आढा दुरशा ने महाराव सूरताण के मरसिये में भी कहा है कि—

“ गज धडा आंगमण, तुरी गज दांत चढा वण. ”

इस लडाई का परिणाम यह आया कि दताणी में उपस्थित रहे शाही फौज के सब सरदार अपनी फौज के साथ मारे गये, और महाराव सूरताणसिंह की जीत हुई. इस युद्ध में कौन २ मुख्य सरदार मारे गये, उस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ आशिप दे सूरताण अपसर, नियह वडा वदारण नेह. ”

“ वर ईच्छत लाधा तों वढतां, छत्र पतियांसुं बांधां छेह. ”

“ पुरणमल गोपाल पामिया, ईशर केसर वर परचंड. ”

“ सिंगज गड अने रायसिंग सारखा, वर सादुल सारखा सबड. ”

“ राव सूरताण तणे जुद्ध रंभा, जोई वर लाधा जुआ जुआ. ”

“ वर तरकस, बंध सदा वरूती, हमके वर गज बंध हुआ. ”

“ वडा सपह सरग लोग वशिया, धर वालता धर छेह खग धार. ”

“ सर कामण कहियो भव सारो, आवुराव कियो ऊपकार. ”

महाराव सूरताणसिंह के सामने समरांगण में कौन कौन लडने को आये, और वे महाराव के हाथ से मारे गये, उसके विषय में कवि आढा दुरशा कहता है कि—

“ रण खेत दताणी रची जंगराण थाट थडंवे थडा थडा. ”

“ कीधा कण कण शोढ वढे कण, वडे खेत कोण वडा वडा. ”

“ ईशरसी सादुल अभे ऊर, रायसिंग जगमाल रता. ”

“ धिर हरे रण ग्रीध धपाडे, आबु तल राखिया अता. ”

“ कमधज एक एक केलपूरो, एक गोहील अने जेठुवो एक. ”

“ अतरां ने सरताण एकले, सिरोहोये दीधो रण छेक. ”

“ सूरीचंद च्यारने सात सराएत, जुध मन धारे जुआ जुआ. ”

“ आया हता लेअण कज आबु, हेटल आबु झीक हुआ. ”

दताणी के युद्ध में विजय प्राप्त होनेसे महाराव सूरताणसिंह ने चौहान कुल को दिपाया, और देवडा चौहानों की कीर्ति जग प्रसिद्ध हुई, बल्कि कवि लोगों ने उस समय जो ‘विरदावली’ रची, वह अद्याप पर्यंत ‘देवडा चौहानों की विरदावली’ के नामसे जब कि आम दरबार होता है, तब ‘पोल वारोट’ प्रथम गाते हैं, और वह सुनकर देवडे चौहान मगरूर होते हैं. उक्त विरदावली प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने रची है. जिस में कवि ने कहा है कि—

“ नंद गिरि नरेश, कटार बंध चहुआण, दताणी खेतरा, जेत जुहार. ”

“ गल जोडे छत्र, धरियारा गढनहार, बंका भडारा, पादोरण हार. ”

“ घोड़े चढ हाथीयांरी गजधडारा विदुक्षण हार, सूरताण ग्रह नभ भूषण. ”

“ शरणाया साधार, शरणा थी वज्रे पिंजर. ”

इस विरदावली का भावार्थ यह है कि—अर्बुदगिरी के राजा, कटार बांधने वाला चौहान (चौहानों का राज्य चिन्ह कटारी है.) दताणी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला को नमस्कार हो. जिसने दो छत्र धारी ( राणा जगमाल व राव रायसिंह ) को साथ ही मारे, और जो निश्चय(विजय प्राप्त करने का तय) करके आवे उनको गाढ देने (नाश करने) वाला, बंका ( बहादुर ) यौद्धाओं को सिधा करने वाला, घोड़े पर सवार होकर हाथीओं की सवारी वालों को व हाथीओं के समूह को विध्वंस करने वाला, गगन मंडल के ग्रहों का आभूषण रूप ( नक्षत्रों में चंद्र सूर्य रूप ) सूरताण, ( यानी राजाओं रुपी तारा मंडल में सूर्य-चंद्र जैसी शोभा देने वाला. ) शरणे आने वालों को अच्छा आश्रय देने वाला, और शरण रहने वालों का वज्र के पिंजर समान बन कर रक्षण करने वाला है.

महाराव सूरताणसिंह ने दताणी के युद्ध में किये हुए पराक्रम के विषय में, कवि आढा दुरशा व अन्य कवियों ने बहुत गीत कवित कहे है, लेकिन स्थल की संकोचता के कारण से सिर्फ उस समय में व उस युद्ध में हाजिर रहे हुए, प्रतिपक्ष के कवि आढा दुरशा के कवित में जहां जहां खास ऐतिहासिक घटना पाई गई, वह अंकित करके दूसरे विद्वता दर्शक व अतिशयोक्ति से वर्णन हुए गीत कवित व झूलणां का हिस्सा छोड दिया है.

इस युद्ध में महाराव सूरताणसिंह का नामी सरदार डुंगरावत सवरसिंह काम आया, जिसके स्मारक की छत्री वर्तमान समय में भी ' दताणी ' गांव के गोंदरे पर विद्यमान है. जो कि इस युद्ध में सिलदर के डुंगरावत मांडण का पुत्र ' कुंभा ' भी काम आया था, मगर उसका स्मारक ' दताणी ' में होना पाया नहीं गया.

सि. रा. ई. की पुस्तकमें ( पृष्ठ २३२ पर ) लिखा है कि बादशाह अकबर की भेजी हुई सेना की बुरी तरह हार हुई, और थोडे ही आदमी भाग कर बचने पाये. महाराव रायसिंह का नकारह, शस्त्र, घोड़े तथा सामान, ऐसे ही सीसोदिया जगमाल आदि का सब सामान महाराव सूरताण के हाथ लगा. इस लडाई में महाराव सूरताण की फौज के थोडेही राजपूत मारे गये, जिसमें मुख्य देवडा सवरा नरसिंहोत था. शाही फौज में कितने प्रसिद्ध पुरुष मारे गये उस विषय में उक्त पुस्तक में जोधपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात परसे टोप्पणी में अंकित किया है कि राव रायसिंह के ३२ प्रसिद्ध पुरुष, सीसोदिया जगमाल के २५ राजपूत व दांतीवाडा के कोलीसिंध के १५ आदमी काम आये थे.



+ सि-रा-ई-की पुस्तक में लिखा है कि राव रायसिंह से छीना हुआ नकारह सिरोही में अवतक है. यह नकारह व दूसरा सामान वापस लेने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरसिंह ने यत्न किया था, परन्तु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई.

## प्रकरण ३१ वां.

बलू देवडा चौहान. ( महाराव सूरताणसिंह. )

( दत्ताणी के महानयुद्ध के बाद की ऐतिहासिक घटनाएं. )

शाही फौज की हार होकर सब सरदार काम आजाने का समाचार सूनकर, देवडा वजेसिंह अपने भाई धनसिंह के साथ भाग जानेका, महाराव सूरताणसिंह को मालूम होने पर महाराव ने कवि आसीया दूदा को कहा कि, इन दोनों को हरएक उपाय से मारना चाहिये, जिसपर आसीया दूदा उनके पास पहुंचा, और उनको भगतेहुए देखकर, दो दोहे ऐसे कहे कि वह सूनकर वे वापिस लौटे. उनके सामने डुंगरावत सामन्तसिंह सूरसिंहोत युद्ध में उपस्थित हुआ, जिससे धनसिंह मारा गया, धनसिंह के मारे जाने पर आसीया दूदा ने पुनः वजेसिंह को भगते देखकर कहा कि—

दोहा.

“ ध्रुह डगे अंवर भ्रवे, मेले हद महेरांण; वजमल देखे बेरीयां, तुं भागे तड तांण ”

“ मेळीयो मरे मरे, परीय पण अण भंग पणो; धनीया ढलो धरे हाले क्युं हरराजोयत. ”

लेकिन इस ताने की दरकार न करते वजेसिंह मेवाड के तरफ भाग गया. मेवाड में वह महाराणा प्रतापसिंह की सेवामें उपस्थित हुआ, यह सूनकर महाराव ने दूदा के पुत्र दला आसीया को कहा कि, इसको वहां से भी निकलवा देना चाहिये, जिस पर वह मेवाड के महाराणा के दरवार में पहुंचा, उस वक्त देवडा वजेसिंह भी दरवार में विद्यमान था. आसीया दला ने महाराणा की प्रशंसा कर मुजरा करने बाद देवडा वजेसिंह की प्रशंसा में कहा कि—

“ वजपाल सरव संसार वखाणे, काला केहर भडां कमाड. ”

“ मारे साथ मोहर मेवाडा, महालीयो बीच वले मेवाड. ”

“ हे हरराज तणा रठ रावण, रुक वखाणे राजा राण. ”

“ तें भागे दस सेहस तणा दल, दस सेहसां माने दीवाण. ”

“ जद थ वजा कालंद्री जूडतां, ध्यावा प्रसण उतारे घांण. ”

“ तत्र वंदेस आहडा तोने, समर वंवाल वडा चहुआण. ”

“ गोडवाड चढतां गाहटीयो, गोडवीया अन राण गणे. ”

“ मेवाडे वजपाल मानीयो, मार सार संसार मने. ”

कवि का आशय यह है कि हे! वजेसिंह तुमने पहिले तो कालंद्री के युद्ध में ( राव कलाको सिरोही से निकाल ने को ) मेवाड के सैनिकों को मार दिये थे, तब भी मेवाड

के महाराणा के दरबार में मौजूद कर रहा है, इसका कारण यह है कि वहादुर होनेसे महाराणा न तेरे मार के भय से, तेरे को अपने पास रखा है.

उपरोक्त कवित सूनतेही देवडा वजेसिंह अपने मन में समझ गया कि अब महाराणा के पास रहने में बहेतरी नहीं है. जिससे वह अकबर बाहशाह के पास चला गया.

मूतानेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि दत्ताणी का युद्ध होने बाद, देवडा वजेसिंह फिर अकबर बादशाह के पास फरियाद करने को पहुंचा, जबकि राठौर उदयसिंह ( जोधपुर के महाराव मालदेव का तीसरा पुत्र जो मोटाराजा के नाम से मशहूर था. ) को अकबर बादशाह ने जोधपुर का राज वक्षा, तब उसने भी अपने भतिजे व भायात महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारे जाने के कारण अपना वैर का दावा ( महाराव सूरताणसिंह से ) होनेका जाहिर किया, जिससे बादशाह ने जामवेग. और मोटाराजा ( जोधपुर के महाराजा उदयसिंह ) को फौज देकर सिरोही पर भेजे, उन्होंने सिरोही पर आकर बहुत विगाड किया, और देवडा सामन्तसिंह, पता व तोगा यह तीनों भाई जो डुंगरावत सूरसिंह ( कालंद्री वाले ) नरसिंहोत के पुत्र थे, उनको व चीत्रा जेता खीमराजोत को चूक कर के मारे, जिससे राठौर वैरसाल पृथ्वीराजोत ( बगडी ठाकुर जो महाराव सूरताणसिंह के आगे इस चूक में मारे गये सरदारों का जामिन होकर मोटा राजा के साथ बातचीत करने को ले गया था. ) अपने हाथ से कटार खाकर मर गया. इस विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ठ २३४-२३५ में लिखा है कि मोटे राजा ने वि. सं. १६४४ के फागुन सुदि ५ को नितोरा गांव को लूटा, और एक मास तक सारी फौज सहित वे वहीं रहे, परन्तु आबु पर चढ कर महाराव से लडने में सब प्रकार हानि देख कर, उन्होंने सोचा कि अब किसी प्रकार अपनी बात रखनी चाहिये. इस पर उन्होंने दगा करना चाहा, और आपस में सुलह करने के बहाने से, बगडी के ठाकुर राठौर वैरसाल पृथीराजोत की मार्फत किसी प्रकार का छल कपट न करने का वचन दिलाकर महाराव की तरफ के देवडा सामन्तसिंह सूरवत, देवडा पता सूरवत, राडवरा हमीर कुंभावत, राडवरा बीदा सिकरावत, चीत्रा जेता तथा देवडा सावंतसी, को अपने पास बुलाया, और उनको धोखे से राम रतनसिंहोत के हाथ से मरवा डाले, राठौर वैरसाल अपना वचन भंग होनेके कारण बहुत ही विगाडा, और उसने मोटे राजा के डेरे पर जाकर उनके सामने राम रतनसिंहोत को मारा, फिर वह भी अपने ही हाथ से कटार खाकर मर गया, जिसका स्मारक चिन्ह ( चवूतरा ) नितोरा गांव में बना है.

दंत कथा में यह बात प्रसिद्धि में है कि बगडी ठाकुर वैरसाल महाराव सूरताणसिंह

के मामा का पुत्र होता था, और मोटे राजा की सेवा में उपस्थित था, उसने देवडा सामन्तसिंह सूरसिंहोत को अपने साथ मोटा राजा के पास बातचीत करने के लिये ले जाने के वास्ते बहुत आग्रह करने पर, महाराव सूरताणसिंह ने कहा कि—देवडा सामन्तसिंह मेरे कलेजे के बराबर हैं, जो तेरे को सुपुर्द करता हूं, जिसके लिये कवि ने कहा है कि.

“ सोढ पयंपे बैरसल, सूनजे मामावत; देऊ सामन्तसिंह देवडो, मो कालज तों हथ. ”

राठौर बैरसल ने यकिन दिलाया कि अगर इसको कुछ धोखा होगा तो, उसके एवज में मैं अपना कलेजा दूंगा, कहा जाता है कि सामन्तसिंह का चूक होने पर वगडी ठाकुर का कलेजा एक सुवर्ण थाल में रखकर उसके आदमी ने महाराव के पास भेजा.

मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा सामन्तसिंह का चूक हुआ, उस वक्त देवडा विजा और जामवेग, मोटे राजा से फौज लेकर दूसरी तरफ दौड़े, जहां देवडा विजा को राव सूरताणसिंह ने मार दिया. सि. रा. ई. की पुस्तक में इस विषय में लिखा है कि, इस प्रकार उनका उद्योग निष्फल होने पर देवडा विजा वासथानजी की तरफ से आबु पर चढने के इरादे से, जामवेग आदि को सेना सहित उधर ले चला, जिसकी खबर मिलते ही महाराव सूरताण भी वासथानजी के निकट आ पहुंचे, और वहीं लड़ाई हुई, जिस में विजा मारा गया. जामवेग का भाई घायल हुआ, और उनकी फौज भाग निकली.

इस विषय में दंत कथा में यह बात प्रसिद्धि में है कि देवडा वजेसिंह जब कि वासथानजी के तरफ होकर आबु पहाड पर चढने लगा, तब महाराव सूरताणसिंह का सामन्त सोलंकी सांगा ( जो देवडा वजेसिंह का मसिआई भाई होता था. ) उसके सामने आया, और उसके हाथ से वजेसिंह मारा गया. इस विषय में कवि आसीया दला का खीने अपने तरफ से रचे हुए कवित्त में कहा है कि—

- “ परह वीडो लीयां हुकम पातशाह रे, आवीयो वजो चढ नंदगीरी उपरे ”  
 “ पर चढे राव सूरताण सू पाधरे, हाकले ओ रीयो वाज हरराज रे ”  
 “ गाजीआ वाण नीशाण सर गरगडे, चाव वे वे कटक आवीआ चापडे. ”  
 “ धूणीयां सेल जी फेकीयां धड धडे, देवडों उपरे ओरीयो देवडे. ”  
 “ सार झड भंडीयो उगता सूररो, खरां खोटां तणो निसरे ततखरो. ”  
 “ हाकतो थोट आवीयाटरो दाहरां, पवग परताल गो मांझीयां पाधरां. ”  
 “ खींग भाजां पछे मांझीयां खडखडे, वजड धड उकरड छाडीया वेहडे. ”  
 “ प्रसण सांगा जसा पगां आगल पडे, चालीयो वजो वैकुंठ अणीयां चढे. ”

वजेसिंह के विषय में कहा जाता है कि जब वह मारा गया, तब उसका ❁ सिर

❁ वजेसिंह का घड बावला जाने के विषय में कविने कहा है कि—

“ सरताण जतो कर खाम सला है, मत्र एवडा दीध सजा; आठां गाऊ तणों आंतरो, वदन अने धड हुओ वजा. ”

“ आतो वात सणी ऊर अंतर, मोटा सपहां बेर मन: धड ले गया पाछला घाडायेत. बेरायत ले गीया वदन. ”

वासथानजी में पडा, और धड घोडा पर सवार हुआ वैसाही रहा था, जो लेकर उसका घोडा उसके बतन के गांव ' वावली ' ( वासथानजी से करीब सात कोश पर ) पहुंचा. इस युद्ध में - सांगा सोलंकी भी काम आया. इन दोनों के स्मारक आबु पहाड के उत्तरी ढाल में विद्यमान हैं. ( वासथानजी के नजदीक )

वजेसिंह काम आनेसे जामवेग भाग निकला. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि मोटे राजा ने भी वहां से कूच की, और राव कला को सिरोही में छोड कर वह चला गया, मगर जब कि राव कला ने सूना कि महाराव सिरोही तरफ आ रहे हैं, तब वह उसके आने पहिले ही, सिरोही छोड कर चले गये.

अकबर नामा में अनेक वक्त सिरोही नगर शाही फौजने सर करने का लिखा गया है, परन्तु सिरोही की हस्त लिखित ख्यातें व कवित्तों से मालूम होता है कि सिरोही के देवडे चौहानों को जितनी कीमत आबु के पहाड की थी, इतनी सिरोही नगर की न थी, जिससे उन्होंने आबु का संरक्षण करने की ही हर दफे चिन्ता रखी थी, वल्कि जो जो लडाईयां हुई वे सब आबु पहाड की तलेटी में हुई थी.

शाही फौज को शिकस्त मिलने से अकबर बादशाह ने पुनः २ सिरोही रियासत पर आक्रमण करना जारी रखा. जोधपुर के मोटे राजा ने राव कला को अपने पास रखा, और उसको सिरोही का राज्य दिलाने के बहाने से कई दफे फौज भेजी, परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब भी राठौरों ने अपनी ख्यात में महाराव को × एक दफे

“ सब दी वडा वहे सामसु, वजां जकां नांह दिहवले; माथो धड वेड मेहलाणो, वल करता जुजवा वले. ”

“ हरराजुवत संग्राम होवतां, सोड सकर साहे सजड; भाग तणै कीधा वेडु भागां भोम मागता तके भड. ”

÷ सोलंकी सांगा बहादुर राजपूत था. देवडा वजेसिंह से इसकी हरइभेश बोल चाल होती रहती थी, सोलंकी सांगा का कद छोटा होनेसे, देवडा वजेसिंह उसकी मजाक किया करता था कि छोटे हाथ में बडी तलवार वूरां दिखती है, जिसपर सोलंकी सांगा कहता कि जब मौका आता है तब यह छोटे २ हाथ बडे हो जाते हैं. वह कोई दिन दिग्वा उंगा. जबकी देवडा वजेसिंह को महाराव सूरताणसिंह ने मुसाहिब पद से हटा दिया और वह ' वावली ' में जाकर रहा, तब भंडार की कूची उसके पास होनेसे. सोलंकी सांगा कूची लेनेको गया, उस वक्त वजेसिंह स्नान कर रहा था, सोलंकी सांगा ने घोडे पर से ही अपना भाला बतकर कहा कि भंडार की कूची लाओ, तब वजेसिंह ने टालाटूली करना चाहा, परन्तु सांगा ने कहा कि कूची इस भाले की फणी में इसी वक्त लाकर डालो, वरना छोटे २ हाथ आन कैसे बडे होते हैं वह देखोगे. ऐसा कहकर उसने वजेसिंह की छाती पर भाला ताका. वजेसिंह को इतना भय पैदा हुआ कि उसने वहां बैठे २ कूची मंगवा कर भाले की फणी में सांगा के कहने मुआफिक डाली.

× महाराव सूरताणसिंह को बादशाह के पास ले जाने के विषय में वीकानेर की ख्यात में लिखा है कि—' जगमाल के सिरोही में मारे जानेके कुसूर पर अकबर बादशाह ने राव रायसिंह को फौज देकर सिरोही भेजा. उन्होंने चार दीन तक लडाई की और पांचवे दीन सिरोही के राव को पकड लिया. जिस पर राव के चारण दूदा आसीया ने राव रायसिंह को शाइरी सुना कर खुश किया तो रायसिंह ने उसकी शाइरी के इनाम में राव सूरतान को बादशाह से सिरोही दिलाने का वादा किया, और बादशाह के पास पहुंच कर इस करार को पुरा किया. ( सि. रा. ई. पृष्ठ २३५-२३६ की टीप्पणी. )

टॉड राजस्थान की दूसरी जिल्द के प्रकरण ६ वां में राठौरों की ख्यात में लिखा है कि—जोधपुर के राजा जसवंतसिंह के समय में आसोप का कूपावत मुकुंददास ( नाहरखां ) आबु पर से राव सूरतान को छल से पकड कर उक्त महाराजा के पास

पकड कर वादशाह के आगे ले जाने का लिखा है, परन्तु सिरोही राज का इतिहास के लेखक ने वह बात अस्वीकार की है.

महाराव सूरताणसिंह ने महाराणा प्रतापसिंह की नाई अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया इतना ही नहीं, परन्तु इसने दूश्मनों को जेर वार कर के आबुराज पर किसी को पैर न रखने दिया, और जिन्दगी भर दुश्मनों के सामने खड़े रह कर अबूद भूमी को पराधिन न होने दी, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके राज्य काल का अवलोकन किया जाय तो मालूम होगा कि, सिर्फ मुगल ही नहीं परन्तु अन्य दूसरे राजपूत राजाओं भी इसके कट्टे दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन इसने अपने पास कमी फौज होने पर भी, अपने बाहुबल पर विश्वास रख कर किसी दुश्मनों को सफलता होने न दी. इसकी राज्य-नीति का अवलोकन करने से यह भी पाया जाता है कि कायरपन इसमें मुतलक नहीं था, और जैसा वीरत्व में यह श्रेष्ठ था वैसाही और सद्गुणों से भी यह भूषित था. यह स्नाहसिक राजपुत्र था, परन्तु इसके हाथसे एक भी 'सहसा' कार्य नहीं हुआ, बल्कि दूसरे बहादुर चौहान राजाओं ने अपना बलीदान देकर अपने राज्य की समाप्ति की, वैसा नहीं होते इसने यश, कीर्ति अपने सरदार व अपनी भूमि का भी संरक्षण करके ऐसी नामवारी प्राप्त की, कि जिसका लाभ इनके वंशजों को भी मिला, और मुगल काल के तावेदारी के पवन से सिरोही के देवडे चौहान बाल २ बच गये.

**कवि आढादुरशा को पीछेसे इसका बहुत परिचय हुआथा, उसने इसकी+ विरदावली**

ले गया, और वे इनको वादशाह के द्वार में ले गये, परन्तु ये ( राव सूरतान ) वादशाह के आगे सिर झुकाना नहीं चाहते थे, इस लिये इनको एक छोटी सी खिडकी के मार्ग से इस अभिप्राय से ले गये कि सिर झुकाये बिना भीतर जाना ही न हो सके, परन्तु इसका मतलब ये जान गये, जिससे इन्होंने पहिले पैर अन्दर डाले फिर बिना सिर झुकाये भीतर गये. ( सि. रा. ई. पृष्ठ: २४० )

उपरोक्त दोनों बातें सही नहीं होनेका कारण यह है कि मृता नेणसी ( जो राठौरों का मौजिन मुसाहिव था. ) ने ये बातें अपनी ख्यात में लिखी नहीं है, अगर वैसा हुआ होता तो जरूर वह अपनी ख्यात में यह अहवाल दर्ज करता, जैसे जगमाल काम आने बाद, बीकानेर के राव रायसिंह का सिरोही पर फौज लेकर आनेका अहवाल अकबर नामा में भी नहीं है. उसी मुआफिक जोषपुर के महाराजा जसवंतसिंह वि. सं. १६९९ में गद्दी पर आये थे, उसके पहिले ( २८ वर्ष पर वि. सं. १६६७ में ) महाराव सूरताणसिंह का देहान्त हो चुका था.

सि. रा. ई. की पृष्ठ २४१ पर लिखा है कि—' इनको मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह की नाई स्वतंत्रता ही प्रिय थी, जिससे बहुधा अपनी सारी अवस्था इन्होंने आराम छोडकर लडने भिडने में ही व्यतीत की. इन्होंने ९२ लडाईयां लडी, परन्तु धैर्य न छोडा. × × × यह बडी सेना को कुछ भी नही समझने थे तथा सदा वीरता के साथ उसका मुकाबला करते थे. शाही फौजों से ये कई वार लडे और उनको शिकस्त दी. अकबर नामे में लिखा है कि ये अकबर के पास गये थे. यदि ऐसा हुआ हो तो भी वह नाम मात्र के लिये हो. इन्होंने वादशाह की आधीनता कभी स्वीकार न की. '

+ कवि आढा दुरशा ने कहा है कि.

गीत भाखडी.

“सैह रंग से षणीजी, सूरपत सम बडो, अषको ईखतांजी, धारण धूवडो, दन वष दीपीयोजी, परखंड प्रधडो, माजी मारणोजी, ”  
“शे मज देवडो, माजीयां मारण डार, माझी सार धार संधार, जणीआर जेत जूहार, जुष प्रव भांजणो गज भार उदार वड दातार”

में इनके पूर्वजों से जो जो गुण महाराव सरताण ने ग्राह्य किये थे, उसके विषय में कहा है कि वीरता में जालोर के रावल कान्हडदेव, मालदेव, हमीर, वीरमदेव, समरसिंह, सोही, सोम, सातल सालहा, सोभ्रं के जैसा है, यानी यह सब चौहान, अलाउद्दीन बादशाह के साथ अपनी स्वतंत्रता और नेक टेक के वास्ते अतूल पराक्रम बताकर काम आये थे.

लडाई में दुश्मनों को छीन्न भीन्न करके मार डालने में मानराव ( मरहूम महाराव मानसिंह ) जैसा है, बलिष्ठपन में जालोर के रावल उदयसिंह जैसा ही अत्यंत बलवान है, महाराव रायसिंह के मुआफिक ही दूसरे राजाओं को शरणे रखने वाला है, महाराव अखेराज जैसा भूमि सम्पादन करने वाला है, मरने मारने के विषय में महाराव जगमाल जैसा, और दूसरों के साथ मेल मुलाकात रख कर क्षात्रवट का रक्षण करने में महाराव लखा जैसा है.

यह महाराव की वीरता के विषय में जितनी प्रशंसा हुई है, उतनी ही इसकी + दातारी भी होना प्रसिद्धि में है. इसके समय के दानपत्र के प्रमाणों के इतने शिलालेख,

“ उध्रत, सोस सार संसार, अढार गीर, भरतार, इल पर सोढ कुल सीणगार, ॥ १ ॥ सूरताण चहु सूरताण, समा वड सत्र तप ”  
 “ सूरताण, केवाण मूह खलहाण कीषा राड रावत राण, दुनीआण सह वाखाण दाखे चाह उर चहुआण, मेहराण चित्त ”  
 “ हिन्दुआण माये, भाण रो कुल भाण, ॥ २ ॥ बरदाल भींच भूनाल बानू, सत्रां काञ्च संचाल, लटीयार अस पसराल लासां, ”  
 “ कांगू राल कमाल, शिवमाल मद ढालाल सिंधुर, कवि घंटाल लंकाल, कर माल हत्त छात्राल कविलौं राव धर रख पाल ॥३॥ ”  
 “ ऊर घाहदे अर घाह अवला नाह लीयोस सनाह, हय वाह होये गन गाह हिन्दु सवल ताह सराह, कीय काह वाह सवाहके वी ”  
 “ पतशाह लग छत्रवाह, प्राजो वढण वेर वराह, ॥ ४ ॥ संजान राग संगीत सूनजे, प्रात वेद पुराण, मध्यान होय दीवाण गह मह ”  
 “ इन्द्र कर आथाण, लख दांन दे वारवांण लीजे एक एक सर छत्राण, चहुआण प्रतापो लखा चावर, सरणुर सूरताण, ” ॥ ५ ॥  
 “ गोकुली नाथ कर्णीग रो कुल जास कान्हडदे, मालदे राण हमीरदेवण वीर वीरमदेव, समरसी, तोही सोम, सातल, साल सोभ्रंम देह ”  
 “ सूरताण लाखण गोग सोहे त्रुहण तेजल देह. ॥ ६ ॥ मारको जिमडो राव मानो, अतवली उदल, रायसिंह जेम ओठम रायां, ”  
 “ दान दुजलमल; इल लयण जसडो राव अखमल, जेण विध जगमल, लोढणो सात्रव जेम लखमण, भाणरो जग भञ्ज ॥७॥ सिव एक रवि ”  
 “ शशी दोय, त्रण संज वेद चार विचार, पंचपाल, रवर रतु जाम प्राटो, उदत सात अचाल, आठ कुल अनड नाग नव कुल, ”  
 “ दशेही दिग्पाल, सो भाग दे वर तपो सूर गिर सोढ कुल सणगार. ” ॥ ८ ॥

+महाराव सूरतार्णसिंह ने ८४ गांव देने के विषय में कवि धवडिया खेमराज ने अपने कवित में कहा है कि “ पालिगालाड कवियां अपार, सासन चोरासी दियां सार. ” जिसमें अपने पुगेहितों को वि. सं. १६३४ में कोजरा गांव देनेका व वि. सं. १६६३ में आढा दुरशा को क्रोड पसाव के साथ पेसुआ गांव देने का भी समावेश होता है. इसकी दत्ताणी के विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

पेसुआ गांव क्रोड पसाव के साथ आढा दुरशा को दिया उस विषय के कवित मेंसे

× × × ×  
 “ सहत ढाल सुंढाल जीन सहता जलवती; सु सुवरण समशेर, सहत वटुवा भगवती. ”

“ कुंचो सहत कमाड, गरथ सुं सुवरण माला; सित्तर लाख रोकडा, गाज करताकमाला. ”

“ पेसवा गाम तांवा पतर, अण भंग सासन आपियो; सूरताण राव भाणगरे कवचो दारी; कापीयो. ”

महाराव सूरतार्णसिंह के दातारी के विषय में और राजाओं के साथ मुकाबला करके कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

“ पाने पुञ्जे शशी सूर पयंपो, अंवर चढियो ईपो; दानेसरी पृथी वीच दोठो, कोई सूरताण सरीखो. ”

“ सोले कला सहस कर स्वामी, रखेन मनमां राखो; भाण तणा जे हो दाता भल, दीठो वे तो दावो. ”



ताम्रपत्र व गीत कवित विद्यमान है कि, उनको एकत्र करके लिखा जाय तो एक छोटासा ग्रंथ होवे. वे सब का सारांश यह है कि, इस महाराव ने ८४ गांव सासनबंध कर दिये थे, और अरहट आदि भूमी के दान, इतने दिये हैं कि, उस समय के सिरोही रियासत के हद के गांवों में शायदही कोई गांव बचा हो कि जिसमें महाराव सूरताण-सिंह ने दी हुई भूमी के दान पत्र का शिलालेख न हो. बल्कि सिरोही रियासत के ब्राह्मणों में “ महाराव सूरताणसिंह के तरफ से जमीन मिली थी, ” ऐसा मुआफि के प्रमाण में कहने का जगह २ सुनने में आया है.

वीरविनोद नामक हस्त लिखित पुस्तक में महाराणा अमरसिंह की ख्यात में लिखा है कि महाराणा उदयसिंह के बेटे सगर ने अपने भाई जगमाल का बदला लेकर सिरोही को बरवाद किया था, परन्तु सू. ने. की ख्यात में व दूसरी और किसी ख्यात में राणा सगर ने सिरोही को बरवाद करने का हाल नहीं मिलता है.

महाराव सूरताणसिंह की राणीयां के विषय में बडुआ की पुस्तक में वि. सं. १६५१ में इसने बडुआ रतनसिंह को सीख दी वहां तक में, आठ राणीयां होना अंकित हुआ है, जिसमें जोधीजी ‘ रायदेकुंवर ’ पाटोली के जोधा आशकरण जयसिंहदेवोत की पुत्री से कुमार रायसिंह व कुंवरी वाई जेतकुंवर के जन्म हुए. बाई जेतकुंवर का विवाह खेवाड के महाराणा जगतसिंह के साथ हुआ था, दूसरी राणी भटियाणीजी ‘ मयादेवी ’ जेसलमेर के भाटी भोजराज वाघावत की पुत्री से कुमार सूरसिंह का जन्म हुआ. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके बारह राणीयां होना अंकित किया है, जिसमें इंडेरची चंपा कुंवर ने वि. सं. १६३९ में सिरोही के पास ‘ चंपावाव ’ बनवाई.

“ दूजा लखा सरीखो दूजो, दने प्रमाणे दावो; शाख रखां पूछां शशी सूरज सुजे तो संभजवो. ”

“ अंध दलंध कह्यो एकणव, निग्रह दान न दीठो; आवु गिरंदने राव आवुओ, दूजी ठोर न दीठो. ”

नोट—महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६२९, १६३२, १६३४, १६३७, १६३८, १६३९, १६४०, १६४१, १६४२, १६४७, १६६०, १६६३, व १६६४, यह संवत्तों के कईएक ताम्रपत्र मिले हैं. सिरोही इलाके के राजगुर ब्राह्मणों के गांवों में व अरहट पर जगह २ शिलालेख गाडे हुए हैं, उनको वे लोग महाराव सूरताणसिंह ने दान में दी हुई भूमिके प्रमाण पत्र होना बताते हैं, परन्तु उसमें बहुत से लेखों के हरफ पढे नहीं जाते हैं. कहा जाता है कि जालोर के सोनगरे चौहान के राजपुरोहित राजगुर ब्राह्मण थे, और उसी मुआफिक देवडे चौहान के पुरोहित भी वे लोग थे, परन्तु पीछे से औदित ब्राह्मण की गोरवाल शाखा के ब्राह्मण राजपुरोहित हुए हैं. सिरोही रियासत में कईएक गांव में गोरवाल ब्राह्मण आबाद हैं. जैसे डुंगरी, माकदग, नानरवाडा, खडात व वाडेली गांव के राजगुर ‘ पुरोहित ’ कहे जाते हैं. सिरोही के चौहानों के राजपुरोहित ‘ कोजरा ’ गांव के गोरवाल ब्राह्मण हैं, और व्यास पद ‘ श्रीमाली ब्राह्मण ’ के तरफ है, व उनके तरफ अरहट खेतों होना पाया जाता है.

नोट—महाराव सूरताणसिंह की माता मेडतणीजी ‘ राजादेवी ’ मेडता का राठौर मेदगज उदयसिंहोत की पुत्री होना बडुआ की पुस्तक में लिखा है. जैसे वि. सं. १६३४ के अपाड वदि ८ के ताम्रपत्र में महाराव के नाम साथ ‘ करमादेवी, ’ धीरवाई, मरमदेवी, मानदेवी, व लणदेवी के नाम अंकित हुए हैं. अनुमान होता है कि यह नाम उनकी माजी व दादी मा के हैं, क्योंकि धारवाई ( महाराव मानसिंह की माता होती थी जिसने वि. सं. १६३४ में आवु पर मानेश्वर का मन्दिर बनाया व ‘ धारावती ’ नामक बावडी सिरोही में बनवाई. ) उस समय में विद्यमान थी.

इस महाराव के समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि. सं. १६२९ में देवडा वजेसिंह व देवडा सवरसिंह इसके मुसाहिव थे. वि. सं. १६३४ में केशवराय व साहा खीमा भीमसिंह थे. वि. सं. १६३८ में लखावत तेजसिंह, वि. सं. १६३९ में देवडा तोगा सूरसिंहोत ( कालंद्री का ) व लखावत तेजसिंह, वि. सं. १६४१ में दे. मेहाजल, वि. सं. १६४७ में लखावत तेजसिंह, व वि. सं. १६६० में केशवराय था.

महाराव सूरताणसिंह का देहान्त वि. सं. १६६७ में होनेका हरएक ख्यात से उपलब्ध होता है, सि. रा. ई की पुस्तक में इसके देहान्त की मिति वि. सं. १६६७ आसोज वदि ९ की होना अंकित हुआ है. इस महाराव के देहान्त होने पर इसके मरसिये कई एक कवियों ने कहे हैं, जिसमें कवि आढा दुरशा ने अपने मरसिये में उक्त महाराव

+ लखावत तेजसिंह महाराव सूरताणसिंह के काका प्रतापसिंह रणवीरोत के पुत्र था. जिनके नाम से ' तेजावत ' कहलाये गये. तेजावतों के पाटवी भटाणा ठिकाने के ठाकुर हैं.

\* महाराव सूरताणसिंह के कई एक कवियों ने मरसिये कहे हैं उनमें से आढा दुरशा ने महाराव मूरताणसिंह को अग्नि संस्कार होने बाद शममान भूमी से घरपे आया तब अफसोस के साथ उनके गुणानुवाद के मरसिये कहे हैं, उसमें कवि कहता है कि—

दोहा.

“ मुख मंगळ धर मंगलीक, मीजलस मंगळवार. ”

“ मंगल रूपी महा मण, साहेब मना संभाल. ”

“ आज पडे असमान, आज धर कंकण भागो; आज महा उतपात, नीर धू तारे लागो. ”

“ आज कलू उथल, आज कव आदर झूटा; आज ठले आसंग, आज सनमंत्र विझूटा. ”

“ हिन्दवाण आज खंडीत हुआ, विदग वन विरामयो; प्रागवड आज पड्यो पृथी, राव सोढा विसरामीयो. ”

“ आज सत दे दीन, भाव हिणा छत्रपति; आज दान दुवलां, आज सुहंगी सरस्वती. ”

“ खत्रवट विलखो आज, खग झलां कोण झले; साडे कुण चंचलां क्रीत पांगली न चले. ”

“ कोण दीये घोड हाथी कवां, वारेसको वन टीयो; सूरताण विवनो भाणरो, पृथो रूप पालटोयो. ”

“ राव रायां सम धरण, राव रंका साधारण; राव सु पात्रां दयण, राव कुपात्र पालण. ”

“ राव वरसण कला, राव कालरे तरसण; राव परखण गुणा, राव मानणां दरशन. ”

“ दोहु दीन चाह मांडणो, हिन्दु मुसलमानरो; बहु दान देन बली जावजे त्यां महजे सूरताण रो. ”

“ दान मान देयतो, जको छोरू जाणतो; जिसु बल हालतो तको खुंदीया खमंतो, ”

“ झुमंतां झगडतां, लाड करतो न ले आतो; मावितरा जीम मोज मेल अमेठ मंगतो. ”

“ सो लाख देण सिरोहीया, जण मुहगा मोलविया; सरताण मरण फुटो नहीं, हाय हाय फुटा हीया. ”

“ अकज सकज ओलखण, पात्र कुपात्र परखण; हिन्दु धर्म राखवण, कवीं मन वात परीक्षण. ”

“ गजघडा आंगमण, तुरी गज दांत चढामण; देण अथ भर वध, प्रित चहु दशा चलावण. ”

“ सूरताण सकोमल भालीयण, धणी दया लाखां घरे; अरवड पहाड अरवद पर, ए कारू वड आवरे. ”

“ हुं जाऊ शाह द्वार, तो पण नेह न बोलावे; जो जाऊ कर मतो, पण प्रगट मलतां जणाये. ”

“ जो जाऊं दम सहय, तो इसो आदर न पाऊ; ने एकण असव कारणे कोसुं जाडे चे जाऊं ”


“ वण बल कुठ मलण, वांधव कण; धु मेरू जेवो जचे, भाण रो दान वायां भरण मो सूरताण न सांपजे. ”

“ जके जोड जाणसी, तके जोडसी किरती; जोडी नह जाणसी, तके सीखसी सुमती. ”

“ विजड विसारसी, जके आवडे उपगारी; खाधा चोर वंधरे तके कव अग्याकारी. ”

के साथ उसका जो सम्बन्ध होनेका वणन किया है, उससे पाया जाता है कि, कवि आढा दुरशा उसके अंगत परिचय वालों में मुख्य था, बल्कि जब कि महाराव को अग्नि संस्कार हुआ, तब यह शिघ्र कवि उसको जलते हुए देख कर शमसान भूमि पर कहता है कि.

- “ वेहु गालां प्रसन प्रजले, शत्रु की ऊर जले सूरताण; जमणी कुख जले जोधपरो, चितोडो डावी चहुआण. ”  
 “ कै, मख कमल हैया विच केवा, काह न सकिया सोढ कने; ए कोई पेट तणे होमीजे, दहु मो रा दशोत दने. ”  
 “ दहु दाहां खल जले देवडा, उर पींजर प्रजले अनेक; प्रजल्या हे कण सिंग प्रजले, हे कण जगल धड हडे एक. ”  
 “ वनर भंडार दूढालो वाला, दल जलिया जल तेज दने; अंदर तोहारे राव आवुआ, बल जरडुए चात्र वने. ”  
 “ जनप मरण लगे जेरवीया, मेहपत छोडे न शकिया माग; मारू तो घणा घणा मेवाडा, दधिया थने पडंता दाघ. ”  
 “ विजड हरा न शकिया वाले, दाखत तों ऊपर दाव; शाख घणा गलिया सुनरंजन ए राख होई छूटा हण राव. ”



- “ सोय भाट सोय चारण सो गणी सम सरसेतो सारखो; सरताण हने सो लाभ से, पात्र कुपात्र पारखो. ”  
 “ पे वामण बंधीयण, वाच कारणे वरसाले; चोमासे पोहता, क्रोड तेतिस पियाले. ”  
 “ इन्द्र रुद्रसूर जेठ, सहु अठ्यासी रूप हु; वण कमे रस वृति सोह वेठा सुर वृष हुं. ”  
 “ सूरताण कना बल सांभले, सरग आव अखे सही; मछरिक तो हारो मेलीयो, नाग भार झीले नहीं. ”  
 “ आभ सिंग आमियां, सिंध लाया सूरताणे; सिंध उखलीया राय, वेदछाये राय राणे. ”  
 “ दीघ सिंध पहार, भडे भेजिया अभंगी; सिंधाले मांडीया सिंध, साभा त्रि समी. ”  
 “ सिंधाल वहण स प्रसन, जे इसा सिंध सर आपरे; जणवार सोढ जीती गयो, सिंग अलागे का करे. ”  
 “ मन रुखे जे मले, खेम पुछसी जे वातां; गुण धनक देखसी, मुह लागसी कु पातां. ”  
 “ एकला जीमसी, कीये ऐकला अभले; वीच दई दे पुठ, ठेठे होवसी अमहले. ”  
 “ आवुआ राव सवले अरथ, वळे काज नवळे वरस; सठ मठ लठ देखे सुपह, सोढ तियार संभ रस. ”
- कवि आढा दुरशा महाराव सूरताणसिंह के मरसिये कहने बाद अपने दिल को समजाने के वास्ते कहता है कि—
- “ रह आवु रहे सरणवा, स्त्रीम मले खेलाऊ; सोढ अचे न संपडे, गो राजेसर राऊ. ”  
 “ आवु में बोलावीयो, तुं माने न बोलाय; आपां सोढ सिधावतां, क्या मलीयो न राव. ”  
 “ आवु स्त्रीज मां भोगकर, खम तुंडी मछरिक; धारा खमीयो भोज रज, खम्यो उजेणी वीक. ”  
 “ दोय दोय सत्र पछाढणां, करपा क्रोड पसाव; कालागर मीलसी, राता मोहरो राव. ”

## प्रकरण ३२ वां.



चलू देवडा चौहान (महाराव रायसिंह (दूसरे) व महाराव अखेरराज)

नं. १६ महाराव रायसिंह (दूसरे) अपने पिता के पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. सूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि यह भोला राजा था, इसके भाई सूरसिंह ने जागीर ज्यादा लेना चाहा, जिससे दोनों भाइयों दरमियान विरोध पैदा हुआ. देवडा औरवदास सवरावत व दूसरे सब डुंगरावत देवडों ने सूरसिंह का पक्ष किया, और लखावत पृथ्वीराज सूजावत ने महाराव का पक्ष लिया, परिणाम यह हुआ कि दोनों भाई के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सूरसिंह हार गया.

सि. रा. ई. की पृष्ठ २४५-२४६ में इस विषय में लिखा है कि देवडा सूरसिंह महाराव का मुसाहिव बना, और उसने अपना पक्ष दृढ़ करके गद्दी लेनेका ढंग अखत्यार किया. उसने सिरोही का राज्य छीनने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरसिंह को अपना सहायक बनाना चाहा, और राठौरों के साथ + वैर मिटाने को यह शर्तें की गई कि, महाराजा सूरसिंह का कुमार गजसिंह का विवाह देवडा सूरसिंह की पुत्री के साथ होवे, और दूसरे २९ सरदार जो दताणी में मारे गये थे, उनके रिश्तेदारों के साथ देवडा सूरसिंह के पक्षवाले अपनी पुत्री के विवाह करे, और देवडा सूरसिंह को सिरोही की गद्दी पर बैठलाया जावे, उसके एवज में वह देवडा वजेसिंह का जडाऊ कटार, कुंवर गजसिंह को नजर करे व राव रायसिंह के डेरे का सब सामान ( जो दताणी के युद्ध में महाराव सूरताणसिंह के हाथ आया था, ) तथा उसका नकारह जोधपुर महाराज को वापस दे देवे. इतना होजाने पर महाराजा सूरसिंह उसको वादशाह के पास लेजाकर शाही सेवा में दाखिल करा कर, ऐसा प्रबंध कर देंगे कि देवडा सूरसिंह का पुत्र भी सिरोही राज्य से कभी न निकाला जावे. ये शर्तें की तहरीर वि. सं. १६६८ के फालगुन महिने में हुई, और राठौर सूरसिंह ने उसको सिरोही का मालिक स्वीकार कर लिया, परन्तु जब कि दोनों भाइयों का युद्ध हुआ तब महाराव की विजय हुई, और सूरसिंह को सिरोही राज्य छोड कर भागना पडा.

सूरसिंह भाग जाने पर लखावत पृथ्वीराज महाराव का मुसाहिव हुआ. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि लखावत पृथ्वीराज ने देवडा वजेसिंह के मुआफिक ही ढंग अखत्यार करने से दोनों के दरमियान विरोध हुआ. पृथ्वीराज के बेटे भतीजों

+ दताणी के युद्ध में राठौर राव रायसिंह चन्द्रसेनोत आदि महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारे गये थे, उसका बदला अदा करने के वास्ते वैर मिटाने की तजवीज महाराव के भाई सूरसिंह ने की.

ने अच्छे २ राजपूत अपने पास रखकर महाराव पर जलने लगे. यह सूनकर मेवाड के राणा करणसिंह ने दोनों को समजाइश करने के वास्ते उदयपुर बुलाये, और समजाइश की, परन्तु पृथ्वीराज, रामसिंह, रायसिंह, ( यह दोनों पृथ्वीराज के भतीजे थे. ) नाहरखान, चांदा, ( यह दोनों पृथ्वीराज के पुत्र थे. ) की ऐसी रीत पाई गई कि वे राणा से भी बुराई करने को तैयार है. यह बात राणा के आदमी को मालूम होने पर उन्होंने राणा को कहा कि इसमें सार नहीं है, जिससे राणा ने वहां से सीख दे दी.

वि. सं. १६७४ मागसर सुद ५ को महाराव रायसिंह ने कवि आढा दुरशा को जांखर गांव व्रक्षा, और देवडा भैरवदास को अपना मुसाहिव बनाया. देवडा पृथ्वीराज का बल दिन दिन बढ़ता जाता देखकर, महाराव रायसिंह ने इसी साल में राठौर कुमार गजसिंह की तरफ से नियत हुए, जालोर के थाणे के हाकिम भाटी गोपालदास व भाटी दयालदास को कहलाया कि यदि तुम पृथ्वीराज को सिरोही की हदसे निकाल दो तो हम तुमको ७ १४ गांव देंगे, जिसपर कुंवर गजसिंह की आज्ञा से भाटी दयालदास जोधपुर की फौज के साथ पृथ्वीराज पर चढा, और उसको सिरोही राज्य से निकाल दिया, परन्तु वह पीछा आजानेसे महाराव ने वे गांव वापिस ले लिये.

देवडा पृथ्वीराज अब महाराव और देवडा भैरवदास को मारने का मौका हूँढने लगा. उसने अपने बेटे व भतीजों को पहिले से समजा रखे थे, उस मुआफिक एक दिन महाराव रायसिंह सारणेश्वर गये थे, और देवडा भैरवदास पीछे रहा था, जिससे मौका पाकर उन्होंने भैरवदास को चूक कर मार डाला. महाराव उस समय सूनकर बैठ रहे, और भैरवदास के पुत्र रामसिंह को × पाडिव के साथ उसके पिता की जागीर का पट्टा देकर अपने पास रखा.

महाराव रायसिंह की राणीयां के विषय में दूसरी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु वडुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें वीरपुरीजी

÷ जांखर गांव देने के विषय में कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

दोहा.

“ समंत सोल चीमोतरे, पंचम मगसर पाय; दिये जांकर कव दश को, राजडसी माहाराय. ”

छप्पय.

“ समंत सोल चीमोतरे, माह मागसर तय पंचम; वार गरु शुभ वगत, पिता सुण सजस अनूपम. ”

“ लखे पत्र त्रंभ में, सेंम हद अडग लखावे; दियो हेतकर दान, सोढ सुत उमंग सुभावे. ”

“ जश काम घन दुयजा जगड कव सुमेर सम वड कियो; राजसी राव कवि दुरश ने, दत सांसण जांहर कियो. ”

\* १-४ गांवों के नाम—कोट्टा, पालडी, नावी, रांवाडा, माचाल, आलपा, पोसाल्या, वाड हा, वाघीण, खेजडिया, भेव, अणरोर, अटवाडा व नारादणा.

× देवडा रामसिंह अपने पिता भैरवदास की हयाति में ही अलग जागीर पा चूका था. भैरवदास के तरफ ‘ वागसिण ’ पट्टे की जागीर थी. तब रामसिंह को वि. सं. १६६३ में महाराव सूरताणसिंह ने ‘ पाडीव ’ की जागीर दी थी.

( वाघेली ) गुमानदेवी ' लूणावाडे ' के वीरपुरा वणवीर की पुत्री से कुमार अखेराज ( दूसरे ) का जन्म हुआ. व राणी मेडतणीजी ' दरांदेवी ' मेडता के राठौर जशराज ' हाजल की पुत्री से वाई ' दीपकुंवर ' का जन्म हुआ, जिसका विवाह इडर के राठौर राव कल्याणमल के साथ किया गया.

इस महाराव के देहान्त के विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा रामसिंह भैरवदासोत, महाराव के पास रहने वाद एक वर्ष पीछे लखावत पृथ्वीराज व उसके बेटे भतीजे, महाराव को मारने के ताक में ही फिर रहे थे, सो एक दिन महाराव को चूक करने के वास्ते गये, उस वक्त सीसोदिया पर्वतसिंह उपर था, देवडा रामसिंह व महाराव कम आदमीओं के साथ बैठे थे, उन्होंने महाराव को चूक किया, और सीसोदिया पर्वतसिंह को चूक करने का बहुत यत्न किया, परन्तु दिन उगजानेसे दाव नहीं लगा. उस समय कुमार अखेराज दो साल की उम्र में था, उसको धाय ( दूध पिलाने वाली धा माता ) ने भित्तर की एक कोटडी में छीपा कर उपर गूदडे रख दिये, पृथ्वीराज ने कुमार अखेराज को बहुत डूँढा, परन्तु वह बलिष्ठ प्रारब्ध वाला होनेसे हाथ नहीं आया.

इतने में महाराव के आदमी इकट्ठे हो गये. सीसोदिया पर्वतसिंह व देवडा रामसिंह ने अपने आदमीओं के साथ महल को घेर लिया, और बंदूकें चलने लगी. उन्होंने ने कुमार अखेराज की खबर निकाली तो जनाने वालों ने कहलाया कि " अबतक कुमार कुशल क्षेम विद्यमान है, और अमूक कोटडी के अंदर है, परन्तु दुश्मन उस कोटडी के मार्ग पर ही बैठे हुए है, दो पहर से बडे २ ने पाणी भी नहीं पिया है. इस कोटडी की अमूक बाजु खुली है सो सिलावट को बुलवा कर ( दिवाल तोडवा कर ) अखेराज को निकाल लो. " जिस पर सीसोदिया पर्वतसिंह ने सिलावट से उस तरफ की दिवाल खुलवाकर अखेराज को निकाल लिया.

कुमार अखेराज हाथ में आते ही महाराव के आदमीओं का बल बढ गया, उन्होंने ललकार कर कहा कि हरामखोरों, अखेराज हमारे हाथ आ चूका हे, जिससे दुश्मनों का बल क्षीण हुआ. जब कि रात्रि हुई तब महाराव के सेवकों ने चारों तरफ से मारा चलाया. लखावत पृथ्वीराज ने देखा कि अगर इस जगह पर रात्री निकालेंगे तो जरूर मारे जावेंगे, जिससे उसने अपने अच्छे २ राजपूतों को आगे व पीछे, और दोनों बाजुओं में रख कर आप बीच में रह कर जोर से दौड कर भाग निकले. महाराव के आदमीओं ने उनका पीछा किया, लखावत पृथ्वीराज के राजपूत पीछे लौट कर

\* इस चूक में देवडा लूणा हररानोत का पुत्र शार्दूलसिंह, वजावत केशवदास खेमराजोत, वजावत तेजमाल जसवंतोत, काम आनेका मू. ने. की ख्यात में उल्लेख किया है.

लडते गये मरते गये और भागना शुरू रखा. इस प्रकार लडते मरते भागने से पृथ्वीराज के बहुत आदमी मारे गये, परन्तु वह कुशल क्षेम अपने डेरे पहुंचा, वहां से घोड़े पर सवार होकर निकल गया, और बचे हुए आदमीओं के साथ 'पालडी' आया.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि लखावत पृथ्वीराज अपने बेटे व भतीजों को लेकर महाराव को छल से मारने को अचानक महलों में आ पहुंचा. × × × इन लोगों को आते हुए देख कर महाराव ने अपना हाथ तलवार पर डाला, और पृथ्वीराज के पक्ष के २ राजपूतों को मार कर तलवार के कई घाव लगने बाद ये गीरे.

इस विषय में दंत कथा में कहा जाता है कि लखावत पृथ्वीराज ने, महाराव आदि को सोते हुए मारने का इरादा करके, कुछ रात्री रही थी तब महल में प्रवेश किया, और महाराव पर चूक कर लेने बाद कुमार अखेराज को मारने के वास्ते हूँडा, लेकिन महाराव पर चूक होनेकी खबर पाते ही कुमार की 'धा' ने अखेराज को एक खाल में दुशाला लपेट कर रख दिया, और अपने पुत्र ( जो कुमार अखेराज की समान वय का था उसको ) को कुमार के पारणे में सुला दिया. जब कि पृथ्वीराज कुमार को हूँडने के वास्ते वहां आया, और उसने पूछा कि कुमार कहां है, तब धा ने पारणे के तरफ हाथ किया, जिससे पृथ्वीराज ने पारणा में सोता हुआ ( धा के पुत्र को ) बालक को मार कर संतोष जाहिर किया. यह बात प्रसिद्धि में है कि सीसोदिया पर्वतसिंह ने जब कुमार के विषय में धा को पूछा तब, उसने पारणे में मरे हुए बालक को बताकर कुमार को खाल में रखने की बात छीपा रखी, परन्तु उस धा के मूह पर ग्लानी न देखने से उसको शंका हुई, और कईएक प्रतिज्ञा करके सच्च बात जान ना चाहा. धा को उसकी प्रतिज्ञा पर यकीन आनेसे उसने खाल के तरफ दृष्टि की, जिस पर पर्वतसिंह ने खाल में देखा तो, कुमार अखेराज दुशाला में लिपटा हुआ हंस रहा है, और एक बड़ा भारी सर्प ( नाग ) उस दुशाला को विटा देकर अपनी फेंग उंची कर उसका रक्षणार्थे खडा है. पर्वतसिंह को देख कर उस सर्प ने छीछकार मारी, जिस पर पर्वतसिंह ने प्रतिज्ञा करके कहा कि हे ! नाग देवता अगर मैं महाराव का सच्चा निमकहलाल राजपूत हूं तो, आप इस कुमार को लेजाने की तक देदो, यह सून कर सर्प अलग हो गया, और पर्वतसिंह कुमार अखेराज को दुशाले में छिपाया हुआ उठाकर पहाड पर चढ गया. उसने पहाड के शिखर पर पहुंच कर, अपने भाले पर दुशाले में अपना जूता लिपेट कर ललकार दी कि, देखो यह कुमार को मैं ले जाता हूं, जिस पर पृथ्वीराज ने उस पर गोली चलाई वह दुशाले में लगी, बाद पर्वतसिंह कुमार को लेकर पिन्डवारे चला गया.

÷ बड़ुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव के हाथ से लखावत रामसिंह श्यामसिंहोत इस चूक में मारा गया.

महाराव रायसिंह के चूक के विषय में कवि आढा किशना ( आढा दुरशा के पुत्र ) ने कहा है कि—

- “ सिंघ प्र तपे शिवपुरी, सरे हिन्दुस्थाणां; सोह चढावे देवडां, वडां चहुआणां. ”  
 “ पाय ध्रहां वंका वडंग, गज वाख भथाणां; आंकस रायां शिस सर, जोर लगाणां. ”  
 “ लख माता लख उनमता, दल पार न जाणां; हिन्दु थान गरजिया, धर हर तुरकाणां. ”  
 “ पिथल धरती उपरे, मन द्राह मंडाणो; काया काची कारणे, अति हुओ अयाणो. ”  
 “ पिथल परगह पूछीयो, तेडी आपाणां; कर वा धरती कारणे, सवला घमसाणां. ”  
 “ इम आलझ उपाईया, पल सोह पलटाणो; उपर पडसां ओचवे, सवे उवांणां. ”  
 “ पाव घडी निश पाछली, रचिया आ राणां; आय न हटा डोढीआं, इतिमाम कराणां. ”  
 “ गया नहि मूह छूटरा, रहीया रोकणां; सभा अचवे जागिया, जोधार जुआणां. ”  
 “ कीधा मालूम राव सु, जियारे दरवाणो; आजुं कां अध्रीमियां, ए माहे न आणो ”  
 “ राये भितर तेडिया, आकाय रहमाणां; आया ज्यु ही आदरी, वे अखर लखाणां. ”  
 “ आवे रायां आगले, दीवाण जुडाणां; असगे लोह अडाडीयो, उगंते भाणां. ”  
 “ मारे जमदठ तेजमाल, रत खाल वहाणां; राव हकारे रायसिंघ फट फट अवसाणां. ”  
 “ सामा फेरिया राव सुं, असपर उवाणां; लोह करंता राव ने, दाई जणाणां. ”  
 “ राव अखा उचकाय के, कोई ठौर रखाणां; आया पीथल क्रोध कर, खग हात उवाणां. ”  
 “ वालक मारण कारणै, मुख वचन कहाणां; धाय वताया वाल नीज, अह सेज सुआणां. ”  
 “ मारे वालक धाय का, अत जोस उफाणां; धा ए धरम नीज रख कर; जश जगत रखाणां. ”  
 “ पीथल के अस पापका, कुल कलंक लगाणां; आये वीर अनेक मल, रस वीर उफाणां. ”  
 “ स्वामी धरम विचार कर, रूठो जमराणा; पापी पृथ्वीराज को, घेरी घमसाणां. ”  
 “ रामा भैरव दास का, रूठे जमराणा, वालक राव उगारवा, कर मूछ धाराणां. ”  
 “ वालक बाहर कढके, नीज धरम पिछाणां; ये रे मूढ हरामखोर, तुंने क्या जाणां. ”  
 “ अरबुद धर कोई वीर नांह, ऐसा मत जाणां; अण रा फल अब पाई है, पीछे पसताणां. ”  
 “ घेर लिया दोए पोहर तक, रचीया आ राणां; चले तुपकां तीर के, केई धनुष कवाणां. ”  
 “ यां करतां रवि आथमें, अंधार लखाणां; जीव वचावण कारणे, पीथल मन जाणां. ”  
 “ पाप मंडली साथ कर, पड हाथ पलाणां; सांम ध्रमी हुंगर हरा, आटक चहुआणां. ”  
 “ झीक वजावत सत्र सर, नीज कर तव जाणां; कई एक मारे खाग वल, कईएक भगवाणां. ”  
 “ वच गो पीथल करम गत, डेरे पहोचाणां; नीज घोडे असवार होय, नीज साथ सजाणां. ”  
 “ एक घटना सक विक्रमी, सोले सें जाणां; साल सतंततर अशुभ दिन ए कथ रहाणां. ”

×

×

×

×

मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव का चूक होनेसे सोसोदिया परवत-सिंह, देवडा रामसिंह, चीवा दूदा करमसिंहोत व शाह तेजपाल आदि ने इकट्ठे होकर वि. सं. १६७५ में कुमार अखेराज को टीका किया, परन्तु उपरोक्त कवित, वडुआ की पुस्तक, और दूसरी ख्यातो में यह घटना वि. सं. १६७७ में होना अंकित है और वह ज्यादाह भरोसा पात्र है.

नं १६ सूरसिंह ने जोधपुर के महाराजा की सहायता से अपने वडे भाई से राज्य लेना चाहा था, परन्तु निष्फलता होनेसे सिरोही छोड कर भागना पडा. जोधपुर के



महाराजा ने उसको ' भाद्राजण ' की जागीर २५ गांवों से दी, परन्तु वि. सं. १६७१ में महाराव रायसिंह ने उसको ' काछोली ' की जागीर देनेसे वह वापस आ गया, जिस के वंशज वर्तमान समय में सिरोही रियासत के काछोली गांव के लखावत हैं.

नं. १७ महाराव अखेराज ( दूसरे ) बालकपन में अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि ये ( महाराव रायसिंह के चूक होनेकी ) खबर मिलने पर सिरोही के नजदीक के चितोड़ के महाराणा ने व इडर के राव कल्याणमल ने महाराव अखेराज की बहुत संभाल रखी, जिससे सीसोदिया परबतसिंह, देवडा रामसिंह, चीवा दूदा व शाह तेजपाल आदि बलवत्तर हुए, उन्होंने लखावत पृथ्वीराज को सिरोही राज्य की हद्द में से निकाल दिया, जिससे वह अपने जनाने के साथ अपने सुसराल के गांव चेखला के पहाड़ में जाकर रहा. उसका पुत्र ' चांदा ' अंबाभवानी के तरफ जा रहा, और बहुत बगावत की. कितनेक गांवों से हांसिल लिया, और सिरोही के दस्तुर से आधा दाण लेना शुरु किया, परन्तु वह हरामखोर होने से दिन २ कमजोर होने लगा, यानी बगावत से कुछ नतीजा नहीं हुआ. एक दिन पृथ्वीराज का भतीजा ( श्यामदास का पुत्र ) रायसिंह एक गांव लूटने को गया वहां मारा गया, बाद डुंगरावत देवराज के पुत्र राजसिंह व जीवसिंह ( कुंभावत सीलदर )ने छल से पृथ्वीराज को मारने के इरादे से पृथ्वीराज के पास गये. पृथ्वीराज ने इनका विश्वास किया, जिससे मौका पाकर रात को पृथ्वीराज को मार कर वे सिरोही चले आये.

दंत कथा में यह कहा जाता है कि देवडा रामसिंह ने एक दफे दरबार में यह प्रश्न किया कि, लखावत पृथ्वीराज का शिर काटकर कोई लासक्ता है? जिस पर कुंभावत देवडा राजसिंह ने बीडा उठाया. उसने दगाबाज के साथ दगा करनेका सोचा, और चेखले के पहाड़ में दोनों भाई चले गये, उन्होंने देवडा रामसिंह आदि की बहुत बुराई की, जिससे पृथ्वीराज ने उनको अपने पास रखा, जिससे मौका मिलने पर पृथ्वीराज को चूक करके उसका शिर काटकर महाराव के पास ले आये. महाराव ने उनकी इच्छानुसार इस काम के एवज में ' लास ' नामक गांव कुंभावत राजसिंह को व ' छीवा गाम ' कुंभावत जीवा को वक्षा, जो वर्तमान समय में उनके वंशज के तरफ है, सि. रा. ई. की पुस्तक में यह घटना वि. सं. १६८१ में होनेका अंकित हुआ है, वैसे कवि आढा किशाना ने भी अपने कवित में यही संवत् बताया है, परन्तु कुंभावत राजसिंह को ' लास ' गांव मिलने का समय वि. सं. १६९९ है, पाया जाता है कि महाराव जब पुख्त उम्र के हुए तब उसका बदला दिया गया है.

लखावत पृथ्वीराज चूक करके अपने गांव पालडी कुशलक्षेम भाग जाने बाद, जो

राजकुल सिरोही के नं. १७ वाले महाराव.



महाराव अखेराज ( दूसरे ) साहब बहादुर.

[ विभाग पहिला पृष्ठ २८१ ]



घटनाएं हुई, उसके विषय में कवियों के कंठस्थ साहित्यों में कवि आढा किशाना ने अपने कवित में सविस्तर इतिहास अंकित किया है, जिसमें कवि ने कहा है कि—

- × × × ×
- “ पृथ्वी राज निकाल कर, मजलस मंडाणां; परवतभिह सीसोदिया, रामा चहुआणां. ”
- “ करमसिंह दूदा मले, सलाह कराणां; तेजपाल एक साह नै नोज मत कहाणां. ”
- “ अखेराव महाराव को, नीज तखत बेठाणां; प्रामरस करके सुथ दील, नीज धरम पीछाणां ”
- “ महाराव रक्षां करां, एह धरम आणां; पीथल मार भगाय के, नीसकंट रहाणां. ”
- “ नीज दल बल संभाल के, परपंच रचाणां; प्रथवीराज विद्रोह दल, कठ देश आपाणां. ”
- “ गो भगो सुसराल के जहैं देवल राणां; नीज नारी के आशरे, कुच्छ दिन कथाणां. ”
- “ गांव चेखला जाये कर, नीस तै रहवाणां; जहां गिरवर अतही अगम, जग सवर्हा जाणां. ”
- “ चांदा जिसका पुत सी, अभीमान उफाणां; अंब भवानी के तरफ, सी जाए लुकाणां. ”
- “ मारग पाडे लूट गांम, अनरथ आ पाणां; ले चुंगी साएर लगान, क्रम भील कराणां. ”
- “ सवही जांण हरामखोर, पीथल सोह जाणां; प्रथवीराज भात्रीज एक राएसिंघ रहांणा. ”
- “ लूटे अरवद गांम कई, भेटे जमराणां; राजसिंघ एक हुंगरोत, जीवा एक राणां. ”
- “ पापी प्रथवीराज को, मारण मन ठाणां; असने करतव भेस कर, नीज धरम पीछाणां ”
- “ रामा भैरव दास की, निंदा केहवाणां; जिस पर प्रथवीराज ने नोज पास रखाणां ”
- “ मोका पाकर ऐक दीन, कर घात अजाणां; आप सिरोही आय के सहवास कहाणां. ”
- “ यह घटना शक वीक्रमी सोलासैं जाणां; ऐकासी समंत भइ, सुद ख्यात लखाणां. ”

महाराव अखेराज ने बालकपन में ही अपने पिता का वैर लेनेके वास्ते पृथ्वीराज के गांव ' निवज ' पर चढाई की थी, उसके विषय में ' जांखर ' के कवि मुकुन्ददास ( कवि आढा दुरशा का पोता ) जगमालोत ने कहा है कि—

- “ पत वेर संभाले पवंग पांखरै, वंका रावत चहु बल; अखेराज प्रथीराज उपरै, +नांदवणो नीवजे नला.
- “ पाखर घोडा घरर पागती, दररर बहादर मलैदल; खोरडो कुंजर करण खोखरी बालक केहर करै बल.”
- “ आठ पहोर ऊपराओ वासै, मान अभनमो सुद्ध मयेंद; गणीया चरे भाटके गयेदां, गणीयां दीहां मरे गयेंद. ”

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने होश संभालने बाद जो जो लखावंत अपने पिता को मारने में शामिल थे, उनमें से बहुतों को अपने महलों में बुलाकर मरवा डाला, और अपने पिता का वैर लिया. इस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि दशहरा के दरबार में महाराव के नजदीकी लखावत भायातों को अपने जनानें के साथ सिरोही में आनेका रिवाज प्रचलित था, उस मुआफिक सब लखावत हाजिर हुए थे, उनको महाराव ने अपने पिता का वैर लेनेके कारण महल में ही मरवा डाले, और उनकी स्त्रीयां को उन लाशों के उपर से निकाली, जिससे पीछेसे लखावतों ने

+ निवज गांव ' नांदवणा ' नामक पहाड की तलेटी में पश्चिम दिशा में है, और उस पहाड की दक्षिण में जो खीण है वह ' नला ' नामसे प्रसिद्ध है. अनुमान होता है कि लखावत पृथ्वीराज पाण्डवी से निवज गया था. निवज गांव ऐसी सभामत जगह पर है कि कम फौज होने पर भी बचाव हो सक्ता है, वरिक्त इसी कारण से पृथ्वीराजोत ने अपना पाट गांव ' निवज ' रखा है.

दशहरा के तहेवार पर अपने जनाने वालों को सिरोही लानेका रिवाज बंध कर दिया. इस विषय में कवि धधवाडिया खेमराज जो मेवाड के महाराणा का आश्रित था, उसने कहा है कि—

× × × ×  
 “ राजसिंह सोढ रै पाट काज; राजसिंह तणो सुत अखेराज. ”  
 “ लखावत सब बोलाय लीध; दिन एक नीकंदन खलु कीध. ”  
 “ अडवा न दीध खग आप अंग; राव ने दर्ई पतशाह रंग. ”  
 “ पत वैर लियो निज अखेराव; सरणुयै चढ गो चोगुणो चाव. ”  
 × × × ×

महाराव अखेराज ने लखावतों को सिरोही बुलवा कर मरवा डाले, यह घटना कौन समय में हुई, उस विषय में किसी ख्यात में खुलासा नहीं है, वैसे कौन २ लखावत मारे गये वह भी अंकित नहीं हुआ है. सिरोही के बडुआकी पुस्तक में लखावतों के ठिकाने के अहवाल से मालूम होता है कि, भटाणा के लखावत ठाकुर मेघराज तेजावत को पाडीव के देवडा रामसिंह भैरवदासोत के पुत्र केशरीसिंह ने मार डाला, जिससे महाराव अखेराज ने उसको ‘ जिरावल ’ की जागीर दी. रहुआ के सांगावतों की ख्यात से पाया जाता है कि लखावत सागा गोविन्दासोत का पुत्र रामसिंह वि. सं. १६९० में सिरोही में काम आया. इससे अनुमान होता है कि यह घटना वि. सं. १६९० में हुई है, बल्कि देवडा केशरीसिंह रामसिंहोत ने वि. सं. १६९७ में कुंवरपद से जिरावल में बडुआ को सीख दी है, जिससे यह अनुमान सही होना पाया जाता है.

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव \*अखेराज का ननिहाल उदयपुर में था, जिससे सीसोदिया पर्वतसिंह उनको महाराणा के पास हिफाजत से रखने के लिये ले गया, और बड़े होने पर उसको सिरोही में लाया, परन्तु इसका ननिहाल वहां नहीं था, परन्तु लूणावाडा ( गुजरात के रेवाकांठा ) में था, इस विषय में कविने कहा है कि—

“ अखा पखा दोइ उजला, तुं जण तां तडताण; माता पख वणवीर है दादो राव सूरताण. ”

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज ने बारह वर्ष की अवस्था से ही शत्रुओं के साथ लडना शुरू किया था, मेवाड के महाराणा जगतसिंह ने वि. सं. १६८५ में सिरोही पर फौज भेजी, जो कितनेक गांवों को लूट कर लौट गई. इससे मेवाड तथा सिरोही को+ मैत्री में फर्क आ गया, परन्तु वि. सं. १७०९ में महाराणा

\* सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके पिता रायसिंह का ननिहाल उदयपुर में होना बताया है, परन्तु बडुआ की पुस्तक में इसका ननिहाल ‘ पाटोडी ’ के जोधा राठौर के वहां होनेका अंकित हुआ है.

+ मेवाड के महाराणा से मैत्री में फर्क आनेका कारण दंतकथा में यह प्रसिद्ध है कि महाराव अखेराज कुछ समय के वास्ते उदयपुर गये थे, सो वहां से वापस लौटती वक्त ‘ उकी’ नामकी स्त्री को ले आये, और उसको अपनी पासवान बनाई, बल्कि

राजसिंह की गद्दी नशिनी हुई, उस समय महाराव अखेराज ने उनसे अपनी मैत्री पीछी दृढ कर ली.

वि. सं. १६९९ में महाराव अखेराज ने कवि आढा महेशदास दुरशावत को 'ऊड' गांव बक्षा. जिसके लिये कहा है कि—

दोहा.

“ समंत सोल नीनांगवे चेत दशम पख सुद; दियो उड महेदास ने अखमल पटे अवध. ”

वि. सं. १७०७ में इस महाराव ने मेवाड के चारण कवि धधवाडिया खेमराज को 'कासंद्रा' गांव इनायत किया. उसके वास्ते उक्त कवि ने कहा है कि—

दोहा.

“ समंत सतरो साते वरस, चेत्र सुदि चवदस; कासंद्रा कवि खेम ने अखमल दियो अवस. ”

कहा जाता है कि 'कासंद्रा' गांव बहुत ही सुन्दर था. कविने उस गांव की सर सब्जी का वर्णन अपने कवित में किया है, उससे पाया जाता है कि यह गांव खेडुत, महाजन आदि रियाया से पूर्ण आबाद हालत में कवि को दिया गया है.

मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि पृथ्वीराज को डुंगरावतों ने चूक करने बाद पृथ्वीराज के दूसरे बेटे मर गये और बरबाद हो गये, परन्तु उसका पुत्र चांदा जो बहादुर व दृढ निश्चय वाला राजपूत था, उसने बगावत चलू रखी. कवियों ने इसके वीरत्व के बहुत कवित कहे हैं. उक्त ख्यात में लिखा है कि—'सिरोही में तिको रजपूत कोई नहीं जिको चादां आगै च्यार वार भांगवो न छै.' चांदा ने दाण लिया और निंबज में आकर रहा, जिससे वि. सं. १७१३ के कार्तिक वद १४ के दिन सीसोदिया परबतसिंह, देवडा रामसिंह, चीवा करमसी, खवास केशर आदि महाराव की कुल फौज लेकर लखावत राघोदास जोगावत की सरदारी में 'निंबज' पर गये. दो पहर

बहुआ की पुस्तक से यह पाया गया कि महारावने 'उकी' का नाम बहुए की वही में ( और राणीयां के मुआफिक ) दर्ज कराना चाहा, परन्तु बहुआ ने इनकार किया, जिससे महाराव ने उनपर नाखुश होकर उसकी जागीर के गांवों भी छीन लिये, जिससे बहुए 'वसी के देवडे' पास चले गये. इस विषय में बहुआ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि—

“ अखा उकी आणतां, चूकी मत चहुआण; एक तो अरबुद गढ लजियो दुजो रिसायो राण. ”

कहा जाता है कि पासवान उकी से एक पुत्री का जन्म हुआ था, उसका विवाह अच्छे राजपूत से करनेका मौका न मिलने से वह कुंवारी अवस्था में ही देहान्त पर्यंत जनाने में रही थी. सिरोही के राजमहर्षों में उकी का निवासस्थान विद्यमान है जो 'उकीनीरा महल' के नामसे प्रसिद्ध है.

\* लखावत राघोदास जोगावत 'सामन्तसिंहोत लखावत' था, और 'सांगा' के काका कृष्णसिंह जिसकी 'सेरुआ' गांव की जागीर थी, उसका पोता होता था. महाराव अखेराज ने वि. सं. १६९९ में इसके पिता जोगराज को 'सनवाडा' ( पाभेरा परगने में है. ) की जागीर दी थी. लखावत राघोदास अपुत्रवान हालत में निंबज में काम आया, जिससे उसका छोटाभाई मानसिंह जोगावत को सनवाडा की जागीर मिली. वर्तमान समय में लखावत मानसिंह के वंशजों के तरफ 'सनवाडे' की जागीर विद्यमान है.

युद्ध हुआ जिसमें लखावत राघोदास ५० आदमी के साथ काम आया, और १०० आदमी जख्मी हुए. लखावत चांदा को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई.

लखावत चांदा का देहान्त कब हुआ उसका संवत् किसी ख्यात में दर्ज नहीं है, परन्तु x वि. सं. १७१७ के पहिले वह गुजर चूका हो वैसा पाया जाता है, क्यों कि उक्त संवत् में उसका पुत्र अमरसिंह होना नेणसी की ख्यात से मालूम होता है.

जांखर के कवि आढा राघवदान ने मरहूम महाराव कैशरिसिंह साहेब की, आज्ञानु-सार प्राचीन कवितों का संग्रह करके 'चत्रभुज इच्छा प्रकाश' नामक हस्त लिखित पुस्तक लिखा है, उसमें महाराव अखेराज ( दूसरे ) के विषय में लिखा है कि, बादशाह का सूबा गोरीसाह के साथ महाराव अखेराज ने 'सोलदर' गांव के पास युद्ध किया, जिसमें गोरीसाह महाराव के हाथ से मारा गया. उस युद्ध में महाराव ने परमार मांडण को पूछा कि सूबा कहां है? तब परमार ने अंगुली से नहीं बताते, भाला मारकर बतया. महाराव ने उसी वक्त सूबा को अपनी तलवार से मार डाला. इस घटना की शहादत का कवि आढा प्रयागदास जांखर वाले ने गीत कहा है कि.

“ आखेराव अल अखोई अखो, भोयणे भडै पढंते भार; न झडै झडै दाखीयो नारण, पांण न दाखवियो परमार.”  
 “ पोह परमार न दाखे पांणे, चोरंग पुछंते चहुआण; पहेलां सेळ अणा सीर पे लै, पाळे कहीयो एह पठाण. ”  
 “ अखे अल नारणो आखे, आहव माचंत आगाढ; कर आगी आंगली न कहीयो, कहीयो कुंत अणी सिर काढ. ”  
 “ खल दल पेस वचे खेतावत, गोरी गंजे भांज गह; राव जते पूछते महारण, पोह आवुओ रोमपह. ”

इसी पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज इडर के राठौर राव कल्याणमल के वहां विवाह करने के लिये इडर गये थे, जहां पर राव कल्याणमल ने चवरी में ही उसको चूक करके सारने का प्रपंच रचा, जिसकी खबर हुंगरावत जामन्तसिंह सामन्त-सिंहोत कालंद्री वाले को होनेसे, उसने राव कल्याणमल का हाथ पकड कर बाहर वैठा दिया, और कहा कि तुम्हारा इरादा महाराव पर चूक करने का है, सो अब सीधे २ यहां पर बैठ जाओ, नहीं तो मार दूंगा. जिस पर राव कल्याणमल ने कहलाया कि चूक नहीं करते शादी करा दो, वरना मेरी जान जायगी, तब चूक करने वाले बिखर गये, और शादी करादी. शादी होजाने पर जब महाराव की बरात इडर से दो कोश के फासले निकल गई, तब टाकुर जामन्तसिंह ने राव कल्याणमल का हाथ छोडा, जिसके वास्ते कवि आढा प्रयागदास ने कहा है कि.

x वि सं. १७१७ के भाद्रपद माहा में मूता नेणसी गुजरात तरफ गया, और आश्विन माहा में वापस लौटा. उसका सुकाम जालोर में था; तब लखावत अमरसिंह चांदावतने अपना प्रधान वाघेला रामसिंह को मूता नेणसी के पास अपनी ख्यात लिखाने के वास्ते भेजा था, जिससे अनुमान होता है कि चांदा उस समय में विद्यमान नहीं था. वाघेला रामसिंह ने उस वक्त नेणसी को कहा कि सिरोही का दाण पचास-साठ हजार रुपये आते थे, अब कम आता है, सिरोही का आधा दाण लखावत अमरसिंह लेता है, और विभंगे ( भागदारी ) के गांव १००-१२५ अमरसिंह के तरफ है.

- “ प्रथम अखेराज गो शांवेले परणवा, गाएणी मले रंग राग गायो;  
सरत कर राठवड, गरड भड सामहो, एथ पड जान कल्याण आयो. ”
- “ हजारां थाट भूपाल भेला होये, कवी परदेश रे गीत कहीयो;  
पटा झर मूछ पर नोख कर पटालो, सरत चहुआण लखरोस चहीयो. ”
- “ चूकरी वात जांमंत तणै सांभली, मेहपति खलां दल आये माजा;  
वाग कलीयांण रे आये कर वलंबीयो, राव कुशले रख्यो अखेराजा. ”
- “ जोधपुर, उदेपुर कहे यु जांमता, मेहपति खलां दल आये मलीयो;  
आवुओ राव परणाव घर आंणीयो, वजाडे जेतरा ढोल वलीयो. ”

महाराव अखेराज दूसरे के समय में देहली के शाहजहां बादशाह के शाहजादों में आपस में विग्रह पैदा होनेसे, इस महाराव को अपने पक्ष में रखने के वास्ते शाहजादे दाराशिकोह व मुरादबख्श ने कोशिश करने का उन दोनों शाहजादे के + ' निशान ' पर से पाया जाता है. उक्त निशानों व फर्मान से यह भी पाया जाता है कि, शाहजादा दाराशिकोह के साथ महाराव का पत्र वहेवार था, और मुरादबख्श के साथ नहीं था. सि.रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि जमादिउल अब्बल हि. स. १०६९ (वि. सं. १७१५) में दाराशिकोह, औरंगजेब से मुकाबला करने के लिये गुजरात से आगरे को जाता हुआ सिरोही में भी आया था.

**महाराव अखेराज बहादुर व उदार राजा था, उसके कईएक गीत कवित विद्यमान**

+ शाहजादा की तरफ से जो पत्र राजाओं पर लिखा जाय उसको ' निशान ' कहते हैं, और बादशाह के तरफ से लिखा जाय वह ' फर्मान ' कहलाते थे, महाराव अखेराज के उपर शाहजादा दाराशिकोह के ' निशान '. ( १ ) ता. ११ रवीउल् अब्बल हि. स. १०६० ( वि. सं. १७०६ ) का, ( जिसमें मुरादबख्श को सुवागीरी से उतार देनेका जिक्र है ) दूसरा ता. १४ मुह्रम हि. स. १०६७ ( वि. सं. १७१३ ) का ( जिसमें महाराव के तरफ से गया हुआ पत्र का मामुली जुवाब है. ) तीसरा ता. ६ सफर सन् ३१ जुलूस मुताबिक सन् १०६८ ( वि. सं. १७१४ ) का ( जिसमें महाराव के पत्र के जुवाब में खातिर जमा रखने का लिखा गया है. ) चौथा ता. ७ मुह्रम हि. स. १०६९ ( वि. सं. १७१४ ) का ( जिसमें महाराव के पत्र के जुवाब में लिखा है कि कोई दुश्मन उस तरफ से न निकलने पावे वैया प्रबंध रखनेका व शाहजादा मुरादबख्श बुलावे तो उसके पास जानेका विचार मत करना वगैरह हाल लिखा है. ) पांचवा ता. ७ रज्ज सन १०६८ ( वि. सं. १७१५ ) का जिसमें शाहजादा मुरादबख्श व उसके साथियों को मार देनेका व उनका माल असबाब लूट लेनेका आम तोर पर अपने सादारों को भी कहला देनेका वगैरह लिखा गया है. )

शाहजादा मुरादबख्श के तरफसे ता. २९ वी रवीउल अब्बल सन् २९ जुलूस मुताबिक हि. स. १०६६ (वि. सं. १७१२) का ' निशान ' में लिखा है कि बादशाही मिहर्बानो का भरोसा कर जल्दी हमारे पास हाजिर हो जाओ. दूसरा ता. ७ मुह्रम सन् ३० जुलूस मुताबिक हि. स. १०६७ ( वि. सं. १७१३ ) का ( जिसमें लिखा है कि सय्यद रफीम बादशाह के पास से हमारे पास आता था, वह दांतीवाडे की हद में ' केसरी ' नामक राजपूत के हाथ से लूटा गया, जिसमें सय्यद के दोतीन आदमी मारे गये और तीन च्यार जख्मी हुए व आठ हजार नकद व असबाब लूट लिया, जिससे लूट मार करने वाले को सजा देकर लूटा हुआ असबाब हमारी पास भेज दो वगैरह. )

महाराव ने उक्त निशान पर खयाल न करने से बादशाह शाहजहां ने ता. २३ x x x सन् ३० जुलूस मुताबिक हि. स. १०६७ ( वि. सं. १७१४ ) में ' फर्मान ' लिखा है, जिसमें सिरोही इलाके में से चोरी से गया हुआ माल तलाश करके मालिक को दे देने की ताकीद की है.

\* इस पुस्तक में सिर्फ इतिहास उदलब्ध होता हो, वैसे गीत कवित अंकित किये हैं, और दूसरे मामुली प्रशंसा के कवित दर्ज नहीं हुए हैं.



हैं. कवि आढा दुरशा ने कहा है कि यह महाराव सूरताणसिंह के जैसा ही राजा हुआ, इसने अपना बैर लिया, परन्तु पुराना बैर किसी को न दिया. इस विषय में कवि कहता है कि—

- “ पढ ग्रेहणा लिये दीये नह पाछा, सत्र खतंग न दाखे ग्रहसार; सोढ तणा वोपार सरीखो, वले मांडीयो अखे वोपार.”  
 “ रजवट जोस समो भ्रम राजड, भांग समो भ्रम तणी भतो; वेर रणां नवनवा वसावे, राव पुराणां न दे रती. ”  
 “ अखे अथाग मांडीयो ओहट, घणां तणा घट माए घणा; गलीया गाथ खजनि गेहणा, ते लेहणा लांगवां तणा. ”  
 “ मेल करे ऊखेल न मंडे, हव छूटी वड वडा हर; आवुरा घर सु अधपतीयां, साहोटण भागो समर. ”

इस महाराव ने सिरोही में नया महल बनवाया, और ‘ फूल गोख ’ की रचना कराई, जो वर्तमान समय में विद्यमान है. इसके विषय में कवि धधवाडिया खेमराज ‘ कासंद्रा ’ वाला ने कहा है कि—

- “ अखेराज करायो मेहल एक, इंद्र घटा जेम सोभंत देख. ”  
 “ जड़ाया जालियां काच जोख, गज रीत करायो सुभग गोख. ”  
 “ सतरा सु समंत सातो वरस; लख कैक दाम लागा सरस. ”  
 “ हर गोख जोख कवलास होये; जगमगत जोत ×फूलगोख जोये. ”  
 “ धधवाड खेम कीरत कहाये; नीज अडग रहो रव चंद तांये. ”

फिर कवि कहता है कि—

- “ लख मोज करे तलमात लेखवे, भाणहरो जल हलतो भाण; आवु तणे गोखडे अखेई, चमर ढोलावे राव चहुआण. ”  
 “ भड जां वाल वंकडा भाखर, गर हर पाखर सेल धरे; मेघा डंमर जल हले माथे, तखत वराजे सिंघ तरे. ”  
 “ त्रवंक धरे फरहरे तेजी, वरस अठार नवा जल वीक; ऊभे खाग जगत सू आडो, मोटे घट वेठो मशरीक. ”  
 “ आखर लै ये दे आगाहट, पातां कीजे रोर पखे; मूछां पहेल लिया वल मूछे, आंकोरां आवता अखे. ”

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसका जन्म वि. सं. १६७४ मार्गशिर्ष वदि १० को हुआ था, और इनके ११ राणीयां थी, जिसमें राणी रतनकुंवर ने वि सं. १७३२ में सिरोही में ‘ रतन वावडी ’ बनवाई. इन राणीयों से कुंवर उदयभाण, व उदयसिंह और कुमारी आणंद कुंवर के जन्म हुए. वाई आणंद कुंवर का विवाह वि. सं. १७१५ में जोधपुर के राजा जशवन्तसिंह के साथ हुआ था, और महाराव की बहिन कमल कुंवर का विवाह मेवाड के महाराणा करणसिंह के साथ हुआ था. बडुआ की पुस्तक में इसकी सिर्फ पांच राणीयां के नाम दर्ज है, जिसमें राठौरीजी ‘ सरदारदेवी ’

× महाराव अखेराज ने बनवाये हुए महल में सूर्ण से मिनाकारी काम किया हुआ है. उसमें ‘ फूलगोख ’ नामका ‘ झरखा ’ प्राचीन शिल्प कला का खास नमूना है. ‘ फूलगोख ’ की रचना एक पत्थर के स्तंभ पर से करने में आई है, और कमल के पृष्प के नाईं दांडी से शुरुआत होकर सहस्र दल कमल के मुआफिक उपर से खिळा हुआ है. उसने बनाये हुए महल की सात मोम है, और उसी महल के भू तत्र में ताञ्जाव है, जिससे यह महल एक किले की जहरियातभी पूर्ण कर सका है. सरणुभा पहाड की जडमें ही महल होनेसे उस पहाड के मोरचे से महल व सिरोही नगर का रक्षण होता है.

मोडासा के राठौर रामसिंह गोविन्दासोत की पुत्री से कुमार उदयभाण, व सेवशीजी 'नाथुदे' मेहवा के मेघराज दूदावत की पुत्री से कुमार उदयसिंह व वाई 'अणंदकुंवर' के जन्म हुए.

महाराव अखेराज के समय के वि. सं. १६८२, १६८४, १६८७, १६९०, १६९१, १६९८, १६९९, १७०३, १७०७, १७१५, १७२६, १७२७, १७२८, १७२९, इन संवतों के दानपत्र के कईएक शिलालेख व ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें वि. सं. १६८२ के मडवाडिया गांव के शिलालेख में देवडी फूलकुंवर वाई का नाम, व वि. सं. १६८४ के सिरोही के ताम्रपत्र में महाराव के नाम के साथ 'माजी श्री सूरजदेजी वचनात्' लिखा हुआ है. इसके मुसाहिवों में वि. सं. १६८४ में चीवा करमसी, वि. सं. १६९० में खवास देवा व साह तेजपाल, वि. सं. १६९१ में साह तेजपाल वि. सं. १७०३ में पं. केशव, वि. सं. १७०७ में सीसोदिया परवतसिंह, देवडा रामा व चीवा करमसी; वि. सं. १७१५ में सीसोदिया परवतसिंह, वि. सं. १७२६ व १७२८ में पं. भगवानदास, वि. सं. १७२८ में मूता चांपा धरमदास, वि. सं. १७२९ में नारायणदास आदि होना उक्त संवतों के दानपत्रों से मालूम होता है.

इस महाराव की व आबु पहाड की प्रशंसा में मेवाड के गांव 'सरसिया' के कवि मेहडू बीहारीदान ने 'दोआवत' कहा है. जिसमें आबु पहाड की सोभा व श्रेष्ठता का वर्णन इतना विस्तीर्ण और उत्तम प्रकार से किया है कि ऐसा वर्णन दूसरे किसी कविने नहीं किया होगा. वैसे उसमें महाराव रायसिंह ( पहिले ) तक के राजाओं की संक्षिप्त में ( परन्तु बहुत झमक भरी भाषा में ) ख्यात भी कही है. उक्त 'दोआवत' में कवि इस महाराव के उमराओं के नाम बताता है, और उनके विषय में कहता है कि—

“ राज के उमराव कैसा ? प्रथवीराज का सामंत जैसा ! लखाभोत, डूंगरोत, चीवा, अवसी सोलंकी, सीसोदिया, वागडीया और खट तीस वंश, जुए जूगा जाणी हुजूरिया. ”

“ तीसके वोच परवत सिंध रद्रसिंहोत पाट का थंभ. दुजा उदेशाह, दुश्मनों का राह. ”

“ रांमा भेरव का डूंगरोत का धणी, फोज का अणी. ॥ ऊदा दुजण सालका, फोज का सीखराह. ॥ ”

“ करमसी जेतसी का—धर का किवाड, रीण का पहाड. ॥ सींघ भाखरसी का—वीका राठोड, मुर धर का मोड. ॥ ”

“ नैरहर गोपाल का, वागडीया चहुआण. अमली सीर जुणी. ॥ उंगरा जोत का खलक का खंगाह, दूजा वजपाह. ॥ ”

“ सूरजमल पुरणमल का वीर भाण पुरणमल का, ए दोए वंधव वौहेल, लुलंगपुर अजुवाले ॥ ”

“ कैशरी जसवन्त का, जुद्ध को चाऊ, परचांडो भेलीयां. कम धजां का राज. ”

“ केसरीया कडूआणी, सो वहांदरां का अणी पाणी. ॥ ”

“ और भी सीपाई लोक मुसलमान कैसे ? सींधी ताजखानं, सुजालखानं नाहरखान जैसे ! ॥ ”

\* विस्तार के भय से वह इस पुस्तक में नहीं लिखा गया है क्योंकि बहुत लम्बा है.


१ चीवावत. २ मेडा का वीकानेरीया. ३ अवावत कीवरली. ४ वजावत मणादर. ५ वहिष्ठ राजपूत. ६ तेजावत ददमणा.

मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव को उसके पुत्र +उदयभाण ने राज्य लोभ से डुंगरावतो के साथ मिल कर कैद कर लिया, परन्तु देवडा रामसिंह भैरवदासोत व सीसोदिया साहेबखान ( परवतसिंहोत ) ने महाराव का पक्ष लेकर मुक्त किया. महाराव ने उदयभाण को उनके पुत्र सहित मार डाला, पीछे लखावत अमरसिंह चांदावत को ( वगावत से ) मना कर सिरोही की रियासत में लाया गया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुरा, ४ माकरोडा, ५ बापला, ६ पीथापुरा, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मुगथला, ११ कालधरी, १२ मुंसावल, १३ धनेरी, १४ आवल, १५ देलवाडा. यह गावों का पट्टा दिया गया, जिसमें यह शर्त की कि “ विभोगो लेतो सु नहीं लेसी, दाण लेतो सु लेसी. ”

लखावत अमरसिंह कव निंबज छोड कर चला गया, उस विषय में उक्त ख्यात व दूसरी ख्यातों में कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु कवितों से मालूम होता है कि लखावत चांदा के देहान्त बाद अमरसिंह पर महाराव ने निंबज पर फौज भेजी थी, जिससे वह निंबज छोड कर चला गया था.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, इस महाराव का पुत्र उदयभाण बागी सरदारों से मेल बढा कर सिरोही को गद्दी पर बैठने का उद्योग करने लगा, और वि. सं. १७२० में एक दिन मौका पाकर अपने पिता को कैद कर सिरोही की गद्दी पर बैठ गया था, वह सूनते ही मेवाड के महाराणा राजसिंह ने महाराव से मैत्री के कारण राणावत रामसिंह को फौज के साथ सिरोही पर भेजा, जिसने उदयभाण को निकाल दिया, और महाराव को कैद से छुडाया.

महाराव अखेराज बडी नामवरी पाकर ५३-५४ वर्ष के लम्बे समय तक राज्य करके वि. सं. १७३१ में देवलोक हुआ, और उसके पीछे उनके द्वितीय पुत्र उदयसिंह गद्दी पर बैठा.



+ मू. ने. की ख्यात में ' उदयसिंह ' नाम लिखा है, परन्तु वह गलती से दर्ज हुआ है. उक्त ख्यात में कुमार उदयभाग को उनके पुत्र ( वल्लसिंह पाटवी कुमार था. ) सहित महाराव ने मार देनेका लिखा है. सि. रा. ई. की पुस्तक में इस विषय में शंका-समाधान करने में आया है, परन्तु बहुधा की पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है.

\* अमरसिंह पर फौज भेजने के गीत कवित इस पुस्तक के दूसरे विभाग में निंबज के लखावतों की ख्यात में अंकित किये गये हैं.

## प्रकरण ३३ वाँ.

चलू देवडा चौहान. ( महाराव उदयसिंह से महाराव उदयभाण तक. )

नं. १८ कुमार उदयभाण व उसका पुत्र वरूतसिंह, महाराव अखेराज के हाथ से मारे गये. इसकी कुंवराणी सीसोदणीजी 'रतनदे' सी. सुजाणसिंह सूरजमल की पुत्री थी, उससे पांच पुत्र हुए थे, जिसमें से चार गुजर गये और वेरीसाल विद्यमान था, परन्तु सिरोही की गद्दी पर महाराव अखेराज का दूसरा पुत्र बेटा.

नं. १९ महाराव उदयसिंह वि. सं. १७३१ में सिरोही की गद्दी पर आया. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष राज्य किया, और इसके समय में वि. सं. १७३३ में लोहियाणा का किला जोधपुर की रियासत में गया. इसके समय के दो दानपत्र मिले हैं, जिसमें एक वि. सं. १७३१ के चैत्र वदि ७ का धनारी गांव में, व दूसरा वि. सं. १७३१ असाड सुदि १ का शिला लेख 'जावाल' गांव में होना पाया गया है. इसकी राणी चांपावतजी उत्तम देवी, चांपावत अमरसिंह सूरजमलोट की पुत्री से कुमार छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल का जन्म हुआ. बडुआ की पुस्तक मुआफिक इसका देहान्त वि. सं. १७३४ में हुआ.

नं. १९ महाराव वेरीसाल ( नं. १८ कुमार उदयभाण का पुत्र ) अपने काका के पीछे सिरोही की गद्दी पर आया. इसने जोधपुर के बाल राजा अजीतसिंह को बादशाह औरंगजेब की खफगी से बचाने को अपनी निगरानी व संरक्षण में सिरोही रियासत के 'डोडुआ' नामक गांवमें वहां के सरदार की देखरेख से एक राजगुर ब्राह्मण के बहा रखवाया, और उसकी बाल्यावस्था का काल इस महाराव के संरक्षण में होव्यतीत हुआ था. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि बाल राजा अजीतसिंह को जोधपुर के राठौर सोनिंग आदि सिरोही में ले आये, और सरहूम जोधपुर के महाराजा जशवंतसिंह की राणी देवडीजी ( जो सिरोही के महाराव की पुत्री थी व सिरोही में विद्यमान थी ) के पास लाये. महाराव वेरीसाल ने उसको गुप्त रखने के कारण 'कालंद्री' कस्बे में रखा, परन्तु महाराजा अजीतसिंह का 'डोडुआ' गांव में रहने का दंत कथा में प्रसिद्ध है, बल्कि जिस राजगुर ब्राह्मण की सुपुर्दगी में वह रहे थे, उस ब्राह्मण को

\* सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ठ २६७ की टीप्पणी में महाराव वेरीसाल के समय का वि. सं. १७३३ का दानपत्र उक्त ख्यात के लेखक को प्राप्त होना लिखा है, जिससे बडुआ की पुस्तक में महाराव उदयसिंह का देहान्त वि. सं. १७३४ में होनेका लिखा है वह भरोसा पात्र पाया नहीं जाता. इस पुस्तक के लेखक को महाराव वेरीसाल के समय के वि. सं. १७४० व उसके बाद वि. सं. १७५२ तक के दानपत्र के शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं, उसके पहिले के हाथ नहीं आये है

महाराजा अजीतसिंह ने जोधपुर रियासत से ' तवरी ' नामक पट्टे की जागीर बारह गांव से दी, उस जागीर पर उसकी ओलाद वाले विद्यमान हैं. वैसे महाराजा अजीतसिंह ने वि. सं. १७५९ जेष्ठ सुदि १२ के पत्र में डोडुआ के देवडा कैशरीसिंह व पाडीव के ठाकुर नारायणदास को अपनी सही महोर के पत्र साथ अपने खुद के हस्ताक्षर से भी लिखा है कि " जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही. " इससे महाराज अजीतसिंह का डोडुए में बड़ा होना ज्यादाह मानने योग्य है.

इस महाराव के समय में शाहजादा मोअज्जम ( औरंगजेब का पुत्र ) का 'निशान' ता. ९ रविउल् अव्वल हि. स. १०९२ ( वि. सं. १७३८ ) में, उसने शाहजादा अकबर व दुर्गादास राठौर आदि को सिरोही की सिमा में वे फिर आ जाय, तो पकड लेनेकी या मार डालने की सिफारिश महाराव को की है.

इसके समय के वि. सं. १७४०, १७४४, १७४५, १७५२ के ताम्रपत्रो से वि. सं. १७४४, से १७५२ तक साह नानजी इसके मुसाहिब होना पाया जाता है. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७३४ में जबरन गद्दी पर बैठा, और १९ वर्ष राज किया. इसके पुत्र सूरताण व भीमसिंह थे, जिसमें भीमसिंह बालक अवस्था में ही गुजर गया था. सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १७५४ में इसका देहान्त होना और तीन राणीयां इसके साथ सती होनेका अंकित हुआ है. इस महाराव की छत्री की प्रतिष्ठा वि. सं. १७५९ में हुई है.

इस महाराव के पीछे कौन गद्दी पर आये, उस विषय में कितनीएक शंकाएं एक दूसरी ख्यातों के मिलान करनेसे उपस्थित होती है. एक हस्त लिखित ख्यात में इसके विषय में लिखा है कि, " वेरीसाल पाटवी था लेकिन सिरोही छूट गई जिससे ' देवतरे ' ( ई. जोधपुर ) गया. " जब सि. रा. ई की पृष्ठ २६७ की टीप्पणो में लिखा है कि खा. वा. निआमतअलीखां ने महाराव वेरीसाल का देहान्त वि. सं. १७४९ में होनेका व उसके पीछे इसका पुत्र राव सूरताण गद्दी पर आनेका लिखते है. सि. रा. इ. की पुस्तक में इसके पीछे महाराव छत्रसाल वि. सं. १७५४ में गद्दी पर बैठने का अंकित हुआ है. बडुआ की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १७५३ में होना, व उसके पीछे नं. २० राव सूरताण का गद्दी पर बैठना लिखा गया है, और यह भी लिखने में आया है कि राव सूरताण ने एक साल राज्य किया व इसके समय में ' पालडी ' पट्टा के गांव जोधपुर की रियासत के तरफ गये. राव सूरताण को पीछेसे महाराव उदयसिंह के पुत्र नं. १९ छत्रसाल ने पद भ्रष्ट किया और आप गद्दी पर बैठा. इस पर से पाया जाता है कि महाराव वेरीसाल का देहान्त वि. सं. १७५३ में हुआ था, और उसका पुत्र सूरताण

उसके बाद सिरोही की गद्दी पर बैठा था, परन्तु अल्प समय में ही वह पदभ्रष्ट हुआ, और वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल गद्दी पर आये.

नं. २० सूरताणसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा परन्तु अल्प समय में पदभ्रष्ट हुआ, जिससे वह जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के पास चला गया, जहां पर इसको ' देवांतरा ' पट्टा की जागीर मिली. वर्तमान समय में इसकी ओलाद वाले ' देवातरा के लखावत ' के नामसे कहे जाते हैं, और देवातरे में विद्यमान है.

नं. १९ महाराव छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल ने महाराव वेरीसाल के पुत्र सूरताणसिंह को हटा कर गद्दी कब्जे कर ली. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें राणी सीसोदणीजी ' दीपदे ' सीसोदिया फतहसिंह सरदारसिंहोत की पुत्री से बाई कल्याणकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह मेवाड के महाराणा संग्रामसिंह के साथ किया गया. दूसरी राणी वाधेलीजी ' उत्तमदेवी ' साणंद के वाधेला हटेसिंह जगतसिंहोत की पुत्री से कुमार मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह का जन्म हुआ. तीसरी राणी वाधेलीजी ' रूपादे ' साणंद के वाधेला कृष्णसिंह जगमलोत की पुत्री से बाई रूपकुंवर व बाई लाडुकुंवर के जन्म हुए, बाई रूपकुंवर का विवाह जोधपुर के राठौर राजा अजीतसिंह के साथ व लाडुकुंवर का विवाह इडर के राजा अणंदसिंह के साथ किया गया. इस महाराव का देहान्त वि. सं. १७६२ में हुआ.

नं. १९ महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय के ताम्रपत्र व शिलालेखों में इसका नाम हर जगह ' महारायि उमेदसिंह ' अंकित हुआ है. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसके समय में सिरोही राज्य में कच्चे लोहे की तलवार बनाने की मनाई होनेसे, और जगह से अच्छी तलवारें होने लगी, और + ' शमशेर तो सिरोही की ' यह नाम प्रसिद्ध हुआ. इसने बनवाई हुई तलवार को ' मानासाही ' कही जाती है.

उक्त पुस्तक में यह भी \*लिखा है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह वि. सं.

+ सिरोही की तलवार क्यों जगप्रसिद्ध हुई ? उस विषय में यह बात कही जाती है कि वर्तमान समय में सिरोही में जहांपर ' नीलकंठेश्वरजी महादेव ' का मन्दिर है, उस जगह एक ' वावडी ' थी, उसका पानी बहुत तेज था, वह पानी पिलानेसे हथियार बहुत तेज होते थे. पीछेसे वह वावडी बंध करके उस पर शिवालय बंधाया गया. दूरी यह बात कही जाती है कि, सिरोही के लोहार लोग कच्चे लोहे को इस तरह पक्का बनाते थे कि एक खड्डे में लोहा रखकर उसमें गौबर भर के ऐसी रसायन चीज उस पर डालते थे कि, उस रसायन से विजली को आर्पण होकर विजली उस पर पडती थी, जिससे गोबर जल कर लोहा भी पक्का हो जाता था. उस लोहे से बनी हुई तलवार सर्वोत्तम होती थी.

\* सि. रा. ई. की पुस्तक में यह अहवाल जोधपुर रियासत को ख्यात से लिखा जानेका अनुमान होता है, क्योंकि सिरोही के बडुए की पुस्तक में जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के साथ महाराव उम्मेदसिंह की बहिन की शादी होना अंकित

१७७२ में गुजरात को जाते हुए सिरोही में ठेरे थे, तब महाराव ने अपनी राजकुमारी की शादी उनके साथ कर दी. वैसे वि. सं. १७८७ में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह अमदावाद के सूबेदार साथ लडने के वास्ते जा रहा था, तब उसने 'रांवाडा' (सिरोही का गांव) के देवडा ठाकुर ( जो जोधपुर इलाके में लूट खोस करता था ) से बदला लेनेके कारण 'रांवाडा' गांव वरवाद किया, और पोसालिया को लूटा, जिससे महाराव ने उससे सुलह कर अपनी राजकुमारी का विवाह महाराजा अभयसिंह के साथ वि. सं. १७८७ भाद्रपद वदि ८ को कर दिया, और पाडीव ठाकुर नारायणदास को कुछ फौज देकर उसकी सहायता में अमदावाद भेजा. जहां पर देवडों ने अद्वितीय वीरता बतलाई थी.

महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह की राणीयां के विषय में बडुआकी पुस्तक से पाया जाता है कि इसके पांच राणीयां थी, जिसमें राणी मेवसीजी 'कृष्णकुंवर' जसोल के जेतमाल भारमलोट की पुत्री से कुमार १ पृथ्वीराज व २ जगतसिंह और बाई 'जशकुंवर' व 'इन्द्रकुंवर' के जन्म हुए. जशकुंवर का विवाह जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ व इन्द्रकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा प्रतापसिंह जगतसिंहोत के साथ किये गये. दूसरी राणी वारडजी 'तरुतादे' सुदासणा के वारड (परमार) सरदारसिंह की पुत्री से कुमार 'जोरावरसिंह' का जन्म हुआ. तीसरी राणी वाघेलीजी 'रमादेवी' साणंद के वाघेला भूपतसिंह कृष्णसिंहोत की पुत्री से बाई ❀ 'अखेकुंवर' का जन्म हुआ, जिसका विवाह बीकानेर के महाराजा गजसिंह के साथ किया गया. चौथी राणी चावडीजी 'लालदे' माणसा के चावडा प्रतापसिंह पृथ्वीराजोत की पुत्री से बाई 'सूरज कुंवर' का जन्म हुआ, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह वरुतसिंहोत के साथ किया गया, पांचवी राणी मेडतणीजी 'बंदना देवी' मेडता के राठौर अभेराम गोपीनाथोत की पुत्री से बाई 'फूलकुंवर' का जन्म हुआ, जिसकी शादी उदयपुर के महाराणा सग्रामसिंह के साथ की गई.

इस महाराव के समय के दानपत्रों में वि. सं. १७६५, १७७१, १७७३, १७७८,

हुआ है. वैसे पाडीव ठाकुर नारायणदास को जोधपुर के महाराजा के साथ बडा ही स्नेह था. महाराजा अभयसिंह का विवाह इस महाराव की पुत्री 'जशकुंवर' के साथ होनेका बडुआ की पुस्तक में भी लिखा गया है.

\* सि. रा. ई की पुस्तक में 'अखेकुंवर' के बदले गजकुंवर (गजादे) नाम अंकित है. इसका देहान्त वि. सं. १७९७ में सिरोही में हुआ था, जिसकी छत्री वि. सं. १७६० में बनी है.

नोट—महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह के समय में वि. सं. १७७४ में परगना दांतीवाडा पर पालणपुर के दिवान ने कब्जा कर लिया था, वैसे पुराने दफ्तर से पाया जाता है. वैसे लालजीमल की वही (यह वही पंचोली लालजीमल ने वि. सं. १८८६ में लिखी है) में लिखा है कि वि. सं. १७८७ तक में जोधपुर रियासत के तरफ सिरोही राज्य में से टोडीयाली के १३ गांव, सियाणा के १३ गांव, कोरटा के १२ गांव, पालडी के १२ गांव, नाणावेडा के २० गांव, लोहियाणा के ६० गांव, चागंतरा के २१ गांव, रामसिण के २७ गांव, व गोडवार में विशलपुर वांकली के १९ गांव, जुमले २२३ गांव के ९ पट्टे चले गये है.

१७८१, १७८२, १७८८, १७९१, १७९६, १७९७, १७९९ व १८०० तक के ताम्रपत्र व शिलालेख मिले हैं, उसमें मुसाहिबी करने वालों के नाम पाडीव ठाकुर ' रायश्री नारायणदास, जावाल के राजश्री जेसिंहदे, चौधरी खानदान के (चौ. माला इणदा, चौ. कल्याणदास, चौ. केशरीमल, व चौ. तारा ) व संगवी खानदान के ( सां. अमरसिंघ, सां. सुन्दरलाल, सां. हटीसिंघ ) और शाहा खानदान के ( सा. ताराचंद, सा. जोगीदास, सा. भीखा, व साहा तेजा भीनमाला ) नामों उपलब्ध होते हैं.

महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह का देहान्त वि. सं. १८०५ में होनेका बडुआ की पुस्तक में लिखा है, परन्तु सि. रा. इ की पुस्तक में वि. सं. १८०६ दर्ज है.

नं. २१ महाराव पृथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय का एक भी दानपत्र नहीं मिला है. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसका जन्म वि. सं. १७८२ वैशाख शुदि ११ का होना अंकित है. बडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके चार राणीयां थी, जिसमें राणावतजी ' फतांदे ' हीता के राणावत सुन्दरसिंह सुरगसिंह भगवानवत की पुत्री से कुमार तरुतसिंह, व चावडीजी ' अमृतदे ' माणसा के चावडा अजेतसिंह प्रतापसिंहोत की पुत्रीसे कुमार रत्नसिंह व अखेसिंह के जन्म हुए. इसकी एक राणी साणंद के बाघेला की पुत्री व एक इडर के राठौर राजा की पुत्री थी. इस महाराव का देहान्त वि. सं. १८२९ में हुआ.

नं. २२ महाराव तरुतसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसका जन्म वि. सं. १८१६ भाद्रपद वदि ११ के दिन हुआ था. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में इसकी गद्दी नशिनी वि. सं. १८२९ वैशाख सुदि ६ के रोज होना लिखा है, परन्तु बडुआ की पुस्तक में वि. सं. १८२९ कार्तिक सुदि ८ वार सोम अंकित है, वैसे इस महाराव के समय का ताम्रपत्र (जो सरहूम महाराव पृथ्वीराज के देहान्त के समय पर दान दिया गया उसके वास्ते लिखा हुआ है ) वि. सं. १८२९ फाल्गुन सुदि १ का है, जिससे उपरोक्त गद्दी नशिनी का दिन जो बडुआ की पुस्तक में अंकित है वह ज्यादाह भरोसा पात्र है. उपर्युक्त ताम्रपत्र में मुसाहिब का नाम सा. डुगरसी भगवानदास का अंकित है.

÷ सिरोही रियासत में प्राचीन समय से मुत्सद्दीगीरी करने वाले माहजन वर्ग में संगवी, चौधरी, वहीतरा व बोवावत यह चार खानदान वाले मुख्य हैं, जिसमें वहीतेरे व बोवावत ' शाह ' कहेजाते हैं. संगवी व चौधरी खानदान वाले ' औसवाल ', और वहीतरा व बोवावत खानदान वाले ' पोरवाल ' महाजन हैं. पोरवालों में भी ' संगवी ' कहे जाते हैं परन्तु वे और खानदान के हैं.

नोट—नं. २१ महाराव पृथ्वीराज से नं. ३१ महाराव जगतसिंह के समय तक में वि. सं. १८१६ में धानेरा परगने के ३० गांव, वि. सं. १८२१ में वागड के १२ गांव, वि. सं. १८२२ में सेवाडा उन्हावती के ७ गांव और वि. सं. १८२९ में मलाणां परगना के ६० गांव पालणपुर की तरफ चला जाना पुरानी वही से मालूम होता है. इससे पाया जाता है कि इन महारावों ने अपने राज्य की चादिये बैसी संभाल नहीं रखी, जिससे लखावत सरदारों ने भी सिर उठाया और वेवंदोवस्ती होजानेसे रियासत की हालत भी अच्छी नहीं रही है.



बडुआ की पुस्तक में इसकी एक राणी इडर की, व दूसरी पोसीना के वाघेला की पुत्री होना लिखा है, इस महाराव के छोटे भाई वालकपन में ही गुजर गये थे, और आप भी वि. सं. १८३८ में अपुत्रवान देवलोक हुए, जिससे इसके काका नं. २१<sup>१</sup>/<sub>४</sub> जगतसिंह सिरोही के महाराव हुए.

नं. २१<sup>२</sup> महाराव जगतसिंह को पहिले ' भारजा ' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन महाराव तख्तसिंह अपुत्रवान गुजरने से उनके पीछे यह सिरोही की गद्दी पर आया. इसका जन्म वि. सं. १७८७ के चैत्र वदि ८ को हुआ था. बडुआ की पुस्तक में वि. सं. १८३८ के जेष्ठ वदि ६ को इसकी गद्दी नशिनी होनेका उल्लेख है. इसकी राणी चांपावतजी ' चंदादेवी ' हरजी के राठौर चांपावत रामसिंह रूपसिंहोत की पुत्री से आठ कुमार ( १ शक्तसिंह, २ वेरीसाल, ३ उदयभाण, ४ कृष्णसिंह, ५ उदयसिंह, ६ बदसिंह, ७ फतहसिंह व ८ दोलतसिंह ) और वाई ' दोलतकुंवर ' के जन्म हुए. सिर्फ छः माहा गद्दी पर रहने बाद ( वि. सं. १८३९ के मगसर सुदि ४ ) इसका देहान्त हुआ, उस समय इसका बडा पुत्र शक्तसिंह व उसके पुत्र कल्याणसिंह देवलोक हो चूके थे, जिससे द्वितिय कुमार वेरीसाल गद्दी के मालिक हुए.

नं. २१<sup>३</sup> जोरावरसिंह को ' मठार ' पट्टा की जागीर दी गई, जिनके वंशज वर्तमान समय में ' मठार ' के राजसाहेब हैं.

नं. २१<sup>४</sup> कुमार शक्तसिंह अपने पिता की जिन्दगी में ही गुजर गये. इसकी कुंवराणी चारडजी ( सुदासणा की ) लीलादेवी से दो पुत्री ( वाई ' सरदारकुंवर ' व उदयकुंवर ) व भवर कल्याणसिंह के जन्म हुए. कल्याणसिंह का बचपन मेंही अंतकाल हुआ. वाई सरदारकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के साथ व वाई उदयकुंवर का विवाह इडर के राजा जालमसिंह के साथ किये गये.

नं. २१<sup>५</sup> महाराव वेरीसाल (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोहीकी गद्दी पर बैठा, इसका जन्म वि. सं. १८११ के श्रावण सुदि १५ को हुआ था. और गद्दी नशिनी वि. सं. १८३९ में हुई. इस महाराव के पहिले के सिरोही के राजाओं ने संभाल न रखने के कारण इसने जब राज्य की लगाम हाथ में ली, तब लखावत सरदार करीब २ स्वतंत्रता से विचर रहे थे, और पालणपुर रियासत के साथ घालमेल रख कर अपनी जागीरें बढा रहे थे. पालणपुर के दिवान ने अपने राज्य की सीमा बढा कर, सिरोही के राज्य की अव्यवस्था का लाभ लेकर कोलीयों के गांवों पर अपनी रखवाली लगाना शुरु किया, जिससे कोली लोगों ने भी रुख बदल ली. राज्य शासन शिथिल होजानेसे दूसरे सरदारों ने भी अपनी जागीरें बढाने का उद्योग जारी कर दिया, व मीणे-भीलों आदि ने लूटफाट

सचाकर इलाका बरबाद कर रखा था. उस समय सिर्फ ४०-५० गांव राज्य के अधिकार में रह गये थे, ऐसी शोचनिय दशा देखकर महाराव ने उसको दुरूस्त करने का सोचा, परन्तु राज्य की फौज का दारमदार सरदारों की जमियत पर होनेसे, और सरदार लोग भी काबु में न होनेके कारण, राज्य की स्वतंत्र फौज खड़ी करने की जरूरत मालूम हुई, जिससे मकरानी, सिंधी, नागेवावे आदि बहादुर सिपाइयों की फौज खड़ी करने में आई.

कुछ फौज भरती होजाने पर महाराव ने पालणपुर की सीमा पर के ( कोलीयों व सरदारों के ) गांवों पर अपना काबु जमाने के वास्ते फौज लेकर चढाई की, वि. सं. १८४४ में पाथावाडा के चीवावतों व धनीयावाडे के सरदार जो पालणपुर रियासत के पक्ष में हुए थे उनको सजा देकर अपने कब्जे में लिये. वि. सं. १८४५ में पालणपुर रियासत ने ' खेमत ' के कोलीयों पर फौज भेजी, तब महाराव ने ' खेमत ' पहुंच कर पालणपुर की फौज को भगा दी. इस विषय में कवि आढा ओपा पेशुआ वाला ने कहा है कि.

दोहो.

“ जगतो मानो छत्रसल, उदो ने अखमाल; अजूआले एता पखा, साहेव वेरी साल. ”

गीत.

- “ अरबद रे राये गेरीया आवे, पालवणी इम करे पुकार; वार एक रूठो रायां वेरो, हर त्यां रूठा वार हजार. ”  
 “ दगमल अकल फेरीया दोला, वेरीयां करडी वार वहे; अखेहर राजी अरियां सु अवलो, करता सवलो कमण कहे. ”  
 “ साज लिया पर वार सहेता, झड गोलां तलवारां झीक; मीरां हाथ लियां माथा सू, माथे ज्युं आयो मशरीक. ”  
 “ आवी फौज के पडीयो आभो, कना हुई काए नवी कल; देवडे रायां घालीयां दसमण, तलवारां वल रसातल. ”  
 “ शिव रो अंश वंश रो सूरज, कमण जगावत हुत कसे; घांणे घाते दंड घातीयो, पेळी घात ने वात पळे. ”  
 “ जड अरि तोडे अमल जमावे, अखेई सोढ अजूआले; धरती तणो धणी रणधीरां वलीयो फोजां वाले. ”

वि. सं. १८५० में +वाछोल गांव खालसे करके अपनी फौज के जमादार " देशल " को दिया \*वि. सं. १८५५ में इसने डावेला, वीठुदर, गाढा, भरतवाडा आदि गांवों के कोलीयों को सजा देकर उन पर अपना अमल कायम किया.

+ वाछोल गांव वर्तमान समय में भी जमादार देशल के वंशजों के तरफ है, परन्तु सिरोही और पालणपुर रियासत की सीमा तय हुई, तब यह गांव पालणपुर रियासत के तरफ गया है.

\* महाराव वेरीसाल दूसरे के समय की वि. सं. १८२६ की फोजवळ की वही से मालूम होता है कि वर्तमान समय में जो गांव पालणपुर के तरफ है उसमें से ( सीहा गांव से रु. २९॥॥, भटेसरिया का आवल गांव से रु. १२९॥, रोह गांव से रु. २९॥, किडोतर से रु. ८१॥, सरोतरा से रु. १९०॥, पांथावाडा से रु. ६२॥॥, जांय से रु. ९९॥, आरखी से रु. ४४॥, भांडोतरा से रु. ८२॥, सांतसण से रु. ६१॥॥॥ गुंदरी से रु. ९१॥॥) और दूसरे कोलीयों से भेंस, घोडे आदि लेनेका दाखला उक्त वही में है.

इस महाराव ने मुलक में होती लूटफाट, लूटेरों को सजा देकर बंध की, और अपनी रैयत के जानमाल का प्रबंध अच्छा किया था, इस विषय में कवि ओपा कहता है कि.

- “ अल जमीयो अमल अभनमा अखेई, कल सूरज धन तुज कला; चीहलां ज्यां कासीद चूथता, रद्ध ले चाले शाह रला. ”  
 “ वारा धन थारा वेरागर, कुण मैवास विनाश करे; पंथीयां मलेछ वाहता पथ्थर, त्यांहीज घाटां पथर तरे. ”  
 “ जगपत तणा भलाईज जायो, धरपत धारण मोटी धांख; वने पडाव करे वेपारी, पडती जठे चढारी पांख. ”  
 “ धनवत वगत रायां तप धारी, कोटे मोटे इम कहे; नह रहती थाने हलनाडी, रांने हल पुरीयां रहे. ”

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने छः वर्ष तक अपनी फौज खडी करने का प्रयाश करके, पीछे अपनी फौज के साथ अपने सरदारों की फौज शामिल करके, पालणपुर रियासत ने करीब २५० गांव सिरोही के दबालिये थे, उनको कब्जे लेने को चढाई की, जब भटाणे फौज पहुची तब लखावत, डुंगरावत, व वजावत यह तीनों दल के सरदार महाराव को छोड कर पालणपुर वालों से जा मिले, जिससे गांव छूडा नहीं सके. इस महाराव ने सरदारों को दाखला बैठाने के कारण पाडीव ठाकुर अमरसिंह ( जो डुंगरावत के मुखिया था और उसकी सलाह पर दूसरे सरदार चलते थे ) को जमादार देशल के हाथसे सारणेश्वरजी के मन्दिर पास चूक कराया.

वि. सं. १८५८ में कालंद्री ठाकुर अमरसिंह ने महाराव की मंजुरी से अपने नजदीक के भाइयों में से ' काकेदरा ' गांव के रामसिंह को गोद लिया, और ' नीतोरा ' गांव महाराव को नजर किया, परन्तु कालंद्री ठाकुर के देहान्त बाद उसकी ठकुराणी ने दुसरे सरदारों की वहकावट में आकर, ' काकेदरा ' के रामसिंह को गोद से हटाकर, ' मोटागांव ' के ठाकुर तेजसिंह के पुत्र खुमाणसिंह को, वि. सं. १८५९ में बगैर मंजुरी महाराव के, गोद रखा जिससे बखेडा पैदा हुआ, लेकिन थोडेही दिनों में मोटागांव ठाकुर तेजसिंह मरवाया गया, जिससे सरदारों पर कुछ असर जरूर हुई.

उक्त ख्यात में लिखा है कि जोधपुर के महाराजा भीमसिंह ने अपने भतीजे मानसिंह से जालोर छीन लिया, जिससे मानसिंह ने अपने जनाने व कुंवरो को सिरोही भेज दिये, परन्तु महाराव वेरीसाल ने जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के साथ बडी मैत्री होनेके कारण उनको अपने पास रखने से × इन्कार किया. पीछे से वि. सं. १८६० में मानसिंह जोधपुर के महाराजा हुआ, और गद्दी पर आतेही उसने मूता ज्ञानमल को

× यह बात प्रसिद्धि में है कि जोधपुर के कुमार मानसिंह से जालोर छीना गया तब उसके जनाने वाले सिरोही इलाका के ' अरठवाडा ' गांव के सरदार के पास रहे थे, कहा जाता है कि ' अरठवाडा ' की जागीर के सरदार ' सरायत ' ( सामन्त ) की श्रेणी के थे, परन्तु महाराव की इच्छा विरुद्ध कुमार मानसिंह के जनाने को रखने से, महाराव ने उसका ' सरायत ' का दर्जा तोड दिया था.

नोट—वि. सं. १८५६ की फौजवल् की वही में ठिकाना निब्रज, भटाणा, मढार, व रहुआ के लखावत सरदारों के गांवो की फौजवल् की रकम उक्त वही में नहीं है, जिससे अनुमान होता है कि वे लोग महाराव के सम्पूर्ण काधु में नहीं आये थे.

बड़ी फौज देकर सिरोही राज्य पर भेजा, जिसने मुलक लूटकर तबाह करने में कसर न रखी.

इस महाराव ने फौज का खर्च निभाने के वास्ते मुआफि व सासन के गांवों से भी \* राज हक लेना शुरु किया था, उस मुआफिक चारणों के गांवों से भी लेना चाहा, जिसके वास्ते पेसुआ के कवि आढा ओपाने कवि लोगों पर नाराज न होते कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना में महाराव को कहा है कि—

सोरठा.

“ धागै न होये ढील, तु तांणी तो तुटसी; मारवां री मील, वडा न लोपे वेरसल. ”

“ मंत्र वाचक भावाप, तो जेहडा माने तरत; सुणे नही जल साप, वेरा गारडीयां वचन. ”

गीत

“ जला हल कवलेन कु जुडजे, दो मंग वाग दीहाडो; आवु राव इणारे उपर, कीजे कीम कुहाडो. ”

“ खुंदे परवत किया खोखरा, पाडे ढाह कांम पको; खमे न डोकर तणो खोलडो, धर पत हाथी तणो धको. ”

“ तटां वहती तरुवर तोडे, जोडे गीर वर मेर जसो; झेले नदीयां तणां झकोला कीडी रो आसरो कसो. ”

“ वे मेवास मांडवा वाखल, पयाल घालीया नांना पीस; में जीखां कसो वल मारो, रायां राव वडा री रीस ”

“ वडां वडां री कार वेरसल, भागे नही वडाई भाल; आडी समद्रां राव आवुआ, पेहला करो तो के ही पाल. ”

इस महाराव के समय के वि. सं. १८४१, १८४३, १८४४, १८४९, १८५६, १८६१-१८६२, १८६४ के दान देने के शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें मुसाहिबों में सीसोदिया माहसिंघ, देवडा नाथुसिंह, संगवी भगवानदास लक्ष्मीचंद व संगवी माला लाला के नाम अंकित हैं, और रोहीरा में मूता भीखा का नाम मिलता है.

इसकी एक राणी चांपावतजी ‘ अभयकुंवर ’ टीटोई ( इडर इलाका ) के चांपावत मदनसिंह हरिसिंहोत की पुत्रीसे कुमार उदयभाण उर्फ नाहरसिंह, व कुमार शिवसिंह, और दूसरी राणी मेडतणीजी ‘ जीवांदे उर्फ जशकुंवर ’ चाणोद ( ई. मारवाड ) के मेडतिया बदनसिंह शिवसिंहोत को पुत्रों से कुमार ‘ अखेगज ’ के जन्म हुए.

महाराव वेरीसाल दूसरे ने २५ वर्ष तनदेही से राज्य सुधारने के वास्ते यत्न कर, वि. सं. १८६४ आषाढ वदि ८ वार रवी के रोज स्वर्गवास किया. जो कि उनके सरदार

÷ जोधपुर रियासत के महाराजा मानसिंह के समय के परवाने से मालूम होता है कि वि. सं. १८६१ में जोधपुर की फौज ने सिरोही में कईएक माहा तक पडाव रखा था, और निवन के ठाकुर जगतसिंह ( महाराजा मानसिंह इसका जवाईं होता था. ) ने उसको सहायता की थी. ( परवाना मिति पोष वदि ३ ठीकाने निवन के नामका ठाकुर जगतसिंह को धन्यवाद देने वावत. )

\* वि. सं. १८५६ की वही में गांव सेऊडा ( त्रवाडी सुखा-फता ) से रु. २१, केर ( मांडवाडा ) के दिया नाथा से रु. ४१, गांव गोल के खतों से रवारी की देज, गांव डुंगरी ( वरान राजगुर का ) से रु. ३, गांव कोदरला रावलों का रु. ६, गांव जणापुर रावलों का रु. ३, गांव कोनरा ( पुरोहित त्रवाडी चंद्रभाण सूरतराम ) से रु. १११३, गांव रामपुरा रु. १५४ इस मुआफिक वसूल होनेका अंकित हुआ है.

आदि विरुद्ध होनेके कारण पालणपुर रियासत ने अगले राजाओं के समय में दबाया हुआ इलाका सम्पूर्ण काबु में नहीं ला सके, परन्तु उस जमाने की राजक्रान्तिसे राजपूताना की और रियासतों की मरहटा, पिढारा आदि से जो खराबो हुई थी, और जगह २ 'चोथ' आदि खिराज पेशवा के मरहटे सूबे ने लगा दी थी, वैसी 'खिराज' सिरोही रियासत पर वे लोग नहीं लगा सके. जिससे मुगल व मरहटों की ताबेदारी की धूसरी व खिराज से सिरोही की रियासत बेदाग रहने पाई.

नं. २२ वदसिंह को भारजा की जागीर दी गई, परन्तु वह अपुत्रवान गुजरने से वापस राज्य में आ गई.

नं. २३ + महाराव उदयभाण वि. सं. १८६४ में अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. इसका जन्म वि. सं. १८४६ फाल्गुन वदि ९ का था. इसके समय के दानपत्र व पत्र वहेवार में इसका नाम 'उदयसिंह' अंकित होना हरएक जगह उपलब्ध हुआ है. इस महाराव ने राजहक की 'फौजवल' वसूल करने में बहुत सख्ती अखत्यार की थी, और खुद फौज लेकर राज हक वसूल करने को जाते थे, जिससे सिरोही इलाके के महाजन आदि धनवान लोगोंको बहुत भय पैदा हुआ, और उन लोगोंने इलाका छोडना शुरु किया. कहा जाता है कि यह महाराव पेश इशरत वाले बहुत थे, जिससे लोगों को अपने द्रव्य की चिन्ता उपरांत स्त्रियों की इज्जत संभालने का भी डर हो गया. जिससे खास सिरोही में से भी महेश्री, पोरवाल, ओसवाल आदि महाजन लोग चले गये. दूसरी तरफ से जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने वैर का बदला लेने को, और सिरोही

+ महाराव उदयभाण की गद्दी नशिनी वि. सं. १८६३ ज्येष्ठ सुदि ७ की होना सि. रा. ई की पुस्तक में पृष्ठ २७८ पर लिखा है, उसमें गलती हुई है. वडुआ की पुस्तक में जो संवत् मिति दर्ज है वही सिरोही के राजपुरोहित के पुस्तक में भी अंकित है.

\* महाराव उदयभाण खुद फौजवल वसूल करते थे उस विषय में खुद उनके हस्ताक्षर का वि. सं. १८६९ आषाढ वदि २ का पत्र जो राज्यमाता चांपावतजी के उपर लिखा है, उसमें लिखा गया है कि—

“अग्रंन आसाड वदी १ रा चडाइ ले वद २ रे प्रभाते गाम जोलपुर रोहुवात्र (रोहुआ के सांगावत) रो मारीइ सुधीइ चालीइ गामें वगाड वाडु ओडु-डेणु-भेंप-वलद-गाए आरै १९० आइ. लुटांणा फतै हुई. आज डेरा पाडा मेडे होसी. प्रभाते नीतोडे होसी गामे रुपीइ ठेहरीइ छे.

शिवरत.	धानतो.	वेलंगरी.	अणगोर.	वालदो.	सीरोडी.	रणवाडे अज होसी.	मेडे आज होसी.
२६०१]	११०१]	१२०१]	३०१]	२०१]	११०१]	J	J

अण भात ठेहरी छे फर ठेरात्रां सां अठा दसा घणी खुसी राखसी. सेर रो जापतो रखावसी. कांम काज लखसी. सरव साय घोडा चेली रे कुशल खेम छे. वान (वेदी) ९ गरीई छे.”

नोट—यह गांव जागीरदारों के है. और उन गांवों की हेसियत देखते यह रकम बहुत जास्ती थी. अनुमान होता है कि जोलपुर गांव वाले सरदार ने यह राज हक देना इनकार करने से उस गांव को बरबाद करने की महारावने तजनीज की है.

राज्य कब्जे करने को पीछे पड़ रहे थे, उसने भी वार २ सिरौही इलाके में फौज भेजकर × लूट खोस जारी रखी. ( वि. सं. १८६७ के उन्हाले में सूता साहिवचंद की सरदारी के नीचे जोधपुर की फौज सिरौही रियासत के परगने रुवाई व भितरोट ( पिन्डवारा व रोहोडा ) पर आई, जिसमें विशलपुर के लखावतों ने अग्रणी बनकर वे परगने लूटे. फिर वि. सं. १८६८ के पोस महिने में इन परगनों को लूटे गये. सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १८६९ में भी सिरौही शहर व इलाका, जोधपुर की फौजसे लूटा जाना लिखा है. )

यदि सिरौही इलाका की प्रजा महाराव से भयभित होकर व वि. सं. १८६९ के भयंकर दुष्काल से बचने के वास्ते सिरौही इलाका छोड़ रही थी, इनके सरदार लोग ' फौज बल ' उगाने की सख्ती से नाखुश होकर विरुद्ध हो गये थे. जोधपुर की फौज ने कई बार आक्रमण करके इलाका व पाटनगर सिरौही को भी लूटा था, परन्तु महाराजा मानसिंह को सिरौही का राज्य कब्जे करने में सफलता नहीं मिली, और महाराव उदयभाण ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया, लोकन वि. सं. १८७० में जब कि महाराव गंगास्नान करके यात्रा से वापस लौटे और जोधपुर रियासत के ' पाली ' नगर में मौज मजाह करने के वास्ते ठहर गये, तब जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने फौज भेजकर इसको पकड़ लिया, व जोधपुर में ले जाकर उससे गुप्त रीति से जोधपुर की मातहती, व सवा लक्ष रुपये देने की शर्तें लिखवा लेकर तीन माह बाद सिरौही आने दिये.

सिरौही आने बाद वह शर्तें महाराव ने पूर्ण न की, जिससे वि. सं. १८७१ में जोधपुर की फौजने सिरौही रियासत के खूणों ( पोसाल्या ) परगने पर आक्रमण किया, उस समय रांवाडा का ठाकुर देवडा आयदान अमरावत, जोधपुर की फौजसे मिल गया, और ' रांवाडे ' में जोधपुर का थांगा बिठलाया, इस कारण से महाराजा मानसिंह ने उक्त ठाकुर को परवाना लिख कर शाबाशी दी व ताजिम देने का सन्मान दिया. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८७३ में सूता साहिवचंद के साथ जोधपुर की फौज आई जिसने भीतरट परगने को लूट कर बरवाद किया, जिससे महाराव उदयभाण ने परगना झालोर व गोडवार के गांवों को लूट कर फौज वाव वसूल की, उसपर

× सिरौही राज्य के रुवाई व भितरोट परगने में जोधपुर की फौज वि. सं. १८६७ व १८६८ में आनेका महाराजा मानसिंह के वि. सं. १८६७ चैत्र सुदि ७ व वि. सं. १८६८ पोस सुदि ११ के परवाने जो विशलपुर के लखावत देवडा भूपतसिंह बेरीसालोत पर लिखे गये है. उस परसे मालूम हुआ है. जिसमें वि. सं. १८६८ के परवाने में भितरोट में भूपतसिंहने अच्छी कारगुजारी दिखाने के एवज में विशलपुर की जागीर पर जोधपुर रियासत की जो वाव लगती थी वह मुआफ करने की तहेरीर है.

\* पाली नगर में वैश्याओं का बड़ा भारी जुथ रहता था, और महाराव ऐसी ज्यादाह होनेसे उनके फंदे में फसे थे.

÷ परवाना वि. सं. १८७१ मिति आसोज वदि १२ का विद्यमान है.

महाराजा मानसिंह सख्त नाखुश हुआ, और बड़ी भारी फौज के साथ मूता साहिबचंद को भेजकर सिरोही को बरबाद करने की आज्ञा दी. जोधपुर की फौज ने वि. सं. १८७४ माघ वदि ८ को सिरोही शहर पर हमला किया, महाराव ने शहर छोड़ दिया और पहाड़ की शरण ली, जिससे जोधपुर की फौजने १० दिन तक शहर को लूटा, और महल में प्रवेश करके रियासत का दफतर भी जला दिया, बल्कि उन लोगोंने खास दरीखाने की जगह पर रोटी पकाई जिससे उस जगह का सूवर्ण मिनाकारी काम धूए से ढक गया, वह धूए की श्यामता वर्तमान समय में भी विद्यमान है.

वि. सं. १८७४ का वर्ष सिरोही राज्य के वास्ते भयंकर घटना का हुआ. वि. सं. १८६९ का दुष्काल, व उसके बाद जोधपुर रियासत की फौज के आक्रमण लागलगाट होनेसे मुलक की बरबादी हो चुकी थी, खास सिरोही शहर व राजमहल आदि लूटकर जोधपुरकी फौज ढाई लाख रुपये का माल लेकर लौट गई, तब भी महाराजा मानसिंह ने अपनी शर्तें (मातहतो स्वीकारना और सवालक्ष रुपये देना.) स्वीकार कराने का दुराग्रह नहीं छोड़ा, जिससे महाराव उदयभाण ने रुपये देनेका विचार किया, परन्तु खजाना खाली होनेसे महाजनों से रुपये वसूल करने का यत्न किया, व उनपर सखती होने लगी. यह देखकर धनवान महाजनों में खल भली मच गई, और बहुत से महाजन मालवा व गुजरात में जाकर आवाद हो गये. उस समय सिरोही राज्य की आवादी को इतने दर्जे हानी पहुंची थी कि, सिर्फ +८८ गांव आवाद रहे, और बाकी सारे इलाका के गांव बेरान हो गये. यह दशा देख कर सरदारों ने महाराव के छोटे भाई राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रबंध के विषय में बातचित की, उसने ( शिवसिंह ने ) महाराव को नजरकैद करके राज्य की लगाम अपने हाथ में ली.

महाराव उदयभाण नजरकैद रखे गये, परन्तु राव शिवसिंह ने उसकी हयाति तक अपने को राजा कहलाना उचित नहीं समजा, ऐसा सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु उस समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि सं. १८७६ के साल से महाराव शिवसिंह व कुमार गुमानसिंह का नाम अंकित है, और वि. सं. \* १८६९ काती सुदि २

+ वि. सं. १८७९ में सिरोही रियासत में परगने खूणी में १९ गांव, खारल में ४, झोरा में ९, मगर में १४, रुवाई में ११, रोहीडा में १४, मांतपुर में ३, भाखर में २, चवरा में ९, वारट ४ व साएठ में सिरोही की हकुमत में ३ ( बकाया गांव पालणपुर के तरफ गये थे. ) जुमले ८८ गांव आवाद रहे थे, जिसमें खालसा दरवार के तरफ वि. सं. १८६९ में खालसे हुए पिन्डवारा पट्टे के ( १ पिन्डवारा, २ घनाती, ३ झाडोली ) ३ गांवों के सिवाय १ खास सिरोही, २ रोहीडा, ३ वासा, ४ भारजा, ५ साखवाडा, ६ नितोडा व ७ वालोरिया गांव थे. बकाया ७८ गांव सरदारों व सासन के थे.

\* महाराव उदयभाण के समय के ताम्रपत्रों में वि. सं. १८६९, व वि. सं. १८६९ भाद्रवा सुदि ३ तक के लेखों में भिर्फ ' महारायि श्री उदेभिन्ननी ' नाम अंकित है और बाद में वि. सं. १८६९ कार्तिक सुदि २ के व वि. सं. १८७०, वि. सं. १८७२, वि. सं. १८७४, ( भाद्रपद वदि १० के, ) वि. सं. १८७९ ( मगशर सुदि ८ ) तक के ताम्रपत्रों में

व उसके पीछे के ताम्रपत्रों में महाराव उदयसिंह के नाम के साथ शिवसिंह का नाम भी उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान होता है कि महाराव उदयभाण ने वि. सं. १८६९ से ही, शिवसिंह को अपना गद्दी वारिस मुकरर कर दिया था.

सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि महाराव उदयभाण को कैद से छुड़ाने के वास्ते जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने सिरोही पर फौज भेजी, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई. महाराव उदयभाण के तीन राणीयां थी, जिसमें एक साणसा के चावडा जेतसिंह की पुत्री ' गुलाबकुंवर, ' दूसरी ' नारलाई ' के मेडतिया पृथ्वीसिंह की पुत्री ' इन्द्रकुंवर ' तीसरी ' खेजलडी ' के चांपावत सालमसिंह की पुत्री ' जेतकुंवर ' थी. उक्त पुस्तक में चावडीजी से वि. सं. १८६२ में, चांपावतजी से वि. सं. १८७१ में व मेडतणीजी से वि. सं. १८७८ में विवाह होनेका अंकित किया है, परन्तु बडुआ की पुस्तक में दूसरा विवाह मेडतणीजी का होना अंकित है, अनुमान होता है कि वि. सं. १८६८ में दुसरा विवाह हुआ होगा. अगर यह अनुमान ठीक नहीं है तो कैद में होने की हालत में यह विवाह हुआ है वैसा मानना चाहिये !

महाराव उदयभाण के समय में प्रधान बोडा हटा ने वि. सं. १८६९ में पिन्डवारा के राणावत ठाकुर x जालमसिंह को चूक करके मार डाला. उक्त ठाकुर अपुत्रवान होनेसे उसकी जागीर के सब गांव खालसा राज शामिल हुए.

पेसुआ के कवि आढा खोडीदान ने एक कवित में कहा है कि सिरोही के देवडे चौहानों ने ' नौरोज ' न देने के कारण मेहणा भांगनेके वास्ते सिरोही राज्य को तबाह करना चाहा था. इस विषय में कवि अपने गीत में कहता है कि—

' महाराय श्री उदेसिंघनी शिवसिंहजी ' नाम दर्ज है, उसमें किसी जगह ' भाई शिवसिंह ' व किसी जगह ' कुमार शिवसिंह ' लिखा गया है.

x पिन्डवारा के राणावत उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र रुद्रसिंह की ओलाद में थे. रुद्रसिंह का पुत्र राणावत परवतसिंह महाराव रयसिंह दूसरे की सेवा में था, और बहादुर राजपूत गीना जाता था. राणावत परवतसिंह को महाराव ने पिन्डवारा की जागीर दी, बाद उसके वंशजों में सोणवाडा, सांगवाडा, धनारी, व झाडोली आदि जागीरें विभक्त हुई. राणावत परवतसिंह के बाद पिन्डवारा में क्रमशः २ साहेबसिंह, ३ अमरसिंह, ४ प्रतापसिंह, ५ संग्रामसिंह व ६ सवाईसिंह हुए. सवाईसिंह वि. सं. १८६२ में विद्यमान था. वि. सं. १८६१ में झाडोली में राणावत कोलसिंह ( कुशलसिंह ) था वह नाओलाद गुजर गया, और वि. सं. १८६२ में पिन्डवारा के सवाईसिंह ने अपुत्रवान होनेके कारण धनारी के राणावत जालमसिंह को, बगैर मंजुरी महाराव बेरीसाल के, अपने गोद लेकर धनारी व पिन्डवारा की जागीर शामिल कर ली, जिसपर महाराव की पृतराजी हुई, परन्तु पीछे से उसका गोद मंजुर रखा गया. कहा जाता है कि कुमार शिवसिंह ने मजाक में बोडा हटा को कहा कि ठाकुर जालमसिंह को मार सक्ता है ? जिसपर उसने ठाकुर के महल में जाकर उसको चूक किया. जालमसिंह अपुत्रवान था जिससे उसकी जागीर खालसे में रखी गई, और पिन्डवारा के साथ धनारी व झाडोली को नाओलाद जागीरें भी खालसे हो गई. वर्तमान समय में सीसोदिया परवतसिंह के वंशज १ सोणवाडा, २ उंदरा, ३ जयापुरा, ४ काडोली ( जनापुर वाले ) व ५ सांगवाडे में विद्यमान है और जागीर पा रहे है.



- “ कछत्राहा कमंथ घरा रे कारण, ज्यां नारी नवरोजे जाय; मेहणो ओ लागे मंडोवर, कुल चहुआणां रेस न कांय. ”  
 “ पग पग रेस देअण पतसाहां, राजा मानं न जाणो राज; आवु धका दे अण अधपतियां, उदल खलां संघारण आज. ”  
 “ क्रोड पसाव जकां धर कीधा, सोढ हरा खग जगत सरे; कडुए अमलै मेल न करसी, करमाला सु मेल करे. ”  
 “ वरैस मंद खग ओ घेरसल, कलवट तणी नभावण कार; जग जग वरै न दीधा जना, हेवे नवा वसावण हार. ”  
 “ गीरंद अदार पाट नंग गीर, सोहडां घणां देअण खग चोट; उदीया भाण धूहडां उपर, महपत आंक सदा मन मोट. ”

महाराव उदयभाण को जोधपुर के महाराजा ने धोखे से पकड लेनेके विषय में इसी कवि ने जोधपुर के महाराजा मानसिंह को रुवरु में कहा है कि—


- “ कीनो आपरो जांणीयो कनां हरामखोर रे कीहे, जाणीयो जो कियो तो न कीनी वात जोग; ”  
 “ रायां राव उदेभांण झलांणीयो मान राजा, असी रीत वेसांणीयो करी तें अजोग. ”  
 “ आगे ही सीरोही राव न भागो दलेस आगे, जो आप वोलात आगो पीठ देई न जात; ”  
 “ दगो करे सोढ हरो रोकियो अजीत दुजा, वदे सगो आपरो अजोग कीधी वात. ”  
 “ रमां घडा झथालणो कहीजे आवुओ राजा, केणारने पालणो थो न देणो थो कान; ”  
 “ वोलाएर झालणो थो वेरीसाल तणो वेटो, गीनाएत न रोकणो थो सवाइ गुमान. ”  
 “ खून गनो जाणवो नां सीरोही आपरे खोले, रावरे नैवई कोट खोले असी रीत; ”  
 “ दली नाथ जोधांण सु कीध दगो घेर दोले, उमेदराव रे ओले राखीयो अजीत. ”

इस महाराव ने पदभ्रष्ट होने बाद २९ वर्ष उसी अवस्था में व्यतित किये, और वि. सं. १९०३ में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्र नहीं होनेसे राव शिवसिंह इसके देहान्त बाद राजा कहलाये गये.





सिरही राजकुल के नं. २३ वाले महाराव.



महाराव शिवसिंह साहब बहादुर.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ३०९ ]

## प्रकरण ३४ वाँ.

बलू देवडा चौहान. ( महाराव शिवसिंह व महाराव उम्मेदसिंह )

नं. २३ महाराव शिवसिंह का जन्म वि. सं. १८५५ कार्तिक सुदि ६ के दिन हुआ, उसके तरफ नादिआ पट्टे की जागीर थी, लेकिन वि. सं. १८७५ में जब कि महाराव उदयभाण से राज्यशासन छीना गया, तब से यह उसकी जगह राज्य कारोबार चलाने लगे, और 'राव शिवसिंह' के पद से नियत हुए. वि. सं. १९०३ माघ वदि ९ के दिन महाराव उदयभाण का देहान्त होने बाद, यह महाराव पद से सिरोही राज्य के मालिक बने.

महाराव उदयभाण के समय में राज्य की अव्यवस्था हो जानेके कारण, जब यह राज्य गद्दी पर आये, उस समय रियासत की स्थिति ऐसी खराब थी कि, राज्य के तरफ खालसा गीने जाते आबाद गांव, सिरोही नगर समेत सिर्फ (१०) दशही थे, मुलक वैरान हो चुका था, और सरदार लोग आप मुख्तियार बन कर रियासत की हुकूमत के बाहिर विचर रहे थे, जोधपुर व पालणपुर रियासत वालों के, अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामे हो जाने के कारण, उनकी तरफ से सिरोही का मुलक दबाया जा रहा था, जोधपुर की फौज ने खजाना लूट लेनेसे भंडार खाली पडा था, और आमदनी का जरिया चाहिये जैसा न हाने के कारण, उपरोक्त दोनों रियासत के सामने फौज का जमाव करके भिडने का साधन नहीं होनेसे, महाराव को अंग्रेज सरकार का आश्रय लेने की आवश्यकता मालूम हुई, जिससे जालोकरा गांव के पुरोहित नारायणदास ( जो रावल ब्राह्मण था. ) द्वारा अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसरों के साथ अहदनामा करने के विषय में बातचित शुरु कराई, उस समय कर्नल टॉड साहेब जोधपुर रियासत के पोलिटिकल अफसर थे, पुरोहित नारायणदास उसके साथ सिरोही रियासत के अहदनामा की तजवीज कर रहा है, यह बात जोधपुर के महाराजा मानसिंह के कान पर जानेसे, उसने सिरोही राज्य अपने ताबे का होना जाहिर करके, अलग अहदनामा न करने के विषय में अपना दावा अंग्रेज सरकार के आगे पेश किया, जिससे अहदनामा होना मुलतवी रहा, और जोधपुर के दावा की तहकीकात का काम कर्नल टॉड साहेब को सुपुर्द हुआ. टॉड साहेब के साथ महाराजा मानसिंह को बहुत मित्राचारी होनेसे, अपनी मुराद हासिल होने की सम्पूर्ण उम्मेद उसको हो चुकी थी, परन्तु वह निष्पक्षपाती और न्यायी अंग्रेज अफसर ने अच्छी तरह प्राचीन ख्यात व सबूत पुरावे ढूँढ कर सम्पूर्ण तहकीकात करके, सिरोही रियासत कभी जोधपुर की मातहत नहीं होना, और एक स्वतंत्र राज्य होना स्वीकार कर जोधपुर का दावा खारिज किया.

दंतकथा में यह बात कही जाती है कि, पुरोहित नारायणदास ने यह शर्त अंग्रेज सरकार के साथ तय की थी कि, सिरोही रियासत के जो जो परगने जोधपुर व पालणपुर रियासत ने दवालिये हैं, वे सब वापस सिरोही रियासत के शामिल किये जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, जिसका कारण यह बताया जाता है कि, पुरोहित नारायणदास के विरुद्ध सिरोही के किसी मुत्सद्दी ने यह बात फैलाई कि, उसने अंग्रेज सरकार के साथ मिल कर अपने वास्ते भीतरोट परगना की जागीर लिखा ली है, इस अफवा के नतिजे में नारायणदास ने 'लोटाणा' गांव के पास फांसा खाकर अपना जान गुमाया. कहा जाता है कि इसी कारण से उसकी माता ने अपने पास जो कागज पत्र थे वे सब नाश कर दिये, जिससे ता. ११ सप्टेम्बर सन १९२३ ई. ( वि. सं. १८८० भाद्रपद सुदी १३) को, सिरोही मुकाम अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर हुआ उसमें वह शर्त दर्ज नहीं होने पाई है. इस अहदनामे की रुह से सिरोही रियासत की कुल आमदनी पर छःआनी की खिराज दाखिल हुई.

सिरोही रियासत के सरदारों में गोद लेनेके विषय में, प्राचीन समय से यह प्रणाली है कि, वे लोग दरवार की मंजूरी के सिवाय दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सकते हैं, ऐसी मंजूरी देते वक्त नकद रकम का नजराना अथवा नाओलाद सरदार की जागीर में से कुछ हिस्सा, नजराना के एवज में खालसा राज रखा जाता था, अगर गोद मंजूर नहीं करते कुल जागीर खालसा की जाती थी, लेकिन राज्य शासन शिथिल हो जाने के कारण, सरदार लोगों ने वैसी मंजूरी हासिल करने की परवाह न रखने से, राव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेतेही, वगैर मंजूरी राज गोद न लेनेका हुकम जारी किया, इस कारण से सरदार लोगों में ज्यादा असंतोष पैदा हुआ.

अंग्रेज सरकार के साथ अहमदनामा हो जाने से, जोधपुर के महाराजा ने सिरोही इलाके के खारल परगने पर, भंडारी पृथ्वीराज की सरदारी में फौज देकर हमला कराया, और १० गांवों को बरबाद करके रु. ३१०००) का नुकशान किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने वह नुकशान जोधपुर से वापस भरा दिया, व रियासत का इन्तिजाम के वास्ते जरूरी फौज रखने को रु. ५००००) विना सूद देनेकी तजवीज हुई, इस वक्त केप्टन स्पीअर्स साहेब सिरोही का पोलिटिकल एजेंट नियत हुआ.

महाराव साहिव ने एक तरफ अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करने की पैरवी

+ पुरोहित नारायणदास ने यह शर्त लिखा लेने के विषय में, रियासत के दफ्तर से संगीन पुरावा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन रियासत के तरफसे अहमदनामा हो जाने बाद, इलाके गैर में गये हुए परगने वापस मिलने का दावा, अंग्रेज सरकार में होने के विषय में कितनेक कागज मौजूद हैं, जिससे अनुमान होता है कि अंग्रेज सरकार ने मरह वादा किया होगा, उस दावे का इतनाही परिणाम आया कि, वि. सं १८७५ के बाद जो जो गांव पालणपुर रियासत ने कब्जे किये थे वे सिरोही रियासत को दिये गये, और उसके पहिले दब्जे हुए परगने के विषय में कुछ भी गोर नहीं हुआ. पुरोहित नारायणदास फांसा खाकर मरनेकी बात सही है, और ऐसे ही कारण से उसने अपनी जनोंई का फांसा ढाळ कर भापघात किया था.

जारी रखी, और दूसरी तरफ जागीरदारों के गांवों से जो बिना धोरण का राजहक वसूल होनेके कारण असंतोष फैल रहा था, उसको रफा करने के वास्ते एक ही धोरण से राजहक लेने की तजवीज करने को हरएक जागीरदारों से, अलग अलग +अहदनामा करने का काम हाथ में लिया, और अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर हुआ उस समय तक में, सिवाय ठिकाना निंबज के सिरोही रियासत की हुकूमत में जो २ सरदार विद्यमान थे उनके साथ, राजहक की आमदनी आठआनी के हिसाब से लेना तय हुआ. यदि ठिकाने निंबज का ठाकुर रायसिंह आप मुख्तार बन बैठा था, और दूसरे जागीरदारों के मुआफिक अहदनामा करना नहीं चाहता था, जिससे उसको दबाने के लिये अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता लेकर निंबज पर चढाई की, इस लडाई में दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह अपने पुत्र प्रेमसिंह के साथ पहाड में भाग गया व निंबज पर राज्य ने कब्जा कर लिया, परन्तु थोडे दिन बाद रामसीण वगैरह ठिकाने के सरदारों ने बीच में पड कर, ठाकुर रायसिंह को निंबज ठिकाना वापस दिलाया, और वि. सं. १८८१ वैशाख सुदि १ के दिन निंबज ठिकाने के साथ अहदनामा हुआ, जिसके जरिये निंबज ठिकाने की कुल आमदनी में छःआनी हक राज्य में देनेका तय हुआ.

अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होजाने पर, रियासत की तरफ से पालणपुर व जोधपुर रियासत के तरफ जो परगने चले गये थे वह वापस लेने का दावा पेश किया, परन्तु उसमें कारामद नहीं होते, सिर्फ पालणपुर रियासत से मंडार, भटाणा, रहुआ, दबाणी, बागदा, ठिकाने के जागीरदारों के गांव, वि. सं. १८८० मागसर वदि २ की तहरीर से सिरोही राज्य में सुपुर्द हुए, और उनकी जागीर से राजहक आठआना लेनेका ठहराव हुआ, वैसे गौरवर मावल पट्टे की जागीर के गांव भी पालणपुर रियासत ने वि. सं. १८८१ में सिरोही रियासत में सुपुर्द किये.

वि. सं. १८८५ में देहली का शाहजादा मुहम्मद बहरामशाह ने मक्के से लौटते सिरोही की महमानगिरी ली, इसी साल में अंग्रेज सरकार को देनेकी खिराज छः आना तय हुआ था, उसमें से दोए आनी कम करके चारआना खिराज की रकम रु. १५०००)

+ जागीरदारों के साथ वि सं. १८७८ व १८७९ में अलग २ जागीर का अलग २ अहदनामा हुआ, उसमें जमीन मुतालीका ( वास्तकी ) आमदनी में राजहक आठआनी और घरवेरा, मवेशी की चराई आदि नकद आमदनी राज में आवगो लेनेका ठहराव हुआ, लेकिन पीछेसे ठिकाना निंबज का अहदनामा होने बाद ठिकाना पाडिव, कालंद्री, मोटागांव व जावाछ ये चारों सरायतों से हरएक प्रकार की आमदनी में से छः आनी लेना तय हुआ, और दूसरे जागीरदारों को नकद आमदनी में कुछ भी नहीं देने का ठहराव था, उसके बदेछे किसी जागीरदार को उसमें से चारआनी व किसिको आठआनी देने की तजवीज हुई है.

\* सिरोही रियासत की कुल आमदनी रु. ६००००) गीनी गई थी, लेकिन इन दिनों में, हांसिछ बट्वारा रु. १८३७७) घर गीनती रु. ७६९९) मवेशी रु. ५५२४) दाण रु. ८८०५) लागनाच रु. २१२०) जुमाना रु ७५५४) आवकारी रु. ८१२) जुमला रु. ५०८९) की होना वि. सं. १८८९ की वही से मालूम होता है.

भीलाडी देने का तय हुआ. वि. सं. १८९७ में गीरवर-मावल के ठाकुर नाओलाद गुजरने पर, निंबज ठाकुर ने बगैर संजूरी राज अपने पुत्र उदयसिंह को गोद देने से, उदयसिंह को पकड़ कर कैद किया गया, जिससे निंबज ठाकुर ने लडाई की तय्यारी की, रियासत से उसको सजा देने की तय्यारी हो रही थी, दरमियान उदयसिंह कैद में ही गुजर गया, और पोलिटिकल ओफिसर ने ठाकुर रायसिंह को नाजायज काररवाई न करने की हिदायत करने से, उसने भी राज्य का हुकम मान लिया.

वि. सं. १९०० में जोधपुर इलाके के गोडवार परगने के हाकिम ने सरहदी तनाजे के बहाने से, सिरोही के गांवों पर फौज भेजकर जोधपुर की नजदिकी सरहद के जोयला आदि गांवों को लूट कर रु. ३५०००) का नुकशान किया, जिसकी इत्तिला अंग्रेज सरकार को होने पर, अंग्रेज सरकार ने केप्टन फूर्च व मेजर डाऊनिंग नामक अंग्रेज ओफिसरों के द्वारा सरहद मुकरर करा दी, जिसमें सिरोही रियासत के तरफ से अच्छी पैरवी न होने से, सिरोही के बहुत से गांव जोधपुर रियासत में चले गये.

वि. सं. १९०२ में मणादर व झाडोली के वजावतों के दरमियान सरहदी तनाजा होने के कारण, झाडोली के वजावत सरदारों ने बगावत करके नुकशान करने से, उन पर फौज भेजी गई, परन्तु बाद में पंचायत से उनका फैसला हो गया. इसी साल में आबु पहाड पर 'सेनिटेरियम' बनाने की अंग्रेज सरकार को इजाजत देने का अहदनामा हुआ.

महाराव शिवसिंह ने अपनी रियासत में अमन फैलाने के वास्ते वि. सं. १९०३ से १९०६ तकमें हरणी, झाडोली, लोहियाणा व रहुआ आदि गांवों के सरदारों को, और लूट करने वाले मीणे, भीलों आदि को सख्त नसोहत की. पीथापुरा के ठाकुर (उदयसिंह के पुत्र.) अनाडसिंह व नवलसिंह बागी हुए थे, और निंबज ठाकुर उनको सहायता दे रहे थे, जिससे निंबज ठाकुर को सजा देने के वास्ते, महाराज कुमार गुमानसिंह ने राज्य व अंग्रेज सरकार की फौज सहित निंबज पर चढाई की. निंबज ठाकुर ने सामना किया, और पहिले हमले में राज की फौज को सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दूसरे हमले में ठाकुर भाग गया, और पहाड की शरण ली, राज की फौजने निंबज कब्जे किया, परन्तु पीछे से निंबज ठाकुर ने हाजिर होकर अपनी कसूर के वास्ते मुआफी मांगने पर, उसको निंबज वापस दिया गया. इसी तरह जोगापुरा का ठाकुर, चोरोंको पनाह देकर नुकशान पहुंचा रहा था, उसको पकड़ कर कैद की सजा दी गई.

वि. सं. १९०९ में जोधपुर इलाके के लोहियाणा ठिकाने का राणा व नाणा ठिकाने के ठाकुर जो सिरोही रियासत में लूट खोस व चोरी कराते थे, उनको अंग्रेज सरकार द्वारा सिरोही में बुलवा कर आयन्दा ऐसी काररवाई न करने की तहरीर लिखा ली, जिससे सरहदी गांवों में उक्त ठाकुरों से होता त्रास कम हो गया.

वि. सं. १९१० में भटाणे ठिकाने का ठाकुर नाथुसिंह ने मुलकी सरहद के फैसले में अपने कब्जे की जमीन पालणपुर के तरफ चली जाने से वागी होकर तुफान शुरु किया और लूटफाट करने लगा, उसको दबाने के वास्ते अंग्रेजी फौज की सहायता लेकर पीछा करने से वह कई आदमियों के साथ पकडा गया, और उनको छःवर्ष की कैद की सजा दी गई, लेकिन वि. सं. १९१५ में वह जेलखाने से भाग गया, और फिर लूटफाट करने लगा. महाराव ने उसको पकडने के वास्ते मूंशी न्यामतअलीखां को फौज देकर भेजा, परन्तु वह गिरफ्तार हो सके वैसा नहीं होने से मुआफी देनेकी शर्त पर सिरोही लाया गया, महाराव ने उसकी सब कसूर मुआफ करके भटाणा की जागीर वापस दे दी. इसी साल में महाराव ने एरिनपुरा की छावणी के पास अपने नाम से ' शिवगंज ' नामका नया शहर आबाद किया, और वहां पर आबाद होनेवालों के वास्ते खास तौरपर रियायत करने से, पाली आदि स्थलों से अच्छे २ व्यापारी आबाद हुए, जो शहर वर्तमान समय में सिरोही रियासत में खास व्यापार का स्थल गिना जाता है.

सरदारों के फसाद से फौज का खर्च बढजाने से रियासत पर कर्जा बढ गया, और राज्य प्रबंध में जरूरी सुधारा नहीं होने के कारण महाराव ने सुप्रीन्टेन्डेन्ट के तौरपर एक अंग्रेज अफसर मुकरर कराना चाहा, जिस जगह पर कर्नल एन्डरसन् साहेब मुकरर हुआ, महाराव ने उसको राज्य की हालत सुधारनेका व आमदनी बढाने का काम सुपुर्द किया, उसने वैरान गांव आबाद करने के वास्ते इस्तहार जारी किये और खेती व व्यापार की तरकी होवे वैसा इन्तिजाम किया, जिससे मुलक में अमन के साथ बहुत फायदा पहुंचा.

वि. सं. १९१४ के गदर में एरिनपुरा छावनी की फौज गदर के वागी लोगों के साथ शामिल हो गई, उस समय छावनी के अंग्रेजों में से केप्टन कोनोली वागी के हाथ पकडा गया, और दूसरे अंग्रेज व उनकी औरतें बाल बच्चों के साथ भाग नीकले. महाराव को यह खबर मिलते ही, उसने मूंशी न्यामतअलीखां को राज्य की फौज देकर उक्त अंग्रेजों की सहायता के वास्ते भेज दिया, उसने ' बडगांम ' नामक गांव के पास वागियों के साथ मुकाबला करके उनको शिकस्त दी, और भगे हुए अंग्रेजों का पता लगा कर उनको सिरोही पहुंचा दिये, महारावने उन अंग्रेजों को अपने महल में रखकर अच्छी खातिर की.

केप्टन कोनोली वागी के हाथ में होनेका मूंशी को मालूम नहीं था, जबकि यह बात मालूम हुई तब उसने वागियों का पीछा किया, और दो दिन सफर करके उससे जा मिला. उसने वागियों की तरफ से निगहवानी रखने वाले सवारों को लालच देकर कोनोली साहेब को मुक्त किया, और सिरोही पहुंचा दिया. वे सब अंग्रेज लोग गदर की शान्ती होने तक सिरोही के महलात में रहे, और बाद एजंट गवरनर जनरल के पास



आबु पर पहुँचाये गये. महाराव साहिब की यह वफादारी देख कर अंग्रेज सरकारने उसको धन्यवाद दिया, और सिरोही राज्य पर पीछली सालों की खिराज की रकम बाकी थी वह छोड़ दी, और आगे के लिये आधी खिराज ( रु. ७५०० ) भीलाडी ) लेना तय हुआ.

वि. सं. १९१६ में धाणता व वेलांगरी गांव के सरदारों ने आपस में झगडा किया, जिसमें कितनेक आदमी मारे गये और जखमी हुए, महाराव साहिबने उनको पकडने के वास्ते राज्य की फौज भेजी उनमें से धाणता के जागीरदार पकडा गया, परन्तु वेलांगरी का जागीरदार बागी होकर लूट करने लगा, उसको पकडने के वास्ते राज्य ने फौज नियत की, लेकिन मोटागांम के सरायत विजयसिंह ने उसको महाराव के पास हाजिर किया. महाराव ने दोनों जागीरदारों को जुर्माना की सजा देकर मुआफी बक्षी. इसी साल में सणवाडा व सिरोडी के जागीरदार बागी हुए, उनको पकडने के वास्ते फौज भेजना पडा. सणवाडा वाले फौज के शरण हो गये, परन्तु सिरोडी वाले ने फौज के साथ मुकाबला किया, जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, अखीर दवाणी के ठाकुर की जामनी से सिरोडी वाले हाजिर आये, उन्होंने जो जो नुकसान किया था उसका बदला लेकर उनकी जागीर वापस दी गई.

सिरोही रियासत के सरदार हठिले व स्वतंत्र मिजाज के होने के कारण अंग्रेज सरकार का हिन्दुस्तान में राज्य अमल हो जानेसे जबकि गैर रियासत के साथ युद्ध करने का प्रसंग बंध हो गया तब उन्होंने अपना मिजाज और ताकत को आपस के झगडे करने में, राज के साथ फसाद मचाने में व बगावत के काम में अजमाना शुरु किया, जिससे महाराव शिवसिंह को बहुत तकलिफ उठाना पडा. बल्कि अंग्रेज सरकार की सिरोही राज्य को सहायता व सहानुभूती न होती तो ऐसे सरकस सरदारों को काबु में रखना मुश्किल हो जाता. सिरोही के सरदारों के साथ काम लेने में सब से भारी मुश्किली यह है कि वे सब एक ही खानदान के है, और जब २ फसाद मचाते तब राज्य की तरफ से दबाव होने पर, दूसरे सरदार उनके भाई बन्यु होने के कारण पनाह देते थे, वैसे जब राज्य के तरफ से सख्त दबाव होकर गिरफ्तार होने का मौका आ जाता तब उनके दूसरे भाई महाराव को सिफारिश करके उनकी कसूर मुआफ करने का बचन लेकर उनको हाजिर कर देते थे, जिससे फसाद मचाने वाले को कसूर की सजा चाहिये वैसी न होनेसे, बगावत करने का गुनाह एक मामूली बात जैसा हो गया. इसी कारण से सिरोही रियासत में अबतक सरदारों की बगावत के विषय में वही प्रणालिका विद्यमान है और रियासत को फौज का खर्च व तकलिफ उठाने का प्रसंग बार २ उपस्थित होता है.

वि. सं. १९१७ के अश्विन वदि ५ को महाराज कुमार गुमानसिंह ने अपने हाथ से गोली खाकर आपघात किया, जिससे महाराव को बहुत सद्दा पहुँचा और इसी कारण





सरहूम कर्नल सर जेम्स टॉड साहब बहादुर.

सी. आई. ई.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ३१९ ]

से वि. सं. १९१८ में राज्य कार्य अपने दूसरे महाराज कुमार उम्मेदसिंह को सुपुर्द करके आप इश्वर भजन के कार्य में अपना समय व्यतित करने लगे.

महाराव शिवसिंह की तसवीर जो इस पुस्तक में दी गई है उसको देखते मालूम होता है कि वह सादे सिधे लेकिन सख्त मिजाज के राजा होंगे, बीस वर्ष की अवस्था में राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और रियासत की हालत ऐसी खराब थी कि, अगर महाराव उदयभाण जैसे राजा ज्यादा समय तक इस गद्दी पर होता तो राजपूताना में सिरोही रियासत की गणना शायद ही एक फर्स्ट क्लास रियासत की पंक्ति में रहने पाती; सिरोही रियासत के इस अंग्रेज सरकार का बहुत इहसान मानते हैं बल्कि कर्नल टोड साहेब जिसने निष्पक्षपात से जोधपुर का दावा खारिज कर सिरोही का स्वतंत्रपणा साबित किया उस साहेब मोसूफ के तरफ सिरोही के महाराव इतना बहुमान से देख रहे हैं कि मरहूम महाराव सर केशरीसिंह साहिब बहादुर ने केशरविलास वगीचे की कोठी में जो खास सुवर्ण की कारीगरी से एक कमरा बनाया है, उस कमरे में अपने बडिलों की तसवीरों के साथ उक्त साहेब की तसवीर भी हमेशा कायम रह सके इस खयाल से दिवाल में चुना लेने में आई है. इसी कारण इस पुस्तक में भी टोड साहेब की तसवीर दी गई है.

महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेते ही जिस तरह जागीरदारों के साथ अहदनामे करके रियासत का पाया मजबुत किया, और सरकस सरदारों को सजा करके चोर लूटारुओं से भय दूर किया उसी मुआफिक वैरान मुलक आबाद करने के वास्ते कोशिश करने से उसके समय में सैंकडो वैरान गांम पुनः आबाद होगये, उसने वैरान गांवों में से बहुतसे गांव अपने जागीरदारों को आबाद करने की शर्त पर जागीर में दे दिये, और खास तौर पर रियायत की, जिससे रियासत की जड मजबुत हो गई. अंग्रेज सरकार के अफसरों की सहायता से इसने सिरोही रियासत में अमन फैलाया, सैंकडों कुएं बनवा कर प्रजा की उन्नती के वास्ते साधन कर दिये, और रियासत के + खालसा गांव बढा दिये. इतनाही नहीं बल्कि रियासत पर से कर्जदारी भी उतार दी थी.

+ सिरोही रियासत के प्राचीन दफतर से मालूम होना है कि वि सं. १८८० के पहिले सगदरों में नाओलादी हाने के कारण १. नादीआ, २. नितोरा, ३. आधा पोसालिया, ४. सांतपुर पट्टा के च्यार गांव, ५. पिन्डवरा पट्टा के छह गांव, ६. अधा नून, ७. कोला पट्टा के बारह गांव, ८. भारजा पट्टा, ९. नवारा की पांती, १०. बावली गांव का आधा, ११. मेडा गांव का आधा, वगैरह जागीरें खालसा राज हुई थी, और वि. सं. १८८० बाद १२. सिरोडी गांव की तीसरी पांती, १३. आधा मडवारीया, १४. आधा खानवल, १५. आलपा, १६. आंवलारी. १७. मांडवारा में अखेराज की पांती, १८. मिछदर के पाटवी की जागीर, १९. बडगांव, २०. मानपूर, २१. मवली, २२. भुलां, २३. मावल—गीरवर पट्टा के आठ गांव, २४. मणादर में प्रेमसिंह की पांती, इस मुआफिक जागीरें खालसे राज होने पाई है, जिसमें नं. १४—१५ व १८ की जागीरें अदुल हुकमी की सजा में खात्रते हुई हैं.

यह राजा धर्मनिष्ठ और कदरदान होनेसे इसने अपने राज्य कर्मचारी व सरदारों को बहुत जागीरें दी, प्राचीन मन्दिर, कुएं, वावड़ी, धर्मशाला आदि स्थलों का जिर्णोद्धार कराया, और च्यार गांव की आमदनी देवस्थान के निमित्त अर्पण की. इसकी छः राणियां थी जिसमें पहली चांपावतजी सरदारकुंवर खेजडली के राठौर सालमसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७० में विवाह हुआ, ( उससे महाराज कुमार गुमानसिंह का वि. सं. १८७४ में व कुमार दूर्जनसिंह का वि. सं. १८७७ में जन्म हुए. ) दूसरी मेडतणीजी सूरजकुंवर थोब के राठौर मोकमसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७२ में विवाह हुआ. तीसरी वाघेलीजी चतुरकुंवर पोसीना के वाघेला कैशरीसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७८ में विवाह हुआ, ( उससे कुमार हमीरसिंह का जन्म वि. सं. १८९६ में हुआ. ) और उसी की बहिन वाघेलीजी जशकुंवर के साथ चौथा विवाह वि. सं. १८८३ में हुआ. पांचवीं मेडतणीजी अभयकुंवर थोब के राठौर उदयसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८८७ में विवाह हुआ ( उससे कुमार उम्मेदसिंह का जन्म वि. सं. १८८९ में व कुमार तेजसिंह का जन्म वि. सं. १९०५ में हुआ. ) छठवीं बारडजी दौलतकुंवर दांता के परमार राणा नाहरसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८९० में विवाह हुआ ( उससे वि. सं. १८९६ में कुमार जेतसिंह, वि. सं. १९०१ में कुमार जवानसिंह व वि. सं. १९०३ में कुमार जामतसिंह के जन्म हुए. ).

इस महाराव के उपर्युक्त आठ राजकुमार के सिवाय छः राजकुमारियां थी, जिसमें (१) बाई रतनकुंवर का विवाह वि. सं. १८८५ में जयपुर के महाराजा जयसिंह ( तिसरे ) के साथ, ( २ ) बाई उम्मेदकुंवर का विवाह वि. सं. १९११ में डुंगरपुर के महारावल उदयसिंह के साथ, ३ बाई गुलाबकुंवर व ४ बाई चांदकुंवर यह दोनों के विवाह क्रमशः वि. सं. १९०९ व १९२३ में जोधपुर के महाराजा तरुतसिंह के साथ, ५ बाई माणककुंवर का विवाह वि. सं. १९१६ में वांसवाडे के महारावल लक्ष्मणसिंह के साथ, और ६ बाई फुलकुंवर का विवाह वि. सं. १९२४ में करौली के महाराजा मदनपाल के साथ हुआ.

×महाराव शिवसिंहने इस तरह राज्य व संसार का सब सुख प्राप्त करके अपनी पीछली जिन्दगी में राज्य कारोबार महाराज कुमार उम्मेदसिंह को सुपुर्द कर वि. सं. १९१८ में ईश्वर भजन करने के वास्ते निवृत्त हो गये और उसी में अपना समय बिताते

× महाराव शिवसिंह के समय में वि. सं. १८८० से १९१८ तक में शाह कानजी तीन दफे, वेहीतरा मियाचंद दोए दफे, शाह लक्ष्मीचंद तीन दफे, चौधरी अखेचंद दोए दफे, व मूता गुलाबचंद सांडेराव का, मेवसा नाथुसिंह वांकडिया वडगांम का, कोठारी दोला पालणपुर का, शाह नाया व पंचोली सुरजमाण सिरोही के, गुरां रतनचंद वासा का, मूंशी न्यामतअलीखां, शाह जोरावरमल व शाह चैनकरण सिरोही के इस मुआफिक १३ मुसाहिब हुए. जिनको सालाना तनख्वाह रु. २५१) से लगाकर रु. ९०१) तक व पेटिये रियासत से दिये जाते थे. उनमें किसी समय एक दिवान और एक मुसाहिब इस मुआफिक दो शख्स मुकरर हुए हैं.



राजकुल सिरोही के नं. २४ वाले महाराव.



महाराव उम्मेदसिंह साहब बहादुर.

हुए वि. सं. १९१९ के पौष वदि २ के दिन कैलाशवास किया. इसके स्वर्गवास होने पर पेसुआ के कवि आढा अनजी नारजी ने मरसिये में कहा है कि.

- “ कर तपसा करूर, तखत पर गादी तपीयो; जगता हर गुण जांण, जगत पत नांम पण जपियो. ”  
 “ कर देही कल्याण, वले अल नाम वध्यारो; क्षत्री धरम सो धार, पळे वैकुंठ पध्यारो. ”  
 “ दरसण षट पालण दनी, देणकर मत दागणां; शिवपरी फेर प्रिलत सवो, मले न पाछो मांगणां. ”  
 “ जण तपसारे जोर, करूर तप राजस कीनो; जण तपसा रे जोर, दान केई विप्रां दिनो. ”  
 “ जण तपसारे जोर, भाखर कै वंका भलीया; जण तपसारे जोर, गढपत कै शत्रु गलीया. ”  
 “ वेरीसाल सुतन ताला विलंद, वडे हत क्रोत वधावियो; सो ताप सेहत सूरज सवो, सारणैश्वर सधावियो. ”  
 “ पळम धर मेद पाट, महीकांठो मालागर; धर वागड हुंढाड, धुंधकार हुओ ऐती धर. ”  
 “ ध्रप मुरत छत्र धार, वडो दातार वखाणे; सुत वेरा सरीयंद, जश समदां तट जांणे. ”  
 “ वड हथ दली मंडल वचे, रव करण जश रमियो; सरताण हरो सूरज सवो, आवु धर आथमियो. ”

नं. २३ अखेराव को भारजा पट्टा की जागीर मिली थी, मगर वह नाओलाद होनेसे जागीर वापस रियासत में खालसा रही.

महाराव शिवसिंह के बड़े महाराज कुमार गुमानसिंह अपने पिता के समय में युवराज पद पर राज्य के काम में सहायता करते थे. वि. सं. १९०५ में निंबज पर फौज गई तब यह उस फौज में मुसाहिब थे. कहा जाता है कि यह ज्योतिष व सामुद्रिक शास्त्र के अच्छे जानकार थे, जब कि इनके भतिजे महाराव कैसरीसिंह का जन्म हुआ, और इसने उसको गोद में लेकर उसके सामुद्रिकलक्षण देखे तब इसने जाहिर किया कि सिरोही रियासत का गद्दी वारिस यही बनेगा. इसके दो विवाह ( पहिला मेडतणीजी-वख्तकुंवर चाणोद के राठौर तेजसिंह की पुत्रीसे व दूसरा चंदावतजी किशोरकुंवर सलुंवर के पदमसिंह की पुत्री के साथ) होने पर भी पुत्र न होने से इसके पिता तीसरा विवाह कराना चाहते थे, मगर अपना भतिजा कैसरीसिंह ही गद्दी वारिस होगा वैसा इसने निर्णय कर लेनेसे तीसरा विवाह नहीं किया, तबियत ठीक न रहने के कारण इसने आत्मघात करनेका निश्चय कर लिया, और काशी के पंडितों द्वारा आत्मघात का प्रायश्चित के वास्ते दरियाफत करलेने बाद, वि. सं. १९१७ के अश्विन वदि ५ के दिन पूंजन कर लेने बाद उसी स्थान पर गोली खाकर मर गये. दूसरा कुमार दूर्जनसिंह अपने पिता विद्यमान होने की हालत मेंही वि. सं. १८९७ में देवलोक हुआ था.

### नं. २४ महाराव उम्मेदसिंह.

नं. २४ महाराव उम्मेदसिंह का जन्म वि. सं. १८८९ फाल्गुन सुदि २ के दिन हुआ. वि. सं. १९१८ में युवराज पद पर आकर अपने पिताकी हयाती में ही राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और वि. सं. १९१९ पौष वदि २ के दिन गद्दी पर बैठा. इसके गद्दी



पर आने के समय में भी सिरौही में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट विद्यमान था. महाराव शिवसिंह ने अपनी हयाती में अपने दूसरे कुमार हमीरसिंह, जेतसिंह, जवानसिंह व जामतसिंह के वास्ते यह प्रबंध किया था कि उनके विवाह होने तक वे सिरौही में रहवे और उनको माहवार रु. ५००) मिला करे, लेकिन कुमार हमीरसिंह ने वह पसंद नहीं किया, उसने अपने पिता की इच्छा विरुद्ध वि. सं. १९१८ में पिन्डवारा गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेजर होल साहेब ने उस पर फौज लेजाकर वहां से भगाया, जिससे वह पहाड में जाकर लूटेरे लोगों की सहायता से बगावत करने लगा. कुमार जेतसिंह, जवानसिंह व जामतसिंह सिरौही में रहे, परन्तु बाद में वे भी कुमार हमीरसिंह को जा मिले, और भाखर के ग्रासिये की पनाह में रहकर चोरीधाडे करने लगे. पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने इस विषय में हिन्दुस्तान के गवरनर जनरल से लिखापढी करके हरेक कुमार को रु. २५००) तक की जागीरें देने का ठहराव किया, परन्तु महाराव उम्मेदसिंह को अपने भाईओं पर ज्यादा प्रेम होनेसे उसने गद्दीपर आतेही उनको राजी करना चाहा और सरदारों द्वारा बुला लेनेका यत्न किया, जिससे हमारसिंह के सिवाय के तीनों भाई सिरौही में आ गये. महाराव ने कुमार जेतसिंह को नादीआ पट्टेकी, जवानसिंह को अजारी पट्टेकी, व जामतसिंह को खाखरवाडा पट्टेकी जागीरें वि. सं. १९१९ के फाल्गुन वदि ६ के दिन देकर राजी किये, वैसे उनके सहायकों के अपराध भी मुआफ किये गये. यह देखकर च्यार माह बाद कुमार हमीरसिंह भी हाजिर आया, महाराव ने उसको भी वि. सं. १९२० आषाड सुदि २ के दिन सांतपुर पट्टे की जागीर देकर संतुष्ट किया.

महाराव उम्मेदसिंह गद्दी पर आने के समय में ही सिरौही रियासत को अंग्रेज सरकार के तरफ से वंशपरंपरा के वास्ते गोद लेने की सनद मिली और इसी साल में सती होनेका रिवाज बंध किया गया.

महाराव शिवसिंह ने खास तौर पर अपनी रियासत के इन्तिजाम के वास्ते पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को रखा था, उसके द्वारा बहुत प्रबंध हुआ और ११ वर्ष बाद वि. सं. १९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हटाया गया, तब महाराव उम्मेदसिंह को रियासत का सम्पूर्ण इख्तियार हुआ, उस समय राज्य बिन कर्जदार हो चुका था और खजाने में रु. ४२३६५) थे.

भाखर परगने के ग्रासिये सरकस होकर चोरी करते थे, उनको सजा देने के वास्ते महाराव ने अपने सरदारों की फौज के साथ वि. सं. १९२३ में उन पर चढाई की, और एक माह वहां ठहर कर इन्तिजाम किया. इसी साल में दिवानी व फौजदारी अदालतें कायम की गईं, और आबु पहाड पर ज्यादा अंग्रेजों का आना जाना हो जाने से कितनेक कानून वहांपर लागु करने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दिया गया.

वि. सं. १९२४ में पहिल पहिले खास सिरोही में केप्टन म्युर साहेब के हाथ से मदरसा खुलने का प्रबंध हुआ, और एक सफाखाना खुला. इसी साल में महाराव ने केप्टन म्युर साहेब के साथ भाखर परगना में दूसरा दौरा कर के वहां पर थाना बैठाने का इन्तिजाम किया, और कवायदी फौज के वास्ते एक कम्पनी तय्यार की गई.

वि. सं. १९२५ में विजुआ खेडा मंढार के साहेबा मदनसिंह को आवादी के वास्ते देनेके कारण उस खेडे पर अपना हक होने का दावा भटाणा ठाकुर नाथुसिंह ने किया, परन्तु उसमें सफलता न होने से नाथुसिंह ने बगावत की, और करीब ३०० भीलों का जमाव कर के मुलक में लूट खोश करने लगा. उसने कई गांव लूटे-जलाये और अमन में खलल डाला, जिसपर अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से रियासत ने उसको गिरफ्तार करना चाहा, परन्तु उस में कामयाब नहीं हुए, बल्कि नाथुसिंह का बल इतना बढ गया कि शाही रास्तों पर भी मुसाफिरों को आना जाना मुश्किल हो गया, जिस से सिरोही रियासत का तालुक एजेंट गवरनर जनरल राजपूताना से हटा कर एरिनपुरा के कमांडिंग ओफिसर के सुपुर्द किया गया. उस समय एरिनपुरा के कमांडिंग ओफिसर मेजर कान्ली था, उसने इखितयार पाते ही फौज भेजकर लूटे बंध कराई. ठाकुर नाथुसिंह ने मारवाड में पनाह ली और वि. सं. १९२७ में वहां ही मर गया, परन्तु उस का पुत्र भारतसिंह ने बगावत जारी रखी, अखिर वि. सं. १९२९ में उसको समझा कर बुलाया गया और सिर्फ रु. १५००) नजराना लेकर उसकी सब कसूर मुआफ कर के भटाणा की जागीर वापिस दी गई.

वि. सं. १९२५ की कहतसाली में महाराव ने अपनी प्रजा का पालन करने में बहुत सहायता दी, और वि. सं. १९२६ में हणादरा गांव के पास उम्मेदगंज नामका गांव बसाया, परन्तु वह आबाद होने नहीं पाया. जोगापुरा की जागीर नाओलादी से वि. सं. १९१९ में खालसा राज हुई थी जो वि. सं. १९२६ में महाराव ने अपने छोटे भाई कुमार तेजसिंह के पट्टे में दी, जिस पर रांवाडा के सरदार ने बगावत शुरु की, अखिर वि. सं. १९२८ में च्यार सरदारों को पंच मुकरर करके रांवाडा ठाकुर के दावा का तसफिया हुआ जिसमें पंचान ने रांवाडा का दावा खारिज किया, और जोगापुरा पट्टा खालसे रखने का तय होकर राज साहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर जो वि. सं. १९२३ में नाओलादी से खालसे हुई थी, वह दी गई. रांवाडा ठाकुर ने वह मंजुर किया परन्तु उसके साथ वारदात करने में जो २ मीणे भील शरिक थे उनको सुपुर्द करने का वादा पुरा नहीं किया, जिससे कर्नल कान्ली साहेब ने वि. सं. १९२९ में रांवाडे पर फौज ले जा कर, ठाकुर को उसका प्रधान व ३० लूटेरे के साथ पकड लिये. इस कसूर में ठाकुर शार्दूलसिंह को बारह साल कैद की सजा हुई और वह अजमेर के जेलखाने

में रखा गया. तीन साल के बाद ठिकाने कालंद्री, पांडिव व जोधपुर रियासत के सियाणा व डोडियाली के सरदारों ने उसकी जमानत देने से, वह कैद से मुक्त हुआ और महाराव ने उस को रांवाडा की जागीर वापस दी.

महाराव उम्मेदसिंहजी सादे मिजाज के व सरल हृदय के परम दयालु और भजन के प्रेमी रईस हुए, वह अपना ज्यादाह समय इश्वर भक्ति व धर्म ध्यान में व्यतित करते थे जिससे राज्य कार्य में कम लक्ष रहता था. वि. सं. १९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हट्ट ने के समय में राज्य दुरूस्त हालत में था, लेकिन बाद में वि. सं. १९२३ में बहिन चांदकुंवर का, व वि. सं. १९२४ में बहिन फूलकुंवर का विवाह हुआ, उसमें खर्चा हो जाने से रियासत का खजाना खाली हो गया. वि. सं. १९२५ की कहतसाली में आमदनी नहीं हुई और प्रजा पालनार्थे कर्जा करना पडा, और पिछले सालों में बाईं जशकुंवर का विवाह हुआ, उसमें व सरदारों के बखेडों में बहुत खर्च होनेसे राज्य की हालत बिगड ने लगी. यदि कर्नल कार्नेली साहेब की सहायता से बखेडे मिटाये गये, परन्तु राज्य की आमदनी में तरक्की न हुई और रियासत पर कर्जदारी का बोझा बढ गया.

इस महाराव की महाराणी वाघेलीजी दोलतकुंवर पोसिना के वाघेला पर्वतसिंह कैसरीसिंहात की पुत्री से वि. सं. १९१४ में कुमार कैसरीसिंह व कुमारी जशकुंवर के जन्म हुए. कुमारी जशकुंवर का विवाह वि. सं. १९२७ में किशनगढ के महाराज कुमार शार्दूलसिंह पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया.

यह महाराव दयालु व उदार वृत्ति के होनेके कारण इसने दान पुण्य और दातारी में भी ज्यादाह खर्च किया. अनेक साधु सन्तों से इसका स्नेह था, और हृद से ज्यादाह उनके सत्कार किया करते थे. वि. सं. १९३२ अश्विन वदि १ के दिन इसका \*कैलास वास हुआ. कवियों ने इस उदार रईस की दातारी के बहुत गीत कवित रचे है, पेसुआ के आढा नाथुदान को इसने धनारी गांव में अरठ 'नवा' बक्षा था. इसके देहान्त बाद कई एक कवियों ने मरसिये रचे है, जिसमें जांखर के प्रख्यात कवि आढा राघवदान ने जो सात मरसिये रचे है, उसमें सातवें मरसिये में कविने कहा है कि—

\* महाराव उम्मेदसिंह का कैलाश वास हुआ, तब 'मौजीबाबा' नामक एक महात्मा का मुकाम सिरोही रियासत के धनारी गांव में कमलगच्छ के जैन आचार्य भटारक श्री यशोभद्र सुरेश्वर के अपासरे में था. उक्त आचार्य का शिष्य भटारक श्री विजय महेन्द्र सुरेश्वर जो वर्तमान समय में कमलगच्छ की गद्दी पर है, उसके भूँहसे इस पुस्तक के लेखक ने सुना है कि जब कि महाराव उम्मेदसिंह का देहान्त हुआ तब 'मौजीबाबा' अचानक चिड़ा उठा और मेरे गुरु को कहा कि चलो बाहर आ जाओ, मैं भी गुरु के साथ मौजीबाबा के कहने पर अपासरे से बाहर आया तब बाबा कहने लगा कि देखो देखो ? हमारे परमभक्त और स्नेही महाराव उम्मेदसिंह विमान में बैठ कर वैकुंठ पधार रहे हैं, अब हम लोगों की पूछ बहुत कम होगी, बाद दरियाफ्त से मालुम हुआ कि उसी समय महाराव का देहान्त सिरोही में हुआ था.

- “ पग पग रच धांम धांम क्रत पावन गांम गांम प्रती राख गुणी । ”  
 “ विद्या पढ दांम दांम अत बालक सांम नांम नत कथा सुणी ॥ ”  
 “ कीनो बस कांम तमांम कला कर ठांम ठांम ध्रम अडग ययो । ”  
 “ छत्र पत उमेद वेद मत चालण गुण ग्राहक शिव लोक गयो ॥ ”


नं. २४/१ राजसाहेब जेतसिंह को नादीआ पट्टा की जागीर दी गई जिसके वंशज मौजूदा ' महाराज नादीआ ' है.

नं. २४/२ राजसाहेब हमीरसिंह को सांतपुर पट्टा की जागीर दी गई थी, परन्तु वह अपुत्रवान गुजरने से जागीर खालसा राज हुई.

नं. २४/३ राजसाहेब जुवानसिंह को अजारी पट्टा की जागीर मिली, जिसके वंशज मौजूदा ' अजारी के महाराज ' है.

नं. २४/४ राजसाहेब जामतसिंह को खाखरवाडा पट्टा की जागीर मिली, जिसमें खराडी ( आबुरोड ) भी शामिल था. राजपूताना मालवा रेलवे नीकलने से खराडी गांव में ' आबुरोड ' का स्टेशन बना जिससे यह कस्बा बढ गया. राजसाहेब अपुत्रवान होने से उसने अपनी जागीर पर गोद रखने के वास्ते बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सिरोही रियासत में अपुत्रवान राजवी को गोद लेनेका परंपरासे हक नहीं होनेसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे उसके देहान्त बाद यह जागीर खालसे राज हुई, और उसकी राणियों को माहवार रु. ५००) जिवाई हयाति तक मिली.

नं. २४/५ राजसाहेब तेजसिंह को जोगापुरा पट्टा की जागीर दी गई, मगर पीछे से वह खालसा रख कर मणादर की जागीर देने में आई. वर्तमान समय में इसके वंशज ' जोगापुरा के महाराज ' है.



नोट—महाराव उम्मेदसिंह के समय में वि. सं. १९१९ से १९३२ तक में (१) संगवी कीस्तुरचंद तीन दफे, (२) मूंशी न्यामतअलीखां दो दफे व (३) जानी हीरानंद रोहिडे का, (४) मूंशी अमीनमहम्मद भूज का, (५) शाह चमनमल, (६) मूंशी फजलहुसेनखां, (७) पंडित किशनलाल, इस मुआफिक सात मुसाहिब हुए है. जिनको माहवार तनखाह रु. ३०) से लगाकर रु. १९०) तक मिलती थी. इनमें मूंशी न्यामतअलीखां को रियासत से ' वासण ' गांव इनाम में दिया गया और अंग्रेज सरकार के तरफ से खान बहादुर का खिताब अता हुआ था. खा. बां. न्यायतअलीखां ने महाराव कैशरीसिंह साहिब के समय में भी दोए दफे दीवानगिरी की है, वर्तमान समय में उसका पोता नजीरहुसेन के तरफ ' वासण ' गांव की जागीर है, और उसको रियासत के तरफ से पैर में सोना पहिने की इज्जत बसी हुई है.

## बलू देवडा चौहान ( महाराव कैसरीसिंह. )


नं. २५ महाराव कैसरीसिंह का जन्म वि. सं. १९१४ श्रावण वदि १४ ( तारीख २०-७-१८५७ ई.) के दिन हुआ, और वि. सं. १९३२ आश्विन वदि १ के दिन अपने पिता के पीछे पूरे इख्तियार से गद्दी पर बैठे. मरहूम महाराव के समय में राज्य की हालत विगड जाने के कारण, राज्य पर रु ८९०००) का ऋण था और आमदनी सिर्फ १०५०००) की थी. आबू पहाड पर अंग्रेजों की आमदरफ्त ज्यादा होनेसे वहांपर जानेका प्रसंग बढ रहा था, परन्तु वहांपर ठहरने के वास्ते रियासत का बङ्गला नहीं होनेसे खुद महाराव साहिव भी देलवाडे की धर्मशाला में मुकाम करते थे, ऐसी तङ्ग हालत में राज्य की लगाम इनके हाथ में आई, तब भी महाराव ने अपना कारोबार करकसर से चला कर, दो साल में ही आबू पहाड पर एक बङ्गला खरीद किया, काशी की यात्रा करके कलकत्ता की सहेल की, सिरोही में बाग नहीं होनेसे 'कैसर बिलास' नामक बगीचा बनवाया और बाईजीलाल के आणे का खर्च लगाते हुए, रु. ७७०००) की रकम कर्जा में देदी, जिससे वि. सं. १९३५ में सिर्फ रु. १२०००) का कर्जा रियासत पर रह गया.

वि. सं. १९३३ में इसने कर्नल कार्नेली साहेब की सलाह मुआफिक सासन धर्मादा की जमीन रियासत की संजूरी के सिवाय न बेचने का और बेचने पर उसका पूरा लगान राज में दाखिल करने का सक्च्यूलर जारी किया. इसी साल में श्रीमति किन विक्टोरिया ने 'कैसरे हिन्द' का पद धारण किया और सिरोही रियासत को झंडा बक्षा गया.

वि. सं. १९३६ में अंग्रेज सरकार के साथ "नमक चुंगी" का अहदनामा हुआ, जिसके जरिये सिरोही रियासत को रु. १८००) नकद व १८००० बंगाली मन नमक आधा महसूल से देने का तय हुआ, लेकिन पीछेसे ता. २३-२-१८८४ इस्वी के अहदनामे से आधा महसूल के एवजाने की रकम रु. ९०००) ठहराई जाकर 'नमक चुंगी' की रु. १०८००) की रकम हरसाल देने का अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया, जो मिल रही है.

सिरोही रियासत के सरदार लोग बात बात में फसाद मचाने को मुस्तेद होने से वि. सं. १९३४ में वेलांगरी व धाणता के सरदारों ने आपस में फिर झगडा करके मुकाबला किया, जिसमें धाणता का देवडा कानसिंह वेलांगरी वालों के हाथ से मारा गया, उस फसाद करने वालों को सजा देने का काम खतम हुआ कि, वि. सं १९३६ में बजावत सरदारोंने मेलावा करके मणादर के राजसाहेब तेजसिंह पर अचानक हमला करके

राजकुल सिरोही के नं. २५ वाल महाराव.



स्वर्गवासी महाराजाधिराज महाराव सर कैसरीसिंह साहव बहादुर.

जी. सी. आई. ई. के. सी. एस. आई.

[ विभाग पहिला पृष्ठ ३२२ ]



उसको मणादर से निकाल दिया और राजसाहेब की मालमत्ता लूट ली. महाराव साहिव ने वजावतों को सजा करने के वास्ते फौज की तय्यारी की, उधर वजावतों ने राज्य की फौज के साथ मुकाबला करने को झाड़ोली गांव में मोरचा बन्धी करके करीब आठसौं हथियार बन्ध आदमी का जमाव कर लिया. उसी समय में रांवाडा का ठाकुर शार्दूलसिंह भी वागी होकर लूट मचाता था, जिससे परगने खूणी में राज की फौज के साथ खूणी के दूसरे सरदारों को उस परगने की हिफाजत के वास्ते रख कर, रियासत की दूसरी फौज ने लखावत, डुंगरावत, चीबाओत, अबावत, व राणावत आदि सिरोही रियासत के सरदार और सिराही रियासत के साथ प्राचीन समय में ताह्लुक रखने वाले xजोधपुर रियासत के विशलपुर, वांकली व कोरटा के लखावत, सियाणा के बोडा चौहान, रामसीण के काबा परमार, लोहियाणा के दियोल राणा, वांकड़िया वड़गांम के वड़गांमा देवडा, व नाणा के राणावत व रायपरिया के डुंगरावत आदि सरदारों की जमियत के साथ राजसाहेब जामतसिंह की सरदारी में झाड़ोली पर चढाई की. दोनों फौज का मुकाबला हुआ, जिसमें कुछ समय तक वजावतों ने मुकाबला किया, परन्तु उसमें उनके कितनेक आदमी मारे गये और जखमी हुए, जिससे उनके पैर उखड गये और राज्य की फौजने फतह पाकर झाड़ोली गांव बरबाद करके उसपर कब्जा कर राजसाहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर पर भेजे गये. इस लडाई का वर्णन जांखर के कवि आढा राघवदान ने विस्तार से गीत कवित्त में किया है, उसमें राज्य की फौज में जिन जिन राजपूतों ने बीरता दिखलाई उनके वास्ते कवि ने कहा है कि—

“ फौज मुसाहब फवे, जबर साहेब नृप जामंत; एक एक से अधिक, जसा पृथीराज के सामंत. ”

“ सोनो भड चहुआण, सरस लड़ीयो होए सूरु; सांमो खागां चढ़, प्रवल कीधां जुद्ध पुरो. ”

“ डुंगर रामींग अरियां दलन, कंठीरव जीम कोपिया; रामींग दियो खगां रमे, एत्र हुआ एल ओपिया. ”

यानी इस लडाई में खास सिरोहीनगर का चौहान सोनसिंह, पिन्डवारा का देवडा रामसिंह व खाखरवाडा का दीया राजपूत रामसिंह ने बहुत पराक्रम दिखाया, वल्कि यह तीनों जखमी हुए थे, वैसे इनके सिवाय राज्य की फौज में वसंतगढ का ग्रासिया खीमा, भटाणा का भील चतरा, नागाणी का सरदार चीवा भारतसिंह व निंबज का राजपूत उहड कानसिंह, इस मुआफिक सात आदमी जखमी हुए, उसमें दीया रामींग पीछे से मर गया.

x जोधपुर रियासत के सरदारों की जमियत में लोहियाणा का राणा व नाणा ठाकुर की तरफ से उनके प्रवान जमियत के साथ आये थे, और दूसरे ठिकाने के खुद ठाकुर अपनी २ जमियत के साथ हाजिर रहे थे, वजावतों में मणोरा का सरदार हीरसिंह और दूसरे सात आदमी काम आये और बहुतसे आदमी जखमी हुए, राजकी फौज के आठ सवारों ( जिसमें चौहान सोनसिंह व देवडा रामींग भी शामिल थे ) ने वक्तर टोप पहिने थे. श्रावण सुदि १० के दिन झाड़ोली फतह कर फौज वापस आई तब महाराव ने फौज में शरिक रहे सरदारों को और बहादुरी बताने वाले राजपूत और सिपाहीयों को शिरोपाव देकर संतुष्ट किये, जिसमें पिन्डवारा के देवडा रामींग को एक बडा अरठ की जागीर दी गई.



कुछ समय बाद वजावतों का फैसला हुआ जिसमें उन्होंने मणादर का दावा छोड़ दिया, जिससे उनकी जागीर उनको वापस दे दी गई और बैठाये गये. दूसरी तरफ रांवाडा ठाकुर शार्दूलसिंह ने केराल गांव के सिंधल जोरसिंह को मारकर सख्त बगावत की और जगह २ लूट खोस होने लगी, उसके पीछे फौजदार नाथूसिंह फौज के साथ लग रहा था, परन्तु रांवाडा वाले की सहायता में मीणे, भीलों का बडा गिरोह होनेसे व जोधपुर रियासत के सरदारों की पनाह होनेसे वह हाथ आता नहीं था, अखिर तीन साल तक उसका पीछा लेने से वि. सं. १९३९ में वह पकड़ा गया, और उसको ● गोली लगाकर देहान्त की सजा दी व रांवाडा की जागीर खालसा राज करने में आई: इस कार्य में फौजदार नाथूसिंह ने अच्छी नौकरी करने से उसको वराडा गांव में आधा हिस्सा की जागीर इनाम में दी गई.

उपरोक्त सरदारों को सख्त सजा होनेसे ऐसे जुर्म करने में सरदार लोग खयाल रखने लगे परन्तु छोटी २ बातों में और आपस की तकरार में रियासत से दादरसी हासिल नहीं करते बगावत करने की आदत नहीं छूटने से, इस महाराव को कई दफे जाती मिहनत और तकलीफ उठाना पडा, और महिनो २ तक दौरे में रहकर खुद ने मौके पर जाकर समाधान किये.

रांवाडा ठाकुर को सजा देने बाद महाराव ने खुद इन्साफ का काम करने की गरज से वि. सं. १९४० में हजूर आसिस्टन्ट की जगह कायम की, और अदालतों के फैसले पर होती अपीलों का फैसला खुद देने लगे. वि. सं. १९४३ में राहदारी दाण लेना कतई बंद करके दाण मुत्ताहिक सरदारों का हकहकूक तय कर उनके साथ अहदनामे किये गये, और व्यापार की तरक्की करने के वास्ते दाण की शरह कम करके कानून जारी किया, जिसके नतीजे से सायर दाण की आमदनी जो रु. २९०००) की थी वह एकदम बढ़ गई और व्यापार रोजगार बहुत बढ़ गया. इसी तरह जो जो खेडे जगह २ वैरान पडे थे, उनको आबाद करने के वास्ते खास तौर पर रियायत करके कितनेक खेडे जागीरदारों को दिये गये, और कितनेक खेडे जो रुवाई भितरोट (परगने पिन्डवारा रोहीड़ा

\* रांवाडा ठाकुर व उसके मतिये को सारणेश्वरजी महादेव के रास्ते पर देहान्त की सजा अमल में लाई गई, कहा जाता है कि जब कि बारह गोली उसके बदन में लग चुकी तब वह जमीन पर गिरा, उस ठाकुर ने अपनी बीरता का उपयोग बगावत के काम में नहीं किया होता तो एक नामी सरदार की पंक्ति में वह गिणने काबिल था. वर्तमान समय में उसका स्मारक उसी स्थान पर है जहां उसको सजा दी थी.

× वि. सं. १९४४ में भटाणा ठिकाने की दोनों पांती के सरदार दरमियान आपस की तकरार बढ़ जाने से महाराव साहिब ने भटाणे जाकर उनका समाधानी के साथ तसफिया किया. वि. सं. १९५४ में मगरीवाडा के सरदारों ने आपस की तकरार में बगावत की, जिस में देवडा कानसिंह मारा गया, उसका समाधान महाराव साहिबने खुद जाकर किया. इस तरह बहुत से सरदारान मुत्ताहिक मुआमिले व सरहदी तनाजे जो रियासत के मुसाहिबों से होने जैसे नहीं थे, उनके वास्ते महाराव साहिब खुद तकलीफ उठाकर मौके पर पहुंच कर काम अन्नाम पहुंचा देते थे.

व सातपुर ) में थे उनमें मेवाड के व भास्वर परगने के ग्रासिये भीलों को अमुक वर्ष तक कम लगान लेने के ठहराव से काश्त की जमीन देकर आवाद किये गये, जिससे वि. सं. १९५० तक में उन परगनों में जङ्गल झाडी कट गई और बहुत से खेडे आवाद हो गये, बल्कि रियासत की आमदनी तीन लाख रुपयों की हो गई.

वि. सं. १९५० में जङ्गलात का अलग मेहकमा कायम किया गया, और दीवानी अदालत के वास्ते वि. सं. १९५१ में स्टैम्पका कानून जारी करके मियादसमायत का धोरण अमल में लानेकी शुरुआत हुई, लेकिन मियाद के वास्ते बार बार महाजनों की तरफ से ज्यादा मियाद मिलने की अर्ज होने से कई वर्षों बाद वह कानून अमल में आसका.

इसी साल में ( वि. सं. १९५१ में ) महाराव साहिब ने जमीन महसूल की तरफ़ी के तरफ खयाल किया, और रियासत के पुराने दफ्तर पर से सरदारान् के साथ व रियाया के साथ जो जो ठहराव हुए थे और वक्तन फवक्तन परवाने दिये गये थे, वे एक जगह मिलसके उसके वास्ते परगने वार किताब तैयार कराई गई, यदि रियासत कि तरफ से सुधारा करने का प्रयत्न किया जावे वह फायदेमंद हे या नहीं, उस पर खयाल न करते वैसे नये सुधारे के सामने विरोध उठाना और उसको बन्द कराने के वास्ते उचाला आदि इलाज काम में लेना, यह प्रणाली सिरोही रियासत की प्रजा में परंपरा से चली आने से, हरएक सुधारे के कार्य में सिरोही की प्रजा के तरफ से सहायता व उत्तेजन नहीं मिलने के कारण, दूसरी रियासतों में उस जमाने में जो नये सुधारे दाखिल हो चुके थे, वैसे लाभ प्राप्त करने में सिरोही की प्रजा पीछे रहने पाई है. इसी कारण महाराव साहिब का इरादा जमीन का महसूल जो भाग बटाई व हलबन्धी से वसूल होता था, उसके एवज में बाजासा बन्दोबस्त करके नकद लगान मुकरर करने का हुआ, और अजमायश के खातिर वि. सं. १९५१ में इस पुस्तक के लेखक को नौकर रख कर, खास सिरोही में कितनेक अरठों की नकद लगान से महसूल लेने की तजवीज अमल में लाई गई, परन्तु काश्तकारों ने वह तजवीज पसंद नहीं की, जिससे वे कुएँ ठेकेदारी से महाजन को दिये गये, और बाद में वि. सं. १९५४ में कितनेक पटवारी रखने की तजवीज हुई, लेकिन वि. सं. १९५६ की कहतसाली होने से वह तजवीज अमल में नहीं लाते वि. सं. १९५९ में अमल में लाई गई, उन पटवारीयों से रेवेन्यू वसूलात के साथ सेटलमेंट करने के काम में सहायता मिले, वैसे रैकर्ड तहसील पिन्डवारा, रोहीड़ा व सांतपुर के वास्ते तैयार कराया गया, और जहांपर नई आबादी की रियायत खतम होने आई थी वहां की हलबन्धी बन्द करके भाग बटाई का सिलसिला दाखिल किया गया. वि. सं. १९६२ में परगने खूणी में पटवारी मुकरर हुए और वि. सं. १९६६ में मी. एम. कीन I. C. S. की नौकरी सेटलमेंट ऑफिसर के तौर पर अंग्रेज सरकार से लेकर

बन्दोवस्त का मेहकमा कायम हुआ. साहेब मोसूफने पेमायश करा कर रेकर्डस बनाया, सरहद्दी तनाजे के फैसले किये, और प्रथम सांतपुर परगने में नकद लगान दाखिल करने का काम हाथ में लिया, परन्तु जब कि नकद लगान के खाते परचे देनेकी तजवीज हुई तब काश्तकारों ने नकद लगान देना मंजूर नहीं करने से मजबूरन् नकद लगान का तरीका मुलतवी रखना पडा. इसी मुआफिक सेटलमेंट ओफिसर के तरफसे परगने खूणी के गांवों में पटवारी रखने से, वहां के जागीरदारों ने उजर करके बगावत की और अंग्रेजी डाक लूट ली, जिसपर राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल सर इलियेट कोलविन साहेब बहादुर ने सिरोही मुकाम करके जागीरदारों को समझायश कर बगावत रफे की, और पटवारीयान् को जागीरी गांवों से वापस बुला लिये गये. खूणी के सरदारों को बगावत करने में सफलता प्राप्त होनेसे मंडार परगने के लखावत सरदारों ने भी सेटलमेन्ट के काम में खलल डालने को बगावत करना शुरु किया, जिससे वि. सं. १९७० में बन्दोवस्त का काम बंद करना पडा. इस काम के पीछे चार वर्ष में करीब चार लाख रुपये खर्च हुए, यदि सेटलमेंट सम्पूर्ण न होनेसे नकद लगान नहीं हो सका, लेकिन बहुत से सरहद्दी तनाजे और माफियात के मुकदमे के तसफिये हो गये, वैसे किश्तवार पेमायश होकर गांव वार संगीन रेकर्डस बनने पाया, इतना फायदा जरूर हुआ. इसी कारण सिरोही रियासत में अबतक यही प्रथा चल रही है कि काश्तकार चाहे तो + नकद लगान किया जावे, वरना भाग बटाई से हांसिल लिया जाता है.

सिरोही रियासत में आवकारी मेहकमा नहीं था, और सरदार लोग भी अपनी मर्जी मुताबिक शराब की भट्टीयां निकलवाते थे, जिससे आवकारी का इन्तिजाम करना आवश्यक होनेसे सरदारों के साथ उनके हक हकूक की रकम तय करने का काम स्वयं महाराव साहिब ने अपने हाथ में लिया, और आहिस्ता २ वि. सं. १९५० से १९६४ तक में वह काम जातो निगरानी में खतम करके सेंट्रल इन्डिया के आवकारी कमिश्नर मी. कोक्ष साहेब I. C. S. की सलाह से वि. सं. १९६५ में मद्रास सिस्टम के धोरण से कानून बना कर आवकारी मेहकमा कायम किया गया, जिससे आवकारी की आमद चौगुनी हो गई.

महाराव साहिब ने जिस तरह राज्य की आमदनी बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जह दिया उसी तरह प्रजा की उन्नति और आराम के वास्ते भी कई एक लक्ष रुपये खर्च किये,

+नकद लगान का तरीका युक्त २ कितनेक परगने में विद्यमान है, परन्तु उसके वास्ते एक धोरण नहीं होनेसे मौजूदा महाराव साहिब ने सन् १९२४ इस्वी में नकद लगान से जमीन रखने वालोंको अपनी जमीन का तनादला आदि करने के हक हकूक खास कानून करके अता फरमाया है, और सन् १९२६ इस्वी में खालसा गांवों में बाजासा बंदोबस्त करके नकद लगान करने की गरज से अंग्रेज सरकार का रिटायर्ड आसिस्टेंट पोलिटिकल ओफिसर रा. बा. केशवलाल (अमदावाद वाले) को इस काम पर मुकदर किया था, परन्तु गुजिस्ता सोल में कम बारिश होने के कारण वह काम हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा गया.

मुसाफिरोँ को आराम के वास्ते पिन्डवारा व कैसरगंज में धर्मशाला बनवाई, आबू पहाड पर जानेका रास्ता बनाने में सहायता दी, और आबु पर 'ट्रेवरटेंक' नामका तलाव बनाया, सिरोही नगर के पास 'मातर माता' नामक स्थल पहाड पर होनेसे वहांपर जानेके वास्ते सडक बनवा कर वहांपर 'एबटटेंक' नामका तलाव बनाया, काश्तकारों को खेती के काम में मदद मिले इस हेतु से भूलां गांव में बडा बन्ध नदी पर डालना शुरू किया, पिन्डवारा परगने में 'ज्युबीलीटेंक' व 'साबेलाटेंक' नाम के तलाव बनाये गये, सांतपुर परगने में 'चंडेलाटेंक' व 'मंडोवरीटेंक' नामके तालाव बंधवाये, और इलाका में कौन २ स्थल पर तलाव बंधा आदि पानी का जमाव होने का मौका है उनकी तपास कराकर कई एक प्रोजेक्ट तय्यार कराये गये, जिसमें से खास सिरोही नगर में 'मानसरोवर' नामक तालाव रियासत से बनाया गया, और पिन्डवारा परगने में सिवेरा गांव के पास 'कैसरसागर' नामक सब से बडा तालाव महाराव साहिव विद्यमान होने की हालत में ही, महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह ने अपने पिता के नामसे बनवाया. इसी तरह वि. सं. १९५६ की कहत साली में मेवाड से आकर आवाद हुये भोल ग्रासियों की जान बचाने के वास्ते, कर्जदारी करके उनका पोषण किया गया, और भविष्य में ऐसी आफतों के सामने सिरोही की प्रजा अपना बचाव कर सके इस हेतु से, रियासत से खर्च लगवाकर हजारों कुएं व सारण तैयार कराई गई जिसका परिणाम यह आया कि, वि. सं. १९५९ बाद जो जो छोटी बडी कहतसाली हुई उसमें रियासत के तरफ से फेमिन वर्क खोलने की तजवीज होने पर भी एक भी, काश्तकार को उसका सहारा लेनेकी आवश्यकता नहीं रही है.

महाराव साहिवने सिरोही खास में 'कॉलविन हाईस्कूल' और 'क्रोस्थवेट होस्पिटल' के मकान बनवाये, और सिरोही पिन्डवारा व आबूरोड अंबाजी के पहाडी रास्ता पर गाडियां चल सके वैसा रास्ता बनवाया, वैसे जगह २ राज्य के थाणे मुकर्रर करके चोरोँ से प्रजाका बचाव होवे वैसा इन्तिजाम किया. मौणे भील आदि जरायम पेशा कोम वाले लोगों को काश्तकारी में लगाये, और पिन्डवारा व सिरोही में स्थायी सदाव्रत जारी किये, सिरोही नगर में व कैसरगंज में 'कैसर विलास' नाम के बगीचे बनाये और आबू पहाड पर भी बगीचा बनाया गया. इनके समय में ही महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह ने 'धारावती वावडी' के स्थान पर 'स्वरूप विलास' नामक बगीचा बनवाया और एक कोठी भी वहां पर बनवाई गई.

\* स्वरूप विलास बगीचा, सिरोही नगर में एक नमूनेदार स्थान है, मौजूदा महाराव साहिव ज्यादातर वहां पर निवास करना पसंद करते है, जिससे कोठीके पासही दो जनानी महलात बनवाने में आये है, और रोशनी व हवा के वास्ते विजलीका कारखाना वहां पर खोल रखा है. उक्त बगीचा में मौजूदा महाराव साहिव ने एक बडी कोठी बनवाना शुरू किया है और 'गोपालसागर' नामक बडा कुँआ इस हेतु से बनाया है कि उससे बगीचाके उपरांत सिरोही नगर की प्रजा को भी नल द्वारा पानी

सिरोही रियासत में सिवाय सिरोही नगर में प्राचीन महलात के दूसरे रईस के ठहरने के काबिल मकानात नहीं थे, जिससे महाराव साहिब ने महलात में अजाफा करके 'फूल महल' जनानी महलात, और 'कैसर बिलास' बगीचे में एक नई कोठी, बनाने में आये, और 'गेस्ट हाउस' की बड़ी कोठीका काम शुरु किया गया, (परन्तु वह अपूर्ण रह गया है.) इसी मुआफिक कैसरगंज में एक नई कोठी व आबू पहाड पर दो कोठी बनाई गई, और वहां पर रियासत के बड़े २ ओफिसरों के ठहरने के वास्ते अलग २ बंगले बना लिये.

सिरोही रियासत पर बार २ मुगलों का आक्रमण होता आया था, और महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं. १८७४ में) जोधपुर रियासत की फौज ने सिरोही का राज्य महल लूट लेने से, प्राचीन समय का लवाजमा व राज्याडंबर साहित्यों का विनाश हो चुका था, महाराव शिवसिंह ने बड़ी मुश्किल से राज्य को कर्जदारी से मुक्त किया और कुछ जर जवाहिर का संग्रह कर सके, लेकिन महाराव उम्मेदसिंह बहुत उदार व भक्त होनेसे, राज्याडंबर के साहित्यों तरफ उसका खयाल नहीं रहा, जिससे महाराव कैसरीसिंह के गद्दी पर आनेके समय में राज्य के बगीखाने में सिर्फ एक ही पुरानी बगी, और दोचार डेरे थे. महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते नया बगीखाना बनवा कर, हरेक प्रकार की बगियें, मोटरें, और डेरे तंबू सामियाने वगैरह सरंजाम तय्यार कराकर एक बड़ी रियासत का मुकाबला हो सके इतनी राज्य-वैभव की सामग्री इकट्ठी की है.

महाराव साहिब ने अपनी योग्यता व कार गुजारी से खुद के लिये वि. सं. १९५१ में के. सी. एस. आई. (K. C. S. I.) और वि. सं. १९५८ में जी. सी. आई. ई. (G. C. I. E.) के मानवंते खिताब और वि. सं. १९७४ में निज के वास्ते १७ तोपों का मान अंग्रेज सरकार की तरफ से हासिल किया, वैसे वंश परंपरा के वास्ते वि. सं. १९४५ में 'महाराव'

पहुँचाया जावे, यदि 'गोपाल सागर' से इस समय में इन्जिन लगाकर बगीचे में पानी दिया जा रहा है, और खोदने का काम जारी है, परन्तु उम्मेद की जाती है कि कुछ समय में इससे सिरोही नगर के शहेरियों को पानी पूरा हो सके इतना पानी हो आयगा, इसी मुआफिक 'कैसर बिलास' बगीचे में भी 'कैसर सागर' नामक बड़ा कुंआ बनाया गया है, जिस में बोरींग करके काफी पानी कराया गया, जिस से उस बगीचे को पानी देने का प्रबला साधन होने पाया है, उस बगीचे को व कैसरगंज के बगीचे को नई दम के बाग बनाने के वास्ते महाराव साहिब बहुत उत्सुक हैं.

÷ सिरोही के रईस को दूमरी रियासत के तरफ से 'महाराव' या 'महाराय' लिखने का परंपरा से रिवाज था, और महाराव के नजदिकी भाईयों को 'राव' पद से लिखावट होती थी. जब कि महाराव उदयभाण को पदभ्रष्ट किया गया तब शिवसिंह उसका छोटाभाई होने के कारण 'राव शिवसिंह' कहलाता था, और महाराव उदयभाण की हयाती में ही राव शिवसिंह ने अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करने से अहदनामे में 'राव' पदवी की लिखावट हुई, और वही प्रणालिका महाराव होने पर भी चढ़ रही, यानि रियासत की तरफ से होती लिखावट में 'महाराव' लिखे जाते थे, परन्तु अंग्रेज सरकार के तरफसे होती लिखावट में 'राव' लिखा जाता था.

का पद और वि. सं. १९७४ में 'महाराजाधिराज' का पद की सनद अंग्रेज सरकार के तरफ से प्राप्त हुई, जिससे लिखावट में अब सिरौही के रईस को 'महाराजाधिराज महाराव सिरौही' के पद से अंग्रेज सरकार की तरफ से भी तहरीर होती है.

सिरौही रियासत में नाओलाद सरदार की जागीर खालसे रखना या किसी को गोद रखना मंजूर करना यह बात परंपरा से रईस की मर्जी पर होनेसे, वि. सं. १८७५ में महाराव शिवसिंह ने हुकम जारी किया था कि, कोई सरदार रियासत की मंजूरी बगैर गोद लेने नहीं पावे, लेकिन बाजे वक्त सरदार लोग उस हुकम के खिलाफ तजवीज करने के कारण उनको सजा दी जाती थी. इस महाराव के समय में वि. सं. १९६४ में कालन्द्री के ठाकुर पृथ्वीराज नाओलाद गुजर गया, उसके गोद जाने का हक हकूक की तहकीकात हो रही थी, दरमियान बरलूठ के देवडा कानसिंह को ठकराणी ने बगैर मंजूरी राज जनाने में गोद रखा, वह सुनतेही मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपने कुमार स्वरूपसिंह को कालन्द्री ठिकाने के पडवे में गोद जाना जाहिर करके बैठा दिया. दोनों तरफ से अपने २ पक्ष के सरदारान की जमियत मय तोपें वगैरह हथियार सामग्री के कालन्द्री में जमा हुई, जिससे सुलह का भंग नहीं होवे उसके लिये महाराव साहिब ने रियासत की पलटन वहां पर भेजी, और शाह मिलापचंद दीवान को मौके पर भेज कर जब तक तहकीकात होकर राज से गोद मंजूर नहीं होवे वहां तक दोनों को कालन्द्री से बाहिर कर देने की आज्ञा दी. दीवान मिलायचंद ने हिकमतअमली के साथ सहूलियत से मोटागांव के कुमार को मोटागांव भेज दिया, और बरलूठ के कानसिंह को सिरौही लाकर कालन्द्री ठिकाने में राज्य की जप्ती बैठा दी, अखीर बाद तहकीकात पोलिटिकल ओफिसर की सलाह से कानसिंह का गोद मंजूर रखा गया, और अदूल-हुक्मी करने के कारण जप्ती का कुल खर्च जुमाने के साथ लेनेका हुक्म किया गया.

कानसिंह का गोद मंजूर होने से मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपने गांव में मोरचाबंधी करके रियासत के साथ सामना करने को अपनी जमियत इकट्ठी की और बगावत करने लगे, जिससे फौजदार चैनसिंह की सरदारी में रियासत की फौज वहां पर भेजी गई, ठाकुर लक्ष्मणसिंह मुकाबला करने को आमादा हुआ और राजकी फौज पर अचानक बन्दूक चलाने लगे, जिसमें राज की पलटन का हवालदार सिंदल पन्ना केरालवाला को गोली लगने से वह मारा गया, जिस पर फौजदार चैनसिंह ने फौज के सिपाहियों को हमला करने की आज्ञा दी, राज की फौज ने मोरचाबंधी तोड़

\* मावल गिरवर की जागीर पर नित्रज का उदेसिंह बगैर मंजूरी गोद जानेसे उसको कैद की सजा हुई थी. महाराव सर कैसरीसिंह के समय में अपुत्रवान होने के कारण से, १ जोयला, २ कीवरली की बडी पांती, ३ वाल्दा व ४ मणादर की जागीरें खालसे राज हुई हैं, और बहुतसी जागीर पर गोद मंजूर किये गये है.

कर गांव में प्रवेश किया, लेकिन ठाकुर लक्ष्मणसिंह गांव छोड़कर भाग निकला, और राज का थाना मोटागांव ठिकाने में बैठाया जाकर जागीर खालसा की गई.

ठाकुर लक्ष्मणसिंह चार पांच साल तक रियासत जोधपूर में पनाह लेकर भागता रहा, मगर पीछे से अपने आप महाराव साहिब के पास हाजिर हुआ और अपने अपराध की क्षमा मांगी, जिसपर महाराव साहिब ने उसके पट्टा का सिर्फ 'गडा' गांव खालसा रख कर मोटागांव की जागीर वापस दी, और सिंदल पन्ना की ओलाद वाले के वास्ते मोटागांव ठिकाने से एक अरठ दिया गया.

वि. सं. १९७५ की इन्फ्लूअन्जा की बीमारी के समय में कालन्द्री ठाकुर कानसिंह व मोटागांव के ठाकुर स्वरूपसिंह नाओलाद गुजर गये, जिसपर सब डुंगरावत सरदारों ने राज्य की मंजूरी हासिल नहीं करते, कालन्द्री में कांकेदरा के चिमनसिंह को व मोटागांव म बरलूठ के किशोरसिंह को गोद बैठा दिये, और रियासत से उनको हरकत नहीं होवे उस कारण, दोनों ठिकाने में कितनेक आदमियों की हथियार बंध जमियत रखकर डुंगरावत सरदार बगावत में पहाड़ों में जाकर बैठे. महाराव साहिब ने डुंगरावत सरदारों को समझायश करके बैठा दिये, परन्तु कांकेदरा का चिमनसिंह व बरलूठ का किशोरसिंह हाजिर नहीं आये और ठाकुर बनके बैठ रहे. महाराव साहिब ने सुलह का भंग नहीं होवे उस कारण, दो तीन माह तक सख्ती के इलाज नहीं लेते समझायश से हाजिर आजावे वैसा प्रयत्न किया परन्तु वे हाजिर नहीं आये, फौज भेजकर पकडने की तजवीज करने से सुलह के भंग होने का व वे भाग जावे वैसा अन्देशा होने से, महाराव साहिब खुद छोड़ी सवारी शिकार के बहाने से कालन्द्री पहुंचे, और चिमनसिंह जो जनाने में था उसको अपने साथ बाहिर ले आये, फिर वहां से मोटागांव पहुंच कर किशोरसिंह को भी अपने साथ कर लिया और दोनों को सिरोही लाकर नजर कैद रखे गये, बाद उनके हक हकूक की तहकीकात करके उन्होंको ही उन ठिकाने में गोद रखने की मंजूरी दी गई, और अदूल हुक्मी की सजा में उनपर जुर्माना करके कितनेक हकहकूक में फेरफार करके जागीर पर कायम किये गये.

सिरोही रियासत के सरदारों के वास्ते बगावत करना यह मामूली बात होने से, इस महाराव के समय में शायद ही ऐसा कोई वर्ष में बगावत में सरदार नहीं हो, वैसा प्रसंग गुजरा होगा, वे लोग बगावत में रेवारियों से बकरे छीनना, काश्तकारों के अरठों की माल काट कर नुकसान पहुंचाना, काश्तकारों को और व्योपारी को पकड ले जाना और उससे जुर्माना लेना, अंग्रेजी डाक को रोकना व थेले छीन लेना, ऐसे जुर्म करते हैं, परन्तु ऐसी कसूर के वास्ते पोलिटिकल ओफिसर भी दरगुजर करना पसंद करते हैं, जिससे बात बात में ऐसे गुनाह कर बैठने की सरदारों को

आदत हो गई थी, अंग्रेजी डाक खूणी के सरदारों ने लूट ली थी, दवाणी ठाकुर ने डाक की थेली व गवरमेन्ट कमिसरीएट के बकरे छीने थे, और रहुआ ठाकुर ने डाक रनर को कई रोज डाक की थेली के साथ रोक रखा था, मगर वे सब कसूरों की महाराव साहिब ने और अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल ओफिसरों ने मुआफी बक्षी थी. ऐसी सूरत में सिरोही के रईसों को अपना राज्य चलाने में हर वक्त बहुत मुश्किली पडने पाई है, बल्कि सिरोही के सरदारों के साथ महाराव सर कैसरीसिंह ने किस तरह राज्य चलाकर सुलह को संभाला, उस विषय में कईएक पोलिटिकल ओफिसरों ने अपनी कृतज्ञुबी जाहिर की है.

महाराव सर कैसरीसिंह शिकार के बहुत शौकिन और निशाना लगाने में बहुत प्रवीण थे. तीर्थयात्रा व देशाटन करने का ज्यादाह शौक होनेसे कई दफे खुशकी व रैलद्वारा लंबी २ सफरें की. गंगास्नान करने के वास्ते हर साल जाने का महावरा हो गया था, बद्रीनाथ के सिवाय प्रायः हिन्दुस्तान के सब स्थलों की यात्रायें अनेकवार हो चुकी थी, तब भी देहान्त पर्यन्त तीर्थयात्रा करने की इनकी अभिलाषा तृप्त नहीं हुई थी. इनके सब काम नियमित थे, ईश्वरभजन और पूजापाठ में छः घंटा व्यतित होता था, और बाकी का समय राज्य के काम में लेते थे. धर्मध्यान के तरफ ज्यादाह लक्ष होने से इन्होंने अपने पूर्वजों की व अपनी मृतक राणियों की छत्रियें कराई, श्री सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर का बडा कोट बनवाया, मांडवारे में शांवलजी का मन्दिर बनवाया और बहुत से मन्दिरों का जिर्णोद्धार कराया, ब्राह्मण व कवियों को कितनेक अरठ दान में दिये, आबू की तलेटी में आया हुआ श्री हृषिकेश भगवान के मन्दिर के पास, मन्दाकिनी के दोनों कुण्डों की मरम्मत कराई, और महादेव के मन्दिर का जिर्णोद्धार कराके कोट बनवाया गया व उसी स्थान में 'श्री भद्रकालीजी' का प्राचीन मन्दिर गिर जाने से उसकी प्रतिमा कई वर्षों से दूसरी जगह रखी गई थी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के वास्ते उसी स्थान पर, नयेसिर नींव डालकर प्राचीन पद्धती का मन्दिर बनवाकर उसमें श्री ' भद्रकालीजी ' की प्रतिमा स्थापित की गई, और उस मन्दिर का कोट बनवाया गया, इन कार्यों में जो खर्च हुआ वह रियासत के खजाने से नहीं करते अपने जेब खर्च की आमदनी में से करकसर करके जो रकम बचाई गई थी उसमें से किया गया.

महाराव साहिब ने अपनी दूसरी महाराणी, चावडीजी ( वरसोडेवाले ) की यादगार

\* सिरोही के सरदार लोग वाजे वक्त ' एनन्ट गवरनर जनरल राजपूताना ' जैसे बडे २ पोलिटिकल अफसरों की भी परवाह नहीं करते हैं, वि. सं. १९७० में सर कॉल्विन साहब ( ए. जी. जी. राजपूताना ) ने सिरोही मुकाम करके निवन, रहुआ, दवाणी, व भटाना के सरदारों को तलब किये, लेकिन चन्द दफा ताकीद होने पर भी वे हाजिर नहीं आये, आखिर भटाना ठाकुर उदयराज अकेला हाजिर आया, उसको साहब मौसुफ ने नरमी गामी के साथ समजूत की मगर उस पर कुछ भी असर होने नहीं पाई, ऐसी अकडाई होनेका कारण ' देवडे चौहानों ' का हठीला स्वभाव और उनको चाहिये वैसी पढाई नहीं होने का ही है.



में पिन्डवारा स्टेशन पर धर्मशाला बनवाई और स्थायी सदाव्रत कायम किया. इनकी पटराणी वारडजी ( दांतावाले ) ने खास सिरोही नगर में ' महामन्दिर ' बनवाकर उस में श्री रामचन्द्रजी की प्रतिमा स्थापन की.

राज्यगद्दी पर आने के समय में राज्य की हालत अच्छी नहीं होने से करकसर से खर्च करने की आदत पड गई थी, लेकिन दान पुण्य करने में बहुत उदार होने से, इसने अपनी हयाति में लाखों रुपैये ऐसे कार्य में खर्च किये. काशीक्षेत्र में कई दफे पंडितों की सभा करके विद्वानों को पुरस्कार बांध दिया और शास्त्रोक्त पद्धति से दान पुण्य किया, हरएक विद्वान पंडित और सन्तों का इनको बहुत आदर था, और उनका अच्छा सत्कार किया जाता था.

यदि सिरोही रियासत का दो तिहाई हिस्सा सरदारों के तरफ होने से रियासत की आमदनी कम थी, तब भी महाराव साहिब ने अपने जाती परिश्रम से आबादी व आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करने से, गद्दी पर आने के समय सिर्फ एक लाख रुपैये की आमदनी थी वह बढ़कर संवत् १९५० तक में तीन लक्ष की हो चुकी थी, और वि. सं. १९७६ में जब कि राज्यगद्दी महाराज कुमार स्वरुपरामसिंह को सुपुर्द की गई तब राज्य की आमदनी दस लक्ष रुपैये की होने पाई व राज्य पर कर्जा नहीं था, और जैसे २ आमदनी बढ़ने लगी वैसे २ उसको राज्य सुधारणा के कामों में खर्च करने से, सिरोही रियासत जो नाम मात्र की रियासत गिनी जाती थी वह एक संगीन रियासत की पंक्ति में आने पाई है. महाराव साहिब ने अपने मुसाहिब और राज्यभक्त सरदारों की कदर करके वक्तूफवक्तू उनको इज्जत व इनाम देकर संतुष्ट किये हैं, भटाणा ठाकुर भारतसिंह को, व रहुआ ठाकुर अजेतसिंह के जनाने वालों को, व बरलूठ ठाकुर रावतसिंह को पैर में सोना पहिन ने की इज्जत दी, उसी मुआफिक अपने मुत्सदियों में से खानबहादुर मुन्शी न्यामतअलीखां को ' वासण ' गांव की जागीर के साथ पैर में सुवर्ण की इज्जत दी गई, शाह मिलापचंद दीवान ( सूरतवाले ) को पैर में सोने की इज्जत और रुपैये २००००) नकद, गांव के एवज में दिये गये, फौजदार वारड नाथुसिंह को आधा वराडा गांव जागीर में देकर पैर में सोना बक्षा गया व उसके पुत्र फौजदार चैनसिंह को अरठ के साथ पैर में सोना पहिन ने की इज्जत बक्षी गई, संगी समर्थमल ( सिरोहीवाला ) रैविन्यू कमिश्नर को अरठ देकर पैर में सोना की इज्जत देने में आई, और तेहसिलदार मूता रायचंद ( रोहिडावाला ) को ' नागपुरा ' गांव हयाती तक के वास्ते जागीर में देकर पैर में सोने की इज्जत दी गई, वासण के इनामदार मुन्शी नजीरहुसेनखां ( खा. वा. न्यामतअलीखां के पोते ) को पैर में सोना बक्षा गया, पांचेटिया ई. जोधपुर के कवि आढा शंकरदान को पैर में सोना की इज्जत दी गई, और साई वजीरखां ( देवगढवाला ) को नागपुरा

साई वजीरखां पीछे से एक धूर्त व ठग होना पाया गया, जिससे उसको मौजूदा महाराव साहब ने कैद की सजा देकर उसकी जागीर जप्त की और सोना छीना गया, वैसे वह जेल में ही बीमार होकर मर गया.

गांव की जागीर व पैर में सोने की इज्जत के साथ बहुत द्रव्य दे दिया था, इसके सिवाय दूसरे मुत्सद्दी आदि में से सिंधी पुनमचंद ( सिरोहीवाला ) रेवन्थू कमिश्नर को अरठ दिया गया व अंग्रेज सरकार के तरफ से ' रायसाहेब ' का खिताब दिलाया गया, सिंधी जवाहिरचंद दीवान ( सिरोहीवाला ) को ' राय बहादुर ' का खिताब दिलाया गया, व पंडित मंछाराम शुक्ल ( बनारसवाला ) सुप्रिन्टेन्डेन्ट सायर व आवकारी को ' रायसाहब ' का खिताब दिलाया गया, देवडा नवलसिंह सिरोही वाला जो प्रधान था उसको एक अरठ दिया गया, वैसे बहुत से अहलकार, हकीम, डाक्टर आदि को उनकी नौकरी की कदर करके \*मकानात वगैरह बनाने की सहायता दी गई.

महाराव सर कैसरीसिंह साहिब को प्राचीन इतिहास जानने का बहुत शौक था, जिससे जगह २ से प्राचीन हस्त लिखित ख्यात के पुस्तकों का संग्रह करने में बहुत द्रव्य खर्च किया, और x ' पेलेस पुस्तकालय ' स्थापन करने में आई, जिसमें हर एक चलू भाषा के पुस्तक उपरांत आप संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता होने से उस भाषा के बहुतसे ग्रंथसंग्रह किये गये हैं. इनके समय में राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा ( रोहिडा ई. सिरोहीवाला ) ने ' सिरोही राज्यका इतिहास ' नामक पुस्तक हिन्दी भाषामें रचकर प्रसिद्ध किया, जिस पर महाराव साहिब ने उसकी कदर करके रोहिडा गांव में उसको एक अरठ इनाममें दिया, उसी पुस्तक का अनुवाद पीछेसे पंडित सिताराम (बनारसवाला) ने अंग्रेजी भाषामें किया, जिसको भी बड़ी रकम इनाम में दी गई.

इनके चार राणियां थी, जिसमें पाटराणी वारडजी गुमानकुंवर दांता के रांगा जालमसिंह नाहरसिंहोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९३३ में पहिला विवाह हुआ जिससे वि. सं. १९४५ में कुमार स्वरूपरामसिंह का जन्म हुआ, दूसरा विवाह चावडीजी चन्दन कुंवर वरसोडा के चावडा ठाकुर खुशालसिंह जालमसिंहोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९४१ में हुआ, जिससे वि. सं. १९४४ में कुमार मानसिंह का जन्म हुआ, परन्तु कुमार का जन्म होने बाद च्यार दिन में ही चावडीजी का देहान्त हुआ और पीछे से वि. सं. १९४५ में कुमार मानसिंह का भी कैलासवास हो गया. तीसरा विवाह राणावतजी मोनकुंवर धरमपुर के महाराणा नारणदेवोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९४५ में हुआ जिससे बाई आनंदकुंवर, बाई हेतकुंवर व बाई पद्मकुंवर और कुमार लक्ष्मणसिंह के (वि. सं. १९४९ में ) जन्म हुए, जिसमें बाई पद्मकुंवर का जन्म वि. सं. १९५२ में होने बाद पंदरह दिन में ही राणी राणावतजी का स्वर्गवास हुआ, और वि. सं. १९५८ के कार्तिक

\* महाराव सर कैसरीसिंहने इस पुस्तक के लेखक को अपने वतन में मकान बनाने के कार्य में रुपये ६०००) बत्तीस किये थे, और लेखक का छोटा भाई ' नागरजी ' को ' देहरादून ' इम्पिरियल फोरेष्ट कॉलेज में भेज कर पढाई कराई थी, वैसे वि. सं. १९८० के कार्तिक माह में जब कि आप रेवा स्नान को पधारे तब वहां से छडी सवारी लेखक के वतन के गांव पधार कर उसका घर पावन करने की कृपा की थी

x यह पुस्तक में इसी पुस्तकालय की बहुत सहायता लेने में आई है.

माह में कुमार लक्ष्मणसिंह भी कैलासवास हो गये. चौथा विवाह वि. सं. १९५८ में राठौरीजी भिनाय के राजा मंगलसिंह की पुत्री के साथ हुआ जिससे वि. सं. १९६० में कुमार नारायणसिंह का जन्म हुआ, लेकिन उसके बीस रोज होते ही राठौरीजी साहब का स्वर्गवास हो गया, और डेढ़ साल की उम्र ( वि. सं. १९६२ ) में कुमार नारायणसिंह का भी कैलासवास हो गया.

महाराव साहब ने अपनी कुंवरियां के विवाह “ वाई आनंदकुंवर का विवाह वि. सं. १९६२ में वांसवाडा के भमरलाल पृथ्वीसिंह ( मौजूदा महारावल ) के साथ, व वाई हेतकुंवर का विवाह वि. सं. १९६३ में जेसलमेर के महारावल शालीवाहन के साथ, और उसी वर्ष में वाई पद्मकुंवर का विवाह भुज के महाराव खेंगारसिंह के महाराजकुमार विजयराज के साथ ” किये.

पाटराणी बारडजी साहब भी वि. सं. १९५५ में स्वर्गवास हो चुके थे, जिससे वि. सं. १९६० में राठौरीजी साहब का स्वर्गवास होने पर एक भी राणी जनाने में नहीं थी, महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह बालक पन में तन्दुरूस्त नहीं रहते थे, जिससे रियासत के मुसाहिबों ने महाराव साहब को दूसरा विवाह करने के वास्ते कई दफे सलाह दी और कितनेक मांगे भी आने लगे, परन्तु महाराव साहब ने उस पर खयाल नहीं करते दूसरा विवाह नहीं करने का दृढ निश्चय कर लिया, और महाराज कुमार साहब की तन्दुरूस्ती व बहतरी के वास्ते अपना सब ध्यान लगाकर, ईश्वर भजन के तरफ झुकना स्वीकार किया. इन्होंने केपटन् प्रीचर्ड साहब की नौकरी महाराज कुमार साहब की पढाई के लिये मांग ली, और उसके द्वारा तालीम देने में आई, कुछ समय में ही महाराज कुमार साहब तन्दुरूस्त होकर राज्य का काम देख सके वैसे होजाने से, जब कि महाराव साहब इंग्लैंड पधारे तब राज्य का काम दीवान के साथ करने का प्रबंध किया गया, और बाद में जब २ सवारी तीर्थ यात्रा को पधारे तब काम काज की निगरानी महाराज कुमार साहब के तरफ रखते हुये, वि. सं. १९६७ में दीवान की जगह बंद करके महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह साहब को ‘ मुसाहिबआला ’ के पद पर नियत किये गये, और उनको सहायता के वास्ते एक सेक्रेट्री दिया जाकर राज्य का काम सुपुर्द किया गया. च्यार साल तक इस जगह काम करने से वे प्रवीण हो गये, जिससे उनको पूर्ण इख्तियार से राज्याधिकार देनेकी तजवीज सोची गई, और उसके वास्ते प्रयत्न किया गया परन्तु उसमें सफलता नहीं हुई, जिससे वि. सं. १९७६ (अक्टोम्बर सन् १९१९ में)

×अमुक कार्य में खुद की सलाह लेनेका धोरण मुकरर करके राज्य के सब काम

× महाराज कुमार साहब को पूर्ण इख्तियार से काम सुपुर्द करने का पधाना में अपनी सलाह लेने के विषय में यह बातें दर्ज हुई थी कि ( १ ) रुपये १००) से ज्यादा तनखाह वाले अहलकार को रखने में, ( २ ) रुपये १०००) से ज्यादा इनाम देने के वास्ते, ( ३ ) जमीन जागीर बक्षने के काम में ( ४ ) जागीरदारों के साथ राज्य के हक-हकूक तय करने के सुआमिदात में, ( ५ ) अंग्रेज सरकार के साथ होती लिखा पदी के जरूरी कागजों में, महाराव साहब की सलाह ले ली जाय.

महाराज कुमार साहब की सुपुर्दगी में किये गये, और आप अपना ज्यादा समय धर्म ध्यान में व्यतित करने लगे, इतनाही नहीं परन्तु च्यार महिने बाद देहली जाकर नामदार वॉयसरॉय के आगे महाराज कुमार साहेब को पूर्ण इख्तियार के साथ सिरोही के महाराव बनाने की अभिलाषा प्रदर्शित की गई, जिस पर वॉयसरॉय साहब ने महाराज कुमार साहब को सब रीत से राज्य चलाने काबिल समझ कर, पूर्ण इख्तियार से राज्य सौंपने के कार्य में अपनी सम्मति दी, और दो माह बाद ता. २९ एप्रिल सन् १९२० ई. ( वि. सं. १९७६ ) के दिन महाराव साहिब की इच्छानुसार महाराज कुमार साहब का राज्याभिषेक सिरोही में हुआ, जिसमें राजपूताना के एजन्ट गवरनर जनरल मी. होलेन्ड साहब बहादुर ने जलसा शरीक होकर, हिन्दुस्तान की सरकार तरफ से भेजा हुआ महाराव सर कैसरीसिंह के नाम का खरीता आम दरबार में सुनाकर सुपुर्द किया, वैसे महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सिरोही के ' महाराजाधिराज महाराव ' के पद पर सम्पूर्ण इख्तियार से स्वीकार करने का खरीता भी उसी दरबार में सौंपा गया.

महाराव सर कैसरीसिंह साहब अंग्रेज सरकार के बड़े वफादार और अंग्रेज अफसरों के सच्चे दोस्त थे, यदि सिरोही रियासत की आमदनी शुरुआत में बहुत ही कम थी तब भी राजपूताना के रईसों ने जिन २ कामों में चंदा दिया, उनमें सिरोही रियासत ने भी अच्छी रकम दी थी. यूरोप के महान युद्ध में महाराव साहब ने अपनी तरफ से एक कम्पनी की सहायता की, और डेरे तम्बू व घोड़े भेजे गये, जखमी यूरोपियन अफसरों के वास्ते आबू पहाड पर जो अपनी नई कोठी थी वह सुपुर्द की, और उसमें जो जो अफसरान् रखे गये उन सबका खर्चा रियासत से उठाया गया. इनके सिवाय युद्ध के समय में हरएक प्रकार के चन्दे में उदार दिल से रकम देते गये, और नामदार शहनशाह पञ्चम जॉर्ज को अपनी तरफ से एक लक्ष रुपैये भेट किये, जिसपर खुद शहनशाह ने ता. ३० नवंबर सन् १९१७ ई. के खास खरीते से सिरोही महाराव की वफादारी की कदर की.

वि. सं. १९७३ में आबू पहाड पर ' लीज एरिया ' कायम करके हदबन्दी करने में आई, और खास शर्तों से अहदनामा तहरीर हुआ, जिससे उस एरिया में जो रियासत की हुकूमत थी वह अंग्रेज सरकार के सुपुर्द हुई, इस अहदनामा से सिरोही रियासत पर जो अंग्रेज सरकार की खिराज की रकम रुपैये ७५००) भिलाडी (जिसके कलदार रुपैये ६८८१) सालाना दी जाती थी वह हमेशा के वास्ते मुआफ होगई, और सालाना रुपैये २७०००) हर साल अंग्रेज सरकार के तरफ से सिरोही महाराव साहब को देनेका तय हुआ, जो मिल रहे है.

\* आबू पहाड पर पहिले के अहदनामे मुआफिक सिरोही की रियाया का इन्साफ सिरोही रियासत की कोर्ट से हांता था, और अंग्रेज सरकार की रियाया का इन्साफ अंग्रेज मेजिस्ट्रेट द्वारा होता था, उसी मुआफिक खराडी बाजार व अनादरा में भी आबू मेजिस्ट्रेट का ब्रिटिश रियाया के वास्ते दखल होने से, बाजे वक्त नाइत्फाकी का बायस पैदा होता था, महाराव साहब ने मक्बिय में नाइत्फाकी न होवे उस कारण यह अहदनामा किया, और 'लीज एरिया' मुकरर करके दूमरी जगह से दखल हटाया गया.

महाराव सर कैसरीसिंह की कारकिर्दी का अहवाल वि. सं. १९६७ तक का 'सिरोही राज्य के इतिहास' की पुस्तक में सविस्तार और जीवन् चरित्र की नाई अंकित हुआ है, जिससे इस पुस्तक में ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है, इनकी कारकिर्दी का तात्पर्य यह है कि महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८७५ में राज्य की लगाम हाथ में लेकर सिरोही रियासत की उन्नती के बीज बोये थे, वह महाराव उम्मेदसिंह के समय में जलसिंचन नहीं होनेके कारण सिर्फ उनके अंकुर फूटने पाये थे, इस महाराव ने उन पौदों पर चाहिये जितना जल सिंचन व खात देकर दरख्तों का सुन्दर बगीचा बना दिया, और उसके फल खुदने खाये और भविष्य के महारावोंके वास्ते फल फूल से भरा हुआ गुलजार बगीचा छोड़ कर अपने देह के कल्याण के वास्ते प्राचीन क्षत्रियों के नाई अपने हाथ से अपने महाराज कुमार का राज्याभिषेक करके वानप्रस्थआश्रम स्वीकार किया.

सिरोही के रईसों में अनादि काल से ही क्षत्रीय धर्म का पालन के साथ ईश्वर भजन करने की प्रथा चली आने से, महाराव सर कैसरीसिंह ने राज्य का व संसार के मिथ्या सुख को त्याज्य करके, अपने दादा शिवसिंह के नाई ईश्वर भजन की तरफ अपना सम्पूर्ण लक्ष लगाया. सनातन धर्म का ये चुस्त पालन करते थे, और मोक्ष सम्पादन करने की तीव्र अभिलाषा होनेसे श्रुती-पुराणों में जो जो कर्म धर्म से और दान पुण्य से मोक्ष प्राप्ति होने का लिखा गया है वे सब उपचार किये गये, बल्कि इनकी मोक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा ने अंधश्रद्धा का रूप धारण करने से, सन्त समागम के बहाने से कितनेक धूर्त लोगों ने बेवाजबी फायदा भी इनके हाथ से उठाने में सफलता प्राप्त की थी. महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सम्पूर्ण इख्तियार के साथ राज्याभिषेक होने पर, महाराव साहब ने राज्य की उपाधी के साथ संसार व्यवहार की भी सब उपाधी छोड़ दी, और तीर्थयात्रा व ईश्वर भजन में ही दिन रात लगे रहे. रोगग्रस्त शरीर होने के कारण मुसाफरी की तकलिफ उठाने काबिल नहीं थे, वैसे दिन रात भजन करने से दिनबदिन अशक्ती बढ़ रही थी तब भी तीर्थयात्रा और भजन के कार्य में त्रुटी न आने दी. वि. सं. १९८१ की कार्तिकी पुनम का स्नान करने के वास्ते आप पुष्कर राज पधारे वहां से वापिस आबूरोड आये और कैसरगंज कोठी में मुकाम किया, सरदी की मौसिम खतम होने बाद आपका इरादा काशीक्षेत्र में निवास करने का था, परन्तु यह अभिलाषा पूर्ण नहीं होते, मकरसंक्रान्ती का दान पुण्य हो जाने बाद दूसरे रोज ( ता. १५-१-१९२५ ई. ) रात्री के समय में पूजन करते २ हृदय बंध हो गया और अल्प समय में ही वैकुण्ठवास हुए, दूसरे दिन अललसुबह यह खबर मौजूदा महाराव साहब को सिरोही पहुंची, जिससे खुद वे आबूरोड पधारे और स्पेशियल ट्रेन से सिरोही लाकर, जो उन्होंने ने अपनी हयाति में ही अपना अग्नि संस्कार के वास्ते सारणेश्वरजी महादेव के स्थान में जगह निर्माण की थी, ( अग्नि संस्कार के वास्ते उसी स्थान में शास्त्रानुसार जिस २ प्रकार के



सरहूस शाह मिलापचंद दीवान साहब सिरोही ( सूरत निवासी ).



जिसकी स्मर्णार्थे मौजूदा महाराव साहब सिरोही ने कालंद्री कस्बे में  
सफाखाना बनवाया है.

[ देखो पृष्ठ ३४२ ]

काष्ठ की जरूरत थी, वह सब सामग्री कई बरसों से इकट्ठी कर रखी थी, उसी सामग्री से) उसी स्थान पर अग्नि संस्कार किया गया.

इन महाराव के मरसिये 'खाणगांव' के कवि आसिया नवलदान ने रचे हैं, जिसमें कहा है कि—

छन्द षट पदी.

“ विमल धरम धरवरम, परम पथ जोग प्रकाशक; शरण अभय निर्शरण, तीव्र तरणिय अरि त्रासक. ”

“ कुशल काछ दृढ वाक्य, नैमृत्त अडग निभावन; पंडित, कवि प्रतिपाल, पाठप्रोक्ता श्रुति पावन ”

“ निर्णय जु सुभासुभ गुनकरन, हृद समाज दंभी हरन् ; नवलेश कहत केहरीनृपत, स्वर्ग गयो अशरन शरन. ”

सिरोही रियासत में प्रजा का अज्ञानपन और सरदारों का बखेडा चलू रहने के कारण, महाराव शिवसिंह के समय में वि. सं. १८८० से १९१८ तक के ३८ वर्षों में १३ मुसाहिब हुए थे, महाराव उम्मेदसिंह के वि. सं. १९१९ से १९३२ तक के १३ वर्ष में ७ सात मुसाहिब हुए, उसी मुआफिक महाराव सर कैसरीसिंह के वि सं. १९३२ से १९७६ तक के ४४ वर्षों के समय में ( वि. सं. १९३२ से १९६६ तक में ९ दीवान और महाराजकुमार को मुसाहिबआला मुकरर करने बाद वि. सं. १९६६ से १९७६ तक में ५ सेक्रेट्री हुए हैं. ) + १४ मुसाहिब हुए, जिसमें १ खूबचंद ( सिरोही का ) दो दफे, ( २ ) खा. ब. मूंशी न्यामतअलीखां ( वासण ) दो दफे, ( ३ ) मुन्शी अमीनमहमद ( भुजवाला ), ( ४ ) शाह मिलापचंद ( सूरतवाला ) पांच दफे, ५ राय बहादुर सिंधी जवाहिरचंद ( सिरोहीवाला ) तीन दफे, ( ६ ) महता डाह्यालाल, ( अहमदावादवाला ) ७ मोलवी नुरुलहुसेनखां, ( शाजहांनपुरवाला ) ( ८ ) बाबू सरतचन्द्रराय चौधरी, ( कलकत्तावाला ) एक दफे दीवान और दूसरी दफे सेक्रेट्री, ( ९ ) लाखिया जीवणलाल ( अहमदावादवाला ), इस मुआफिक ९ दिवान, और ( १० ) महेता हरीलाल ( नडियादवाला ), ( ११ ) महेता सदाशिवराम ( सूरतवाला ), ( १२ ) रा. सा. पंडित मंछाराम ( बनारसवाला ), ( १३ ) खान बहादुर दाराशाह मोदी ( आबूवाला ) व १४ गणपतराव लॉड ( बंबईवाला ), ये पांचों सेक्रेट्री हुए थे.

+ महाराव सर कैसरीसिंह के समय के दीवान व सेक्रेट्री मुसाहिबआला को रु. ९०) से लगा कर रु. ९००) तक दरमाया मिला था, और मुसाहिब आला को रु. १०००) माहवार एलाऊन्स मिलता था. उपरोक्त दीवानों में नं. ४ शाह मिलापचंद जिसने पांच दफे सिरोही की दीवानगिरी की है, वह दीवान पद पर नहीं होने की हालत में स्पेशियल वाऊन्डरी ओफिसर की जगह नियत रहते थे, और उनको पैन्शन् के सिवाय रु. २००) तनव्वाह माहवार दी जाती थी. नं. १ शाह खूबचंद, व नं. ९ रा. ब. सिंधी जवाहिरचंद को रियासत से पैन्शन् दिया गया था. नं. ७ मोलवी नुरुलहुसेनखां गुजर गये थे. नं. ८ बाबू सरतचन्द्र राय चौधरी मौजूदा महाराव के समय में भी दीवान पद पर विद्यमान थे, जिसको वर्तमान समय में पैन्शन् मिल रही है. नं. ११ महेता सदाशिवराम को मौजूदा महाराव साहब ने पुनः अपनी सेवा में रखकर रु. २००) माहवार पैन्शन् कर दी थी, और पीछे से ' चीफ मिनिष्टर ' के पद पर मुकरर किया, जो दो साल से उस पद पर काम कर रहे हैं. नं. १२ रा. सा. पंडित मंछाराम पुनः अपनी सायर व आबकारी सुप्रिन्टेन्डेन्ट की जगह पर नियत किये गये थे.

नोट—महाराव सर कैसरीसिंह ने वि. सं. १९७१ में बडुआ लक्ष्मणसिंह को छडी व चपरास की इनायत की थी.



## प्रकरण ३६ वां.


### कलू देवडा चौहान ( मौजूदा महाराव स्वरूपरामसिंह )

नं. २६ महाराव स्वरूपरामसिंह सिरोही रियासत के मौजूदा महाराव साहिब है, इनका जन्म वि. सं. १९४५ आश्विन वदि ७ के दिन हुआ, ता. १४ अक्टूबर सन् १९१० ई. के रोज आप 'मुसाहिब आला' की जगह पर मुकरर होकर राज्य का काम करने लगे, और ता. २९ अप्रैल सन् १९२० ई. के दिन अपने पिता की हयाती में ही 'महाराजा धिराज महाराव सिरोही' के पद से सम्पूर्ण इख्तियार पाकर सिरोही की गद्दी पर बैठे. इन्होंने हिन्दी भाषा की तालीम पाकर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास केप्टन प्रीचर्ड साहब व मी. स्मीथ साहब के द्वारा किया है.

राज्यगद्दी पर आने बाद तुरन्तही आपने राज्य में सुधारा करने का काम हाथ में लिया, और कर्नल मेक्फर्शन साहिब को अपने पर्सनल एडवाइज़र मुकरर किये, इस समय में हिन्दुस्तान में स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो हवा फैल रही थी, उसकी असर सिरोही रियासत के सरदारों में दाखिल होनेसे उन्होंने अपनी तकलीफ रफे करने के वास्ते इकट्ठे होकर मेमोरियल पेश किये, जिसके तसफिया के वास्ते महाराव साहिब ने कर्नल मेक्फर्शन साहिब को प्रेसीडेन्ट मुकरर करके 'जागीरदार कमीटी' की स्थापना की. जागीरदार कमीटी का काम डेढ साल तक चला दरमियान मेवाड में ग्रासिया भीलों का जो बखेडा खडा हुआ था, उसका फैलाव इंडर, पालणपुर व दांता स्टेट में होता हुआ सिरोही रियासत में भी आया, जिसको रफे करने के वास्ते महाराव साहिब ने जागीरदारों की जमियत के साथ रियासत की फौज को आबूरोड में ईकट्ठी की, और हिकमतअमली से पहिला मेलावा विखेर दिया गया, परन्तु दो माह के बाद कुल ग्रासिये भीलों का दूसरा मेलावा सिरोही रियासत में जमा हुआ, जो अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से विखोर ने की तजवीज हुई, और मेजर प्रीचर्ड साहिब ( सेक्रेटरी एजेन्ट गवरनर जनरल राजपूताना ) ने सिआवा व वालोरिया गांव के ग्रासिये व भीलों को सजा दी. यदि सिरोही रियासत के ग्रासिये भील सजा होनेसे डर गये थे, परन्तु उन लोगों को चाहिये वैसी शान्ति व सन्तोष नहीं होनेसे, महाराव साहिब ने खुद तकलिफ उठाकर उन लोगों को समझायश की, जिससे वे लोग शान्त होकर खेती के धंधे लगे.

सरदारान् के तसफिये के वास्ते 'जागीरदार कमीटी' ने अपनी राय कायम करके रिपोर्ट पेश किया, परन्तु उससे सन्तोष कारक नतीजा नहीं आने से तसफिया नहीं हुआ, जिससे राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल साहिब ऑनरेबल सर होलेन्ड साहिब बहादुर

३ ॥ महाराजा साहव सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहव वहादुर.

के. सी. एस, आई.



ने सिरोही मुकाम करके सब सरदारों को समझायश की, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिद्द नहीं छोड़ी जिससे ता. ३ फरवरी सन १९२३ ई. के रोज एक बड़ा स्पिच करके उनको यह सलाह दी गई कि वे लोग अपना २ फौसला महाराव साहिब के पास हाजिर होकर करा लेवे, उस मुआफिक कुछ अरसे बाद, माह मई सन १९२३ ई. में सरदार लोग महाराव साहिब की हजूर में हाजिर हुए, और महाराव साहिब ने यह काम अज खुद अपने हाथ में लेकर उन लोगों का ऐसा तसफिया कर दिया कि, जिससे उन लोगों को सम्पूर्ण सन्तोष हो गया, बल्कि उन्होंने ने अपना सन्तोष प्रदर्शित करने के वास्ते 'गोहिली' गांव में एकत्र होकर ता. १२ जून सन १९२३ ई. के रोज महाराव साहिब को 'मानपत्र'

+ नकल मानपत्र सिरोही के सरदारों की तरफ से ता. १२ जून सन १९२३ ई. के रोज महाराव साहिब स्वरूपरामसिंह को दिया गया उसकी.

॥ श्री सारणेश्वरजी ॥

बहजूर राजराजेश्वर महाराजाधिराज महारावजी श्री श्री १०८ श्रीस्वरूपरामसिंहजी साहेब बहादुरजी दाम इकबाल-हुम हजूर वाला.

हम सरदारान वो जागीरदारान राज निहायत अदब के साथ हजूर का शुकरिया अदा करते हैं कि हजूर हमारी अरज मंजूर फरमाकर आज इस जलसे में तशरीफ लाये है जो हमने इस गरज से किया है कि हम हजूर में अपनी राज मक्ति और वफादारी का आम तोर पर इजहार करें.

हमारी जागीरों से राज हक का जो हिस्सा वसूल होता है उसके ताखुक कई बर्षों से कितनीक दीकतें पैदा हो गई थी. उनको रफे कराने की गरज से जो अरजीयां हमने हजूर मे पेश कीई थी वह हजूर ने अपने परसनल एडवाइजर कर्नेल मेकफरसन साहेब को वास्ते तहकीकात के सिपुर्द कीई, और उनकी मदद के वास्ते दो मेम्बर राय बहादुर जोसी माणेकलालजी और खान साहेब काजी नीयाज अलीजी को ( जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है. ) मुकरर फरमाया, चुनांचे उन्होने हमारी तकलीफो की तहकीकात कीई और कर्नेल मेकफरसन साहेब वो राय बहादुर जोसीजी ने हजूर में रिपोर्ट पेश कीई, मगर खान साहेब काजीजी की राय चंद बातों में इतफाक न होने से उन्होंने अपनी राय अलग दर्ज कीई.

वे सब कागजात हजूर की पेशी में थे कि हजूर ने ऑनरेबल मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर एजंट गवर्नर जनरल राजपुताना को वास्ते मशवरे के सिरोही बुलवाया और उस मोके पर हम लोगों को भी याद फरमाया. और हम हाजिर हुए. हजूर की इजाजत से साहेब मोसूफ ने हम लोगों को समझायश कीई. मगर उस पर हम सब सरदारान एक राय पर न आने से साहेब बहादुर ने ता. ३-२-२३ के रोज एक स्पिच दीई जिसमें उन्होने हमको श्रीजी हजूर में हाजिर होकर अपने अपने फेसले कराने की नेक सलाह दीई. जिस पर हमने कुछ अरसा आपस की राय मिलाने में निकाल कर विल आखीर हम सब इस नतीजे पर आये कि श्रीजी हजूर में हाजिर हो कर अपने फेसले करा लें.

यह राय कायम हो जाने पर हमने श्री जी हजूर में अरज गुजराये फैमश कराने की पेरवी करना शुरू किया. लेकिन इस काम के वास्ते हमको एक ऐसे शख्स की खास जरूरत मालुम हुई के जिस पर हम यह भरोसा कर सकें कि हमारे और राज के दरमियानी तकरारों का तसफिया कराने में अपनी नेकनियती और इमानदारी के साथ फेसले कराने में शरीक रहेवे चुनांचे देसाई लल्लुमाई जो इस राज के रिटायर्ड लेन्ड रेवन्यु ऑफिसर है उनको इस कामके काबिल समझ उनके घर अपने खास आदमी भेज कर बुलाने की तजवीज कीई गई, और उनको हजूर की इजाजत से बीच में रख कर हमारी तकलीफों के बाबत तसफिया कराने की तजवीज अमल में लाई गई जिससे इस थोड़े अरसे में हम लोगों के ऐसे फेसले हो गये कि जिनसे हमको बखुबी संतोष है.

हजूर श्री जी के साथ हम लोगों को कम परिचय होने से हजूर के नेक मिजाज की वकफियत हमको पूरे तौर से मालुम नहीं थी लेकिन हमको यह भरोसा जरूर था कि अपने मामले खुद हजूर श्री जी के हाथ से होने पर जरूर इन्साफकी

अर्पण किया, उस दिन से सिरौही रियासत में सरदारों का बखेडा हमेशा के वास्ते नाबूद हो गया.

नजर से तसफिया होगा. इस बारे में हमको अरज करने में नेहायत खुशी होती है कि हजर ने हमारी वह उम्मेद वर लाने को अपनी तनदुरस्ती और आराम का ख्याल न फुरमाते जाती महेनत उठा कर फैयाज दिल, परवरश व रहेम नजर से हमारे जुदागाना फेसले फरमाये और आयन्दा अमल दरामद के लिये जो कायदे तैयार हुवे उनकी एक एक दफा हमको अच्छी तरह समझाई जाकर और हमारी दिल जमाई करा कर मंजूर फरमाये. उनसे हमको हजर की मुनसिफ मिजाजी वो रहेमदिली का पूरे तोर से तजख्खा हासिल हुआ है बल्की यह बखुबी यकिन हो गया कि हमारी तरकी वो वेहबूदी का हजर श्री जी को पूरा ख्याल है जिस नाबत हम और हमारी औलाद हमेशा के लिये अहसानमंद रहेंगे.

हम ईस काबिल नहि है कि चाहिये जैसे अल्फाज मे हजर की मशकरी जाहिर करसके इस वजह से सिर्फ यह यकीन दिलाते हैं की हम सब हजर के खेरख्वाह और फर्मावरदार राजपूत है. हमारे बडे़ों ने जिस तरह बापबेटों के नाते से रियासत की बंदगी उठाई है उसी तरेह हम को वो हमारी ओलाद को हरवक्त बंदगी के लिये हजर तैयार और मुस्तेद पावेंगे. साथही हम उम्मेद करते है की रियासत के साथ हमारे कुल ताल्लुकात पर हजर आयन्दा भी परवरिश और खाविन्दी की नजर रखकर हमारी बहतरी का ख्याल फुरमाते रहेंगे.

इस मोके पर हम ओनरेबल मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर की नेक सलाह के लिये एहसान जाहिर करते है और रियासत के उन अफसरान की जिन्हो ने हमारे तस्फिया कराने में हमदर्दी जाहिर कीई है उन सब के हम शुकरगुजार है.

हम लोगों की अखीर में यह अभिलाषा है कि हमारा तस्फिया करने में जिस तरेह हजर ने मातवरी रखकर धिरज संतोष और उदारता से काम लिया है उसी रीत से आगा ने भी सरदार वो रिआया के साथ ऐसे ऐसे उमदा गुनों से सब की बहतरी होवे ऐसे काम हजर के हाथ से होते रहेंगे वैसी उमेद रखकर परमात्मा से हमारी प्रायना है की हजर कौड दिवाली राजकरो-अन्तु;

मुकाम गोहिली परगना मगरा  
तारीख १२ जुन १९२३

ली० हजर श्री जी के वफादार व फरमावरदार जागीरदान राज सिरौही.

Abhay Singh of Padiv. दा० मोहबतसिघ नीबज.

दा० डुंगरसिघ मेरमांडवारा. दा० मेघसिघ जावाल. दा० कीशोरसिघ मोटागाम.  
दा० सरदारसिघ लणोल. दा० अमरसिघ नवारा. दा० अजेतसिघ दनाणी.  
दा० वेरीसाल डोडुआ. दा० करणसिघ पालडी. दा० जोधसिघ मडीया.  
दा० अनोपसिघ अरठवाडा. दा० भूरसिघ जामोत्रा.

उपरोक्त मानपत्र का महाराव साहेबने निम्न प्रत्युत्तर दिया. (नकल महाराव साहेब के प्रत्युत्तर की.)

सरदारान व जागीरदारान,

आप लोगोंने अपनी लंबे अरसे से चलती तकरारों का तसफिया होजाने से अपनी राज्य भक्ति वो वफादारी वो अपने दिल का संतोष आम तौरपर जाहिर करने की गरज से यह जलसा किया है और उसमें शरीक होने का जो मोका हमको मिला है उससे हमारे दिल पर गहरा असर हुआ है और उमके लिये आप लोगों का हम शुकरिया अदा करते हैं.

२. आप सब लोग जो देवडे चहूआण हो रिआसत सिरौही के भाई-बेटे हो. और रिआसत के साथ आप लोगों का सम्बन्ध इस तरह जुडा हुआ है कि रिआसत की तरकी व बहतरी में आप लोगों की तरकी व बहतरी समाई हुई है जब से सिरौही रियासत कायम हुई तब से सब सरदारों ने रिआसत के साथ बाप-बेटों का नाता रख कर अपनी फरज अदा कीई है जिस की गवाही इतिहास व वीर राजपूतों के स्मार्क देते है.

३. इसमें कोई शक नहीं है कि राज वो आप लोगों के दरमिधान आमदनी की वसूलात वगैरह के मौजूदा तरीके से बक्तन फक्तन तकरारों के बाएस पैदा होकर उनके तसफिए होते रहते थे. आज कल दुनिया में जमाने के फेरफार से जो हवा चउ रही है उसका अपर यहां पर भी पडा जिसके नतीजे से यह मामले इस नौबत पर पहुंचे. रियासत से भी इन मामलों को नै करने के वास्ते बहुत कोशिश कीई गई और ओनरेबल मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर ने भी इसी गरज से बजाते खुद तकलीफ उठाई जो आप लोगों से पोशीदा नही है.

भीलों का तुफान रफे होने के बाद सरदारान् के तसफिये हुए, इतने में राजगुर ब्राह्मणन् ने फसाद उठा कर एक ब्राह्मणी को जला दी, और काछोली गांव में सब राजगुरों ने इकट्ठे होकर धरणा डाला, जिस पर उनको गिरफ्तार किये गये, परन्तु उस पर कुल रियासत के राजगुर ब्राह्मणान् ने सारणेश्वरजी में इकट्ठे होकर धरणा डाल दिया, महाराव साहिब की सवारी उस समय आबू पर थी, वहां से आकर इन्होंने समझायश करके धरणा उठाया, और रुवाई भीतरोट के राजगुरान् की माफी का तसफोया करके सब को सन्तुष्ट कर दिये.

महाराव साहिब को अपने राज्य में कायदे कानून जारी करके रियाया को अदल न्याय मिले वैसी तीव्र अभिलाषा होने से माहली व जुडिशियल काम अलग करके जुडिशियल महेकमा स्थापन किया गया, और L. L. B. पास शुदा न्यायाधीशोंको रख कर ता. ७ अक्तुबर सन् १९२४ ई. के रोज दशहरा के आम दरबार में सिरोही रियासत से जारी हुए, ' सिरोही पेनलकोड, प्रोसीजरकोड, स्टैम्प एक्ट, मयाद समायत, रजिष्ट्रेशन एक्ट, व कोर्ट फी एक्ट, ' के कानून व दूसरे सब ब्रिटिश सरकार के कानून अमल में लाने का

४. हमको निहायत खुशी और संतोष जाहिर करने की खास वजह यह भी है कि आप लोगों ने ऐसे मुद्दत क तक़ारी मामलों को तै कराने के काम में इस रियासत के रिटायर्ड ओफिसर मिस्टर देसाई लखूभाई के ऊपर इतमीनान रख कर उनको बीच में रख सब फैसले सहूलियत से करा लिये जिससे आप लोगों के जाहिर करने माफिक उन पर आप का पूरा भरोसा होने की हमको तसल्ली हो चुकी है और उनके निसबत हमारे दिल में जो गुन्जायश थी उस में और इजाफा हुवा है.

५. अब आप लोगों की मनशा माफिक कायदे और फैसले हो जाने से अपनी अपनी जागीरों में जमीन संबंधी इन्तिजाम अच्छी तरह करने का मौका आप लोगों के हाथ लगा है और हमको उम्मेद है कि इसका फायदा उठाने के वास्ते आप लोग इन के पाबंद रह कर अपनी जागीर की आबादी बढ़ाने को वो रियाया के साथ मुनसिफाना और हमदरदी का बरताव रख कर उनकी बहतरी व तरकी की सूरतें पैदा करने की कोशिश करते रहोगे आप लोगों को इन कोशिशों में कामयाबी पाते देखने से हमको और भी खुशी होगी.

६. आप लोगों ने रियासत के साथ वफादारी और राज्यभक्ति जाहिर करके अपने बुजरगों के माफिक ही बंदगी उठाने का इतमीनान दिलाया है इस बारे में हम को आप लोगोंपर शुरू से ही भरोसा है बल्कि साल गुजिश्ता में भीलोंके बल्वे के मौके पर अपनी जमियत के साथ तलबी पर फौरन हाजिर होकर अपनी वफादारी का ताजा सकृत दिया है जिसका जिकर करना बे मौका नहीं है.

७. आप लोगों के फैसले हो जाने पर संतोष जाहिर करके हमारा अहसान मानने का जिकर किया है मगर हम समझते है कि हमने अपना फरज अदा करने के अलावा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजहसे इतनी तारीफ करने की जरूरत हो आएन्दा के लिये भी हम आपको इतमीनान दिलाते है की आपकी किसी तकलीफ के बाबत हमारी सरकार में अरज होगी उस पर इन्साफन् ध्यान दिया जावेगा.

८ आप लोगों ने एड्रेस में खानसाहब काजी नीयाजअलीजी के अलहदा राए पेश करने की बाबत इशारा किया है जिस्से इस जगह पर इस बात का खुलासा करना जरूर है कि खान साहब ने कमेटी के मेम्बर के तौर पर जिस तरह अपनी फर्ज अदा की थी उसी तरह बहेसीयत चीफ मिनीस्टर आप की तकलीफात दूर करने की हमारी ख्वाहिश को पूरी करने में अपनी हमददी जाहेर करके दिल के साथ मदद दिई है.

९ इन फैसलो के तै कराने में ठाकुर मोहबतसिधनी नीबज और ठाकुर अभयसिधनी पाडीव ने जो महनत उठाई है और मदद दी है उसका पूरा नकश हमारे दिल पर हुआ है और हम उनकी महनत की पूरी कदर करते है.

फरमान किया गया, परन्तु सिरोही रियासत के 'महाजनान' को यह कानून पसन्द नहीं आने से उन्होंने ने अपनी तरफ से कानून रद्द करने की दरखास्त की, रियासत की तरफ से जिन २ दफे के वास्ते उजर हो वह तफसिल उनसे तलब हुई, लेकिन वैसी वाजावता दलील पेश नहीं करते महाजनों ने जगह २ इकठ्ठे होकर ऐसी झूठी खबरें फैलाना शुरू किया कि, जिससे इलाके में भारी हल चल हो गई, इतना ही नहीं लेकिन महाजनों ने काश्तकारों के साथ लेनदेन करना तक बंद करके उनको खाने के वास्ते अनाज व खेती के वास्ते बीज देना भी बंद कर दिया, और उचाला करके गैर रियासत में चले गये, जिससे काश्तकारों को बीज भात रियासत से दिया गया. यदि महाजनान के उचाले से दूसरी प्रजा को किसी प्रकार की हानी नहीं होने पाई, और कानून जारी हो जाने से, अच्छा न्याय मिलने लगा परन्तु सिरोही रियासत को कमनसीब व अज्ञान प्रजा के प्रारब्ध में ऐसे सुधारे से वंचित होने का लिखा हुआ होने से, महाराव साहिब के उत्साही हृदय में इससे रंज पैदा हुआ, और नाखुश होने से इन्होंने वे सब कानून मुलतवी करने का और पहिले के मुआफिक तहसिलदारान् को जुडिशियल इख्तियार देकर बगैर कानून से (प्राचीन पद्धती माफिक) न्याय करने का हुकम ता. २५ डीसंबर सन् १९२५ ई. के रोज जारी किया, जिससे महाजनान वापिस लेनदेन करने लगे.

सिरोही रियासत की प्रजा अनपढ होने से महाराव साहिब ने उनको तालीम देने के वास्ते आबूरोड (खराडी), पिन्डवारा, रोहिडा, व शिवगंज में पाठशालायें कायम की, सिरोही में कन्याशाला स्थापित की गई, और ग्रामिये भीलों को पढाने के वास्ते उन लोगों के गांवों में तीन पाठशाला खोलने में आई, वैसे रफते २ इलाका भर में पढाई कराने की तजवीज सोची गई है.

सिरोही रियासत में सिर्फ खास सिरोही, शिवगंज, व आबूरोड में शफाखाने थे, लेकिन दूसरी तहसिलों में बीमारों को तकलिफ उठाना पडता था, वह रफे करने के वास्ते मंदार में शफाखाना खोला गया, और कालन्द्री में अपने पुराने दीवान शाह मिलापचंद (सूरतवाला) की यादगीरी कायम रखने के वास्ते उसके नाम से शफाखाना खोलने का वि. सं. १९८२ के दशहेरा के दरवार में जाहिर किया गया, (जिसका मकान बन रहा है) खास सिरोही में महाराणी राठौरीजी साहिब (रतलामवाले) की यादगार में 'जनाना शफाखाना' खुलने के वास्ते मकानात तैयार किये जाते हैं और सर हॉलेन्ड साहिब (राजपूताना एजेन्ट गवरनर जनरल) के स्मर्णार्थ क्रोस्थवेट होस्पिटल में 'होलेन्डविंग' के नाम से मकानात बनाये गये हैं.

महाराव साहिब की इच्छा अपनी प्रजा को आराम मिले वैसी होनेसे खास सिरोही नग्र व खराडी (आबूरोड) में म्यूनिसिपालेटी कायम करके उनका कामकाज प्रजा के

हस्तक सुपुर्द करने में आया है, वैसे उन दोनों शहरों में पक्के रास्ते बनवाकर प्रजा की सुखशान्ति बढ़ाने का प्रयत्न चलू है.

सिरोही नगर रैलवे स्टेशन से दूर होने के कारण रैलवे की सफर करने वालों को पिन्डवारा से सिरोही तक आने जाने के रास्ते पर वा मुश्किली गाडे चल सकते थे, जिससे १४ मैल खुशकी सफर करने में बेलों को तकलिफ के साथ बहुत वक्त फजूल जाता था, जिससे महाराव साहिब ने वह तकलिफ रफा करने के वास्ते मोटर चल मर्के वैया रास्ता बनवाना शुरू किया है, ( जो कि वह काम चल रहा है, परन्तु दो साल से सिरोही पिन्डवारा दरमियान मोटर सर्विस चलने से मुसाफिरों को उसका लाभ मिल रहा है. ) वैसे आबूरोड से अंबाजी जाने वाले यात्रालू लोगों के वास्ते, नया रास्ता मोटर चल सके वैया बनाना शुरू हुआ है, और सिरोही नगर की प्रजा को पानी पहुंचाने के इरादे से स्वरूपविलास बगीचे में ' गोपालसागर ' नामक एक बडा कूँआ ( अपनी महाराणी राठौरीजी साहिब के नाम से ) बनाया गया है.

महाराव साहिब को बाग बगीचे और सुन्दर सडकें बनवाने का और माटरें व हरेक प्रकार की बगियें रखने का शौक होनेसे, ' स्वरूपविलास बगीचे ' में देश २ के आम व दूसरे फल और पुष्पों से वह बगीचा गुलजार बनाकर वहां पर बिजली की रोशनी का इन्तिजाम किया गया है, और सिरोही के व आबूरोड के ' कैसरविलास ' बगीचे के पुराने दरख्त हटाकर नई पद्धति के बगीचे बनाने का काम हाथ पर है. खास सिरोही में एक बडा ' वर्कशॉप ' खोलने में आया है, और शहर की प्रजा को हवाखोरी के वास्ते कई एक पक्की सडकें बनाई गई हैं, जिससे शहर की शोभा में बहुत तरकी होने पाई हैं.

सिरोही नगर में अग्रवाल महाजन एक भी x आबाद नहीं था, महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते, सिरोही के पासही चलू साल में ' स्वरूपनग्र ' नामक शहर आबाद किया, जिस में अग्रवाल महाजनों ने आबाद होकर बाजार बनाया है, जिनके वास्ते खास रिआयत दाण आदि में दी गई है. इसी मुआफिक रोहिडा स्टेशन पर एक ● शहर आबाद करने की तजवीज सोची गई है, जहां पर कईएक दुकानों के पटे देने में आये हैं,

महाराव साहिब स्वरूपरामसिंह ने अपने टूक समय के राज्य अमल में अपनी राज्य करने की कुशलता बताने से, नामदार अंग्रेज सरकारने वि. सं. १९८० में उसकी कदर में K. C. S. I. का मानवंता खिताब अता फरमाया है, वैसे महाराव साहिब ने +वि. सं. १९८१

x कहा जाता है कि सिरोही नग्र में वैष्णव महाजनोंने ' गादोतरा ' घालकर शहर छोड दिया था, इस कारण कोई भी महेश्री या अग्रवाल वैष्णव सिरोही में आकर आबाद नहीं होते थे.

\* यह शहर अबतक बंधाना शुरू नहीं हुआ है.


+ महाराव सर स्वरूपरामसिंह ने वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में—राजसाहवां नादीआ, अजारी, जोगापुरा को ' महाराज ' के खिताब, व मंडार ठिकाने की दोनों पांती के ' राज श्री ' को ' राजसाहवान ' का खिताब दिया, चीफमिनि-ष्टर खान वहादुर काजी महोपद नियाजअली को ' मुशिर—उल—मुल्क, व चीफ मेडिकल ओफिसर डॉ. राघवेंद्र शिराले को



व ऋवि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवारों में अपने सरदार व मुसाहिब आदि की कदर करके कितनेक को पैर में सोना पहिनने की इज्जत व कितनेक को खिताब की नवाजिश की है, उसी मुआफिक अंग्रेज सरकार के तरफ से चिफ मिनिस्टर खान साहिब काजी नियाजअली को ' खान वहादुर ' व रा. सा. पंडित मंछाराम शुक्ल को ' राय वहादुर ' का खिताब अता हुआ है.

महाराव सर स्वरूपरामसिंह की अवल सगाई देवलिया प्रतापगढ के महाराजा की कुंवरी के साथ हुई थी, लेकिन पीछे से वह तहकूब होकर पहिला विवाह जाडेचीजी कृष्णकुंवर भुज के महाराव सर खेंगारसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९६४ में हुआ, (जिससे बाई कंचनकुंवर, जीतकुंवर व अर्बूदकुंवर के जन्म हुए.) दूसरा विवाह राठौरीजी गोपालकुंवर रतलाम के महाराजा रणजीतसिंह की कुंवरी से वि. सं. १९६९ में हुआ, परन्तु वि. सं. १९७१ में उनका स्वर्गवास हो गया. तीसरा विवाह वाघेलीजी मानकुंवर कुवार के वाघेला फतेसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९७२ में हुआ व चौथा विवाह राठौरीजी सजनकुंवर जूनिया के इस्तमरारदार राजा कैसरीसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९८२ में हुआ है.

महाराव सर स्वरूपरामसिंहजी सादे व उदार प्रकृति के व शान्तिप्रिय रईस हैं. बोम्बे की आवहवा ज्यादाह माफिक आने से आपने बोम्बे में एक बंगला खरीद किया है और वहां पर ज्यादाह आना जाना रेहता है. सिरोही रियासत की प्रजा की उन्नति होवे और सुधारा में पीछे रहा हुआ सिरोही का राज्य दूसरे सुधरे हुए राज्य के मुकाबला में स्थापित हो जाय, वैसी प्रबल अभिलाषा होने से उनके वास्ते जाति श्रम उठाने को आप मुस्तेद रहते हैं. इनके समय में मुसाहिब (१) चीफ सेक्रेटरी बाबु सरतचन्द्र राय चौधरी, (२) चीफ मिनिस्टर पंडित रमाकान्त मालविया, (३) चीफ मिनिस्टर खान वहादुर काजी महोमद नियाज अली हुए, व (४) मौजूदा चीफ मिनिस्टर राज्यरत्न मेहता सदाशिवराम हैं.



' वैद्य रत्न ' के तगमें इनायत किये गये, और मेहता डाह्यालाल वकील (अमदावाद वाला) को एकवडी ताजीम के साथ पैर में सोना बक्षा गया.

\* वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवार में निज ठाकुर साहब मोहनतसिंह को उसकी जात के वास्ते ' राजसाहेबां ' व पाडीव ठाकुर साहब अमयसिंह को निज के वास्ते ' सभामुपण ' का खिताब दिया गया. चीफ मिनिस्टर मेहता सदाशिवराम को ' राज्यरत्न ' का खिताब के साथ एकवडी ताजीम व पैर में सोना बक्षा गया. रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर खा. व. सु. उ. काजी महोमद नियाजअली को एकवडी ताजीम के साथ पैर में सोना दिया गया, डोक्टर जादवजी भुजवाले को वैद्य शिरोमणी का खिताब व पैर में सोनाकी इज्जत के साथ एकवडी ताजीम का मान बक्षा गया, रूस्तम श्रॉफ A. D. C. को ' मोतमिदे खास ' व देसाई लछूमाई रिटायर्ड लेन्ड रेविन्यू ऑफिसर ( इस पुस्तक के लेखक ) को ' न्यायरत्न ' का खिताब दिया गया, हकीम अकबरवेग को ' अशरफ-उल-अतिवा ' का खिताब बक्षा गया, और स्टेट इन्जीनियर मिस्त्री विसराम को व मोटर गेरेज सुप्रिन्टेन्डेन्ट नन्नेखां को ' अच्छी नौकरी के तुगमे दिये गये, अलावा मिस्त्री विसराम को वि. सं. १९८१ में पिन्डवारा में ' दानावा ' नामी अरठ व नन्नेखां को सिरोही में मकान और ' कोजावाला ' नामक अरठ देने में आये है.

÷ नोट—उपर्युक्त च्यार महाराणी के सिवाय पासवानजी लीलावती है, जिस से ' राव राजा लक्षपतरामसिंह ' व बाई नामकुंवर के जन्म हुए हैं.

## प्रकरण ३७ वां.

### मोहिल और दूसरी शाखाओं के चौहान.

सांभर के चौहानों से व नाडोल के चौहानों से विभक्त हुई, चौहानों की शाखाओं का शृंखला बद्ध वंशवृक्ष उपलब्ध हुआ, उनका वंशवृक्ष के साथ संक्षिप्त इतिहास अगले प्रकरणों में लिखा गया है. यदि दूसरी शाखाओं का कुछ २ इतिहास मिल सकता है, परन्तु यह पुस्तक वंशवृक्ष का होनेसे जिन २ शाखाओं का विश्वासपात्र वंशवृक्ष नहीं मिला है उनके वास्ते इस अलग प्रकरण में प्राप्त हुई ख्यात दर्ज की है.

### अ. मोहिल चौहान.

चौहान राजपूतों में मोहिल नामकी एक प्राचीन शाखा है, जिसको गलती से कितनेक पुस्तकों में राजपूतों के छत्तीस राजकुल पैकी एक स्वतंत्र राजकुल होना माना गया है, परन्तु इस पुस्तक में पृष्ठ १० पर सांभर के माणकराज के दश पुत्रों में एक का नाम मोहिलराय होना अंकित हुआ है, और पृष्ठ ११ पर उसके विषय में इशारा किया गया है. मूतानेणसी की ख्यात से उसका जो वंशवृक्ष उपलब्ध होता है, उससे 'मोहिल' शाखा-सांभर में चौहानों का राज्य कायम हुआ उससे पहिले अलग होना मालूम होता है.

चौहानों में मोहिल शाखा होने के विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

“ सेलह्यां देवडांणसैह गोरंहां गोलांह; वाघोडां वंगाह वरण ऐको गौतई तांह, ”

“ सोनगरा हाडा सकल राखसिया निरवाण, वाहिल मोहिल खीचीयां ऐता सोह चहुआण. ”

मोहिल राजपूतों की जाहोजलाली वि. सं. १५३३ तक ज्यादह होने का इतिहास कई एक प्राचीन पुस्तकों से मिल रहा है, उक्त संवत् तक इनका राज्य छापर-द्रोणपुर में था. राठौर राव जोधा ने आक्रमण करके मोहिलों को हराये और अपने पुत्र 'जोगा' को यह प्रदेश दिया, परन्तु जोगा से सम्हाल न रही, जिससे कुमार वीदा जो वीका से भी छोटा था उसको राव जोधा ने यह भूमि दी, जो वर्तमान समय में 'वीदावत राठौरों' के कब्जे में है. राठौरों ने मोहिलों से राज्य ले लिया उस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ वागडिया भोगवी वसाई; नमीयर उवही कल नह आई ”

“ बोली वले मोहिलै वरवा, धर रस चूपई धक मन धरवा. ”

“ धज वड पांण लियां खत्र धोडे; रहिलीयां मोहिल राठौडे. ”

“ मेवासी राय जोधे मलीया; दांमज भांज म्मिरी सिर दलीया. ”


“ वहै अजीत जीसा वैराई, वसुधा राव जोधे वसाई. ”

“ रूकै वछो सिंधारे राणो, यापे जोधे छापर थाणो. ”

- “ वीदो वाकै दुरंग वसायो; जैतहथो राव जोधे जायो. ”  
 “ सीरे फेर घांस सत्रां सिर; गढ वीदो तपीयो द्रोणागीर. ”  
 “ कै वी वीद घरोघर कीधा; लीया देश ग्रास दंड लीधा. ”

मूतानेणसी की ख्यात में मोहिल चौहानों के हाथ से राठौर राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का राज्य ले लिया उसका वृत्तान्त विस्तार से लिखा है, और मोहिल शाखा की राजावली का कवित भी अंकित किया है, उस कवित से मोहिल का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक उपलब्ध होता है.

मोहिल शाखा, चौहानों के मूल पुरुष १ चाहमान से शुरू होकर बाद क्रमशः २ घणसूर उर्फ गंग, ३ इन्द्रवीर, ४ अजन, ५ सजन, ६ मोहिल, ७ हरदत्त, ८ वीरसिंह, ९ वालहर, १० आसल, ११ आहड, १२ रणसिंह, १३ साहणपाल, १४ लोहट, १५ बोवो, १६ बेगो, १७ माणकराव, व उससे क्रमशः



### उपर्युक्त मोहिल वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ चाहमान से नं. ४ अजन तक का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. ५ सजन, राणा कहलाता था, इसका राज सांजनपुर व दक्षिण के बीच में 'श्रीमोर' नामक परगने में था, सजन के बड़ा पुत्र नं. ६ मोहिल से चौहानों में 'मोहिल शाखा' कहलाई गई.

नं. ६ मोहिल के साथ उसका पिता सजन अच्छा बरताव नहीं रखता था, जिससे उसने स्वपराक्रम से नया राज्य प्राप्त करने का उद्योग शुरू किया, उस समय में छापर-द्रोणपुर का राज्य 'वागडिया चौहानों' के तरफ था, द्रोणपुर नाम पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पडा था, और उस गांम में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था. यह भूमि पहिले 'डाहलिया परमारों' के पास थी, 'सिसपाल' नामका डाहलिया परमार के समय में 'छापर' का राज्य पूर्ण जाहोजलाली पर था. डाहलिया से यह राज्य वागडिया चौहानों ने लिया, और वागडिया से युद्ध करके सजन का पुत्र मोहिल ने यह राज्य कब्जे किया,

इस युद्ध में 'संतन' नामका शाहुकार ने मोहिल को द्रव्य की सहायता करने से उसको 'लाडणुं' परगना में 'कसुंभी' आदि ५ गांव इनायत किये, संतन ने उस गांव में मन्दिर व वावडी बनाई, जो 'संतन वाव' के नाम से प्रसिद्ध है. मोहिल ने इस भूमि को आबाद करके १४०० गांव बसाये और 'राणा' पद धारण कर गद्दी पर बैठा.

नं. ७ राणा हरदत्त से नं. १६ 'वेगा' राणा तक के राजाओं का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. १७ माणकराव का विवाह रावल लक्ष्मणसेन की पुत्री के साथ हुआ, जिससे नं. १८ सांगा का जन्म हुआ.

नं. १८ राणा सांवतसिंह बहादुर राजा था, उसका पुत्र नं. १९ अजीत राणा के साथ मंडोवर के राठौर राव जोधा ने अपनी पुत्री राजाबाई बिहाई थी.

नं. १९ राणा अजीत अपने सुसराल मंडोवर गया था, राव जोधा कई दिनों से मोहिल का विस्तीर्ण राज्य छीन लेने की फिक्र में था, उसने राणा अजीत को दगा से मारने की तजवीज की, परन्तु अजीत की सास भटियाणी को यह बात मालूम होने से उसने राणा के आदमियों को इशारा किया. राणा अजीत बहादुर राजा था, और मारे जाने के भय से भाग जावे वैसा नहीं था, जिससे राणा के प्रधान ने उसको कहा कि 'छापर' से आदमी खबर लाया है कि, यादवों की फौज छापर के उपर आई है, और वछराज सांगावत (नं. १९ वाला) कहलाता है कि 'मैं घेरे में फँसा हूँ सो मैं मर जाऊं वहां तक मैं आ सकू तो आना,' जिस पर राणा अजीत मंडोवर से रवाने हुआ. राव जोधा को यह बात मालूम होने पर उसने अपनी फौज के साथ उसका पीछा किया, जब कि राणा द्रोणपुर से तीन कोश के फासले पर पहुंचा तब उसके प्रधान ने उसको मंडोवर से लाने का कारण कहा, जो सूनते ही उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी इज्जतको दाग लगाया, इतना कह कर वह वापस लौटा, और राव जोधा जो उसके पीछे आ रहा था, उसके सामने युद्ध करने को उपस्थित हुआ. 'घणौडा' नामक गांव के पास दोनों का मुकाबला हुआ, जिसमें राणा अजीत बड़ी वीरता से युद्ध कर ४५ आदमियों के साथ काम आया, लेकिन राव जोधा वहां से वापस मंडोवर चला आया. अजीत की राणी राजाबाई अपने पति के पीछे सती हुई. अजीत के पीछे नं. १९ वछराज गद्दी पर आया.

नं. १९ राणा वछराज गद्दी पर आने बाद एक वर्ष पीछे राव जोधा ने फिर उस पर चढाई की, इस समय में मोहिल राजपूतों में कुसंप हो गया था, तब भी राणा वछराज ने युद्ध किया परन्तु वह हार गया, और राठौरों ने राज्य ले लिया.

नं. २० राणा मेघराज, अजीत राणा का बहादुर पुत्र था, उस ने बगावत शुरू की, और अपनी वीरता से राठौरों को ऐसे तंग कर दिये कि राव जोधा का यह निश्चय हुआ

कि जब तक मेघराज जिन्दा है वहां तक यह भूमि अपने हाथ में नहीं आवेगी, जिससे दोए मास रह कर वह मंडोवर चला गया. मेघराज ने पुनः छापर—द्रोणपुर का राज्य कब्जे किया, और अपनी हयाति तक राठौरों को सफलता होने न दी.

नं. २१ राणा वेरसल अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. उसके समय में उसके भाईओं ने फसाद मचाया और सोलह हिस्से से मोहिलों ने भूमि बांट ली. इसका भाई नरवद, राठौर कांधल रणमलोत के दोहित्र होता था. राणा वेरसल में अपने पिता के जैसा वीरत्व न होने से आपस का विग्रह बढ़ गया और उसमें बहुत मोहिल चौहान मारे गये, यह बात राव जोधा के कान पर पहुंचने से उसने अपने भाईओं को इकट्ठे कर राणा के उपर चढाई की, राठौरों की फौज आने का सूनते ही राणा व उसके भाई नरवद भाग गये, और राव जोधा ने छापर—द्रोणपुर का कब्जा कर लिया.

राणा वेरसल अपने भाई के साथ कितनेक दिन फतहपुर, जुझणा, भटनेर में रहे, बाद मेवाड में महाराणा कुंभा के पास जा रहे. राज्य चला जाने से उन्होंने ने अपने मामा राठौर वाघा कांधलोत की सहायता ली, राठौर वाघा अपने भांजा नरवद को साथ लेकर देहली के बादशाह लोदी के पास पहुंचा, जहां पर उनका अच्छा सत्कार हुआ. करीब दस अग्यारह माह तक बादशाह की सेवा में वे रहे, जिससे बादशाह ने पांच हजार सवारों के साथ पठाण सारंगखान का इनकी सहायता में भेजा. शाही फौज के साथ नरवद मोहिल ने फतहपुर जुझणा के पास मुकाम किया, जहां पर राणा वेरसल भी उनको आ मिला. राव जोधा ने छह हजार फौज के साथ उनसे युद्ध करने को कूच की. छापर की सिमा पर दोनों फौज का डेरा हुआ, लेकिन मुकाबला करने के पहिले राव जोधा ने राठौर वाघा को छूपी रीत से मुलाकात लेकर समझाया कि शाबाश भतिज ! मोहिल के वास्ते काका के सामने तलवार बांधी है ? राठौर वाघा ने यह सून कर राव जोधा का पक्ष ग्रहण किया, और कहा कि मैं मोहिलों को पग पाला डाबी हरोल में रखुंगा और पठाण की फौज जीमणी तरफ घोडे पर रहेगी, सो डाबी तरफ हमला करके सब मोहिलों को काट देना.

जब कि मुकाबला हुआ तब राठौर घोडे सवारों ने पैदल मोहिलों पर हमला कर उनको खेदान मेदान कर दिये, राव जोधा दूसरी तरफ से पठाण के उपर आया, इस युद्ध में पठाण सारंगखान के ५५५ सिपाही मारे गये, और राव जोधा को विजय प्राप्त हुई. राणा वेरसल मेवाड में अपने ननिहाल चला गया, और नरवद फतहपुर में पडा रहा. राव जोधा ने मोहिलों का राज्य अपने पुत्र जोगा को दिया, और आप मंडोवर गया.

राठौर जोगा कमजोर था जिससे मोहिलों ने जगह २ फसाद मचाया, उस पर जोगा की राणी झाली ने अपने श्वसुर को लिखा कि तुम्हारे पुत्र में भूमि को संभालने

का सामर्थ्य नहीं है सो दूसरा बंदोबस्त करो, जिस पर राव जोधा ने अपनी राणी सांखली नवरंगदे का पुत्र वीदा को वहां भेज कर जोगा को वापस बुला लिया, वीदा बहादुर राजपुत्र था उसने मोहिलों को जागीर देकर अपनी सेवामें रखे, 'जवा' नामक मोहिल की पुत्री के साथ राठौर वीदा ने लग्न किया. कितनेक मोहिलों के साथ 'जवा' को मेल नहीं था, जिससे उसने उनको देश नीकाल कराये. राठौर वीदा ने अपना अमल सम्पूर्ण जमाया, और वर्तमान समय में भी वह भूमि वीदावत राठौरों के तरफ है.

मोहिल चौहान इस तरह छीन भीन हो गये, 'क्षत्रिय वर्तमानं' नामक पुस्तक में मोहिल राजपूतों को चौहान नहीं गीनते अलग वंश होना बताया है, और इस कुल के राजपूतों में क्रमशः कपिल, मुन्दल, कौशिक व शांडिल्य इस नामके च्यार गौत्र होनेका अंकित किया है जो विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि एक राजवंश में भीत्र २ गौत्र होना असंभवित है. उक्त पुस्तक में मोवनसिंह नामके पुरुष से सात शाखाएं ( १ मानुधनी, २ चौधरी, ३ स्याहर, ४ घरडचोल्या, ५ सूम, ६ सिंगा व ७ हीरा ) होने का लिखा है, और माधोसिंह नामक पुरुष से सत्ताईस शाखाएं ( १ मुधडा, २ माराणी, ३ मोदी, ४ माहलणा, ५ सलाणी, ६ साभण्या, ७ सकराणी, ८ भाकराणी, ९ भराणी, १० भौराणी, ११ राजमहुता, १२ गौराणी, १३ उलाणी, १४ डोड्या, १५ डेढ्या, १६ चौधरी, १७ चमड्या, १८ चमक्या, १९ अटरेण्या, २० प्रहलादाणी, २१ पसारी, २२ छोटापसारी, २३ कौठारी, २४ बारीका, २५ वावरी, २६ बलडिया, २७ दम्मलका, ) होने का उल्लेख किया गया है, फिर मौवणजी नामक मोहिल से 'मनियार' शाखा हुई, जिससे छह शाखाएं ( १ मणियार, २ पसारी, ३ बरधु, ४ माझया, ५ खरनाल्या, ६ मनक्या. ) होना व माधोजी नामक पुरुष से 'मोदानी' शाखा से १ बम्ब, २ महदना, ३ वन्धर व ४ महनाना नामक शाखाएं विभक्त होना अंकित किया है. ( पृष्ठ १७६-१७७ पर ) पाया जाता है कि यह सब शाखाएं प्राचीन नहीं है, परन्तु उप शाखाएं है.

### (क) और शाखाओं के चौहान.

चौहान राजपूतों की चौबीस शाखाएं कही जाती है, परन्तु इस पुस्तक के पृष्ठ १६ पर जो जो शाखाओं के नाम अंकित हुए है उसकी संख्या ११५ हो चुकी है, उसमें से १ सांभर के चौहान, २ रणथंभोर के चौहान, ३ पूर्बिये चौहान, ४ नाडोल के चौहान, ५ हाडा चौहान, ६ खीची चौहान, ७ वाव के चौहान, ८ सांचौरा चौहान, ९ वागडिया चौहान, १० वालीसा चौहान, ११ सोनगरा चौहान, १२ देवडा चौहान व १३ मोहिल चौहान, इन शाखाओं के वंशवृक्ष इस प्रथम विभाग में आ चुके है, और सोनगरे चौहान से विभक्त हुई १४ बोडा, १५ बालोत, १६ चीवा व १७ अबसी चौहानों के वंशवृक्ष दूसरे विभाग की पुस्तक में अंकित हुए है.

चौहानों की और शाखाओं के वास्ते चाहिये वैसा साहित्य प्राप्त न होने से उनका

शृंगलावद्ध वंशवृक्ष होना मुश्किल है, बल्कि कितनीएक शाखा के चौहान कहां कहां पर विद्यमान है, उसका पत्ता नहीं चला है. इन शाखाओं में कितनीएक शाखाएं उप शाखा भी है, जैसे कि १ गुजराती, २ पावेचा व ३ पबिया यह शाखाएं गुजरात के खीची चौहान शाखा के ही नाम हैं. ४ माहणोत व ५ सिंहणोत शाखा हाडा चौहानों की उप शाखा हैं. (देखो इस पुस्तक के पृष्ठ ६३ पर) इसी मुआफिक बहुत ही शाखाएं उपशाखा होंगी.

अतएव इस पुस्तक के पृष्ठ १६ पर अंकित हुई शाखाओं में से १ पंजाबी, २ बगडावत, ३ भदोरिया, ४ चांदाणा, ५ मामा इन शाखा के चौहान कहां २ विद्यमान है, वह इस पुस्तक के पृष्ठ १०-११ पर अंकित हुआ है, और ६ आन्द्रेचा, ७ खीवर, ८ भवर, ९ वीवा, १० डेडरिया, ११ वाघोडा, १२ गिल, १३ वोडा, १४ जलापा, १५ वील, १६ धधेड आदि शाखाओं के स्थान पृष्ठ १५ पर नीमराणा की ख्यात पर से लिखने में आये हैं. 'क्षत्रिय वर्तमान' नामक पुस्तक में १७ निकुम्भ, (नकुब) व भदोरिया शाखा खीची चौहानों में से विभक्त होने का उल्लेख किया गया है, ( पृष्ठ ९५ पर ) परन्तु भदोरिया शाखा बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है, बल्कि खीची शाखा के पहिले यह शाखा विभक्त होनेका जगह २ पाया गया है. ( देखो इस पुस्तक के पृष्ठ १० पर ) वर्तमान समय में ' भदावर ' स्टेट में भदोरिये चौहान विद्यमान है, यदि उसका इतिहास मिल जाता तो ऐसी बातों का निश्चय सरलता से हो सकता.

१८ निर्वाण चौहानों की पूर्व में ' नरवरगढ ' नाम की रियासत विद्यमान है, जो शाखा भी प्राचीन है. १९ माद्रेचा शाखा के चौहानों का वि. सं. की सोलहवी सदी की शुरुआत तक ' देसुरी ' में राज्य था, जो माढ के सोलंकी भोज के पोतों ने छीन लिया. नीमराणा की ख्यात से ' मूरगढ ' नामक स्थान पूर्व में है, वहां ' माद्रेचा ' का राज्य होना अंकित हुआ है.

२० कापलिया चौहान का राजस्थान पूर्व में ' गढ कापल ' में होना नीमराणा की ख्यात से मालूम होता है, परन्तु मूतानेणसी की ख्यात में ' कुंभा कापलिया ' नामक बहादुर राजपूत की ख्यात लिखी गई है, उससे सांचौर की पश्चिम दिशा में ' कांपला ' नामक गांव में चौहान राजपूतों ने निवास करने से ' कापलिया ' शाखा कहलाई गई है. कापलिया कुंभा, राठौर मालदे ( मलीनाथ ) के समय में कांपला गांव में था, और मालदे की सेवा करता था. मालदे ने उसको अपने दरबार में बुलवा कर अपना प्रधान ' भोआनाई ' द्वारा उसकी घोड़ी मांगी, जिस पर कुंभा बहुत बिगडा, उसको मारने के वास्ते ५०० राजपूत खडे थे, तब भी शूरवीर राजपूत ने अपनी तलवार नीकाल कर सामना करना चाहा, क्रोधसे उसका मूह लाल चोल हो गया और बदन पर बाल खडे हुए थे, जिससे देखने जैसा चहेरा होने से, एक राजपूत ने राठौर मालदे को वह बात कही. मालदे ने आकर उसको देखा और उसके वीरत्व की कदर करके, उसके साथ

मौजूदा महाराजा भदावर स्टेट.



महाराजा महेन्द्र मानसिंह साहब बहादुर,  
भदावर स्टेट.





अपने पुत्र जेतमाल की पुत्री 'पती' का विवाह कर दिया. कुंभा के खेता व भोजा नामक दो पुत्र हुए वे भी बड़े बहादुर थे. वर्तमान समय में यह शाखा वाले कहां पर है, वह मालूम नहीं हुआ है.

२१ गोलवाल व २२ गोला यह दोनों शाखाएं एक ही होना 'क्षत्रिय वर्तमान' नामक पुस्तक की पृष्ठ ९७ पर अंकित है, उक्त पुस्तक में एक मत से यह शाखा 'सोनगरा' से, और दूसरे मत से 'खीची' चौहानों से विभक्त होने का लिखा गया है, परन्तु वह विश्वासपात्र नहीं है, क्यों कि नाडोल में चौहानों का राज्यस्थान हुआ, उसके बाद जो इतिहास प्रसिद्धि में है, उसमें गोलवाल या गोला शाखा इन दोनों शाखा से अलग होने का कहां भी उल्लेख नहीं हुआ है. नीमराणा की ख्यात में 'गढपछाह' में गोलवाल शाखा का राज्य होना अंकित हुआ है.

२३ मालण, २४ सेवटा, २५ सेलोट, २६ विहल, २७ सेजपाल, २८ ऊलेचा आदि शाखाओं के चौहान वि. सं. की चौदहवीं सदी में जालोर के सोनगरा रावल कान्हडदेव की सेवा में उपस्थित होना, मूता नेणसी की ख्यात और कान्हडदेव प्रबंध नामक पुस्तक से पाया जाता है, जिन के नाम इस पुस्तक के पृष्ठ १७१ पर व पृष्ठ १७५ पर अंकित है. वर्तमान समय में भी इन शाखाओं के चौहान राजपूताना के सिरोही व जोधपुर राज्य में विद्यमान है.

'क्षत्रिय वर्तमान' नामक पुस्तक में २९ बगसरिया ( बकसरिया ) शाखा के राजपूत बंगाल में 'बकसर' जिला में, ३० राखसिया ( रकसेल ) शाखा के राजपूत 'गया,' 'मध्यदेश,' व 'सिरगुंजा' में, ३१ 'नार' ( नाहर ) शाखा के राजपूत सागर जिला में और ३२ 'वाछल' शाखा के राजपूत मथुरा जिला के 'तरौली' गांव में होना बताया है. उक्त पुस्तक में इस पुस्तक के पृष्ठ १६ पर जो शाखाएं अंकित हुई हैं, उसके सिवाय १ पहरा, २ हरकट, ३ असवाल, ४ बोलकेत, व ५ धयाराविष्ट नाम की चौहानों की शाखाएं उत्तर हिन्दुस्थान में, और १ चौहाण, २ धडप, ३ वारंगे, व ४ दलपते नाम की शाखाएं दक्षिण ( महाराष्ट्र ) में होना बताया है.

उपर मुआफिक जिन २ शाखाओं का कुछ भी पत्ता चला वह अंकित करके यह 'चौहान कुल कल्पद्रुम' के प्रथम विभाग की समाप्ति की गई है, यदि और शाखाओं के वास्ते भरोसा पात्र इतिहास प्राप्त होगा, और इस पुस्तक की दूसरी आवृत्ति छपाने का मौका होगा, तब उन शाखाओं का अहवाल अंकित किया जायगा. अस्तु:





श्री आशापुरी प्रसन्नः



# चौहान कुल कल्पद्रुम.

विभाग २ रा.

( चौहान राजपूतों की शाखाओं के वंशवृक्ष के साथ इतिहास. )

रचिता व प्रकाशक

न्यायरत्न देसाई लल्लुभाई भीमभाई

( संदलपुर, जिल्ला नवसारी. )

रिटायर्ड लेन्ड रेवीन्यु ओफिसर सिरोही स्टेट राजपुताना

मु० आवुरोड ( राजपुताना )

मुद्रकः

बडोदा-श्री लुहाणामित्र स्टीम प्रिन्टिंग प्रेस में ठक्कर अंबालाल विठ्ठलभाई ने प्रकाशक के लिये  
छाप कर प्रसिद्ध किया. ता. १-६-१९२७

प्रथमावृत्तिः

( इस ग्रंथ के स्वामीत्व के सब हक ग्रंथ रचिताने अपने स्वाधिन रखे हैं )

विक्रम संवत् १९८३ ]

[ सन १९२७ इस्वी



# CHOUHAN KUL-KALPADRUMA.

## PART II.

History and Genealogical Trees of the Branches of  
Chouhan Rajputs.

---

Published By

**Nyayaratna Desai Lallubhai Bhimbhai**

( Sandalpur, Navsari District )

Retired Land Revenue Officer, Sirohi State

ABUROAD ( Rajputana ).

---

Printed at

The Lubana Mitra Steam Printing Press, Baroda by  
Ambalal Vithalbhai Thakkar on 1 st June 1927.

---

FIRST EDITION.

---

All Rights Reserved by the Author.

Sainvat 1983.

A. D. 1927



## द्वितीय विभाग की प्रस्तावना.

‘चौहान कुल कल्पद्रुम’ पुस्तक के प्रथम भाग में चौहान वंश की मुख्य २ शाखा के पाटवियों का इतिहास अंकित है, अब इसका द्वितीय भाग सिरोही रियासत के चौहान सरदारों ( जो जालोर के सोनगरा राव मानसिंह उर्फ माणीजी के वंशज हैं और देवडा, बोडा, बालोतर, चीवा, व अवसी, इन शाखाओं के नाम से मशहूर हैं.) के विषय में लिखा गया है, यदि इन सरदारों का तात्त्विक सिरोही रियासत से होनेसे देवडा चौहान राजकुल का इतिहास जो प्रथम विभाग में आ चुका है उस से जुड़ा हुआ है, परन्तु इस पुस्तक में अंकित हुई ख्याति का महत्व मामूली इतिहास से ज्यादा होने के कारण इन सरदारों के विषय में लेखक को कुछ और भी जाहिर करना आवश्यक है.

इस पुस्तक में अंकित हुई ख्यात विशेष महत्व की होना कहा जाता है, इसका कारण यह है कि इसमें एक ही राजकुल के करीब २५० सरदारों के खानदान का शृंगलावद्ध वंशवृक्ष अंकित है, जिनमें वर्तमान समयमें सिरोही रियासत की तहत में विद्यमान रहे करीब २०० सरदारों के खानदान के वंशवृक्ष में उनके वंश में जन्म पाये हुए हर एक पुरुषों की नामावली के साथ, उनके तरफ विद्यमान रही जागीरों को प्राप्त करने वाले मूल पुरुष के नाम भी नमुद किये हैं, और वह ऐतिहासिक घटना सत्य व सप्रमाण होना स्वीकार होकर इन सरदारों की जागीरों के मामलातों में इस पर से ही निर्णय हा रहा है, व भविष्य में भी होता रहेगा, जब गैर रियासत ( जोधपुर व पालणपुर ) की तहत में जाने वाले करीब ५० सरदारों के खानदान में सिर्फ पाटवि सरदार की पुर्तें अंकित है.

इस में शक नहीं है कि प्रथम भाग की पुस्तक में देवडा चौहान राजवंश का जो निष्फलक व गौरवशाली इतिहास अंकित हुआ है, उसने इन सरदारों का मुख्य हिस्सा है, जिनकी स्वामी भक्ति और सहायता से मुगल, मरहठा व पडोशी राज्य की तरफ से होते रहे बार २ के आक्रमणों को निष्फलता प्राप्त होकर सिरोही राज्य की स्वतंत्रता व स्वाभिमान को यद्किचित् असर नहीं होने पाई और कैलास की शोभा देनेवाला, स्वर्ग के नंदनवन की नाई सुख सामग्री से युक्त पवित्र आवुगज के पहाड पर दुश्मनों के पैर रखने का मौका नहीं मिला. प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों में वीर पुरुषों के चारित्र्यों का सारांश यही मिलता है कि उन्होंने ने सुकीर्ति अथवा भूमि रूपी सुदरी की प्राप्ति के वास्ते किंवा उसके रक्षणार्थे अपने प्राणों की आहुति देनेमें पीछा पैर नहीं दिया. सिरोही के चौहान सरदारों ने भी अपने मालिक के नाई प्राचिन कुल गौरव को याद रखकर



भूमि का लोभ नहीं रखते कीर्ति सम्पादन करना ही उचित समझा. यदि मुगलवंश की स्थापना होने बाद महान् अकबर बादशाह की उदार राजनीति अमल में आने पर अनेक राजकुल के राजा व उनके भायात सरदारों ने शाही सेवा में उपस्थित होकर अनेक रियासतें व विस्तीर्ण भूमि की जागीरें प्राप्त कर ली, परन्तु सिरोही के भायात सरदारों ने औरों के मुआफिक दूसरे की सेवा करने में मानहानी होना मानकर, अपने मालिक व स्वदेश की सेवा करने में ही मुस्तेद रह कर, चौहान राजपूतों का जन्म सिद्ध स्वभाव 'बल और हठ' को त्याज नहीं करते 'बल हठ बंका देवडा' नाम कहलाना पसंद किया, जिससे उनके तरफ ओर राजकुल के भायात सरदारों के नाई स्वतंत्र रियासतें व बडी २ जागीरें नहीं है, अगर इन्होंने ने ओर राजकुल के भायात सरदारों का अनुकरण किया होता तो सायद ही सिरोही रियासत की स्वतंत्रता कायम रहने पाती ! क्योंकि इतिहास रूपि चित्रपट में अनेक रंग का दर्शन होता है, उस नियमानुसार सिरोही का एक सरदार 'वजेसिंह' को सिरोही की गद्दी प्राप्त करने की लोलुपता लग जानेसे उसके कर्तव्य से ही महाराज सूरताणसिंह को अपने राज्य के चार परगने और बोडा, वालोतर व बडगामा देवडा, आदि सरदारों को उनकी इच्छा विरुद्ध गैर रियासत की तहत में देना (देखो प्र. वि. पृ. २४६ पर) व अपनी जिन्दगी तक दुश्मनों के सामने समशेर खुली रखना आवश्यक हुआ.

सिरोही के चौहान सरदारों की सेवा की कदर उनके रइसों की तरफ से इतने दर्जे तक जा पहुंची थी कि विक्रम संवत् की अठारहवीं सदी के अंतिम समय में सिर्फ चार गांव के सिवाय कुल इलाका जागीरों में बट चूका था. इन सरदारों की जागीरों का दर्जा व फरज के विषय में मेवाड के सरदारों की जो प्रणाली कर्नल टॉड महाशय ने 'टॉड राजस्थान' की पुस्तक में वर्णन की है उसी मुआफिक (जागीर देना, लेना, तबादला करना आदि) होना पाया गया है, फरक यह मालूम होता है कि सिरोही के सरदारों की संख्या रियासत की सीमा के मुकाबले में विशेष होनेके कारण रियासत का वभा और खर्च निभाने के वास्ते हरएक जागीरों से अनेक प्रकार के नाम से कम वेस कर वसूल होता था. विक्रम संवत् की उन्नीसवीं सदी के अंधकार युग में सिरोही के महाराजों के राजसाशन में भी शिथिलता आ गई, और शाही सेवा में उपस्थित रहे पडोशी राज्यों ने सिरोही की सीमा दबाकर अपनी सीमा बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया, इस कारण से सिरोही के महाराजों को फौज खर्च बढ़ाना पडा, जिससे जागीर के गांवों पर कर का बोझा बढ गया और उसी कारण से गैर रियासत की सीमा पर विद्यमान रहे चौहान सरदारों की स्वामि भक्ति चलायमान होने लगी. इसी समय में कितनेक सरदारों ने स्वतंत्र बनने का व कितनेक ने कर नहीं देना पडे उसके वास्ते पडोशी राज्य

का शरण लेने का प्रयत्न किया. वि. सं. १८६४ ( महाराव वेरीसाल दूसरे के देहान्त ) तक उन लोगों की चाहिये वैसी मुराद हासिल नहीं होने पाई, लेकिन पीछेसे महाराव उदयभाण की जुलमी राजनीति और प्रजापिडन कार्यों से सिरोही की प्रजा इतनी दुःखी होगई कि उसने अपने जानमाल व इज्जत के रक्षणार्थे जन्मभूमि का त्याग करना पसंद किया. जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इस गैर व्यवस्था का लाभ लेकर सिरोही का राज्य अपने कब्जे में लेने के वास्ते हर साल आक्रमण जारी रखे, और गुलजार अर्बूद भूमि को बरवाद करना चाहा, उस मौके पर पडोशी राज्य की सीमा के सरदारों ने जुलमी राज कर से बचने के वास्ते ( पालणपुर व जोधपुर ) गैर रियासत का आश्रय लिया, बल्कि कितनेक सरदारों ने पालणपुर रियासत को अपनी जागीर की आमदनी में से आधा हक देना स्वीकार करके अहदनामे कर लिये. यदि कहावत में उन सरदारों को विद्रोही सरदार कहे गये हैं, परन्तु महाराव उदयभाण के समय का इतिहास उन लोगों का बचाव करने के वास्ते गवाही दे रहा है कि ( देखो प्र. वि. पृष्ठ ३०४ की टिप्पणी में महाराव उदयभाण का वि. सं. १८६५ का आषाढ वदि २ के पत्र की नकल. ) जागीर गांवों से कर वसूल करने की पद्धति इतनी सख्त थी कि वह सहन करने में वे लोग असमर्थ हो गये थे, बल्कि उसकी ऐयाशी से सिरोही राज्य का अस्तित्व व स्वतंत्रता के वास्ते भी शंका उपस्थित होने से महाराव के छोटे भाई राव शिवसिंह को राज्य की लगाम अपने हाथ में लेना आवश्यक हुआ. महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेकर अंग्रेज सरकार के साथ सैत्री करने की बातचित शुरू की, और अपने राज्य के सरदारों को संतुष्ट करने के वास्ते उनकी जागीर से राज हक वसूल करने का एकही नियमित धोरण तय किया, उसी समय ( वि. सं. १८८० ) से सरदारों की जागीर से राजहक वसूल करनेका एक ही नियम चला आता है. इस में कोई शक नहीं है कि महाराव शिवसिंह की उदार राजनीति अमल में आजाने पर भी जिन २ जागीरदारों ने स्वेच्छा से गैर रियासत का शरण जारी रखा है वे लोग जरूर अपनी स्वामि भक्ति से वंचित होने के दोष पात्र हैं.

सिरोही रियासत में प्राचीन समय से ही जैसे जागीरदारों की जागीर से राजहक वसूल लेनेके वास्ते एक नियम नहीं था, उसी मुआफिक सरदारों की जागीर में नाओलादी होने पर जागीर खालसा राज रखना या किसी को गोद रखना उस विषय में भी कोई खास धोरण नहीं होने से सिर्फ रइस की इच्छानुसार ऐसे मौके पर अमल होता आया है. महाराव शिवसिंह ने भी इस विषय में कोई एक नियम नहीं किया, और वि. सं. १९८० ( ई. स. १९२३ ) तक वही प्राचीन प्रणाली विद्यमान रही, जिससे ऐसे नाओलादी के प्रसंग पर रियासत व सरदारों के दरमियान के एकलास में फरक आने लगा, बल्कि राज का पुराना दफतर लूट जाने से, और सरदारों के पास अपने तरफ

रही हुई जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर प्राप्त करने के विषय में भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चौहान सरदारों के तरफसे गत सैका में जो २ उपद्रव होने का इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तनाजे, आपस की तकरारें, व नाओलादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण भी मुख्य है, वलिक राजसाशन की शिथिलता, और सरदारों की संख्या व बल ज्यादा होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी कितनेक जागीरदारों ने उलंघन करने से तकरारें होने पाई थी. मरहूम महाराव सर कैसरीसिंह बहादुर ने ऐसी तकरारें भविष्य में पैदा नहीं होवे उसके वास्ते अंग्रेज सरकार की तरफ से मिष्टर एम. कीन. I. G. S. साहब की सेवा सेटलमेन्ट करने के वास्ते ली, साहब मौसूफ ने बड़े श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, और जागीरी गांवों का 'नकद लगान' ठहराने का, व नाओलादी जागीर की व्यवस्था के विषय में एक कानून मुकरर करना चाहा, लेकिन जागीरदारों के हठीलापन से वह काम अपूर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना काम करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक बड़े जुथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ रफे करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूपरामसिंह बहादुर के आगे पेश किया, जिस पर महाराव साहब ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर कर्नल मेकफरसन साहब की सेवा दो साल के वास्ते लेकर 'जागीरदार कमीटी' मुकरर की. उस कमीटी में कितनेक महत्त्व के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम विभाग की भूमिका में जाहिर करने मुआफिक लेखक की तरफसे संग्रह हुआ साहित्य की सहायता लेना आवश्यक हुआ. उसी मौकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से संग्रह हुई ऐतिहासिक सामग्री देखने का, और अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका व अपने बडुए की वहीओंसे जाँच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जबकि उनकी जाँच में वह सामग्री सही होना पाया गया तब उन्होंने अपनी महत्त्व की तकरारों का तसफिया के वास्ते इसका उपयोग करना स्वीकार किया, और पीछेसे इस्वी सन १९२३, में जबकि महाराव साहब ने अज खुद जागीरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तब जागीर के ओरिजनल ग्रांट (Original Grant) व दूसरी वारसान हक की तकरारों का निर्णय इसी साहित्यसे हुआ, वलिक वर्तमान समयमें जो 'जागीरदार कमीटी' स्थापित है, उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है.

इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्री को पुस्तक के रूपमें छपवाने की सूचना लेखक को सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता. १०-१०-२४ ई. की तहरीर से मिली, और मरहूम महाराव सर कैसरीसिंह बहादुर कैलासवास हुए उसकी उत्तरक्रिया के प्रसंग पर सब चौहान सरदार सिरोही में इकट्ठे हुए तब उन्होंने ता. २७-१-२५ ई. के रोज मिटींग करके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने की योजना तैयार की. जिन २ सरदारों ने


अपनी तसविरे दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावली, इतिहास व तसविरे एकही जगह अंकित होने से यह पुस्तक 'कल्पद्रुम' के नाई चौहानों को ख्यात के वास्ते इच्छित सामग्री पूर्ण करता है, बल्कि लेखक की मान्यता है कि मौजूदा महाराज साहब सर स्वरूपरामसिंह बहादुर K. G. S. I. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकलास बढाने की सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तु:

मु० आबुरोड.

}

ली.

लल्लुभाई भीमभाई देसाई.





श्री.

## सुचीपत्र.

### ‘ चौहान कुल कल्पद्रुम ’ विभाग दूसरा की पृष्ठवार विषयानुक्रमणिका.

प्रकरण	विषय व वाच्य	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व वाच्य	कौन पृष्ठ पर
१	सिरोही रियासत के चौहान सरदारों की शाखाएं. पृ. १ से ७.		५	लखावत देवडा (पृथ्वीराजोत). पृ. ३७ से ५४.	
१	वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान.	२	१	निंबज ठिकाने के राजसाहेवां.	३७
२	सिरोही रियासत के देवडा चौहान राजवियान. पृ. ८ से १९.		२	पीथापुरा परगने पामेरा.	४९
१	नांदीआ ठिकाने के महाराज	९	३	सेलवाडा " "	५०
२	अजारी " "	१०	४	मावल-गीरवर ठिकाने के ठाकुर (नाओलाद.)	५०
३	जोगपुरा " "	११	५	आंबलारी परगने मगरा (खालसा.)	५१
४	मंदार " की बडी पांती के राज साहेवां.	१३	६	नीबोडा (आंबलारीके) परगने पामेरा.	५१
५	मंदार " छोटी पांती के राजसाहेवां.	१७	७	डांगराली परगने पामेरा.	५२
६	काछोली परगने रोहीडा के लखावत.	१८	८	पोसीदरा परगने पामेरा. पांती नं. १	५३
३	लखावत रियासत जोधपुर. पृ. २० से ३१.		९	पोसीदरा " " पांती नं. २	५३
१	देवातरा (ई. जोधपुर) के लखावत.	२०	१०	लुणोल " "	५४
२	विशालपुर " "	२१	६	लखावत देवडा (प्रतापसिंहोत). पृ. ५५ से ६५. (तेजावत)	
१	विशालपुर ठिकाने के ठाकुर.	२२	१	भटाणा ठिकाने के ठाकुर बडी पांती.	५५
१	के ३/४ सीकडा के लखावत.	२४	२	भटाणा " " छोटी पांती.	६१
१	के नं. १/४ सामपुरा. नं. १/४ भागली व नं. १/४ गलथणी.	२५	३	पादर परगने मंदार.	६१
१	के नं. १/४ बरोलिया.	२६	४	मकावल " " बडीपांती.	६२
१	के नं. १/४ कोलीवाडा व नं. १/४ बलवना.	२७	५	मकावल " " छोटी पांती.	६२
१	के नं. १/४ लाज व मेडा के लखावत.	२८	६	मारोल " "	६३
२	वांकली ठिकाने के ठाकुर.	२८	७	ढढमणा " " (नाओलाद.)	६३
२	के नं. ३/४ खीवाणदी के लखावत.	२९	८	दताणी (ढाक) परगने पामेरा के लखावत.	६४
३	धुरबाणा परगने खूणी ई. सिरोही.	२९	९	सापोल " " "	६५
२	के नं. ३/४ मोडरु के लखावत.	३०	७	लखावत देवडा (सामन्तसिंहोत). पृ. ६६ से ८१.	
२	के नं. ३/४ तलाणी व सोलोदरीआ.	३०	१	लखावत सामन्तसिंहोत वंशवृक्ष. (सांगावत)	६६
२	के नं. ३/४ बलपुरा के लखावत.	३०	२	हरणी परगने मंदार की पांती नं. १	६७
४	कोरटा ठिकाने के ठाकुर.	३१	३	हरणी " " की पांती नं. २	६८
५	लखावत देवडा (सामीदासोत). पृ. २२ से ३६.		३	अ. आ. हरणी " के छोटभाई.	६८
१	दवाणी ठिकाने के ठाकुर.	३२	४	रहुआ ठिकाने के ठाकुर.	६९
२	मालगांव परगने पामेरा की पांती नं. १	३४	५	वरमाण परगने मंदार.	७३
६	मालगांव " " की पांती नं. २	३५	६	वागदा (मगरीवाडा.) परगने मंदार.	७४
४	मालगांव " " की पांती नं. ३	३५	६	अ. वागदा के छोटभाई.	७४
५	थल (सिरोही के) परगने पामेरा की पांती नं. १	३६	६	आ. वागदा के दूसरे पडवे के सांगावत.	७५
६	थल परगने पामेरा की पांती नं. २	३६	७	इदरला परगने पामेरा (सारणेश्वरजी पट्टे)	७५
			८	जोलपुर " " (ना ओलाद.)	७६
			९	बडवज परगने मंदार.	७६
			१०	केसुआ " " (ना ओलाद.)	७७
			११	रायपुर व दडमतिया परगने मंदार.	७७

प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर
	( सामन्तसिंहोत )				
१२	सेरुआ परगने पामेरा (ना ओलाद.)	७८	३	मडवारीआ परगने शोरा	१२३
१३	सणघाटा ,, ,, पांती नं. १	७८	४	बुआडा ( मोटागांव ) ठिकाने के ठाकुर.	१२४
१४	मणघाटा पांती नं. ३ (ना ओलाद)	७९	५	वरलुठ परगने शोरा के ठाकुर.	१२५
१५	सणघाटा. पांती नं. २	८०	६	नवारा परगने मगरा.	१२६
१६	भामरा परगने पामेरा. (सारणेश्वरजी पट्टे)	८०	७	अणगोर परगने पामेरा पांती नं. १	१२७
१७	रेवदर परगने मंदार में वागदा वाले.	८१	८	अणगोर ,, ,, पांती नं. २	१२८
८	लोटाणचा व वालदा वारीघाटा के देवडा. पृ. ८२ से ८५.		९	डोडुआ. ,, ,, पांती नं. १	१२८
	( लोटाणचा )		१०	डोडुआ. ,, ,, पांती नं. २	१३०
१	धनारी परगने रोहीडा (राजपूत दावे.)	८२	११	वेलंगरी. ,, ,,	१३०
२	सादलवा ,, पिन्डवाग. ( ,, )	८३	१२	धाणता. ,, ,,	१३१
२	अ. नं. २ आ. ई. नाणा, इलाके जोधपुर.	८३-८४	१३	चंद्रावती परगने सांतपुर.	१३१
३	वालदा (वारीघाटा) परगने पिन्डवारा.	८४	१४	वालदा परगने पामेरा (छोटभाई.)	१३२
९	हुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत. पृ. ८६ से ११६.		१५	डोडुआ ,, ,, छोटभाई रायसिंहोत.	१३२
	( रामावत )		१६	वाण परगने शोरा.	१३३
१	पाडिव ठिकाने के ठाकुर.	८६	१६	( अ. आ. ) वाण परगने शोरा के छोटभाई.	१३४
२	पालडी परगने खूणी.	९९	१७	सगालिया परगने खूणी.	१३५
३	वागमीण ,, ,, की पालडी पांती नं. २	१००	१८	नीवोडा परगने मगरा.	१३५
४	वागसीण ,, ,, की पाडिव पांती नं. १	१००	११	हुंगरावत देवडा की मेरावत शाखा. पृ. १३७ से १४९.	
५	जावाल ठिकाने के ठाकुर.	१०१	१	अरठवाडा परगने खूणी.	१३७
६	नुन परगने मगरा की जावल पांती नं. २	१०३	२	राडवर ,, ,,	१३९
७	सांदरत परगने पामेरा.	१०४	३	वाडका. ,, ,, की पांती नं. १	१४०
८	जीरावल परगने मंदार पांता नं. १	१०५	४	वाडका. ,, ,, की पांती नं. २	१४०
९	नारादरा परगने शोरा.	१०६	५	वाडका. ,, ,, की पांती नं. ३	१४१
१०	भोडा ,, ,, छोटभाई.	१०६	६	भेव. ,, ,,	१४२
	( सवरावत )		६	( अ. ) भेव. ,, ,, के छोटभाई.	१४३
११	मडवारा (उड) परगने शोरा.	१०७	७	उतमण परगने खूणी.	१४४
१२	सघराटा परगने मगरा.	१०८	८	पोसालिया ,, ,, उतमण पांती के छोटभाई.	१४५
१३	सवली परगने शोरा. (पट्टे सारणेश्वरजी.)	१०९	९	रुखाडा ,, ,,	१४६
१४	फुंगणी परगने मगरा. पांती नं. २	१०९	१०	रामपुरा ( पोसालिया की भेवकी पांती. ) परगने खूणी.	१४६
१४	अ. फुंगणी ,, ,, के छोटभाई.	१११	११	खणदारा परगने खूणी व उनके छोटभाई जो पोसालिया व राणीगाम में हैं.	१४७
१५	घारेवडा परगने खूणी. पांती नं. १	१११	१२	मोसाल परगने खूणी.	१४८
१६	घारेवडा ,, ,, पांती नं. २	११२	१३	फतापुरा ,, ,, ( नाओलाद. )	१४९
१७	मढीआं परगने मगरा के ठाकुर.	११३	१२	हुंगरावत देवडा की अमरावत शाखा. पृ. १५० से १५५.	
१७	अ. मढीआं ,, ,, के छोटभाई.	११३	१	जोगापुरा परगने खूणी के छोटभाई.	१५०
१८	जामोत्रा परगने शोरा.	११४	२	गोला ,, ,, पांती नं. १	१५०
१८	अ. मुडेटी इलाके इडर में जामोत्रा के छोटभाई.	११५	३	गोला ,, ,, पांती नं. २	१५१
१८	आ. जोगाणी इलाके जोधपुर में जामोत्रा के छोटभाई.	११५	४	रांवाडा. ,, ,, (नाओलाद)	१५१
१९	सिरोडकी परगने मगरा.	११५	५	बुडेरी. ,, ,,	१५२
१०	हुंगरावत देवडा मूरावत के सामन्तसिंहोत. पृ. ११७ से १३६.		६	मोटा लखमावा. परगने खूणी.	१५३
१	कालंजी ठिकाने के ठाकुर.	११६	७	जोयला ,, ,, छोटभाई	१५४
२	कांकेंदरा परगने मगरा.	१२२	८	जोयला के छोटभाई व धनापुरा व पोइणा इलाके जोधपुर के अमरावत.	१५४

प्रकरण	विषय व वाचत	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व वाचत	कौन पृष्ठ पर
१३	डुंगरावत के भीमावत व अर्जुनोत. पृ. १५६ से १५८.		१५	भरडी इलाके जोधपुर के वजावत.	१८४
	१ भूतगांव परगने झोरा ( भीमावत )	१५६	१६	बडा लोटीवाडा परगने झोरा खारल.	१८४
	२ नुन परगने मगरा दूसरी पांती नं. १ (अर्जुनोत)	१५७	१७	मणादर के वजावत छोटभाई (लापत्ता.) ( हरराजोत )	१८५
१४	डुंगरावत के कुंभावत व मांडणोत. पृ. १५९ से १७०.		१८	देलदर परगने झोरा पांती नं. १	१८५
	( कुंभावत )		१९	देलदर ,, ,, पांती नं. ३	१८६
	१ सीलदर परगने मगरा छोटभाई.	१५९	२०	देलदर ,, ,, पांती नं. २	१८६
	२ सीलदर ,, ,, पांती नं. २	१६२	२१	छोटालोटीवाडा परगने झोरा.	१८७
	३ मांडवारा (मेर) ठिकाने के छोटभाई.	१६२	१६	डुंगरावत के गांगावत. पृ. १८८ से १९३.	
	४ मांडवारा ठिकाने के ठाकुर.	१६३		१ जेलां परगने मगरा. पांती नं. १	१८८
	५ ( अ. ) मांडवारा ठिकाने के छोटभाई.	१६४		१ अ. जेलां ,, ,, ,, छोटभाई.	१८९
	६ पोइदरा परगने मगरा. (इश्वरजी).	१६४		२ जेलां ,, ,, पांती नं. २	१८९
	६ तवरी. ,, ,,	१६५		२ अ. जेलां ,, ,, ,, छोटभाई.	१९०
	( मांडणोत )			३ फलवडी ,, ,, (ब्रंजनाथजी महादेव.)	१९१
	७ लाय परगने झोरा खारल पांती नं. १	१६६		४ सणपुर ,, ,, पांती नं. १	१९१
	८ लाय ,, ,, ,, पांती नं. २	१६७		५ सणपुर ,, ,, पांती नं. २	१९२
	८ अ. लाय ,, ,, ,, पांती नं. २ के छोटभाई.	१६८		६ बडीपुनंग इलाके जोधपुर के गांगावत.	१९३
	९ तलेटा ,, ,, ,,	१६८	१७	डुंगरावत के भेदावत पृ. १९४ से २००.	
	१० छोवागांव परगने खूणी.	१६९		१ चूली परगने खूणी पांती नं. १	१९४
	११ मांडाणी परगने झोरा खारल.	१७०		१ अ. चूली ,, ,, ,, छोटभाई.	१९५
१५	डुंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. पृ. १७१ से १८७.			२ चूली व चोटीला परगने खूणी पांती नं. २	१९५
	१ मणादर परगने झोरा खारल के छोटभाई. जोधपुर रियासत के नोरु (नौसर), वाणनी, वागदु. आदि के रूद्रसिंहोत ( वजावत )	१७१		३ गोडाणा. ,, ,,	१९८
	२ सतापुरा परगने झोरा खारल पांती नं. १	१७४		४ पिन्डवारा में भेदावत राजपूत.	१९९
	३ सतापुरा ,, ,, पांती नं. २	१७५		५ गढरा इलाके पालणपुर के भेदावत.	१९९
	४ मणोरा ,, ,, पांती नं. १	१७५		६ तेलपुर परगने पिन्डवारा में भेदावत राजपूत.	२००
	५ मणोरा ,, ,, पांती नं. २	१७६		७ छोटीपुनंग इलाके जोधपुर के भेदावत.	२००
	६ मणोरा ,, ,, के छोटभाई	१७६	१८	मालणवा डुंगरावत. पृ. २०१ से २०८.	
	७ घेरापुरा परगने सिरोही.	१७६		१ वीरवाडा परगने पिन्डवारा.	२०१
	८ मोरली ,, खूणी.	१७७		१ अ. वीरवाडा ,, ,, के छोटभाई.	२०२
	९ झाडोली ,, झोरा खारल पांती नं. १	१७८		२ वीरोली ,, ,, (ना ओलाद.)	२०३
	१० झाडोली ,, ,, पांती नं. २	१७८		३ सोणवाडा ,, ,, में मालणवा राजपूत.	२०३
	१० अ. झाडोली ,, ,, पांती नं. २ के छोटभाई.	१७९		४ डींगार ,, ,, ,,	२०४
	११ अणदोर ,, खूणी (पट्टे सारणेश्वरजी) पांती नं. १	१७९		५ सोणवाडा व नांदीआ. ,,	२०४
	१२ अणदोर ,, ,, पांती नं. २	१८०		६ सवरली परगने पिन्डवारा.	२०४
	१३ वाधली ,, मगरा पांती १ (ना ओलाद.)	१८१		७ पालडी परगने खूणी में मालणवा राजपूत.	२०५
	१४ वाधली ,, ,, पांती नं. २	१८१		८ वीरोली परगने पिन्डवारा में मालणवा राजपूत.	२०५
	१३ अ. आ. वाधली ,, के छोटभाई.	१८२		९ मूरी परगने पिन्डवारा के मालणवा जो सवरली में है वह.	२०६
	१३ इ. ई. वाधली ,, ,,	१८३		१० सीवेरा परगने पिन्डवारा पांती नं. १	२०७
				११ सावेरा ,, ,, पांता नं. २	२०८
			१९	कीतावत व मामावली के गोसरावत देवडा. पृ. २०९ से २१३.	
				१ पामेरा में कीतावत राजपूत.	२०९
				२ सणदरा इलाके जोधपुर में कीतावत.	२१०




प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर	प्रकरण	विषय व बावत	कौन पृष्ठ पर
	३ विजापुर इलाके जोधपुर में कीतावत राजपूत.	२११	५ कपासिया रियासत पालणपुर के चीवावत.	२३७	
	४ मामावली परगने पामेरा के छोटभाई.	२११	६ आकोली. " " "	२३७	
	५ मामावली " " पांती नं. १	२१३	७ रेवदर परगने मंठार ( व पांथावाडा ई. पालणपुर. ) के चीवावत.	२३७	
	६ मामावली " " पांती नं. २	२१३	८ दुआ परगने मगरा के चीवावत.	२३८	
२०	बढगांमा व वागडिया देवडा. पृ. २१४ से २१८.		९ चीवावत राजपूत भारजा व खाखरवाडा परगने रोहीडा ( राजपूत दावे. )	२३८	
	१ बढगांम ईलाके जोधपुर.	२१५	९ ( अ ) भारजा के चीवावत ( राजपूत दावे ).	२३९	
	२ आकुना परगने मगरा पांती नं. १	२१६	९ ( आ ) खाखरवाडा के चीवावत ( राजपूत दावे. )	२४०	
	३ आकुना " " पांती नं. २	२१७			
२१	वांडा चौहान ( सियाणा इलाके जोधपुर ). पृ. २१९ से २२२.	२१९	२४ अवावत उर्फ अवसी चौहान. पृ. २४१ से २४९.		
२२	वालोतर चौहान ( ढोडीयाली इलाके जोधपुर ). पृ. २२३ से २३१-व.		१ देलदर परगने सांतपुर पांती नं. १.	२४१	
	१ ढोडीयाली ठिकाने के रावजी व दूनरे वालोतरा ( जिसमें १ सरली के वालोतर पांती नं. १, २ सेराणा, ३ मादडी, ४ मोरु, ५ भैसवाडा, ६ सेंदरिया पां. नं. १, ७ सेंदरिया पांती नं. २, ८ वेदाणा, ९ आलावा पांती नं. १, १० आलावा पांती नं. २, ११ रियावाघ, १२ पाघटा, १३ मालपुरा पांती नं. २, १४ पसाणवा, १५ सगालिया पांती नं. २ आदि ) के पुस्तनामें हैं.	२२३ २३१	२ ( अ ) देलदर के छोटभाई पांती नं. १.	२४२	
	२ अगवरी के वालोतर व १ कुवाला, २ गुडा, ३ सरली पांती नं. २ के वालोतरों के पुस्तनामें दिये गये हैं.	२३१-अ २३१-ब	२ देलदर पांती नं. २ ( नाओलाद ).	२४३	
२३	चीवावत चौहान. पृ. २३२ से २४०.		३ काईद्रा परगने रोहीडा के अवावत पांती नं. १ व पांती नं. २ ( नाओलाद ) खालसा.	२४३	
	१ चीवावत वंशवृक्ष.	२३२	४ मुदरला परगने सांतपुर के अवावत ( नाओलाद ) खालसा.	२४३	
	२ जामठा परगने मंठार के चीवावत.	२३५	५ मानपुर परगने सांतपुर के अवावत ( नाओलाद ) खालसा.	२४४	
	३ नागाणी परगने पामेरा " पांती नं. १.	२३६	६ ओड परगने सांतपुर के अवावत.	२४४	
	४ नागाणी " " " पांती नं. २.	२३६	६ ( अ ) ओड " " के छोटभाई.	२४५	
			७ तरतोली " " के अवावत.	२४६	
			८ आमतारा " " "	२४६	
			९ कीवरली " " " पांती नं. १ ( नाओलाद ) खालसा.	२४६	
			९ ( अ. आ. इ. ) कीवरली परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. १ के छोटभाई.	२४७	
			१० कीवरली परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २.	२४८	
			११ मोरथला परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २.	२४८	
			१२ तरुंगी परगने रोहीडा के अवावत.	२४९	





मौजूदा महाराजा साहब सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहब वहादुर.  
के. सी. एस, आई.

# चौहान कुल कल्पद्रुम.

विभाग २ रा.

{ सिरोही के समस्त चौहान सरदार }.

प्रकरण १ ला.

सिरोही रियासत के चौहान सरदारों की शरणागति.


सिरोही रियासत के देवडा चौहान राजवंश का इतिहास इस पुस्तक के प्रथम विभाग में आचूका है, परन्तु सिरोही रियासत के समस्त देवडे चौहान सरदारों की तरफ से इस पुस्तक के लेखक को यह सूचना की गई कि, हम लोगों का एक सम्पूर्ण वंशवृक्ष अलाहिदा विभाग से मुरतिब होकर छपवाया जावे. उसपर सिरोही रियासत से जिस २ चौहान सरदारों को आजीविका दी गई, व उनमें से उनके खानदान वाले सिरोही रियासत में विद्यमान है, उन सरदारों के सम्पूर्ण वंशवृक्ष ( जिसमें उनके छोटे भाईयों भी शामिल है. ) ताजिमी ठिकानों के संक्षिप्त इतिहास के साथ, अंकित किये जाकर यह पुस्तक मुरतिब किया गया है. वल्कि इतिहास की त्रुटी न होवे उस कारण से जो जो सरदारान की जागीरें गैर रियासत में चली गई है, उनके पाटवी सरदारों के वंशवृक्ष भी संक्षिप्त वृतान्त के साथ अंकित किये गये है, जिससे यह हाल मालूम हो सके कि सिरोही के चौहान राजवंश के अमुक २ सरदार वर्तमान समय में अमुक स्थान पर विद्यमान है.

वस्तुतः सिरोही राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरुष देवडा लूभकर्ण उर्फ लूभा ने चंद्रावती नगरमें राज्यस्थान करने वाद सिरोही के देवडा चौहान राजवंश की शुरुआत हुई है, परन्तु महाराव लूभकर्ण ने चंद्रावती में राज्यस्थान कायम करने वाद जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी की ओलाद वाले ( जो १ वोडा, २ वालोतर, ३ चीवा, ४ अवसी उर्फ अबावत, शाखा के नामसे प्रसिद्धि में आये है, उनके वंशज. ) महाराव लूभकर्ण की सेवा में उपस्थित होनेसे उनको सिरोही रियासत से आजीविकाएं देनेमें आई, वैसे महाराव लूभकर्ण के भाईयों को भी सिरोही रियासत से जागीरें दी गई, इस कारण से सिरोही रियासत के देवडे चौहान सरदारों के उपरांत वोडा, वालोतर,

चीवा, व अवावत चौहान सरदारों का समावेश भी सिरोही के चौहान सरदारों में होता है, जिससे इस पुस्तक में सिरोही के चौहान सरदारों के वास्ते, जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी को मूल पुरुष अंकित करके, उससे अलग हुई हरएक पेटा शाखाओं के सरदारों के शृंखलावद्ध वंशवृक्ष देने में आये है. इसपर से उम्मेद की जाती है कि सिरोही रियासत के सरदारों की इच्छा पूर्ण होगी.

### १ वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान.

१ मानसिंह उर्फ माणीजी ( जालोर के सोनगरा चौहान वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. प्र. वि. )



१६ रायसिंह (दूसरे) ( वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान चल् )

१७ अखेराज (दूसरे)

१८ उदयभाण (कुंवरपदे)

१८ उदयसिंह

वख्तसिंह x १९ वेरीसाल कल्याणसिंह x अणंदसिंह x फतहसिंह x १९ छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल

२० सूरतानसिंह (पदभ्रष्ट)  
(देवातरा ईलाके जोधपुर के लखावत)

भीमसिंह x

२० मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह

२१ पृथ्वीराज

२१ जगतसिंह

२१ जोराधरसिंह  
(मंदार के राजवी)

२२ तख्तसिंह x

रत्नसिंह x

अखेसिंह x

शक्तसिंह x

२२ वेरीसाल  
(दूसरे)

उदयभाण x

कृष्णसिंह x

उदयसिंह x

२२ बदसिंह x (भारजा)

फतहसिंह x

दोलतसिंह

२३ उदयभाण x

२३ शिवसिंह

२३ अखेराव (भारजा) x

गुमानसिंह x  
(कुंवरपदे)

दुर्जनसिंह x

२४ उम्मेदसिंह

२४ जेतसिंह  
(नादीआ)

२४ हमीरसिंह x  
(भीमाना)

२४ जुवानसिंह x  
(अजारी)

२४ जामतसिंह x  
(खाखरवाडा)

२४ तेजसिंह x  
(जोगापुरा)

२५ कैशरीसिंह

मानसिंह x

२६ स्वरूपरामसिंह (मौजूदा महाराव)

लक्ष्मणसिंह x

नारायणसिंह x

उपर के वंशवृक्ष में नं. ४ लक्ष्मणसिंह को चंद्रावती से 'सकुडा' की जागीर मिली थी, मगर उसके वंशज सेवाड में चले जानेसे वह 'वावनगरा देवडा' कहलाये, और नं. ४ लूढराय को 'उमरणी' (अमरावती) की जागीर मिली थी, उसकी ओलाद वाले मालवा में 'वसी' गांव में चले गये, जो 'वसी के देवडे' कहलाये. इन दोनों शाखों के देवडों का जो कुछ इतिहास प्राप्त हुआ वह प्रथम विभाग में अंकित हो चुका है, उनके सिवाय इस वंशवृक्ष में जो जो नाम अंकित हुए हैं, उनकी ओलाद वालों के वंशवृक्ष यह दूसरे विभाग में उनसे नीकली हुई पेटा शाखाओं के क्रम से अंकित किये हैं, और खास करके सिरोही के महाराव से नजदीक के भायातों के प्रकरण पहिले अंकित करके उसी सीलसिले दूसरे भायातों के क्रमवार पुस्तनामे लिखने में आये हैं.

इस वंशवृक्ष में अंकित हुई शाख वालों की जागीरें सिरोही के महाराव के तरफ से देने में आई थी, परन्तु उनमें से नं. ३ वोडा शाखा की (सियाणा पट्टे की जागीर) व नं. ३ वालोतर शाखा की (डोडियाली पट्टे की जागीर) और नं. ४ वडगामा देवडों की

(वांकडीया बडगांम पट्टे की जागीर) जागीरें वि. सं. १६३१ में महाराव सूरताणसिंह के समय में जालोर के खान मलेकखान की तेहत में सिरोही रियासत से दी गई, जिससे इन शाखाओं वालों की जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियासत के तेहतमें विद्यमान हैं. नं. ३ च्रीवावतों की कितनीक जागीरें पालणपुर रियासत के तेहत में वि. संवत् १८७४ में चली गई है, वैसे ई. स. १८५३ (वि. सं. १९१९) में सिरोही रियासत की सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की उसमें लखावत सरदारों के कितनेक गांव पालणपुर की रियासत के तरफ गये हैं, परन्तु उन गांवों की जागीर लखावतों के तरफ रहनेसे, वे लोग उन जागीर के वास्ते रियासत पालणपुर के सरदार भी गिने जाते हैं.

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष में नं. ११ मेहाजल की ओलाद वाले 'विसलपुर के लखावत' कहलाते हैं, उनकी व नं. २० पदभ्रष्ट महाराव सूरताणसिंह की ओलाद वाले जो 'देवातरा के लखावत' कहे जाते हैं, उनकी जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियासत में हैं.

सिरोही इलाका के सरदारान का प्राचीन इतिहास देखते मालूम होता है कि, उनके मूलपुरुषों को रियासत से आजीविका में जो जागीरें मिली थी, उनमें समयानुसार रद्द बढल होता आया है, जिसमें खास करके राज्य की अच्छी सेवा करने वालों की जागीरें बढाने का, व राज के हुकम में न रहने वालों की जागीरें वापिस लेनेका अगर उसमें कमवेस या रद्दबढल करने के दाखले जगह २ नजर आते हैं. उसी मुआफिक रियासत से मिली हुई आजीविका छोडकर गैर रियासत में जानेपर, या भाइवंट होकर राज्य से मिली हुई जागीर तकसिम होकर अलग हुई जागीर का सरदार नाओलाद गुजरने पर, उनकी जागीर रियासत में खालसा होने की प्रणालिका प्राचीन समय से ही विद्यमान होना, सरदारों के पुत्र नामे से पाया जाता है.

सिरोही रियासत के राजवियों में अपुत्रवान होने की हालत में गोद लेनेका एक भी दाखला इस वंशवृक्ष में नहीं मिलता है, परन्तु दूर के भायातों में अपुत्रवान होनेकी हालत में कितनीक जागीरों में, रियासत से गोद मंजूर होने पर दत्तक पुत्र उस जागीर के मालिक हुए हैं, और कितनीक जागीरें खालसे हुई हैं, तात्पर्य यह है कि अलग हुई जागीर के सरदार ( जिसमें छोटभाईओं का भी समावेश होता है. ) अपुत्रवान होनेकी हालत में उनकी जागीर के वास्ते किसी को गोद रखना, या वह जागीर खालसा राज करना, अगर उस जागीर को नजराणा लेकर उनके नजदीक के रिश्तेदार को इनायत करना, यह बातें सिर्फ महाराव की मर्जी पर होना इस वंशवृक्ष की ख्यात से पाया गया है, जिसमें अकसर करके अलग हुए छोट भाईओं की जागीर नाओलाद होने पर, वह जागीर उनके पाटवी सरदार को नजराणा लेकर इनायत करने के दाखले ज्यादा

मालूम होते हैं, और ऐसी छोटभाईओं की जागीर खालसे राज करने के दाखले भी कहीं २ पाये गये हैं.

इस विषय में ( जागीदारों के जागीर की क्या प्रणालिका सिरोही रियासत में विद्यमान है. ) सिरोही रियासत के पुराने दफ्तर से यह प्रणालिका होना ( सिरोही के दिवान मूंशी अब्दोनमांहमद की कैफियत से. ) मालूम हुआ है कि, अलग हुई जागीर के जागीरदार या छोटभाई नाओलाद होने पर, उनकी जागीर के वास्ते गोद संजूर करना, या वह जागीर खालसे रखना, या दूसरे किसीको नजराणा लेकर इनायत करना, यह रियासत की मर्जी पर है, परन्तु इस तरह होनेसे एकसा धोरण न रहने के कारण, मौजूदा महाराव साहव ने ई. स. १९२३ ( वि. सं. १९७९ ) में जागीर कानून मुकरर किया है, जिससे अब उस कानून मुआफिक ऐसे सवालों के तसफिये होते हैं, बल्कि ऐसे मुआमिले तय करने के वास्ते इपेसियल तौरपर जागीरदार कमीटी मुकरर की है, जिससे आसानी से तसफिये हो जाते हैं.

सिरोही रियासत के सरदारान को जो जागीरें दी गई हैं, उनको बेचाण, रहन, या तवादला करने का उन जागीर के सरदारों को सुतलक हक नहीं है, क्यों कि जमीन को मालिक रियासत है, और सिर्फ जागीर की आसदनी पानेका जागीरदार को हक है. इस कारण से सिरोही के सरदारों को जागीर उनके खानदान के हाथ से गैर कोम के सखसों के तरफ या दूसरे खानदान वालों के तरफ नहीं जाते, उन्हीं जागीरदारों के खानदान में चली आ रहीं हैं.

सिरोही रियासत के सरदारों से प्राचीन समय में राजहक कितना लिया जाता था, उसके लिये कोई मुकरर बात होनेका दाखला नहीं मिला है, परन्तु यह मालूम हुआ है कि, कुल सरदारों की जागीर से चीट्टी, लवाजमा, तोपझुंडा, तलवाना, फौजबल, वराड, रोजीना, दहानगी, अमामी, आदि लागतों के नाम से राजहक वसूल होता था, बल्कि वि. सं. १८५६ ( महाराव वेरीसाल दूसरे के समय में ) में ऐसी लागतें वसूल होनेकी वही देखते पाया जाता है कि, इन लागतों के नामसे इतनी +बडी रकम

+ सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से वि. सं. १८८० पहिले हरमाल राजहक के नामसे रकम ली जाती थी उसके आंकड़ों के साथ वि. सं. १९८० के सेट्टलमेन्ट से नये ठहराव में आंकड़े मुकरर हुए ( आठ आनी राज हक के ) उसका चंद गांवों का मुकाबला.

नाम जागीर	वि. सं. १८५६ में	वि. सं. १८६९ में	मौजूदा सेट्टलमेन्ट वि. सं. १९८० में
१ ठिकाणा जावाल	३३२६]	दाखला नहीं मिला	११२७]
२ डोडुआ	२१३२।	"	१३९६।
३ भरठवाडा	२७७३।	"	१३२७]
४ लास	३६४४]	"	२२१४]



जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूल नहीं आती है. इसके सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फौज बंदी की जरूरत होती थी, तब फौजवाव के नाम से खास तौर पर कुल इलाका के गांवों से, फौजवाव वसूल ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में ( वि. सं. १८६५ से १८७५ तक में) मौका पाकर इस सख्ती से बचने के कारण, कितनेक \*सरदारों ने ( लखावत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पालणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) पालणपुर की मातहत में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में से 'पडापान' ( हरकिस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये.

महाराव उदयभाण की राज्य कारकदर्गी अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद भ्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में लिया. महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके राज सुधारने की तजवीज हाथ में ली, और जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, उसमें जागीरी गांव से हरसाल जो वगैर धोरण की बड़ी रकम+ जास्ती के इलाज लेकर वसूल की जाती थी, वह रिवाज मौकूफ करके ठिकाना निंबज, पाडिव, कालंद्री, मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ कुल आमदनी में से छः आनी बांट कर लेने का, और दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी वाव लाग ( धरगिन्ती, मवेसी, आदि ) को शरह मुकरर करके वह \*आमदनी राज में लेनेका ठहराव तहरीर हुआ.

१ घाणता	१६६१	११०१	६३०
६ सिधरत	२१००	२२०१	११८६

नोट—गुराणी वगैर धोरण की वसूलात से मौजूदा वि. सं. १९८० के सेटलमेन्ट में उपर्युक्त छः गांवों में आधी रकम आई है. इसके सिवाय खास तौर पर फौजवाव ली जाती थी जो अलग है.

\* पालणपुर में आधा हक लिख देने वाले चौहान सरदारों में वि. सं. १८७४ में मंदार के राजवी व पांथावाडा के चीवावतों ने शुरूआत की, और बाद में भटाणा, रहुआ, दवाणी, वागदा, मावल, गिरवर आदि जागीरदारों ने हक लिख दिया था. लेकिन किमी हुंगरावन ने या अनावतों ने हक लिख देनेका दावला नहीं मिलता है.

+ वि. सं. १८८० पेशतर जागीरी गांवों में राजहक वसूल करने की पद्धति यह थी कि, राज की फौज के साथ राज का सुमाहिब इलाके में हरसाल दौरा करके हरएक गांव की रकम का आंकडा, उस गांव की आबादी पर नजर दे मुकरर करता था, वह रकम नहीं देने की हालत में उस गांव की मवेसी व रिआया को बतोर जामनी गिरफ्तार किये जाते थे.

\* जागीरदारों के साथ वि. सं. १८७९-८० में जमीन के सिवाय की आमदनी राज में लेनेका ठहराव हुआ था, परन्तु कितनेक वर्ष बाद उस आमदनी में से कितनेक जागीरदारों को चार आना व कितनेक को आठ आना हक दिया जाना शुरू हुआ है.

यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पालणपुर रियासत में आधा हक देना मंजूर करके पालणपुर की मातहत स्वीकार ली थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज सरकार ने सिरोही रियासत में वि. सं. १८८० में सुपुर्द किये, उन गांवों में उसी मुआफिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ.

इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से बटवारा से, राज हक वसूल होने लगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें कितनीक हरकतें आनेसे जागीरदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मौजूदा महाराव साहव ने वि. सं. १९७९ ( ई. स. १९२३ ) में जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टिशन कराकर कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ साल की मियाद के वास्ते नकद लगान सुकरर कराने का, रास्ता खुल जानेसे बहुत से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्टिशन व नकद लगान का सेटलमेन्ट करालिया है, और जो बाकी है वह भी इस कानून मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते है.



\* जिन जिन जागीरदारों ने वि. सं. १९७९ के जागीरदारी सेटलमेन्ट के कानून मुआफिक ठहराव करालिये है, उसकी तुंद उस जागीर के वंशवृक्ष के नीचे नोट में दर्ज की है, उस तुंद में जो राज हक की आंनी लिखी है वह सिर्फ जमीन की आमदनी के राज हक के वास्ते है.

## प्रकरण २ रा.



### सिरोही रियासत के देकड़े चौहान राजवियान.

रईस के नजदीकी भाईयात 'राजवी' गिने जाते हैं. सिरोही रियासत के राजवियों को अगले जमाने में 'रायजी या राजश्री' लिखा जाना, पुरानी लिखावटों से पाया जाता है, परन्तु महाराव शिवसिंह के कुमारों को 'राजसाहेबा' के इलाका से तहरीर होती थी, और वे 'राजसाहेबा' के नामसे मशहूर थे, परन्तु वि. संवत् १९८१ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने 'राजसाहेबान' को 'महाराज' की पदवी इनायत की, अतएव अब वे 'महाराज' कहलाते हैं.

जहांतक मालूम हुआ रईस के नजदीकी भायातों में नाओलादी होनेपर, उनके पीछे दत्तक पुत्र लेनेकी रसम परंपरा से ही इस रियासत में नहीं है, बल्कि कोई भायात नाखूश होकर या दूसरी रियासत में जागीर मिलने के सबब से, गैर रियासत में आवाद होजाय तो, उनकी ओलाद वालों का असली खानदान की जागीर से आजीविका पानेका हक रद्द वातल होना पाया जाता है, ऐसी सूरतों में राजवियों की जागीर वापस रियासत में आ जाती है.

राजवियों के तरफ जागीर कम भी हो, तब भी दरवारी जलूस में वे बड़े दर्जे के गिने जाते हैं, और दूसरे सरदारों के मुकाबले में मान भरतवा अधिक होता है. 'महाराजों' को खानगी मुलाकात में भी गद्दी की विछायत पर बैठक दी जाती है, जो रसम और सरदारों के लिये नहीं है.

सिरोही रियासत के सरदारों में वराय नाम जो सीसोदिये राजपूत हैं, उनको वाद देते दूसरे सब सरदार चौहान हैं, और वे सब जालोर के वंशवृक्ष में नं. ३ वाले राव माणीजी उर्फ मानसिंह की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज हैं. सिरोही राजकुल के वंशवृक्ष में नं. १/२ महाराव 'लखा' के नामसे उसकी ओलाद वाले 'लखावत' कहलाये हैं, जिससे मौजूदा रईस व राजवियान लखावत शाखा के हैं.

महाराव लखा के पुत्रों में से हमीरसिंह, शंकरसिंह, व मांडण यह तीनों नाओलाद होने के कारण उनकी जागीरें वापस रियासत के शामिल हो गईं, इसी मुआफिक महाराव जगमाल के कुमार 'मेहाजल' को वागसिण पट्टा की जागीर सिरोही रियासत से दी गई थी, मगर उसकी ओलाद वाले पीछेसे जोधपुर की रियासत में चले जानेसे, वह जागीर रियासत में शामिल हो गई, इस समय में मेहाजल की ओलाद वाले जोधपुर इलाका के विसलपुर, वांकली, कोरटा, आदि पट्टों की जागीरों पर विद्यमान हैं.

मेहाजल के बाद नं. १९ महाराव बेरीसाल के कुमार नं. २० 'सूरताणसिंह' राजवी की पंक्ति में था, मगर वह अपने भाइयों के साथ जोधपुर चले जानेसे उसको सिरोही रियासत से मुतलक आजोविका नहीं मिली, लेकिन जोधपुर रियासत में उनको 'देवातरा' की जागोर मिली, और उनके वंशज वहां रहे.

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष से मालूम होगा कि नं. २१ महाराव जगतसिंह के कुमार नं. २२ बदासिंह को भारजा की जागीर मिलीथी, परन्तु वह अपुत्रवान होने से रियासत में वापस आई, जो बाद में महाराव बेरीसाल नं. २२ वाले के कुमार नं. २३ अखेराव को देने में आई, लेकिन वह भी अपुत्रवान गुजरने से खालसे राज रही, इसी मुआफिक महाराव शिवसिंह के कुमार नं. २४ हमीरसिंह के तरफ भिमाना का पट्टा, व नं. २५ जामतसिंह के तरफ खाखरवाडा व खराडी की जागीर थी, वह भी अपुत्रवान होने से उनकी जागीरें रियासत के शामिल हो गई.

इस वक्त नजदीकी राजवियान जो 'महाराज' कहलाते हैं, उनके तरफ 'नादीआ' अजारी व जोगापुरा की जागीरें हैं, और उनसे दूर के 'राजसाहेबां' कहलाते हैं उनके तरफ मंडार पट्टा की जागीर है, जो दो हिस्से में विभक्त होने से 'मंडार बड़ी पांती' व 'मंडार छोटी पांती' के राजसाहेवान कहलाते हैं. नं. १६ सूरसिंह की ओलाद वाले नजदीकी रिश्ते में हैं, परन्तु उस ठिकाणे के सरदारों ने अपना विवाह शादी का सम्बन्ध उतार देनेसे, रियासत से उनके साथ राजवी के तौर से कोई ताडुक नहीं रहा है. इस प्रकरणमें महाराव सूरताणसिंह के पीछे के लखावतों का वंशवृक्ष दिया गया है, जिसमे काछोली के लखावत इस प्रकरण में आये हैं, लेकिन वे राजवी नहीं गिने जाते हैं.

### नादीआ परगने फिन्हुवारा के महाराज.

नं. १ नादीआ पट्टा की जागीर महाराव शिवसिंह के पुत्र २६ वाले जेतसिंह को वि. सं. १९१९ में दी गई. इसकी तीन राणीयां थी. १ चांपावतजी फतेहकुंवर, मालगढ के राठौर मदनसिंह रामदानोत की पुत्री, ( जिससे कुमार अचलसिंह का जन्म हुआ. ) २ भटीआणीजी उमेदकुंवर चोमू के भाटी गुलाबसिंह भभूतसिंहोत की पुत्री. ३ भटीआणीजी सोहन कुंवर, बालरवा के भाटी मकनसिंह किशनसिंहोत की पुत्री, ( जिससे कुमार शंभूसिंह और बाइजी चंदनकुंवर के जन्म हुए. बाइजी चंदनकुंवर की शादी जोधपुर के राजवी महाराज फतेसिंह के कुमार इन्द्रसिंह से की गई. )

राजसाहेब जेतसिंह अच्छे घोडे सवार थे वि. सं. १९३६ की सालमें जब बजावतों के उपर फौज चढी तब झाडोली गाम सर करने में इसने बहुत वीरता से काम दिया


था, ज्यादाह जागीर पानेके वास्ते इसने अपने पिता महाराव शिवसिंह की हयाती में ही, अपने भाई जवानसिंह व जामतसिंह को साथ रखकर बगावत की थी, मगर महाराव शिवसिंह का कैलाशवास होजाने बाद, महाराव उम्मदेसिंह ने अपने भाईओं को जागीरें देकर मना लिये.

नं. २ राजसाहेव अचलसिंह अपने पिता के देहान्त होने पर पाट बैठे, इसकी दो शादी हुई थी, जिसमें एक वारडजी फूलकुंवर सुदासणा के ठाकुर पर्वतसिंह मोहोवत-सिंहोत की पुत्री के साथ, व दूसरी चांपावतजी उगमकुंवर भीमालिया के राठौर कैशरीसिंह उदेसिंहोत की पुत्री के साथ हुई थी. परन्तु दोनों राणीयां के प्रजा नहीं हुई.

राजसाहेव अचलसिंह अपुत्रवान देवलोक होनेसे, राजवियों के रिवाज सुआफिक नादीआ पट्टा की जागीर रियासत में खालसा हुई, लेकिन राजसाहेवा जेतसिंह के दूसरे कुमार नं. ३ शंभूसिंह को ठिकाने से वंट नहीं दिया गया था, जिससे उसको नादीआ की जागीर खास शतों के साथ दी गई. जो इस समय नादीआ के महाराज हैं. इनको वि. सं. १९८१ में महाराज की पदवी इनायत हुई. महाराज शंभूसिंह का विवाह मेवसोजी प्रतापकुंवर के साथ हुआ है, जो सणदरी के राठौर चंदनसिंह भोपालसिंहोत की पुत्री है. महाराज शंभूसिंह की नाबालगी में नादीआ जागीर की नीगरानी रियासत ने अजारी के राजसाहेवा जोरावरसिंह को सुपुर्द की थी.

१ वंशवृक्ष नादीआ के महाराज.

१ जेतसिंह (देखो देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. २४ वाला.)



नोट—नादीआ पट्टा की जागीर में राजहक की छः आनी बटवारा से वसूल होती है.

अजारी परगने फिन्दुकारा के महाराज.

अजारी पट्टा की जागीर महाराव शिवसिंह के पुत्र नं. २४ वाले जुवानसिंह को वि. सं. १९१९ में, दी गई. इसकी राणी, राणावतजी राजकुंवर गांव भाणुंदा के शार्दूलसिंह गुलावसिंहोत की पुत्री थी, ( जिससे कुमार जोरावरसिंह का जन्म हुआ. )

नं. २ जोरावरसिंह, अपने पिता के पीछे वालक अवस्था में पाट बैठे, उस समय नादीआ के राजसाहेव जेतसिंह ने इसकी परवरिश की. इसकी तीन राणीयां थी, जिसमें १ जोधीजी चांदकुंवर गांव रामा का शिवनाथसिंह जोरावरसिंहोत की पुत्री, ( उससे

वाई सरेकुंवर व कुमार अमरसिंह के जन्म हुए. ) २ वाघेलीजी गांव देरोल के देवीसिंह सबलसिंहोत की पुत्री उमेदकुंवर. ३ कुंपावतजी गांव बुसी के भभूतसिंह दरजणसिंहोत की पुत्री दानकुंवर, ( उससे इन्द्रकुंवर वाई का जन्म हुआ. )

राजसाहेब जोरावरसिंह को परगने पिन्डवारा की हुकूमत पर नियत कीये गये थे, जहां पर ता जिन्दगी काम किया, और अच्छा इन्तजाम रखा था.

नं. ३ अमरसिंह अपने पिता देवलोक होने पर राजसाहेवा अजारी हुए, इनको वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराज की पदवी दी गई है. इनके छः राणीयां हैं, जिसमें १ राठौर दोलतसिंह खेमसिंहोत गांव गडा की पुत्री सतोककुंवर. २ राणावत उमेदसिंह पदमसिंहोत गांव नाणा की पुत्री रसालकुंवर. ३ जोधीजी, गांव वाला के सरदारसिंह नाहरसिंहोत की पुत्री उगमकुंवर, ४ भटीयांणीजी उच्छवकुमारी, गांव लवेरा के दरजणसिंह बक्तावरसिंहोत की पुत्री, ५ राणावतजी भूरकुंवर गांव नाणा के महोबतसिंह पृथ्वीसिंहोत की पुत्री. ६ वाघेलीजी आणंदकुंवर गांव कुंवार के वाघेला रायसिंह शिवसिंहोत की पुत्री है.

२ वंशवृक्ष अजारी के महाराज.

१ जुवानसिंह (देखो देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्षमें नं. २४ वाला.)  
 |  
 २ जोरावरसिंह  
 |  
 ३ अमरसिंह ( मौजूदा महाराज अजारी )

नोट—अजारी ठिकाने की जागीर में राजहक चारआनी बटवारा से वसूल होता है.

जोगापुरा परगने खूणी के महाराज.

जोगापुरा पट्टा की जागीर महाराव शिवसिंह ( देवडा चौहान सिरोही राजकुल नं. २३ वाले ) के कुमार नं. २४ तेजसिंह को वि. सं. १९२६ में दी गई थी, लेकिन रांवाडा के ठाकुर की तरफ से जोगापुरा गाँव पर अपना हक होनेका उजर पेश होनेसे, जोगापुरा खालसे रखकर, वि. सं. १९२७ में मणादर की जागीर दी गई, मणादर को जागीर के वास्ते झाडोली के वजावत सरदारों ने अपना दावा पेश कर रक्खा था, वह रियासत से खारिज हो जानेसे, वि. सं. १९३६ के श्रावण वदि ९ के दिन बडी फजर ( जबकि राज साहेब तेजसिंह सोते हुए थे. ) वजावतों ने अचानक हमला मणादर पर किया. मणादर ठिकाने के राजपूतों को वजावतों ने पहिले से ही अपने पक्ष में कर रक्खे थे, जिससे उन्होंने ने भी ठिकाने का वचाव नहीं किया, और वजावतों का साथ जहां राजसाहेब

तेजसिंह सोने हुए थे, वहां तक पहुंच गये. राजसाहेब ने उस हमले से कुछ भी खोफ नहीं खाने अकेलों ने सामना किया, लेकिन उस वक्त ठिकाने के आदमीओं ने सब हथियार अपने कब्जे कर लेना पाया गया, जिससे अपने विछाने में एक बंदूक भरी हुई मिली उसको उठाकर चलाई, जिससे मोरली गाँव का बजावत सरदार जो इस हमले में मुखिया था वह मारा गया, लेकिन दूसरा लडने का कोई साधन पास न रहने से बजावतों को सफलता प्राप्त हुई, और उन्होंने ठिकाने का सब माल असबाब लूट लिया. यह खबर लास के ठाकुर को होने पर उसने मणादर जाकर राजसाहेब तेजसिंह को सिराही पहुंचाए.

यह सब वृत्तान्त महाराज कैशरीसिंह को मालूम होने से, बजावतों को सजा देने के लिये, खाखरवाडा के राजसाहेब जामतसिंह की सरदारी के नीचे राज्य की फौज झाडोली पर भेजी गई, इस फौज में राजसाहेब नादीआ जेतसिंह व मणादर राजसाहेब तेजसिंह भी शरीक थे. झाडोली के बजावतों ने कुछ घंटों तक राज्य की फौज का मुकाबला किया, मगर उनके आदमी मारे जाने व जखमी होने के कारण वे लोग गाँव छोड़कर भाग गये, और राजसाहेब तेजसिंह ने मणादर जाकर अपनी जागीर सम्भाली.

यह राजसाहेब फारसी व हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, और अदालत वगेरह रियासत की कोर्टों में मुसाहिबी की थी.

इनकी राणी अमृतकुंवर समदरली के राठौर आयदानसिंह सालमसिंहोत की पुत्री थी, उससे कुमार दलपतसिंह व मानसिंह और बाई जडाव कुंवर के जन्म हुए. बाई जडाव कुंवर का विवाह किशनगढ के राठौर रघुनाथसिंह पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया. इसका देहान्त होने पर कुमार दलपतसिंह मणादर के राजसाहेबवा हुए.

नं.२ राजसाहेब दलपतसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया, और कुंवर पद की हालत में शिवगंज आदि तहसिलों की हुकूमत पर थे. इनका पहिला विवाह चापावत रणजीतसिंह शार्दूलसिंहोत गाँव धांमणी की पुत्री चत्रकुंवर, ( जिससे कृष्णकुंवर बाई व धनकुंवरबाई के जन्म हुए. ) व दूसरा विवाह गाँव पावा के जोधा सूरताणसिंह जुहारसिंहोत की पुत्री पेपकुंवर, के साथ हुए थे. यह अपुत्रवान गुजर जानेसे, इसकी जागीर खालसा राज हुई.

नं.३ महाराज मानसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया है. इनके पिता राजसाहेब तेजसिंह ने अपनी हयाती में ही, अपने पुत्रों के बंट के लिये वसीयत कर रियासत से तसदीक करा दिया था. उस मुआफिक मानसिंह ने अपने बड़े भाई राजसाहेब दलपतसिंह से मणादर में जागीर का बंट लेना चाहा, मगर नहीं मिलनेसे

रियासत में अपनी उजरदारी पेश की. रियासत की तरफ से वसोयत के मुआफिक रूपिये वारह सौ के आमदनी की जागीर देनेका हुक्म दिया गया, लेकिन राजसाहेव दलपतसिंह ने मणादर में से जागीर देना पसंद नहीं करने से, रियासत ने मणादर में राजहक की आंती बढाकर उसको एवज में, हालीवाडा गांव की राजके हिस्से की जागीर दी, ( इनका फैसला हुआ उसमें यह भी शर्त डाली गई कि कभी मणादर में नाओलादी होवे तो इनका उस पर कोई हक नहीं रहेगा. ) मगर राजसाहेव मानसिंह ने वह जागीर पर न जाते चल दिया, सो कुछ अरसे तक एजन्ट गवर्नर जनरल राजपूताना के दफ्तर में आवू पर रहे, और पीछे डूंगरपुर महारावल के पास चले गये. महारावल ने महाराव कैशरीसिंह को इसके लिये सिफारिश करने से इनकी रजामंदी से गुडा गांव जागीर में दिया गया, जहां पर एक साल रहे, फिर वहां से भी नाखुश होकर चले गये, जो बाद में महाराव साहिब के पास आकर अर्ज करने पर, महाराव ने इसको मर्जी मुआफिक जोगापुरा गांव की जागीर दी, जहां इस वक्त आप रहते हैं वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराव साहिब ने इनको 'महाराज' का खिताब अता फुरमाया, जिससे राजसाहेव के बजाय अब 'महाराज' लिखे जाते हैं. इनका पहिला विवाह गांव आलासण के चांपावत धुलसिंह लखसिंहोत की पुत्री धरणकुंवर से हुआ, ( उससे कुमार १ खुमाणसिंह २ अभयसिंह ३ रामसिंह के जन्म हुए. ) दूसरा विवाह गांव वीजापुर के रांणावत चत्रसिंह की पुत्री के साथ हुआ. महाराज मानसिंह शंकर के बडे भक्त हैं. और शराब आदि के व्यसन नहीं रखते हैं.

### ३ वंशवृक्ष जोगापुरा के महाराज.

१ तेजसिंह ( जोगापुरा वाद मणादर राजकुल वंशवृक्ष में नं २४ वाला. )

२ दलपतसिंह (मणादर)  
x

३ मानसिंह (जोगापुरा)

नोट—जोगापुरा ठिकाने की जागीर में राजहक आठआनी का ठहराव है, परन्तु वि. सं. १९७९ में दूसरे ठहराव से सालाना रु. ५००) राजहक के नकद लेने का तय हुआ है.

### मंडार परगने मंडार के राजसाहेबान्त.

मंडार ठिकाने की जागीर नं. २० महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह के तीसरे कुमार नं. २१ जोरावरसिंह ( देखो देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष. ) को वि. सं. १७७५ में दी गई थी, उनके दो पुत्र कैशरीसिंह व वरूतसिंह थे, उन दोनों के दरमियान मंडार की.




जागीर का पांचदुआई ( तीन हिस्से बड़े कुमार को व दो हिस्से छोटे को ) बंट होकर दो पांती इस ठिकाने में हुई. जिसमें बड़े कुमार कैशरीसिंह की ' बड़ी पांती मंडार ', व छोटे बख्तसिंह की ' छोटी पांती मंडार ' इस नामसे जागीरें कहलाई गई. इस ठिकाने में राज हक आठ आनी बटवारा से वसूल होता है.

मंडार के राजवियों को पहिले ' राजश्री ' का खिताब था, और कहावत में ' मंडार साहेवा ' कहलाते थे, लेकिन पालणपुर रियासत से इनको ' राएजी ' व ' रावजी ' का खिताब तहेरीर में लिखा जाता है, और जोधपुर रियासत में कुरव १ व ' बांहपसाव ' की इज्जत है, सिरोही रियासत में इनका दर्जा सब सरदारों से ज्यादा और नादीआ, अजारी व जोगापुरा के महाराजों से कम गिना जाता है. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने मंडार की दोनों पांती के राजश्री को ' राजसाहेवा ' का खिताब अता फरमाने से अब वे ' राजसाहवान ' हुए है.

### ४ वंशवृक्ष राजसाहेवा मंडार बड़ी पांती.

१ जोरावरसिंह ( देवढा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. २१ वाला ) मंडार बड़ी पांती.



## उपर्युक्त बंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ जोरावरसिंह को वि. सं. १७७५ में मंडार की जागीर मिली. इसकी माता वारडजी तख्तकुंवरदे सुदासणा के वारड सरदारसिंह की पुत्री थी. यह बात मशहूर है कि माजी वारडजी सिरोही पधारते थे तब रास्ते में निवज ठिकाने का गांव देदापुर के थाणेदार ने उससे दाण मांगा, जिससे मंडार व निवज दरमियान लडाई हुई, और जोरावरसिंह ने निवज का देदापुर गांव छीन लिया. इसकी पुत्री गुलावकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह के कुमार फतहसिंह के साथ किया गया. जोरावरसिंह ने वि. सं. १८१६ में वडुआ को सीख दी.

नं. २ कैशरीसिंह--अपने पिता के देहान्त होनेपर मंडार वडो पांती के राजश्री हुए. इसके तीन राणी थी, जिसमें मेडतणोजी सूरजकुंवर सींदरली के राठौर जेतसिंहोत की पुत्री अपने पति के पीछे वि. सं. १८६१ में सती हुई. कैशरीसिंह की पुत्री सरसकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमसिंह फतहसिंहोत के साथ किया गया था, जो जोधपुर में सती हुई.

नं. ३ रत्नसिंह अपने पिता गुजरने पर वि. सं. १८६१ में पाट बैठा. इसने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरुद्ध होकर, मंडार दूसरी पांती के राजश्री राजसिंह व पांथावाडा के चीबा चौहान पदमसिंह को भी साथ रखकर, पालणपुर रियासत की मातहती में जाकर वि. सं. १८७४ का काती सुद २ के रोज अपनी जागीर की आमदनी की आधी पैदायश लिख दी, लेकिन अंग्रेज सरकार के तरफ से मंडार ठिकाना वापस सिरोही रियासत को सुपुर्द करने का हुक्म होनेसे, वि. सं. १८८० के मागसर वदि २ को तहरीर से पालणपुर रियासत ने सिरोही को सुपुर्द कर दिये. इसकी राणी चांपावतजी 'चंदादे' वि. सं. १८८४ में अपने पति के पीछे सती हुई, जिसकी छत्री वि. सं. १८८६ में वंधाई गई. कैशरीसिंह की पुत्री उमेदकुंवरवाई का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के कुमार जुवानसिंह के साथ किया गया. इसने वि. सं. १८३७ में वडुआ को सीख दी थी. इसको कुंवर पदे की हालत मे वि. सं. १८३० में जोधपुर रियासत से एक कुरव व बांहपसाव की इज्जत दी गई थी.

नं. ४ रूघनाथसिंह वि. सं. १८८४ में पाट बैठा, और वि. सं. १८८८ में वडुआ को सीख दी. इसका पुत्र नं. ५ दूर्जनसिंह कुवर पदे देवलोक हुआ, जिसकी पुत्री गुलावकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के कुमार रणजीतसिंह के साथ किया गया.

नं. ६ फतहसिंह वि. सं. १९२० में अपने दादे के देहान्त होने पर पाट बैठा. इसकी एक पुत्री चांदकुंवरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के पौत्र मोडसिंह


जोरावरसिंहोत के साथ हुआ, और दूसरी पुत्री कृष्णकुंवर का विवाह वांसवाडा के महारावल शंभूसिंह लक्ष्मणसिंहोत के साथ किया गया. इसका देहान्त होने पर नं. ७ शिवनाथसिंह वि. सं. १९४६ में पाट बैठा, मगर वह अपुत्रवान गुजर जाने से राजवियान के रिवाज मुआफिक मंदार वडी पांती को जागीर खालसा राज हुई. राजश्री शिवनाथसिंह की तीन राणीयां में एक करणावतजी मोहतनकुंवर समदरली के रावल सूरताणसिंह हिम्मतसिंहोत की पुत्री, व दूसरी राणी भटियाणीजी गुमानकुंवर गोठडा के भाटो लालसिंह नाथसिंहोत की पुत्री, और तीसरी राणी चांपावतजी सरेकुंवर दासफां के राठौर शक्तसिंह वदनसिंहोत की पुत्री है, ( जिससे वाई मोहनकुंवर का जन्म हुआ. ) इनको वि. सं. १९२२ के जेठ सुद ७ को रियासत जोधपुर से कुरव १ व बांहपसाव की इज्जत दी गई.

नं. ६ राजसाहेव भोपालसिंह के वडाऊओं को आवाडा गांव जागीर में था. नं. ७ राजश्री शिवनाथसिंह का देहान्त होने पर उनकी राणी करणावतजी व चांपावतजी ने भी मंदार की वडी पांती की जागीर, खालसा राज करने की दरखास्त की थी. मगर सरहूम महाराव केशरीसिंह साहिब का मुकाम मंदार हुआ, तब उनकी इच्छा मंदार वडी पांती का पडवा कायम रखने की होनेसे उसने नं. ६ भोपालसिंह को खालसा की हुई मंदार की वडी पांती, खास शर्तों से इनायत करके वडीपांती के पाट बैठाया, जिससे आवाडा की जागीर व मंदार वडी पांती में से गुडवाडा गांव खालसे राज हुए. इस समय मंदार वडी पांती में राजसाहेव भोपालसिंह विद्यमान है.

वि. सं. १९८१ के दशहरे के दरवार में मौजूदा महाराव साहिब बहादूर ने इनको राजसाहेवा का खिताब अता फरमाया है, जिससे अब “ राजश्री ” के बजाए राजसाहेवा के इल्काव से तहरीर होती है. इनके तीन राणी जिस्मे १ चांपावतजी चमनकुंवर गांव दासफां के राठौर समरसिंह लालसिंहोत की पुत्री. २ भटियाणीजी भूरकुंवर गांव डकातरा के भाटो सुमेरसिंह मेवसिंहोत की पुत्री. ३ चांपावतजी इन्द्रकुंवर गांव वाकरा के राठौर पीरसिंह सोवजी की पुत्री ( जिससे चंदनकुंवर वाई व कुमार मानसिंह के जन्म हुए. )

नोट—मंदार वडी पांती की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

५ वंशवृक्ष राजसाहेवां मंडार छोटी पांती.



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ वख्तसिंह को मंडार की जागीर के पांच हिस्सों में से दो हिस्से मिले, और मंडार बडी पांती के मुआफिक उस से दूसरे दर्जे के मान मरतवा व कुरव हांसिल हुये, इसने वि. सं. १८३७ में बडुआ को सीख दी.

नं. २ जेतसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा. इसने वि. सं. १८५४ में बडुआ को सीख दी.

नं. ३ राजसिंह के पाट बैठने का बडुआ की पुस्तक में दाखला नहीं है, लेकिन वि. सं. १८७४ में पालणपुर की मातहतती में जानेका जो लिखत तहेरीर हुआ है, उससे पाया जाता है कि, उक्त संवत में राजसिंह मंडार छोटी पांती के राजश्री थे. यह अपुत्रवान गुजरने से इसका छोटा भाई नं.  $\frac{३}{१}$  अभयसिंह पाट बैठा. अभयसिंहने वि. सं १८८८ में बडुआ को सीख दी.

नं. ४ सबलसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, इसके बाद नं. ५ पृथ्वीराज वि. सं. १९२४ में राजश्री हुए. पृथ्वीराज ने रियासत में फौजदार को जगह पर बहुत अरसा तक काम दिया था. इसका देहान्त वि. सं. १९५७ में हुआ.

नं. ६ उदेराज वि. सं. १९५७ में पाट बैठे, मगर तीन वर्ष के कम अरसे में इसका देहान्त हुआ, जिससे इसका पुत्र नं. ७ सरदारसिंह राजश्री हुए, मगर यह अपुत्रवान गुजरने से इसका भाई नं.  $\frac{७}{१}$  मोहोवतसिंह मौजूदा मंडार छोटी पांती के राजसाहेवां है, (जो जागीर से वंट लेकर अलग नहीं हुए थे.) इसको रियासत ने खास शर्तों के साथ छोटी पांती मंडार के राजश्री मुकरर किये. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराज साहब बहादुर ने इनको राजसाहेवां का खिताब अता फरमाया है.

इसकी राणी राणावतजी गुलावकुंवर, राणावत शिवनाथसिंह देवीसिंहोत की पुत्री है, ( जिससे वाई ओच्छवकुंवर का जन्म हुआ. )

इस छोटी पांती की जागीर में नं. ३/४ सदनसिंह नामी सरदार हुआ है, जिसका भरतवा पाटवी राजश्री के वरावर का रियासत में था, और खुद महाराव इसको "काकाश्री सदनसिंहजी" इस लफ्जों से तेहरीर करते थे, इसको बीजुआ गांव रियासत से दिया गया था, लेकिन उसके लिये भटाणा के ठाकुर ने अपना दावा जाहिर कर वगावत की, जिससे अंग्रेज सरकार के हुकम से यह गांव किसी को नहीं देते खालसा राज रक्खा गया. सदनसिंह को रियासत जोधपुर से वि. सं. १८९० में कुरब १ व बांह पत्ताव की इज्जत दी गई थी.

नोट—संदार छोटी पांती की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

### ६ वंशवृक्ष काछोली परगने रोहीडा के लखावत.

१ मूरसिंह (राजकुल वंशवृक्ष में नं. १६/१ वाला.) ओ. ग्रां. काछोली.

२ सबलसिंह

३ केशरीसिंह

गरीवदास  
x

४ भार्यासिंह

५ जगतसिंह

५ प्रतापसिंह

गुमानसिंह  
x

वरुतसिंह  
x

६ दोलतसिंह

कीरतसिंह  
x

रणछोड  
x

जयसिंह  
x

कुशलसिंह  
x

सूरजमल  
x

पहाडसिंह  
x

६ अभयसिंह  
६

६ कलसिंह  
६

७ अणंदसिंह

७ शंभुदान  
७

भीमासिंह  
x

७ प्रेमसिंह  
७

(पांच देवल में था)

८ अनुपसिंह

सरदारसिंह  
x

८ अमरसिंह  
८

x

८ लालसिंह  
८

खुसारसिंह  
x

जालमसिंह  
x

९ शेरसिंह

९ भारतसिंह  
९

९ दोलतसिंह

१० मग्रामसिंह

१० उम्मेदसिंह  
१०

१० लखसिंह  
१०

गुलावसिंह  
x

१० शिवनाथसिंह  
x

१० मोहोवतसिंह  
१०

११ गुमानसिंह  
x

११ जुवानसिंह  
११

गोद  
x

११ तेजसिंह  
११

जुवानसिंह  
(गोद गया)

(वि. सं. १८१८ में  
काम आया)

११ अमरसिंह  
११

१२ भोमसिंह (खारिज  
हुआ)

भोमसिंह  
(गोद गया)

१२ रावतसिंह  
१२

१३ सरूपसिंह (मोजूदा ठाकुर)

उपर्युक्त वंशवृक्ष काछोली के लखावतों का संक्षिप्त इतिहास.


नं. १. सूरसिंह यह महाराव रायसिंह ( दूसरे ) का छोटा भाई था. इसने सिरोही की गद्दी छीन लेनेका प्रयत्न किया था, परन्तु सफलता नहीं मिली, जिससे जोधपुर चला गया, वहां पर भाद्राजण की जागीर २५ गांवो से मिली थी, लेकिन पीछेसे वि. सं. १६७१ में काछोली की जागीर महाराव ने दी, जिससे काछोली में आ गये.

नं. १/१ शंभूदान नाओलाद गुजर ने से उसका गांव 'पांचदेवल' खालसा राज हुआ.

नंबर १२ भोमसिंह ने नंबर १० शिवनाथसिंह को मार डाला जिससे काछोली की जागीर खालसा हुई थी, मगर पीछे से मौजूदा महाराव साहब ने परवरिश करके इसका पुत्र नं. १३ सरूपसिंह को ठहराव नं. ७१९ ता. २७ मेई सन १९२३ ई. से पार्टिशन के कानून मुआफिक राजहक की आनी, राणावत रत्नसिंह जणापुर वाले को जणापुर की उसकी जागीर के एवज में देकर, काछोली के लखावत का हिस्सा आवगी पांती से दे दिया.



## प्रकरण ३ रा.



### लखावत रियासत जोधपुर.


सिरोही के देवडा चौहानों की लखावत शाखा के खानदान वालों में ' देवातरा ' व ' वीसलपुर ' के लखावत है. जिसमें देवातरा के लखावत देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. १९ महाराव वेरीसाल ( पहिले ) की ओलाद के उत्तरोत्तर वारिस है, और वीसलपुर के लखावत राजकुल वंशवृक्ष में नं. १० महाराव जगमाल के दूसरे कुमार नं. ११ मेहाजल की ओलाद वाले है. वीसलपुर के लखावतों का भाइबन्धु का नाता वर्तमान समय में भी सिरोही रियासत के साथ चलू है, मगर देवातरा वालों का कोई तालुक सिरोही रियासत से या दूसरे सरदारों से होना पाया नहीं जाता, बल्कि देवातरा में लखावत देवडे है ! ऐसा भी शायद ही किसी को मालूम होगा.

### १ देवातरा ( ई. जोधपुर ) के लखावत.

देवातरा के लखावतों का मूल पुरुष नं. १९ महाराव वेरीसाल थे. सि. रा. इ. की पुस्तक की पृष्ठ २६७ की टीपणी में महाराव वेरीसाल के पीछे उसके पुत्र नं. २० सूरताणसिंह गद्दी पर आनेका स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७५३ में देवलोक होने बाद, सूरताणसिंह गद्दी पर बैठा, जो एक साल के अरसे बाद यानी वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल ने गद्दी छीन लेनेसे वह जोधपुर चला गया, वहां उसको जोधपुर रियासत के तरफ से देवातरा की जागीर मिली. इनका पुस्तनामा बडुआ की पुस्तक से नीचे मुआफिक उपलब्ध होता है.

१ सूरताणसिंह ( पदग्रह महाराव सिरोही राजकुल वंशवृक्ष में नं. २० वाला )

२ सूरजमल



उपर्युक्त वंशवृक्ष में नं. ४ जुवानसिंह वि. सं. १८६१ मे जोधपुर की फौज सिरोही पर आई तब फौज में शरीक था. नं. ४ और नं. ४ नाओलाद गुजर जाने बाद, जोधपुर

रियासत में इनकी कदर घट गई, वलिक वीसलपुर के लखावत देवडा भूपंतसिंह वेरीसालोत ने वि. सं. १८६८ में देवातरा की जागीर मिलने के वास्ते, जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अर्ज गुजारी थी, जो कबूल नहीं होते उसके एवजमें वीसलपुर की राज की बाव जोधपुर रियासत से मुआफ हुई थी, वैसा जोधपुर के महाराजा का वि. सं. १८६८ के पोस सुद ११ वार बुध के परवाने से मालूम होता है. इस वक्त देवातरा से कौन २ लखावत राजपूत है उसका पुरा पता मालूम नहीं हुआ है.

२ विसलपुर के लखावतों का मूल पुरुष ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) मेहाजल को सिरोही रियासत से वागसिण पट्टा की जागीर मिली थी. जब कि सिरोही के महाराव नं. १४ मानसिंह ने अपने देहान्त के समय वि. सं. १६२८ में नं. १३ सूरताणसिंह को अपने पीछे गद्दी वारिस ठहराया, तब नजदीकी रिशतेदारी के रह से मेहाजल के पुत्र कल्याणसिंह का हक, सिरोही की गद्दी पर वमुकावले सूरताणसिंह के ज्यादा था. महाराव सूरताणसिंह बारह वर्ष की बालक अवस्था में गद्दी पर आये, जिससे महाराव के मुसाहिव देवडा वजा ने नाबालगी का लाभ लेकर सिरोही की गद्दी दवा लेने की तजवीज करने से, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा की मदद से वि. सं. १६३० में देवडा वजा को भगा दिया, और खुद सिरोही की गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसको महाराव सूरताणसिंह ने वापस निकाला, जो अहवाल प्रथम विभाग में महाराव सूरताणसिंह के प्रकरण में सविस्तर आ चूका है.

कल्याणसिंह ने जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के पास नागोर जाकर रहने बाद, उसका सहारा लेकर कई दफे पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई, जिससे वि. सं. १६४६ में जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह ने इसको भाद्राजण पट्टा की जागीर ८४ गांवों से दी. बाद कल्याणसिंह की ओलाद वालों ने कभी मेवाड के महाराणा की, और कभी जोधपुर के राठौरों की सेवा की, जिससे उनकी जागीरें रद्द बदल होती रही. जब कि सिरोही की गद्दी पर महाराव अखेराज दूसरे हुए, तब उसके सहारे से वि. सं. १७०५ में विसलपुर पट्टा की जागीर कल्याणसिंह के पोता हरदास ने बालीसा चौहानों से छीन कर ली, जवसे विसलपुर पट्टा की जागीरें कल्याणसिंह की ओलाद वालों के पास है, और वे 'विसलपुर के लखावत' के नाम से मशहूर है.

सिरोही के महारावों ने शाही सेवा का अस्वीकार करने से, मुगल सलतनत के बादशाहों के साथ उनका आखिर तक विरोध चला आया, मेवाड के प्रख्यात महाराणा प्रतापसिंह के पीछे उसका कुमार महाराणा अमरसिंह ने भी, शाही तावेदारी का स्वीकार कर लिया, जिससे राजपूताना में सिर्फ स्वतंत्र राज्य सिरोही रह गया. उस समय से सिरोही राज्य की सीमा चारों तरफ से दवाने की शुरुआत हुई, उदयपुर के महाराणा ने




गोडवार का प्रदेश अपने कब्जे किया, बाद वह इलाका जोधपुर रियासत में चला गया, जिससे विसलपुर पट्टा (गोडवार में था) जो सिरोही रियासत के तरफ था, वह भी जोधपुर रियासत के तरफ चला गया. ईसी कारण से विशलपुर के लखावत जोधपुर रियासत के गिने गये हैं.

विसलपुर के लखावतों में वर्तमान समय में मुख्य विसलपुर, वांकली व कोरटा के लखावतों की बड़ी जागीरें हैं. जिनके पाटवियों का वंशवृक्ष दिया जाता है.

१ वंशवृक्ष विसलपुर परगने गोडवार रियासत जोधपुर के लखावत देवडा चौहान.

१ मेहाजल ( सिरोही के देवडा चौहान राजकुल में नं. ११ वाला. ) वागासिण.



मौजूदा ठाकुर साहब. विशलपुर ( रियासत जोधपुर ).



ठाकुर साहब किशोरसिंह साहब. ठिकाना विशलपुर ( रियासत जोधपुर ).

[ विभाग दूसरा पृष्ठ ३१ नं. ९ ]



## उपर्युक्त किसलपुर के बंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ मेहाजल सिरोही के महाराव नं. १० जगमाल के दूसरा पुत्र था. बडुआ की पुस्तक मुआफिक इसको महाराव जगमालने वि. सं. १५४० में वागसिण के पट्टा की जागीर दी. यह वि. सं. १५६२ में लीहीआणागढ महाराव अखेराजने लिया उस लडाई में काम आया. इसकी पुत्री रेवाकुंवर का विवाह जोधपुर के भोटाराजा उदयसिंह के साथ हुआ था. वि. सं. १५४० में इसने वागसिण गांव से बडुआ को सीख दी.

नं. २ कल्याणसिंह ने सिरोही की जागीर छोड कर वि. सं. १६०५ में भाद्राजण पट्टा की जागीर ८४ गांवों से ली, ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है. सि. रा. इ. की पुस्तक से पाया जाता है कि, जब कि वजा देवडा ने महाराव सूरताणसिंह को हटाकर चार महिनों तक सिरोही में राज्य किया, बाद कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर आया, और सूरताणसिंह ने अपनी पन्द्रह वर्ष की अवस्था होनेपर इससे राज्य ले लिया. इस पर से पाया जाता है कि इसने कम समय तक सिरोही में राज्य किया, परन्तु बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष तक सिरोही में राज्य किया था. वि. सं. १६३१ में यह सिरोही से हट चूका था, बाद जोधपुर के भोटाराजा उदयसिंह की सहायता से वि. सं. १६४६ तक इसने सिरोही पुनः प्राप्त करने का प्रयाश किया था, और वि. सं. १६६१ में इसका देहान्त हुआ, ऐसा मूतानेणसी की ख्यात की पुस्तक से मालूम होता है, उक्त पुस्तक में लिखा है कि इसको मेवाड के महाराणा उदयसिंह ने सहायता देकर सिरोही की गद्दी पर बैठाया था, यदि यह बात सही हो तो इसने वि. सं. १६२८ में ही सिरोही की गद्दी प्राप्त की होगी, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को सहायता करके आश्रय दिया था, जिसके विषय में बडुआ की पुस्तक में निम्न सोरठे लिखे हुए हैं.

“ रडीयो धर रत्नपाल, लाही बफेगो लोहेडे; थडोयो धमल ढोलाव, पाण जातो प्रतापसो. ”

“ पातल दहतां पाम डगीयो मंडीया देवडा; आपे आवु राव थांभे तों ने जगफल. ”

दोहो

“ कटारो कल्याण तणो, राव वहेसो राण; प्रकट कियो प्रतापसो, चहुखंड चहुआण. ”

बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि कल्याणसिंह के पुत्रों में नं. १ पसायण को सगालिया की जागीर, नं. २ रायमल को भटवाडा की जागीर, व नं. ३ देवीसिंह को वेडला की जागीर मिली थी, परन्तु पाया जाता है कि उन्हों की ओलाद आगे नहीं बढी है. ( लेकिन मू. ने. ख्या. से पाया जाता है कि, पसायण को लक्ष्मण नामका पुत्र था. और मेहाजल को जेता व द्वारिकादास नामके दूसरे दो पुत्र थे, जिसमें द्वारिकादास के तरफ वि. सं. १६८० में नवसरा पट्टा की जागीर थी. द्वारिकादास के पुत्र केसोदास था. उक्त

पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जेता को कान्ह व करण नामके दो पुत्र थे, जिसमें कान्ह का पुत्र केशरीसिंह था. ) नं. ३ पर्वतसिंह को सोकडा की जागीर मिली, जिसकी ओलाद में क्रमशः २ सुजा, ३ लूणा व उसका भाई कानसिंह हुए, लूणा के ओलाद न होने से कानसिंह के बाद नं. ४ केरींग, नं. ५ भावसिंह, नं. ६ हरदसिंह, नं. ७ खुमसिंह नं. ८ मालसिंह, नं. ९ राजसिंह, व नं. १० देवीसिंह हुए.

नं. ३ आसकरण जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह की सेवा में उपस्थित होकर अपने छोटे भाई नं. ३ पताराव को जागीर सुपुर्द करके देहली गया. मूतानेणसी को ख्यात में लिखा है कि इसके तरफ मोटाराजा उदयसिंह ने दिया हुआ 'नवसरा' पट्टा की जागीर थी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद वालों के तरफ वांकली पट्टा की जागीर है, जिसका वंशवृक्ष नं. २ का इसप्रकरण में दिया गया है.

नं. ३ पताराव के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसके तरफ भाद्राजण पट्टा की जागीर थी. वि. सं. १६७० में यह १४० सवारों के सहीत महाराणा अमरसिंह की सहायता में 'अरवड केवडा की नाल' में काम आया. इसकी पुत्री गंगाकुंवर का विवाह जालोर के राठौर रत्नसिंह महेशदासोत ( जिसकी ओलाद वाले 'सीतामऊ' के राजा हैं. ) के साथ हुआ था. इसके छोटा भाई नं. ३ महेशदास को 'पेरवा' की जागीर दी थी, मगर पाया जाता है कि उसका वंश नहीं चला.

नं. ४ हरीदास के विषय में, मू. ने. ख्या. की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके तरफ भाद्राजण की जागीर थी. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १६७० में इसको ८४ गांवों से 'खोड खोंवाडा' की जागीर मेवाड से मिली, वि. सं. १७०५ में इसको विसलपुर का पट्टा २४ गांवों से मिला. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि उस समय में मेवाड में राणा जगतसिंह था, और वीसलपुर में 'तोगा' नामका वालीसा चौहान था, तोगा वालीसा वीर राजपूत था, मेवाड के महाराणा से उसने कईवार युद्ध किये थे. हरीदास ने तोगा को मार कर वीसलपुर लिया. इस विषय में छंद में कवि कहता है कि—

“ भड सन मेवाडरा लख दल भांजीया, नाम तोगा तणे जगत नासे;  
वाद वादां तणां जायगा वंधाले, वड थो हांफता रा' तुंहीजवापे. ”

“ कलहर विदा तणा अगम दश काढीया, लोभीयो घणारां देश लीथा;  
देवडा हीर ने दर्नीरो दाखवे, मार मेवासीआं सुत काशा. ”

“ रामतां गोकां आदा ही नर वई, भाखर रो काढीया भाव भागा;  
पडीया सींग वेडां तणा पतावत, लखारा सींग समान लागा. ”

हरीदास के भाई नं. ४ गोरधन को 'वरोलीआ गांव' मिला था. नं. ४ गोरधन व उसके भाई नं. ४ जोधसिंह व नं. ४ नगसिंह यह तीनों भाई 'खोडगांव' के पुराने

तलाव पर लडाईं में काम आये, जिसमें गोरधन की छत्री भाद्राजण गांव में बंधाई गई. हरीदास के आठ राणीयां और चौदह पुत्र थे. इसने वि. सं. १७०५ में 'खोडगांव' से बडुआ को सीख दी थी.

नं. ५ इसरदास वीसलपुर में पाट बैठा. पाया जाता है कि मेवाड के राणा का पक्ष छोड देने से 'खोड खीवाडा' की जागीर इनके हाथ से छूट गई.

नं. ३ श्यामसिंह को 'सामपुरा गांव' मिला, इसकी ओलाद में क्रमशः २ गजसिंह, और गजसिंह के पुत्र ३ सूरतसिंह व नं. ३ वीका हुआ, सूरतसिंह सामपुरा में काम आया, जिससे वीका की ओलाद में यह गांव रहा. उसके बाद नं. ४ भीमसिंह, नं. ५ सूरतसिंह व नं. ६ जीवराज हुए. जीवराज के पुत्र नं. ७ बहादुरसिंह मौजूदा ठाकुर हैं, व उसका भाई भीमसिंह भी मौजूद है.

नं. ६ भवानसिंह को 'भागली' गांव मिला, इसकी ओलाद में क्रमशः २ दुर्गासिंह, ३ उम्मेदसिंह, ४ तख्तसिंह, व ५ वसनसिंह हुए. वसनसिंह वि. सं. १८४६ में 'चाणोद' में काम आया, और उसका भाई पनसिंह भागली में काम आया. वसनसिंह के बाद नं. ६ ओखसिंह व नं. ७ प्रतापसिंह हुआ. प्रतापसिंह वि. सं. १९२२ में भागली में सीणों के साथ झगडा हुआ उसमें काम आया, इस झगडे में नं. ५ वसनसिंह के भाई मानसिंह का पोता सबलसिंह वीरमोत भी काम आया. प्रतापसिंह के बाद नं. ८ महोबतसिंह व नं. ९ सरूपसिंह हुए. सरूपसिंह इस समय में 'भागली' की जागीर का पाटवी सरदार है. भागली के छोटभाईओं में नंबर ४ तख्तसिंह के भतीजा चैनसिंह रायसिंहोत का पुत्र सूरतसिंह वि. सं. १९१७ में 'चाणोद' पट्टे में काम आया, और नं. ३ उम्मेदसिंह का एक भतीजा जीवराज वीरभाणोत के पोता गजेसिंह गुमानसिंहोत वि. सं. १९२३ में जोधपुर की फौज के साथ गया था, जो तख्तगढ में काम आया. और दूसरा भतीजा बदासिंह पुरसिंहोत का पुत्र तेजसिंह वि. सं. १९०५ में भागली में काम आया.

नं. ६ बिहारीदास को 'बलवना' व नं. ६ दयालदास को 'बरोलीआ' गांव मिले, लेकिन उसकी ओलाद वालों का अहवाल मालूम नहीं हुआ, वजह यह हुई कि इन्ही गाँवों में पीछे से और भी गये हुए हैं, जिससे शायद पांती पड गई हो !

नं. ६ साहेबखान को 'गलथणी' गांव वि. सं. १७०० में मिला, जिसकी ओलाद में क्रमशः २ गोपालसिंह, ३ रामसिंह, ४ भीमसिंह, व ५ श्यामलदास हुए. श्यामलदास ने वि. सं. १८०६ में बडुआ को सीख दी. इसके पुत्र नं. ६ इन्द्रसिंह, नं. ६ नारायणसिंह, नं. ६ वजेसिंह, व नं. ६ मालसिंह यह चारों भाई वि. सं. १७९० में गलथणी में काम आये, जिससे इनसे छोटा पुत्र नं. ६ नारायणदास पाटवी हुआ. नारायणदास ने वि.

सं. १८२८ में बडुआ को सीख दी. नारायणदास के बाद नं. ७ अनाडसिंह, ( वि. सं. १८६४ ) नं. ८ कनकसिंह, ( वि. सं. १९०१ ) नं. ९ कहानसिंह, ( वि. सं. १९३३ ) नं. १० मालसिंह, ( वि. सं. १९४४ ) इस मुआफिक पाटवी हुए. मालसिंह के पुत्र नं. ११ केशरीसिंह व उनके भाई प्रतापसिंह, नारसिंह व समर्थसिंह हैं. नं. ११ केशरीसिंह ने श्रीमुंजी बाबा की आज्ञा से वि. सं. १९६९ में केशराबाद नामका गाँव बसाया. मालसिंह का भाई अजेतसिंह मुंजी बाबा नामक योगी पुरुष का कृपा पात्र शिष्य है. मुंजी बाबा ने वि. सं. १९५६ के जेठ वदि २ को अजेतसिंह के ' ऐचव ' नामक अरहट पर समाधि ली, जहाँपर अजेतसिंह ने बड़ा मन्दिर बंधाकर गुरु ऋण अदा किया है, और उसी स्थान में रहकर गुरु पादुका की पूजन करते हैं. यह ' महाराज अजेतसिंह ' गलथणी वाला ' इस नामसे राजपूताना में प्रसिद्ध है.

नं. ६ सूरसिंह को ' कोलीवाडा ' मिला था, मगर इसकी ओलाद उस गाँव में है या नहीं यह मालूम नहीं है, क्योंकि उक्त गाँव में पीछे से और भी गये हुए हैं.

नं. ६ जगतसिंह वि. सं. १७४६ में ' पालडी ' में काम आया. इसके भाईओं के परिवार का अहवाल मालूम नहीं हुआ.


नं. ७ दलसिंह ने वि. सं. १७९१ में बडुआ को सीख दी. यह वीसलपुर में काम आया. इसका भाई नं. ७ गरीबदास को पेरवा गाँव मिला था, मगर उसकी ओलाद वाले सब नाओलाद गुजर गये हैं. नं. ७ अभयसिंह को वीसलपुर गाँव में ही कुछ वंट मिला. अभयसिंह का पुत्र नारसिंह ' कोयडा ' में काम आया, उसके तीसरा पुत्र लाडसिंह की ओलाद में सोर्फ खेमसिंह धुलसिंहोत है, जो वीसलपुर में मौजूद है.

नं. ८ उदयभाण ने वीसलपुर में महल बनाया. वि. सं. १८०१ में इसने बडुआ को सीख दी. इसके तीन पुत्र नं. ९ वेरीसाल, नं. ९ महासिंह, व नं. ९ कल्याणसिंह वि. सं. १८२६ में ' सादडी ' में युद्ध में काम आये, जिनके साथ और नौ राजपूत भी मारे गये.

नं. ९ वेरीसाल ' सादडी ' में काम आया, जिससे इसका पुत्र नं. १० हिम्मतसिंह वीसलपुर पाट बैठा, लेकिन चंदरोज में वह भी गुजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. १० भूपतसिंह पाट बैठा.

नं. १ नाथुसिंह व नं. १ वख्तसिंह को बरोलीया गाँव मिला. वख्तसिंह की ठकराणी जोधीजी वञ्चकुंवर गाँव भामरी का जोधा लालसिंह की पुत्री अपने पति के पीछे वि. सं. १८२८ में सती हुई. इसका पुत्र जेतसिंह भी बालकपन में गुजर गया, जिससे बरोलीया की जागीर नं. १ नाथुसिंह की ओलाद वालों के तरफ रही. नाथुसिंह ने वि.

मौजूदा ठाकुर क्रेण्टन कैसरीसिंह साहब गलथणी.



( लखावत देवडा, रियासत जोधपुर वंशवृक्ष में नं. ११ गलथणी के पाटवी सरदार नं. ११ \*कैसरीसिंह पृष्ठ २६ पर )

\*गलथणी इलाके जोधपुर के मौजूदा पाटवी सरदार क्रेण्टन कैसरीसिंह हैं. देवडा चौहान सरदारों में यह एक आदर्श सरदार गिना जाते हैं. इन्होंने बहादुर सैनिक, मौजीज सरदार तथा विद्वान् लेखक की योग्यता प्राप्त





करके अपने कुछ गौरव का परिचय कराने से इनकी कारकीर्दी का कुछ अहवाल अंकित करना आवश्यक है. राजपूत सरदारों में वर्तमान समय में आलस्य, प्रमाद और दुर्व्यसन का चेप बढ रहा है, और जागीर की आमदनी करजदारी में जा रही है, वैसे चेप से बचने के कारण इन्होंने ई. स. १८८६ में जोधपुर इम्परियल सरवीस के 'सरदार रिसाले' में मामूली सवार की जगह भरती होकर अपनी योग्यता का परिचय देकर 'स्कोडून कमान्डर' (केप्टन) का पद प्राप्त किया, और ई. स. १९१९ में पेन्सन पाई, व अपने कुटुम्बियों को भी इसी रास्ते पर लगा दिये, जिसमें महाराज अजीतसिंह के पुत्र 'उमेदसिंह' वर्तमान समय में जोधपुर लेन्सर में 'स्कोडून कमान्डर' के स्थान पर है. समर्थसिंह (इसका छोटाभाई) नं. ४३ एरिनपुरा रीज़मेंट में व ओहदे सुवेदार थे उसकी सेवा महाराणा साहब उदयपुर ने अंग्रेज सरकार से लोन लेने के कारण वह उदयपुर रियासत की फौज में व ओहदे 'कर्नल' विद्यमान है, जिनको नामदार शाहजादा ने अपने हाथ से चांदी का तकमा इनायत किया है.

इस पुस्तक के लेखक की इसकी सरवीस की सनदे देखने का मौका मिला जिससे मालूम हुआ कि ई. सं. १८९९ से १९०१ तक यह चाइना की लडाई में तहनात रहा और 'फिलड सरवीस' का तकमा पाया. ई. सं. १९११ के कॉरोनेशन दरबार में भरूपापात्र बोडीगार्ड के स्थान पर यह तहनात हुआ, जहां पर अच्छी सेवा बजाने से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सनद के साथ 'गुड सरवीस' का तकमा प्रदान किया गया, ई. सं. १९१३ में 'सिमला कयारीघाट इम्परियल सरवीसट्रुप' के कलास में 'केम्प कमान्डर' नियत हुए, और काम अच्छा बजाने का सरटीफिकेट प्राप्त किया. ई. सं. १९१४ में युरोप की ग्रेट वॉर में यह अपने छोटाभाई उमेदसिंह व सरदारसिंह के साथ फ्रान्स की रणभूमि में तहनात रहा, और ता. २१-१२-१४ ई. के रोज ब्रिटीश फौज ने 'फेस्टुलिया' की जर्मन ट्रेच पर हमला किया, उसमें शरिक था, इस युद्ध में सरदारसिंह बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके काम आया, और मेजर ए. डी. स्ट्रोंग (जो जोधपुर लेन्सर के साथ था.) जर्मनों के बोम्ब से जखमी होकर गिरे, ठाकुर कैसरीसिंह ने उस वक्त धैर्य रख कर चौहानों की गौरवता और वीरत्व का पूर्ण परिचय दिया, इसने अपने प्राण की परवाह न करते मृत्युशरण पहुंचे:हुए मेजर स्ट्रोंग को उठाया और रीज़र्व में सुरक्षित लाने में सफलता प्राप्त की, इस कारगुजारी की कदर करने के वास्ते 'ऑर्डर ऑफ मेरिड' का तकमा दिलाने की मेजर स्ट्रोंग व कर्नल होलडन ने सिफारश की थी. युरोप के महाभारत युद्ध में इसने 'तीन तकमे' व 'एक कडी' प्राप्त करने का सन्मान पाया है.

यह मौजीज व खानदानी सरदार होने से बडे २ खास प्रसंगों में विश्वासपात्र बोडीगार्ड के स्थान पर इसकी सेवा खास तोर पर ली जाती थी, बल्कि पेन्सन पर फारग होने बाद भी (ई. स. १९२१-२२ में) राजपूताना में ग्रासियां भीलों का बलवा हुआ तब जोधपुर रियासत ने इसकी सेवा ली, जहां पर इसने अपना लाग वग व कार्यदक्षता से ऐसी सेवा बजाई कि सख्ती के इलाज काममें नहीं लेना पडा, और सब प्रकार से शान्ति रहने पाई थी.

राजपूत जाति की सुधारणा और उन्नति के वास्ते इनके प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय हैं, इनकी कलम से लिखे गये अनेक विद्वतादर्शक वश्वोधक लेख प्रकट हो चुके हैं, और इनकी तरफ से प्रसिद्ध हुए 'राजपूत जाति को सन्देश' व 'राजपूतों का आदश' नामक पुस्तकों से राजपूतों की उन्नती के वास्ते यह कितना प्रयास कर रहे हैं वह स्पष्ट मालूम होता है. मातृभूमि पर अत्यंत प्रेम होने के कारण, जबकि इसकी जागीर का गांव 'गलथणी' का आवहवा अच्छी होने से उस स्थान पर अंग्रेज सरकार ने 'राजपूताना डिवीज़न' के वास्ते फौजी केम्प बनाना निश्चय किया, और महाराजा जोधपुर की तरफ से मंजूरी देदी गई, तब इसने अपनी मौरूसी जागीर छोडना अस्वीकार किया. महाराजा साहब जोधपुर ने 'गलथणी' की जागीर के बदले में उससे करीब तीन गुणी जागीर और दूसरे अनेक प्रकार के फायदे देना चाहा, वैसे अंग्रेज सरकार के बडे २ अफसरान ने इसकी दील जमाई के वास्ते बहुत प्रकार से समजूत की, परन्तु मातृभूमि छोडने में मान दानी और खानदानी तालुकात में फक आने जैसा होने से इसने इनसाफ पाने के वास्ते अपनी दलील इस ढंग से पेश की कि जोधपुर महाराजा साहब ने उससे नाखुश नहीं होते, इनसाफ देने के लिये सिफारस की, और न्यायी अंग्रेज सरकार ने उस पर गौर करके इनसाफ देने के वास्ते अपनी योजना मुलतवी कर दी.

ठाकुर कैसरीसिंह के वहुत से सरटीफिकटों की नकलें लेखक को प्राप्त हुई हैं, लेकिन स्थल के संकोच के कारण उपर्युक्त ख्यात प्रदर्शित करनेवाले सरटीफिकटों की नकल इस स्थान पर अंकित की है, जो और सरदारों के वास्ते द्रष्टांत रूप है

No. 21/S. M.

15th March 1919.

I am very glad to certify that Captain Keshrisingh served in the regiment under my command. He executed his duties very dilligently and to my satisfaction. He was one of the most prominent and trustful men in the Regiment who was always entrusted with the most responsible task of guard whenever any, great Officer or their Excellencies the Viceroys or the Commander-in-Chief Visited Jodhpur. He always performed his duties to the satisfaction of all, and pleased me very much with his excellent work.

He was under my command in the Delhi Coronation, 1911 at that time he took every pain to manage every work entrusted to him, so efficiently that not only I, but all the other Officers were very much pleased and highly appreciated his services.

When the great European War took place, he was with me in France. There he showed his brilliance and tact, genius and heroism, his courage and daring spirit. He undoubtedly, took part in every dangerous attack and faced every peril with great coolness and presence of mind. It was due to his utmost efforts that Major Strong with whom he was at the time of a very perilous attack, was saved from death I highly appreciate his worthy services.

I wish him every success in his future career.

Sd/-SIER SINGH, COLONEL, MAHARAJ.  
Commanding Officer, Sardar Rissalla.  
A. D. C. to H. E. the Viceroy.

18th June 1923, JODHPUR,  
Rajputana

Thakor Kesrisingh of Galthani is a retired Officer of the Sardar Riasala and had rendered valuable services to the State in connection with Grassia Bhil Disturbances on the Sirohi Mewar Border in 1921-22 He is a very Loyal gentleman and exercises strong influence with the hill people near his Thikana

Sd/- R. A. LYALL, Lt. Col.  
Offg: Political and Judicial  
Member of Council,  
JODHPUR.

सं. १८३७ में बडुआ को सीख दी, इसके बाद क्रमशः नं. २ मांहेकमसिंह (वि. सं. १८८८) नं. ३ वसन्तसिंह ( वि. सं. १८९५ ) नं. ४ जोरावरसिंह, नं. ५ अजेतसिंह ( वि. सं. १९३३) व नं. ६ रावतसिंह हुए, रावतसिंह वरोलीआ का मांजूदा पाटवी है. रावतसिंह के राजसिंह व मूलसिंह यह दो पुत्र हैं.

नं. १/४ कल्याणसिंह को कोलीवाडा मिला, यह ' सादडी ' में काम आया. उसके बड़े पुत्र जालमसिंह की ओलाद में, उनका पोता सालमसिंह दोलतसिंहोत का पुत्र पीरदान इस समय में पाटवी है. कल्याणसिंह का दूसरा पुत्र ओपसिंह वि. सं. १८५५ में युद्ध में ' कोलीवाडा ' गांव में काम आया. यह वीर राजपूत था. इसकी पासवान फतुकुंवर इसके पीछे सती हुई. ओपसिंह के वास्ते किसी कवी ने सोरठे कहे हैं कि—

“ ओपा पडीयो आप, लाखां भड भांजण लखो; प्रसण पडीयो घा, गहनाली माथा गया. ”

“ लूवे दल लाखाई, × × तणो लेखवे; वंवालो वाखा, ओपो जण तण उपरे. ”

“ गणवट उडे गांम, खेले नारद खेतलो; पलटे कदी न पाव, दुजडे ओपो देवडो. ”

ओपसिंह की ओलाद में इस समय में उसका पोता रामदान कहानसिंहोत का पुत्र समरतसिंह पाटवी है.

नं. १/६ जयसिंह को ' बलवना ' मिला, इसके बाद क्रमशः २ लालसिंह, ३ रूद्रसिंह, ४ अचलसिंह, ५ वरूतसिंह, ६ सग्रामसिंह, व ७ उम्मेदसिंह हुए. उम्मेदसिंह अपुत्रवान गुजरने से नं. ८ रावतसिंह गोद आया, जो बलवना के मांजूदा ठाकुर है. नं ४ अचलसिंह के भाई माधुसिंह वि. सं. १९१७ में चाणोद पट्टे में काम आया था.

नं. १/७ भूपतसिंह वहादुर सरदार हुआ, इसने सिरोही रियासत से विरोध करके जोधपुर के महाराजा मानसिंह की कृपा हासिल की, वि. सं. १८६१ में सिरोही पर जोधपुर की फौज आई, जब यह जोधपुर की फौज से था, वैसे वि. सं. १८६७ में मूता साहेबचंद के साथ फिर जोधपुर की फौज सिरोही पर आई, और भीतरोट परगना में से फौजबाब वसूल ली, तब यह और वांकली के लखावत फतहसिंह जेतमालोत भी फौज में शरीक थे, ( परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८६७ चैत्र सुद ४ ) बल्कि सिरोही रियासत के भीतरोट परगने में इसने फौज में अग्रेसर होकर अच्छा काम दिया, इस कारगुजारी में गांव देवातरा ( रि. जोधपुर ) के निसवत अर्ज गुजारी थी, मगर वह नामंजूर हुई, और उसके एवज में वीसलपुर पट्टे में जोधपुर की बाब लगती थी वह मुआफ कर दी गई. ( परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर वि. सं. १८६८ पोस सुद ११ देवडा भोपतसिंह वेरीसालोत के नामका. ) इसने वि. सं. १८३७ में बडुआ को सीख

दी. इसके नामके कई परवाने जोधपुर रियासत के उपलब्ध होते हैं. इसको वि. सं. १८६० भाद्रवा वदि १ को जोधपुर रियासत से १ कुरब की इज्जत दी गई थी.

नं. ११ कुशलसिंह ने वि. सं. १८७६में बडुआ को सीख दी. नं. ११ खुमाणसिंह को लाज व मेडा गांव वि. सं. १८६२ में मिले. इसके विषय में किसी कविने कहा है कि—

“ खुमा बलखां धे, धागे लागे धरपती; लड अरिंद भाखर, जण जण मुंठे जुंजवा. ”

खुमाणसिंह के पुत्र नं. २ प्रेमसिंह की ठकराणी राठौरीजी एजनकुंवर राठौर जेतसिंह जोरावरसिंहोत की पुत्री वि. सं. १८७५ में अपने पति के पीछे लाज गांव में सती हुई. इसका दूसरा पुत्र नं. ३ चतरसिंह की ओलाद में क्रमशः ३ भभूतसिंह व नं. ४ हीरसिंह हुए, हीरसिंह का बड़ा पुत्र नं. ५ वरदसिंह लाज गांव में मौजूदा पाटवी ह, और इसका भाई नं. ६ वसनसिंह है. इनके दूसरे भाइयों की ओलाद वाले वीसलपुर में है.


नं. १२ गुमानसिंह ने वि. सं. १८९५ में बडुआ को सीख दी. इसके भाइयों की ओलाद वीसलपुर में है.

नं. १३ देवीसिंह ने वि. सं. १९१७ में बडुआ को सीख दी. इसके दूसरे भाइयों की ओलाद वीसलपुर में है. इसका पुत्र नं. १४ डूंगरसिंह अपने पिता के देहान्त होने पर वीसलपुर पाट बैठा, लेकिन अपुत्रवान गुजरने से, नं. १५ करणसिंह के पुत्र किशोरसिंह को गोद लिया. डूंगरसिंह ने वि. सं. १९३३ में बडुआ को सीख दी.


नं. १५ किशोरसिंह वीसलपुर ठिकाना के मौजूदा पाटवी ठाकुर है. इनके पुत्र फतहसिंह व रत्नसिंह है. वीसलपुर ठिकाने को जोधपुर रियासत से रेख मुआफ है. सिरोही रियासत के साथ इसका अच्छा नाता है.

२ वंशवृक्ष वांकली परगने गोडवार रियासत जोधपुर के लखावत देवडा चौहान.

१ आमकरण ( वीसलपुर के लखावतों के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) वांकली




७ माहसिंह ( चल्. २ वंशवृक्ष वांकली परगने गोडवार रियासत जोधपुर के लखावत देवडा चौहान. )



नं. १२ ठाकुर नाधुसिंह वांकली पट्टा के मौजूदा पाटवी है, जिसके पुत्र उम्मेदसिंह है. वांकली पट्टे के सरदारों में नं. १० अनाडसिंह को कदीमी दस्तूर मुआफिक जोधपुर रियासत की तरफ से कुरब १ की इज्जत दी थी. नं. ४ सूरसिंह की ओलाद में भोमसिंह चैनसिंहोत लडाई में काम आया था.

नं. २ राजसिंह के पुत्रों को खीवाणदी गांव मिला, ( १ सुजाणसिंह, २ जीवराज, ३ लादासिंह, ४ लाखसिंह व ५ खेमराज, ) उनसे खीवाणदी गांव में पांच पांती हुई, जिनकी ओलाद वाले पांचो पांती में मौजूद हैं. नं. ४ लाखसिंह की ओलाद में इसका पुत्र गोदसिंह के १ सबलसिंह व २ जामतसिंह नामक पुत्रों में जामतसिंह की ओलाद में उसका पुत्र कल्याणसिंह को सिरोही रियासत से वि. सं. १८८४ में ' खेजडीआ ' गांव ( परगने खूणी में है ) आवाद करने का परवाना सिरोही के महाराव शिवसिंह ने इनायत किया था, मगर गांव आवाद नहीं होसका. कल्याणसिंह के चार पुत्र थे, जिसमें वडा जालमसिंह की ओलाद खीवाणदी में है. तीसरा पुत्र तेजसिंह और उसका पुत्र वाघसिंह को व कल्याणसिंह के छोटा पुत्र जोधसिंह को सिरोही के महाराव उम्मेदसिंह ने वि. सं. १९२३ में खूणी परगने का ' धुरवाणा ' गांव आवाद करने का परवाना इनायत किया, जिसमें जोधसिंह नाओलाद गुजर गया, और वाघसिंह की ओलाद सिरोही के गांव धुरवाणा में विद्यमान है, उसका वंशवृक्ष नीचे सुआफिक है.

३ वंशवृक्ष धुरवाणा परगने खूणी रियासत सिरोही के बीसलपुर वाले लखावतों का.



वांकली के लखावतों में नं. ३ रायसिंह को ' मोडरू ' गांव मिला. जिसकी ओलाद में क्रमशः २ सूरताणसिंह ३ उदयसिंह, व ४ वख्तसिंह हुए. वख्तसिंह के चार पुत्रों में छोटा ५ चैनसिंह की ओलाद रही, जिसके क्रमशः ६ राजसिंह, ७ प्रतापसिंह, व ८ कुशलसिंह हुए, कुशलसिंह वर्तमान समय में मोडरू गांव की जागीर का पाटवी है. नं. ३ (' वांकली ' के वंशवृक्ष वाला ) गोकुलदास को ' तलाणी ' पट्टा की जागीर मिली थी. गोकुलदास के पुत्र १ फतहसिंह, २ श्यामसिंह, ३ प्रेमसिंह, ४ जगतसिंह, ५ दरजसिंह, ६ हिम्मतसिंह, ७ हरनाथसिंह, ८ तेजसिंह, इन आठ पुत्रों में नं. ३-५-८ ना ओलाद गुजरे, नं. ७ हरनाथसिंह की चार पुत्रों बाद नाओलादी हो गई. नं. २ श्यामसिंह को ' सेलोदरीआ ' गांव मिला, और नं. १ फतहसिंह, नं. ४ जगतसिंह, व नं. ६ हिम्मतसिंह, यह तीनों की ' तलाणी ' गांव की जागीर में तीन पांती हुई, जिनकी ओलाद वाले वर्तमान समय में वहांपर विद्यमान है, जिसमें नं. १ फतहसिंह की पांती का पाटवी हिम्मतसिंह धुलसिंहोत, और नं. ४ जगतसिंह की पांती का पाटवी जीवसिंह रूघनाथसिंह तेजसिंहोत, व नं. ६ हिम्मतसिंह की पांती में लक्ष्मणसिंह कल्याणसिंहोत पाटवी है.

गोकुलदास ( वांकली वंशवृक्ष में नं. ३ वाला ) के दूसरा पुत्र श्यामसिंह को ' सेलोदरीआ ' गांव मिला जिसकी ओलाद में ' सेलोदरीआ ' में उसके पीछे क्रमशः २ मकनसिंह, ३ चंद्रभाण, ४ वसन्तसिंह, ५ स्वरूपसिंह, व ६ नवलसिंह हुए. नवलसिंह नाओलाद होनेसे उसके भाई मोखसिंह का पुत्र रूघनाथसिंह, नवलसिंह के गोद गया. ७ रूघनाथसिंह का पुत्र ८ जीवराज हुआ, और उसका पुत्र ९ पहाडसिंह व बहादुरसिंह सेलोदरीआ के लखावतों के पाटवी है.

नं. ६ वलवंतसिंह ( वांकली वंशवृक्ष वाला ) को ' वलुपरा ' मिला, इसने यह गांव अपने नामसे बसाया. इसकी ओलाद में ' वलुपुरा ' में क्रमशः २ करणसिंह, ३ गुमानसिंह, ४ उदयरज, ५ अखसिंह, व ६ केशरीसिंह पाटवी हुए. केशरीसिंह के पुत्र नं. ७ रामदान व देवीसिंह मौजूद है, जो इस गांव के लखावतों के पाटवी है. नं. ६ वलवंतसिंह का छोटा पुत्र महोसिंह वांकली के नं. ६ दोलतसिंह के गोद गया.


नं. ६ अणंदसिंह ( वांकली वंशवृक्ष ) का पुत्र रामसिंह बहादुर राजपूत होना पाया जाता है, इसको पांच गांवों की जागीर से ' कोरटा ' पट्टा मिला था, वैसा बडुआ की पुस्तक में उल्लेख है. कोरटा ठिकाना के सरदार ताजिमी है, और उनको जोधपुर रियासत से कुरव १ की इज्जत है, जो नीचे के वंशवृक्ष में नं. ६ शार्दूलसिंह को मिली थी. कोरटा का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

४ वंशवृक्ष 'कोरटा' ई जोधपुर के लखावत.

वांकली के वंशवृक्ष में नं. ५ वाला अणंदसिंह नाओलाद होनेसे उसके छोटेभाई जुजारसिंह उसके गोद गये ऐसा बडुआ की पुस्तकसे पाया जाता है. जुजारसिंह का पुत्र रामसिंह बडा वीरपुरुष हुआ, उसने स्वपराक्रम से मेवाड के महाराणा की महरबानी सम्पादन करके 'वांकली' गांव में अपनी पांती के सिवाय 'कोरटा' पट्टा की जागीर सात गांवों के साथ प्राप्त की, जो वर्तमान समय में उसके वंशज के तरफ है.

१ अणंदसिंह ( देखो वांकली के वंशवृक्ष में नं. ५ वाला. )

२ जुजारसिंह ( अणंदसिंह के छोटा भाई. )



### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. ३ रामसिंह के तरफ 'वांकली' की जागीर का बंट था. यह महाराणा उदयपुर की सेवामें उपस्थित था. वि. सं. १८१३ में दशहरा के रोज पाडा का बलीदान देते इसने अपनी तलवार चलानेकी कुनह ऐसी बताई कि भैंसा का शिर सींग व वदन समेत एक ही झटके से कटकर तलवार जमीन में जा बैठी, जिस पर महाराणा ने इसको 'लाटुद' गांव बक्षा. वि. सं. १८१६ में इसने सादडी के ठाकुर ( जो करीब ३० साल से बागी था. ) को मारा, जिस से महाराणा ने गांव 'पोमावा व जाकोडा' की जागीर इनायत की, और वि. सं. १८१९ में 'कोरटा' पट्टा की जागीर पांच गांवों से पाई. जब कि गोडवार परगना जोधपुर रिसायत के तरफ आया तब जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि. सं. १८३१ जेष्ठ वदि १२ के परवाने से ठाकुर रामसिंह को ( १ कोरटा, २ वामणेरा, ३ पोईणा, ४ नारवी, ५ पोमावा, ६ जाकोडा व ७ वागार यह सात गांवों



की ) उनकी जागीर की सनद कर दी, जिससे इसके तरफ वांकली की अपने बंटकी जागीर व 'कोरटा' पट्टा की जागीर रही, जो अबतक कायम है. इसके भाई नं. ३ हाथी-सिंह की ओलाद वाले 'वांकली' में है और दूसरे कोरटा में विद्यमान है.

नं. ४ कीरतसिंह वि. सं. १८३७ में पाट बैठा, इसकी तीन ठकुराणी थी जिसमें जोधोजी ( गोदावस का जोधा उमसिंह की पुत्री से ) से बाई सोनकुंवर का जन्म हुआ, जिनको 'दुहोडा' के राठौर चांपावत दिपसिंह के साथ विहाईथी, जो अपने पतिके पीछे 'दुहोडा' में सती हुई.

नं. ५ भूपतसिंह वि. सं. १८५४ में 'कोरटा' में पाट बैठा. इसके पीछे नं. ६ कुशलसिंह वि. सं. १९११ में 'कोरटा' के ठाकुर हुए. इसके समय में वि. सं. १९२३ में जोधपुर रियासत ने 'नावी' गांव की सरहद में 'मोडवाडीआ' खेडा की जगह पर 'जशवंतपुरा' नामक गांव बसाया, जिसको डोडीयाली के वालोतर, आहोर ठाकुर व सांडेराव के ठाकुरों ने शामिल रह कर विखेरना चाहा, उस पर जोधपुर रियासत की तरफ से सेख अलावक्ष की मुसाहिबी में फौज भेजी गई, जिसमें ठाकुर कुशलसिंह जोधपुर की फौज की सहायता में रहकर लड़े और बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके आप अपने और दो आदमीओं के साथ काम आये. इस खेरखाही में जोधापुर के महाराजा तख्तसिंह ने 'कोरटा' ठिकाने की 'रेख चाकरी' मुआफ करके 'बेतलब' कर दी.

नं. ७ शार्दूलसिंह वि. सं. १९२३ में अपने पिता के पीछे पाट बैठा. इसको जोधपुर रियासत के तरफसे कुरब १ की इज्जत थी. वि. सं. १९२६ में महाराज कुमार जशवंतसिंह, मीणे-भीलों को सजा देने के वास्ते गोडवार में आये और सियाणे के भीलों को सजा देने के वास्ते ठाकुर भैरसिंह की सरदारी में सियाणा पर फौज गई तब मीणे-भीलों ने उस फौज को हटाकर राजकी तोपें कब्जे कर ली, जिस पर ठाकुर शार्दूलसिंह व विशलपुर के ठाकुर डुंगरसिंह ने अपने भाईओं की जमियत से मीणों पर हमला किया और उनको शिकस्त देकर राज की तोपें वापस ली. इस युद्ध में ठाकुर शार्दूलसिंह के दश बारह आदमी जखमी हुए और खुद को भी एक गोली लगी थी. महाराज कुमार जशवंतसिंह ने यह बहादुर राजपूत की कदर की और शिरोपाव देकर संतुष्ट किया.

ठाकुर शार्दूलसिंह का सिरोही के सरहुम महाराव सर कैसरीसिंह के साथ बहुत ही मेल-जोल था. वि. सं. १९३६ में जब कि वजावतों ने मणादर के राजसाहेब तेजसिंह पर हमला करके उसकी माल मत्ता लूट ली, और सिरोही रियासत की तरफसे झाडोली के वजावतों को सजा देने के वास्ते फौज भेजी गई, तब विशलपुर व वांकली के ठाकुरों के मुआफिक यह भी राजकी फौज में मौजूद थे, और वजावतों को सजा देने में अच्छी सहायता देने से महाराव साहब ने इसको शिरोपाव वक्षा था, बल्कि राजसाहेब तेजसिंह



मौजूदा ठाकुर साहब कोरटा. ( रियासत जोधपुर ).



ठाकुर साहब छगनसिंह साहब. ठिकाना कोरटा ( रियासत जोधपुर ).

[ विभाग दूसरा पृष्ठ ३१ नं. ९ ]

को फिर वजावतों की तरफ से तकलिफ न होने पावे उसके वास्ते सिरोही महाराव की आज्ञानुसार इसने अपना पुत्र नं. १ समर्थसिंह को अपने छोटभाई करणसिंह व तख्तसिंह आदि के साथ एक साल तक ' मणादर ' में रख छोडे थे.

नं. ८ विजयसिंह वि. सं. १९४६ में पाट वैटा. यह कुंवर पद से ही अपने पिता के सुआफिक बहादुरी के वास्ते प्रसिद्धि में आ चुका था. इसने कुंवर पद में ही कई +लूटेरे मीणों को गिरफ्तार किये और मार दिये, जिससे जोधपुर रियासत की तरफसे दो दफे शिरोपाव पाये और बडी नामवरी हासिल की. पाट आने बाद अपने ठिकाने की तरकी के वास्ते बहुत से कुए ( अरहट ) खुदावाये और अच्छी इज्जत प्राप्त की. यह उदार प्रकृती के सरदार था. इसके विषय में कविने कहा है कि—

“ वजा थारी वार, भोपत आवे भालवा; देशो में दातार, कोई देवत आवे देखवा. ”

नं. ९ ठाकुर छगनसिंह, कोरटा ठिकाने के सौजूदा पाटवी है. इसका तालुक भी रियासत सिरोही के साथ अपने बुजुर्गों के नाई अच्छा है. इसको १ मोहनसिंह व २ चतरसिंह नामक दो पुत्र है.



+ नं. ८ विजयसिंह ने वि. सं. १९३२ में ' रांवाडा ' के मीणे कळीया, गांगला व देवका आदि नामी लूटेरे थे, जिसने कोरटे के राठौर लखा अमरीग को मार दिये थे उनका पीछा करके गौतमजी के मंदिर पास मुकाबला किया, जिसमें देवका मारा गया और दूसरे दो जखमी हुए थे. वि. सं. १९३८ में इसने ब्रिटिश इलाका के ' टोडगढ ' शहर को लूटने वाले डाकू मीणे जो ' लखमावा ' गांव के अरहट पावटी पर थे, उनको घेर कर उनमें से एक को पकड लिया और दूसरे को मार कर उसका माथा जोधपुर के सुप्रीन्टेन्डेन्ट के पास भेजने पर जोधपुर के महाराजा जशवंतसिंह साहब ने इसकी वीरता की प्रशंसा करके एक दोनाली बिलायती बंदुक व शिरोपाव वक्षा. वि. सं. १९३९ में नामी डाकू मीणा मोटीआ जिसको मार देने का या पकडने का रियासत जोधपुर से हुकम हुआ था, उसके पीछे कुंवर विजयसिंह पडे, गांव फतहपुरा की ' भाणी नाडी ' पास उसके माथ मुकाबला हुआ, जिसमें ' मोटीआ ' मीणा मारा गया. उसका शिर वाली की हुकूमत में भेजा गया, जिसपर जोधपुर रियासत से इसको शिरोपाव और इसके दो आदमी को रु. २००) नकद की वक्षिश दी गई.

नोट—जोधपुर रियासत के कुरव की नुंद में “ देवडा भोपत सवाई मानसिंहोत पट्टे गढ जोधपुर रो गांव ' नौसरो ' वगेरा वि. सं. १८६० व भाद्रवा वद १ कुरव १ ” की नुंद है, मगर ' नौसरा ' पट्टा के देवडा चौहानों की कोई ख्यात मिळी नहीं है, जिससे उसका अहवाल नहीं लिखा गया है. अनुमान होता है कि यह मणादर की डूंगरावत शाखा पैकी के है, क्योंकि कालेंद्री के रुद्रसिंह का पोता अचलदास लखावत को ' नौसरा ' पट्टा जोधपुर से मिला था, शायद उसकी ओलाद में यह होंगे. जोधपुर से गये हुए देवडों में ' करणसिंह ' नामका देवडा मालवा में ' राजगढ ' रियासत में रहता है. वह अपने मुद को कालेंद्री से अलग होने का बतलाते है. शायद वह इस खानदान का हो !


## प्रकरण ४ था.

### लखावत देवडा ( सामीदासोत्त ) .

दवाणी के लखावत, वंशवृक्ष देवडा चौहान राजकुल में नं. १२ सुजा के पुत्र नं. १३ सामीदास की ओलाद में है. नं. १२ सुजा के तरफ पहिले की मिली हुई, धांधपुर व पालडी, गांवों की जागीर थी. जिसमें से सामीदास को धांधपुर की जागीर मिली थी, लेकिन जब कि महाराव सुरताणसिंह सिरोही राज्य के मालिक हुए, तब उसने सामीदास के पुत्र रामसिंह को दवाणी व रायसिंह को मालगांम आदि गांवों की जागीर और दी, जिससे रामसिंह ने दवाणी में अपने रहने का स्थान किया.

१ वंशवृक्ष दवाणी परगने पामेरा के लखावत.

१ सामीदास (देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. १३ वाला ) ओ. प्रां. दवाणी.



## उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

दवाणी ठिकाना के सरदार का दर्जा ' राजश्री ' का था, और पाटवी सरदार को ताजीम के साथ पैर में सोना पहिनने की इज्जत थी, लेकिन बाद में इन सरदारों की तरफ से राज के साथ वफादारी में फर्क आनेसे ' राजश्री ' को पदवी व सोना पहिनने की इज्जत तोड दी गई. इस समय में दवाणी के पाटवी सरदार को ताजीम की इज्जत है, और ' ठाकरां राज ' की लिखावट होती है.

नं. १ सामीदास का विवाह सोलंकी वाघसिंह की पुत्री के साथ हुआ था. उससे रामसिंह व रायसिंह के जन्म हुए.

नं. २ रामसिंह के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, जब देवडा पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया, तब रामसिंह व उसका भाई रायसिंह दोनों पृथ्वीराज की सहायता में थे, उसमें रामसिंह सिरोही में काम आया, वैसे बडुआ की पुस्तक में लिखा है.

नं. ३ रायसिंह को मालगांव की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दर्ज है.

नं. ३ उदयसिंह दवाणी में काम आया, इसका विवाह वाला चांदा की पुत्री स्यामकुंवर के साथ हुआ था.

नं. ४ गोरधनसिंह के विषय में बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह परभक्त था, और इसको मधुसुदन भगवान का साक्षात्कार हुआ था, इसकी पुत्री देवकुंवर का विवाह पिन्डवारा के राणावत जयसिंहदेव के साथ किया गया था, जो वहां सती हुई.

नं. ५ रत्नसिंह के छः विवाह हुए थे, जिसमें राठौर उदयभाण की पुत्री जसकुंवरदे दवाणी में सती हुई.

नं. ६ वालमसिंह ने वि. सं. १८०६ में व नं. ७ प्रतापसिंह ने वि. सं. १८३७ में बडुआ को सीख दी.

नं. ८ पद्मसिंह ने वडीआल चारणों को धांधपुरा गांव की हद में पांच अरहट, खेत जोडीया सहित देनेका वि. सं. १८५४ के चैत्र सुद २ के ताम्रपत्र से पाया जाता है, जो वर्तमान समय में वहांपर मौजूद है, और उस स्थान को ' वसीया ' कहते हैं. इसने वि. सं. १८५४ में बडुआ को सीख दी.

नं. ९ जामतसिंह वि. सं. १८७८ में गुजर गया, इसकी ठकराणी धवेची सेजांकुंवर

राठौर शेरसिंह वाउतरावालेकी पुत्री सती हुई, जिसकी छत्री वि. सं. १८९३ में बंधाई गई, यह अपुत्रवान होनेसे इसका भाई नं. १ मेघराज पाट वैठा. मेघराज ने वि. सं. १८८८ में व उसके बाद नं. १० लालसिंह ने वि. सं. १९१७ में वडुआ को सीख दी.

नं. ११ भारतसिंह के बाद नं. १२ गुमानसिंह हुए, और वह अपुत्रवान होनेसे नं. १० कानसिंह के पुत्र अजीतसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया. नं. १२ गुमानसिंह ने वि. सं. १९४२ में वडुआ को सीख दी.

नं. १३ अजीतसिंह दवाणी के मौजूदा ठाकुर है, इसने अपनी जागीर के राजहक आठआनी के एवज में, नीवोडा गांव व रु. ६०१) नकद हरसाल राज में देनेका नं. ६७७ ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी. के ठहराव से पार्टीशन के कानून मुआफिक तय कर वि. सं. १९८० से आवगी जागीर कराली है.

२ मालगांव परगने पामेरा के लखावत.

२ वंशवृक्ष मालगांव पांती नं. १ के लखावतों का.

१ रायसिंह ( देखो दवाणी के वंशवृक्ष में नं. २ वाला. ) इसको दवाणी से विजुवा गांव मिला था, जो जागीर कम होनेसे इसने चारण को दे दीया, जिससे सिरोही रियासत से इसको मालगांव व सिरोही छीये गये. ओ. ग्रां. मालगांव पांती नं. १.

२ यजेसिंह (मालगांव पांती नं. १) ३ दलपतसिंह (मालगांव पांती नं. २) ४ भूपतसिंह (सिरोही बाद में थल)

३ साहेबखान कानसिंह  
अगरसिंह ४ मुकुन्ददास वणवीर

नारणसिंह ५ मनेसिंह राजसिंह  
६ लाखसिंह  
७ जोरसिंह  
८ अनूपसिंह

९ थानसिंह ९ धीरसिंह ९ कीरतसिंह  
१० भारतसिंह १० तगसिंह १० रत्नसिंह भारतसिंह १० दुर्जनसिंह  
गोद गोद गये  
११ अजेतसिंह ११ जगसिंह ११ रामसिंह ११ हमीरसिंह ११ मुलसिंह ११ रघसिंह  
(मौजूदा पाटवी)

नोट—नं. ११ अजेतसिंह ने ठहराव नं. ६८२ ता. १८ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक राजहक आठ आनी की रकम सालाना रु. ५८४) देनेका तय किया है.

सौज्या राजा साहब ठिकाना दवाणी. ( रियासत सिरोही ).



ठाकुरां राज श्री अजितसिंह साहब. ठिकाना दवाणी ( रियासत सिरोही ).


[ विभाग दूसरा पृष्ठ ३४ नं. १३ ]





३ वंशवृक्ष मालगांव पांती नं. २ के लखावत.


१ दलपतसिंह ( मालगांव पांती नं. २ देखो मालगांव पांती नं. १ में नं. २ वाला ) ओ. ग्रां. पांती नं. २ मालगांव.



नोट—नं. ९ धूलसिंह ने राजहक आठआनी की रकम रु. २९३) सालाना देना, नकद लगान के कानून मुआफिक, ठहराव नं. ६८३ ता. १८ मेई सन १९२३ ई. से तय किया है.

४ वंशवृक्ष मालगांव पांती नं. ३

१ महासिंह ( मालगांव पांती नं. ३ देखो पांती नं. २ में नं. ६ वाला. ) ओ. ग्रां. मालगांव पांती नं. ३



नोट—नं. ५ चतरसिंह की पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक रु. २०६) सालाना देनेका ठहराव नं. ६८४ ता. १८ मेई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

३ थल परगने पामेरा के लखावत.

यह जागीर, मालगांव के पांती नं. १ में नं. ३ रायसिंह के पुत्र भूपतसिंह को सिरोडी गांव जागीर में मिला था, जो: वि. सं. १९८० तक सिरोडी के नामसे चलती थी, जिसमें राजहक आठ आनी था, उसके एवज में ठहराव नंबर. ६६८ तारीख १ जुन सन १९२३ ईस्वी के जरीये, बाहमी रजामंदी से, सिरोडी का जागीर हक रियासत में सुपुर्द करके

थल गांव में राजका जो हीस्सा था, वह पार्टीशन के कानून मुआफिक वि.सं. १९८० से आवगा कर लेनेसे, अब सिरोडी के जागीरदार थल गांव के जागीरदार गिने गये है, इस गांव में दोपांती सिरोडी वालों की है. जिनका पुस्तनामा नीचे मुआफिक है.

१ वंशवृक्ष थल पांती नं. १ के लखावतों का.

१ भूपतिसिंह ( सिरोडी पांती नं. १ देखो मालगांव पांती नं. १ का नं. ३ वाला थल पांती नं. १ ) ओ. ग्रां. पांती नं. १ थल.

२ खानसिंह

३ सामंतसिंह

३ सुजाणसिंह (खालसा पांती सिरोडी)

३ भावसिंह (पांती नं. २ नीचे देखो)

४ रणछोड

४ दरगसिंह

४ हटसिंह

४ रघसिंह

आसु

४ जेतसिंह

४ लादसिंह

५ सवसिंह

लाडु

सदा

लालसिंह

५ रूपसिंह

गुमानसिंह

५ हरनाथ

जेसिंह

६ राजसिंह

मेवसिंह

६ जोरसिंह

नाथुसिंह

६ हरराम

७ उमसिंह

मालसिंह

रत्नसिंह

जीवसिंह

फतसिंह

७ कहानसिंह

८ पनेसिंह

८ अनाडसिंह

वनेसिंह

८ खेमसिंह

८ तेजसिंह

गोमसिंह

९ प्रेमसिंह

९ सालमसिंह

फता

भवान

मानसिंह

९ दोलतसिंह

९ भारतसिंह

शेरसिंह

राषतसिंह

९ जगसिंह

९ उमेदसिंह

धनसिंह

१० हमीरसिंह

१० महोवतसिंह

१० पहाडसिंह

१० जवसिंह

वेनसिंह

नाडसिंह

(थल पांती १)  
(मोजूदा पाटबी)

बलवंत

६ वंशवृक्ष थल पांती नं. २ के लखावत.

१ भावसिंह (सिरोडी पांती नं.२ देखो थल पांती नं.१ में नं. ३ वाला थल पांती नं. २) ओ. ग्रां. पांती नं. २ थल.

प्रागमल

२ जगतसिंह

सूरताण

३ अमरसिंह

४ शार्दूलसिंह

जगतसिंह

५ जेतसिंह

गलसिंह

६ गजेसिंह

शार्दूलसिंह

प्रनापसिंह

७ भीमसिंह

७ घाघसिंह

७ वक्तसिंह

अबलसिंह

वेनसिंह

८ भोपालसिंह

८ खुसालसिंह

८ जुठसिंह

८ रामसिंह

(थल पांती २)  
(मोजूदा पाटबी)


## प्रकरण ५ वाँ.

### लखावत देवडा ( पृथ्वीराजोत्त. )

१ निवज परगने मंडार के राजसाहेवां.

निवज के लखावत, राजकुल वंशवृक्ष में नं. १३ वाले सुजा के पुत्र पृथ्वीराज की ओलाद में है, इनके तरफ वि. सं. १६२८ में पामेरा परगने का पालडी गांव होना, पालडी के अरहट उपरट ( जो मालगांव की सरहद पर है ) पर के वि. सं. १६२८ के मीगसर शुद ७ की सरी ( शिलालेख ) में लिखे हुए लेख से पाया जाता है, उस लेख में पृथ्वीराजजी, मेरजी, मालजी, के नाम अंकित है, जो मेरजी, व मालजी पृथ्वीराज के भाई होते थे, यह दोनों सिरोही में इनके पिता सुजाजी के साथ, देवडा वजेसिंह ने चूक किया उसमें मारे गये. सिरोही की गद्दी पर महाराव सूरताणसिंह के आने बाद, पृथ्वीराज को निवज आदि गांवों की बडी जागीर मिली है. इनका वंशवृक्ष निचे मुआफिक है.

१ पृथ्वीराज (देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. १२ वाला सुजा का पुत्र नं. १३ वाला ) पालडी बाद निवज.



नं. १ पृथ्वीराज यह महाराव सूरताणसिंह के काका सुजा का पुत्र था, इसका बहुतसा हाल विभाग पहिले में नं. १५ महाराव सूरताणसिंह व नं. १६ महाराव रायसिंह (दूसरे) की ख्यात में आचूका है. महाराव सूरताणसिंह के समय में इसने जगह २ महाराव की सहायता में रहकर बड़ी नामवरी पाई, और उनसे बड़ी जागीर हासिल की, वि. सं. १६५८ में इसको निंवज मिला. कीतनेक समय तक यह महाराव सूरताणसिंह के मुसाहिव पद पर था. इसके समय के शिलालेख वि. सं. १६२८ के मागशिर सुद ७ का पालडी गांव में, व वि. सं. १६६३ आषाढ वदी ७ का शिलालेख गांव रोला (जो गांव सीलदर के पास है) में मिले है.

महाराव रायसिंह व उसके भाई सूरसिंह दरमियान विरोध पैदा हुआ, तब इसने महाराव का पक्ष ग्रहण किया था, परन्तु बाद में राज्य प्राप्त करने की अभीलाषा में, गादीपति पर घाव करने से सिरोही राज्य की हद छोडना पडा. इसका देहान्त 'चेखला' के पहाड में कुंभावत राजसिंह व जीवा देवराजोत के हाथ से वि. सं. १६८१ में होना सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, परन्तु यह संवत् विश्वासपात्र नहीं है, सि. रा. ई. की पुस्तक से व बडुए की पुस्तक से यह पाया जाता है कि, महाराव रायसिंह को चूक वि. सं. १६७७ में हुआ था, उस वक्त महाराव अखेराज दो साल की उम्र के थे, इस हिसाबसे यह घटना महाराव अखेराज छः वर्ष की उम्र के थे, तब हुई वैसा शूमार होता है, लेकिन कुंभावत राजसिंह व जीवा को इस चाकरी की एवज में जो जागीर दी गई, उसका संवत वि. सं. १६९९ का है. पृथ्वीराज की छत्री 'चेखला' में इस वक्त मौजुद है. इसने अपने नामसे पीथापुरा गांव बसाया था. इसकी एक राणी चापावत आसकरण अमरसिंहोत आसोप वाले की पुत्री राजांदे ( जिसके पुत्र चांदा, जयसिंह, नारखान, बाघसिंह, ) दूसरी माणसा के चावडा अगरसिंह बेरीसाल की पुत्री जसांदे. तीसरी लोहीयाणा का दीओल धारसिंह मानसिंह की पुत्री हीरांदे, ( जिसका पुत्र करणसिंह. ) इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

“ तादा फतउ नहि माठां ती नही, सवदी उलट आवे वसव; प्रसण रूधिर खीजीया पूजे पिथल तहां रीझे पहुव. ”

“ सनाहीये भडे मूजावत रमचे सर रेडे रकत, नावे दाय साधकुल नारी भावे तो सरखा भगत. ”

“ रणमलहरा सदा रह हाली पाधर सु वांकी प्रथम; धरा दीये वर त्यां खागां धर जुद्ध जुद्ध चरचे तुंज जम. ”

“ लके सार जतां सर रेडे, खलां चढावे मार खल, मरदां तो सरखां पृथीमल इलची वरचे नही इल. ”

इस कवित का आशय यह है कि, है! पृथ्वीराज, भूमी तेरे जैसे बहादुर और वांकी चाल वाले मर्द को पसंद करती है, जो भूमी को हमेशां रूधीर पिलाकर तृप्त कर सक्ता है.

नं. २ चांदा की जिन्दगी का बहुत काल बगावत में व्यतीत हुआ था, यह अपने

पिता के साथ सिरोही इलाके से निकाला गया, परन्तु जागीर छूट जानेसे लूट, खोस, शुरु की, और मुसाफरों से दाण लेना शुरु किया, कीतनेक अरसे तक इसने 'आरासुर' के पहाड में ढोल नामक मगरा के पास गुडा ( रहेठाण की जगह ) बांधकर निवास कीया, जो जगह ' चांदाजी का गडा ' के नामसे मशहूर है, उस जगह में रहकर वह बगावत करता था, इसके पिता पृथ्वीराज के मारे जानेसे यह नाउस्मेद न होते, सिरोही राज्य के गांवों की बरवादी करना चलू रक्खा, बल्कि इसको मारने या पकडने के वास्ते जोजो बंदोबस्त रियासत से हुए, उसमें कामयाबी न होने दी.

सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि चांदा ने वि. सं. १७११ में निबज पर अपना कब्जा किया था, और मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि चांदा निबज में था, उस अरसे में यानी वि. सं. १७१३ में नं. १७ महाराव अखेराज ने लखावत राघोदास जोगावत, जो लखावत गोविंददास के भाई किशनसिंह का पोता होता था, उसकी सरदारी के नीचे इसके उपर फौज भेजी मगर सफलता प्राप्त न हुई.

इसके विषय में बडुए की पुस्तक में लिखा है कि,

“ घर घर वाडी चीखली, घर घर नीरनिवांण, वारो चंद पृथीराजरो, सरावे सूरताण, ”

इसी पुस्तक में बगावत व बहादुरी के विषय में, लिखा है कि—

“ चंदन जंमे शवपुरी ए आवुपर जाय, सीता बेसण हर तज्यो फूली सो वनराय. ”

“ चंद मयंदा चूरणो दिये गरंदा गांव, पादर हंदो पातसाह अरबूद हंदो राव. ”

इस दूसरा दोहा में और रीत से दूसरे कविने कहा है कि—

“ संद मेहैदां सुरमो, करे गयंदां घाव; पादर हंदो पासता, आदे आवु राव. ”

चांदा ने रास्ते रोककर दाण लेने के विषय में व शाही खजाना लूटने के विषय में, कवि आढा दुरशा ने जो कविता लिखी है, उससे उसका वोरत्व ओर बगावत का सम्पूर्ण हाल मालूम होता है, जो कवित यह है कि—

“ आलम धर तणी जगत उग्राहे, अरवद धरा भरे दंड आण. ”

“ राह सदा लग ग्रहे चंद रव, चांद राह ग्रहीयो चहुआण. ”

“ सतसर बगल करे मुह सारी, घाट रोकिया ताप घणे. ”

“ ससी हर, महण, घणे सूरतन, तसो न ससी हर महण तणे. ”

“ रह वह पिथल तणे रूधिया, शाह तणो धन जहेर सदे. ”

“ अवली भांण गहण उग्राहण, वांको चंद संसार वदे. ”

“ हीन्दु तुरक जोडीये हाथे, मने पराक्रम खुद मसंध. ”

“ आठे पहोर राह उग्राहे, चांद प्रयास तिहारो चंद. ”

इस कवित का भावार्थ यह है कि, सब जगह का दाण, चांदा लेवे, ओर अर्बुद

भूमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकीकत में चंद्र को राहु का ग्रहण लगता है, परन्तु हे ! चांदा चौहान तेने राह को ग्राहा, कवि का यह आशय है कि चांदा ने मारग रोका था, जिसको राहु का अलंकार देकर कवि उसकी प्रशंसा करता है, कवि इसकी टेढाई की तारीफ में यह भी कहता है कि, बादशाह का धन जो विष समान गिना जाता है यानी उस धन को छीन कर लेने वाला, कभी भी चैन से नहीं रह सक्ता, वैसा विष तूल्य द्रव्य भी तूने हजम कर लिया. सबब यह है कि वक्रचंद्र को राहु ग्रास नहीं कर सक्ता है, उस मुआफिक टेढाई में उंचा दर्जावाला तू वांका होनेसे तेरेको संसार मान रहा है.

इसके विषय में फिर किसी कविने सोरठा कहा है कि.

“ चांदा सो रंग वार, अरला वगतर उवडी; अरजण रो अवतार, दुसासण तुं देवडा. ”

“ साकर थारोचंद, तुं ठाकर चांदा तणो, सदुसुदन दुःख भंज, वरजे वस देरावुअत. ”

चांदा का देहान्त कीस साल में हुआ, वह संवत् मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता नेणसी की ख्यात में निवज की हकीकत, चांदा के पुत्र अमरसिंह का प्रधान बाघेला रामसिंह को अमरसिंह ने जालोर भेजकर वि. सं. १७१७ के भादरवा में लीखाने का उल्लेख है, जिससे पाया जाता है कि उसका देहान्त वि. सं. १७१७ के पहिले हो चुका था.

चांदाजी का विवाह राठौर कल्याणसिंह की पुत्री रूपांदा के साथ हुआ था, जिससे पुत्र कसाजी व अरसिंह और पुत्री रत्नकुंवर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के राठौर रत्नसिंह मेहदासोत के साथ हुई थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ ( मालवा ) की रियासत है.

निवज पृथ्वीराज को मिला था चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निवज, केसुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. ११ महाराव अखेराज (पहिले) ने वि. सं. १५६२ में लिये थे, जो लखावत गोविंददास देवीसिंगोत सिरोही में काम आया तब उसका पुत्र सांगा को, निवज, वडवज, आदि गांव दिये गये थे, उसमें से निवज वि. सं. १६५८ में महाराव सूरताणसिंह ने चांदा को दिया, ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा हुआ है, और उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं. १६५८ में निवज में बडुआ को सीख देनेका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता की हयाती में ही अलग रहा होगा.

नं. २ नारखान वगावत में गंगवेथान के गुडा में काम आया.

नं. ३ बाघसिंह को कोरटा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज ने आंवलारी की जागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं ७ पर दिया गया है.

नं. ३ जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद उनके पुत्र दूदा को पोसीदरा व अजीतसिंह को लूणोल की जागिरे महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशवृक्ष इसी प्रकरण में नं. ८-९ व १० पर दर्ज है.

नं. ३ अमरसिंह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था. वि. सं. १७१७ के भाद्रवा महिने में इसने अपना प्रधान वाघेला रामसिंह को मृतानेणसी के पास भेज कर यह नुंद कराई है कि, सिरोही इलाका में से अमरसिंह आध ( दाण में ) लेता है, और विभोगा ( जमीन का सहसूल ) के गांव सौ सवासौ है, इसके समर्थन में ठिकाने निंबज से जो गीत कवित मिले है, उसमें से एक गीत में लिखा है कि—

- “ भञ्जे जालीआं खाग ते वरद खाटण भला, जोरावर लागुआं सीस जमरो. ”  
 “ अरध आबु तणो भोगवे रा’ अखो, अरध आबु तणौ लेय अमरो. ”  
 “ अखा आरंभ म कर आवे अमर, एक ही गाम नही × अधूरो. ”  
 “ पिता थारा तणौ पाट जाणे पृथी, पिता मारा तणौ आध पुरो. ”  
 “ सीघस्त अम्र कहे सुणौ चन्दसेन सुत, कृपा कर इसवरे मे’र कीधी. ”  
 “ जोय नतां खाग ने त्याग घर जे वडां, देवरां दने धर वांट दीधी. ”  
 “ सोदहर सुजहर वांट दीधी सवर, दजर पाईयो खळां फुल दारू. ”  
 “ माहा रूद्र कीया सोमटे केम मानवी, सवपरी भाग दोए भवां सारू. ”

दूसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर बड़ी भारी फौज भेजी थी, जोस फौज को कवि ने बरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार बताकर कहा है कि.

- “ करण वाद अखीयात जो ए घातसर केवीआं, सारझर मंडे सु रत सवायो. ”  
 “ सु जहर कहर परभात होतां समा, अमर अत पात वरसाद आयो. ”  
 “ गाजीआ अनड भड संहु एम गमा गम, ताढ सर काएरां नरां तारां. ”  
 “ देवडे मै हमी मेह मंडीयो दरक, धडां उपर पडे फुल धारां. ”  
 “ सोर घणघोर मल खवण दामण सजल, जोरवर वदल मल मेह जुठो. ”  
 “ अलासर पतासी हर धार धरीयां असर, वार अणपार झड सार बुठो. ”  
 “ भेल गढ चंद ओत हैक दल भंजीआ, हैक गावा हलापुर हाले. ”  
 “ ईद्र जल बोल खगधार बुठो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाले. ”  
 “ आहोडे आहोडे सगण राओ आबुआ, एह असतार जग चीआर उगी. ”  
 “ पल सजल पालरां वाहला पुरीआ, पलसरां दादरां आस पुगी. ”

पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तंग करने से, यह मारवाड में चला गया. मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव ने देवडा अमरसिंह को मनाकर सिरोही रियासत में आबाद किया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुर ४ मांकरोडा, ५ बापला, ६ पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथला, ११ कलधरी, १२ मुसावल उर्फ मावल, १३ धानेरा, १४ आवल व १५ देलवाडा, यह गांवों का पट्टा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि “ विभोगो लैतो सु नहीं ले दाण लैतो



भूमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकीकत में चंद्र को राहु का ग्रहण लगता है, परन्तु हे ! चांदा चौहान तेने राह को ग्राहा, कवि का यह आशय है कि चांदा ने सारग रोका था, जिसको राहु का अलंकार देकर कवि उसकी प्रशंसा करता है, कवि इसकी टेढाई की तारीफ में यह भी कहता है कि, बादशाह का धन जो विष समान गिना जाता है यानी उस धन को छीन कर लेने वाला, कभी भी चैन से नहीं रह सकता, वैसा विष तूल्य द्रव्य भी तूने हजम कर लिया. सबब यह है कि वक्रचंद्र को राहु ग्रास नहीं कर सकता है, उस मुआफिक टेढाई में उंचा दर्जावाला तू वांका होनेसे तेरेको संसार मान रहा है.

इसके विषय में फिर किसी कविने सोरठा कहा है कि.

“ चांदा सो रंग वार, अरला वगतर उवडी; अरजण रो अवतार, दुसासण तुं देवडा. ”

“ साकर थारोचंद, तुं ठाकर चांदा तणो, महुसुदन दुःख भंज, वरजे वस देरावुअत. ”

चांदा का देहान्त कीस साल में हुआ, वह संबत् मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता नेणसी की ख्यात में निबज की हकीकत, चांदा के पुत्र अमरसिंह का प्रधान वाघेला रामसिंह को अमरसिंह ने जालोर भेजकर वि. सं. १७१७ के भादरवा में लीखाने का उल्लेख है, जिससे पाया जाता है कि उसका देहान्त वि. सं. १७१७ के पहिले हो चुका था.

चांदाजी का विवाह राठौर कल्याणसिंह की पुत्री रूपांदे के साथ हुआ था, जिससे पुत्र कसाजी व अरसिंह और पुत्री रत्नकुंवर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के राठौर रत्नसिंह मेहदासोत के साथ हुई थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ ( सालवा ) की रियासत है.

निबज पृथ्वीराज को मिला या चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निबज, केसुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. ११ महाराव अखेराज (पहिले) ने वि. सं. १५६२ में लिये थे, जो लखावत गोविंददास देवीसिंगोत सिरोही में काम आया तब उसका पुत्र सांगा को, निबज, वडवज, आदि गांव दिये गये थे, उसमें से निबज वि. सं. १६५८ में महाराव सूरताणसिंह ने चांदा को दिया, ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा हुआ है, और उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं. १६५८ में निबज में बडुआ को सीख देनेका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता की हयाती में ही अलग रहा होगा.

नं. ३ नारखान बगावत में गंगवेथान के गुडा में काम आया.

नं. ३ वाघसिंह को कोरटा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज ने आंवलारी की जागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इसि प्रकरण में नं ७ पर दिया गया है.

नं. २<sup>३</sup> जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद उनके पुत्र दूदा को पोसीदरा व अजीतसिंह को लूणोल की जागिरे महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशवृक्ष इसी प्रकरण में नं. ८-९ व १० पर दर्ज है.

नं. ३ अमरसिंह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था. वि. सं. १७१७ के भाद्रवा महिने में इसने अपना प्रधान वाघेला रामसिंह को मूतानेणसी के पास भेज कर यह नुंद कराई है कि, सिरोही इलाका में से अमरसिंह आध ( दाण में ) लेता है, और विभोगा ( जमीन का सहसूल ) के गांव सौ सवासौ है, इसके समर्थन में ठिकाने निंबज से जो गीत कवित मिले है, उसमें से एक गीत में लिखा है कि—

- “ भझे जालीआं खाग ते वरद खाटण भला, जोरावर लागुआं सीस जमरो. ”  
 “ अरध आवु तणो भोगवे रा’ अखो, अरध आवु तणौ लेय अमरो. ’  
 “ अखा आरंभ म कर आवे अमर, एक ही गाम नही × अधूरो. ”  
 “ पिता थारा तणौ पाट जाणे पृथी, पिता मारा तणौ आध पुरी. ”  
 “ सीघस्त अम कहे सुणौ चन्दसेन सुत, कृपा कर इसवरे मे’र कीधी. ”  
 “ जोय नतां खाग ने त्याग घर जे वडां, देवरां दने धर वांट दीधी. ”  
 “ सोढहर सुजहर वांट दीधी सवर, दजर पाईयो खळां फुल दारू. ”  
 “ माहा रूद्र कीया सोमटे केम मानवी, सवपरी भाग दोए भवां सारू. ”

दूसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर बड़ी भारी फौज भेजी थी, जोस फौज को कवि ने बरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार बताकर कहा है कि.

- “ करण वाद अखीयात जो ए घातसर केवीआं, सारझर मंडे सु रत सवायो. ”  
 “ सु जहर कहर परभात होतां समा, अमर अत पात वरसाद आयो. ”  
 “ गाजीआ अनड भड सहु एम गमा गम, ताढ सर काएरां नरां तारां. ”  
 “ देवडे मै हमी मेह मंडीयो दरक, धडां उपर पडे फुल धारां. ”  
 “ सोर घणघोर मल खवण दामण सजल, जोरवर वदल मल मेह जुठो. ”  
 “ अलासर पतासी हर धार धरीयां असर, वार अणपार झड सार वुठो. ”  
 “ भेल गढ चंद ओत हैक दल भंजीआ, हैक गावा हलापुर हाले. ”  
 “ ईद्र जल बोल खगधार वुठो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाले. ”  
 “ आहोडे आहोडे सगण राओ आवुआ, एह असतार जग चीआर उगी. ”  
 “ पल सजल पालरां वाहला पुरीआ, पलसरां दादरां आस पुगी. ”

पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तंग करने से, यह मारवाड में चला गया. मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव ने देवडा अमरसिंह को मनाकर सिरोही रियासत में आबाद किया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुर ४ मांकरोडा, ५ बापला, ६ पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथला, ११ कलधरी, १२ मुसावल उर्फ मावल, १३ धानेरा, १४ आवल व १५ देलवाडा, यह गांवों का पट्टा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि “ विभोगो लैतो सु नहीं ले दाण लैतो

सुं लेसी ” पाया जाता है कि इसका जो दावा था, उसमें से दांग का हक कायम रखकर उपर्युक्त गावों में जमीन महसूल का हक देने का तय हुआ.

इसके विषय में एक कवित 'ऊड' के कवि आढा महेशदास का रचा हुआ मिला है, उसमें मेवाड की फौज के साथ इसने युद्ध किया था वैसा पाया जाता है, ( जो कि इस को मेवाड के साथ युद्ध करने का प्रसंग उपस्थित हुआ हो, ऐसा दूसरी किसी ख्यात से उपलब्ध नहीं होता है. ) वह यह है कि—

“ अर, तरुवर लंघ राह, धसते उण भण हणीया दाणे भमर. ”

“ नमता गया वकारे नासे, आया मद वहतो अमर. ”

“ उपाडीये चांचरे उरडे, मेवाडां सामां मकत. ”

“ देख पटे छलतो चांदावत, गां डागा खाये गसत. ”

“ सबलो गज सुणीयो सिरोही, पिथल हरो गेजु पहाड. ”

“ जुडे दसण खागां नह जुडीया, मुळीया अण लडीया मेवाड. ”

नं. ४ शक्तसिंह के समय को वि. सं. १७४६ का शिलालेख पालडी गांव के अरठ लाधावाला पर मिला है, जिसमें इसका व इनके कुंवर अनोपसिंह का नाम अंकित है. शक्तसिंह का महाराव वेरीसाल के साथ अच्छा बरताव रहने से, महाराव ने इसको सोरडा व अनादरा यह दोनों गांव वि. सं. १७४६ में इनायत किये. इनकी राणी ईंडर के राठौर गोपीनाथ की पुत्री लादादे, व दियोलजी कानादे, और साणंद के बाघेला हरोसिंह की पुत्री रायादे, यह तीनों इसके पीछे निबज में सती हुई. शक्तसिंह ने वि. सं. १७९९ में बडुआ को सोख दी थी.

नं. ४/१ जसवंतसिंह को मावल, गीरवर आदि गांवों का पट्टा मिलाथा, जो कि वर्तमान समय में वह पट्टा नाओलादी के कारण खालसा राज है, परन्तु उसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ४ पर दिया गया है.

नं. ५ अनोपसिंह के विषय में ठिकाने निबज से जो कवित मिले है, उसमें से एक कवित से मालूम होता है कि, इसने 'खीमत' ( जो पहिले सिरोही इलाके में था, वर्तमान समय में पालणपुर इलाके में है ) के कोलीयों को सजा देकर खीमत गांव बरवाद किया था, जिसके वास्ते कवि केहता है कि.

“ अकल हीण होए रावतां को इसडो अनो बरद पत ज्यां जगतेस बेळी. ”

“ खीमतावाद वजार मडणतां घणां, जटे खीमतावाद में हरण खेळी. ”

“ देवडा सोई सारे घणां देवडा, भमाया नरपती जांण भुवा. ”

“ ल्यांता वांणीया खरंदां लाखरी, आख सर आखरी करे उवा. ”

“ भलो जगतेस ज्यांने सकव सारो भणे, वेरीयां लीआं सर खाग वाए. ”

“ झुलंता दुकाने साहां रा झुलरा, तटे मृगरा झुलरा झलीमाए. ”

“ जोर खीमत तणी खणे काडी जडां, काडीया कुट दो वाट कोली. ”

“ दांम कोडी धज रंमनता दीकरा, तटे ते थ सारंग री रमे टोली. ”

पाया जाता है कि खीमत के कोलीयों ने इनकी रइयत को कुछ तकलिफ दी थी, उसका बदला इसने लीआ होगा. इसने वि. सं. १८०७ में बडुआ को सीख दी थी. इसकी पुत्री रूपकुंवर जोधपुर के राजा वक्तसिंह के साथ बिहाई थी, जो वहां सती हुई.

नं. ६ जगतसिंह के विषय में जो कवित ठिकाने निबज से मिले है, उनसे पाया जाता है कि यह बहादुर सरदार था, और राठौरों के साथ कई दफे यह झगडे लड चूका था, निम्न कवित से पाया जाता है कि जोधपुर के अग्रजीत राठौर इससे कुछ पैसे लेना चाहते थे, मगर इसने नहीं दिये, और जवाब दिया कि—

“ तुअ मांगे लख दांम, दांम नहीं कोडी देऊ, तु मांगे मारग, मारग लूटे हुं लेऊ. ”

“ हुं पूंजु अचलेसर पोहो तु पूंजे पावु, जो ए थारे जोधांण ए तो गढ मारे आवु. ”

“ × × × × जगतेस कहे अग्रजीत ने तु करे सो हुं न करूं. ”

इसके साथ राठौरों ने युद्ध किया. उस विषय में कवि दोहे में कहता है कि—

“ पाए लगा के देस पत मेल असगा मांन, तो अगे भगा तरक धन जगा चुआण. ”

“ जुध करवा वांदी जगे सगता ज्यु समसेर, गा जोधा पाछा घरे फोजां लसकर फेर. ”

“ गंगव भाग गोदेवसरी साचो तीरथ सांम, जे अरवद भेटयां जगा, धजवड मोटो घाम. ”

सोरठा.

“ जगा भरीजे जात्र पोषर ज्यु थारे पगे, आवी कर कर आस आवी सो पावी अवस. ”

इसके समय में असमालबेग और वीरपुरा ( कोली ) ने निबज पर चढाई की थी, जिनको जगतसिंह ने हरा कर भगादिये, उस विषय में कवि केहता है कि—

“ ताप खमीयो नांही कणी तरफ रो, मलक खाली कीओ देस मारे. ”

“ जगारो धको हुआो अजरो जोर वर, हीणगो नीवजी तरक हारे. ”

“ पमंग पा राव असड ग्या पयादा, पादरे नाठ गा नीठ पाजी. ”

“ अठारां गरारी, अभीनमाओ पाओत थो, ब्रध पत राखीई भली वाजी. ”

“ वेग असमाल ने भागोओ वीरवर, चंद हर नंदगर तणी साखी. ”

“ देसरी खाग वल लहरंतां देवडा, राहो नीवज तणे टेक राखी. ”

जबकि जोधपुर के राजा भीमसिंह ने जालोर के राठौर मानसिंह के ऊपर फौज भेजी उसवक्त जगतसिंह, मानसिंह की सहायता में जालोर गया था, और जोधपुर की फौज पराजय होकर वापस गई तब मानसिंह ने इसको बडे सन्मान के साथ घोडे पोशाक आदि देकर विदाय किया, उस विषय में कवि कहता है कि.

“ वाजा वाजीआ मंडोवर वाला जध मडांणा जुआ जुआ, आयो भीम मांनसी ऊपर हरवल असीं हजार हुआ. ”

“ आये दले मांनसी आवे ताए नेरा घरे रणतुर, सांभल वात जीतमल संगवी, जगतो राव तेडाव जरूर. ”

- “ माने जीतो साथ मेलीआ जीतो कहे सांभल जगा, सगा सगारे होई सदाई संकट भोगी जको सगा. ”  
 “ ऊडे सोर सोनगड ऊपर गोले अंबर गाजे, उठ जगा जालोर उगारण लसीआं आवु लाजे ”  
 “ एहरा वचन सुणे अजराएल लडवा कज असमान लगे, नांदवणो घरते नीसांणे जालोरे आईयो जगे. ”  
 “ सनमख भ्या \*जमाई ने ससरो, सत्रु तोने जीत नअ सकी, आप वराजो कला ऊपरी थोफ घरांमे फोज धखे. ”  
 “ आवु धणी वोळीओ एरो, दल लाखां उडाए दीआं, जालोरी जोजे थारे घरलार फेर गोडांण लीआं. ”  
 “ राहो कहै सांभल महाराजा झगडो करां दीयां खग झीक, गांजे कुण जालोर तणे घढ मोहो उवां आखे मशरीक. ”  
 “ अमराहरो दलां सु अडीओ हतु जके न मेली होर, काएम मान घरे थर कीधा जोए गोडांण अने जालोर. ”  
 “ माने सीख दीनी घर सारू एजन कीधा एता, मोंणक तरंग कडा ने मोती सोए पालकी से हैता. ”  
 “ घर घर दीठ उछली गुडी कीरत वोट कांहांणी, राजा घरे जालंधर राखो आईयो घरे ओपांणी. ”

जोधपुर के राजा के साथ इनका सगाई सम्बन्ध होजाने से इसने वि. सं. १८६१ में जोधपुर की फौज ने सिरोही फतह किया तब उनको सहायता की थी, जो बात महाराजा जोधपुर के +परवाना मित्ती पोष वदि ३ संबत् १८६१ से मालूम होती है. वि. सं. १८३२ में इसने बडुआ को सीख दी थी.

नं. ६ अखेसिंह को सेलवाडा की जागीर दी गई, जिसको वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ३ पर दिया गया है.

नं. ७ रायसिंह के विषय में लि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि यह अपने को खुद सुखतारसमझ कर सिरोही राज्य का हुकम नहीं मानता था, जिससे इसको दबाने के लिये, अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर राज की फौज ने निंबज पर चढाई की, और युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह ने अपने पुत्र प्रेमसिंह सहित निंबज छोडकर पहाड की पनाह ली, बाद रामसीण के ठाकुर काबा जगतसिंह द्वारा वि. सं. १८८१ में समाधान होनेसे वह सिरोही हाजिर हुए, जहांपर महाराव ने इनकी अच्छी खातिर करके सिरोपाव दिया, और अब्बल दर्जे की दाहिनी बैठक की इज्जत दी.

### निंबज ठिकाने से मिले हुए कवित्तों में इसकी दातारी और महमानगिरी की

\* उपरोक्त कवित्त में जालोर के राठौर मानसिंह व जगतसिंह के दरमियान सुसरा, जमाई का सगण होना अंकित हुआ है, लेकिन सिरोही के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि जगतसिंह का पुत्र रायसिंह की पुत्री सूरजकुंवर का विवाह राठौर राजा मानसिंह के साथ हुआ था.

+ उक्त परवाना में देवडा राव जगतसिंह अनोपसींघेत का नाम लिखा है, और जोधपुर के महाराजा साहब ने आडी ओलमें अपनी कलम से लिखा है कि “ तीण में थारी तरफरी हमगीरी मालम हुई सो मारी मरजी खातर खुसी राखजो ” यह परवाना सिरोही फतह होने की शाबाशी के विषय में लिखा गया है.

÷ सिरोही राज्य में ठिकाने पाडीव व निंबज इन दोनों सरदारों की अब्बल दर्जे की एक ही बैठक है, जिससे दरबारी जलूस में यह दोनों ठिकानों के सरदार एकही वक्त में हाजिर होकर बैठक नहीं लेते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ठिकानों के सरदार दशहरा आदि तहेवार के आम दरबार में एक साथ बैठक लेते हैं.

कवियों ने बहुत तारिफ की है. और जबकि अंग्रेजी फौज निवज पर गई, तब जेतावाडा का बिकानेरीया राठौर जुजा बडी वीरता से युद्ध करके काम आया, जिसके विषय में कवि कहता है कि—

- “ जुजा उठरे गढ होए झगडो नरां सूरां ने अज, आज नीवज तणे उपर आवीओ अंगरेज. ”  
 “ बोल मोटा मौर वक्तो नटे थुंतो नोज, कला करवा उठ कमधज फले आई फोज. ”  
 “ गाजीओ असमान गोले वगट कल ली वाद, जेतपर रो पटो जुजा उजलो कर आज. ”  
 “ तलसीओ गीणाग तोली मानहर मन मोट, राढ वड से वगर रटकां केम भलसी कोट. ”  
 “ पालवा ओर थाट पोले घालवा ओर खाव, वंकरो राए सींघ वालो उठीओ उवराव. ”  
 “ मगल उभा पोल मखी लोप न सकी लीअ, आव पोले भीम अडीओ सदा वालो सिंह. ”  
 “ लर थरे सो पडी न लागु लगी यगलां लोह, वसी फोजां लीए वीको वरछीआं रा बोअ. ”  
 “ पंड लागा घात्र पुरा चीआर वीने चीआर, तोई न पडे खडे तेगो उथडी असवार. ”  
 “ मगल जादा कही मखसे कनीसुवा कंथ, हाथीआंरे चढे होदे भालजे भारथ. ”  
 “ भलो लडीओ भ्रज भलतां देई सुखा दान, पांचमे दन खवर पुगी गढ दली गजरात. ”  
 “ भालीआ सीसोद भाटी घणा झाला गोड, लोक साहेब केण लागो रंगहो राठौड. ”  
 “ लुबीओ अथ लाख लशकर हुई हलका होल, पांच पाडे धरण पडीयो पछे भलीई पोल. ”  
 “ वरे अपसर सरग पुगो मेल जगरो मोह, सांम रे गल सीस दीनो सार वीकां सोह. ”

रायसिंह के विषयमें किसी कविने कहा है कि—

- “ वंके अण खले नीसांण वाजी लडे पर धर लीध, भीमरां हाथीआं भेला दोखीआं कर दीध. ”  
 “ कडी खलकी वगतरांकी लीआं फोजां लार, हीडले दोए चीआर हाथी वेहे असडी वार. ”  
 “ भला भलास कोई भाखी दलां टलां दीध, जध करी सो पडी जला लडी कला लीध. ”  
 “ त्यां उपर खाग झाले त्यां न मले तुग, आप स्यांमी वीआ अमरा कमर भीडे कुण. ”  
 “ जगा वाला अमल जमीओ मोजसीकर मोज, वीरीयां सरधरी वाजां फरी थारी फोज. ”  
 “ पोकारी नकीव पाछी नीत्रसी नीसांण, तेजीआं का तंग तांणे उड जांए अरी आंण. ”  
 “ भाग अरवद तणे भुपत खागरे बल खाए, चले चीठी वीआ चांदा मलक आदा माए. ”  
 “ साख रा उवराव साथी पणां भारथ पास, रंग हो राएसींग राजा नंद गर के नाथ. ”

इसकी पुत्री सुरजकुंवर का विवाह जोधपुर के राजा मानसिंह के साथ हुआ था. वि. सं. १८७१ में इसने बडुआ को सीख दी थी. सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८९७ में गीरवर का ठाकुर नाओलाद गुजरने पर इसने बिना राज्य की संजूरी के अपने बेटे नं. ३ उदयसिंह को वहां गोद रख कर गीरवर का पट्टा अपने आधीन कर लिया, जिसपर महाराव शिवसिंह ने गीरवर पर फौज भेज कर उदयसिंह को कैद किया, जिससे रायसिंह लडाई की तय्यारी करने लगा, दरमियान उदयसिंह कैद की हालत में मर गया, और पोलिटिकल एजेंट ने इसको हिदायत कर दी कि, वो गीरवर के पट्टे का दावा छोड दे, और राज्य को अधिकार है कि चाहे तो खालसा कर ले, जिससे इसने झगडा नहीं बढ़ाते आपस में समाधान कर लिया. इस विषय में सिरोही राज्य के दफ्तर से पाया जाता है कि, गीरवर के ठाकुर रत्नसिंह पहिले नाओलाद हो चूका था, और बाद में मावल का ठाकुर जालमसिंह भी नाओलाद हुआ, जिससे जालमसिंह की ठकराणी के, इसके पुत्र उदयसिंह को बगैर संजूरी राज्य गोद दिया था, जो सिरोही

रियासत के रिवाज के खिलाफ होनेसे, गोद खारिज क़ीया जाकर दोनों ठिकानों की जागीरें खालसा कर दी गईं.

नं. ८ प्रेमसिंह के विषय में सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि, इसका भाई उदयसिंह जो कैद की हालत में गुजर गया था, उसके पुत्र अनाडसिंह व नवलसिंह ने प्रेमसिंह की सहायता से बगावत करना शुरू किया, जिससे महाराज कुमार गुमानसिंह ( महाराव शिवसिंह के युवराज ) ने राज्य की व सरकार अंग्रेजी की फौज के साथ निंबज पर चढाई की, कुछ देर तक लडने बाद ठाकुर भाग कर पहाडों में चला गया, परन्तु थोडे ही दिन बाद कसूर के लिये मुआफी मांगने से, इसको अपने ठिकाने (निंबज) में जानेकी आज्ञा मिली. इस विषय में यह बात मशहूर है कि राज्य की फौज ने निंबज पर हमला किया, तब ठाकुर प्रेमसिंह ने बडी वीरता के साथ अपना बचाव करने से, राज्य की फौज को पहिले दफा के हमले में अपनी तोपें छोड कर वापस लौटना पडा था, उसका कारण यह भी कहा जाता है कि राज्य की फौज में, जो देवडे सरदार शरीक थे, उन्होंने जानबुझ कर अपने भाई ( प्रेमसिंह ) पर आक्रमण करने में चश्म पोसी की थी, और जब कि उनको सख्त हिदायत की गई तब उन्होंने दूसरे हमले में निंबज को फतह किया. यह भी कहा जाता है कि दूसरा हमला करते वक्त देवडे सरदारों ने ठाकुर प्रेमसिंह को पोशीदा तौर से इशारा कर दिया था कि वो निंबज छोड कर पहाडों में चला जाए.

इसकी पुत्री सरसकुंवर का विवाह एहमदनगर ( ईंडर ) के महाराजा करणसिंह के साथ हुआ था, और वह वि. स. १८८८ में एहमदनगर में सती हुई, उक्त समय में सती होने का रिवाज अंग्रेज सरकारने बंध कर दिया था, और महाराजा करणसिंह की कोई राणी सती होने न पावे, उसके वास्ते अंग्रेज सरकार ने प्रथम से बंदोबस्त कर रखा था, परन्तु सरसकुंवर की सती होने की तीव्र अभिलाषा होनेसे उसने ' मुडेटी ' के चौहान ठाकुर सूरजमल को कहाकि मुझे सती होनाही है, यदि मेरे पिता और भाई जो इस कार्य में सहाय कर सके है वे यहां से दूर है, और आप चौहान होनेसे इस वक्त उनकी जगह पर हो, सो मुझे सती होनेमें कोई हरकत न होवे वैसा बंदोबस्त करो, जिससे चौहान+ सूरजमलने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध होकर करणसिंह की राणीयां के सती होने के कार्यमें सहायक होकर सती होने में विघ्न नहीं आने दिया.

ठाकुर प्रेमसिंहने राज्य की फौज के साथ सामना किया उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

+ मुडेटी का ठाकुर चौहान सूरजमल बडा ही वीर राजपूत था. अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कार्य करने से इसको कई मारतबा ब्रिटीश फौज के साथ युद्ध करना पडा. इसके वीरत्व की कई बातें ' रासमाला ' नामक ग्रंथ में लिखी गई हैं. इसकी जागीर अंग्रेज सरकार ने जप्त करली, और बरसों तक इनका पीछा ब्रिटीश फौज ने किया, आखिर मुआफी बरकश ने की शर्त पर समोधान हुआ, और कदरदान अंग्रेज सरकार ने बहादुर चौहान की कदर कर उसकी जागीर वापस देकर मुडेटी में बैठा दिया.

“ मका कमल मोती प्रेमसीध बोलीयां पडी धर अंवर धोती—तपो तुआरा तेजरी ॥ १ ॥ ”

“ नागण पुछे नाग आज जमी कयुं हल चल हुई, खत्र वट जगाई खाग—नरपत प्रेमे नीवजी ॥ २ ॥ ”

इसकी ठकराणी साहेबांदेवी चांपावत बधसिंह दासपा वाला की पुत्री वि. सं. १९०८ जेष्ठ वदि ५ के दिन सती हुई.

प्रेमसिंह ने वि. सं. १९०१ मे बडुआ को सीख दी थी.

नं. १/१ कीरतसिंह, सेलवाडा के ठाकुर सबलसिंह व सूरताणसिंह दोनों भाई नाओलाद होनेसे सूरताणसिंह के गोद गया.

नं. २/१ तेजसिंह को धवली की जागीर मिली. बाद इसका पुत्र नं. १/१ दोलतसिंह धवली में पाट बैठा. दोलतसिंह का बडा पुत्र हिम्मतसिंह निंबज ठाकुर नं. ९ भीमसिंह नाओलाद गुजरने से उसके गोद गया, जिससे नं. १/१ रत्नसिंह धवली पाट बैठे, वह भी नाओलाद गुजरने से इसका भाई नं. १/१ अचलसिंह धवली के ठाकुर हुए, लेकिन यह भी नाओलाद गुजर गये, जिससे सिरोही रियासत से धवली की जागीर निंबज ठिकाने में मिला दी गई, जो मौजूदा राजसाहेबां माहबतसिंह ने अपने छोटा पुत्र लक्ष्मणसिंह को दी है.

नं. ३/१ उदयसिंह को इसके पिता रायसिंह ने मावल ठाकुर जालमसिंह के गोद दिया था, लेकिन राज्य ने उसका गोद नामंजूर करके इसको कैद किया, जो कैद की हालत में ही गुजर गया, जिससे इसके पुत्रों को ठिकाना निंबज की जागीर में से पीथापुरा व सोरडा गांव का आध जागीर में दिया गया, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.

नं. ९ भीमसिंह अपने पिता के बाद वि. सं. १९०८ में निंबज में पाट बैठे, और वि. सं. १९१८ में बडुआ को सीख दी. इसकी चार राणीयां थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण इसने अपने चचेरा भाई नं. १/१ दोलतसिंह धवली वाले का पुत्र हिम्मतसिंह को गोद लिया, ठाकुर भीमसिंह अमीरी मिजाज का सरदार था.


नं. १० हिम्मतसिंह मरहूम अपने काका भीमसिंह के गोद आया, इसके समय में वि. सं. १९५० में रियासत से ठिकाने निंबज को तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट की फोजदारी हुकूमत व रूपिये पांचसौ तक के दिवानी दावे फैसल करने के अखत्यारात दिये गये, और नमक चूंगी, दाण, व आवकारी की मुकरर रकम ठिकाना के हककी रियासत से ठहराई गई. वि. सं. १९५० में इसने बडुआ को सीख दी. इसकी ठकराणी मूलकुंवरदे लोहीयाणा के दीयोल सालमसिंह की पुत्री थी, जिससे कुंवर मोहबतसिंह व कुंवरी राजकुंवरदे का जन्म हुआ, बाईराजकुंवरदे का विवाह जोधपुर के महाराज वजेसिंह मोहबतसिंहोत के साथ किया गया.



नं. ११ +राजसाहेब मोहबतसिंह अपने पिता के पीछे निबज ठिकाने में पाट बैठे, ठिकाने की जागीर से राज्य हक की छः आंनी देने में कितनेक झगडे वक्तन फवक्तन पैदा होने के कारण, इसने छः आनी जितना जागीर का हिस्सा राज में देकर, नयेसर कायम का ठहराव ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी को तय करा लिया, जिससे अब राज के साथ नई तकरार पैदा होने का सम्भव नहीं रहा. उस ठहराव की रूह से सिरोही इलाके में इनके तरफ रही हुई जागीर के गांवों में रेविन्यु अखत्यार के साथ, खास शर्तों से, फौजदारी मुआमिलात में दोगम दर्जे के मेजिस्ट्रेट के अखत्यारात व दिवानी मुआमिलों में रु. ५००) पांचसौ तकके दावे फैसल करने के अखत्यारात रियासत से अता हुए है. वि. सं. १९८० के शर्दि की मौसिम में मौजूदा महाराव साहिब ने निबज व वडवज के दरमियान सरहद का तनाजा ( जो कई वर्षों से चल रहा था उसको फैसल करने के लिये महाराव साहब के उपर दोनों सरदारों ने छोड रखा था.) तय करने को निबज के बगीचे में मुकाम किया, उसवक्त निबज ठाकुर मोहबतसिंह ने महाराव साहिब को अपने महल में पधारने की अर्ज करने पर, महाराव साहिब ने इसकी अर्ज मंजूर करके पधरामणी की, और महमानगिरी स्वीकारी, ठिकाने निबज के इतिहास में सिरोही के महाराव साहब की निबज के महल में पधरामणी का यह अब्बल ही प्रसंग था, ठाकुर निबज ने इस मौके पर महाराव साहब के वास्ते गद्दी की बिछायत और नजर नसरावल आदि रसूमें बाकायदा अदा की, और साथ में दीवान, मुसाहिब, आदि जो जो छोटे बडे अहलकार व नोकर वगैरह थे, उन सब को अपनी २ योग्यता के मुआफिक सिरोपाव दिये, महाराव साहिब ने ठाकुर मोहबतसिंह को खास सवारी का घोडा इनायत किया.

+ राजसाहेब मोहबतसिंह एक बहादुर सरदार है, प्राचीन समय के चौहानों में अपनी नेकटेक और बचन के वास्ते जो प्रणाली थी वे सब इनमें ग्रन्थक्ष अन्वमव होता है. वि. सं. १९१९ में जब कि पालणपुर रियासत का एक गांव घोले दिन डाकूओं ने लूटा, और पालणपुर रियासत की पुलिस ने अपनी जमीयत के साथ डाकूओं का पीछा किया था, लेकिन डाकू लोगों ने पुलिस वालों को कार आमद नहीं होने दिये, जिससे उन्होंने राजसाहेब मोहोबतसिंह की सहायता चाही, जिस पर इन्होंने फौरन छडी सवारी डाकूओं का पोछा किया, और उनसे मुकाबला करके एक डाकू को जान से मारा, और दूसरों को मय लूट का माल के गिरफ्तार करके सिरोही रियासत को सुपुर्द किये. इस मुकाबले में डाकूओं की तरफ से झपाझपी में बंदूक की एक गोली राजसाहेब के दाढी के पास होकर चली, जिससे दाढी के कुछ बाल कट गये थे. कुछ अरसे के बाद जबकि मरहूम महाराव केशरीसिंह साहब बहादुर का मुकाम आवू पर हुआ, तब यह वहां मुजरा के लिये आये उस वक्त इस पुस्तक का लेखक भी वहां पर हाजिर था, महाराव साहबने, डाकूओं के साथ मुकाबला करने की जो बहादुरी इसने बताई थी, उस बात पर संतोष जाहिर करके इस क्षत्रीवट के कार्य की बहुत प्रशंसा करके शाबाशी दी थी, उसी मुआफिक पालणपुर नवाब साहब ने भी इस कार्य के लिये अपना संतोष जाहिर किया था वि. सं. १९७९ में जबकि राजपूताना में भील ग्रासीयों के एकी का बावेला मचा, और रियासत को अपने सरदारों की जमियत इकट्ठी करने की जरूरत पडी, तब ( जो कि उस वक्त इनका रियासत के साथ चाहिये जैसा मेलझोल नहीं था, और जागीर के हकहकूक का मुकदमा सरदार कपीटी में चल रहा था ताम ) राज से बुलावा आतेही यह फौरन अपने माईयों और राजपूतों वगैरह की जमीयत करीब तीनसौ आदमीयों के साथ हाजिर हुए थे, और महाराव साहब ने इस बहादुर सरदार की कदर करके कुछ फौज के अफसर की जगह पर इसको सुकरर किया था.

मौजूदा राजसाहेबां निंबज, रियासत सिरोही.



राजसाहेबां महोबतसिंह साहब. ठिकाना निंबज.

[ विभाग दूसरा पृष्ठ ४८. नं. ११ ]




इनके तीन पुत्रों में से छोटा जसवंतसिंह गुजर गया है, शेरसिंह पाटवी है, और दूसरा पुत्र लक्ष्मणसिंह को धवली पट्टे की जागीर देने में आई है. वि. सं. १९८२ के दशहरे के दरबार में मोहबतसिंह को नीज के लिये राजसाहेब का खिताब अता फरमाया है, जिससे ' ठाकरां राज ' के बजाय ' राजसाहेबां ' के नामसे इसको तेहरीर लिखी जाती है. इस वक्त यह सरदार कमीटी में मेम्बर मुकरर है.

निबज ठिकाने की पालणपुर रियासत में भी ( मुलकी सरहद के फैसले के वक्त गये हुए गांवों की ) जागीर है, और उन गांवों में भी दीवानी, फौजदारी, व रेविन्यु के अखत्यारात सिरोही रियासत के मुआफिक ही उस रियासत ने पहिले से ही दे रखे हैं, और पालणपुर रियासत से ठिकाने निबज के पाटवी सरदार को ' रावजी ' के इलकाव की तेहरीर होती है, इसी मुआफिक जोधपुर रियासत से ' राव ' के इलकाव के साथ कुरव २ व बैठक में सामने की जीमणी ( दाहिनी ) मिसल में व बांह पसाव व वगल गिरी की इज्जत है, व सवारी में घोडा आगे खडने की इज्जत है, यह इज्जत वि. सं. १८८१ का फागुण सुदि १ को जोधपुर रियासत से दी गई है.

इनकी एक राणी मेवसीजी सरेकुंवरदे, सणदरी के रावल मानसिंह गोदडसिंहोत की पुत्री है, ( जिससे बाई भूरकुंवर का जन्म हुआ. ) दूसरी राणी बारडजी मानकुंवरदे सुदासणा के बारड तख्तसिंह पर्वतसिंहोत की पुत्री, ( जिससे कुमार शेरसिंह व लक्ष्मणसिंह के जन्म हुए. ) थी.

२ वंशवृक्ष पीथापुरा परगने पामेरा के लखावत.


१ उदेसिंह (वंशवृक्ष निबज के लखावत में नं. ६ वाला. ) ओ. प्रां. पीथापुरा.



नोट-पीथापुरा की जागीर का राज हक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ३३७ ) भरने का ठहराव नं. ६७३ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

## ३ वंशवृक्ष सेलवाडा परगने पामेरा के लखावत.


१ अवेसिंह ( वंशवृक्ष निवज के लखावत में नं. १ वाला. ) ओ. प्रां. सेलवाडा.



नोट—सेलवाडा की जागीर का राजहक आठआनी की रकम नकद लगान के कानून मुआफिक रु. १०८०) सालाना भरने का ठहराव नं. ६७२ ता. ११ मेइ सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

४ वंशवृक्ष मावल-गिरवर परगने सांतपुर जो नाओलाद होनेसे इसवक्त खालसा है.

१ जसवंतसिंह ( वंशवृक्ष निवज के लखावत में नं. ४ वाला. )




नोट—मावल व गिरवर दोनों पड़े की जागिरें खालसे राज है, इन दोनों ठिकानों के सरदारों ने सिरोही रियासत से विरुद्ध होकर, पालणपुर रियासत के दिवान महाखान फतहखान की पनाह में रहना कबूल कर वि. सं. १८७५ के आषाड सुद २ का इकरार के जरिये मोजा मसावल, ( मावल ) पामेरा, गिरवर, मुगथला, वासडा, आवल, व सनार गांवों में पडेपान की आमदनी में आधा हिस्सा पालणपुर रियासत को लिख दिया था, जो गांव सिरोही के होनेसे वापस सिरोही की तहत में आये.

५ वंशवृक्ष आंबलारी परगने कालेंद्री के लखावत.


निंबज के लखावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला बाघसिंह को, कोरटा की जागीर मिली थी, मगर बाद वह छूट जानेसे महाराव अखेराज ने इसके पोते जगतसिंह को आंबलारी व रूघनाथसिंह को डांगराली की जागीरें दी, लेकिन पाटवी जागीरदार नाओलाद होनेसे उनकी जागीरें खालसा हुई, सिर्फ आंबलारी के छोट भाईयों में नं. १० तख्तसिंह के ओलाद वालों की कुछ जागीर आंबलारी गांव में थी, जो वि. सं. १९८० में खालसा रख कर उनको परगने पांमेरा में नीबोडा गांव दिया गया.

१ बाघसिंह (वंशवृक्ष निंबज के लखावत में नं. ३ वाला.) कोरटा मिला था.



नोट—आंबलारी जागीर खालसे रही, और नं. १० वाला की ओलाद को नीबोडा गांव मिला.

६ वंशवृक्ष नीबोडा परगने पांमेरा के लखावत.




नोट—नं. २ भारतसिंह, आंबलारी वाला नं. ९ नवलसिंह के गोद जानेका दावा

कर रहा था, लेकिन राज से गोद मंजूर न होनेसे इसने बगावत करके बिगाड किया, जिससे इसको पकड कर कैद की सजा दी गई, और इसका आंबलारी की जागिर में जो हिस्सा था वह जप्तो में रखा गया, आखिर मौजूदा महाराव साहिव ने कुच्छ जुर्माना करके इसको मुआफी बक्षी, और आंबलारी में इसका जो हिस्सा था, उसके एवज में दबाणी ठिकाने से राजहक आठआनी में आया हुआ, नीवोडा गांव इसको पार्टिशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६७१ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से देकर आंबलारी की पूरी जागीर राज में खालसे रखी गई, जिससे वि. सं. १९८० से नीवोडा गांव आवगा भारतसिंह के तरफ रहा है.

### ७ वंशवृक्ष डांगराली परगने पामेरा के लखावत.

डांगराली गांव आंबलारी के लखावत में नं. ३ रुघनाथसिंह को महाराव अखेराज ने दिया था, बाद में यह गांव बेरान हो गया. वि. सं. १८८० में महाराव शिवसिंह ने यह गांव आबाद करने का परवाना, नं. ५ देवडा धीरा रामसिंहात को दिया.

१ रुघनाथसिंह (वंशवृक्ष आंबलारी के लखावत में नं. ३ वाला.) ओ. ग्रां. डांगराली.




नोट-डांगराली गांव में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १८९) भरने का ठहराव नं. ६७० ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

नं. ८ वंशवृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के लखावत. पाती नं. १

निंबज के लखावत में नं. २ जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद महाराव अखेराज-  
ने देवडा दूदा को पोसीदरा व अजीतसिंह को लूणोल दिया. बाद में नं. ४ फतहसिंह  
के दो पुत्रों से पोसीदरा में २ पांती कायम हुई है.


१ जेसिंहदेव (वंशवृक्ष निंबज के लखावत में नं. २ वाला.)



नोट-पोसीदरा जागीर पांती नं. १ में राज हक आठआनी बटाई से वसूल होता है, ठहराव होना बाकी है.


२ वंशवृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. २.

१ दौलतसिंह (वंशवृक्ष पोसीदरा पांती १ के लखावत में नं. ५ वाला.) ओ. ग्रां. पोसादरा पांता नं. २





६ हीरसिंह ( चल् वंशवृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. २. )




नोट-पोसीदरा जागीर पांती नं. २ में राज हक आठआनी बटाई से वसूल होता है, ठहराव होना बाकी है.

१० वंशवृक्ष लूणोल परगने पामेरा के लखावत.

१ अजीतसिंह (वंशवृक्ष पोसीदरा पांती नं. १ के लखावत में नं. २/१ वाला.) भो. ग्रां. लूणोल.

२ मोहनदास



नोट-लूणोल के सरदारसिंह ने राजहक आठआनी के एवज में असाव व पेरुवा गांव राज को देकर लूणोल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६६५ ता. १ मई सन १९२३ ई. के जरिये वि. सं. १९८० से आवगा कर लिया है.



मौजूदा ठाकुर सरदारसिंह लूणोल रियासत सिरोही.



ठाकरां सरदारसिंह साहब. लूणोल परगने पामेरा ( सिरोही ).

[ दूसरा विभाग पृष्ठ १४ नं. १ ]



## प्रकरण ६ वाँ.


### लखावत देवडा (प्रतापसिंहोत्त.)

राजकुल देवडा चौहान वंशवृक्ष में नं. १२ प्रतापसिंह को पुराने बंट में सूरभखरी का पट्टा मिलाथा, और पिछेसे वि. सं. १५८० में ढढमणा मिलना बडुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन जबकि प्रतापसिंह के बडे भाई भाणसिंह का पुत्र सूरताणसिंह सिरोही की गद्दी पर गोद गया, तब प्रतापसिंह के बडे पुत्र तेजसिंह को भटाणा की जागीर व दूसरे पुत्र शार्दूलसिंह को दताणी की जागीर वि. सं. १६४० में महाराव सूरताणसिंह ने दी, तीसरा पुत्र गोपालसिंह बालक अवस्था में गुजर गया था. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि तेजसिंह ने भटाणा गांव भटेसरिया कोली को मारकर लिया, लेकिन यह गांव महाराव मानसिंह के समय में भी सिरोही रियासत में थे, और वि. सं. १६४० में दताणी की बडी लडाई हुई उसके बाद दिये गये है. तेजसिंह की ओलाद वाले पोछेसे 'तेजावत' कहलाये है. भटाणा में नं. ६ वजेसिंह के पुत्रों से दो पांती अलग हुई, जिसमें बडा पुत्र सबलसिंह की बडी पांती व छोटा सूरजमल की छोटी पांती कहलाई गई.

### भटाणा परगने मंदार के लखावत-तेजावत शाखा.

१ वंशवृक्ष भटाणा के तेजावत बडी पांती.

१ तेजसिंह (देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. १३ वाला.) ओ. ग्रां. भटाणा-बडी पांती



## उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

भटाणा ठिकाना रियासत सिरोही के ताजीमी सरदारों पैकी एक है, इस ठिकाने के प्राचीन इतिहास में नं. १ तेजसिंह, महाराव सूरताणसिंह के पास मुसाहिब होना पाया जाता है. ( वि. सं. १६३९-१६४७, के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्रपत्रों में ' देवडा तेजा पडदुए ' ऐसा नाम अंकित है. )

नं. २ मेघराज, सिरोही में जबकि महाराव अखेराज (दूसरे) ने अपने पिता के चूक करने का वैर का बदला लेने को, लखावतों को चूक कराया जिसमें मारा गया.

नं. ३ जसवन्तसिंह को ' ढढमणा ' मिला था, इसकी ओलाद पोछे से नहीं रही है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ६ पर दिया गया है.

नं. ३ नेतसिंह के विषय में ज्यादा हाल मालूम नहीं हुआ है. नं. ३ भाखरसिंह को 'मारोल' मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ५ पर दिया गया है. नं. ३ डुंगरसिंह की ओलाद वाले जसोल ईलाके जोधपुर में चले जानेसे उसकी ओलाद वाले वहां पर विद्यमान है.

नं. ४ रूघनाथसिंह शाही फौज का रास्ता रोककर उनसे दांण वसूल लेता था, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

“ लूटे कतारां अपारां चारां हजारं वधूस लेवे धोले दीये दल्ली रा वजारां पडे धा. ”

“ रघा सुं पठांण भाखे रोको मति राह पातसाही रा दाण लो दाण लो जाण दो. ”

“ रघा सुं पठांण दाखे ओरंगा रा फरंगा रा उगे भांण सांमा आवी दीठडा देवडा वंकडा आवु हंदा देस. ”

“ रघा उच न पटां दल्ली रे पातसाही जोग समापे भटां चारणां × × × ”

ठाकुर रूघनाथसिंह ने पालणपुर के करीमखान के साथ युद्ध किया था, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

“ सिन्धु साल ले कर वात सवारो, ओगट घाट कियो उतारो. ”

“ खान करीम कहे मद खारो, नपियां तोई पाय ने तारो. ”

“ प्याला खाग रघो दे पाणी, जीरव शकिया नहि जुवाने. ”

“ महां त्रुटे मद माणे, देही जावा कियो दिवाणे. ”

“ दुजा लखा वदाये दाये, घुमे मगल शकिया वाये. ”

“ मोटा ठाकर झेर मत पाये, जस करसां पालनपुर जाये. ”

“ किधी गोठ भली ते काला, देख धरण लूटे दाढाला. ”

“ पग पग पढीया चढीया पाला नीठ घरे पुगा नेजाला. ”

नं. ४ मानसिंह के ठकराणी मेडतणीजी वि. सं. १७८५ में सती होना, इसकी छत्री के शिलालेख से मालूम होता है.

नं. ४ रायसिंह को मकावल मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ४ पर अंकित किया गया है.

नं. ५ सरदारसिंह ने वि. सं. १८०६ में बडुआ को सीख दी. इसके समय में तेजावतों में कौन २ विद्यमान थे, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

“ सहेर भटांणे सदो जस खाटण जेतराई, पीपलथल हरनाथ कमी न राखे काई. ”

“ मारोले महेराण भांण दोई सकचा भाई, मकावले हाथीयो वले पहाडो वरदाई. ”

“ षट पांच लख भांजण दलां रूडे घोडे रावते, अरबुद भूप सहे को खाग त्याग तेजावते. ”

नं. ६ हरनाथ के विषय में बडुआ की पुस्तक में कोई जीक्र नहीं है, लेकिन उपर्युक्त गीत से मालूम होता है कि वह पोपलथल में था, परन्तु ना ओलाद गुजर गया है.

नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८४९ में बडुआ को सीख दी. इसके समय में पालणपुर की फौज ने भटाणा पर आक्रमण किया, परन्तु सफलता नहीं हुई, जिसके लिये किसी कवि ने कहा है कि—

“ आया दल सबल भटांणा उपरे आया मल्ल जाडां असुरांण. ”

“ रघपत तणो उठीयो राजा वज वजीयां पृथवी वाखाण. ”

“ घायल अरी तडफडे घणा घणाक लोटे पडीया केकांण. ”

“ वढते दलां कियो एकेवाट तुर तुर समसेर तणा. ”

“ आप फते कर मेलां आंणो पायो सुजस पवाडे. ”

“ अधपत वजा वधावा आवे गीतां सुजस गवाडे. ”

नं. ६ जगतसिंह को ‘ पादर ’ मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ३ पर अंकित किया गया है.

नं. ७ सबलसिंह ने वि. सं. १८६४ में बडुआ को सीख दी. इसने पादर के शेरसिंह ( वंशवृक्ष पादर में नं. २ वाला ) को वि. सं. १८६८ में मार डाला, जिससे पादर वालों ने पालणपुर रियासत की सहायता से फौज लाकर वि. सं. १८७० में भटाणा गांव बरवाद करके वैरान कर दिया, लेकिन बाद में मंडार का गुलालसिंह नाहरसिंहोत ( मंडार बडी पांती के छोटभाई ) ने बीच में पड के, भटाणा व पादर वालों के दरमियान समाधान करा दिया.

ठाकुर सबलसिंह को पांच ठकराणीयां होने पर भी पुत्र नहीं था, जिससे उसने अपने छोटे भाई सूरजमल को जागीर का सब काम सुपुर्द कर रखा था, कहाजाता है कि सूरजमल ने उसका बेजा लाभ लेकर भटाणा में ज्यादाह वंट ( पांच दुआई ) ले लिया, बाद में ठाकुर सबलसिंह ने छट्टा विवाह गांव परण के दियोल गजसिंह की पुत्री से किया, जिससे नाथुसिंह आदि पुत्रों के जन्म हुए.

सूरजमल ने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरुद्ध होकर, वि. सं. १८७४ के वैसाख महीने में पालणपुर रियासत की मातहती में जाकर, पालणपुर के दिवान को भटाणा ठिकाने की आमदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिखदिया था, जो जागीर अंग्रेज सरकार के हुकम से वि. सं. १८८० में सिरोही रियासत में वापिस आ गई.

ठाकुर सबलसिंह को पुत्र होने बाद सूरजमल को दिया हुआ वंट, उसने मंजूर न रखने से दोनों भाई दरमियान विरोध बढ़ गया, सूरजमल के पक्ष में विदमीया नामक गांव के पाबेचे राजपूत थे, उनपर सबलसिंह ने हमला करके विदमीया गांव बरबाद किया.

नं. १ सूरजमल के समय से भटाणा ठिकाना में छोटी पांती कहलाई गई, जिसको रियासत ने अलग जागीर शुमार कर हुकमनामा का हक अता फुरमाया, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.

नं. ८ ठाकुर नाथुसिंह का नाम सिरोही रियासत के बागी सरदारों में मशहूर है, यह बडा बहादुर सरदार हुआ, लेकिन इसने अपने वीरत्व का ऐसा दुरूपयोग किया कि, जिससे भटाणा ठिकाने की खराबी हुई, और आप भी बगावत की हालत में ही गुजर गये. भटाणा की छोटी पांती के साथ इसका वंटवाड का विरोध चलताही था, दरमियान वि. सं. १९०९ में सिरोही रियासत को सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की, जिसमें भटाणा ठिकाने के कब्जे की जमीन पालणपुर रियासत के तरफ जानेसे बगावत शुरू की, जिसमें भटाणा के छोटी पांती वाले भी इसके शामिल हो गये.

ठाकुर नाथुसिंह की बगावत से सिरोही इलाके में बहुत नुकसान हुआ, इसके पीछे सिरोही व पालणपुर की फौज लग रही थी, लेकिन यह काबु में नहीं आते थे, जिससे अंग्रेज सरकार के फौज की सहायता लेनेसे कितनेक आदमीयों के साथ नाथुसिंह पकडा गया, और उसको छः वर्ष की जेल की सजा हुई, लेकिन वि. सं. १९१५ में यह कैद से भाग निकला, और बडे जोर से बगावत शुरू की, इसको पकडने के वास्ते बहुत सी कोशीश की गई मगर यह हाथ न आया, अखिर इसके सब कसूरों की मुआफी देकर रियासत ने भटाणा में आबाद किया. इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

“ सूर्णा वात गढ कोट मन मोट हुआ सबल, कल लखां साथ अखियात कीनी. ”

“ त्यां ग्रहे खाग, कर मतो युं त्रेवडे, देवडा दात संसार दीधी. ”

“ पटा जर सरदार रा पोतरा, बेरियां काठिया दसे वाटे. ”

“ हों करे वाघ ज़यम आगराजे गेणांग हथ, खाग वल लियो भटाणो खागे. ”

“ टोड तीजो अडग खरो तेजावतां, पृथ्वी पर करे जस वास पांथु. ”

“ तेजा मेघराज रघनाथ नेता तणा, नभाया आगला बरद नाथु. ”

“ राव सनमान करे पटो लखीयो रघु, पृथी में घणो सो भाग पायो. ”

‘ लीया खागां वली खीत्र भूरे लखे, आपरी फतह कर घर आयो. ’

वि. सं. १९२५ में वीजवा नामक खेडा जो खालसा राज था, उसको आबाद करने के वास्ते मंडार के मदनसिंह को रियासत से देने पर, इसने उस खेडे पर अपना हक बताकर तकरार खडी की, और फिर बगावत करने लगा, चार वर्ष बगावत में रहकर उसी हालत में यह अपने ननीहाल परण इलाके जोधपुर में गुजर गया, इसी बगावत में इसका भाई नं. ६ वरुतसिंह मारा गया, इसका पुत्र भारतसिंह भी बगावत में शामिल था, और इन्होंने बागी हालत में बहुत नुकसान करने से रियासत ने भटाणा ठिकाना की जागीर जप्त करली.

नं. ९ भारतसिंह ने अपने पिता गुजर जाने की हालत में भी बगावत शुरू रखी, और बहुत बिगाड किया, इसको पकड ने के वास्ते रियासत की व अंग्रेज सरकार की एरिनपुरा की छावणी को फौज ने पीछा किया, लेकिन यह हाथ नहीं आया, आखिर जोधपुर रियासत के कितनेक मोअजिज सरदारों ने बीचमें पडकर समजोतरी की, जिससे रियासत ने सिर्फ रू. १५००) नजराना के लेकर भटाणा की जागीर इसको वापिस दी. इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

“ आदरियो वाद भटाणे आखां, भीम ज्युं करणो भारथ, कुटे गाम बभालां केवी, उगे सूर लेण नत आथ. ”  
 “ जस तेजाहरा सदा जेजाई, लूटे मुलक धन लावे, आद जगाद भटाणे आखां, खाग वले धर खावे. ”  
 “ भारतसिंह करे जुध भारथ, खुमो धनो वजाडे खाग, × × × × ”  
 “ करतो वदो दरजो करणा रा कुंवर अछोटी वार करे, साखो करे जाई चोडे फजर उगतां जाय फरे. ”  
 “ देये दात भूपाल दनी में, कल उजवाल कहेवाणा, अजंस धरा सिरोही गढ आवु छावो गाम भटाणा. ”  
 “ काली नाग कंधीर कहेवाणा, हींग कणां ने ना धारे, सर पा धर सत्रु कर सारां मोत बना कही मारे. ”  
 “ चीवा ने मेरतीया सिंधल लडतां अंवर लागे, जुधरे समे राठोर जोरावर भडतां कदो न भागे. ”  
 “ सोलंकी लडीया बहु सूरु कीधो भलो धणीरो काम, वखो करी भटाणो वाले नवखंड भलो राखीयो नाम. ”  
 “ राजपूती राखी तेजावते प्रगलो हद जस पायो, धींगा प्रसणा रुद्र धपावे आप फते कर धर आयो. ”

भटाणा ठिकाना के सरदारों ने बगावत करने में बहादुरी बताकर ‘ वलहट वंका देवडा ’ का बिरद बतलाया, और इसी में अपना नाम प्रसिद्धि में लाकर भाट चारणों ने गीत कवित जोडकर इनके वीरत्व की प्रशंसा की, लेकिन इन बगावतों में इन्होंने उठाया हुआ श्रम मिथ्या हो हुआ, क्यों कि पालणपुर में गई हुई जमीन वापिस नहीं मिली, और ‘ वीजवा खेडा ’ भी इनको नहीं मिलते खालसे राज रखा गया.

ठाकुर भारतसिंह आदि भटाणा ठिकाना के दोनों पांती के सरदार पुनः भटाणा में आबाद होने पर, दोनों पांती के सरदारों दरमियान आपस के वंट की तकरार खडी हुई, और ठाकुर भारतसिंह ने भटाणा ठिकाना की हद में वणजारली नामका खेडा आबाद किया, जिसपर छोटी पांती वाले कीरतसिंह ने उस गांव की जमीन में अपना पांच दुआई का हिस्सा होने का उजर किया, कुछ अरसे में इस तनाजे ने ऐसा भयंकर



रूप पकड़ा कि, दोनों पांती के सरदार मरने मारने की तैयारी करने लगे, जिससे मरहूम महाराव साहब कैशरीसिंह बहादुर ने खुद मौके पर पहुंच कर, कई दिन तक मुकाम करके समाधान किया, और वणजारली गांव की सरहद तय कर वह गांव आवगा ठाकुर भारतसिंह के तरफ रखा, और छोटी पांती वाले कीरतसिंह को दूसरे देवडे सरदारों की राय से 'वणजारली' गांव के रकबे के मुकाबले में, यानी वणजारली गांव के रकबे से आठवे हिस्से जितनी जमीन आवगी दी गई.

वि. सं. १९५२ में भटाणा गांव की पादर आदि गांवों के साथ सरहद का फैसला, वाउन्डरी कमीश्वर ब्रुस साहेब ने किया, उस समय भी ठाकुर भारतसिंह ने अपनी खानदानी आदत से बाज नहीं रहने से, साहब मोसूफ ने 'बुसेरा' नामक खेडा में बतौर जुर्माना भटाणा ठिकाने का दो आनी हक कम कर दिया.

ठाकुर भारतसिंह का चेहरा भव्य और कदावर था, मरहूम महाराव साहब ने इसको पैर में सोना पहिने की इज्जत बक्षी. यदि भटाणा ठिकाना के ठाकुर अपनी बहादुरी का उपयोग, बगावत व आपस की तकरार में न करते रियासत की सेवा में काम देते तो, अपनी जागीर की तरफ़ी के साथ और भी कई फायदे उठा सक्ते, क्यों कि मरहूम महाराव साहब का ठाकुर भारतसिंह के वास्ते अच्छा खयाल था.

नं. १० ठाकुर उदयराज भटाणा ठिकाने के मौजूदा पाटवी ठाकुर है, इसका सब रंग ढंग अपने पिता के नाई है फर्क इतनाही है कि आप पढे लिखे और जमाने को देखकर चलने वाले होने से, जो कि बगावत से बाज नहीं रहे है, लेकिन अपने वडाउओं के नाई लूट खोस न करने का खयाल रखते है.

छोटी पांती वालों के साथ इसने भी वंटवाड की तकरार शुरू रखी, आखिर मौजूदा महाराव साहब ने इस तकरार का तसफिया करने के वास्ते वि. सं. १९८१ में खास जागीरदार कमीटी मुकरर करके जरिये मकबुला पंच तसफिया करा दिया, परन्तु दोनों पांती के सरदारों ने नाइत्तफाकी बढ जाने के कारण, भटाणा गांव में दोनों सरदारों का रहना उन्होंको ठीक मालूम न होने से, उन्होंने अलग २ जगह रहने की, और दोनों जागीर अलग २ करदेने की, दरखास्त महाराव साहब की इजलास में पेश की, जिसका तसफिया होना बाकी है. इस ठिकाने की राजहक की आनी बटवारा से वसूल होती है.


ठाकुर उदयराज समजदार और संजिता सरदार है, भटाणा ठिकाने की जागीर बट

नोट:—भिरोही रियासत के सरदार बगावत करने मे बडे मशहूर है, यदि आपस की तकरार हो तब भी उसके वास्ते रियासत से दाद नहीं मांगते अपना इनसाफ अपने हाथ से करने की आदत है. इस पुस्तक के लेखक को करिब ३२ साल तक इन लोगों के साथ काम पडने से, इनकी आदत का जो अनुभव हुआ है, उससे यह बात आम तौर पर है कि इस रियासत के किसी ( छोटे बडे ) सरदारों के खानदान में, बगावत नहीं हुई हो वैसे दाखले शायद ही मिलेंगे, जिसमें ठिकाना भटाणा व रेवाडा वालों की बगावत अब्बल दर्जे में शुमार है.

जानेसे यह ताजिमी ठिकाना की जागीर दूसरे ताजिमी सरदारों की जागीर के मुकाबले में कम हो गई है, और आपस की तकरार में इस ठिकाने के बहुत से खेडे वैरान पडे है, तब भी इसने अपनी ठकुराई की इज्जत व वभा में फर्क आने नहीं देते ठिकाने की इज्जत बढ़ाई है. इसकी ठकराणी काबीजी भूरकुंवर रामसीण के काबा परमार गुमानसिंह नवलसिंहोत की पुत्री से जुजारसिंह व किशोरसिंह नामके पुत्रों के जन्म हुए है.

२ वंशवृक्ष भटाणा के तेजावत छोटी पांती परगने मंडार.


१ सूरजमल ( भटाणा के तेजावतों का वंशवृक्ष में नं. ७ वाला. ) ओ. ग्रां. भटाणा छोटी पांती.



नोट:—भटाणा छोटी पांती का अहवाल बड़ी पांती में आचूका है. वर्तमान समय में इस पांती में नं. ४ दूर्जनसिंह जागीरदार है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण से जागीर का कामकाज नं. ५ भेरूसिंह करते है. भेरूसिंह के बडा पुत्र लक्ष्मणसिंह है व छोटे रामसिंह व शिवनाथसिंह है, इसकी जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

३ वंशवृक्ष पादर परगने मंडार के तेजावतों का.


१ जगतसिंह ( भटाणा के तेजावत बड़ी पांती के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) ओ. ग्रां. पादर.



नोट-नं. ६ लक्ष्मणसिंह पादर की जागीर का मौजूदा जागीरदार है. इसकी जागीर में राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती है.

४ वंशवृक्ष मकावल परगने मंढार के बड़ी पांती के तेजावत.


१ रायसिंह ( भटाणा के तेजावत बड़ी पांती वंशवृक्ष में नं. ४ वाला. ) ओ. ग्रां. मकावल बड़ीपांती.



नोट-अजीतसिंह मौजूदा मकावल बड़ी पांती के पाटवी जागीरदार है, इसका पुत्र धूलसिंह है. मकावल बड़ी पांती में राजहक आठआनी व दूसरे खेडे जो पीछेसे नं. ७ रत्नसिंह को आबादी के वास्ते मिले है, उसमें राजहक की आनी ज्यादा है, इस जागीर में राजहक बटवारा से वसूल होता है.

५ वंशवृक्ष मकावल परगने मंढार के छोटी पांती के तेजावत.

१ वीरभाण ( मकावल के तेजावत बड़ी पांती वंशवृक्ष में नं. २ वाला. )




नोट-मकावल छोटी पांती की जागीर में मौजूदा पाटवी नं. ५ समरथसिंह है, इसको मकावल की जागीर में से तीसरा हिस्सा की जागीर का हक हांसिल है, और अलग हुकमनामा होता है. राजहक की आनी, बड़ी पांती मकावल के मुआफिक ही इस पांती की भी बटवारा से वसूल होती है.

६ वंशवृक्ष मारोल परगने मंडार के तेजावतों का.

१ भाखरसिंह ( भटाणा के तेजावत बडी पांती वंशवृक्ष में नं. १३ वाला ) ओ. ग्रां. मारोल.

२ सुजाणसिंह



नोट-नं. ९ समरथसिंह इस जागीर में पाटवी जागीरदार है, और राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती है. इसका पुत्र तख्तसिंह है, ( दूसरा भी हुआ है लेकिन नाम मालूम नहीं. )


७ वंशवृक्ष ढढमणा परगने मंडार के तेजावतों का.

१ जसवन्तसिंह (भटाणा के तेजावत बडी पांती वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) नाओलाद होनेसे ढढमणा गांव खालसे वैरान पडा है.

२ केशरीसिंह

३ उदयसिंह

४ नाथुसिंह



नोट-यह गांव वडुआ को पहिले रियासत की तरफ से दिया गया था, जब कि


वडुआ से महाराव अखेराज ने गांव लेलिया तब नं. १ जसवन्तसिंह को दिया था, जसवन्तसिंह का पुत्र केशरीसिंह सामन्त था, उसकी ओलाद नाबूद होनेसे यह गांव खालसे में वैरान रहा, इस गांव पर रहुआ ठाकुर व मगरीवाडा के जागीरदार अपना हक बताते हैं, भटाणा ठाकुर अपना हक होना कहते हैं, और रियासत के तरफ से खालसा कहा जाता है.

### दत्ताणी परगने पामेरा के लखावत.


देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं.  $\frac{१३}{६}$  वाला शार्दूलसिंह जो नं.  $\frac{१२}{६}$  प्रतापसिंह का दूसरा पुत्र है, उसको महाराव सूरताणसिंह ने दताणी की जागीर दी. दताणी गांव सिरोही राज्य के वास्ते प्रसिद्ध स्थान है, जहांपर वि. सं. १६४० में महाराव सूरताणसिंह ने अकबर बादशाह की बड़ी फौज पर विजय प्राप्त की थी. वर्तमान समय में यह गांव छोटासा गांवडा जैसा है, परन्तु परमारों के समय में बहुत बडा ( शहर जैसा ) था, और जयराजदेव नामक परमार के तरफ वि. सं. में होनेका एक जैन मन्दिर में स्तंभ पर के लेख से पाया जाता है, देवडा चौहानों की विरदावली में ' दताणी खेतरा ' कहलाया जाता है, यह गांव वही ' दताणी क्षेत्र ' ( युद्ध क्षेत्र ) का स्थान है. दताणी की जागीर के पाटवी जागीरदार ' डाक ' नामक गांव में रहता है. ' डाक. ' गांव आबाद करने का परवाना नवलसिंह ने रियासत से हासिल किया था. वर्तमान समय में नं.  $\frac{१३}{३}$  सरदारसिंह दताणी गांव में रहता है, और उसको जागीर की आमदनी में से कुछ हिस्सा मिलता है.

### ८ वंशवृक्ष दताणा परगने पामेरा के लखावतों का.

१ शार्दूलसिंह (देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं.  $\frac{१३}{६}$  वाला. ) ओ. प्रां. दताणी.




८ लालसिंह ( चतु वंशवृक्ष दताणी परगने पामेरा के लखावतो का. )



नोट-नं. १३ भवानसिंह डाक व दताणी के मौजूदा जागीरदार है, इन दोनों गांवों में राजहक आठआनी है, इसके तरफ और भी कितनेक गांव आबादी की शतों के है, जिनमें राजहक आठआनी से ज्यादा है. मरहूम महाराव साहिब पर इसके पिता ने बैरान खेडों की सरहद के फैसले के वास्ते हसर रखने से सन १९०९ इस्वी में महाराव साहब ने खुद दताणी पधार कर फैसला किया था.

९ वंशवृक्ष सापोल परगने पामेरा के लखावत.

१ कैशरीसिंह (दताणी के लखावत वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) ओ. ग्रां. सापोल वि. सं. १७७२ में मिला.



नोट-नं. ८ धुलसिंह सापोल के मौजूदा जागीरदार है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल हाता है, इसका पुत्र जुजारसिंह बालक था वह गुजर गया है, लेकिन दूसरा पुत्र हुआ है.

## प्रकरण ७ वां.


लखावत सामन्तसिंहोत्त ( ठिकाना रहुआ कगेरहं. )

देवडा चौहान राजकुल के वंश में ( वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) सामन्तसिंह होना अंकित हुआ है, लेकिन इसके तरफ कौन २ गांव थे वह बडुआ की पुस्तक में दर्ज नहीं है, सीख के विषय में, सिरोही से सीख देना लिखा है, परन्तु संबत् दर्ज नहीं है. सामन्तसिंह का पोता गोविन्ददास ने ' डांगराली ' गांव से बडुआ को सीख दी थी. सूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि गोविन्ददास, प्रतापसिंह का पुत्र था, और वह देवडा वजा ने सूजा रणधीरोत्त को चूक किया उस झगड़े में सिरोही काम आया, परन्तु बडुआ की पुस्तक से जाहिर है कि वह देवीसिंह का पुत्र था. ( देवीसिंह का विवाह सिंधल भाखरसिंह की पुत्री 'राजांकुंवरदे' के साथ हुआ था, जिससे गोविन्ददास व कृष्णसिंह के जन्म हुए. ) राणी मगा की पुस्तक में जो कि देवीसिंह का नाम नहीं है, परन्तु 'सांगा' के पिता का नाम ' सामथीजी ' बताया है, सामन्तसिंह के खानदान वालों के पास अगर कुछ भी जागीर थी तो सिर्फ ' डांगराली ' की थी, और महाराव सूरताणसिंह सिरोही की गद्दी पर गोद जाने बाद, सामन्तसिंह के वंशजों को ज्यादाह जागीरें रियासत में मिली है.

सामन्तसिंह के पोता गोविन्ददास का बडा पुत्र ' सांगा ' था, उसके नामसे ' सांगावत ' कहलाये गये है, यदि सणवाडा परगने पामेरा, व रेवदर परगने मंडार में ' वागदा ' से आये हुए लखावत हैं, और उनको ' सांगावत ' कहे जाते है, लेकिन वे ' सांगा ' की ओलाद में नहीं है, परन्तु सांगा के काके कृष्णसिंह व नगसिंह की ओलाद वाले है, जिससे इस प्रकरण में उनको ' लखावत सामन्तसिंहोत्त ' का नाम दिया गया है, सामन्तसिंह की ओलाद वालों को पृथक २ जागीरें मिलने से जब जब वे जागीरें लेकर विभक्त हो गये, वह दिखला ने के वास्ते उनका वंशवृक्ष नीचे दिया गया है.

१ वंशवृक्ष लखावत सामन्तसिंहोत्त.

१ सामन्तसिंह (देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ११ वाला. )




## १ लखावत सामन्तसिंहोत के सांगावत.

सांगा के तरफ निवज व वडवज होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, निवज लखावत पृथ्वीराज को दिया गया, जिससे महाराव रायसिंह ने वि. सं. १६७२ में इसको 'हरणी' की जागीर दी. सांगा का पोता करमसिंह को पीछेसे रियासत ने रहुआ की जागीर दी, जो रहुआ ठिकाना ताजिमी है. हरणी की जागीर अमरसिंह के तरफ रही जिसमें से नं. ६ हटेसिंह के पुत्र नं. ७ जसवन्तसिंह व नं. ९ अजबसिंह से हरणी जागीर में अलग २ पांती हुई, और दोनों पांती के पाटवी सरदारों के नाम अलग २ हुकम नामे व पगडी बंधाने की रसम शुरू हुई, और बाकी के सब हरणी के छोटभाई गिने गये.

२ वंशवृक्ष हरणी परगने मंडार के सांगावत पांती नं. १.

१ सांगा ( उपर्युक्त वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) ओ. ग्रां. हरणी पांती नं. १




नोट—इस पांती नं. १ में मोजूदा पाटवी गुमानसिंह है, और राजहक आठ आनी बटवारा से वसूल होता है.



३ वंशवृक्ष हरणी परगने मंठार के सांगावत पांती नं. २.


१ अजवसिंह ( वंशवृक्ष सांगावत हरणी पांती नं. १ के नं.  $\frac{७}{१}$  वाला ) ओ. ग्रां. हरणी पांती नं. २



नोट—इस पांती नं. २ में मौजूदा पाटवी भवानसिंह है, राजहक की आठ आनी वटवारा से वसूल होती है.


२ (अ) वंशवृक्ष हरणी के सांगावत के छोट भाई.


१ जेतमाल ( हरणी के सांगावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं.  $\frac{७}{२}$  वाला ) छोटभाई हरणी.



२ (आ) वंशवृक्ष हरणी के सांगावत के छोट भाई.


१ अण्डसिंह ( हरणी के सांगावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ५ वाला ) छोटभाई हरणी.





४ वंशवृक्ष रहुआ परगने मंदार के सांगावत.

१ करमसिंह ( हरणी पांती नं. १ के सांगावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला ) ओ. ग्रां. ठिकाना रहुआ.



रहुआ ठिकाना के इतिहास की शुरुआत बडुआ की पुस्तक में सांगा से शुरू होती है, उसमें लिखा है कि सांगा को सिरौही में श्री सारणेश्वरजी महादेव तुष्टमान हुए थे, और वि. सं. १६७२ में हरणी का पट्टा मिला. उक्त पुस्तक में एक दांहीं उपलब्ध होता है जो यह है कि—

“ सांगा गोविंदसिंहरा तुं एकलो न होय, के चिंतामण कर चहां के शव तुहां तोय. ”

सांगा का पुत्र रामसिंह वि. सं. १६९० में सिरौही में काम आया, इसकी ठकराणी दियोलजी रूपकुंवर दियोल भाणसिंह विशालसिंहोत की पुत्री हरणी में सती हुई, नं. १ करमसिंह का जन्म उक्त ठकराणी से हुआ था. करमसिंह को वि. सं. १६९९ में महाराव अखेराज ने रहुआ की जागीर दी.

नं. २ चतरसिंह की ठकराणी जसांकुंवर राठौर सरदारसिंह 'राडधरागडा' वाले की पुत्री वि. सं. १६७५ में अपने पति के पीछे सती हुई.

नं. ३ गोविन्दसिंह ने वि. सं. १७७० में बडुआ को सीख दी, इसका भाई नं. ३ शवदानसिंह वि. सं. १७७५ में रहुआ में काम आया, जिसकी छत्री वि. सं. १७७५ में बंधाई गई.

नं. ४ लालसिंह नाओलाद गुजर जानेसे नं. ३ फतहसिंह का पुत्र सोनसिंह गोद आया.

नं. ५ सोनसिंह ने वि. सं. १८२२ में बडुआ को सीख दी.

नं. ६ उदयसिंह के विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

“तीना वड रे वंतां ता, माणे रीझ समा पण पाता. ”  
 “बडवे सणी एक भी वात, उदो कुंवर करे अखीयात. ”  
 “अरीयां घर गमवा एम गाले, पाछलीया भड लाग पठाणे. ”  
 “भाखो ऊ मोटे भोपाले, सोना सुत न रमे धग चाले. ’,  
 “होड करे तके नर हारे, मांडे सामा तका ने मारे. ”  
 “आवे पांव तीयां उगारे, सांगहरो कणारे सारे. ”  
 “देवडो फरे लीयां गजडंबर, हाथे सदा वकसणो हेम वर. ”  
 “दुधारण आवे सारी धरा, × × × ”

उदयसिंह का पुत्र नं. ७ कीरतसिंह ने वि. सं. १८६४ में बडुआ को सीख दी. कीरतसिंह नाओलाद गुजरने से उसका काका नं. ६ खेमसिंह रहुआ का ठाकुर हुआ.

नं. ६ शेरसिंह भी नाओलाद गुजरा, बडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि यह वहादुर राजपूत था, और इसने मुसलमानों के साथ युद्ध कर नामवरी पाई थी, इसके विषय में निम्न गीत उपलब्ध हुए हैं.

“गज रज जेम गजे दुठ दम गल देवडो, सेरो दन साजे राज गढ पत रहुए. ”  
 “वल नोवत वाजी घर अडरा पर साहरा, वहो सेरा वाजी घरडाई धारे घरे. ”  
 गीत.

“लसकर लई मे आईया लडवा, मोटे × घडे दई तो मार. ”  
 “अण लग सेरा भूप आगले, तुरके ना झीली तरवार. ”

- “ छूटे असूर घणा गढ लेतो, हांक वजाड न हलीओ. ”  
 “ वाही खाग सो सांनसा वाले, पीया दांमने मलीओ. ”  
 “ सुणही वात घणे सरदार, कुला वाड मुगलां करो. ”  
 “ रटका करे कटक सुं रहुए, एक अलाम रामहरो. ”  
 “ छत्रपतियां वीचमें, सेरारा वडे गडे हुआ वाखाण. ”  
 “ नेजो ना ले गयो नेजालो, पडीया रहा घणा पठाण. ”

नं. ६ खेमसिंह ने वि. सं. १८७० में सिरोही राज्य से विरुद्ध होकर, रहुआ ठिकाना की जागीर के व वरमाण, वागदा, रायपुर, वडवज, आदि गांवों में पालणपुर रियासत को वि. सं. १८७४ व १८७५ में, आमदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिख दिया, और सब सांगावत पालणपुर की मातहती में चले गये, लेकिन वि. सं. १८८० के फैसले से वे जागीरें सिरोही रियासत में वापस आईं, परन्तु उस फैसले में रहुआ के व वागदा वालों के कितनेक गांव पालणपुर रियासत की मातहती में रह गये, जिनके मालिक रहुआ व वागदा के सरदार हैं, परन्तु पालणपुर रियासत को उन गांवों की आमदनी में से आध देना पडता है, और जो गांव सिरोही रियासत के तरफ वापस आये उनमें सिरोही महाराव को आठआनी राजहक दिया जाता है.

खेमसिंह के समय में अंग्रेज सरकार की फौज रहुआ पर गई थी, लेकिन यह दबता नहीं था, इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

- “ टोपी वाले ताप देशपती डरपे घणा, अंगरेजां ने आप नमीयो नहीं खेमो नरंद. ”  
 “ भडके सारां भूप फोजां देख फीरंगीरी, राखे रहुए रूप सोनावत खेमो सरे. ”

इसका पुत्र नं. ७ जालमसिंह इसकी हयाती में ही गुजर गया हो वैसा पाया जाता है, क्यों कि उसके देहान्त के विषय में किसी कवी ने उसके सरसिये के सोरठे कहे हैं कि—

- “ सोच करे सरदार हीरो गमीयो हाथ सुं, सोही हुंढे संसार, जडे न कुंवर जालमो. ”  
 “ के घटीआ किरतार, कालसत् ताले करे, सांगा कुल सणगार अंवर लागो उदला. ”

नं. ८ धनसिंह को जोलपुर गांव ( जो नाओलादी होनेसे रहुआ ठिकाना के तरफ गया था, ) मिला, जिससे यह जोलपुर गया, बाद में रहुआ ठिकाना में नं. ९ शिवनाथसिंह नाओलाद होने से, उसके गोद इसका पुत्र अजीतसिंह गया और यह जोलपुर रहा, परन्तु दूसरा पुत्र न होने के कारण जोलपुर गांव की जागीर में नाओलादी होगई, लेकिन रियासत से जोलपुर की जागीर रहुआ ठिकाना के शामिल कर दी गई.

× पाया जाता है कि अंग्रेज सरकार की फौज कहां तो पालणपुर रियासत की सहायता में बोल ( फौजवाव ) वसूल करने के वास्ते आई हो, या तो निबन के मुआफिक यह भी सिरोही रियासत के हुकम में नहीं चलता था, जिससे सजा देने के वास्ते गई होगी.

नं. ७ भारतसिंह को सेरूआ गांव ( जो पहिले दूसरे के तरफ था, लेकिन नाओलाद होनेसे वैरान होगया था. ) मिला, यह गांव वैरान था जिसको आबाद करने का परवाना वि. सं. १९०२ में महाराव शिवसिंह ने इसको इनायत किया, इसके पुत्र अवतक रहुआ में ही रहते है.

नं. ८ उम्मेदसिंह अपने दादा खेमसिंह के पीछे वि. सं. १९०१ में पाट बैठा, इसने अपने नाम से उम्मेदपुरा व राजपुरा नाम के गांव वसाये, जिनको आबाद करने का परवाना वि. सं. १९१५ में सिरौही रियासत से मिला, वि. सं. १९१७ में इसने ' पीथापुरा ' नामक गांव आबाद करने का परवाना हासिल किया.

इसके समय में वि. सं. १९०५ में जोधपुर रियासत के ' मांडली ' गांव का सरदार वागी हुआ उसको इसने पनाह दी, रियासत से पनाह न देनेकी ताकीद की गई, लेकिन इसने न माना जिससे महाराव शिवसिंह ने मूंशी निआमतअलीखां की सरदारी में राज की फौज रहुए पर भेजी, उम्मेदसिंह ने कुछ समय तक फौज के साथ मुकाबला किया, बाद पहाड में भाग गये, रियासत ने रहुआ ठिकाना की जागीर जप्त करली, लेकिन बाद में इसने हाजिर होकर मुआफी चाही, जिससे दंड लेकर वह जागीर इसको वापस दी गई.

वि. सं. १९१४ में हिन्दुस्तान में गदर हुआ तब पालणपुर व अंग्रेजी फौज ने इस ठाकुर को सजा देने के वास्ते रहुआ गांव पर तोपों का मारा चलाया. ठाकुर ने उनके साथ मुकाबला किया, और फौज को नुकसान पहुंचाकर बाद पहाड में भाग गया. इसका देहान्त वि. सं. १९१८ में हुआ, और इसकी ठकराणी भटीयांणीजी रतनकुंवर भाटी नारायणदास नाथुसिंहोत गाम ' भागेल ' वाला की पुत्री पोस सुद ९ को सती हुई.

नं. ९ पृथ्वीराज अपने भाई नं. ८ उम्मेदसिंह को ओलाद न होनेसे पाट बैठा. वि. सं. १९२५ में इसको वासडा उर्फ वाडा गांव आबाद करनेका परवाना सिरौही रियासत से मिला. वि. सं. १९३३ में यह नाओलाद गुजर गया, जिससे नं. ९ वनेसिंह के पुत्र शिवनाथसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया.

× ईम विषय में कहा जाता है कि ठाकुर उम्मेदसिंह पालणपुर रियासत के साथ अच्छा बरताव नहीं रखता था, और पालणपुर की रियासत में रहुआ ठिकाने के जागीर के गांव हैं, उन गांवों के राजहक का आध नहीं देना चाहता था, जिससे दीसा से अंग्रेजी फौज का तोपखाना एरनपुरा की छांवणीकेतरफ जा रहा था, उसके अफसर को पालणपुर के मुत्सद्दी ने मित्र कर रहुआ ठाकुर को धमकाने का इशारा कर देने से, फौज ने रहुए मुकाम किया, और धमका ने की तजवीज की, लेकिन उम्मेदसिंह उनसे नहीं डटा और मुकाबला करने लगा, जिससे रहुआ पर तोपें चलाई गईं, कहा जाता है कि इस लडाईं में फौज के कई आदमीयां को नुकसान पहुंचा, और जब तक ठाकुर ने अपना माल असबाब व जनाना वालों को सहीसलामत गांव में से निकाल कर पहाड में नहीं भेजे वहां तक मुकाबला किया. दंत कथा में इस विषय में इनकी व इनकी ठकराणी के बहादुरी की बहुत सी बातें कही जाती है, उस वक्त चलाई हुई तोपों के गोले, इस समय में भी रहुआ गांव में मिलते है.


नं. ९ शिवनाथसिंह पाट बैठने बाद सात महीने के अरसे में ही गुजर गया, जिससे नं. ९ धनसिंह जोलपुर वाला के पुत्र अजीतसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया गया. कुछ समय बाद धनसिंह भी बगेर दूसरी ओलाद के गुजरा, जिससे रियासत ने जोलपुर की जागीर भी नं. १० अजीतसिंह को इनायत की. अजीतसिंह को रामपुरा गांव आबाद करने का परवाना वि. सं. १९४९ में इनायत हुआ. वि. सं. १९५४ में मरहूम महाराव साहिब केशरीसिंह बहादुर ने इसको व इसके जनाना वालों को सोना पहिन ने की इज्जत बरूशी.


नं. ११ लालसिंह वि. सं. १९६० में रहुआ के ठाकुर हुए. सन १९२२ इस्वी में जब कि राजपूताना में भील गिरासियों का बावेला मचा, तब रियासत की तरफ से इसने अपनी जमियत के साथ फौज में शरीक होकर अच्छी कामगिरी की थी. इसका देहान्त वि. सं. १९८१ में हुआ. इसकी ठकुराणी काबीजी हांजांकुंवर काबा परमार अमरसिंह वजेसिंहोत गांव 'थुर' की पुत्री से बाईं भोरकुंवर, व वाडलकुंवरबाईं व मानसिंह, वेरीसाल और सूरतसिंह के जन्म हुए.

नं. १२ मानसिंह रहुआ ठिकाना के मौजूदा ठाकुर है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, इसकी एक ठकुराणी उदावतजी शेरकुंवर गुंदवज के गोपालसिंह की पुत्री थी व दूसरी मेरतणीजी मोहनकुंवर वरकाणा के मेरतिया चंदनसिंह की पुत्री है.

५ वंशवृक्ष वरमांण परगने मंदार के सांगावत.

१ पहाडसिंह ( सांगावत रहुआ के वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) ओ. ग्रां. वरमांण.






नोट—वरमाण की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. इस जागीर का नवलसिंह मौजूदा पाटवी है.

६ वंशवृक्ष वागदा उर्फ मगरीवाडा परगने मंढार के सांगावत.


१ रडमल ( रहुआ के सांगावन वंशवृक्ष में नं. २ वाला) ओ. ग्रां. वागदा उर्फ मगरीवाडा.



नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से लिया जाता है, मौजूदा पाटवी जूजारसिंह है. जूजारसिंह के शिवनाथसिंह नामका पुत्र है.


६ (अ) वंशवृक्ष वागदा परगने मंढार के सांगावत छोटभाई नाओलाद.

१ जोरसिंह ( नं. १ रडमल का छोटा पुत्र नं. २ देखो वंश वृक्षवागदा नं. ६ में.)



६ (आ) वंशवृक्ष वागदा के सांगावत दूसरे पडवा वाले.

१ लालसिंह ( नं. १ रडमल का छोटा पुत्र नं. २ वाला वंशवृक्ष वागदा नं. ६ में ) दूसरा पडवा वागदा.




नोट—ईस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

७ वंशवृक्ष ईदरला परगने पामेरा के सांगावत.

१ वीरमदेव ( हरणी के सांगावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. )

२ सुजसिंह




नोट—यह गांव सारणश्वेरजी महादेव के पट्टे का है. इस गांव के सांगावतों को बएवज गांव की हीफाजत के मुकर्ररा अरठों के अलावा कितनीक लागत भी मिलती है.



## ८ वंशवृक्ष जोलपुर परगने पामेरा के सांगावत.


जोलपुर की जागीर सांगा के पुत्र सबलसिंह को मिली थी, जो बाद में नाओलादी हो जानेसे रहुआ जागीर के शामिल हो गई, जो फिर रहुआ के सांगावत नं. ७ धनसिंह को मिली, और धनसिंह भी नाओलाद गुजर जानेसे फिर रहुआ जागीर के शामिल हो गई.

१ सबलसिंह (हरणी के सांगावतों के वंशवृक्ष में नं. २ वाला सांगा का पुत्र) नाओलाद.



## ९ वंशवृक्ष वडवज परगने मंढार के सांगावत.

१ सेका (हरणी के सांगावतों के वंशवृक्ष में नं. २ वाला सांगा का पुत्र) ओ. ग्रां. वडवज.




नोट—इस जागीर में राजहक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है. नं. ७ जवानसिंह को 'केसुआ खेडा' वि. सं. १९३४ में, और नं. ७ जवानसिंह व नं. १

जालमसिंह यह दोनों को ' कलाणी खेडा ' वि. सं. १९१७ में आवाद करने का परवाना रियासत से इनायत हुआ है. इस जागीर का पाटवी खुसालसिंह को १ लालसिंह २ धोकलसिंह ३ मोडसिंह ४ सोनसिंह नाम के च्यार पुत्र है.

१० वंशवृक्ष केसुआ परगने मंडार के सांगावत.


केसुआ गांव में डुंगरसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे गांव वैरान होकर खालसा राज रहाथा, जो वि. सं. १९३४ में वडवज के नं. ७ जवानसिंह रूपसिंहोत को आवादी के वास्ते दिया गया.

१ डुंगरसिंह ( वडवज के सांगावत के वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) नाओलाद.



११ वंशवृक्ष रायपुर परगने मंडार के सांगावत.


१ साहेबखान ( वंशवृक्ष वडवज के सांगावत में नं. २ वाला ) ओ. ग्रां. रायपुर.



इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. रायपुर का पाटवी चमनसिंह को धोकलसिंह व भोपालसिंह नाम के दो पुत्र है. और हडमतिया के पाटवी हेमसिंह को लक्ष्मणसिंह व वसंतसिंह नाम के दो पुत्र है.

## १२ वंशवृक्ष सेरुआ परगने पामेरा के लखावत.


१ कृष्णसिंह ( लखावत सामन्तसिंहोत वंशवृक्ष नं. १ में नं.  $\frac{३}{१}$  वाला ) नाओलादी होने से सेरुआ गांव रहुआ ठिकाने को आवादी के लिये दिया.




## १३ वंशवृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. १.

सणवाडा की जागीर कृष्णसिंह के पुत्र जोगराज को वि. सं. १६९९ में महाराज अखेराज ने दी, जिससे यह सेरुआ गांव से सणवाडे आया. जोगराज के पोते शार्दूलसिंह व भोजराज की अलग २ पांती इस गांव में हुई, और दोनों पांती वालों के हुकनामा व पगडी बंधाने की रसम अदा होने लगी. शार्दूलसिंह के पुत्र कलसिंह की तीसरी हुकमनामा पांती हुई थी, लेकिन उस पांती में नाओलादी होनेसे वि. सं. १९२३ में भूतसिंह अखेराजोत की पांती व वि. सं. १९४६ में नाथुसिंह रामसिंहोत की पांती, पांती नं. १ के पाटवी नं. १० अनाडसिंह को रियासत से इनायत हुई, जिससे सणवाडा में इस समय दो हुकमनामा पांती विद्यमान है.

१ जोगराज ( सेरुआ के लखावतों के वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) ओ. ग्रा. पांती नं. १ सणवाडा.




४ लाडखान ( चलू वंशवृक्ष सणवाडा परगने पांमेरा के लखावत पांती नं. १ में नं. ३ शादूलसिंहका पुत्र. )



नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, पांती नं. १ का पाटवी मानसिंह है, जिसको रावतसिंह, मोतीसिंह, और हिम्मतसिंह नामके तीन पुत्र है.


१४ वंशवृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. ३ नाओलाद.

१ कलसिंह ( सणवाडा पाती नं. १ के लखावतों के वंशवृक्ष में नं. ४ वाला.) नाओलाद. पांती नं.१को इनायत



१५ वंशवृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. २.


१ भोजराज ( सणवाडा के लखावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष नं. १३ में नं.  $\frac{३}{१}$  वाला ) ओ. ग्रां. सणवाडा पांती नं. २.



इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

१६ वंशवृक्ष भामरा पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव के लखावत राजपूत.

१ धीरसिंह (सेरुआ परगने पामेरा के वंशवृक्ष में नंबर  $\frac{२}{२}$  वाला.) राजपूत दावे.




नोट—यह भामरा गांव श्रीसारणेश्वरजी महादेव के पट्टा का है. इस गांव की हिफाजत, उपर्युक्त वंशवृक्ष वाले लखावतों व ठाकुर रहुआ के तरफ है, जिसके एवज में इनको गांव की उपज में से ठहराव मुआफिक मुकररा आमदनी मिलती है.

१७ वंशवृक्ष रेवदर परगने मंडार के लखावत (वागदावाले) राजपूत.

लखावत सामन्तसिंहोत वंशवृक्ष नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला नगसिंह को वागदा मिला था, उसकी ओलाद के छोटभाई में से, लादसिंह धींगावत रेवदर में आया. वागदा के लखावतों के पाटवों में नाओलादो होनेसे वह जागीर ठिकाने रहुआ को दी गई, और रहुआ से यह गांव अपने छोटभाई को दिया गया. वर्तमान समय में लादसिंह की ओलाद के रेवदर गांव में राजपूत दावे आबाद हैं, जहांपर उनके तरफ अरहट व खेत आदि ठिकाने रेवदर के तरफ से मुआफी में हैं.

१ नगसिंह ( वंशवृक्ष नं. १ लखावत सामन्तसिंहोत में नं. ३ वाला. ) नाओलाद वागदा.




## प्रकरण ८ वां.

### लोटाणचा व बालदा के देवडा.

महाराव शिवभाण उर्फ शोभा नं. ७ वाले के पुत्र नं. १ शिहा व. नं. ६ सातल को बालदा (वारीघाटा) की जागीर मिली थी, मगर बाद में शिहा के पुत्र लालसिंह ने वि.सं. १४९९ में लोटाणा गांव बसाया और वहां रहने लगा, व सातलकी ओलाद बालदा में रही. लालसिंह लोटाणा गांव में जानेसे, उसकी ओलाद 'लोटाणचा देवडा' कहलाई, और सातल की ओलाद वाले 'बालदा के देवडा' कहलाये. लोटाणचा देवडों के तरफ लोटाणा गांव की जागीर थी, मगर नाओलादी होनेसे लोटाणा गांव वैरान हो गया, और वह गांव खालसे राज हुआ. नं. १ जुजारसिंह के पुत्र सांवलदास को नाणा ( हाल ईलाके जोधपुर) में जागीर मिली, जिससे वह नाणा गांव में चला गया. वर्तमान समय में लोटाणचा देवडों के तरफ जागीर के गांव नहीं हैं, परन्तु नं. १६ चमनसिंह धनारी गांव में राजपूत दावे रहता है, जिसको चाकरी के एवज में अरहट का महसूल मुआफ है. सांवलदास की ओलाद वालों के तरफ नाणा गांव में भोमिया के तौरपर जागीर है, व उनकी ओलाद में से गलसिंह लादसिंहोत व प्रेमसिंह वदसिंहोत को रियासत सिरोही से सादलवा गांव ( परगने पिन्डवारा का ) आबाद करने को परवाना दिया गया था, मगर परवाना की शर्तों के मुआफिक गांव आबाद नहीं करने से, वि. सं. १९५४ में खालसा राज हुआ. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले सादलवा गांव में राजपूत दावे आबाद हैं, और चाकरी के एवज में मुकरर जमीन का महसूल मुआफ रहता है.


१ वंशवृक्ष लोटाणचा देवडा धनारी परगने रोहीडा ( राजपूत दावे ).



११ दोलतसिंह (चलू वंशवृक्ष नं. १ लोटाणचा देवडा धनारी परगने रोहीडा (राजपूत दावे) ).

१२ वीरभाण

१३ हरनाथ



२ वंशवृक्ष लोटाणचा देवडा सादलवा परगने पिन्डवारा ( राजपूत दावे ).

१ जुजारसिंह ( लोटाणचा देवडा वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) सादलवा में राजपूत दावे रहते हैं. नं. ९ गलसिंह व नं. ९ प्रेमसिंह, गांव आबाद करने को सादलवा में आये थे, लेकिन शर्त मुआफिक आवादी न होने से गांव खालसे राज है.

२ शामलदास

३ आसकरण

४ भीमसिंह

लादसिंह

जोधसिंह

रामसिंह

अजबसिंह

५ इसरदास

५ उग्रसेन

५ महासिंह

रामसिंह

नाहरसिंह

हट्टेसिंह

कलसिंह

६ नाथुसिंह

६ सूरतसिंह

६ शकसिंह ( इसकी ओलाद नाणा ईलाके जोधपुर में है. )

कहानसिंह

जेतसिंह

जीवसिंह

७ जामतसिंह

जुजारसिंह

७ देवीसिंह (नाणा ई. जोधपुर.)

८ लादसिंह

८ बदसिंह

खेमसिंह

८ रामसिंह

२ (नाणा में)

९ गलसिंह

९ पनसिंह

९ गजेसिंह

मकनसिंह

९ तेजसिंह

९ जुवानसिंह

९ प्रेमसिंह

९ मानसिंह

१० ओखसिंह सग्रामसिंह

रावतसिंह

किरतसिंह

१० शिवसिंह

१० धुलसिंह चमनसिंह (गोद गया)

१० लक्ष्मण समरथसिंह

१० धनसिंह

१० अचलसिंह

१० लालसिंह

अर्जुन

१० हेमसिंह

जोरसिंह

१० वखतसिंह

उमसिंह

अमरसिंह

मूलसिंह

गाद आया चमनसिंह

२ (अ) वंशवृक्ष लोटाणचा देवडा नाणा ई. जोधपुर में रहते हैं उनका.

१ रामसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ लोटाणचा देवडा सादलवा में नं. २ वाला. )

२ सरदारसिंह

२ धीरसिंह

२ वाघसिंह


२ पवासिंह

३ सबलसिंह




२ (आ) वंशवृक्ष लोटाणचा देवडा, नाणा ई. जोधपुर में रहते हैं उनका.

१ देवीसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ लोटाणचा देवडा सादलवा में नं.  $\frac{७}{१}$  वाला. )



२ (इ) वंशवृक्ष लोटाणचा देवडा, नाणा ई. जोधपुर में रहते हैं उनका.

१ शक्तसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ लोटाणचा देवडा सादलवा में नं.  $\frac{६}{२}$  वाला. )




३ वंशवृक्ष बालदा के देवडों का, बालदा परगने पिन्डवारा ( वारीघाटा ).


१ सातल ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं.  $\frac{६}{२}$  वाला ).

२ गोपालसिंह

३ राजसिंह



१० शिवदान ( चल् वंशवृक्ष नं. ३ वालदा के देवडों का वालदा परगने पिन्डवारा (वारीघाटा) ).



नोट—इस जागीर में राजहक बएवज खास फर्ज के मुआफ है.



## प्रकरण ९ वां.


### डुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत.

राजकुल देवडा चौहान वंशवृक्ष में नं. ७ वाला गजेसिंह, नं. ६ महाराव रडमल के दूसरा कुमार का पुत्र डुंगरसिंह की ओलाद वाले 'डुंगरावत' कहलाये. डुंगरावतों में १ पाडिव, २ कालंद्री, ३ मोटागांव व ४ जावाल, यह च्यार ठिकानों के सरदार 'सरायत' यानी रियासत के मुख्य सामन्त है, जिसमें पाडिव व जावाल ठिकाने के 'रामावत,' और कालंद्री व मोटागांव के 'सूरावत' है. 'रामावत' शाखा 'सवरावत' शाखा से निकली है. सवरसिंह व सूरसिंह यह दोनों डुंगरावत नरसिंह के पुत्र थे, उनके नाम से यह शाखाएं कहलाई है, सूरसिंह व सवरसिंह इन दो भाईओं में कौन बड़ा था, इस विषय में मत भेद है, लेकिन डुंगरावतों में पाडिव ठिकाना पहिले दर्जे का गिना जाता है, जिससे रामसिंह को पाडिव मिला वहां तक का डुंगरावतों का इतिहास, इस प्रकरण में अंकित किया गया है, और सूरसिंह की ओलादवालों का इतिहास दूसरे प्रकरणों में दीया गया है.

१ वंशवृक्ष ठिकाना पाडिव परगने मगरा के रामावतों का.

१ गजेसिंह ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ७ वाला. )

२ डुंगरसिंह



\* नं. ३ व ५ के पाटवीओं की वंशावली इसी प्रकरण में इस वंशवृक्ष के संक्षिप्त इतिहास में दर्ज की है.

मौजूदा ठाकुर साहब पाडिव-रियासत सिरोही.




सभा भूषण ठाकुर साहब अभयसिंह-ठिकाना पाडिव.

[ विभाग दूसरा पृष्ठ ९८ नं. १९ ]



१० मुकुन्ददास (चलू वंशवृक्ष नं. १ ठिकाना पाडिव परगने मगरा के रामावतों का.



### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ गजेसिंह अपने बड़े भाई महाराज शिवभाण उर्फ शोभा के पास चंद्रावती में ही रहने थे, इसकी राणी सोलंकणी देवकुंवर सोलंकी जगमाल की पुत्री, चंद्रावती में सती हुई.

नं. २ डुंगरसिंह ने अपने मामा को मार कर राडवर की जागीर, २४ गांवों के साथ वि. सं. १४४६ में ली, और राडवर गांव की खोह में वि. सं १४५२ में गणेशजी का मन्दिर बनवाया, वैसा बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है. डुंगरसिंह से 'डुंगरावत' शाखा कहलाई गई.

नं. ३ आलहणसिंह की पुत्री गुमानकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा शक्तसिंह के साथ हुआ था.

नं. ३, भेदा को राडवर गांव की जागीर मिली, बाद वह छूट गई, इसकी ओलाद वाले 'भेदावत' कहलाये. वर्तमान समय में चूली, गोडाणा, चोटीला, तेलपुर, पिन्डवारा आदि सिरोही रियासत के गांवों में व जोधपुर रियासत के पुनंग गांव में और पालणपुर रियासत के 'गढरा' आदि गांवों में 'भेदावत देवडे' हैं, जिनका अहवाल दूसरे प्रकरण में लिखा गया है.

नं. ३, जाजण को 'मालणु' की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद वाले

‘मालणवा’ कहलाये गये. वर्तमान समय में वीरवाडा, सिवेरा, सवरली, वीरोली, सोणवाडा आदि सिरोही रियासत के गांवों में ‘मालणवा देवडे’ है, जिनके वंशवृक्ष दूसरे प्रकरण में अंकित किये गये हैं.

नं. ३ भीडा को पोसलिया की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद ‘पोसालचा’ कहलाये गये, लेकिन बाद में नाओलादी हो गई. वर्तमान समय में इसकी ओलाद होना मालूम नहीं होता है.

नं. ४ तेजसिंह को वि. सं. १५१५ में ‘ओडा’ की जागीर मिली, इसने वि. सं. १५१६ में वडुआ को ओडा गांव से सीख दी.

नं. ५ नरसिंह ओडा में रहा, इसकी ठकुराणी सिधलजी राजकुंवर, सिधल जोधसिंह जेतसिंहोत की पुत्री वि. सं. १५७५ में अपने पति के पीछे ओडा गांव में सती हुई.

नं. ६ कल्याणसिंह के पुत्र देदा से ‘देदावत’ कहलाये. इसको ‘नावी’ पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन बाद में वे जागीर के गांव इलाके जोधपुर में गये. वर्तमान समय में जोधपुर रियासत के गांव नावी, भादुंडा आदि में ‘देदावतों’ की जागीरें हैं. देदा पालडी गांव में था, उसको देवडा हामा रतनावत ( चूली के नं. ४ भेदावत ) ने मारा था, देदा से क्रमशः नावी गांव में २ पता, ३ उग्रसेन व ४ लादासिंह हुआ. लादासिंह के पुत्र गोकुलसिंह व भगवान नाओलाद हुए, और तीसरा पुत्र ५ ओटसिंह से क्रमशः ६ सरदारसिंह, ७ वदसिंह, ८ अमरसिंह, ९ कलसिंह, १० रत्नसिंह व ११ भभूतसिंह हैं. भभूतसिंह नावी के मौजूदा ठाकुर हैं, जिसका पुत्र किशोरसिंह है.

नं. ७ मांडण के पुत्र कुंभकरण से ‘कुंभावत’ कहलाये है, ‘कुंभावतों’ की ओलाद सिरोही रियासत के गांव सीलदर, लाय, तलेटा, सीवागांम, मांडांणी, मेरमांडवारा, तवरी आदि गांवों में है, जिसमें मेरमांडवारा की जागीर ताजीमी ठिकाना है, और रियासत जोधपुर में ‘रायपरिया’ गांव में भी कुंभावतों की जागीर है, जिसका अहवाल ‘कुंभावत देवडा’ के प्रकरण में लिखा गया है.

नं. ८ रुद्रसिंह का पोता वजेसिंह से ‘वजावत’ कहलाये गये. रुद्रसिंह की ओलाद वाले सिरोही रियासत के गांव मणादर, झाडोली, देलदर, वडा लोटीवाडा, छोटा लोटीवाडा, अणदोर, वावली, सतापुरा, वेरापुरा, व मोरली आदि गांवों में है, और जोधपुर रियासत के ‘भरुडी’ आदि गांवों में भी है. जिनका अहवाल दूसरे प्रकरण में दिया गया है.

नं. ९ गांगा से गांगावत कहलाये गये. इसकी ओलाद वाले रियासत सिरोही के गांव जेला, सणपुर, फलवदी में, और जोधपुर रियासत के गांव वडी पुनंग में है, जिनके वंशवृक्ष गांगावत देवडों के प्रकरण में अंकित किये गये हैं.

नं. ६ आंबा की ओलादवाले आंबावत कहलाये गये, वर्तमान समय में आंबावतों की कोइ खास जागीर नहीं है, लेकिन सिरोही रियासत के गांव लाय परगने झोरा में आंबा से क्रमशः २ सालसिंह, ३ सामन्तसिंह, ४ हिन्दुसिंह, ५ हमीरसिंह, ६ वोहारीदास, ७ गजेसिंह, ८ लालसिंह, ९ जसवन्तसिंह, १० पनेसिंह व ११ वनेसिंह हुए. वनेसिंह के पुत्र १२ तेजसिंह और १३ वेरीसाल मौजूद है, जो राजपूत दावे रहते है. ईनको लाय के जागीरदार के तरफ से अरहट व खेत मुआफी में है.

नं. ६ सवरसिंह बहादुर सरदार था, इसके विषय में मूतानेणसी ने लिखा है कि जब देवडा वजेसिंह ने महाराव मानराव के बालक पुत्र को गद्दी पर बैठाया, और वह थोडे दिनों में मरगया, तब वजेसिंह ने इसको कहा कि मुझे गद्दी पर बैठा दो, लेकिन इसने जवाब दिया कि जबतक महाराव लखा की ओलाद का एक या दो वर्ष की उम्र का भी लडका विद्यमान होगा वहांतक, किस की मजाल है कि तुझे गद्दी पर बैठा सके, ऐसा कहकर सवरसिंह सिरोही से चला गया, बाद में जब वजेसिंह को निकाल कर, मेहाजल का पुत्र कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर बैठा, तब यह भी अपने भाईओं के साथ दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन कल्याणसिंह का मुसाहिव चीबा पाता इनसे नाखुश था, जिससे उसने यह लोग जिस जाजम पर बैठे थे, वह जाजम उठा लानेका फररास को कहा, जो बात मालूम होने पर सवरसिंह नाखुश होकर अपने भाईओं के साथ महाराव सूरताणसिंह के पास चला गया, और वजेसिंह देवडा जो इडर चला गया था, वहां से उसको बुलाकर, सूरताणसिंह को पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न शुरु क्रिया, पहली लडाई जीरावल गांव के पास हुई, जिसके विषय में कवि कहता है कि—

“ चढ सूरु आया सवर भारत फौजां भंज, कांकल जीरावल करे गढपत मोटा गंज. ”

“ चढ सूरु आया सवर पवंगज पाखरीया, जोधा रे भोड जरद उपर खड आया. ”

“ चढ वजमल सूरु सवर सोह वीजली चलाव, हालां हीमाला हुती तकां आंणीयां तलाव. ”

दूसरी लडाई कालंद्री के पास हुई, जिसमें सवरसिंह का भाई सूरसिंह काम आया, लेकिन कल्याणसिंह सिरोही छोडकर भाग गया, इस विषय में कवि कहता है कि—

“ कलारा भांगे कटक वडहत ईम वरदावरी, साम धरम लडे सूरु सवर सोढ समापी शोवपुरी. ”

“ कालंद्री जुध करे सवर खीमो सकोडे, कलो भाज काढीयो वोहस इम खाग वहोडे. ”

“ सूरु सवरे वजे कीयो भारत सुपाणे, उग्राहीयो अरवद रेस खग दीयो सुराणे. ”

“ नवड भड त्रह मोटे नरे कलह नाम चंदो कीयो, सोढ ने वगगा दिन सरणुवे अवचल सूरु थापीयो. ”

सवरसिंह की जागीर इस समय में हालीवाडे थी, वि. सं. १५९० में इसने हालीवाडा गांव से बडुआ को सीख दी थी. वि. सं. १६२९ के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्र पत्र से पाया जाता है कि, यह देवडा वजेसिंह के मुआफिक ही महाराव का मुसाहिव था.



वि. सं. १६४० में जबकि सिसोदीया जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दिलाने के वास्ते अकबर बादशाह ने सिरोही पर फौज भेजी, उस वक्त आबू के पश्चिम में दताणी गांव में, शाही फौज के साथ देवडा चौहानों का प्रचंड युद्ध हुआ, उस युद्ध में सरवसिंह ने बड़ी नामवरी पाई, इस विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि,

“ सवर महा भड मेर वड तों उभां वरीयाम, सिरोही सूरताण सुं चाहे कुण संग्राम. ”

सवरसिंह ने राठौर शार्दूलसिंह कुंपावत जो शाही फौज में बहादुर सरदार था, उसके साथ युद्ध किया था, इस विषय से कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

“ भ्रम रा वंध भांज अगम रा भेदु, मत्त रा धणी सु धर्मरा मूल. ”  
 “ वंम रा कुंत दु गंम वणीया समरा वर जमरा सार्दूल. ”  
 “ समरो स मुख चाल सक सादे, पह जल पावक अवक पहार. ”  
 “ हक निंधक जक कटक हीलोले, सक अंतक तण कियो सुमार. ”  
 “ समर भूजालगिर मुभ्रम जीवी भाल ठाल उर जेण. ”  
 “ रज रख पाल काल रो पंते ताल उडाल भेदियो तेण. ”

दूसरे गीत में कवि कहता है कि

“ सिध साथ वे हातल सेल साहीये, मध कर कहर तणे कल मूल. ”  
 “ समरो घणो वचे साखेतां साधक ओलखीयो सार्दूल. ”  
 “ मंडोवरे मोहर मेवाडो भाले उछ झीया वारात. ”  
 “ ठग नामी वच घणा ठाकरां नजर अंतक किये दसमे नाथ. ”  
 “ आलहण हरो अखाहर उपम सेल सु वंध वल साख संसार. ”  
 “ जोधपरो साचे जोगेसर हेरियो वीयां सोद्धां तण हार. ”  
 “ नरसिंहोत मिले गिर नंदन धार प्रहार ध्रवे खत धोड. ”  
 “ धर खाईक साचो धुतारो राखस सिद्ध लियो राठौड. ”

तीसरे गीत में कवि कहता है कि

“ एकल नह रोई नार अतली वल, घर घर धाहुकार घणो, सवरो त्रीहु माजीया साटे तुंग मुओ नरसिंध तणो. ”  
 “ जेत जुहार राव जोधपुरो, वह चित्तोडो मेर वड, चलोयो सवरो साथ चलावे, अतरां सुं चलतो अवड अवड. ”  
 “ दाणव घाट वराड देवडो, घणी रंडावे घणे घरे, रायां भीच गयो रायांगुर, केवीयां दिशां न चींत करे. ”

दंत कथा में कहा जाता है कि सवरसिंह का इरादा युद्ध छोडकर चले जानेका हुआ था, जिससे वह जाता था वहांपर रास्ते में कितनीक स्त्रियों, इकट्ठी होकर खुशी मना रही थी, और एक सुन्दर वाला वाजु पर खडी रहकर अफसोस कर रही थी, यह देखकर सवरसिंह ने उनसे दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वे सब इन्द्र की अपसराएं थी, और इस युद्ध में वीरत्व से लडकर काम आने वाले वीरपुरुषों को वरने के वास्ते जमा हुई हैं, जो एक वाला अफसोस करती थी उसका कारण यह बताया कि, वह देवडा सवरसिंह के साथ वरने को आईथी, ओर सवरसिंह खेत छोडकर जा रहा है,

परन्तु इस विषय में जो दोहे उदलब्ध हुए हैं उनसे मालूम होता है कि, सवरसिंह खेत छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रातः काल के समय में शौच कर्म के वास्ते जंगल में गया था, वहां इसने उन अपसराओं को देखी, और उनसे पुछने पर उन्होंने बयान किया कि, हम ईन्द्र की अपसराएं हैं और शूरवीरों के साथ वरने के वास्ते आई हैं, अपसरा ने यह भी कहा कि शूरवीर वह कहलाते हैं कि जो पीछा पैर नहीं दें और युद्ध में अपना जान कुर्बान करें, यह सुनकर सवरसिंह ने वीरता से अपना जान युद्ध में कुर्बान करने का निश्चय कर लिया, और अपसरा को उस बात की तसल्ली दी, इस विषय में कवि कहता है कि—

- “ फजर उठ सवरो फरण लेहर हाजत कज, अमर रंभा उतरी कामणि सूरं कज. ”  
 “ कहे एम कामिनी सूर वीरां वरण, पडे नां आपके प्रसण पाडे धरण. ”  
 “ होमे तन अगन में नहीं पाछल फरे, वर्यो तन सवरसी मन पवनां फरे. ”  
 “ रंभावचन सुणी जरां दिया वचन देसोत, जो पाछल फेरुं जरां जग अंधेरो होये. ”  
 “ होये जग अंधेरो पछम दस उगसी, भगे का मेदनी दधि सत छोड सी. ”  
 “ रमण उठ रंभ अव केम चंत्या करे, वचन सुण रंभ रा एम सवरो अखे. ”

इसके बाद सवरा ने प्रचंड युद्ध किया, जिस के विषय में कवि कहता है कि—

छंद पधरी.

- “ जद चढ्यो वढण सवरेस वेग, मली घटा भू मंडल वरत मेग. ”  
 “ कोप्यो सवरेस विकराल रूप, महिपत सूरताण वरदही भूप. ”  
 “ भडे भीम वा रण अर्जून भूपाल, मली राम लखन कुंमो लंकाल. ”  
 “ मचलात सेस हल चली व्योम भूपत असव रोहत हाती पडत भोम. ”  
 “ भयोरुद्र कोप सवरो नरेश, गुंथत व्रमाल नांखत महेश ”  
 “ थट मले श्रेष्ठ भूताल डार, भ्रत आप गिधणी करत आहार. ”  
 “ वक वकत धरावे रुधिर खाल, हणु जेम करत हाकल नृपाल. ”  
 “ सहे इक अंवर मही उडत सोर, त्रह त्रह त्रंवक की वजत ठोर. ”  
 “ घण घाये घुमत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कूकंत मोर. ”  
 “ शूर धिर पडत कि वरत रंभ, गालण सूरताण केई वडा ग्रभ. ”  
 “ धर भेल किया कै वडा धींग, सिंघारिया शेष सवरेस सिंग. ”  
 “ पोढ्यो सवर प्रसणा पसाड, वरगई रंभ वैमान चाड. ”

जवकि कवि आढा दुरशा शाही फौज की सहायता में जखमी होकर पडा हुआ, खेत सम्भालते वक्त मालूम हुआ तब उसने खुद को चारण होना जाहिर करने पर, उसको जखमी हालत में इस युद्ध का बयान करने का कहने पर, कवि आढा दुरशा ने एक दोहा कहा कि,

“ धर लखां जस डुंगरां व्रद पोत्रां शत्रु हाण, सवरे मरण सघारियो चो थोके चहुआण. ”

इस युद्ध में सवरसिंह काम आया, जिसके स्मारक की छत्री दताणी गांव में इस वक्त

भी विद्यमान है. कवि आढा दुरशा के उपरोक्त दोहा को डुंगरावत देवडे अपनी स्वामी भक्ति के लिये प्रमाण बताकर मगरूर होते हैं.

नं. ६ सूरसिंह की ओलाद वाले सूरवत कहलाये, जिसका अइवाल दूसरे प्रकरण में लिखा गया है.

नं. ६ भीमसिंह की ओलाद वाले भीमावत कहलाये जो भूतगांव में है, और नं. ६ अर्जुनसिंह की ओलाद वाले अर्जुणोत कहलाये जो नुंनगांव में है, जिनके वंशवृक्ष दूसरे प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ७ भैरवसिंह को वागसिण पट्टा की जागीर मिली, इसने वि. सं. १६५१ में वडुआ इश्वरदास को वागंसीण गांव से सीख दी. जब महाराव रायसिंह और उनके भाई सूरसिंह के दरमियान विरोध बढ गया, तब यह अपने डुंगरावत भाईयों के साथ सूरसिंह की पक्ष में रहा था, और लखावत पृथ्वीराज वगैरह महाराव रायसिंह की पक्ष में थे. वि. सं. १६६८ में रायसिंह व सूरसिंह के दरमियान युद्ध हुआ, जिसमें सूरसिंह हार गया और भाग कर जोधपुर चला गया. जबकि लखावत पृथ्वीराज से महाराव रायसिंह नाखुश हुए, तब पृथ्वीराज जो मुसाहिव पद पर था उसको हटाकर भैरवसिंह को वि. सं. १६७४ में मुसाहिवी दी, ( महाराव रायसिंह के समय का ताम्रपत्र जो वि. सं. १६७४ के मागसर सुद ५ का उपलब्ध हुआ है, उसमें भैरवसिंह मुसाहिव होनेका उल्लेख हुआ है, ) इस कारण से लखावत पृथ्वीराज ने अपने पुत्र व भतीजों द्वारा जब भैरवसिंह सारणेश्वरजी महादेव के दर्शन को जाता था, तब रास्ते में दुदीया तलाव के किनारे चूक कराया, जिसकी छत्री बंधाई गई, जो वर्तमान समय में वहां पर मौजूद है.

नं. ७ नगसिंह की ओलाद के सवरावत मढीआं, फूंगणी, जांमोत्रा, वारेवडा, आदि गांवों में सिरोही इलाके में, और सुडेटी इलाके ईडर में व जोगांणी ईलाके मारवाड आदि गांवों में भी है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ७ नेतसिंह इसकी ओलाद वाले फूंगणी गांव में है. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ७ जयमल की ओलाद वाले सिरोडकी गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं ८ रामसिंह अपने पिता विद्यमान होनेकी हालत में महाराव सूरताणसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, यह किसी कारण से नाखुश होकर जालोर चला गया था, जहां जोधपुर के राजा ने वि. सं. १६६१ में इसको सीयाणा पट्टा की जागीर वारह गांवों के

साथ दी, इसने वि. सं. १६६१ में जालोर से बडुआ को सीख दी थी, लेकिन बाद में वि. सं. १६६३ में महाराव सूरताणसिंह ने इसको पांडिव की जागीर इनायत की. जबकी वि. सं. १६७७ में महाराव रायसिंह को लखावतों ने चूक किया, तब इसने +पर्वतसिंह सिसोदीया के साथ महल को घेरा डालकर लखावतों को घेर रक्खा, और महाराव का बालक कुमार अखेराज को बचाकर बहार निकाल लिया, बाद हमला करके लखावत पृथ्वीराज वगैरह को भगाकर महल कब्जे कर लिया. महाराव अखेराज के समय में रामसिंह ने श्यामधरमीपणे से चाकरी की थी, उस विषय में कवि जीवा लाधा ने वि. सं. १७५४ में कहा है कि.

- “ उग्राहत ग्रेहां सांकडे आयां दायणां तणो न लागो दाव. ”  
 “ शाह अखारे राम सरिखो एकोही राखत उमराव. ”  
 “ रोकियो वेटा तणो न राखत अखमल जेम लोत उवार. ”  
 “ रामा जसो न कवर को रावत दले सूरु थारे दरवार. ”  
 “ उवेडीयो प्रसण उझाडे अखमल ने आवु अनड. ”  
 “ जोगीरोत कीयो पख जोडे भैरव राव सारखा भड. ”

रामसिंह की चाकरी उनके दादे, सूरसिंह और सवरसिंह के जैसी होने के विषय में उक्त कवि कहता है कि.

- “ वडा डुंगर सारखो एक जोडी वडे पडे हाथे प्रसण चढे पुरो. ”  
 “ सामरा कामने सदा सुजड हता समर रा रामःने भैर सूरु. ”  
 “ कला भैरव तणो भला अचरज कसो कुल तणो जालीयो देख कांमा. ”  
 “ सूरने सवरसी हुता सूरताण रे राव अखेराज रे भैर रामा. ”

रामसिंह ने वि. सं. १६७० में पांडिव से बडुआ को सीख दी थी, और इसके पुत्र कैशरीसिंह को जीरावल की जागीर मिली थी, वैसा बडुआ की पुस्तक से पाया जाता है, क्यों कि कैशरीसिंह ने कुंवरपदे वि. सं. १६९७ में बडुआ चोखराज को जीरावल गांव से सीख देनेका उक्त पुस्तक में उल्लेख हुआ है.

रामसिंह वि. सं. १७०७ तक विद्यमान होना कायद्रां के ताम्रपत्र से पाया गया है. इसका देहान्त कब हुआ उसका हाल मालूम नहीं हुआ. कहा जाता है कि रामसिंह ने तीसरा विवाह राडदरोजी बालांदेकुंवर, राठौर हरिसिंह वाघसिंहोत की पुत्री के साथ किया था, जिसको सिर्फ हथलेवा का ही सुख प्राप्त हुआ था, और रामसिंह का देहान्त हो गया, जिससे वह अपने पति के पिछे सती हुई, इस विषय में कवि कहता है कि—

+ सिसोदीया पर्वतसिंह मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के भाई रुद्रसिंह का पुत्र था, जबकि महाराणा से मेवाड का राज्य छूट गया तब से पर्वतसिंह सिसोदी के महाराव की सेवा में रहा था, पर्वतसिंह को पिन्डवारा की जागीर देनेमें आई थी, जिसकी ओलाद वाले वर्तमान समय में, सांगवाडा, ऊदरा, नयापुरा, जणापुर (हाल काछोली) सांगवारा, इन गांवों में विद्यमान है.

- “ वर वरुणं राम करे वालांदि वीत संभाले घले गल वांह. ”  
 “ झीली भली कुसंवल झालां धाळाया रण दीधी दाह. ”  
 “ वे सरमीये रामा वाघावते हसत कमल लीयु फल हाथ. ”  
 “ बुगसाडा पहेरी नह वेठी सुरंग झालां झाली वर साथ. ”  
 “ सोढ हरी भई रव रा साथे लाधो जनम तणो फल लाभ. ”  
 “ राती झाल वरोल रामचंद उजलो करे लगायो आप. ”

रामसिंह की ओलाद वाले रामावत कहलाये.

नं. ६ सांगा की ओलाद वाले मडवारा (उड) परगने झोरा में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है, सांगा जोधपुर चला गया था, वहां इसको ' करमावस ' पट्टे की जागीर मिली थी.

नं. ७ महेशदास की ओलादवाले सवराटा परगने मगरा में हैं, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ८ करमसिंह की ओलाद वाले सवली परगने झोरा में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ९ करणसिंह, नं. ८ रामसिंह का बडा पुत्र होना मूतानेणसी की ख्यात से पाया जाता है, मगर वह बालकपण में ही गुजर गया था.

नं. १० केशरीसिंह ने कुंवरपद में भटाणा के ठाकुर मेघराज को मारा था, जिससे महाराव अखेराज ने इसको जीरावल की जागीर दी, जिसमें जावाल भी शामिल दिया, यह रहुआ में काम आया, इसके दो पुत्री जिस्में प्यारकुंवर का विवाह सादडी इलाके मेवाड के झाला अजीतसिंह के साथ, और दूसरी पुत्री जसांकुवर का विवाह जोधपुर के जोधा मानसिंह के साथ हुआ था.

नं. ११ लालसिंह का नाम नीतोडा गांव में वि. सं. १६८३ के शिलालेख से उपलब्ध होता है.

नं. १० मुकुन्ददास अपने दादा के पीछे पाट बैठा, इसने वि. सं. १७३१ में जावाल गांव में चारण अचला अखा को अरठ बडावा देनेका शिलालेख से पाया जाता है, और वि. सं. १७३५ में पाडीव से बडुआ हरीदान को इसने सीख दो. वि. सं. १७३६ के फाल्गुण वदी १ का महाराव वेरीसाल के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि, इसने जावाल गांव में अरठ सदरड चारण अजवा अखा भगवान को दिलाया था, जिसमें इनके नाम के साथ इसके दो भाई माधुसिंह व बीहारीदास के नाम भी अंकित है.

नं. १२ माधुसिंह की ओलाद इस समय जावाल, सींदरत, जीरावल, नुन, इन गांवों में है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. १० बीहारीदास की ओलाद नारादरा व ओडा गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकार में दिया गया है.

नं. ११ नारायणदास वि. सं. १७५९ से १७८६ तक विद्यमान होना पाया जाता है, इसका जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के साथ अच्छा नाता होना पाया गया है, जबकि जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह को औरंगजेब बादशाह ने मरवा दिया, और उसकी गर्भवती राणी को भी मारना चाहें, तब राठौरों ने जसवन्तसिंह की गर्भवती राणी को ' सिवाणागढ ' भेजदी, जहांपर महाराजा अजीतसिंह का जन्म हुआ, लेकिन वहां पर भी सुरक्षित रहने जैसा न होने से, जसवन्तसिंह की राणी व अजीतसिंह को सिरोही के महाराव बेरीसाल के आश्रय में राठौरों ने सिरोही भेज दिये, महाराव बेरीसाल ने उनको पोशीदा तौरपर रखने की गरज से, डोडुआ गांव में पाडिव व कालंद्री के ठाकुरों की हिफाजत में, एक\* राजगुर ब्राह्मण के वहां पर रखे. अजीतसिंह डोडुआ गांव में बड़ा हुआ, और नारायणदास के साथ उसका स्नेह बढ़ा, जबकि अजीतसिंह ने जालोर कब्जे किया तब जालोर से उसने नारायणदास व डोडुआ के देवडा कैशरीसिंह को एक पत्र मित्ती वि. सं. १७५९ का जेठ सुद १२ को लिखा है, उसमें अपनी कलम से लिखा है कि " तथा म्हे तयार छां थांनु बोल दीधो छै सो ध्रु अडग छे खातर जमै राखजो जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां स्ही " इस कागज पर महाराजा अजीतसिंह की महोर व सही है.

नारायणदास ने जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ शाही फौज की, सरदारी लेकर अहमदाबाद के सूबा ' सर्वलंदखां ' के साथ बड़ी वीरता से युद्ध करके उसको हराया था, ऐसा टॉड साहब अपने " ट्रावल्स इन वेस्टर्न इन्डिया " नामक पुस्तक में लिखते हैं, जो लडाईं वि. सं. १७८७ में जबकि महाराजा अजीतसिंह के पुत्र अभयसिंह को गुजरात को सुबेदारी मिली तब हुई थी. नारायणदास के तीन पुत्र होना वडुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन वि. सं. १७८२ का शिलालेख जो नीतोडा गांव में है, उससे पाया जाता है कि इसके एक बड़ा पुत्र अजबसिंह नामका और था, मगर वह गुजर जाने से नं. १२ शिवदानसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, परन्तु वह भी कम उम्र में नाओलाद गुजर जानेसे शिवदानसिंह के काका नं. ११ नरसिंह पाडिव का ठाकुर हुआ.

नं. ११ नरसिंह अपने भतीजा के पीछे पाडिव में पाट बैठा.

नं. ११ वांकीदास को ' वागसीण ' गांव की एक पांती की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकार में दिया गया है.

\* महाराजा अजीतसिंह को डोडुआ गांव में निज राजगुर ब्राह्मण ने पाला था, उसको पीछेसे महाराजा ने अपने पास बुलाकर पुरोहित पद देकर, बारह गांवों के साथ ' तवरी ' पट्टा की जागीर व पैर में सोना पहिन ने की इज्जत इनायत की, जिसकी ओलाद अबतक जोधपुर रियासत में ' तवरी ' की जागीर में मौजूद है.

नं. ११ अणंदसिंह के पुत्र हरिदास को ' मांकरोडा ' गांव ( जो नं. ९ नेतसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे पाडिव ठिकाना की जागीर शामिल हो गया था. ) की जागीर मिली. इस हरिदास के पास भी जोधपुर का कोई राजकुमार आश्रय लेकर रहा था. वैसा कहा जाता है. हरिदास की ओलाद में भी नाओलादी होजानेसे मांकरोडा गांव पुनः पाडिव ठिकाना के शामिल हो गया.

नं. ११ साहेबखान नाओलाद गुजर गया.

नं. १२ लाडखान अपने पिता के पीछे पाट बैठा, लेकिन ' वामणवाडजी ' में चूक हुआ जिसमें मारा गया.

नं. १३ हटेसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, यह बहादुर व दातार सरदार था, इसके वास्ते किसी कविने कहा है कि—

“ नव दीहा नव रात एकणदे भल ओलंगीयो, पनंग दीया परभात हद रीझो डुंगर हटो. ”

“ सोला मास सवाद फूल तणा प्याला फरे, आठ पहर उदमाद हद माणे डुंगर हटो. ”

“ काई ढील कलार भाटेसर आयो भमर, सुकुन्दहरो मत वाल हदमाणे डुंगर हटो. ”

“ रमतां झलतां रात गुणी आगल गावता, पीतांमत परभात हद माणे डुंगर हटो. ”

हटेसिंह किसी कारण से उदयपुर चला गया था, जहां उसको बारह गांवों की जागीर व खास उदयपुर में एक हवेली महाराणा ने बरूशी थी, लेकिन बाद में वह फिर पाडिव आगया. हटेसिंह ने वि. सं. १८०६ में पाडिव से बडुआ को सीख दी थी.

नं. १३ गुमानसिंह को ' पालडी ' गांव व ' वागसीण ' गांव की दूसरी पांती की जागीर मिली. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. १४ शिवदानसिंह ने वि. सं. १८३२ में बडुआ को सीख दी, और सिर्फ दो वर्ष पाट पर रहा, बाद यह नाओलाद गुजरने से इसका भाई नं. १४ अमरसिंह पाडिव का ठाकुर हुआ. शिवदानसिंह की छत्री पाडिव गांव में बंधाई गई, जो इस समय में मौजूद है.

\* उदयपुर में वह हवेली इस समय में भी मौजूद है, और हटेसिंह की हवेली के नाम से मशहूर है.

\* ठाकुर गुमानसिंह के विषय में ' राजवीर ' नामक गुजराती भाषा में छपी हुई पुस्तक में लिखा है कि, पाडिव ठाकुर मानसिंह का विवाह रतलाम के रामा की पुत्री के साथ हुआ था. उक्त पुस्तक में एक अदभूत कथा विस्तार से वर्णन की है, जिसका आशय यह है कि ठाकुर गुमानसिंह ऐसा बहादुर था कि वह अपने सुमराल जा रहा था, दरमियान रास्ते में अंधेरी रात्रि के समय में एक शेर अपने शिकार को पीठ पर लेकर आ रहा है, ठाकुर ने उस शेर को मार दिया, और शिकार को देखा तो अपनी ठकुराणी ( रतलाम के महाराजा की पुत्री ) होना मालूम हुआ, उसने उसको अपने बोड़े पर ले ली और रतलाम पहुंचा.

नं. १४ अमरसिंह अपने भाई के पीछे पाट बैठा, इसने वि. सं. १८४९ में बडुआ को सीख दी, यह वि. सं. १८५५ में श्रीसारणेश्वरजी में दूसरे इक्कीस आदमीओं के साथ काम आनेका, सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर के बहार इसकी छत्री बनी है, उसपर के शिलालेख से पाया जाता है.

अमरसिंह का पुत्र वनेसिंह बालक अवस्था में गुजर जानेसे नं. १३ पालडी के गुमानसिंह का पुत्र मोकमसिंह, नं. १३ हटोसिंह का दत्तक पुत्र बनकर पाडिव का मालिक हुआ.

नं. १४ मोकमसिंह पाट बैठा तब हुकमनामा की रसम में वाटेरा गांव रियासत में लेलीया गया. इसने वि. सं. १८५७ में बडुआ को सीख दी.

नं. १५ रत्नसिंह ने वि. सं. १८७६ में बडुआ को सीख दी. यह वि. सं. १८६२ के पहिले पाडिव का ठाकुर होना पाया जाता है, उदयपुर महाराणा के साथ पाडिव ठाकुर हटोसिंह के वक्त से पाडिव ठिकाने का अच्छा नाता हुआ था, जिससे विवाह शादी के प्रसंग पर पाडिव के ठाकुर को उदयपुर से आमंत्रण होता था, वैसा उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के समय की, महाराणा कीसही और भाला से अंकित हुई वि. सं. १८६२ के महा सुद ११ की ँकंकु पत्री, जो रत्नसिंह के नामकी है उससे मालूम होता है.


जबकि महाराव उदयभाण के वक्त में रियासत के प्रबंध में अव्यवस्था हो गई, तब च्यारों डुंगरावत सरायतों ने नादीआ के राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रबंध अपने हाथ में लेनेकी सिफारिश की, जिस पर वि. सं. १८७४ में उसने सिरोही का राज्य प्रबंध अपने हाथ में लिया, और च्यारों सरायतों ने सारणेश्वरजी महादेव के समक्ष प्रतिज्ञाकी

\* १ भीमसिंह २ सिधल फता ३ अणंदा ४ मेघा ५ कुकड गंमा ६ देवडा रामा ७ राठौर कला ८ केसवाल जीवा ९ जालेस वीहारी १० सग्रामसिंह ११ सवांगमो बलु १२ सवांगमो लालो १३ सिधल वीहारी १४ सूरताणसिंह १५ कसवाल संत घमंडो १६ देवडा करसन १७ देवडा रीदा मांमावली १८ वजीर डांको १९ × २० सदो आदि रामावन अमरगिंह पाडिव वाले के साथ काम आये थे

÷ श्री गणेश प्रसांदातु

श्री राम जयति

श्री एकलिंग प्रमादातु



श्री

स्वस्ति श्री उदैपुर सुयाने महाराजा धिराज महाराणा श्री भीमसिंहजी आदेशतु देवडा रतनसिंह कस्य

१ अप्र वायारा लगन फागण सुद ३ श्रुके रा है जणी उपे वेगा आवोगा संवत १८६२ वर्ष महा सुद ११ सोमे



कि हम हमेशा राज्य के वफादार रहेंगे, और राज्य की फौज में रिसाला के तौरपर नोकरी देंगे, सारणेश्वरजी को बीच में रखकर इस मजमून का इकरार वि.सं. १८७८ में लिखा गया, और इसी सबब से इन च्यारों सरायतों के तरफ की जागीरों में राज्यहक आठआनी ठहरा था, उसके वजाय छः आनी हक लेनेका शरू हुआ. यह सब तजवीज रत्नसिंह के वक्त में हुई, इसने वि. सं. १८७६ में बडुआ को सीख दी, और वि. सं. १८८८ में वाटेरा गांव जो खालसे राज था, वह वापिस रियासत ने इसको इनायत किया.

नं. १६ भभूतसिंह वि. सं. १८९३ में अपने पिता के पीछे पाट बैठा, वि. सं. १९०१ में इसने बडुआ को सीख दी. भभूतसिंह नाओलाद गुजरने से पालडी के नं. ३ प्रतापसिंह का पुत्र दोलतसिंह वि. सं. १९०६ में इसके गोद आया.

नं. १७ दोलतसिंह ने वि. सं. १९३३ में बडुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने से, वागसीण पांती नं. २ में से नं. ४ शिवनाथसिंह का पुत्र मूलसिंह गोद आया.

नं. १८ मूलसिंह वि. सं. १९३८ में वागसीण से गोद आया, इसने वि. सं. १९४६ में बडुआ को सीख दी.

नं. १९ अभयसिंह वि. सं. १९५५ में अपने पिता के पीछे पाट बैठे, जो मौजूदा पाडिव के ठाकुर हैं, इसकी नावाली में ठिकाने का इन्तिजाम रियासत ने अमीन मुकरर करके रखा था. ठाकुर अभयसिंह ने अजमेर मेओकॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम पाई है, देवडा चौहानों का इतिहास देखते ठिकाने पाडिव और निवज के दरमियान हमेशा से विरोध चला आता था, लेकिन ठाकुर अभयसिंह ने अपनी विद्या का सदुपयोग करके निवज ठिकाना के साथ मेलझोल कर लिया, और अपने ठिकाने का अच्छा प्रबंध करने के लिये पार्टीशन के कानून मुआफिक रियासत के साथ ठहराव नं. ६६७ ता.३ मई सन १९२३ ईस्वी के जरिये से कितनेक गांव व सालाना रु. ४४२५) रियासत में देनेका तय करके अपनी जागीर आवगी करली.

पाडिव ठिकाना को पहिले दीवानी फौजदारी के इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उक्त ठहराव से इस ठिकाना को फौजदारी मुआमिलात में तीसरे दर्जे के न्यायाधिश के व

नोट: पाडिव ठाकुर साहब अभयसिंह को पैर में कसर होनेसे गांव पालडी के नं. ५ मानसिंह को मरहूम ठाकुर मूलसिंह के गोद देनेकी तजवीज हुई थी, लेकिन पोलीटीकल एजेंट कर्नल वायली साहब की सलाह से वह तजवीज मुलतवी रही. हकीकत में उक्त साहब की सलाह बहुत दुरुस्त निकली, क्यों कि ठाकुर साहब के पैर में कसर होनेकी हालत में भी, घोड़े की सवारी अच्छी तरह कर सके हैं और शिकार खेलने में भी अच्छे निशान बाज हैं,

सिरोही रियासत में इस समय राजवियां को बाद करत विद्याभ्यास करने वालों में देखा जाय तो, सबसे अब्बल यही सरदार हैं. महाराज साहब ने जो 'सभा भूषण' का खिताब अता फरमाया है, वह इसने सम्पादन की हुई विद्या, सपझदारीव काम करने की कुनेह को देखते यया योग्य कदर की है.


दीवानी मुआमिलातों में रु. २५०) तक के दावे फैसल करने के इख्तियारात रियासत ने इनायत किये है, और ठिकाना के जागीर के गांवों में पुलीस का इन्तिजाम भी इन्हीं का रखा गया है.

ठाकुर साहब अभयसिंह समझदार और मोजिज सरदार है, पाडिव ठिकाने का इन्तिजाम अच्छा करने से यह ठिकाना तरक़ी पर आ रहा है. खास पाडिव गांव से एक मील के फासले पर, एक बाग और कोठी बनवा कर वहां जानेके लिये पक्की सडक भी बनवाई है.

वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरबार में मौजूदा महाराव साहिव ने इसको 'सभाभूषण' का मानवंता खिताब इनायत फरमाया है, और आप जागीरदार कमीटी में मेम्बर मुकरर है. इनकी पहिली ठकराणी चांपावतजी मानकुंवर गांव भालेराव के राठौर जीवराज जुहारसिंहोत की पुत्री व दूसरी दियोलजी राजकुंवर गांव कलापुरा के दियोल प्रतापसिंह रूघनाथसिंहोत की पुत्री है. मौजूदा ठाकुर साहब के दो पुत्र जिसमें १ अमर-सिंह बचपण में गुजर गया व २ बलवंतसिंह मौजूद है.

२ वंशवृक्ष पालडी परगने खूणी के रामावत.


१ गुमानसिंह (वंशवृक्ष पाडीव के रामावत में नं. १३ वाला. ) ओ. ग्रां. पालडी.



नोट—नं. ६ करणसिंह पालडी की जागीर के मौजूदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १८२०) दाखिल करने का ठहराव नं. ७३३ ता. १० मई सन १९२३ इस्वी. से तय हुआ है. गुदस्त सालमें करणसिंह ने पालडी में बडा तलाव खेती के कामके वास्ते बनवाया. इसके अमरसिंह नामका पुत्र है.

३ वंशवृक्ष वागसीण परगने खूणी पांती नं. २ पालडी पांती के रामावत.


मूरताण (पालडी वंशवृक्ष में नं. २ वाला. देखो पृष्ठ ९९ में) ओ. ग्रां. वागसीण पालडी पांती.



नोट—नं. ६ वख्तसिंह वागसीण की पालडी पांती का पाटवी है. वागसीण गांव में दूसरी पांती पाडीव के बांकीदास (नं. ११ पाडीव) की है. वख्तसिंह की जागीर में राजहक आठआनी, नकद रकम अदा करने के कानून मुआफिक सालाना रु. ७०८) दाखिल करने का ठहराव नं. ७२० ता. १८ मई स. १९२३ ईस्वी से तय हुआ है. इसके शंङ्गरसिंह २ रामसिंह व ३ कैशरीसिंह नामके तीन पुत्र है.

४ वंशवृक्ष वागसीण परगने खूणी पाडीव पांती नं. १ के रामावत.

१ बांकीदास (पाडीव के रामावत वंशवृक्ष में नं. ११ वाला.) ओ. ग्रां. वागसीण पाडीव पांती.




\* सूरजमल, बांकीदास का पुत्र होना बहुआ की पुस्तक में लिखा है, परन्तु मालूम हुआ है कि बांकीदास अपुत्रावान था, और उसके गोद नारादरा गांव के देवडा बाबूसिंह विहारीदासोत का दूसरा पुत्र सूरजमल नामक था उसको गोद लिया था. नारादरा के वंशवृक्ष में सूरजमल नामोलाद होना अंकित हुआ है.

नोट—नं. ८ भभूतसिंह मौजूदा पाटवी है. इस पांती के राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ३३७) नकद लगान के कानून मुआफिक ठहराव नं. ७२१ ता. १८ मई सन १९२३ इस्वी, से दाखिल करने का तय हुआ है. मौजूदा पाटवी के १ रुघनाथसिंह, २ किशोरसिंह ३ रणजीतसिंह व ४ प्रेमसिंह नामके चार पुत्रों है.

५ वंशवृक्ष ठिकाना जावाल परगने झोरा के रामावत.

१ माधुसिंह ( पाडिव रामावत वंशवृक्ष में नं. १० वाला. ) ओ. ग्रां. ठिकाना जावाल.



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ माधुसिंह ने केसवाल राजपूतों को मारकर जीरावल लिया, ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसके पिता कैशरीसिंह ( पाडिव वंशवृक्ष में नं. १ ) को, भटाणा के ठाकुर को मारने की एवज में जीरावल और जावाल की जागीर महाराव अखेराज ने इनायत की थी. बल्कि इसके बडा भाई मुकुन्ददास के कब्जे में जावाल व जीरावल था, जो बात वि. सं. १७३१ के शिलालेख व वि. सं. १७७५ के ताम्रपत्र से साबित हुई है.

नं. २ वेणीदास ने वि. सं. १७९९ में बडुआ को सीख दी थी.

नं. ३ कलसिंह व नं. ३ पृथ्वीराज जीरावल में रहे, जिसमें नं. ३ कलसिंह की ओलाद में नाओलादी हुई, और नं. ३ पृथ्वीराज के पुत्र नं. ३ नाथुसिंह को सिदरत गांव मिला, व नं. ३ लालसिंह जीरावल गांव में रहा, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ३ जयसिंहदेव बड़ा बहादुर सरदार था, कहा जाता है कि सिरोही रियासत पर एक दफे सरहटों की फौज ने आकर बहुत नुकसान किया और दंड लेना चाहा, वह न देनेसे जयसिंहदेव को वे लोग 'वांन' बनाकर 'ओल' में ले गये. सरहटों की फौज उदयपुर पहुंची तब यह भी वहां साथ में था, उस समय दशहरा का दिन था, और महाराणा के वहां माता को बलीदान देनेके पाडे मारे जाते थे, लेकिन वह तलवार के एक झटके से कतल नहीं होते देख जयसिंहदेव हंसा, जिसपर उदयपुर महाराणा ने इसको तलवार चलाने की आज्ञा दी, और कहा कि यदी एक झटके से पाडा को कतल करेगा तो हम तूझे इन सरहटों से छुडवा देंगे, जिसपर जयसिंहदेव ने तलवार के एकही झटके से बड़ा भारी पाडा के टुकडे कर दिये, उसपर महाराणा ने इसको सरहटों से रिहा करा दिया, और नक्कारा निशान आदि इनायत करके बडे सन्मान के साथ सिरोही वापिस भेजा, वह नक्कारे निशान इस समय में भी जावाल गांव में मौजूद है. इस विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

- “ कृष्ण वृज राखीयो इन्द्र जेम कोपीयो, धारी आया गाली गोवरधन धींग. ”  
 “ मरेठा आवतां कोट होई मंडाणो, शिवपुरी राखीये तेम जेसींग. ”  
 “ दाव दळ आगळे जळवा न दीधां गरूडध्वज राखीया जतन करी गोवाल. ”  
 “ जगारी धरा शिवराय आये लखे तेण बुद जळा दखणी दळ टाळ. ”  
 “ पांडवां आवरू राखीयो सीतपत, श्री कृष्ण द्रोपदी पुरीआं चीर. ”  
 “ कत दळ आवतां टाळतां देण उत नंद घर धरारो राखीयो नीर. ”  
 “ तातुये गरी दुगल बोल दस तांणीयो अदुरे नाम करी राम आयो. ”  
 “ परजरी अरज सुण पाळ लाख दळ ओलां रे कांम जेसींग आयो. ”

इसकी पुत्री रूपकुंवर गांव खांडप के वाला केशरीसिंह शिवनाथसिंहोत को व्याही थी, जो वहां सती हुई. इसने वि. सं. १८०६ में बडुआ को सीख दी. यह मेवाड में बहादुरी करके वापिस आनेके कारण, सिरोही रियासत से इसको ताजीम व पैर में सोना पहिनने की इज्जत दी गई, और जावाल ठाकुर कहलाये व यह ठिकाना हुंगरावतों में तीसरे दर्जे का सरायत शुमार हुआ.

नं. ४ फतसिंह ने अपने पिता जयसिंहदेव की छत्री वि. सं. १८१५ में बनवाई, और वि. सं. १८१६ में बडुआ को सीख दी.

नं. ५ वीरमदेव अपने पिता के पीछे जावाल के ठाकुर हुए, इसने वि. सं. १८४३ में

बडुआ को सीख दी. यह नाओलाद गुजर गया, जिससे इसके छोटाभाई पनेसिंह जावाल का ठाकुर हुआ.

नं. ५ पनेसिंह ने वि. सं. १८५७ में बडुआ को सीख दी. इसको ओलाद न होनेसे इसके गोद सींदरत के नाथुसिंह का पुत्र कीरतसिंह आया.

नं. ६ कीरतसिंह वि. सं. १८६४ में पनेसिंह के गोद आया, लेकिन यह भी अपुत्रवान होनेसे सींदरत के जालमसिंह का पुत्र शेरसिंह उर्फ सरदारसिंह को गोद रखा गया.

नं. ७ शेरसिंह वि. सं. १८७० में जावाल का ठाकुर हुआ, इसने इसी सालमें बडुआ को सीख दी.

नं. ८ भभूतसिंह अपने पिता के पीछे जावाल का ठाकुर हुआ. वि. सं. १९०९ में पोस सुद ९ को यह जोधपुर गया था, जहां पर जोधपुर रियासत से इसको कुरब १ की इज्जत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बडुआ को सीख दी. इसका पुत्र हिम्मतसिंह कुंवरपद में ही गुजर गया, जिससे इसका छोटाभाई नं. ९ उदेराज जावाल का ठाकुर हुआ.

नं. ९ उदेराज वि. सं. १९२० में अपने भाई के पीछे जावाल का ठाकुर हुआ. इसने वि. सं. १९३२ में बडुआ को सीख दी. यह नाओलाद गुजरने से तुंन गांव की जावाल पांती के रामावत में से माधोसिंह का पुत्र मेघसिंह गोद आया.

नं. ९ मेघसिंह मौजूदा ठाकुर साहब जावाल है. इसकी ठकराणी भटीयांणीजी कृष्णकुंवर गांव जोझीआली के भाटी मकनसिंह भोजराजोत की पुत्री से १ सरूपसिंह व २ जोरावरसिंह नाम के दो पुत्र हैं, जो मौजूद हैं. जावाल ठिकाना के पाटवी ताजिमी सरदार है, और तीसरे दर्जे के सरायत ह, इस ठिकाना में राजहक छः आनी के वास्ते ठहराव नं. ६८१ ता. ९ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु.११२०) दाखिल करने का तय हुआ है. कुमार सरूपसिंह मौजूदा महाराव साहब के पास A. D. C. के पद पर नियत है. जावाल के ठाकुर साहब को रियासत से 'ठाकर राजश्री' की लिखावट होती है.

६ वंशवृक्ष नून पांती नं. २ परगने मगरा, जावाल पांती के रामावत.

१ राजसिंह ( जावाल के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला. ) ओ. ग्रां. नून जावाल पांती.

२ सरदारसिंह

२ माधोसिंह


३ मोतीसिंह

मेघसिंह (गोद गये जावाल में नं. ८ उदेराज के )

नोट—नं. ३ मोतीसिंह इस जागीर की पांती में पाटवी है. यह पांती नुन के पाटवी अर्जुनोत नाओलाद होनेसे खालसे राज हुई, वि. सं. १८८४ में यह पांती पाडीव ठाकुर को वक्षी गई थी, लेकिन वि. सं. १८८६ में वापस खालसे रखी गई, जो वि. सं. १८८७ में जावाल ठाकुर को राज से इनायत हुई, उसने जावाल वंशवृक्ष में नं. ३ राजसिंह व नं. ३ खुसालसिंह को यह पांती वंट में दी. नं. ३ खुसालसिंह की ओलाद वालों की जावाल में भी भाइवंट की जागीर होनेसे वे जावाल में रहते हैं, और मोतीसिंह नुन में रहते हैं. इस पांती में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफक सालाना रु. ७७३)लेनेका ठहराव नं.७८६ ता.९ जून सन १९२३ई.से तय हुआ है.

### ७ वंशवृक्ष सींदरत परगने पामेरा के रामावत.

१ नाथुसिंह ( जावाल के रामावतों का वंशवृक्ष में नं.  $\frac{४}{२}$  वाला.) ओ. ग्रां. सींदरत व आधा वराडा




नोट—इस जागीर के मौजूदा पाटवी नं.  $\frac{६}{१}$  रावतसिंह है, नं. ६ जामतसिंह का देहान्त सिरोही में कैद खाने में हुआ था, जिसके गोद नं.  $\frac{६}{१}$  कापुत्र नं. ७ अमरसिंह गया था, जबकि अमरसिंह नाओलाद गुजरा तब नं.  $\frac{६}{१}$  के दूसरे पुत्र को गोद देनेकी तजवीज की थी, लेकिन जागीरदारान कानून के खिलाफ होनेसे वह तजवीज ना मंजूर की गई, और नं.  $\frac{६}{१}$  को पाटवी मुकरर कर पाग बंधाने में आई है. वराडा गांव परगने झोरा में है, जिसमें एक पांती सींदरत के पाटवी की, और दूसरी पांती वारड परमार किशोरसिंह चैनसिंह नाथुसिंहोत सिरोही वाला की है, जो फोजदार नाथुसिंह को अच्छी चाकरी के एवज में इनामी तौर से देने में आई है. वराडा में दो पांती होनेका कारण यह है कि नं. १ नाथुसिंह ने जोगापुरा के अमरावत देवडा जसवंत प्रतापसिंहोत को मारा था, जिससे आधा वराडा गांव वि. सं. १८२३ में जोगापुरा वाले को देना पडा, और वह पांती

रांवाडा ठाकुर के वंट में गई, जब कि रांवाडा की जागीर खालसे हुई तब वराडा की पांती बारड नाथुसिंह फौजदार को, वि. सं. १९३९ में मरहूम महाराव साहिब ने बक्षी.

सींदरत की जागीर में राजहक आठआनी की वसूली के वास्ते ठहराव नं. ७५७ ता. २५-५-२३ इस्वी से नकद लगान के कानून से सालाना रू. ११८६) रियासत में दाखिल करने का ठहरा है, और बारड किशोरसिंह की वराडा की पांती की राजहक आठआनी की सालाना रकम रू. ५५५) ता. २६-५-२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है.

८ वंशवृक्ष जीरावल परगने मंडार के रामावत पांती नं. १.

१ लालसिंह (ठिकाना जावाल के रामावत वंशवृक्ष में नं. ४/३ वाला.) ओ. ग्रां. जीरावल.



नोट—जीरावल की जागीर में आधा हिस्सा मंडार के राजसाहेबां का है, जिससे एक पांती जीरावल की और दूसरी मंडार वालों की गिनी जाती है, जीरावल की पांती में मौजूदा पाटवी नं. ७ भोपालसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना रुपिया ४९३) वसूल होनेका ठहराव ता. ९ सप्टेम्बर सन १९२३ इस्वी को तय हुआ है, उसी मुआफिक मंडार की पांती का दोलतसिंह और दूसरे मंडार के छोटभाईआं से भी उतनीही रकम लेनेका ठहराव हुआ है.

९ वंशवृक्ष नारादरा परगने झोरा के रामावत.


नारादरा गांव नं. १ विहारी का पोता सहेशदास को वि. सं. १७६५ में 'ओडा' गांव के साथ रियासत से इनायत हुआ है.

१ विहारीदास ( पाडिव ठिकाना वंशवृक्ष में नं. १०/२ वाला. )





२ याचसिंह ( चळू वंशवृक्ष नारादरा परगने झोरा के रामावत. )




नोट—ईस जागीर में राजहक आठआंणी नकद लगान के कानून मुआफिक रू. ९७०) सालाना लेनेका ता. २७ जुलाई सन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.

१० वंशवृक्ष ओडा परगने झोरा के रामावत ( छोट भाई ).

ओडा गांव की जागीर पाटवी जागीरदार नं. ६ हिम्मतसिंह नाओलाद होनेसे खालसा राज हुई है. इस गांव में छोटभाई को अरठ व खेत देनेका ठहराव ता. १४ जुन सन १९२३ ई. को हुआ है उस मुआफिक खाते है.

१ दुरजनसिंह ( नारादरा के रामावतों के वंशवृक्ष में नं. ५ वाला. )



\* सुरजमल नाओलाद होना बहुधा की प्रुत्क में अंकित है, लेकिन वह वागसीण पांती नं. १ के देवडा बांकीदास के गोद जाना पाया जाता है, और उसकी ओलाद वाले वहांपर जागीर खाते है.

४ सरूपसिंह उर्फ नोपसिंह ( चलू वंशवृक्ष ओडा परगने झोरा के रामावत छोटभाई. )

५ रत्नसिंह

६ हिम्मतसिंह  
x

६ गुमानसिंह  
७ करणसिंह

सबलसिंह  
x

६ भामसिंह

११ वंशवृक्ष मडवारा (उड) परगने झोरा के सवरावत.

सांगा ( वंशवृक्ष ठिकाना पाडिव के रामावतों में नं. ८ वाला. )

२ मनोहरसिंह

२ भीमसिंह

दलपतसिंह  
x

३ नाथुसिंह

देवसिंह  
x

३ अजबसिंह

३ सतीदान

४ अमरसिंह

४ रूपसिंह  
x

गुमानसिंह  
x

४ शेरसिंह

वख्तसिंह  
x

४ नारसिंह  
( नीचे देखो )

गजेसिंह  
x

रणछोडदास  
x

प्रतापसिंह  
x

५ रामसिंह

५ लालसिंह  
x

५ शिवदान

५ लाखसिंह

६ अणंदसिंह

६ प्रेमसिंह  
x

६ वजेसिंह  
x

भभूतसिंह  
x

७ चैनसिंह

८ जवानसिंह

जगतसिंह  
x

८ कानसिंह

८ अचलसिंह

८ तरुतसिंह  
x

९ अदरसिंह

९ जालमसिंह

धनसिंह  
x

९ नाथुसिंह

९ फतेसिंह  
x

९ सूरसिंह

९ खुसालसिंह

९ वजेसिंह

९ लालसिंह

१० रूपसिंह

१० रणजीतसिंह

शिवसिंह  
x

पर्वतसिंह  
x

१० भूरसिंह  
(मौजूदा पाटवी)

४ नारसिंह ( चलू वंशवृक्ष मडवारा (उड) परगने झोरा के सवरावत में नं. ३ सतीदान का पुत्र. )

५ हरनाथ

वीठलदास  
x

५ महासिंह

५ जुजारसिंह

सरदारसिंह  
x

अन तेजसिंह

६ अणंदसिंह  
x

६ सवाईसिंह

जोरसिंह  
x

७ जामतसिंह  
x

७ लाडु  
x

७ रत्नसिंह  
x

७ गलालसिंह

८ नवलसिंह

भगवान  
x

उदयसिंह  
x

हीरसिंह  
x

९ प्रेमसिंह

९ भारतसिंह


९ खुमाणसिंह

नोट-मडवारा गांव में दूसरे पांतीदार नाओलाद होनेसे उनकी जागीर खालसे राज हुई थी, नं. १० भूरसिंह जो इस जागीर का मौजूदा पाटवी है उसके साथ नं. ७३७ ता. १५ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से मडवारा गांव तकसीम होकर एक हिस्सा खालसा राज रहा, और भूरसिंह का हिस्सा पार्टीशन के कानून मुआफिक हमेशा के लिये आवगा कर दिया गया, जिसमें सालाना रू. १५१) रियासत में कायमी तौरपर देनेका तय हुआ है. मौजूदा पाटवी भूरसिंह को जोरावरसिंह नामका एक पुत्र है.

१२ वंशवृक्ष सवराटा परगने मगरा के सवरावत.

१ महेशदास ( ठिकाना पाडिघ के वंशवृक्ष में नं. ८ घाला. ) ओ. ग्रां. सवराटा.




२ जयसिंह



नोट-इस जागीर में रियासत की खालसा पांती जागीरदार को लीझ में देकर जागीर को पांती का राजहक आठआनी समेत नकद लगान के कानून मुआफिक रू. ६०४) सालाना ता. ३१ मई सन १९२३ ई. के ठहराव से राज में लेनेका तय हुआ है.

१३ वंशवृक्ष सवली परगने झोरा के सवरावत. ( पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव )

१ कर्मसिंह ( ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. ८ वाला) ओ प्रां. सवली. (जागीर हक आठ आना व सारणेश्वरजी के आठ आना है.)




नोट-नकद लगान के कानून मुआफिक सारणेश्वरजी महादेव के आठआनी हक के सालाना रु. ६०२) देनेका ठहराव नं. ८०१ ता. ३१ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

१४ वंशवृक्ष फूंगणी परगने मगरा के सवरावत पांती नं. २

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष के नं. ६ सवरसिंह के पुत्र नं. ७ नगसिंह व नं. ७ नेतसिंह को, महाराव सूरताणसिंह ने सवरसिंह लडाई में काम आनेसे फूंगणी की जागीर दी, बाद में नं. ७ नगसिंह का पुत्र पांचा को महाराव अखेराज ने 'जामोत्रा'


की जागीर दी, और नगसिंह के पोता जयसिंह का पुत्र पीथसिंह को महाराव वेरीसाल ने वि. सं. १७४० में 'मढीआं' गांव इनायत किया, जिससे नगसिंह की ओलाद का पाटवी पीथसिंह मढीआं गांव में गया, और फूंगणी में नगसिंह के पोता वाघसिंह व लक्ष्मीदास रहे, जिनकी फूंगणी में दो पांती हुई, जिसमें वाघसिंह की ओलाद में नाओलादी हाजानेसे उसकी पांती 'मोटागांम उर्फ बुआडा' के ठाकुर को रियासत ने इनायत की. इस वक्त फूंगणी में लक्ष्मीदास की ओलाद वाले दूसरी पांती के जागीरदार हैं, और वाघसिंह नाओलाद की पांती 'मोटागांव' ठाकुर के तरफ है. सवरसिंह का दूसरा पुत्र नेतसिंह फूंगणी से मांकरोडा गांव में गया था, जिसके पुत्र शिवसिंह की ओलाद वालों में नाओलादी हुई, और दूसरा पुत्र सुजानसिंह की ओलाद में नाहरखान हुआ वह भी मांकरोडा से फूंगणी चला आया, जिससे उसकी ओलाद भी फूंगणी में छोटभाई के तौरपर विद्यमान है.

१ नगसिंह ( ठिकाना पाडिव बंशवृक्ष में नं. ७ वाला. )



नोट—इस दूसरी पांती का पाटवी नवलसिंह है. इस पांती में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २८९) राज में दाखिल करने का ठहराव ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.


१४ (अ) वंशवृक्ष फूंगणी के सवरावत छोटभाई.




(नोट-नं. ५ नाहरखान व उसका भाई मांकरोडा गांव से फूंगणी में आकर आबाद होगये तब से उनकी ओलाद फूंगणी में है. )

१५ वंशवृक्ष बारेवडा परगने खूणी पांती नं. १ के सवरावत.

१ गोविन्ददास ( फूंगणी की पांती नं. २ के सवरावतों का वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. )




५ लाखासिंह ( चलू वंशवृक्ष वारेवडा परगने खूणी पांती नं. १ के सवरावत. )



१६ वंशवृक्ष वारेवडा पांती नं. २ परगने खूणी के सवरावत.

१ सरदारसिंह ( वारेवडा पां. नं. १ में नं. ३ वाला. ) वारेवडा पांती नं. २ ओ. ग्रां.




नोट-नं. ९ दुर्जनसिंह वारेवडा की पहिली पांती का पाटवी है, लेकिन नं. ६७८ ता. १३-५-२३ ई. के ठहराव में उसको पांती नं. २ का दर्ज करके उसकी ओ. ग्रां. नं. ३ दयालदास दर्ज हुई है, और दूसरी पांती का ठहराव नं. ६७९ ता. सदर में पाटवी नं. ७ फतहसिंह की ओ. ग्रां. राघोदास ( पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) दर्ज हुई है. दुर्जनसिंह की पांती का राजहक आठआनी का नकद लगान सालाना रु. ११४) और फतहसिंह की पांती के रु. २५०) मुकरर हुए है. हकीकत में यह गांव बहुओं के तरफ जागीर में था, लेकिन वह चले जानेसे बैरान हो गया, जो वि. सं. १८९१ में नं. ७ अणंदसिंह प्रतापसिंहोत ( पांती नं. १ ) व नं. ४ दोलतसिंह धनसिंहोत (पांती नं. २) को आवादी करने के वास्ते रियासत से परवाना दिया गया, और उस समय से ही दो पांती हुई, जिससे दूसरी पांती की ओरिजनल ग्रांटी नं. १ सरदारसिंह गिनना चाहिये.

१७ वंशवृक्ष मढीआं परगने मगरा के सवरावत.


१ पीथसिंह ( फूगणी पांती नं. २ के सवरावत वंशवृक्ष में नं. ४ वाला. ) ओ. प्रां. मढीआं.

२ भावसिंह



१७ (अ) वंशवृक्ष मढीआं परगने मगरा के सवरावत छोट भाई चल्.

नं. ३ दुर्गासिंह ( चल् वंशवृक्ष मढीआं परगने मगरा के सवरावत में नं. २:भावसिंह का पुत्र. )




नोट—मढीआं गांव का पाटवी, फूगणी व फूगणी से निकले हुए जामोत्रा, मांकरोडा व बारेवडा के सवरावतों का पाटवी है, लेकिन नं. १ पीथसिंह को महाराव वेरीसाल ने मढीआं की जागीर इनायत करने से वह 'मढीआं' आया. इस जागीर के छोट भाईओं में नं. ६ कीरतसिंह नाओलाद का हिस्सा वि. सं. १९५३ में व नं. ७ नवलसिंह का हिस्सा वि. सं. १९६१ में मरहूम महाराव साहिव केशरीसिंह वहादुर ने नं. ८ गुमानसिंह को



इनायत किया, बल्कि गुमानसिंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिब ने उसको खुरसी के दरवार में खुरसी की बैठक का सन्मान बक्ष कर; इस जागीर के पाटवीओं को ' देवडा ' लिखा जाता था, उसके बदले ' ठाकुर ' लिखने का शुरु किया गया. इस समय मढीआं-का-ठाकुर जोधसिंह है. मढीआं जागीर के राजहक आठआनी के नकद लगान के कानून से नं. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सालाना रु. ८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है.

### १८ वंशवक्ष जामोत्रा परगने झोरा के सवरावत

१ पांचा (पसायण) ( फूगणी पांती नं. १ के सवरावत वंशवृक्ष में नं.  $\frac{२}{१}$  वाला. ) ओ. ग्रां. जामोत्रा.




नोट-मौजूदा पाटवी नं. ११ प्रतापसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नं. ६७४ ता. ८ मेई सन १९२३ इस्वी से ठहरी है. मौजूदा पाटवी को ' करणसिंह ' नाम का पुत्र है.

नं. २ अमरसिंह के पीछे उसकी ठकुराणी सिंधलजी ' रामकुंवर ' वि. सं. १७५३ में सती हुई, अमरसिंह की छत्री वि. सं. १७६० में जामोत्रा में वनी है, वैसे नं. ६ जालमसिंह वि. सं. १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसकी छत्री नं. ७ जोरसिंह ने वि. सं. १८६६ में कराई है. नं. ९ प्रेमसिंह को घोड़े उछेरने का बडा शौक था, बल्कि अच्छी ओलाद के घोड़े के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर है.

जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गैर में है उनका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.


१८ (अ) वंशवृक्ष जामोत्रा के सवरावत मुडेटी ई. ईडर में.

१ प्रेमसिंह ( जामोत्रा वंशवृक्ष में नं. ४ वाला. )



१८ (आ) वंशवृक्ष जामोत्रा के सवरावत जोगाणी ई. जोधपुर में.

१ पीयसिंह ( जामोत्रा वंशवृक्ष में नं. ५ वाला. )




( यह लोग सिंधल राजपूत के जोगाणी गांव में है. )

मुडेटी की जागीर रियासत ईडर में है, और उस जागीर के ठाकुर चौहान राजपूत है.


१९ वंशवृक्ष सिरोडकी परगने मगरा के सवरावत.

यह गांव पाडिव ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. ६ सवरसिंह के छोटा पुत्र नं.  $\frac{७}{३}$  जयमल का पोता दुर्जनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते नं. ४ भाखरसिंह के दो पुत्र नं. ५ रायसिंह व नं.  $\frac{६}{१}$  दुर्जनसिंह से इस गांव में दो पांती हुई, जिनमें से रायसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे वह पांती मांडवारा के कुंभावत ठाकुर अभयसिंह को रियासत से दी गई, और दूसरी पांती वि. सं. १८८० में आबाद करनेका परवाना नं.  $\frac{७}{३}$  प्रतापसिंह हटेसिंहोत व नं.  $\frac{८}{६}$  कुशलसिंह नारखानोत को रियासत से इनायत हुआ, जिससे इस दूसरी पांती में भी दो हिस्सेदार हुए, बाद में प्रतापसिंह का लडका पनेसिंह वि. सं. १८९८ में, नारखान के पोता उमसिंह नाओलाद के गोद गया, और प्रतापसिंह का दूसरा पुत्र नं. ८ वणवीर नाओलाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओलाद वाले हुए. इस समय में नं. १२ भूरसिंह सिरोडकी की पांती का पाटवी है, और इसकी जागीर का राजहक आठआनी की रकम रू. १५०) नकद लगान के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता. ३ जुन सन १९२३ इस्वी, के ठहराव से तय हुआ है.

१ जयमल ( पाडिव ठिकाना वंशवृक्ष में नं.  $\frac{७}{३}$  वाला. )



४ भास्वरसिंह ( चल् चंशवृक्ष सिरोडकी परंगने मगरा के सवरावत. )




## प्रकरण १० वाँ.

डुंगरावत देवडा सूरवत के सामन्तसिंहोत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ५ नरसिंह का पुत्र सूरसिंह की ओलाद वाले सूरवत कहलाये. सूरसिंह महाराव सूरताणसिंह की सहायता में कालंद्री की लडाईं में काम आया, जिससे उसका पुत्र सामन्तसिंह को कालंद्री पट्टे की जागीर दो गई, जिसकी ओलाद वाले सामन्तसिंहोत हुए, परन्तु वे सब सूरवत के नाम से ज्यादा मशहूर है. सामन्तसिंह की ओलाद में पाटवी कालंद्री ठिकाना है, जो डुंगरावतों में दूसरे दर्जे का सरायत ( सामन्त ) है. कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक छः आनी बटवारा से वसूल होता है.

१ वंशवृक्ष ठिकाना कालंद्री परगने मगरा के सूरवत.

१ सूरसिंह ( ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. ६ वाला डुंगरावत. )



## उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ सूरसिंह के तरफ 'हालीवाडा' की जागीर थी, जबकि लखावत मेहाजल का पुत्र कल्याणसिंह ने डुंगरावत वजेसिंह को हटाकर सिरोही का कब्जा किया, और कल्याणसिंह के दरवार में डुंगरावतों का अपमान हुआ, तब अपने भाई सवरसिंह के साथ इसने भी महाराव सूरताणसिंह को गद्दी पर बैठाने का उद्योग शुरु किया, और कालंद्री व वराल गांवों के दरमियान कल्याणसिंह के साथ महाराव सूरताण का युद्ध हुआ, उसमें इसने बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके कल्याणसिंह को हराया, और जो सिसोदीये राजपूत कल्याणसिंह की सहायता में थे, उनको मारकर आप भी उस युद्ध में काम आया, बल्कि महाराव सूरताणसिंह को पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठाने का बहुमान हरएक कवियों ने इसी को दिया है, इस युद्ध के विषय में संडायच चारण पुना ने कहा है कि, ( यह पुना चारण वह है कि जिसके नाम से पुनावा गांव कहलाया है, और उसकी ओलाद वाले इस समय में भी उस गांव में विद्यमान है. )

- “ वढे वीर वाराध जुद्ध जीतो जीताई, खीमो पाडे रणखेत वढे रावत वरदाई. ”  
 “ वढे डुंगर वजपाल करे भारथ कालंधरी, मेवाडा दल मार कण कण इम फोजां करी. ”  
 “ कलारा भांगे कटक वढहत इम वरदावरी, साम धरम लडे सूरु सवर सोढ समापी शिवपुरी. ”  
 “ कालंधरी जुद्ध करे सखर खीमो सकोडै, कलो भाज काढीयो वोहस इम खाग व्होडे. ”  
 “ सूरु सवरे वजे कीयो भारथ सु पाणे, उग्राहीयो अरवद रेस खग दीयो सुराणे. ”  
 “ नवढ भड व्रह मोटे नरे कलह नाम चंदो कीयो, सोढ ने घणा दीन सरणुए अवचल सुरे थापीओ. ”

डुंगरावतों ने लखावत कल्याणसिंह के साथ जीरावल व कालंद्री में युद्ध किया, उस विषय में रघु नाम के कवि ने ७४ दोहे कहे हैं, उसमें सूरु के विषय में जोजो दोहे हैं, उसमें से जीरावल गांव के कांकण पर युद्ध हुआ वह दोहे सवरसिंह की ख्यात में आचूके हैं, कालंद्री के युद्ध के विषय में रघु कवि कहता है कि—

- “ चढ दंतु सल सूरिया रावसु मचयो राड, व्राहळ कालंद्री वचे आयो खाग उपाड. ”  
 “ सूर धनंजय सारखो पेदल हयदल पाड, कर कांकल मछवे कला सात्र व चाती चाड. ”  
 “ धडचे सत्र कीधा ढगे कटके कीया के वांण, सूरु वाहे चापडे वेरी करे वखाण. ”  
 “ सूरु मछव्यो सीफलो उडे सोर अपार, हथ नालां की हुवके मेवाडां दल मार. ”  
 “ काले नर दलीयां कटक फोजां न पडे फेर, कर कांकल भागो कलो मंडीयो सूरु मेर. ”  
 “ धमचक माचवीयो धरा उभो देये उजेल, सूरु वागज चापडे मेवाडा जुद्ध मेल. ”  
 “ वायल होये नाठा घणा तंडल तरवारे, धड वेहडे कीधा ढगे मोह वढाया मारे. ”  
 “ काले नीटवीया कटक मारे मेवाडा, कण कण दल फोजां कीया पुरा पवाडा. ”  
 “ कला सु सुरै कीया रणवट कर रटका, दोखी भगाया डुंगरे वे वे कर वटका. ”  
 “ फोजोरा दल फेरीया छीवो खीमो साज, पासटीयो रावत प्रसण वेरीयो सांमो वाज. ”  
 “ काले रामायण कीयो पहेलो खेमो पाड, पळेज रावत पाढीयो रंगहो जीतो राड. ”  
 “ पळेज सूरु पोदीयो अपछर लूण उतार, गई सुरग ले गावती धुरजटी सर धार. ”

- “ माला संकर रे मही नरसिंहोत नडार, सूरु पहुंचीयो सरग ने सबलां वाए सार. ”  
 “ सूरु दीधी सोढ ने सिरोही सब दीह, कहेतो जेसो मे कीयो जश बोले कव जीह ”  
 “ सीचर च्यार दुहा सरस कव कीरत कहीया, वड सूरु सवरो वजो रघु अमर रहीया ”

सूरसिंह को वि. सं. १५९९ में सियाणा का पट्टा मिला था. वि. सं. १६३० में यह कालंद्री के युद्ध में काम आया, जिससे महाराव सूरताणसिंह ने उसके पुत्र सामन्तसिंह को कालंद्री पट्टा की जागीर, जो चीबावत खीमराज के पास थी वह उससे छुडा कर इसको दी. सूरसिंह की छत्री वि. सं. १६३० में कालंद्री गांव में बंधाई गई.

नं. २ सामन्तसिंह ने वि. सं. १६३० में बडुआ को सीख दी, यह अपने पिता के जैसा बहादुर सरदार था. वि. सं. १६४४ में जोधपुर के राठौर राजा उदयसिंह ने राठौर रायसिंह ( जो दताणी की लडाईं में वि. सं. १६४० में महाराव सूरताणसिंह के हाथ से मारा गया था. ) के वैर का बदला लेने के वास्ते व लखावत कल्याणसिंह को सिरोही की गद्दी पर बैठाने को, शाही फौज के साथ आबू पहाड की तलेटी में घेरा डाल कर, महाराव सूरताण के साथ युद्ध किया, जिसमें सामन्तसिंह ने वजेसिंह डुंगरावत के भाई धनसिंह को मारा, और राठौरों को सफलता न होने दी, जिससे सुलेह करने के बहाने से इसको 'बगडी' ठाकुर राठौर वेरीसाल ( जो जोधपुर के राजा का बडा सरदार था और महाराव सूरताण के मामा का लडका होता था. ) की मारफत बुलवाया, जबकि बगडी ठाकुर ने महाराव सूरताणसिंह की मुलाकात लेकर, सामन्तसिंह को महाराजा उदयसिंह के पास ले जाने के वास्ते आज्ञा मांगी, तब महाराव सूरताणसिंह ने उसको कहा कि, सामन्तसिंह मेरे कलेजे की जगह पर है, ऐसा न हो कि कुछ दगा होवे, जिसपर + राठौर वेरीसाल ने कहाकि मै अपनी जवाबदारी पर इसको ले जाता हुं, सो अगर दगा हुआ तो कलेजे की एवज में कलेजा दूंगा, इस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ सोढ पयंपे वेरसल सूनजे मामावत, देऊं सामंतसिंह देवडो मों कालज तों हथ. ”

महाराव सूरताणसिंह के इस कथन से पाया जाता है कि, सामन्तसिंह बडा बहादुर सरदार था, बगडी ठाकुर वेरीसाल ने छल कपट न करने का वचन देनेसे, महाराव सूरताणसिंह ने देवडा सामन्तसिंह सूरवात व उसको भाई प्रताप, तोगा, राडवरा हमीर कुंभावत, राडवरा बीदा सिकरावत व चीबा जेता आदि राजपूतों को उसके साथ भेजे, वे लोग महाराजा उदयसिंह के तंबू में जाकर उपस्थित हुए कि, राठौर उदयसिंह ने राम रतनसिंहोत के हाथ से उनको दगा से मरवा डाले, राठौर वेरीसाल अपना वचन भंग होने के कारण बहुत ही विगडा, उसने महाराजा उदयसिंह के डेरे पर जाकर, उसके

+ बगडी ठाकुर वेरीसाल पृथ्वीराजोत बडा बहादुर आदमी था, जोधपुर के महाराजा उदयसिंह की फौज में वह मुख्य सरदार गिना जाता था, उसने कलेजा के बदले कलेजा देनेका वादा किया उसका आशय यह था कि, अगर सामन्तसिंह को कुछ भी धोखा हुआ तो मैं अपना जॉन उसके बदले में दूंगा.

सामने ही राम रत्नसिंहोत को मार डाला, और बाद आप भी उसी जगह × कटार खाकर मर गया.

नं. २/१ प्रतापसिंह को 'नीवोडा गांव' मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. २/२ कलसिंह के बड़े पुत्र मेरसिंह से 'मेरावत' व अमरसिंह से 'अमरावत' कहलाये गये, जिसका अहवाल अलग अलग प्रकरणों में लिखा गया है.

नं. २/३ तोगा अपने भाई सामन्तसिंह के साथ नीतोडा गांव में चूक में मारा गया.

नं. ३ जसवंतसिंह ने वि. सं. १६८२ में बडुआ को सीख दी.

नं. ३/१ हुंगरसिंह की ओलाद वालों को 'वाण' गांव व सगालिया गांव की जागीर मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ४ करणसिंह ने वि. सं. १७१० में बडुआ को सीख दी.

नं. ४/१ कानसिंह को व नं. ४/२ रायसिंह और नं. ४/३ दलपतसिंह यह तीनों को 'डोडुआ गांव' की जागीर मिली थी. जिसमें से कानसिंह व दलपतसिंह नाओलाद गुजरे, और रायसिंह की ओलाद वालों का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ५ हुंगरसिंह ने वि. सं. १७४० में बडुआ को सीख दी, और कालंद्री गांव में तलाव बनवा कर उसकी पाल पर अखाडा बंधवाया.

नं. ६/१ लाखसिंह की ओलाद वाले नवारा गांव में हैं, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ६/२ पांचा को 'अणगोर' गांव मिला बाद में इस गांव में दो पांती हुईं, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में अलग अलग दिये गये हैं.

नं. ६/३ जेतसिंह की ओलाद वाले डोडुआ, वेलांगरी, धांणता, चंद्रावती, व बालदा, आदि गांवों में हैं, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ६ करमसिंहने वि. सं. १७७५ में बडुआ को सीख दी.

× बगडी ठाकुर बेरीनाल के स्मारक का चवूतरा मिरोही रियासत के नीतोडा गांव में विद्यमान है, कहा जाता है कि सामन्तसिंह को धोखा होने की बात सूनकर अपने अपने आदमीयों से कहा था कि, मैं उनको मारने वालों को मारकर आप मर जाऊंगा, मो मेरा शिर काटकर महाराज सुरतगभिह के पास भेज देना, उम्र मुआफिक उसके आदमी ने वह मरने के बाद उसका शिर काटकर महाराज सुरतगभिह के पास भेज दिया था.

नं. ६ जयसिंहदेव को ' बुआडा उर्फ मोटागांम ' की जागीर मिली, जो सरायत सरदारों में चौथे दर्जे का ठिकाना है, जिसका अहवाल इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ७ देदा ने वि. सं. १८१० में बडुआ को सीख दी. यह ठाकुर उदार प्रकृती का था, इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

“ मोती मुदरला गढ पति पहेरे घणा, कीरत हाथ कडां कालंद्री देदा कने. ”

कवि के कहने का आशय यह है कि कीमती जेवर तो गढपति बहुत पहिनते है, परन्तु कीर्ती रूपी गहना ( हाथों के कडे ) कालंद्री के ठाकुर देदा के पास है.

नं. ७ गुमानसिंह की ओलाद ' कांकेद्रा ' गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ७ कल्याणसिंह की ओलाद वाले मडवारीया गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ८ पद्मसिंह की ठकराणी राठौरीजी वनेकुंवर राठौर सूरजमल साहेबसिंहोत गांव 'राडधरा' वाले की पुत्री अपने पति के पीछे वि. सं. १८२७ में कालंद्री गांव में सती हुई. यह नाओलाद होनेसे नं. ६ अमरसिंह कालंद्री का ठाकुर हुआ.

नं. ६ अमरसिंह ने वि. सं. १८३७ में बडुआ को सीख दी, यह भी नाओलाद गुजरने से ' बुआडा ' के तेजसिंह का पुत्र खुमाणसिंह गोद आया.

नं. ९ खुमाणसिंह वि. सं. १८६२ में कालंद्री गोद आया, इसने वि. सं. १८७६ में बडुआ को सीख दी. महाराव शिवसिंह के समय में सरायतों का सारणेश्वरजी में इकरार हुआ जिसमें यह भी शरीक था, इसके समय में कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक बजाय आठआनी के छः आनी लेनेका ठहराव वि. सं. १८८० में हुआ.

नं. १० खुसालसिंह वि. सं. १९०९ में जोधपुर गया था, जहां इसको जोधपुर रियासत की तरफ से कुरब १ की ईज्जत मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बडुआ को सीख दी.

नं. ११ पृथ्वीराज वि. सं. १९२० में कालंद्री के ठाकुर हुए, इसने वि. सं. १९३३ में बडुआ को सीख दी, यह बहुत मौजिज सरदार था. वि. सं. १९६३ में खास सिरोही में इसका अंतकाल हुआ, यह नाओलाद गुजरने से इसके गोद के विषय में तकरार खडी हुई, इसकी ठकराणी ने बगैर मंजूरी रियासत के बरलूठ के नं. ६ मोकसिंह का पुत्र कहानसिंह को गोद लिया, जिसपर बुआडा के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपना पुत्र सरूपसिंह को दूसरे सरदारों की सहायतासे कालंद्री के पडवे में वैठा दिया, जिससे दोनों



तरफ से हजारों आदमी मुकाबला करने को आमादा हुए, लेकिन मरहूम महाराव साहिव ने दोनों को कालंद्री से अलग करके, कालंद्री ठिकाने पर राज्य की जति भेज दी, बाद में वसलाह रजीडेन्ट साहव वेस्टर्न राजपूताना स्टेट के, बरलूठ के कहानसिंह का गोद रियासत से मंजूर रखा गया.

नं. १२ कहानसिंह ने वि. सं. १९६६ में बडुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने से गांव ' कांकेदरा ' के करणसिंह का पुत्र चमनसिंह इसके गोद आया, लेकिन रियासत की मंजूरी वगैर गोद आनेसे, मरहूम महाराव साहिव ने खुद कालंद्री पहुंच कर इसको हटा दिया, और सिरोही ले आये, बाद में दूसरे जागीरदारों की सिफारिश से रहम फरमाकर इस कसूर में कालंद्री ठिकाने का उडवारीया गांव राज्य में खालसे रखकर खास शर्तों के साथ इसका गोद मंजूर किया गया.


नं. १३ चमनसिंह कालंद्री के मौजूदा ठाकुर साहव है. इस ठिकाने पर कर्जदारी बहुत होजाने से, चमनसिंह की अर्ज पर मौजूदा महाराव साहिव बहादुर ने रहम फरमाकर, मरहूम ठाकुर कहानसिंह के तरफ फौज खर्च व हुकमनामा वगैरह की जो बडी रकम रियासत की लहेणी थी वह मुआफ करके, पहिले के ठहराव की खास शर्तों में तरसीम फरमाकर ठिकाने की सरजाद पहिले के मुआफिक रखी है.

कालंद्री ठिकाना के ठाकुर दूसरे दर्जे के ताजिमी सरायत व सोना नवीस सरदार है. मौजूदा ठाकुर साहेब के तीन ठकराणी है, जिसमें १ जोधीजी करणांकुंवर जोधा शार्दूलसिंह शेरसिंहोत गांव झाक की पुत्री, ( जिससे पुत्र मोतीसिंह का जन्म हुआ है ) २ राणावतजी रत्नकुंवर व ३ भूरकुंवर गांव उंदरा के राणावत चमनसिंह सूरताणसिंहोत की पुत्रीयें है, (३ राणावतजी भूरकुंवर से पुत्री वाईकुंवर व पुत्र देवीसिंह के जन्म हुए है )


कालंद्री ठिकाना की जागीर में राज्यहक छः आनी बटवारा से वसूल होता है.

२ वंशवृक्ष कांकेदरा परगने मगरा के सरावत.

१ गुमानसिंह ( वंशवृक्ष ठिकाना कालंद्री में नं. ७ वाला. )



५ अनाडसिंह ( चल् बंशवृक्ष कांकेदरा परगने मगरा के सूरावत. )




नोट-नं. १ गुमानसिंह के तरफ नितोडा व कांकेदरा की जागीर थी, उसने वि. सं. १८२२ में अरहट गोपात्रावाला नितोडा में राजगुर अखा केवदा को दिया था. इसके बाद ठाकुर जोरावरसिंह, जालमसिंह, शिवदान व कुंवर रामसिंह, रत्नसिंह और अभयसिंह के नाम वि. सं. १८३८ के शिलालेख में नितोडा में उपलब्ध होते हैं, दूसरा शिलालेख वि. सं. १८६५ का नितोडा में अरठ राठिया वाला के निसवत है, जिसमें ठाकुर रामसिंह ( नं. ३ वाला ) का नाम है. रामसिंह नाओलाद होनेसे नितोडा गांव खालसे राज हुआ, और कांकेदरा गांव नं. ४ सोनसिंह जो मडवारीआ में मालदेव का छोटा पुत्र था उसको मिला. पाया जाता है कि सोनसिंह को बगैर मंजूरी रियासत नं. ३ रामसिंह नाओलाद के गोद रखा गया था, जिससे नितोडा गांव खालसे रख कर, कांकेदरा गांव के वास्ते पीछेसे रियासत ने गोद मंजूर किया है.

कांकेदरा की जागीर में इस समय नं. ७ लक्ष्मणसिंह पाटवी है, जिसको १ धनसिंह २ अचलसिंह व ३ क्षेमसिंह ये तीन पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल आती है.

३ वंशवृक्ष मडवारीआ परगने झोरा के सूरावत.

१ कल्याणसिंह ( वंशवृक्ष ठिकाना कालंद्री में नं. ७ वाला. )




नोट-नं. ८ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

४ वंशवृक्ष ठिकाना बुआडा उर्फ मोटागांम परगने मगरा के सूरावत.

मोटागांम ठिकाना सिरोही रियासत के च्यार मुख्य सरायतों ( सामन्तों ) पैकी एक है. इस ठिकाना के पाटवी सोनानवीस व ताजिमी ठाकुर है.

१ जयसिंहदेव ( ठिकाना कालंद्री वंशवृक्ष में नं.  $\frac{६}{१}$  वाला ) ओ. ग्रां. बुआडा उर्फ माटागांम.



नं. १ जयसिंहदेव ने वि. सं. १८०६ में बडुआ को सीख दी.

नं. २ साहेवखान ने जोधपुर के महाराजा वजेसिंह की सहायता की थी जिसकी कदर करके, वि. सं. १७९९ में महाराजा वजेसिंह ने इसको रियासत जोधपुर की तरफ से कुरबके साथ नकारा निशान और हाथी की नवाजिश की थी. साहेवखान ने वि. सं. १८२२ में बडुआ को सीख दी.

नं. ३ उदयसिंह ने वि. सं. १८४३ में बडुआ को सीख दी.

नं. ४ तेजसिंह ने वि. सं. १८५४ में बडुआ को सीख दी.

नं. ५ नाथुसिंह को आधा वरलूठ की जागीर मिली, यानी पाया जाता है कि वरलूठ में दो मरतवा नाओलादी होनेसे आधा वरलूठ, वरलूठ के वंशवृक्ष में नं. ४ वख्तसिंह के तरफ रहा, और आधा वरलूठ की जागीर मोटागांम ठिकाना के शामिल रियासत ने

कर दी. इसका भाई नं. १ खुमाणसिंह, कालंद्री के अमरसिंह के गोद, कांकेदरा वाला था, उसको हटाकर खुमाणसिंह गोद रहा. नाथुसिंह ने वि.सं. १८७६ में बडुआ को सीख दी.  
नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८८८ में बडुआ को सीख दी.

नं. ६ रूघनाथसिंह को वि. सं. १९०९ में जोधपुर रियासत में कुरब १ व बांह पसाव की इज्जत दी गई थी.

नं. ७ शिवनाथसिंह ने वि. सं. १९३३ में बडुआ को सीख दी, यह नाओलाद होनेसे बरलूठ की दूसरी पांती का लक्ष्मणसिंह गोद आया.

नं. ८ लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्र सरूपसिंह को कालंद्री ठाकुर पृथ्वीराज के गोद जबरन बैठाना चाहा था, जिससे रियासत ने नामंजूर करके बरलूठ के कानसिंहका गोद मंजूर किया, जिसपर लक्ष्मणसिंह ने बगावत शुरू की, और राज्य की फौज के साथ मुकाबला किया, जिसमें रियासत की पलटन का एक हवालदार सिंधल पनेसिंह जगतसिंहोत जोगापुरा वाला मारा गया, और ठाकुर भाग निकला, जिससे मोटागांम की जागीर ईस्वीसन १९०९ में जप्त हुई. बाद में लक्ष्मणसिंह ने हाजिर होकर मुआफी मिलने के लिये अर्ज गुजारने से, इस कसूर निसबत रू. ५०००) जुर्माना के अलावा मोटागांम ठिकाने का ' गुडा ' गांव खालसा राज किया गया, और हवालदार पनेसिंह के पुत्र को मोटागांम की जागीर में से एक अरहट दिया जाकर, इस्वीसन १९१२ में यह जागीर वापिस दी गई.

नं. ९ सरूपसिंह नाओलाद गुजरा जिसपर नं. १ किशोरसिंह ने जो बरलूठ की दूसरी पांती में था, बगैर मंजूरी राज मोटागांम ठिकाना अपने कब्जे में लिया, जिससे उसको वहां से हटाकर सिरोही में नजर कैद रखा गया, बाद में मुआफी चाहने से इस कसूर निसबत रू. ३००) जुर्माना करके, खास शर्तों के साथ मोटागांम ठिकाना को जागीर इसको सुपुर्द की गई, लेकिन मौजूदा महाराव साहिब ने रहम फरमाकर, नं. ७४९ ता. २० मई सन १९२३ ईस्वी के खास ठहराव के जरिये, अगली खास शर्तों में फेरफार करके नकद लगान के कानून मुआफिक, इस जागीर में राजहक छःआनी के सालाना रू. २६३०) लेनेका तय किया है.

नं. १० महोवतसिंह दो साल की बालक अवस्था के मौजूदा पाटवी है.

५ वंशवृक्ष बरलूठ परगने झोरा पांती नं. १ के सूरवत.

१ हाथीसिंह ( वंशवृक्ष ठिकाना मोटागांम में नं. ३ वाला. ) ओ. प्रां. बरलूठ पांती नं. १

×  
| गोद आया बुआडा से  
२ सूरजानसिंह ( देखो पृष्ठ १२६ पर )

२ सृजानसिंह ( चल् वंशवृक्ष वरलूठ परगने झोरा पांती नं. १ के सुरावत. )

३ दोलतसिंह

× गोद आया बुआडा से  
४ वरुतसिंह

५ भभूतसिंह

६ आयदानसिंह

६ १/२ मोकसिंह

७ रावतसिंह

मूलसिंह

कहानसिंह (गोद गया कालंद्री)

८ वरदसिंह ( मौजूदा ठाकुर )

नोट-नं. ८ वरदसिंह वरलूठ की पांती नं. १ के मौजूदा ठाकुर है, इसके पिता नं. ७ रावतसिंह को मरहूम महाराव साहिब ने पैर में सोना पहिन ने की इज्जत बक्षी थी. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. लिखावट में इस ठिकाने के पाटवी को नं. ७ रावतसिंह के समय से 'ठाकुर' लिखा जाता है. नं. ५ भभूतसिंह को वि. सं. १९२१ में सियाकरा नामका वैरान खेडा आवादी के वास्ते महाराव उम्मेदसिंह ने इनायत किया था. नं. ७ रावतसिंह मरहूम महाराव साहिब की मिहरबानी का सरदार था, उसी कारण से नं. ६ १/२ मोकसिंह का पुत्र कहानसिंह को कालंद्री ठिकाने में गोद जाने का मौका हाथ लगा था.

६ वंशवृक्ष नवारा परगने मगरा के सुरावत.

१ लाखसिंह ( वंशवृक्ष ठिकाना कालंद्री में नं. ६ १/२ वाला. )

२ रुपसिंह

२ राजसिंह

सरदारसिंह

३ रायसिंह

पृथ्वीराज

३ प्रेमसिंह (देखो पृष्ठ १२७ पर)

साहेबखान

भोजराज

३ नाथुसिंह करणसिंह

सुजाण

४ सवाईसिंह

४ दुर्जनसिंह

४ वीरमदेव

जीवराज

४ वजेसिंह

वेणीदास

जगतसिंह

५ जामतसिंह

५ जेतसिंह वनेसिंह

५ हींदुसिंह

५ लालसिंह

गलालसिंह

६ मेघसिंह

६ जोगराज

६ जुवानसिंह

हेमसिंह

रघसिंह

इन्द्रसिंह

७ चैनसिंह

हिम्मतसिंह

(गोद गया अणगोर)

७ सवलसिंह

७ जुजारसिंह

नवलसिंह

(गोद गया अणगोर)

जुठसिंह

८ धनसिंह

८ सालमसिंह

८ सोनसिंह

८ सरुपसिंह

भूरसिंह

९ अमरसिंह

९ खीमसिंह

९ भभूतसिंह

८ सतीदान

हीरसिंह


लखसिंह

८ भोमसिंह

(मौजूदा पाटवी)

६ (अ) वंशवृक्ष नवारा परगने मगरा के सूरवत छोटभाई.

नं. ३ प्रेमसिंह ( चळू वंशवृक्ष नवारा में नं. २ रूपसिंह का पुत्र. )




नोट-नवारा गांव की जागीर में छोटभाईओं की जागीर खालसे राज होनेसे, इस गांव में एक हिस्सा खालसे राज है, और एक हिस्सा पाटवी व दूसरे छोटभाईओं के पास है. इस समय मौजूदा पाटवी नं. ९ अमरसिंह है, जिसको वख्तसिंह नामका पुत्र है. अमरसिंह के हिस्से की जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना नकद रकम ठहरना बाकी है, जो जमीन तकसिम होजाने बाद तय करने के लिये नं. ७३८ ता. ८ जुन सन १९२३ इस्वी से ठहराव हुआ है, लेकिन नं. ३ प्रेमसिंह की ओलाद वाले नं. ७ शिवसिंह, ७ मूलसिंह व ७ पहाडसिंह के हिस्से की जमीन का राजहक नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ११०) दाखिल करने का ठहराव नं. ७३९ ता. २० मेई सन १९२३ से तय हो चूका है.

७ वंशवृक्ष अणगोर परगने पामेरा के सूरवत, पांती नं. १

अणगोर की जागीर में नं. ३ उदयभाण व नं. ३ रणछोड की दो अलग २ पांती हुई थी, बाद में उदयभाण की ओलाद में नाओलादी हो जाने से, वि. सं. १८८२ में रणछोड की ओलाद वाले नं. ६ देवीसिंह व नं. २ ( पांती नं. २ के ) खुसालसिंह और नं. ३ मानसिंह यह तीनों को रियासत से वह पांती इनायत हुई, जिससे अणगोर में देवीसिंह व कैशरीसिंह की दो पांती, ' हुकमनामा पांती ' कायम हुई. पांती नं. १ के पाटवी नं. ८ सरूपसिंह है, और राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. १४६) नकद लगान के कानून मुआफिक ता. २१ जून सन १९२३ इस्वीके ठहराव से मुकरर हुई है. सरूपसिंह को १ तख्तसिंह, २ हीरसिंह व ३ सोनसिंह नाम के तीन पुत्र है.


१ पांचा ( ठिकाना कालंद्री के वंशवृक्ष में नं.  $\frac{५}{२}$  वाला. ) ओ. ग्रां. अणगोर पांती नं. १.

२ अमरसिंह



८ वंशवृक्ष अणगोर परगने पामेरा के सूरवत पांती नं. २.

१ कैशरीसिंह (अणगोर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं.  $\frac{५}{२}$  वाला.) ओ. ग्रां. पांती नं. २ अणगोर.




नोट-अणगोर की पांती नं. २ के पाटवी नं. ५ भवानसिंह है. इस पांती की राजहक आठ आनी की सालाना रकम रु. १८०) नकद लगान की कानून से मुकरर हुई है.

९ वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरवत पांती नं. १

‘डोडुआ’ की जागीर ठिकाने कालंद्री के नं. ३ जसवन्तसिंह ठाकुर के तीन पुत्रों (कानसिंह, रायसिंह व दलपतसिंह) को शामलात में मिली थी, जिससे उस गांव में तीन पांती हुई थी, पीछेसे कानसिंह व दलपतसिंह नाओलाद गुजर गये, जिससे वे दोनों पांती कालंद्री ठिकाने में रही, जो बाद में कालंद्री के ठाकुर नं. ४ करणसिंह ने अपना छोटा पुत्र नं.  $\frac{३}{३}$  वाला जेतसिंह को दी. जेतसिंह के दो पुत्र जोगराज व कैशरीसिंह डोडुआ में रहे, जिनकी दो पांती हुई, और तिसरा पुत्र हरदास थाणते गया, लेकिन

कैशरीसिंह नाओलाद गुजरने से, हरदास का पुत्र दोलतसिंह उसके गोद आया. बाद में हरदास का दूसरा पुत्र मानसिंह गुजर जाने से, धाणता की जागीर में ओलाद न रही, जिससे डोडुआ से दोलतसिंह ने अपना बड़ा पुत्र मानसिंह को धाणते भेजा. इस तरह होनेसे डोडुआ में तीन पांती हुई, ( १ रायसिंह कालंद्री वंशवृक्ष में नं. ३ वाला की, दूसरी जोगराज डोडुआ वंशवृक्ष नं. ९ में नं. २ वाला की, व तीसरी दोलतसिंह डोडुआ वंशवृक्ष में नं. ३ वाला की, ) परन्तु रायसिंह की ओलाद में पाटवी नाओलाद हो गये, और उनके छोट भाई मारवाड में चले गये, जिससे उनकी जागीर भी दूसरी दो पांती वालों ने दबा ली, इतनाही नहीं बल्कि जोगराज की पांती में से पाटवी नाओलाद होने से, उसकी जागीर भी दोलतसिंह की पांती वालों ने दबा ली, और उनके छोटभाई, छोटभाई के तौरपर ही रह गये, नतिजा यह हुआ कि पहिली दो पांती के छोटभाईओं को उनके पाटवी की पांती नहीं मिलते, दोलतसिंह का दूसरा पुत्र खानसिंह डोडुआ की पुरी जागीर का पाटवी हुआ, और उसने अपने पुत्र नं. ३ जोरावरसिंह व नं. ३ अभयसिंह के दरमियान डोडुआ की जागीर के दो हिस्से कर दिये, जिससे डोडुआ में दो पांती ' हुकमनामा पांती ' हुई, और अगली पांती वालों की ओलाद वाले छोटभाई हुए है.

१ जेतसिंह ( कालंद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला. ) ओ. ग्रां. डोडुआ.




नोट—नं. ९ वेरीसाल इस पांती नं. १ के पाटवी है, जिसके दूर्जनसिंह व जीवराज दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. ७६१) नं. ७७९ ता. १८-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुई है.



१० वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरवत पांती नं. २.


१ अभयसिंह ( डोडुआ पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ५ वाला. ) ओ. ग्रां. डोडुआ पांती नं. २



नोट—नं. ५ रावतसिंह इस पांती का पाटवी है, उसके किशोरसिंह, पर्वतसिंह व ओपालसिंह नामके तीन पुत्र हैं. इस जागीर के राजहक आठआनीकी सालाना रकम रु. ६३५) नं. ७८५ ता. १०-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुई है.


११ वंशवृक्ष वेलांगरी परगने पामेरा के सूरवत.

१ हीन्दूसिंह ( वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा पांती नं. १ में नं. ५ वाला ) ओ. ग्रां. वेलांगरी.




नोट—नं. ६ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का मौजूदा पाटवी है. नं. ४ गुलालसिंह को 'गुआलो खेडा' वि. सं. १९३० में आबाद करनेका परवाना राजसे इनायत हुआ, और 'ऊटा' व 'वेरूसा पादर' के खेडे सन १९१३ ईस्वी में, मौजूदा पाटवी को आबादी पर देनेका ठहराव हुआ है. इस जागीर की 'सीलोया' गांव में पांती थी वह खालसा राज है. नं. ३ उमसिंह वि. सं. १९१५ में धाणता के साथ लडाई में काम आया, और नं. ३ माधोसिंह व नं. ३ लाखसिंह वि. सं. १९२१ में धाणता के साथ लडाई में काम आये. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम रु. १२२१) सालाना, ता. १९ आगष्ट सन १९२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है, लेकिन मौजूदा जागीरदार ने पार्टीशन कराने की दरखास्त की है, जिससे नकद रकम का ठहराव अमल में नहीं है.

१२ वंशवृक्ष धांणता परगने पामेरा के सुरावत.



नोट—नं. ९ मेघसिंह ईस जागीर का मौजूदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानुन से सालाना रु. ६३०) जरीये ठहराव १०५९ ता. १८ आगष्ट सन १९२३ ई. के तय हुआ है. नं. ५ चतरसिंह व वेलांगरी का नं. २ खेमराज को 'सिलोया' गांव वि. सं. १८८० में आबादी के वास्ते दिया था, जिसमें वेलांगरी का हिस्सा खालसा राज है. नं. ७ शार्दूलसिंह को वि. सं. १९११ में 'राजपरा' गांव आबादी पर दिया गया, और नं. ८ रत्नसिंह को 'कुआ' व 'जाजर' खेडे उपर के ठहराव नं. १०५९ से आबादी के वास्ते सन १९२३ ई. में दिये गये है. नं.  $\frac{६}{२}$  पौमसिंह व नं.  $\frac{६}{३}$  कानसिंह को चंद्रावती गांव वि. सं. १९११ में आबादी के वास्ते दिया था, लेकिन कानसिंह की ओलाद धांणता में रहने से, उसका हिस्सा खालसा राज हुआ, और पौमसिंह की ओलाद चंद्रावती में है.

१३ वंशवृक्ष चंद्रावती परगने सांतपुर के सुरावत.




नोट—इस गांव में राजहक वारहआनी, और गांव आबाद करने की एवज में चारआनी की पैदायश नं. ४ मौजूदा पाटवी को बटवारा से मिलने का, ता. २६ जुन सन १९२३ इस्वी के ठहराव से तय हुआ है. यह गांव वि. सं. १९११ में धाणता वालों को आबाद करने के वास्ते खास शर्तों से दिया है.

१४ वंशवृक्ष वालदा परगने पामेरा के सूरावत. ( छोट भाई. )


वालदा गांव डोडुआ के सूरावत पांती १ के वंशवृक्ष में नं. ४ अणंदसिंह के तरफ था, लेकिन बाद में पाटवी जागीरदार की नाओलादी होनेसे खालसा राज हुआ. इस जागीर के छोटभाई वालदा में मौजूद है.

१ अणंदसिंह ( वंशवृक्ष डोडुआ पांती नं. १ में नं. ४ वाला )




१५ वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत छोटभाई रायसिंहोत.

१ रायसिंह ( ठिकाना कालेंद्री वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ).




१६ वंशवृक्ष चाण परगने झोरा के सूरवात.


१ डुंगरसिंह ( ठिकाना कालेंद्री के वंशवृक्ष में नं.  $\frac{३}{१}$  वाला. )




७ मोखसिंह (चलू वंशवृक्ष वाण परगने झोरा के सुरावत.)



१६ (अ) वंशवृक्ष वाण के छोटभाई नं. २ रामसिंह के पुत्र नं. ३ सुजाणसिंह व नं. ३ हरराज की ओलाद वाले.




१६ (आ) वंशवृक्ष वाण के छोटभाई नं. १ डुंगरसिंह के पुत्र नं. २ चंद्रसिंह व नं. २ सबलसिंह की ओलाद वाले. (नाओलाद हो गये वह)



नोट-वाण की जागीर के पाटवी नं. १० गुमानसिंह है. उसके १ जामतसिंह, २ मोतीसिंह व ३ भीखसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर की राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. २६८) नं. ७५८ ता. २१ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक मुकरर हुई है.

१७ वंशवृक्ष सगालिया परगने खूणी के सूरावत.

१ केशरीसिंह ( वाण वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) ओ. प्रां. सगालिया.




नोट-सगालिया में नं. ७ सोनसिंह मौजूदा पाटवी है, उसके १ जुवानसिंह २ भोपालसिंह व ३ वजेसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर के राजहक की आठआनी का ठहराव नं. ७२२ ता. १८ मई सन १९२३ ईस्वी का होकर, नकद लगान की कानून मुआफिक सालाना रु. ४५०) दाखिल करने का तय हुआ है.

१८ वंशवृक्ष नीवांडा परगने मगरा के सूरावत.

नीवांडा की जागीर कालंद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. ३ वाले प्रतापसिंह को मिली थी, लेकिन उसकी ओलाद वाले गांव वैरान हो जानेसे चले गये, फिर वि. सं. १८८० में देवडा जालमसिंह सुजाणसिंहोत को, महाराव शिवसिंह ने यह गांव आवाद करने का परवाना इनायत किया, बाद उसके दूसरे भाईयात भी इधर उधर से आकर इस गांव में आवाद होने लगे, जिससे यह गांव में जालमसिंह की ओलाद वाले बतौर जागीरदार है, और दूसरे सूरावत राजपूत दावे रहते है. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम

सालाना रु. ३२८) नकद लगान के कानून मुआफिक नं. ७५० ता. २९ मई सन १९२३ ईस्वी के ठहराव से तय हुई है. इस समय मौजूदा पाटवी विसनसिंह है.

१ प्रतापसिंह ( ठिकाना कालंद्री के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. )



सूरावत कलसिंह उर्फ कल्याणसिंह ( कालंद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला ) की ओलाद में उसके पुत्रों मेरसिंह से 'मेरावत' व अमरसिंह से 'अमरावत' नामकी दो प्रख्यात शाखाएं कहलाई गई, यदि वे सुरावत शाखा के हैं, परन्तु उन दोनों शाखाओं के अलग अलग प्रकरणों में उन शाखाओं के नाम से पुस्तनामे दिये गये हैं.

१९ वंशवृक्ष राजगढ ( मालवा ) के डुंगरावत देवडा ( सामन्तसिंहोत ).

इस पुस्तक की पृष्ठ ३१ ब. की टीप्पणी में राजगढ ( मालवा ) में देवडा करणसिंह है, वह खुद को सिरोही रियासत के कालंद्री ठिकाने के वंशज होना बताते थे, और उनको जोधपुर रियासत के 'नौसरा' के डुंगरावत देवडा के वंशज होगा वैसा खयाल किया गया था, लेकिन खोज चलाते मालूम हुआ कि वह 'सामन्तसिंहोत' डुंगरावत देवडा के वंशज है. जिनका मूल पुरुष ठिकाना कालंद्री के वंशवृक्ष में नं. २ ठाकुर सामन्तसिंह है. ( देखो वि. दू. के पृष्ठ ११७ पर ) इनका मूल पुरुष 'हमीरसिंह' नामक ठाकुर सामन्तसिंह का पोता व कालंद्री वंशवृक्ष में अंकित हुआ नं.  $\frac{५}{१}$  कानसिंह का भाई होना पाया जाता है. कानसिंह कालंद्री में काम आने पर वह छोटा होने के कारण अपनी बहिन के साथ जेसलमेर जा रहा, जिसको बाद में जेसलमेर के रावल ने सात गांवों की जागीर का पट्टा दिया, और उसके वंशज वहां रहने लगे.

कालंद्री ठिकाने में नं. २ ठाकुर सामन्तसिंह का नितोडा गांव में चूक हुआ, और नं. ३ ठाकुर जसवन्तसिंह के पुत्रों को डोडुआ गांव की जागीर मिली, लेकिन नं.  $\frac{५}{१}$  कानसिंह व नं.  $\frac{५}{३}$  दलपतसिंह ना ओलाद गुजरे, और नं.  $\frac{५}{२}$  रायसिंह की ओलाद वाले भी पीछेसे जोधपुर के तरफ चले गये थे, उस मुआफिक इनका सब से छोटा भाई हमीरसिंह होना और वह जेसलमेर चला जाना पाया जाता है.

हमीरसिंह बालक अवस्था में जेसलमेर चले जाने से और वहां ही जागीर पाने से सिरोही के देवडा चौहान के बडुआ को वही में उसके वंशज की ख्यात अंकित नहीं है, परन्तु जेसलमेर में जीस बडुआ ने इनके खानदान की ख्यात लिखी है, उससे मालूम होता है कि हमीरसिंह के बाद इनके खानदान में क्रमश नं. २ श्यामसिंह, नं. ३ रामसिंह, नं. ४ शेरसिंह, नं. ५ करणसिंह, नं. ६ सुजानसिंह, नं. ७ गंगारसिंह, नं. ८ मदनसिंह, व नं. ९ बहादुरसिंह हुए. जो सब जेसलमेर रियासत में जागीर पा रहे थे, लेकिन जेसलमेर के कितनेक भाटी सरदार सगाई सम्बन्ध के नाते से मालवे में आकर आबाद हुए है और जागीर पाई है, उस मुताबीक इस खानदान के देवडे भी मालवे में आये और नं. ९ बहादुरसिंह के बडे पुत्र करणसिंह को राजगढ नरेश वीरेन्द्रसिंह साहब ने इ. स. १९२२ में " खारचियाखेडी " नामक गांव की जागीर इनायत की.

नं. ९ बहादुरसिंह के पांच पुत्र. नं. १० करणसिंह, नं.  $\frac{१०}{१}$  लालसिंह, नं.  $\frac{१०}{२}$  रणजीतसिंह, नं.  $\frac{१०}{३}$  सुलतानसिंह, व नं.  $\frac{१०}{४}$  हनुवतसिंह. जिनमें से लालसिंह, रणजीतसिंह व सुलतानसिंह गुजर गये, उनमें लालसिंह के पुत्र सोहनसिंह, व रणजीतसिंह के विजयसिंह व चन्द्रसिंह नामक दो पुत्र हैं.

नं. १० करणसिंह राजगढ रियासत में मुसाहिव है, जिनके अर्जूनसिंह नामक पुत्र



हैं, और नं. १० हनुवतसिंह राजगढ नरेश के ए. डी. सी. व मिलिटरी सेक्रेटरी के काम पर नियत है.

जेसलमेर रियासत में इन सरदारों की जमीनदारी व गढी विद्यमान है, लेकिन मालवा में सगाई सम्बन्ध का नाता व जागीर प्राप्त होने से राजगढ रियासत में यह सब आवाद हुए हैं. इनका सगाई सम्बन्ध बहुधा भाटी, राठौर, कछवाह व सीसोदिया में होता रहा है.

यह सामन्तसिंहोत होने के कारण इनका पुस्तनामा कालंद्री ठिकाने के छोटभाईओं में दर्ज किया गया है.



## प्रकरण ११ वां.


### दुंगराक्त देकडा की मेरावत शाखा.


सूरावत के प्रकरण में लिखे मुआफिक सूरसिंह कालंद्री की लडाई में काम आनेसे उसके पुत्र कल्याणसिंह को, महाराव सुरताणसिंह ने वि. सं. १६४९ में अरठवाडा की जागीर दी, जिसका पुत्र मेरसिंह के नामसे सूरावतों में से 'मेरावत' शाखा कहलाई गई.

१ वंशवृक्ष अरठवाडा परगने खूणी के मेरावत.

अरठवाडा की जागीर में नं. ६ जयसिंह पाटवी था, और नं. ६ माहसिंह उसका छोटा भाई था, लेकिन माहसिंह की ओलाद वालों ने ज्यादाह जागीर दवा ली, और बाद में जयसिंह की ओलाद का पाटवी नं. १० सुजाणसिंह नाओलाद गुजरा जिसकी जागीर भी, वि. सं. १९५७ में माहसिंह की ओलाद के न.११ सरूपसिंह अचलसिंहोत को रियासत से इनायत हुई, जिससे सरूपसिंह अरठवाडा की जागीर का पाटवी हुआ, और जयसिंह की ओलाद के दूसरे मेरावत छोटभाई शुमार हुए.

१ कल्याणसिंह ( ठिकाना कालंद्री वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) ओ. ग्रां. अरठवाडा.





### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ कल्याणसिंह को वि. सं. १६४९ में महाराव सुरताणसिंह ने अरठवाडा की जागीर वारह गांवों से दी, ऐसा बडुआ की पुस्तक में लिखा है, यह भी बात मशहूर है कि अरठवाडा का सरदार पहिले ताजिमी था, और सरायत गिना जाता था.

नं. २ मेरसिंह की ओलाद वाले मेरावत कहलाये गये, यह बहादुर सरदार था, और महाराव अखेराज की सेवा में रहता था. इसके विषय में कविने कहा है कि,

“ अखा झरुखे आपरे रमो न चीतो राव, करसी मेर कलांगरो चीत्त बडा कल चाव. ”

“ मेरो दीपक डंगरा जुवावु अनलेस, जुवे रापत कुंजरे नत भीमेल भडेस. ”

मेरसिंह ने वि. सं. १६७५ में बडुआ चोखराज को शिरोपाव दिया, इसकी ठकराणी राठौरीजी रुपांकुंवर वि. सं. १६९० में अपने पति के पीछे सती हुई.

नं. ३ अमरसिंह को ओलाद वाले 'अमरावत' कहलाये, जिसका अहवाल अलग प्रकरण में लिखा गया है.

नं. ४ नारायण को बुढेरी गांव मिला था, मगर वह नाओलाद गुजर गया.

नं. ५ साहेबखान मुडारा गांव में काम आया.

नं. ६ ठाकरसी का पुत्र रणछोडदास बालकपण में गुजर जानेसे, दुर्जनसिंह दुसरे गांव से गोद आया, मगर कौन गांव से आया उसका पता नहीं चला.

नं. ७ मोहनसिंह जोधपुर के राजा रत्नसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, जो फतियावाद की लडाई में काम आया.

नं. ८ लादसिंह को वाडका गांव मिला, जिसकी वाद में तीन पांती हुई, जिनके अलग अलग वंशवृक्ष इस प्रकरण में लिखे गये है.

+ नोट—अरठवाडा

+ यह पुस्तक छानाने बाद अरठवाडे के सरदार अनोपसिंह ने अपने खानदान की ज्यादाह ल्यात लेखक को दी. जिसका सारांश यह है कि—नं. ३ ठाकुरसिंह बडा उदार सरदार हुआ. उसने मेवाड के महाराणा को अपनी तलवार बक्षी, उस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ अरठवाडे ठाकुरसी, उदयभाण री जान जातां; जलहल डुंगर जीतो ”

“ मेराहरो मेहवे मंडीओ, बुठोई राणो वदितो. ”

कवि के कथन का आशय यह है कि महाराव उदयभाण की बरात में अरठवाडा का ठाकुरसी गया था, वहां उसने डुंगरावत के कुल को देदिप्यमान किया. मेरसिंह का पोता ( ठाकुरसी ) मेघ की धारा के मुआफिक वहां भी ( दातारी करने में ) जाहिर में आया, वैसा राणा को कबुल रखना पडा. ठाकुरसिंह ने वहां पर ऐसी कया दातारी की, उस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि उसने वहां पर भाट-चारणों को त्याग देने में अपना डेरा लूटवा कर बडी नामवरी की, जो बात महाराणा के कान पर पहुंचने पर उसने ठाकुरसी को अपने पास बुञ्वा कर कहा कि हमने सूना है कि सिरोही की तलवार बहुत अच्छी होती है, जिसके प्रयुत्तर में उसने महाराणा को अपनी तलवार नजर कर दी. महाराणा ने वह वापस देना चाहा मगर उसने नहीं ली, जिससे महाराणा को स्वीकार करनाही पडा, और उसकी उदारता की कदर करके अच्छे शिरोपाव के साथ डंका निशान बक्षा.

नं. ४ दुर्जनसिंह का बडा पुत्र वजेसिंह भी उदार प्रकृति था, उसके विषय में कवि ने कहा है कि “ अरठवाडे सु अल्लो रहे तुं कुठावीरे काल, देय वजमल देवडो, मोटे रोटे मार. ” यानि वजेसिंह ने दुष्काल के समय में मुल पिडित मनुष्यों को खुराक देने से दुष्काल की असर वहां पर नहीं होने पाई थी.

नं. ५ देवीसिंह ने जोधपुर के राठौर मानसिंह की दो राणीयां व कुमार चतरसिंह को अपने आश्रय में रखे थे, जिससे जोधपुर के महाराजा भिमसिंह ने अरठवाडे पर फौज भेजी. इस लडाई में देवीसिंह का भाई नं. ३ जालमसिंह व पुत्र उमसिंह काम भाये, तब भी उसने मानसिंह के जनाने को राडवर गांव की खोल में रख छोडे. महाराजा भीमसिंह ने राडवर पर हमला किया, जब देवीसिंह जनानी सरदारों को लेकर अपने वेवाई ( नं. ६ कुमार दोलतसिंह के सुसराल ) सामल ( मेवाड में ) के ठाकुर पास चला गया. सामल गांव में वे दो रात ठहरे, दरमियान महाराजा भीमसिंह का देहांत हुआ और मानसिंह जोधपुर की गद्दी पर आया. उसने देवीसिंह को पांच गांव ( १ लास का गुडा, २ घोडावट, ३ पातारोवाडो, ४ मांहेलोवाडो, ५ भञ्जारोवाडो. ) जागीर में दिये, जिसमें च्यार गांव वि. सं. १९०९ तक में छूट चुके थे और ‘ लासकागुडा ’ कबजे में रहा था, वह भी अरठवाडे के एक राजपूत व सरगरा ने वहां का भोमिया राणावत सरदार को जान से मारने के कारण छूट गया.

महाराजा मानसिंह के जनाने को सिरोही के महाराव वेरीसाल ने अपने आश्रय में रखना अस्वीकार करने के कारण मानसिंह ने जोधपुर की गद्दी पर आतेही सिरोही पर आक्रमण करना शुरू किया. उस समय देवीसिंह अपनी फरज भदा करने के वारते महाराव की सेवा में उपस्थित हुआ. उस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ मोही घोडो माणी, लावोने फोजां लडां; कोईक जाणी, के झलियो देवो देवडो ”

“ कोई कुदी गया कोट, कोई छाना रह गया शेरीए; आडो मंडाणो ओट, झलियो देवो देवडो ”

“ बेई राजा बीच बाजी, दोनुं राखी देवीसिंह; राजा हुआ राजी, तलियो देवो देवडो ”

उसने बडी वीरता से जोधपुर की फौज के सामने युद्ध किया और काम आया, लेकिन जोधपुर वाले को आवु पहाड नहीं प्राप्त हुआ. उस विषय में कविने कहा है कि—

“ अरि फोज जोधाणरी, आई सिरोही उपरां; सबल खग देश तो बहार छोडियो ”

“ धणीरे काम सम, × × साल धारी; मेर रो मेरगढ होई मंडीयो ”

“ ब्रजड जद × × वार वसमी तले, × × किया हद रखण कावु ”

“ हजर हत आय, पगो भड देवसी, आय जोधाण घर नोज आवु ”

“ गढो नवो दूगरी, लाज गले जोडवर, भार खग × × सड न जूतो ”

“ सेज आवु, पलंग सरणुओ; सिरोही सराणे, लेज सूतो ”



नं. १<sup>३</sup> वीरमदेव की ओलाद वाले भेव, उतमण, पोसालिया, रूखाडा, खणदरा, आदि गांवों में हैं, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ३<sup>३</sup> धनसिंह की ओलाद वाले मोसाल गांव में हैं, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ४ दुर्जनसिंह, बडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि यह अरठवाडा में गोद आया.

नं. ५ सुरतसिंह के दो पुत्र नं. ६ जयसिंह और नं. ६<sup>६</sup> माहसिंह से अरठवाडे में दो पांती हुईं. नं. ६ जयसिंह अरठवाडा में पाटवी था, मगर माहसिंह ने अरठवाडा की जागीर दवा ली, और खुद पाटवी बन गया, बाद में जयसिंह का पुत्र नं. ७ वीरमदेव का पोता नं. ९ वख्तसिंह नाओलाद गुजरा, तब उसके गोद नं. ९<sup>९</sup> आयदान का पुत्र सुजाणसिंह गया, लेकिन वह भी नाओलाद गुजरने से नं. ११ सरूपसिंह को उसके हिस्से की भी जागीर वि. सं. १९५७ में रियासत से नजराना लेकर इनायत की गई, जिससे नं. ६<sup>६</sup> माहसिंह की ओलाद वाले अरठवाडा की पुरी जागीर के पाटवी हुए.

नं. ९<sup>९</sup> आयदान की ओलाद वाले अरठवाडा में छोटभाई हुए.

नं. ९<sup>९</sup> देवीसिंह ने वि. सं. १८५९ में जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अपने आश्रय में अरठवाडा गांव में रखा था. देवीसिंह महाराव बेरीसाल के वक्त में सिरौही में काम आया. देवीसिंह के बाद नं. ६<sup>६</sup> दोलतसिंह, नं. ६<sup>६</sup> श्यामसिंह, नं. ६<sup>६</sup> अचलसिंह, व नं. ११ सरूपसिंह इस मुआफिक अरठवाडा में पाटवी जागीरदार हुए.


नं. ९<sup>९</sup> जालमसिंह अरठवाडा में काम आया.

नं. ६<sup>६</sup> पनेसिंह व नं. ६<sup>६</sup> रत्नसिंह इन दोनों को 'राडवर' गांव मिला, लेकिन पनेसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे, रत्नसिंह राडवर में रहा, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. १२ अनोपसिंह अरठवाडा गांव के मौजूदा पाटवी हैं, इस जागीर में राजहक आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३२५) लेनेका ठहराव नं. ७३१ ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

२ वंशवृक्ष राडवर परगने खूणी के मेरावत.

१ रत्नसिंह ( अरठवाडा वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) ओ. ग्रां. राडवर परगने खूणी.




नोट—इस जागीर में मौजूदा पाटवी नं. ४ गुमानसिंह है, जिसके वरदसिंह व किशोरसिंह नामके दो पुत्र हैं. इस जागीर का राजहक आठआनी पार्टीशन के कानून मुआफिक पाटवी को आवगा देकर, चोटीला गांव में जागीरदार का जो हक था वह और रू. १५०) नकद सालाना हमेशा के वास्ते रियासत में लेनेका, ठहराव नं. ७२६ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है, इस तरह होनेसे राडवर गांव आवगा जागीर में हुआ, और उसमें दो पांती हुई, जिसमें एक राडवर के पाटवी गुमानसिंह की, और दूसरी चोटीला के डुंगरसिंह धीरसिंहोत (देखो चूली के भेदावत प्रकरण १७ में नं. २ के वंशवृक्ष में नं. १<sup>०</sup>वाला)की.

३ वंशवृक्ष वाडका पांती नं. १ परगने खूणी के मेरावत.

वाडका गांव में नं. १ लादसिंह के तीन पुत्रों से तीन अलग अलग हुकमनामा पांती हुई है.


१ लादसिंह ( अरठवाडा के वंशवृक्ष में नं. ३<sup>२</sup> वाला. ) ओ. ग्रां. वाडका पांती नं. १ परगने खूणी.




नोट—वाडका पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी उम्मेदसिंह है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ६६) लेनेका नं. ७२७ ता. २१ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से तय हुआ है.

४ वंशवृक्ष वाडका पांती नं. २ परगने खूणी के मेरावत.

१ दूर्जनसाल ( वंशवृक्ष वाडका पांती नं. १ में नं. ३<sup>२</sup> वाला. ) ओ. ग्रां. वाडका पांती नं. २




२ अणंदसिंह ( चलू वंशवृक्ष वाडका पांती नं. २ )



नोट-इस वाडका पांती नं. २ की जागीर में मौजूदा पाटवी धनसिंह है, इस पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू.४३) लेनेका ठहराव नं. ७२८ ता. २१ मई सन १९२३ ईस्वी सें तय हुआ है.

५ वंशवृक्ष वाडका परगने खूणी के मेरावत पांती नं. ३.

१ साहेबखान ( वाडका के पांती नं. १ के मेरावत वंशवृक्ष में नं. २ वाला. ) ओ. ग्रां. वाडका पांती नं. ३









नोट—इस वाडका गांव की पांती नं. ३ का पाटवी नं. ६ हीरसिंह है. इस पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १२९) लेनेका, नं. ७२९ ता. २१ मई सन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.

६ वंशवृक्ष भेव परगने खूणी के मेरावत.


१ वीरमदेव ( अरठवाडा के मेरावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) ओ. ग्रां. भेव.




नं. ७ खुसालसिंह (चलू वंशवृक्ष भेव में नं. ६ मालदेव का पुत्र छोटभाई.)




नं. ७ कहानसिंह (चलू वंशवृक्ष भेव में नं. ६ मालदेव का पुत्र छोटभाई.)




नं. ६ गुमानसिंह (चलू वंशवृक्ष भेव में नं. ५ अणंदसिंह का पुत्र छोटभाई.)



नं. ४ हाथीसिंह (चलू वंशवृक्ष भेव में नं. ३ जगतसिंह का पुत्र छोटभाई.)




नं. ४ देवीसिंह (चलू वंशवृक्ष भेव में नं. ३ जगतसिंह का पुत्र छोटभाई.)




६ (अ) वंशवृक्ष भेव परगने खूणी के मेरावत छोटभाई.

१ आशकरण (भेव के मेरावत वंशवृक्ष में नं २ वाला छोटभाई)




३ भावसिंह (बल्लु वंशवृक्ष भेव परगने खूणी के मेरावत छोटाभई.)




नोट-भेव की जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ११ वख्तसिंह है उसके १ डुंगरसिंह, २ कैशरीसिंह, व ३ हीरसिंह ये तीन पुत्र है, इस जागीर के राजहक आठआनी की रकम रु. ७९०) सालाना नकद लगान के कानून मुआफिक वसूल होनेका ठहराव नं. ७१३ ता. २० मई सन १९२३ ई. को तय हुआ है.

७ वंशवृक्ष उत्तमण परगने खूणी के मेरावत.

१ रघुसिंह ( भेव के मेरावत वंशवृक्ष में नं ३/२ वाला. ) ओ ग्रां. उत्तमण.



२ साहेबखान ( चतू वंशवृक्ष उतमण में नं. १ रघुसिंह का पुत्र. )





नोट-उतमण के मौजूदा पाटवी नं. ९ उमसिंह है, इसके १ करणसिंह २ जयसिंह ३ वसन्तसिंह ४ शक्तसिंह व ५ सतीदान यह पांच पुत्र है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रकम रु. ८११) वसूल होनेका ठहराव नं. ७०७ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

८ वंशवृक्ष पोसालिया परगने खूणी के उतमण पांती के मेरावत. (छोटभाई)

पोसालिया में एक पांती भेव के वंशवृक्ष में नं. ३ लाखसिंह की थी, और दूसरी पांती उतमण वंशवृक्ष के नं. ३ हटेसिंह की थी, उतमण की पांती में पाटवी नं. ३ कुशलसिंह नाओलाद होनेसे वह पांती खालसे राज हुई है, और छोट भाई में नं. ५ समेरसिंह मौजूद है. दूसरी भेवकी पांती के पाटवी ने पोसालिया की अपनी पांती रियासत को देकर, वह रामपुरा गांव में गये है.

१ हटेसिंह ( उतमण के मेरावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) उतमण पांती खालसा राज. छोटभाई पोसालिया






नोट-नं. ५ समेरसिंह के तरफ पोसालिया में जो जागीर है, उसके राजहक आठ आनी का सुकरर लगान सालाना रु. १३१) हमेशा के लिये, वसूल करनेका ठहराव ता. १ जून सन १९२६ ईस्वी से तय हुआ है.

९ वंशवृक्ष रूखाडा परगने खूणी के मेरावत.


१ श्यामसिंह ( उत्तमण के मेरावत वंशवृक्ष में नं. २/१ वाला ) ओ. ग्रां. रूखाडा.




नोट-रूखाडा गांव का मौजूदा पाटवी नं. ७ खूसालसिंह है, इसके मोदसिंह व चतरसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ४८८) लेनेका ठहराव नं. ७१५ ता. १४ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

१० वंशवृक्ष (पोसालिया परगने खूणी की भेव की पांती के मेरावत.) अब रामपुरा परगने खूणी के मेरावत.


१ लाखसिंह ( भेव के मेरावत वंशवृक्ष में नं ३/२ वाला.) ओ. ग्रां. रामपुरा परगने खूणी



३ दोलतसिंह ( चल् वंशवृक्ष रामपुरा परगने खूणी के मेरावत. )




नं. ५ जेतसिंह ( उपर देखो नं. ३ दोलतसिंह का पुत्र पोसालिया. ) छोटभाई रामपुरा.




नोट-मौजूदा पाटवी नं. ८ अचलसिंह है, उसके १ रावतसिंह, २ तेजसिंह व ३ वाघसिंह ये तीन पुत्र है. अचलसिंह ने पोसालिया गांव की भेव की पांती की जागीर राज में देकर, उसके एवज में रामपुरा गांव लेने से अब यह 'रामपुरा' के पाटवी हुए है. रामपुरा गांव में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना रु. ४११) मुकरर होनेका व तवादला गांव का ठहराव ता. जून सन १९२३ ई. से तय हुआ है, और पोसालिया की भेव की पांती के मेरावत का तालुक कतई तौरसे पोसालिया में बंध हुआ है.

११ वंशवृक्ष खणदरा परगने खूणी के मेरावत व मेरावत छोटभाई पोसालिया.

१ गुलाबसिंह ( वंशवृक्ष रामपुरा के मेरावत में नं. ५ वाला. )




३ सालमसिंह ( चलू वंशवृक्ष खणदरा परगने खूणी के मेरावत व मेरावत छोटभाई पोसालिया. )



नोट—खणदरा गांव में मौजूदा पाटवी नं. ५ किशनसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २५४) लेनेका ठहराव नं. ७०६ ता. १६ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

१२ वंशवृक्ष मोसाल परगने खूणी के मेरावत.


१ धनसिंह ( अरठवाडा के मेरावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. )



नोट—इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. १० जामतसिंह है, जिसके १ हमीरसिंह व २ दोलतसिंह नामके दो पुत्र हैं. इस जागीर में से राजहक आठआनी के एवज में फतापुरा

गांव व रु. १८०) सालाना राज में देनेका ठहराव होकर, मोसाल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक आवगा जागीरदार के तरफ रखा गया है, लेकिन जंगल की आमदनी होवे उस में रियासत का आठआनी हक कायम रखा गया है, इस वाबत का ठहराव ता. मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

१३ वंशवृक्ष फतापुरा परगने खूणी के मेरावत.



नोट—नाओलादी होनेसे यह गांव खालसा होकर वि. सं. १९०९ में नं. ६ मोसाल वाला प्रेमसिंह जुवानसिंहोत को रियासत ने इनायत किया था, लेकिन उसकी ओलाद भी नहीं रही, जिससे मोसाल वाले के साथ जो ठहराव ता. मई सन १९२३ ई. का तय हुआ है, उस मुआफिक यह गांव खालसा राज हुआ है.






## प्रकरण १२ वां.

### डुंगरावत देवडा की अमरावत शाखा.

अरठवाडा के कल्याणसिंह सूरवात का दूसरा पुत्र अमरसिंह को जोगापुरा की जागीर मिली, जिसकी ओलाद वाले 'अमरावत' कहलाये गये. जोगापुरा ठिकाना, पाटवी जागीरदार नाओलाद होनेसे खालसे राज हुआ. बाद राजसाहेब तेजसिंह को यह जागीर दी गई थी, लेकिन पीछेसे वह महाराज के हाथखर्च में रखकर, राजसाहेब को मणादर की जागीर दी गई थी. इस समय में यह गांव महाराज मानसिंह के तरफ है, और इस गांव में अमरावत छोटभाई के तरफ अरहट खेत आदि है.


१ वंशवृक्ष जोगापुरा परगने खूणी के अमरावत. (छोटभाई.)

१ अमरसिंह (अरठवाडा के मेरावत वंशवृक्ष में नं. २/१ वाला) छोटभाई.



वंशवृक्ष गोला परगने खूणी पांती नं. १ के अमरावत.


१ रायसिंह (जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष में नं. ८/१ वाला) ओ. प्रां. गोला पांती नं. १



नोट-नं. ३ भभूतसिंह पाटवी है जिसके १ जोरसिंह, २ पीरसिंह, ३ मालदेव, ४ कैशरीसिंह व ५ जयसिंह नाम के पांच पुत्र हैं. इस पांती में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ५७) नकद लगान के कानून से दाखिल करनेका नं. ७५२ ता. २१-५-२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है. नं. ३ पहाडसिंह को वि. सं. १९३९ में रांवाडा के ठाकुर शार्दूलसिंह के साथ, देहान्त की सजा हुई उसमें गोली से राज ने मरवा डाले.

३ वंशवृक्ष गोला परगने खूणी की पांती नं. २ के अमरावत.


१ मुकुन्ददास ( जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष में नं. ८ वाला ) ओ. ग्रां. गोला पांती नं. २



नोट-नं. ३ समर्थसिंह मौजूदा पाटवी है, इसके १ हीरसिंह व २ वनेसिंह नामके दो पुत्र हैं. इस पांती का राजहक आठआनी, सालाना रु. ६१) नकद लगान के कानून मुआफिक ठहराव नं. ७५३ ता. २१ मई सन १९२३ ई. से दाखिल करनेका तय हुआ है.

४ वंशवृक्ष रांवाडा परगने खूणी के ( नाभोलाद ) अमरावत.

१ शेरसिंह ( जोगापुरा अमरावत वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) खालसा राज.




नोट-रांवाडा की जागीर एक नक्कारबंध ठिकाना था, लेकिन इस ठिकाना के ठाकुर हमेशा से लूट धाडे करते थे, और जोधपुर रियासत के साथ गोलमाल रखते थे, नं. २ आयदान ने वि. सं. १८७१ में जोधपुर रियासत की सहायता में रहकर रांवाडा में जोधपुर का थाणा बिठलाया था, ( परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर मित्ती संवत १८७१ का आशोज वदि १३ वार भोम. ) इसी कारण से उसको जोधपुर रियासत से ताजीम की इज्जत बक्षी गई थी. नं. ४ शार्दूलसिंह ने भी चोरी लूट और वगावत का धंधा ईखितयार किया, जोधपुर रियासत के कई गांवो से यह बोल (चोथ) वसूल करता था, इसको इन कसूर में वि. सं. १९२९ में वारह सालकी कैद की सजा हुई, और अजमेर की जेल में भेजा गया, लेकिन तीन साल बाद सिरोही के सरायतों ने उसके नेकचलन

रहने की जमानत दाखिल करने से, महाराव उम्मेदसिंह ने उसको कैद से छुड़ाया, और रांवाडा की जागीर वापिस दी. च्यार वर्ष बाद उसने फिर तूफान शुरू किया, और 'केराल' गांव के सिंधल जोरसिंह को मारकर, केराल गांव बरवाद करके वागी हो गया. तीन वर्ष उसने बगावत में निकाले, और सीणे भीलों का बडा गिरोह जमा करके सैकडो वारदातें की, वि. सं. १९३९ में वह पकडा गया, और उस पर खून व डकैती के गुनाह साबित होने से देहान्त दंड की सजा हुई, लेकिन सरदार होनेके कारण फांसी पर नहीं लटकाते साणेश्वरजी के रास्ते पर उसको व गोला गांव के नं. ३ पहाडसिंह को गोली लगवाकर मरवा डाले, कहा जाता है कि शार्दूलसिंह को बारह गोली लगने पर वह जमीन पर गिरा था, उसकी छात्री उस स्थान पर विद्यमान है. रांवाडा की जागीर इसी कसूर में खालसा राज हुई, बाद में उसका पुत्र जुवानसिंह भी जोधपुर में गुजर गया.

५ वंशवृक्ष बुडेरी परगने खूणी के अमरावत.


१ गजेसिंह ( वंशवृक्ष जोगपुरा में नं. ४ वाला. )




नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ८ पीरसिंह है, इसके १ कृष्णसिंह व २ रणजीतसिंह नामके दो पुत्र हैं. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ४४८) दाखिल करनेका ठहराव नं. ७११ ता. २० मई सन १९२३ इस्वी से तय हुआ है.



६ वंशवृक्ष मोटा लखमावा परगने खूणी के अमरावत.

१ सवलींग ( जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष में नं. ३/१ वाला. ) ओ. ग्रां. मोटा लखमावा.



नं. ३ अणंदसिंह ( चल् वंशवृक्ष नं ६ में नं. २ अजबसिंह का पुत्र )






नोट—इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ८ धुलसिंह है, इसके कृष्णसिंह व अखेराज नामके दो पुत्र हैं, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना रु. ४८२ लेनेका ठहराव नं. ७०८ ता. २० मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

७ वंशवृक्ष. जोधला परगने खूणी के अमरावत (छोटभाई.)


१ महेशदास (वंशवृक्ष जोगापुरा के अमरावत में नं. २ वाला) नाओलादी खालसा.




नोट—नं. १० केशरीसिंह नाओलाद होनेसे यह जागीर खालसा राज हुई है. नं. ९ लालसिंह छोटभाई मौजूद है, जिसको ठहराव नं. ७०९ ता. १६ मई सन १९२३ ई. के मुआफिक अरठ व खेत रहे है.

८ वंशवृक्ष जोधला परगने खूणी के छोटभाई व पोईणा और घनापुरा इलाके जोधपुर के अमरावत.

१ रायवदास (वंशवृक्ष जोगापुरा के अमरावत में नं. २ वाला.)



२ भूपतसिंह ( चल्द वंशवृक्ष नं. ८ जोयला छोटभाई में नं. १ राघवदास का पुत्र. )



नं. २ भूपतसिंह को जोगापुरा में वंट मिला था, लेकिन वह 'वेडल' चला गया था, जो बाद में उसका पोता नं. ४ प्रेमसिंह वि. सं. १८०१ में वापिस जोयला गांव में आनेसे, उसको बहैसियत छोटाभाई आबाद किया गया, जिसकी ओलाद जोयला में मौजूद है.

नं. ३ रणछोड को 'पोईणा' गांव जागीर में मिला, यह गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के तरफ चला गया, लेकिन रणछोड की ओलाद वाले 'पोईणा' में मौजूद है. 'पोईणा' में रणछोड से क्रमशः २ लालसिंह ३ जोधसिंह ४ तख्तसिंह ५ जालमसिंह ६ भारतसिंह ७ हिम्मतसिंह व ८ जुहारसिंह हुए. नं. ८ जुहारसिंह मौजूदा जागीरदार है.

नं. ३ तेजसिंह व नं. ३ उदयसिंह को धनापुरा की जागीर मिली, और ये दो भाईयों से धनापुरा की जागीर में दो पांती हुई, मगर धनापुरा गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के तरफ चला गया, नं. ३ तेजसिंह की ओलाद में क्रमशः २ महासिंह, ३ जसवन्तसिंह, ४ वीरभाण, ५ वजेसिंह, ६ वेनसिंह, ७ अमरसिंह व ८ कैशरीसिंह हुए. नं. ८ कैशरीसिंह धनापुरा जागीर की पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी है.

नं. ३ उदयसिंह की ओलाद में क्रमशः २ नाडसिंह, ३ कृष्णसिंह, ४ जयसिंह, ५ कान्हसिंह व ६ लक्ष्मणसिंह हुए. नं. ६ लक्ष्मणसिंह धनापुरा जागीर की पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी है.


## प्रकरण १३ वां.

### डुंगरावत के भीमावत व अर्जुनोत.


ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ६ भीमसिंह की ओलाद वाले ' भीमावत ' व नं. ६ अर्जुनसिंह की ओलाद वाले ' अर्जुनोत ' कहलाये. भीमसिंह का बड़ा पुत्र रामदास को भूतगांव मिला, और अर्जुनसिंह की ओलाद वाले नुन गांव में है, जिनके वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

#### १ वंशवृक्ष भूतगांव परगने झोरा के भीमावत.

१ भीमसिंह ( ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. ६ वाला. )




४ लादसिंह ( चल् वंशवृक्ष भूतगांव परगने मोरा के भीमावत में नं. ३ आशकरण का पुत्र )



नोट-इस जागीर में मौजूदा पाटवी नं, १३ मानसिंह है, इसके एक पुत्र भूरसिंह है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ९४४) ठहराव नं. ९६७ ता. १ आगष्ट सन १९२३ ई. से दाखिल करनेका तय हुआ है.

२ वंशवृक्ष नुन परगने मगरा दूसरी पांती के अर्जुनोत.

१ अर्जुनसिंह ( ठिकाने पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला. )






नोट-पांती नं. १ में नं. ४ लाखसिंह की ओलाद न रहने से, यह पांती खालसे राज होकर पाडिव ठाकुर को दी थी, पीछे से वापस रियासत ने ले ली, और जावाल ठाकुर को दी गई, जावाल ठिकाने से यह पांती अपने भाईओं को दी गई, जिससे नुन गांव में एक पांती जावाल की है, जिसका पाटवी रामावत मोतीसिंह है. ( जावाल की पांती का वंशवृक्ष रामावतों के प्रकरण में दिया गया है. )

नुन की दूसरी पांती जो ' अर्जुनोत ' की है, उसका पाटवी नं. ११ सतीदान है. इस जागीर में राजहक आठआनी का नकद लगान ठहराने की तजवीज दरपेश है. सतीदान के एक पुत्र जीवसिंह नामका है.







नोट—नं. १० धनसिंह कसूर में आनेसे सीलदर की पांती नं. १, जिसमें यह पांती का सीलदर गांव की जागीर में  $\frac{२}{३}$  हिस्सा था, वह पांती वि. सं १८८७ में खालसे राज हुई, और उनकी ओलाद वाले खालसा पांती के छोटभाई के तौर पर है. नं.  $\frac{१२}{३}$  पहाडसिंह नं.  $\frac{११}{२}$  कीरतसिंह के गोद गया था, लेकिन बाद में उसने नं. १३ मूलसिंह का सीलदर की जागीर में  $\frac{२}{३}$  हिस्सा जो खालसे राज हुआ था, वह मिलने का दावा किया, जो दावा ठहराव नं. ७५९ ता. ३१ मई सन १९२३ ई. से खारिज हुआ, और नं.  $\frac{११}{२}$  कीरतसिंह का गोद कायम रहकर, उसका छोटभाई का वंट पहाडसिंह के तरफ रहा, और मूलसिंह को राजसे जो आजीविका दी थी, वह नं.  $\frac{१३}{२}$  खुसालसिंह के तरफ रही.

### सीलदर के कुंभावतों का संक्षिप्त इतिहास.

सीलदर के कुंभावत और हरणी के सांगावतों दरमियान, शुरू से ही अपनी २ जागीर के गांवों के सिमा की तकरार चली आई है, इस तकरार में कई एक दफे आपस में वाद हुआ, और दोनों पक्ष के राजपूत मारे गये, इतनाही नहीं लेकिन इसी तकरार में सीलदर की पांती नं. १ के पाटवी नं. १० धनसिंह ने अपनी जागीर गुमा दी.

नं. १ मांडण को सीलदर की जागीर मिली थी, यह हरणी के मगरे के युद्ध में, अपने प्रधान परमार शेरसिंह के साथ काम आया, उस स्थान को मांडण की काकर कहते हैं, ( पाया जाता है कि यह लडाई सांगावतों के साथ हुई थी. ) इसके विषय में किसी ने कहा है कि,

“ घरा मांडण घर रखा, ने रणरा मांडण रण रखा. ”

नं. २ कुंभा से कुंभावत कहलाये. कुंभा, महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६४० में दताणी की लडाई में काम आया.

नं.  $\frac{२}{१}$  सूर्जनसिंह के पोते नं.  $\frac{४}{२}$  राजसिंह व नं.  $\frac{४}{३}$  जीवसिंह ने निंवज के लखावत पृथ्वीराज को मारकर, महाराव रायसिंह का बैर लिया, जिससे महाराव अखेराज ने,

राजसिंह को 'लाय' व 'तलेटा' दो गांवों की जागीर व जीवसिंह को 'छीवागांव' की जागीर दी, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में अलग २ दिये गये हैं.

नं. ३ खेमसिंह सीलदर में पाट बैठा, यह अपने भाई नं. ३ जयमल व नं. ३ वरजींग के साथ 'वाडेली' गांव के पास, महाराव रायसिंह की सेवा में काम आये, जिसमें नं. ३ जयमल नाओलाद हुआ.

नं. ३ वरजींग के पुत्र केशवदास को 'तवरी' गांव मिला, और केशवदास के पुत्र नारखान को महाराव अखेराज ने 'मांडवारा' की जागीर बक्षी, जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में, वंशवृक्ष नं. ३ वाले 'मांडवारा' ठिकाना के कुंभावत है.

नं. ३ वीरमदेव की ओलाद वाले कुंभावतों को 'रायपरीया' गांव की जागीर महाराव अखेराज ने बक्षी, जो गांव पीछे से जोधपुर रियासत की हद में चला गया. वीरमदेव से क्रमशः २ सतीदान, ३ तेजपाल, ४ नारखान, ५ सुजाणसिंह, ६ महासिंह, ७ अनोपसिंह, ८ जोरावरसिंह, ९ खुसालसिंह, व १० हेमसिंह रायपरीया में हुए. नं. १० हेमसिंह रायपरीया का मौजूदा पाटवी है.

नं. ४ मालदेव, निंबज के लखावत चांदा के साथ युद्ध में काम आया, जिससे नं. ४ मंगलसिंह सीलदर का पाटवी हुआ.


नं. ८ कलसिंह के नं. ९ जोरसिंह व नं. ९ सरदारसिंह, इन दो पुत्रों से सीलदर गांव की जागीर में दो पांती हुई, जिसमें जोरसिंह के तरफ इस जागीर में से दो हिस्से व सरदारसिंह के तरफ एक हिस्सा की जागीर रही. यह दोनों पांती 'हुकमनामापांती' हुई.

नं. ९ जोरसिंह का पुत्र नं. १० धनसिंह ने वि. सं. १८७९ में रियासत से मनाई करने पर भी, हरणी वाले सांगावतों के साथ मुकाबला किया, जिसमें इसका भाई नं. १० शेरसिंह व परमार हरनाथ, परमार जगतसिंह, वजीर गोका, भील भूदरा, भील केरींग आदि काम आये, और कितनेक हरणी के आदमी भी मारे गये. उसके बाद भी यह अपनी आदतों से बाज नहीं रहा, जिससे इस कसूर वावत वि. सं. १८८७ में इसकी जागीर रियासत ने जप्तकर खालसा करदी. बाद में इसके पुत्रों को रियासत ने उनके गुजारा के वास्ते आजीविका में अरहट खेत दिये, जिससे वह खालसा पांती के छोटभाई के तौर पर है.

नं. ९ सरदारसिंह की ओलाद, सीलदर की पांती नं. २ वाले कहलाये.

२ वंशवृक्ष सीलदर परगने मगरा के कुंभावन पांती नं. २.

१ सरदारसिंह ( सीलदर वंशवृक्ष नं. १ खालसा पांती के कुंभावतों में नं.  $\frac{१}{१}$  वाला ) ओ. ग्रां. सीलदर वंशवृक्ष में नं. ४ वाला मंगलसिंह




नोट—सीलदर पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी लाखसिंह है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ४७८ लेनेका ठहराव नं. ७५६ ता. ३१-५-१९२३ ई. से तय हुआ है.

ठिकाना मांडवारा के कुंभावन.

मांडवारा की जागीर नं. ३ नारखान 'तवरी' वाले को मिली, मगर बाद में उसके पोता नं.  $\frac{६}{१}$  सूरताणसिंह ने पाटवी की जागीर दवाली, जिससे सूरताणसिंह की ओलाद वाले पाटवी रहे, और नं. ६ अणंदसिंह की ओलाद वाले छोटभाई हुए.

३ वंशवृक्ष मांडवारा परगने मगरा के कुंभावन छोटभाई.

१ वरजींग ( वंशवृक्ष सीलदर के कुंभावन में नं.  $\frac{३}{२}$  वाला. )






लौजूदा ठाकुर साहब ( मेर ) मांडवारा-रियासत सिरोही.



ठाकुर साहब डुंगरसिंह ठिकाना मांडवारा.

[ विभाग दूसरा पृष्ठ १६४ नं. ५ ]


७ अमरसिंह ( चल् वंशवृक्ष मांडवारा परगने मगरा के कुंभावत छोटभाई. )



४ वंशवृक्ष मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंभावत.

उपर के वंशवृक्ष में नं. ६ सूरताणसिंह ने मांडवारा की जागीर दवाली और पाटवी बन गया, जिसकी ओलाद में मौजूदा पाटवी है.

१ सूरताणसिंह ( वंशवृक्ष मांडवारा के कुंभावत में नं. ६ वाला. ) मेरमांडवारा के पाटवी ठाकुर.



मांडवारा ठिकाने का संक्षिप्त इतिहास.

मांडवारा के कुंभावत वंशवृक्ष नं.३ में नं. ३ नारखान को मांडवारा मिला, उस वंशवृक्ष के नं. ४ दुर्जनसिंह मांडवारा में काम आया, और नं. ६ अणंदसिंह हरणी के साथ वाद में आयल के मगरे काम आया, नं. ७ अमरसिंह वालक होनेसे नं. ६ सूरताणसिंह जो उसका काका था, वह मांडवारा का पाटवी हो गया.

वंशवृक्ष नं. ४ ( मांडवारा के पाटवी ) में नं. २ पद्मसिंह को वि. सं. १८३७ में ' सिरोडकी ' मिला. पद्मसिंह निंबज के लखावतों के साथ लडाई में ' डावले के मगरे ' में अपने प्रधान जो कुकड व वोडा राजपूत थे, उनके साथ काम आया. नं. ३ अखेराज नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसे राज हुई, इसके भाई नं. ३ गोमसिंह को वि. सं. १८८५ में पोईदरा गांव की हिफाजत रियासत ने सुपुर्द की.




नं. ३ अभयसिंह वि. सं. १८६७ में जोधपुर गया था, जहां उसको कुरव १ की इज्जत मिली थी.

नं. ४ शिवनाथसिंह को कोटरा गांव आबादी के वास्ते दिया गया.

नं. ५ डुंगरसिंह मांडवारा ठिकाना के मौजूदा ठाकुर है. इस ठिकाने की जागीर में, राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून सुआफिक नं. ७३६ ता. २९ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सालाना रू. २५४०) लेनेका तय हुआ है. मांडवारा के ठाकुर ताजिमी सरदार है, और उसको ' ठाकरां राज ' की लिखावट के साथ पैर में सोना पहिनने की इज्जत रियासत से वक्षी हुई है. मांडवारा ठिकाना के ठाकुर जोकि सरायत नहीं है तब भी बाजे वक्त उसको सरायत के तौरपर बुलाकर काम लिया जाता है.


#### ४ (अ) वंशवृक्ष मेर मांडवारा के कुंभावत छोटभाई.

१ सग्रामसिंह ( वंशवृक्ष नं. ३ मांडवारा के कुंभावत में नं. ६ वाला नं. ५ प्रतापसिंह का छोटा पुत्र) छोटभाई



#### ५ वंशवृक्ष पोइदरा परगने मगरा के कुंभावत

१ गोमसिंह ( वंशवृक्ष नं. ४ मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंभावत में नं. २ वाला ) ओ. ग्रां. पाईदरा.




नोट—पोइदरा के कुंभावत मांडवारा ठिकाना के छोटभाई है, लेकिन यह जागीर अलग है, मांडवारा ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. ३ अखेराज को मांडवारा में कुछ जागीर

नोट—मेर गांव चीत्रावतों के तरफ था, और जब कि सिरोही. पालणपुर की सीमा तय हुई, तब यह गांव चीत्रावतों के तरफ होनेसे पालणपुर रियासत का गिना जाकर नेखमवंदा भी हुई थी, लेकिन बाद में पालणपुर के साथ गांवों का तबादला हुआ, तब सिरोही के नीचे आया, जो इस वक्त मांडवारा ठिकाना के शामिल जागीर में है, और मेर मांडवारा के नाम से यह ठिकाना मशहूर है.


के साथ, पोईदरा गांव की जागीर में से तीसरा हिस्सा मिला था, लेकिन अखेराज नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसा राज हुई, जिससे मांडवारा में इसकी जागीर का हिस्सा के साथ, पोईदरा का तीसरा हिस्सा भी राज में खालसा हुआ. वर्तमान समय में नं. ४ गलसिंह व नं. ३ गजेसिंह के तरफ ५ $\frac{२}{३}$  आना व रियासत के तरफ १० $\frac{२}{३}$  आना के हिसाब से आमदनी का बटवारा होता है, और यह गांव छोटा होने के कारण ठहराव नं. ७३४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है कि, इस गांव की आमदनी में से राज्यहक बटवारा से वसूल किया जावे, और यह जागीर अलग गिनी जाय लेकिन बहैसियत मांडवारा ठाकुर के छोटभाई शुमार होंगे.

६ वंशवृक्ष तवरी परगने मगरा के कुंभावत.


१ बाघसिंह ( वंशवृक्ष नं. ३ मांडवारा के कुंभावत में नं. ३ वाला ) ओ. प्रां. तवरी




नं. ३ कैशरीसिंह (उपर के वंशवृक्ष में नं. २ उग्रसेन का पुत्र )



नं. २ चंदनसिंह ( उपर देखो नं. १ का पुत्र )




नं. २ सुरसिंह ( चल् वंशवृक्ष तवरी में नं. १ वाघसिंह का पुत्र. )



नोट-तवरी गांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ लालसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ८०३) लेने का ठहराव नं. ७६१ ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

७ वंशवृक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती नं. १.

१ राजसिंह ( वंशवृक्ष सीलदर के कुंभावत में नं. ४ वाला नं. ३ देवराज का पुत्र. ) ओ. ग्रां. लाय पांती नं. १.




गोद आया पाटवी भोमसिंह के पुत्र चमनसिंह करणसिंह का बेटा.

नोट-इस पांती के पाटवी भोमसिंह के १ करणसिंह, २ जयसिंह, ३ जामतसिंह, ४ दुर्जनसिंह नामके चार पुत्र है, जिसमें करणसिंह को वरुतसिंह व चमनसिंह नामके दो पुत्र है.

इस पांती की जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ८३४) नं. ७७८ ता. १३-६-२३ ई. के ठहराव से दाखिल करनेका तय हुआ है.



८ वंशवृक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती नं. २.

१ मनोहर (वंशवृक्ष लाय पांती नं. १ के मांडणोत में नं. २ वाला.) ओ. प्रां. लाय पांती नं. २.




४ गुमानसिंह (चलू वंशवृक्ष लाय पांती नं. २ के मांडणोत.)

३ तेजसिंह (चलू वंशवृक्ष लाय पांती नं. २ के मांडणोत.)



८ (अ) वंशवृक्ष लाय परगने झोराखारल के मांडणोत पांती नं. २ के छोटभाई.


१ रावतसिंह ( वंशवृक्ष नं. ८ लाय पांती नं. २ के मांडणोत में नं. २ वाला )




नोट-लाय गांव में पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी नं. ११ जीवसिंह है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु.१३८० लेनेका ठहराव नं. ८४० ता. १४ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

९ वंशवृक्ष तलेटा परगने झोरा खारल के मांडणोत.

१ भाखरसिंह ( वंशवृक्ष नं. ७ लाय पांती नं. १ के मांडणोत में नं. २ वाला ) ओ. ग्रां. तलेटा.



नं. ५ माहसिंह ( चल्हू वंशवृक्ष नं. ९, में न ५ वाला ) तलेटा.




नोट-तलेटा गांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ कल्याणसिंह है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २४०) लेनेका ठहराव नं. ७७७ ता. २७ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

१० वंशवृक्ष छीवागांव परगने खूणी के मांडणोत.

१ जीवसिंह ( वंशवृक्ष नं. १ सीलदर के कुंभावत में नं. ३ देवराज का पुत्र नं. ५ वाला. )


२ इश्वरदास




नोट-छीवागांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ लक्ष्मणसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ७३६) लेनेका ठहराव नं. ७३५ ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

११ वंशवृक्ष मांडाणी परगने झोरा खारल के मांडणोत.


१ नाथुसिंह ( वंशवृक्ष नं. १० छीवागांव के मांडणोत में नं. ३/१ वाली. ) मांडाणी.



नं. २ प्रतापसिंह ( चलू वंशवृक्ष मांडाणी के मांडणोत में नं. १ नाथुसिंह का पुत्र )



नं. २ अग्रसेन ( चलू वंशवृक्ष मांडाणी के मांडणोत में नं. १ नाथुसिंह का पुत्र )



मांडाणी में राजवृक्ष आठ आनी बटभारा से बरूल होता है.


## प्रकरण १५ वां.

### डुंगरावत देवडा व सवरावत व हरराजोत.

डुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत के प्रकरण में वंशवृक्ष नं. १ ठिकाना पाडिव में नं. ४ तेजसिंह का पुत्र नं. ६ रूद्रसिंह के पुत्र ( इस प्रकरण के वंशवृक्ष नं. १ में नं.२) हरराज से 'हरराजोत' व उसके पुत्र नं. ३ वजेसिंह से 'वजावत' कहलाये गये हैं.

१ वंशवृक्ष मणादर परगने झोरा खारल के वजावत ( छोटभाई ).

१ रूद्रसिंह (डुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत के प्रकरण में वंशवृक्ष नं. १ ठिकाने पाडिव में नं. ६ वाला.) मणादर खालसा.




\* नोट—मूता नेणसी की ख्यात में नं. ३ लूणकरण का पुत्र नं ४ दयाल का नाम नहीं है, लेकिन उसकी शार्दूलसिंह का नाम है, और शार्दूल के पुत्र भूपतसिंह व मनोहर. होना लिखा है, जबकि महाराव रायसिंह का, ल, पृथ्वीराज ने चूक किया तब उसमें, शार्दूलसिंह मारा गया था.



## उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.


नं. १ रुद्रसिंह के तरफ 'वावली' की जागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज वावली में रहा. हरराज, रियासत का श्यामधर्मी सरदार था.

नं. ३ सेका को 'नवारा' व 'फलवदी' की जागीर मिली थी, मगर उसकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में भाग गये, उसका कारण यह है कि सेका के पुत्र रावतसिंह ने महाराव सूरताणसिंह के समय में, हरराज के पुत्र वजेसिंह के कहने में आकर, लखावत सूजा व वालीसा जगमाल को चूक किया था. सेका की ओलाद का अहवाल नीचे सुआफिक है.



नोट-नं. ३ भीमसिंह, महाराव रायसिंह की चाकरी में था, जो निवज के पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया उसमें काम आया.

नं. १४ सांवल, महाराव मानसिंह ने हामा रतनावत घूलीवाले को मारा तब यह भी काम आया.



नोट-नं. २ रावतसिंह को वि. सं. १६५८ में सत्रियाणा का गांव 'देवली' की जागीर मिली, वहां वि. सं. १६६३ में इसका देहान्त हुआ.

नं. ३ पसायण को 'खडाला' व 'नीमली' की जागीर जोधपुर से मिली.

नं. १९ अचलदास को जोधपुर रियासत से दसहजार रुपियों के रेख की, नवसरा पट्टा की जागीर मिली, इसका देहान्त वि. सं. १७०३ में हुआ.

नं. २० जगन्नाथ के तरफ नवसरा पट्टा की जागीर थी, इसका देहान्त वि. सं. १७२१ में हुआ. उनके बाद का जोधपुर रियासत के लेकावत हुंगरावतों का इतिहास मालूम ही है, लेकिन उनके तरफ नुरु, वाणनी, वागंदु, यह गांव होने सूना गया है, और नावत हुंगरावतों के तरफ नीमला व भरुडो पट्टा की जागीरें हैं.

नं. ३ वजेसिंह का नाम सिरोही के देवडा चौहानों में प्रख्यात है, इसके नामसे डुंगरावतों में 'वजावत' नाम की अलग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावली गांव की जागीर थी. महाराव मानसिंह का यह मुसाहिव था, और उसके पीछे महाराव सूरताणसिंह गद्दी पर आये तब उसका भी मुसाहिव हुआ, लेकिन महाराव की कम उम्र का लाभ लेकर, सिरोही रियासत के राजा बनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता कार्यदक्षता व नमकहलाली में कलंक लगा, जिसका सविस्तर अहवाल पहिले विभाग में महाराव सूरताणसिंह की ख्यात के प्रकरण में आचूका है, और इसने महाराव सूरताणसिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के कार्य में, जिरावल व कालंद्री में राव कला के साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सूरसिंह की ख्यात में, कवितों में अंकित हुआ है. राज्य लोभ के कारण इसने कईएक प्रपंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की आशा इसका देहान्त होने पर ही इससे छूटी थी. यदि यह उलटे रास्ते नहीं जाते, महाराव सूरताणसिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही रियासत को अपने भाईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहीं दिये जाते, और शाही फौज के साथ महाराव सूरताणसिंह को बावल दफे युद्ध करने के प्रसंग नहीं आते, बल्कि इसकी वीरता कार्यदक्षता और राज्य प्रपंच की कूनह से, सिरोही रियासत बहुत तरकी पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पर्धि सोलंकी सांगा था, यह वि. सं. १६४४ में आबु पहाड के उत्तर ढाल पर वास्तानजी नामक स्थल है, वहां पर सोलंकी सांगा के हाथ से मारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि सोलंकी सांगा की शमसेर से इसका सीर धडसे अलग हो चुका, तब भी इसका धड घोडे पर से नहीं गीरा, और घोडा वह धड लेकर + बावली पहुंचा. सोलंकी सांगा व वजा के दरमियान युद्ध हुआ, इस विषय में कविने कहा है कि—

- “ परह वीडो लियां हुकम पातशाह रे, आवीयो वजो चढ नंद गीरी उपरे; ”  
 “ पर चढे राव सूरताण सु पाधरे, हाक ले ओ रियो वाज हरराज रे. ”  
 “ गाजीया वाण निशाण सर गरगडे, चाव वे वे कटक आवीया चापडे. ”  
 “ धूणीयां सेल जो फेंकीयां धड धडे, देवडो उपरे ओरियो देवडे. ”  
 “ सार झड मंडीयो उगना मूर रो, खरां खोटां तणो निसरे तत खरो. ”  
 “ हाक तो थाट अलियाट रो दाहरो, पंग परताल गो मांझीयां पाधरां. ”  
 “ खींग भाजां पछे मांझीयां खड खडे, वजड धड उकरड छाडीया देहडे; ”  
 “ पसण सांगा जसा पगां आगल पडे, चालीयो वजो वैजुंठ अणीयां चढे. ”

वजेसिंह का सीर कटने जाने बाद, उसका धड को लेकर घोडा बावली पहुंचा, उस विषय में कवि ने कहा है कि—


- “ सूरताण जतो कर खान सवाहे, सत्र एवडा दीध सजा; आटां गाळ तणो आंतरो, वदनं धने धड हुओ वजा. ”  
 “ आतो वात सणी उर अंतर, गाटां जपटां वेर मन; धड ले गया पाळला धाडायन वेरायत ले गाया वदन. ”

+ बावली गांव वास्तानजी से करीब २० माईल के फासले पर है.

## उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.


नं. १ रुद्रसिंह के तरफ 'बावली' की जागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज बावली में रहा. हरराज, रियासत का श्यामधर्मी सरदार था.

नं. २ सेका को 'नवारा' व 'फलवदी' की जागीर मिली थी, मगर उसकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में भाग गये, उसका कारण यह है कि सेका के पुत्र रावतसिंह ने महाराव सूरताणसिंह के समय में, हरराज के पुत्र वजेसिंह के कहने में आकर, लखावत सूजा व बालीसा जगमाल को चूक किया था. सेका की ओलाद का अहवाल नीचे सुआफिक है.



नोट-नं. ३ भीमसिंह, महाराव रायसिंह की चाकरी में था, जो निवज के पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया उसमें काम आया.

नं. ३ सांवल, महाराव मानसिंह ने हामा रतनावत चूलीवाले को मारा तब यह भी काम आया.



नोट-नं. २ रावतसिंह को वि. सं. १६५८ में सवियाणा का गांव 'देवली' की जागीर मिली, वहां वि. सं. १६६३ में इसका देहान्त हुआ.

नं. ३ पसायण को 'खडाला' व 'नीमली' की जागीर जोधपुर से मिली.

नं. ३ अचलदास को जोधपुर रियासत से दसहजार रुपियों के रेख की, नवसरा पट्टा की जागीर मिली, इसका देहान्त वि. सं. १७०३ में हुआ.

नं. ४ जगन्नाथ के तरफ नवसरा पट्टा की जागीर थी, इसका देहान्त वि. सं. १७२१ में हुआ. उसके बाद का जोधपुर रियासत के सेकावत हुंगरावतों का इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन उनके तरफ नुरु, वांगनी, वागंदु, यह गांव होने सूना गया है, और नावत हुंगरावतों के तरफ नीमला व भरुडी पट्टा की जागीरें हैं.

नं. ३ वजेसिंह का नाम सिरोही के देवडा चौहानों में प्रख्यात है, इसके नामसे डुंगरावतों में 'वजावत' नाम की अलग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावली गांव की जागीर थी. महाराव मानसिंह का यह मुसाहिव था, और उसके पीछे महाराव सूरताणसिंह गद्दी पर आये तब उसका भी मुसाहिव हुआ, लेकिन महाराव की कम उम्र का लाभ लेकर, सिरोही रियासत के राजा बनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता कार्यदक्षता व नमकहलाली में कलंक लगा, जिसका सविस्तर अहवाल पहिले विभाग में महाराव सूरताणसिंह की ख्यात के प्रकरण में आचूका है, और इसने महाराव सूरताणसिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के कार्य में, जिरावल व कालंद्री में राव कला के साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सूरसिंह की ख्यात में, कवितों में अंकित हुआ है. राज्य लोभ के कारण इसने कईएक प्रपंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की आशा इसका देहान्त होने पर ही इससे छूटी थी. यदि यह उलटे रास्ते नहीं जाते, महाराव सूरताणसिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही रियासत को अपने भाईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहीं दिये जाते, और शाही फौज के साथ महाराव सूरताणसिंह को बावल दफे युद्ध करने के प्रसंग नहीं आते, बल्कि इसकी वीरता कार्यदक्षता और राज्य प्रपंच की कूनह से, सिरोही रियासत बहुत तरकी पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पर्धि सोलंकी सांगा था, यह वि. सं. १६४४ में आबु पहाड के उत्तर ढाल पर वास्तानजी नामक स्थल है, वहां पर सोलंकी सांगा के हाथ से मारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि सोलंकी सांगा की शमसेर से इसका सीर धडसे अलग हो चुका, तब भी इसका धड घोडे पर से नहीं गीरा, और घोडा वह धड लेकर + बावली पहुंचा. सोलंकी सांगा व वजा के दरमियान युद्ध हुआ, इस विषय में कविने कहा है कि—

- “ परह वीडो लियां हुकम पातशाह रे, आवीयो वजो चढ नंद गीरी उपरे; ”  
 “ पर चढे राव सूरताण सु पाधरे, हाक ले ओ रियो वाज हरराज रे. ”  
 “ गाजीया वाण निशाण सर गरगडे, चाव वे वे कटक आवीया चापडे. ”  
 “ धूणीयां सेल जी फेंकीयां धड धडे, देवडो उपरे ओरियो देवडे. ”  
 “ सार झड मंडीयो उमना मूर रो, खरां खोटां तणो निसरे तत खरो. ”  
 “ हाक तो थाट अलियाट रो दाहरो, पवंग परताल गो मांझीयां पाधरां. ”  
 “ खींग भाजां पळे मांझीयां खड खडे, वजड धड उकरड छाडीया देहडे; ”  
 “ पसण सांगा जसा पगां आगल पडे, चालीयो वजो वैजुंठ अणीयां चढे. ”

वजेसिंह का सीर कटने जाने बाद, उसका धड को लेकर घोडा बावली पहुंचा, उस विषय में कवि ने कहा है कि—

- “ सूरताण जतो कर खान सवाहे, नत्र एवडा दीध सजा; आटां गाल तणो आंतरो, वदनं अने धड हुओ वजा. ”  
 “ आतो वात सणी उर अंतर, मोटां तणो वर मन; धड ले गया पाळला धाडायन वेरायत ले गाया वदन. ”

+ बावली गांव वास्तानजी से करीब २० माईल के फासले पर है.

“सब देवडा वहे सामसु, वजा जंकां नांह दिह वले; माथो थड वेह मेहलाणो, बल करता जुजवा वले.”

“हरराजुवत संग्राम होवतां, सोढ सकर साहे सजड, भाण तणै कीधा वेहु भागां, भोम मांगता तके भड.”

इसका भाई नं. ३ धनसिंह इसकी सहायता में रहा था, वह भी वास्तानजी में हुंगरावत सामन्तसिंह सूरवत के हाथ से मारा गया, इस विषय में कवि आसीया दुदा ने कहा है कि—

“धुह डगे अंबर ध्रवे, मेले हद महेरण; वजमल देखे वेरीयां, तुं भागे तड ताण.”

“मेलीयो मरे मरे परीयण, पण अण भंग पाणे; धनीया ढलो थरे, हाले क्युं हरराज योत.”

नं. ३ अजीतसिंह का पुत्र सूरताण नामक था, वह जोधपुर के राठौरों की सेवा में रहा, जहां पर उसको ‘समुचा’ पट्टे की जागीर मिली थी.

नं. ३ मानसिंह व नं. ३ वणवीर की ओलाद वालों को, देलदर व छोटालोटीवाडा की जागीरें मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. ३ लूणकरण उर्फ लूणा, महाराव सूरताणसिंह के समय में सिरोही में काम आया. लूणकरण का पुत्र शार्दूलसिंह नामका होना, और वह महाराव रायसिंह का चूक हुआ उसमें लखावत पृथ्वीराज के साथ युद्ध में मारा जाना, सूतानेणसी की ख्यात में लिखा है. बडुआ की पुस्तक में शार्दूलसिंह का नाम नहीं है, और लूणकरण की ओलाद में कितनीक पुस्त बाद नाओलादी होने का उल्लेख है.


नं. ४ जशवंत को जोधपुर रियासत में ‘कुलथाणा’ नामकी जागीर मिली थी, लेकिन बाद में महाराव रायसिंह (दूसरे) ने, मणादर पट्टे की जागीर, बारह गांवों से इनायत की. जशवंत का पुत्र नं. ५ तेजपाल, महाराव रायसिंह का चूक हुआ, उस झगड़े में काम आया. इसके बाद जशवंत के भाईओं व उसकी ओलाद वालों की जागीरों के वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.

नं. १४ जालमसिंह नाओलाद गुजर गया, जिससे मणादर के वजावतों की जागीर में से, मणादर के पाटवी की जागीर खालसे राज होकर, राजसाहेबां तेजसिंह को दी गई थी, जो इस समय खालसे राज है.

२ वंशवृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. १


सतापुरा की जागीर नं. ३ राघोदास को रियासत से इनायत हुई, और राघोदास की ओलाद में नं. ६ जुवानसिंह व नं. ६ खेमराज से इस गांव में दो हुकमनामा पांती हुई है, इन दोनों पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

१ ज्यसिंह ( वंशवृक्ष नं. १ मणादर के वजावतों में नं. २ वाला ) सतापुरा परगने झोरा खारल.




३ वंशवृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारल के वजावत. पांती नं २.

१ खेमराज ( सतापुरा पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) ओ. प्रां. सतापुरा पांती नं. २




४ वंशवृक्ष मणोरा परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. १

१ सूजाणसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ सतापुरा के वजावत पांती नं. १ में नं. २ वाला ) ओ. प्रां. मणोरा पांती नं. १




५ खुमाणसिंह ( चळू वंशवृक्ष मणोरा परगने झोरा के वजावत पांती नं. १. )



नोट—मणोरा पांती नं. १ की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.


५ वंशवृक्ष मणोरा परगने झोरा के वजावत पांती नं. २.

१ गुमानसिंह (मणोरा पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं.  $\frac{२}{१}$  वाला.) ओ. ग्रां. मणोरा पांती नं. २.




६ वंशवृक्ष मणोरा परगने झोरा में वजावत छोटभाई.

१ रामसिंह (वंशवृक्ष सतापुरा के वजावत पांती नं. १ में  $\frac{२}{३}$  वाला.) मणोरा छोटभाई.




७ वंशवृक्ष वेरापुरा परगने सिरौही के वजावत.

१ चतरसिंह (वंशवृक्ष नं. २ सतापुरा में नं. १ उग्रसिंह का पुत्र नं.  $\frac{२}{४}$  वाला.)



२ महेशदास ( चल् वंशवृक्ष वेरापुरा परगने सिरौही के वजावत. )




नोट—यह गांव वि. सं. १८०५ में महाराव पृथ्वीराज ने, नं. १ चतरसिंह को दिया था. इस गांव में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. वेरापुरा के वजावतों में चारणीवंत का शिरस्ता होनेसे, भाई भाग हीन्दु धर्मशास्त्र के मुआफिक खाते है, जागीर का धोरण नहीं है. इस गांव में वि. सं. १८५६ में अनोपसिंह नामका वजावत था, मगर वह किसका पुत्र था उसका पत्ता नहीं चला है.

८ वंशवृक्ष मोरली परगने खूणी के वजावत.

१ दासा ( मणादर के वंशवृक्ष में नं. १ वाला )

२ भाखरसिंह ( ओ. ग्रां. मोरली )






नोट-यह गांव वि. सं. १७१६ में महाराव अखेराज ने, नं. २ भाखरसिंह को बक्षा था. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक रु. ३७१) सालाना लेनेका, ठहराव नं ७१६ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

### ९ वंशवृक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. १


१ अमरसिंह ( मणादर के वजावत वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) इसके पुत्र कृष्णसिंह को झाडोली, मिला और उसके दो पुत्रों से दो पांती हुई.




नोट-इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

### १० वंशवृक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के पाटवी पांती नं. २ के वजावत.

१ तोगसिंह ( झाडोली के वजावत पांती नं. १ में नं. ३ वाला. ) ओ. ग्रां. पांती नं. २ झाडोली




४ भीमसिंह (चलू वंशवृक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के पाटवी पांती नं. २ के वजावत.)




१० ( अ ) वंशवृक्ष झाडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. २ के छोटभाई.

१ मानसिंह ( झाडोली के वजावत पांती नं. २ के वंशवृक्ष में नं. ४ वाला. )



१० ( आ ) झाडोली परगने झोरा खारल के वजावत पांती नं. २ के छोटभाई.


१ लालसिंह ( झाडोली के वजावत पांती नं. २ के वंशवृक्ष में नं. २ वाला. )




नोट-झोडोली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी रावतसिंह है, इसके भवानसिंह नामका एक पुत्र है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

११ वंशवृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव के वजावत पांती नं. १.

१ रामसिंह ( मणादर वंशवृक्ष में नं. ४ वाला नं. ३ वनेसिंह का पुत्र. ) ओ. ग्रां. अणदोर पांती नं. १




२ सवरसिंह ( चलू वंशवृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव के वजावत पांती नं. १. )



नोट—इस गांव में दो पांती वजावतों की, और एक श्री सारणेश्वरजी महादेव की आवगी पांती है. वजावतों की पांती में से सारणेश्वरजी महादेव को आठआनीहक बटवारा से वसूल होकर जाता है ( ठहराव ता. ५ जून सन १९२३ इस्वी के मुआफिक ).

१२ वंशवृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्री सारणेश्वरजी पांती नं. २ के वजावत.

१ जयसिंह (अणदोर पट्टे श्री सारणेश्वरजी पांती नं. १ के वजावत के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला) ओ. ग्रां. अणदोर पांती नं. २.




नोट-पांती नं. २ का पाटवी नं. ९ किशनसिंह है. श्रीसारणेश्वरजी महाराज का इस पांती में आठआनी हक बटवारा से वसूल होता है.

१३ वंशवृक्ष बावली परगने मगरा के वजावत पाटवी पांती नं. १ खालसा राज.

१ भोजराज ( मणादर के वजावत वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) ओ. ग्रां. बावली.

२ भगवानदास




नोट-नाओलादी होनेसे, आधी बावली की जागीर वि. सं. १८८० के पहिले खालसे राज हुई, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेबां नांदीआ जेतसिंह को पट्टे में दी, बाद वि. सं. १९६० में खालसे राज रखी गई, वह खालसा पांती और दूसरे वजावत छोटभाई नाओलाद हुए, उनमें से नाओलाद छोटभाई के हिस्से की खालसे हुई जागीर भी शामिल होकर, बावली गांव में रियासत की एक खालसा पांती और दूसरी वजावतों की पांती है.


१४ वंशवृक्ष बावली परगने मगरा पांती नं. २ के पाटवी वजावत.

१ गोकुलदास ( वंशवृक्ष नं. १३ बावली पांती नं. १ के वजावत में नं. ५ वाला नं. ४ भीमराज का पुत्र ) ओ. ग्रां. बावली पांती नं. २

२ चनरसिंह




१३ (अ.) वंशवृक्ष वावली के वजावत छोटभाई नं. ३ करणसिंह के छोटेपुत्र. ( देखो वंशवृक्ष नं. १३ में. )




१३ (आ) वंशवृक्ष वावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई

१ गोदसिंह ( वंशवृक्ष नं. १३ वावली पांती नं. १ के वजावतों में नं. २ भगवानदास का पुत्र नं. ३ वाला )




१३ ( इ ) वंशवृक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई

१ मनोहर ( वंशवृक्ष नं. १३ बावली के वजावतों में नं. ३ वाला ).



चलू वंशवृक्ष नं. १३ (इ) बावली के वजावत छोटभाई नं. २ नाडसिंह. (उपर देखो नं. १ मनोहर का दूसरा पुत्र.)



नोट-बावली में पाटवी पांती नं. २ में वंशवृक्ष नं. १४ का नं. ६ जुजारसिंह पाटवी है, और ( वंशवृक्ष नं. १३ (इ) का ) नं. ७ वीरसिंह भी पांती वाला कहलाता है, लेकिन उसका हुकमनामा नहीं हुआ है. इस गांव के वजावतों से राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.


१५ वंशवृक्ष भरुडी इलाके जोधपुर के वजावत.

भरुडी गांव, बावली के वजावत वंशवृक्ष नं. १३ में नं. ३ वाला पीथसिंह ( नं. २ भगवानदास का छोटा पुत्र) को वि. सं. १७२६ में सिरोही रियासत से दिया गया, बाद में सरहद के फैसले में यह गांव जोधपुर रियासत की हद में गया. भरुडी के वजावत में १ पीथसिंह से क्रमशः २ सबलसिंह, ३ मानसिंह, ४ नारायणसिंह, ५ ओपसिंह, ६ वीरमदेव, ७ कैशरीसिंह, ८ मेघसिंह, ९ भारतसिंह व नं. १० जुठसिंह, इस मुआफिक पाटवी हुए. भरुडी गांव में मौजूदा ठाकुर नं. १० जुठसिंह है.

१६ वंशवृक्ष बडालोटीवाडा परगने झोरा खारल के वजावत.

१ खेमराज ( मणादर के वजावत वंशवृक्ष में नं. ४ वाला. ) ओ. प्रां. बडालोटीवाडा.


२ केशवदास ( काम आया सिरोही, अपने पिता समेत वि. सं. १६७५ में. )



नोट-नं. १० पाटवी भोमसिंह को मूलसिंह नामका एक पुत्र है. नं. १ खेमराज व नं. २ केशवदास यह दोनों, महाराव रायसिंह का निंवज के पृथ्वीराज ने चूक किया, उस समय महाराव की सेवा में काम आये थे. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.


१७ वंशवृक्ष मणादर के वजेसिंह का छोटा पुत्र नं. ४ वाला अर्जूनसिंह का. (जागीर नहीं है राजपूत होगया.)

१ अर्जूनसिंह ( मणादर के वजावत वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) इसकी ओलाह मावल व वासडा परगने सांथपुर में थी, अब कहां चले गये है पता नहीं.



१८ वंशवृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. १

१ मानसिंह ( मणादर वंशवृक्ष नं. १ में नं. २ हरराज का पुत्र नं. ३ वाला ) ओ. प्रां. देलदर पांती नं. १






नोट—देलदर की जागीर में नं. ४ नारखान व नं. ४ रूपसिंह की दो पांती थी, बादमें नं. ४ नारखान के पुत्र नं. ५ अमरसिंह व नं. ६ जयसिंह दरमियान पांती नं. १ की जागीर तकसीम हुई, जिससे नं. ६ जयसिंह की पांती नं. ३ कहलाई गई, और पांती नं. १ व पांती नं. ३ के अलग अलग हुकमनामे, वि. सं. १८८६ के पहिले से होने लगे.

पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी नं. ११ तख्तसिंह है जिसके इन्द्रसिंह, मोहवतसिंह, पहाडसिंह, नामके तीन पुत्र है. इस पांती में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

१९ वंशवृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. ३


१ जयसिंह ( वंशवृक्ष नं. १८ देलदर के हरराजोत में नं. ६ वाला ) ओ. ग्रां. देलदर पांती नं. ३




नोट—देलदर पांती नं. ३ का मौजूदा पाटवी हिम्मतसिंह है जिसके मोतीसिंह, व कृष्णसिंह नामके दो पुत्र है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

२० वंशवृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. २.


१ रूपसिंह (देलदर पांती नं. १ का वंशवृक्ष नं. १८ में नं. ३ इश्वरदास का पुत्र नं. ४ वाला.) ओ. ग्रां. देलदर पांती नं. २



७ शार्दूलसिंह ( चलू वंशवृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. २ ).




२ हाथीसिंह (चलू वंशवृक्ष देलदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत पांती नं. २ में नं. १ रुपसिंह का पुत्र.)



नोट—देलहर पांती नं. २ में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

२१ वंशवृक्ष छोटालोटीवाडा परगने झोरा के डुंगरावत हरराजोत.

१ वणवीर ( वंशवृक्ष नं. १ मणादर में न. २ हरराज का पुत्र नं. ३ वाला. )





नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

# प्रकरण १६ वां

## दुंगरावत के गांगावत.

१ वंशवृक्ष जेलां परगने मंगरा के गांगावत पांती नं. १.


१ गांगा ( पाडिव ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. १ वाला. ) इसके नामसे गांगावत कहलाये. इसके पुत्र देवीसिंह को जेलां मिला.



नोट—जेलों पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी जोरसिंह है. इस पांती में राजहक आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ३७९) दाखिल करनेका ता. १७ जून सन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.


१ ( अ ) वंशवृक्ष जेलों के गांगावत पांती १ के छोटभाई.


१ करणसिंह ( वंशवृक्ष जेलों पांती नं. १ में नं. ५ वाला छोटभाई हो गया )



२ वंशवृक्ष जेलों परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २.


१ वनेसिंह ( वंशवृक्ष जेलों पांती नं. १ के गांगावत में नं. ३ शेषमल का पुत्र नं. ४ वाला.) ओ. ग्रां. जेलों पांती नं. २





२ ( अ ) वंशवृक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २ के छोटभाई.

१ जगतसिंह ( वंशवृक्ष जेलां पांती नं. २ में नं. ३ वाला. )




नोट—जेलां में दूसरी पांती का पाटवी नं. १० वजेसिंह है. इस पांती में राजहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३४) वसूल लेनेका, ठहराव ता. १७ जून सन १९२३ इस्वी से तय हुआ है.

इस गांव के गांगावत राजपूतों को फलवदी गांव की हद में काश्त करने का हक उपर्युक्त ठहराव से मिला है. रियासत के दफतर से मालूम होता है कि जेलां के गांगावत छोटभाई पांती नं. १ के वंशवृक्ष में गजेसिंह को नमक आदि जागीर हक में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके नामका हुकमनामा न होनेसे, उसकी अलग पांती दुर्ज नहीं की है.

३ वंशवृक्ष फलवदी परगने मगरा ( पट्टे श्री वेजनाथजी महादेव ) के गांगावत.


फलवदी गांव श्री वेजनाथजी महादेव का है, लेकिन उस गांव की हिफाजत का जिम्मा जेलां के गांगावतों के तरफ होने से, यह गांव की हिफाजत के वास्ते जेलां पांती नं. १ के छोटभाई के वंशवृक्ष नं. १ में नं. २ जगमाल व नं. ३ खानसिंह गये थे. खानसिंह की ओलाद वाले बाद में इलाके गैर में चले गये थे, जिससे पाटवी गांगावत जगमाल की ओलादवाले है. इस गांव में महादेवजी का आठआनी हक ता. १९ जून सन १९२३ इस्वी के ठहराव मुआफिक बटवारा से वसूल होता है.


१ जगमाल ( जेलां छोटभाई पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) १ खानसिंह ( जेलां छोटभाई पांती नं. १ में नं. २ वाला )



४ वंशवृक्ष सणपुर परगने मगरा के गांगावत पांती नं. १

१ स्यामीदास ( जेलां पांती नं. १ के गांगावत वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) ओ. ग्रां. सणपुर पांती नं. १.






नोट—ईस पांती का मौजूदा पाटवी नं. १३ भीमसिंह ने ता. १४ जुन सन १९२३ ई. के ठहराव से रु ६२१ ) सालाना राज्यहक की आठआनी के दाखिल कर ने का, नकद लगान के कानून मुआफिक तय किया है.

५ वंशवृक्ष सणपुर परगने मगरा के गांगावत पांती नं. २

१ साहेबखान ( वंशवृक्ष नं. ४ सणपुर पांती नं १ में नं. ६ वाला ) ओ. ग्रां. सणपुर पांती नं. २



नोट—सणपुर पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी नं. ९ चतरसिंह है. इस पांती में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ५२४) लेनेका ठहराव ता. २७ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है. इस ठहराव में पांती नं. २ का ओ. ग्रां.

स्यामीदास गांगाओत की जो लिखी है, वह गलती से लिखी गई है, क्यों कि वह जागीरदारान के कानून से खिलाफ है, वाकेही इस पांती का ओ. ग्रां. साहेबखान भीमसिंहोत है.

खास नोट—सणपुर के गांगावतों को यह गांव वि.सं. १६७२ में, महाराव रायसिंह ने दिया था, बाद में वि. सं. १८८६ में 'राणेरा' व वि. सं. १९२५ में करजाल, का खेडा, यह दोनों खेडे आबादी के लिये दिये गये, सन १९२३ ई. में सणपुर की दोनों पांती वालों से जो ठहराव हुए है, उनमें जो रकम राज में दाखिल करने की ठहरी है, उसमें करजाल खेडा की रकम सालाना, दोनों पांती की मीलाकर रू. ५०), और राणेरा खेडा के सालाना रू. ५०) पन्द्रहसाल के वासते मुकरर है, बाद में सोलहवें साल से करजाल के रू. १००) व राणेरा खेडा के रू. ८०) राज्यहक के लेने के है, और उसके बाद नकद लगान के कानून मुआफिक रकम बढ़ेगी.

६ वंशवृक्ष बडीपुनंग इलाके जोधपुर के गांगावत.

यह गांव ठाकरसिंह (सणपुर पांती नं. १ का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ३ मंडल का पुत्र) को सिरोही रियासत से दिया गया था, मगर बाद में जोधपुर रियासत के तरफ चला गया. बडीपुनंग के गांगावतों में, १ ठाकरसिंह से क्रमशः २ नृसिंह, ३ गोवसिंह, ४ अणंदसिंह, ५ वीरमदेव, ६ भूतसिंह व ७ खुमसिंह, इस मुआफिक पाटवी हुए, इस समय मौजूदा पाटवी नं. ७ खुमसिंह है.






## प्रकरण १७ वां.

### हुंगरसिंह के भेदावत.


ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. २ हुंगरसिंह का पुत्र नं. ३ भेदा से 'भेदावत' कहलाये गये. भेदा को शुरू में 'राडवर' की जागीर मिली थी, यह श्री सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर का रक्षण करने में काम आया, इसकी ओलादवाले को 'मुडारा' की जागीर ( जो इस समय में जोधपुर रियासत में है ) मिली, बाद में 'कोलर' का पट्टा मिला, और फिर छूट गया, अखीर में नं. ९ राजसिंह को 'चूली' की जागीर रियासत से इनायत हुई.

१ वंशवृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती नं. १.


१ भेदा ( वंशवृक्ष ठिकाना पाडिव में नं.२ हुंगरसिंह का पुत्र नं. ३ वाला )



१२ चतरसिंह ( चलू वंशवृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती नं. १ )




नं. ११ डुंगरसिंह ( चलू वंशवृक्ष नं. १ पांती नं. १ चूला के भेदावत )




१ ( अ ) वंशवृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत छोटभाई पांती नं. १ के.

१ अजवसिंह (चूली पांती नं. १ के भेदावत वंशवृक्ष में नं. ९ वाला. नं. ८ तेजसिंहका पुत्र. )




२ वंशवृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती नं. २ व चोटीला परगने खूणी.


१ नारायणसिंह ( चूली के भेदावत पांती नं १ के वंशवृक्ष में नं. ९ वाला. )




४ रूपसिंह ( चलू वंशवृक्ष चूली के भेदावत पांती नं. २ व चोटीला परगने खूणी. )



६ उमसिंह ( चलू वंशवृक्ष नं. २ चूली पांती नं. २ )



५ हरिसिंह ( चलू वंशवृक्ष नं. २ चूली पांती नं. २ )



### चूली के भेदावतों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ भेदा के पिता डुंगरसिंह को 'राडवर' मिला था, वहांपर यह रहा, और ( पाडिव वंशवृक्ष में नं. ४ वाला ) तेजसिंह को 'ओडा' की जागीर मिलने से वह ओडे गया. भेदा सारणेश्वरजी में काम आया.

नं. २ रायधर राडवर में था, और इसका भाई लालसिंह को 'मुडारा' की जागीर मिली, बाद राडवर छूट जानेसे, दोनों भाईओं की ओलादवाले मुडारा गांव में चले गये.

नं. ३ लालसिंह की ओलाद वालों में, एक भाई कला की ओलाद वाले पिन्डवारा के राणावत के पास जागीर मिलने से रहा, दूसरा कर्मसिंह को तेलपुर की जागीर मिली व तीसरा तेजमाल को 'छोटी पुनंग' ( छोटी पुनंग गांव वर्तमान समय में जोधपुर

रियासत के तरफ है, लेकिन उस जागीर के ठाकुर तेजमाल की ओलाद वाले है ) की जागीर मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. ४ हेमसिंह उर्फ हामा प्रसिद्ध पुरुष हुआ था, मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि इसने 'पालडी' के देदा देवडा को ( इस देदा के नामसे डुंगरावतों में 'देदावत' शाखा हुई है, जिसकी ओलाद में 'नांवी' इलाके जोधपुर के देदावत है. ) मारा था. हेमसिंह को महाराव मानसिंह ने मारा था, इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि,

“ अतुली बल अकल न सकीया आंगम साजे सु तण निरो हो सार. ”  
 “ हामो अरबद राय हेरीयो जमरा हेरू फेरिया ज्यार. ”  
 “ सिरोहीया साथ कुण साञ्जत हामा वाजी वीर हक. ”  
 “ काया कुटे वजो जरी कालै काला सिर आया कटक. ”  
 “ रिणरीधल उपरी रतनावत गै गड में गजरूप घणा ”  
 “ मोदतणा दल पैहल मैलिया तो दल आया मान तणा. ”  
 “ मानै राव हामो मारेवा केवा मागण कटक करे. ”  
 “ पग पग आवंतां प्रसण भीच न हुतो पगां भरे. ”

पाया जाता है कि यह वीसलपुर के लखावत कल्याणसिंह ने, जब सिरोही की गद्दी का कब्जा किया, तब उसकी सेवा में उपस्थित था, और जब महाराव सूरताणसिंह के साथ, कल्याणसिंह का कालंद्री में युद्ध हुआ, तब कल्याणसिंह की सहायता में इसने युद्ध किया है, यह मुडारा गांव में काम आया.

नं. ४/१ खंगारसिंह की ओलाद में क्रमशः नं. २ आसराज, ३ करणसिंह, ४ खानसिंह, ५ धनसिंह, ६ सामन्तसिंह, ७ रघसिंह, ८ जगन्नाथ, ९ माहसिंह, इस मुआफिक हुए, और माहसिंह के तीन पुत्र नं. १० सूरतसिंह नं. ११ अमरसिंह, व नं. १२ चतरसिंह है, वे इलाके जोधपुर में रहते है.

नं. ५ जीवसिंह के भाई नं. ६ नारायणदास, नं. ७ सांगा, व नं. ८ साकरसिंह, यह तीनों भाई 'कोलर' में काम आये.

नं. ९ रावतसिंह, वीसलपुर के लखावत कल्याणसिंह की सेवा में था. यह डुंगरावत वजेसिंह को 'इडर' से आते हुए, रोकने के लिये चीवा खेमराज के साथ गया था, जहांपर हार खाकर जरुमी हुआ, इस विषय में कवि ने कहा है कि,

“ दन घर उगां देखियो राखे जतने राव, खीमो ने रावत खडे दोखीयां देसां दाव. ”  
 “ कांकल जी रावल करां वजातणा सून वोल, कलोज चढीयो जोर कर तहां वजमल खग तोळ. ”  
 “ विध विध खागां वाजीयो कांकल जो करणा, सून खेमा रावत सपह वजमल सुं वठणा. ”

- “ वज्रमल अरी वखंडणो वढतां थे वज्रपाल, छोवो खीमो साजोयो वेरज लिधो वाल. ”  
 “ पढीयो रावत पागती हद कीधी हथवाह, वाह केहतां वाहीई अणवध करे उपाह. ”  
 “ गढथल खाए रावत गीयो जोए जोए सूर जात, क्षत्री केइक साजीया वजा कलारी वात. ”

जबकि कालंद्री में युद्ध हुआ, तब फिर रावतसिंह उस लडाईं में कल्याणसिंह की सहायता में रहा. वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि वह ‘छोटा लोटीवाडा’ गांव में काम आया, लेकिन रघु नामके कवि ने, जो दोहे डुंगरावत सूरसिंह काम आया उस विषय में कहे हैं, उनसे मालूम होता है कि, यह उस लडाईं में मारा गया, जिसके लिये कवि कहता है कि,

“ काले रामायण कियो पहेलो खेमो पाड, पडेज रावत पाडीयो रंग हो जीतो राड. ”

नं. ७ देदा ‘पालडी’ में काम आया, और उसका पुत्र, नं. ८ तेजसिंह गांव ‘वासाडे’ काम आया.


नं. ९ राजसिंह तेजसिंहोत को ‘चूली’ गांव की जागीर मिली, जिसके बाद लिखने काविल इतिहास नहीं है.

( नोट ) चूली गांव की जागीर में पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी भाणसिंह है, उसके हेमसिंह व धुलसिंह नामके दो पुत्र हैं, जिसमें धुलसिंह नं. १<sup>३</sup>/<sub>१</sub> लाखसिंह के गोद गया. इस जागीर में दूसरी पांती का पाटवी (वंशवृक्ष नं. २ में) नं. १<sup>०</sup>/<sub>१</sub> डुंगरसिंह है, जिसके तरफ ‘चूली’ की दूसरी पांती के साथ, ‘चोटीला’ गांव आवादी के लिये दिया हुआ था, लेकिन चोटीला गांव, खालसा राज में रखकर, ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी के ठहराव से, डुंगरसिंह को राडवर गांव में रु. ३००) की जागीर पार्टीशन के कानून से आवगी देकर, उस राडवर की पांती का, इस डुंगरसिंह को ओ. ग्रां. ठहराया गया है, और चूली की पांती में, राज्यहक आठआनी की रकम पांती नं. १ के पाटवी भाणसिंह के शामिल, ठहराव नं. ७१४ ता. १७ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ६९६) लेनेका दोनों पांती का तय हुआ है.

### ३ वंशवृक्ष गोडाणा परगने खूणी के भेदावत.

गोडाणा गांव, वि. सं. १९०९ में भेदावत कहानसिंह कलसिंहोत चुलीवाले को रियासत से आवादी के वासते दिया गया, बाद में कहानसिंह का बड़ा पुत्र नवलसिंह गोडाणा गांव में गया, और दूसरे पुत्र, चूली गांव में रहे.

१ नवलसिंह ( चूली के भेदावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष नं. १ (अ) में नं. ४ वाला )



नोट-इस गांव का मौजूदा पाटवी शिवनाथसिंह है. इस गांव की ओ. ग्रां. कहानसिंह कलसिंहोत है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १६७) लेनेका ठहराव नं. ७१० ता. ८ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

४ वंशवृक्ष पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का.

१ लालसिंह ( वंशवृक्ष नं. १ चूली के भेदावत पांती नं. १ में नं. १ भेदा का पुत्र नं. २ वाला )

२ हरपाल

३ हांजा

वाघसिंह ४ कल्याणसिंह ५ कर्मसिंह ( तेलपुर ) दुर्जनसिंह ६ तेजमाल ( छोटी पुनंग, ई. जोधपुर. )

५ जगमाल

नारायणदास

६ वाघसिंह

सांगा

६ नाथसिंह

७ रामसिंह

जोदसिंह

हरीदास

नरींग

७ मानसिंह

रत्नसिंह

८ आसकरण

९ हर्दोसह

८ हरिसिंह

९ सूरताण

१० जगतसिंह

१० शिवदान

जुजारसिंह

१० जेतसिंह

देवीसिंह

गोमसिंह

११ रामसिंह

११ रूपसिंह

प्रेमसिंह

गुलाबसिंह

१२ अनाडसिंह (गढरा ई. पालणपुर ) १२ खुशालसिंह

११ वीरमदेव

११ कुशलसिंह

११ हीन्दुसिंह

लाखसिंह

१३ भोमसिंह

१३ गजेसिंह

१३ खेमसिंह

रडमल

१२ तेजसिंह

१२ बनेसिंह

चतरसिंह

१२ अनाडसिंह

१२ बजेसिंह

सरदारसिंह

राजासिंह

रावतसिंह

१३ मेघसिंह

१३ खुमाणसिंह

१३ भीमसिंह

बदसिंह

भूतसिंह

१३ उमसिंह

१३ ओखसिंह

१३ मकनसिंह

१३ तख्तसिंह

१३ बख्तसिंह

१४ पञ्जसिंह

१४ प्रेमासह

१४ नारसिंह

१४ अजीतसिंह

भोपालसिंह

सोनसिंह

५ वंशवृक्ष गढरा इलाके पालणपुर के भेदावत.

१ अनाडसिंह (पिन्डवारा के भेदावत राजपूत वंशवृक्ष नं. ४ में नं. १२ वाला.)

इसको गढरा गांव आवादी के वास्ते मिला. यह बहुत मौजिज राजपूत था. रियासत. सिरोही व मेवाड की सरहद तय हुई, उसमें सिरोही रियासत की अच्छी सेवा इसने बजाई थी.

२ मौखसिंह

२ चमनसिंह

२ पनसिंह

गुमानसिंह

सबलसिंह

प्रतापसिंह


६ वंशवृक्ष तेलपुर परगने पिन्डवारा के भेदावत. ( राजपूत दावे. )

तेलपुर गांव पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ४ कर्मसिंह को जागीर में था, लेकिन वि. सं. १७८५ में पाडिव के ठाकुर ने, रावतसिंह (देखो नं. ४) को चूक करके मारा, और नकुव राजपूत जो उसका प्रधान था, उससे गांव छीन लिया, जिससे भेदावत राजपूत 'राजपूत दावे' इस गांव में रहे हैं. इसी सन १९२३ में पाडिव ठिकाने के साथ नया ठहराव हुआ, उसमें यह गांव खालसे हुआ है.

१ कर्मसिंह ( पिन्डवारा के भेदावत राजपूत वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ४ वाला. )

२ दूर्जनसिंह

३ भीमसिंह



७ वंशवृक्ष छोटी पुनंग इलाके जोधपुर के भेदावत.

पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ३ तेजमाल को छोटीपुनंग गांव की जागीर, सिरोही रियासत से मिली थी, बाद में यह गांव जोधपुर की रियासत के तरफ गया. छोटी पुनंग के भेदावतों में नं. १ तेजमाल से क्रमशः २ कर्मसिंह, ३ सतीदान, ४ भूपतसिंह, ५ नाहरखान, ६ रघसिंह, ७ केशरीसिंह व ८ गोदसिंह पाटवी हुए. गोदसिंह के तीन पुत्र ९ अनाडसिंह, १ जोधसिंह, ३ चैनसिंह पाटवी की ओलाद वाले हैं.

## प्रकरण १८ वां.

### मालणका हुंगरावत.

ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. २ हुंगरसिंह के पोता मालदेव से मालणवा कहलाये गये.

१ वंशवृक्ष वीरवाडा परगने पिन्डबारा के मालणवा हुंगरावत.

१ जांजण (वंशवृक्ष ठिकाना पाडिव में नं. २ हुंगरसिंह का पुत्र नं. ३ वाला )

२ मालदेव ( मालणवा कहाये. ) इसने मालणु गांव बसाया.

३ बाघसिंह

४ रडभंग

५ तेजसिंह

६ रायमल

६ बाघसिंह

७ श्यामलदास

७ कर्मसिंह ( वीरोली )

७ दूर्जनसिंह

८ इश्वरदास

८ कहानसिंह

सतीदान

९ दयालदास

९ उदयसिंह

अमरसिंह

भोमसिंह

मोहनसिंह

१० जगतसिंह

ओटसिंह

१० करणसिंह ( सीवेरा. )

११ देवीसिंह

१२ माहसिंह

( मालणु )

१२ ओपसिंह ( वीरवाडा )

१२ अखेसिंह ( छोटभाई देखो पृष्ठ २०२ पर )

१३ चतरसिंह

१३ वखतसिंह

१४ जोरसिंह

पद्मसिंह

तेजसिंह

जालमसिंह

जामतसिंह

दोलतसिंह

सग्रामसिंह

१४ गलालसिंह

१४ प्रेमसिंह

१५ अमरसिंह

कहानसिंह

भोणालसिंह

१५ वदसिंह

अनाडसिंह

भोपालसिंह

१५ मालसिंह

जुमारसिंह

( काम आया वि. सं. १८७० में )

१६ सुरजमल

१६ हटसिंह

मोकसिंह

१६ हीन्दुसिंह

१६ चमनसिंह

१७ मेघसिंह

चेनसिंह

१७ अबलसिंह

१७ देवीसिंह

प्रतापसिंह

समर्थसिंह

भेरसिंह

शिषसिंह

१७ जीवसिंह


करणसिंह १८ धुलसिंह १८ रत्नसिंह

( मौजूदा पाटवी )




१ (अ) वंशवृक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के डुंगरावत मालणवा छोटभाई

१ प्रेमसिंह ( वंशवृक्ष वीरवाडा के मालणवा में नं. १४ वाला ) छोटभाई वीरवाडा



१ (आ) वंशवृक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा छोटभाई.

१ अखेसिंह (वीरवाडा के मालणवा वंशवृक्ष नं. १ में नं. ११ देवीसिंह का पुत्र नं. १२ वाला ) छोटभाई वीरवाडा



नोट—वीरवाडा गांव का राजहक जो आठआनी लगता है, वह महाराव शिवसिंह ने श्री वामणवारजी महाराज के मन्दिर को अर्पण किया है. नं. २ मालदेव ने मालणु गांव बसाया था, जो गांव जोधपुर रियासत के साथ सिमा निकाल ने के फैसले में, जोधपुर तरफ चला गया.

नं. १३ वख्तसिंह के समय में भारी दुष्काल पडा था, उस समय इसने अपना अनाज का कोठार अपनी प्रजा को अर्पण करने से किसी कवि ने कहा है कि—

“ डगीओ मरुधर देश, मऊ हाले मालवे; वीरवाडे वगतेस थांभो दीधो देवडा. ”


नं. १४ वदसिंह व वंशवृक्ष १ (आ) में नं. ३ वाला जगतसिंह, पाडिव के डुंगरावतों के साथ, वि.सं. १८७० में वाद हुआ उसमें काम आय थे, दंतकथा में कहा जाता है कि मालणवा देवडा ने, रामावतों के उपर हमला करके उनकी पोल के किवाड ले आये थे, जो अब तक वीरवाडे में मौजूद है.

वंशवृक्ष नं. १ (आ) में नं. ३ कुशलसिंह की ओलाद वाले वि. सं. १८७८ में सवरली गांव म थे, लेकिन नं. ३ रत्नसिंह वि सं. १८९१ में नाओलाद होने से, सवरली गांव खालसे हुआ, जिससे नं. ३ राजसिंह की ओलाद वाले वीरवाडा में आवाद हुए है.

इस गांव में आठआनी राजहक जो बामणवारजी महाराज के देवस्थान के तरफ जाता है, उसकी वसूलात बटवारा से होती है.

२ वंशवृक्ष वीरोली परगने पिन्डवारा के मालणवा ( नाओलादी से खालसा ) पाटवी.

१ कर्मसिंह ( वीरवाडा के मालणवा वंशवृक्ष में नं. ७ वाला. )




नोट—नाओलाद होनेसे वीरोली गांव खालसे राज हुआ.


३ वंशवृक्ष सोणवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा. राजपूत दावे.

१ नाहरसिंह ( वीरोली के मालणवा वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) राजपूत दावे.

२ वीरसिंह




५ जोरसिंह ( चल् वंशवृक्ष नं. ३ सोणवाडा के मालणवा राजपूत में नं. ५ के पुत्र )



४ वंशवृक्ष हींगार परगने पिन्डवारा के मालणवा राजपूत ( राजपूत दावे )


सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशवृक्ष नं. ३ में नं. ६ शिवसिंह को हींगार गांव आवादी के वास्ते मिला था, मगर आबाद न होने से खालसा है.

१ शिवसिंह ( सोणवाडा के मालणवा राजपूतों के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) हींगार में राजपूत दावे.




५ वंशवृक्ष सोणवाडा व नांदीआ परगने पिन्डवारा के मालणवा राजपूत.

१ जोगराज ( सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशवृक्ष नं. ३ में नं. ५ वाला की ओलाद ) राजपूत दावे सोणवाडा व नांदीआ में है. )




६ वंशवृक्ष सवरली परगने पिन्डवारा के मालणवा.

सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशवृक्ष नं. ३ में नं. ५ रायसिंह के पोता उदयसिंह को वि. सं. १९०२ में सवरली गांव आबादी के लिये मिला




२ उदयसिंह ( चल् वंशवृक्ष सधरली में नं. १ दलसिंह का पुत्र ) ओ. प्रां. सवरली.



नोट-इस गांव में पाटवी अजेतसिंह मौजूद है, और गांव आबादी की खास शर्त से जागीर में है, जिसमें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, अजेतसिंह को शिवनाथसिंह नामका एक पुत्र है.

७ वंशवृक्ष पालडी परगने खूणी के मालणवा राजपूत. ( राजपूत दावे )


१ अजबसिंह ( वंशवृक्ष नं. ३ सोणवाडा के मालणवा राजपूत में नं. ४ वाला नं. ३ जोधसिंह के पुत्र ) राजपूत दावे. पालडी गये.




८ वंशवृक्ष वीरोली परगने पिन्डवारा के मौजूदा मालणवा राजपूत. ( राजपूत दावे.)

वीरोली गांव, वंशवृक्ष नं. २ वीरोली के मालणवा में नाओलादी होनेसे खालसा राज हुआ था, बाद में सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशवृक्ष नं. ३ में नं. ४ साहेबखान का तीसरा पुत्र जुजारसिंह को, वीरोली आबाद करने को रियासत से दिया गया, मगर आबाद नहीं होनेसे खालसा राज रहा, लेकिन साहेबखान की ओलाद वाले वीरोली गांव में राजपूत दावे रहते है.

१ साहेबखान ( सोणवाडा के मालणवा वंशवृक्ष नं. ३ में नं. ४ वाला ) राजपूत दावे.




४ वदसिंह ( चल् वंशवृक्ष नं. ८ वीरोली परगने पिन्डवारा के मौजूदा मालणवा राजपुत )



८ (अ) वंशवृक्ष वीरोली के मौजूदा मालणवा राजपुत ( राजपुत दावे ) वीरोली में व सवरली में भी हैं.

१ जुजारसिंह ( वीरोली के मालणवा राजपुत वंशवृक्ष नं. ८ में नं. २ वाला ) राजपुत दावे.

२ धीरमदेव




९ वंशवृक्ष सूरी परगने पिन्डवारा के मालणवा ( नाओलादी से खालसा ) व उनकी ओलाद सवरली में हैं, वह मालणवा राजपुत.

वंशवृक्ष नं. ३ सोणवाडा में नं. ४ वख्तसिंह के पुत्र जीवसिंह को सूरी गांव आबादी के लिये मिला था, मगर बाद में नाओलादी होनेसे खालसे राज रहा. जिवसिंह का एक पुत्र नं. ३ सवाईसिंह सवरली चला जानेसे, उसकी ओलाद वाले सवरली गांव में राजपुत दावे मौजूद हैं.

१ वख्तसिंह ( वंशवृक्ष नं. ३ में नं. ४ वाला नं. ३ जोधसिंह का पुत्र )


२ जीवसिंह



१० वंशवृक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा पांती नं. १

सीवेरा की जागीर मालणवा करणसिंह को मिली थी, करणसिंह के पुत्र जगतसिंह व जयसिंह सीवेरा में रहे. जगतसिंह के पोते से इस जागीर में दो पांती हुई. करणसिंह के पुत्र जोधसिंह को आंबली गांव मिला था, जिसकी ओलाद न होनेसे, आंबली गांव खालसा राज हुआ है.


१ करणसिंह ( वीरवाडा के मालणवा वंशवृक्ष में नं. १० वाला ) ओ. प्रां. सीवेरा पांती नं. १



नोट—इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. मौजूदा पाटवी वनेसिंह के १ पृथ्वीराज व २ भूरसिंह नामके दो पुत्र है.

नं. ११ वंशवृक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा, पांती नं. २

१ नाथुसिंह ( सीवेरा के मालणवा वंशवृक्ष पांती नं. १ में नं. ४ वाला ) ओ. प्रां. सीवेरा पांती नं. २



नोट—इस पांती में जीवसिंह मौजूदा पाटवी है, और राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

● नं. ५ गुमानसिंह नाओलाद गुजरे है. जोकि बडुआ की पुस्तक में जीवसिंह के छोटे भाई केशरीसिंह को, नं. ३ गजेसिंह के गोद जानेका लिखा है, परन्तु वह राज से मंजूर नहीं हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि, केशरीसिंह नं. ३ गजेसिंह के गोद नहीं गया, लेकिन नं. ५ गुमानसिंह जो इसी साल में गुजरा है, वह उसके गोद गया था.




## प्रकरण १९ वां.

### कीर्तिपत व मामावली के गोसलावत देवडा.

सिरोही राजकुल वंशवृक्ष में नं. ४ वाले महाराव लूभा के पुत्र दुदा से, चौथी पुस्तपर 'कीर्तिपाल' हुआ, जिससे 'कीतावत,' और दूसरा पुत्र 'चाहड' के पुत्र 'गोसल' से 'गोसलावत' कहलाये गये, गोसल की ओलाद वाले को, मामावली की जागीर मिलनेसे, वे 'मामावला देवडा' भी कहे जाते हैं.

? वंशवृक्ष कीतावत देवडा पामेरा में (राजपूत दावे.)



नोट-नं. १ दुदा के तरफ रोहीडा परगने के धनारी आदि गांवों की जागीर थी. नं. ४ कीर्तिपाल ने वि. सं. १४३० में, धनारी गांव के पास 'जालोकरा' नामक गांव



( जो इस समय वैरान खेडा है. ) रावल ब्राह्मण को दिया था, वैसा रावलों के भाट की वही से पाया गया है, (ईस गांव में पुरोहित नारायणदास नामका मुसाहिब जो महाराव शिवसिंह के समय में था, और जिसने सिरोही रियासत की अच्छी सेवा बजाई थी, वह रहता था. )

नं. ५ लालसिंह को सणदरा मिला, जिससे उसकी ओलाद वाले वहां गये, बाद में वह गांव रियासत जोधपुर के तरफ जानेसे, उसकी ओलाद वाले 'भोमिये' कहलाये, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकार में दिया गया है.


नं. ६ दूदा को परगने पामेरा का गांव टोकरा मिला था, मगर नं. १२ मालदेव जो पाटवी था, वह नाओलाद हुआ, और टोकरा गांव वैरान होगया, जिससे खालसा राज हुआ, बाद में नं. १३ भूतसिंह को, रियासत से पामेरा गांव में अरहट दिये गये, जिसकी ओलाद वाले, पामेरा गांव में राजपूत दावे रहते हैं.

नं. ६ देवकरण को कांकेदरा मिला था, मगर बाद में इसकी ओलाद में, नं. ७ देवीसिंह उदयसिंहोत, अपने मामा राणावत दोलतसिंह विजापुर इलाके जोधपुर वाले के पास चला गया, जिससे उसकी ओलाद वाले विजापुर में रहे, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकार में दिया गया है.


नं. ६ सांगा की ओलाद वाले मेवाड में लुधाडा गांव में चले गये, जो वहांपर विद्यमान है.

२ वंशवृक्ष सणदरा इलाके जोधपुर के कीतावत. ( पाटवी का. )

१ लालसिंह ( पामेरा के कीतावत वंशवृक्ष में नं. ५ वाला )




८ नारायणदास ( चतु वंशवृक्ष नं. २ सणदरा इलाके जोधपुर के कीतावत पाटवी.)



३ वंशवृक्ष विजापुर इलाके जोधपुर के कीतावत देवडा.

वंशवृक्ष नं. १ के कीतावतों में नं. ५ देवकरण से क्रमशः २ कर्मसिंह, ३ हीरसिंह, ४ लालसिंह, ५ इश्वरदास, ६ उदयसिंह व ७ देवीसिंह हुए. देवीसिंह वि. सं. १७९० में विजापुर चला गया, जहां पर उससे क्रमशः ८ गोदसिंह, ९ दयालदास व १० नाथुसिंह हुए. जिनका परिवार




४ वंशवृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत. ( छोटभाई.)

सिरोही के महाराव लूंभा का पुत्र चाहड की ओलाद वाले के तरफ, डोडुआ गांव की जागोर थी, बाद में डोडुआ छूट गया, जिससे नं. ६ पीथसिंह मामावली गांव में आया. सिरोही रियासत के पुराने दफतर से मालूम हुआ है कि, नीचे के वंशवृक्ष में नं. ७ गजेसिंह, पीथसिंह का तीसरा पुत्र था, तब भी उसकी ओलाद वाले, मामावली गांव की जागीर के पाटवी थे, वि. सं. १८५६ में (महाराव वैरीसाल के समय में) दूसरी पांती के वंशवृक्ष का नं. ४ वाला मुकुन्दसिंह पाटवी था, और उसकी ओलाद वाले के नाम रियासत

से पाटवी का हुकमनामा होता था, दूसरे सब छोटभाई गिनेजाते थे, लेकिन सन १९२३ ई. के मई महीने में जो नया ठहराव हुआ है, उससे यह जागीर में दो हुकमनामा पांती कायम हुई है.


१ चाहद ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ४ महाराव लूभा का पुत्र नं. ५ वाला )

२ गोसल ( इसके पीछे ' गोसलावत ' कहलाये )



५ वंशवृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती नं. १


१ माधवसिंह ( मामावली के गोसलावत छोटभाई वंशवृक्ष नं. ४ में नं.  $\frac{१०}{१}$  वाला )



नोट-मामावली पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी नं. ६ शिवनाथसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १२२) लेनेका ठहराव नं. ६७६ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

६ वंशवृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती नं. २

१ गजेसिंह ( मामावली वंशवृक्ष नं. ४ में नं.  $\frac{७}{२}$  वाला नं. ६ पीथसिंह का पुत्र ) ओ. ग्रां. मामावली पांती नं. २



नोट-मामावली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी नं. ८ प्रतापसिंह है. इस जागीर में राज्यहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १९८) लेनेका ठहराव नं. ६७५ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.



## प्रकरण २० वां.


### वडगांमा, व वागडिया देवडा.

सिरोही राज्य स्थापन करने वाले विजलराय के पांच पुत्रों में, नं. ४ लूणकरण, (देखो राजकुल वंशवृक्ष में नं. ४ वाला) मंडार के मुगल के साथ युद्ध करने में काम आया था, जिससे मंडार उसके पुत्र तेजसिंह को दिया गया था, बाद वि. सं. १३६० में आबु पहाड देवडा चौहानों ने कब्जे किया, उस समय तेजसिंह ने, दलपत परमार (जो आबु के मालिक था.) को मारा, इसलिये वि. सं. १३६७ में जब चंद्रावती में महाराव लूभा ने राज्यस्थान किया, तब आबु भी तेजसिंह को दिया गया. तेजसिंह के समय में आबु पहाड पर जो जो शिलालेख लिखे गये हैं, उनमें उसका नाम राजा के तौरपर लिखा गया है, जिससे इतिहास वेत्ताओं को यह राय है कि, तेजसिंह महाराव लूभा का बड़ा पुत्र था, इस विषय में इस पुस्तक के पहिला विभाग के प्रकरण २४ वां में सविस्तर अहवाल लिखा जा चुका है. लूणकरण के दूसरे पुत्र तिहणुक को वांकडिया वडगांम मिला था, जिसकी ओलाद वर्तमान समय में वडगांम में मौजूद है, वडगांम के नामसे तिहणुक की ओलाद वाले 'वडगांमा देवडा' कहलाये गये हैं.

तिहणुक का बड़ा पुत्र देवीसिंह वडगांम रहा, और दूसरा पुत्र 'रावलसिंह' को धाका, धानेरा व सुराव आदि गांवों की जागीर मिली, वे गांव धानेरा पट्टी में 'वागड' नाम के प्रदेश के नामसे मशहूर होनेसे, रावलसिंह की ओलाद वाले 'वागडिया देवडा' कहलाते हैं.

वडगांमा व वागडिया देवडों को, रियासत सिरोही से जागीरें मिली हैं, और वि. सं. १६३१ (महाराव सूरताणसिंह) तक, वे सिरोही रियासत के तरफ थे, लेकिन जब कि लखावत कल्याणसिंह ने, सिरोही की गद्दी सिलोदियों की सहायता से दबा ली, तब जालोर के मलिकखान को अपनी सहायता करने के बदले में, महाराव सूरताणसिंह ने चार परगने दिये, उसमें एक परगना वडगांम भी था, जिससे वडगांमा देवडों का ताहुक जालोर के खान से हुआ. जब की खान के हाथ से जालोर छूट गया, तब वडगांमा देवडों का ताहुक पुनः सिरोही के साथ हो गया, लेकिन वे लोग स्वतंत्र तौरपर अपना वर्ताव करने लगे, जिससे वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठौरों के तरफ गये. वर्तमान समय में वडगांमा देवडों का सिरोही रियासत में सिर्फ 'आकुना' नामका गांव है, जो गांव महाराव सूरताणसिंह ने, चांपराज नामका वडगांमा देवडा ने दताणी की लडाईं में सेवा वजाने से, वि. सं. १६४० में इनायत किया था. चांपराज की ओलाद वाले आकुना गांव में मौजूद है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

१ वंशवृक्ष वडगांमा देवडा.



उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ लूणकरण बहादुर राजवी था. इसने अपने पिता विजलराय के साथ वडगांम व मंडार के युद्ध में अच्छी वीरता बताई थी, जिससे इसके पुत्रों को महाराव लूंभा ने, मंडार व वडगांम पट्टे की जागीरें दी थी.

नं. २ तेजसिंह का नाम आबु पहाड पर वि. सं. १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेखों में मिलता है, और वह राजा था वैसा माना गया है. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, तेजसिंह को अबल मंडार परगना, व साँचौर पट्टी के रेवाडा व पाल नामका पट्टा, ( जिसमें १७ गांव है. ) जागीर में मिला था. इसने झामटा, ज्यातुली व तेजलपुर नामके गांव, वशिष्ठजी के मन्दिर को चढाने का शिलालेख में उल्लेख किया गया है.

नं. २ तिहणुक को वडगांम परगने के २६ गांव व धानेरा परगना मिला था. इसने वडगांम से बडुआ को सीख दी थी. इसकी ओलाद वाले ' वडगांमा देवडा ' कहलाये. इसकी राणी चावडीजी ' जीवांदे ' चावडा कांधल के पुत्र भाणसिंह की पुत्री थी.

नं. ३ कान्हडदेव का नाम आबु पहाड पर वि. सं. १३९४ व १४०० के शिलालेखों में मिलता है. वर्तमान समय में आबु पर जो वशिष्ठजी का मन्दिर है, वह इसके समय में बना था. इसकी मूर्ति अचलेश्वरजी के मन्दिर के सभामंडप में विद्यमान है, और इसने वीरवाडा गांव वशिष्ठजी के मन्दिर को भेट किया था, ऐसा शिलालेख में उल्लेख हुआ है. इसको भी राजा होना माना गया है.

नं. ३ रामसिंह के तरफ वडगांम परगना व सूणतरा परगने की जागीर रही, और उसका भाई नं. ३ रावलसिंह को वागड का परगना मिला, जिसकी ओलाद वाले वाद में ' वागडिये देवडे ' कहलाने लगे.

नं. ४ सामन्तसिंह अपने पिता कान्हडदेव के पिछे गद्दी पर आये. इसने लूणोल, ( लुहूणी ) छापोल ( छापुली ), व कीरणथला (इस नामका कोई गांव सिरोही रियासत में नहीं है.) गांव वशिष्ठजी के मन्दिर को भेट किये, ऐसा सि. रा. ई. के कर्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है. बडुआ की पुस्तक में इसका नाम भी नहीं है.

नं. ४ देवीसिंह के तरफ वडगांम, झांखडी, दहीपुरा आदि गांवों की जागीर रही, जिसकी ओलाद में वडगांम के मौजूदा ठाकुर हैं. देवीसिंह के बाद की ख्यात जिस वही में लिखी गई थी, वह बडुआ के हाथसे चली गई, और वडगांमा देवडों ने अपना अहवाल दूसरे भाटों से लिखवाना शुरु किया, वैसा कहा जाता है. इस समय में जोधपुर रियासत में वडगांमा देवडों की जागीरें, १ वडगांव, २ जोडवा, ३ राणीवाडा मोटा, ४ राणीवाडा छोटा, ५ झांखडी, ६ धामसेण, ७ रतनसिंह, ८ डुंगरी आदि के पट्टे हैं. और वागडोया देवडों की जागीरें पालणपुर रियासत में हैं.

नं. ५ भोजराज के तरफ तेजाव गांव की जागीर थी, इसने व इसके पुत्रों ने दताणी की लडाईं में अच्छी सेवा वजाने से, महाराव सूरताणसिंह ने 'आकुना' गांव बक्षा, बाद में इसकी ओलाद वाले, तेजाव छोडकर आकुना में आबाद हुए हैं, जो वर्तमान समय में आकुना में विद्यमान हैं.


नं. ६ शंकरसिंह के तरफ कोरां, दापां, झुझाणो, व कावीतरां आदि गांवों की जागीर रही.

नं. ७ अजेतसिंह के तरफ सुणतरा पट्टा के गांव धनाल, सुडा, राणीवाडा व रतनपुरा आदि जागीर में रहे, जिसकी 'वल' सिरोही में आती थी, लेकिन वि. सं. १८४६ से पालणपुर के तरफ चली गई. ( लालजीमल की वही से )

नोट—इस पुस्तक के लेखक ने वडगांम ठाकुर को खुद निंबज मुकाम अपनी ख्यात भेजने को रुबरु में कहा था, लेकिन न आनेसे जोधपुर के वडगांमा देवडों के वास्ते ज्यादाह नहीं लिखा गया है.

२ वंशवृक्ष आकुना परगने मगरा के वडगांमा देवडा पांती नं. १

१ भोजराज ( वंशवृक्ष नं. १ वडगांमा देवडा में नं. ४ वाला )




+ इस विषय में बडुआ लछमनसिंह का यह कहना हुआ था कि, वडगांमा देवडे हमारो यजमान है, और हमको वंदाते थे, करीब एकसौ वर्ष पर वडगांम मेरा वडाऊआ गया था, तत्र हमारी वडगांमा देवडों की पुस्तक किसीने चुराली, और बाद में वडगांमा देवडों के नाम लिखने का बंध हुआ. आकुना के वडगांमा देवडों की वंशावली हमने बडी मुश्किली से खडी की, और उनके नाम लिखे हैं.

नोट—वडगांव के ठाकुर शिवदानसिंह ने खेमत पर चढाई करके, वहां के ठाकरला कोली अजबसिंह को मारा था, उस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ अपछरपूछे आय कही अजवा माथुं कटे, धड रह्यो रण मांय शिर ले गयो शिवदानीयो. ”

४ राजसिंह ( चन्द्र वंशवृक्ष आकुना परगने मगरा के वडगांमा देवडा पांती नं. १ )

५ वीरमदेव



नोट—इस पांती का माजूदा पाटवी नं. ११ सरदारसिंह है, जिसको शिवसिंह नामका एक पुत्र है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३८) लेनेका ठहराव नं. ७५४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

३ वंशवृक्ष आकुना परगने मगरा के वडगांमा देवडा पांती नं. २

१ कर्मसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ आकुना पांती नं. १ में नं. २ वाला नं. १ भोजराज का पुत्र ) ओ. ग्रां. आकुना पांती नं. २

२ रूपसिंह

नगसिंह  
 वर्नेसिंह ३ अदरसिंह  
 ( देखो पृष्ठ २१८ पर )





## प्रकरण २१ वाँ.

### बोडा चौहान ( सियाणा ई. जोधपुर )

सिरोही के राजकुल वंशवृक्ष में नं. ३ बोडसिंह उर्फ बोडा के नाम से 'बोडा चौहान' कहलाये गये. बोडा चौहानों की जागीरें सियासत सिरोही से व जालोर के सोनगरे चौहानों के समय में जालोर राज्यस्थान से दी हुई है, मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि, जालोर के राव कीर्तिपाल के पुत्र, भाखरसिंह का पुत्र बोडा नामका था, परन्तु बडुआ, राणीमगा व कुलगर की वही से पाया गया है कि, जालोर के राव माणीजी उर्फ मानसिंह का दूसरा पुत्र 'बोडा' था.

बोडा चौहानों में पाटवी ठिकाना 'सियाणा' है, जो वि. सं. १६३१ तक सियासत सिरोही में था, और बाद में महाराव सूरताणसिंह ने जालोर के मलिकखान को चार परगने दिये, जिसमें यह परगना भी जालोर तरफ गया. वि. सं. १७२० में जब कि मूतानेणसी ने बोडा चौहानों की ख्यात लिखी, तब सियाणा पट्टा के बोडा चौहानों के तरफ १ सियाणा, २ चांदण, ३ भेंटाल, ४ मेडो, ५ बाहरलोवास, ६ माहेलोवास, ७ कुंड, ८ दहीगाम, ९ नागणी, १० देवदो, ११ उडवाडो, १२ कणवद आदि गांव थे, व बोडा माना नर्मदोत के तरफ जालोर से मिले हुए, बापडोत पट्टे के पांच गांव, व दहियावटी में सात गांव ( १ सींहराणो, २ खारी, ३ सांधाणो, ४ देवसीवास, ५ आलवाडो, ६ आलाराण आदि ) थे, जहांपर बोडा माना के भाइबन्धु रहते थे, जो करीब २०० राजपूत थे, और वक्त जरूरत ४० घोडेसवार से काम देते थे, इसके सिवाय गांव भांडै में भी ठाकरसिंह व सूरा नामके बोडे चौहान विद्यमान थे. सिरोही सियासत में 'धांधपुर' नामका गांव बोडा चौहान को आबाद करने की शर्त से दिया गया है, उसके सिवाय बोडा चौहानों की जागीर नहीं है.

मूतानेणसी की ख्यात से बोडा चौहानों की वंशावली, जालोर के सोनगरा कीर्तिपाल से क्रमशः २ समरसिंह, ३ भाखरसिंह, ४ बोडा, ४ लक्षमण, ५ महिपालदेव, ६ हांजा, ७ सांवत, ८ सिखरा, ९ नवंधण, १० करमसी, ११ बीजा, १२ वाघा, १३ नारायणदास, व १४ कल्याणदास तक लिखी गई है, वि. सं. १७२० में कल्याणदास सियाणे में विद्यमान था.

बोडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक मुआफिक राव माणीजी से निम्न वंशवृक्ष सियाणे के बोडा चौहानों का होता है.

+ देवडा चौहान व बोडा चौहान का बडुआ अलग अलग है, इसके लिये बडुआ लखमनसिंह का यह कहना हुआ था कि, हम लोगों में यजमान बटे जाते है, तब जो यजमान हमारे भाईओं को सुपुर्द होते है उनकी वही उसको दी जाती है.

## वंशवृक्ष सियाणा इलाके जोधपुर के वोडा चौहान.



## उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ वोडसिंह को जब कि देवडा चौहानों का राज्य कायम नहीं हुआ था, तब जालोर राज्यस्थान से 'वापडोत' व दहीयावटी में जागीर मिली थी, और यह वहां रहते थे.

नं. ३ विकल को 'काछेलगढ' की जागीर चंद्रावती राज्यस्थान से दी गई थी, परन्तु इसने महाराव रडमल के समय में सोलंकीयों की सहायता से बंद उठाया, जिससे काछेल गढ उससे ले लिया गया।

नं. ४ सहिपाल को महाराव रडमल ने सियाणा पट्टा की जागीर, तेरह गांवों से दी.

नं. ५ सामन्तसिंह वि. सं. १४१० में था. बोडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, इसने गेहलोत राजपूतों से युद्ध करके, बारह गांव लिये, और 'वारलावास' नामका गांव बसाया.

नं. ७ नौधण, जोधपुर पर घेरा डाला गया तब उस युद्ध में काम आया. ( यह घेरा राठौर राव मालदेव के समय में मुगलों ने डाला था. )

नं. ८ कर्मसिंह जालोर में काम आया, यह बडा वीर पुरुष था. वीरता के कारण यह 'मामा खेजडा' कहलाया, और उसके स्थान की पूजा होती है.

नं. ९ वजेसिंह के समय में वि.सं. १६३१ में सियाणा परगना, महाराव सूरताणसिंह ने जालोर के खान मलिकखान को सुपुर्द किया, तबसे बोडा चौहान जालोर की मातहती में गये.

नं. १० अखेराज को चानणा व काणदर गांव मिला, जिसकी ओलाद वाले वहांपर रहने लगे.

नं. ११ खेतसिंह को 'भेटाला' गांव की जागीर मिली.

नं. १२ नारायणसिंह की बहिन का विवाह राठौर राव सूरसिंह के साथ हुआ था. जब कि अकबर बादशाह ने जालोर गढ, राठौरकुमार गजेसिंह को वक्षा तब नारायणसिंह ने गजेसिंह की सहायता करके, विहारी पठाणों से जालोरगढ गजेसिंह को सुपुर्द कराया, इस सहायता के एवज में इसको वाकरा, भागरा व भदारा आदि गांव मिले थे. यह वि. सं. १६९० तक विद्यमान था.

नं. १३ कल्याणसिंह के समय में वि. सं. १६९९ में जालोरगढ राठौर महेशदास दलपतसिंहोत को बादशाह ने वक्षा, और चार वर्ष बाद ( वि. सं. १७०३ में जालोरगढ राठौर रत्नसिंह महेशदासोत के तरफ आया.) राठौर रत्नसिंह ने कल्याणदासको कहलाया कि, मैं शाही सेवा में दूर के प्रदेश में जानेवाला हूं, सो तुम्हें जालोर में आकर ठहरो, जिस पर कल्याणदास कम आदमी लेकर उसके पास गया, जिससे राठौर रत्नसिंह ने नाखुश होकर अपने हाथ से बरछी मार कर कल्याणदास को मार डाला, और उस समय से सियाणा परगना जो बोडा चौहानों की स्वतंत्र जागीर का था, उसमें जालोर के राठौरों का दखल होकर

यह 'भोमिया' के नाई होगये, यानी उस जागीर पर राजहक लागु हुआ, और राठौरों ने अपने खानदान के दूसरे जागीरदार को अपनी तरफ से कायम करना शुरु किया.

नं.  $\frac{१२}{१}$  केसुरसिंह की ओलाद नागणी व माहेलावास नामके गांवों में मौजूद है.

नं. १३ हरिसिंह वि. सं. १७३५ में ठाकुर हुआ, उसका भाई नं.  $\frac{१३}{१}$  मनोहरदास की ओलाद आडवडा गांव में है.

नं. १६ अभयसिंह ने राठौर मानसिंह जो जालोर में था, उसकी अच्छी सेवा बजाई थी, और वि. सं. १८५६ में भोमिया की सनद पाई.

नं. १७ सुजाणसिंह वि. सं. १८६७ में जब कि, जोधपुर की फौज सिरोही पर चढाई लेकर आई, तब जोधपुर की फौज में शरिक था. यह वि. सं. १८७० में गुजरा.

नं. १८ जेतसिंह नाओलाद गुजर जानेसे, उसका चचेरा भाई कैशरीसिंह वि. सं. १८९१ में गोद आया, और वह भी नाओलाद गुजरने से, नं.  $\frac{१८}{१}$  गुलाबसिंह का पुत्र शक्तिदान सियाणे के भोमिये का वि. सं. १८९६ में पाटवी हुआ.

नं. २१ मेघसिंह नाओलाद गुजरने से, नं.  $\frac{२१}{१}$  हरिसिंह का पुत्र हबतसिंह गोद आया जो मौजूदा पाटवी है.



नोट—सियाणा के बोडा चौहान सियाणा पट्टे के भोमिये कहशते है, और जागीरदार के तौरपर राठौर राजपूत है. जागीरदार को सिर्फ राजहक की आमदनी मिलती है. यदि जागीरदार की जागीर नाओलादी या दूसरे कारण से खालसे होसकी है और तवादला भी होता है, परन्तु भोमिया की जागीर के वास्ते वैसा नहीं होता है, क्योंकि बमुकाबले जागीरदार भोमिया का हक हकुक ज्यादाह मजबूत है, वजह यह है कि जागीर मौजूदा रियासत से दी गई है, लेकिन भोमिया की भोम परंपरा से (मौजूदा राज्यस्थान कायम होने के पहिले से ) कब्जे में चली आ रही है.

## प्रकरण २२ वां

### बालोतर चौहान. ( डोडीयाली ई. जोधपुर )

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष में ( देखो पृष्ठ २ पर ) नं. ३ बालसिंह ( राव माणोजी का तीसरा पुत्र ) के वंशज 'बालोतर' कहलाये. बालसिंह के तरफ वि. सं. १३४० में जालोर से मिली हुई 'गुडा' पट्टे की जागीर थी, लेकिन महाराव लूंभा ने चंद्रावती में राजस्थान कायम करने बाद बालसिंह का पुत्र विशलदेव चंद्रावती आया जहां से उसको वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली' पट्टे की जागीर ८४ गांवों के साथ दी गई. वि. सं. १६३१ में डोडीयाली के बालोतर जालोर के विहारीखान के तहत में हुए, लेकिन विहारी के हाथ से जालोर जाने बाद इनका ताल्लुक पुनः सिरोही के साथ हो गया, परन्तु वडगांमा देवडों के मुआफिक वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठौर की तरफ यह पट्टा भी गया.

डोडीयाली व आलावा आदि गांवों में सीणे भील ज्यादा होने के कारण से बालोतर चौहान बहुत बलवान रहने पाये बल्कि उन्होंने अपना ताल्लुक सिरोही से छूट जाने पर भी राठौरों को खिराज नहीं दी और उनकी चाकरी करना भी स्वीकार नहीं किया, जिससे बार २ इन लोगों पर राठौरों का आक्रमण होता रहा, इस कारण से इनके कइएक गांव राठौरों ने दबा लिये और वर्तमान समय में बालोतर चौहानों के तरफ करीब २० गांव रहने पाये है, जिस में डोडीयाली गांव मुख्य है जिसके पाटवी को 'रावजी' के पद से लिखावट होती है. इस ठिकाने पर जोधपुर रियासत की रेख चाकरी कदीम से नहीं है सिर्फ फौजवल के नामसे कुछ रकम ली जाती है.


यदि महाराव सूरताणसिंह के समय में 'वांकडिया वडगांव, सियाणा, लोहीयाणा, व डोडियाली' ये च्यारों परगने जालोर के खान को दिये गये थे और राठौरों के पास जालोर आने बाद वे परगने और उनके सिवाय रामसिण, विशलपुर और दूसरी कइएक सिरोही के भाईयातों की जागीरें जोधपुर रियासत के तरफ जाने पाई थी, लेकिन उन जागीर के सरदारों का कितनाक ताल्लुक ( १ गद्दी नशिनी के समय पगडी बंधवाना, २ शादी-गमी में लौकिक बहेवार रखना, ३ फौज-फांटे के कामों में सिरोही में हाजिर आना वगैरह ) सिरोही रियासत के साथ कायम रहा है, बल्कि जोधपुर के महाराजा मानसिंह का सिरोही रियासत के साथ विरोध होने से उसने वि. सं. १८६० से १८८२ तक में कई दफे सिरोही रियासत पर फौज भेजी, जिस में विशलपुर आदि गांवों के

+ जोधपुर रियासत में वि. सं. १८९६ में वहांके सरदारों के तरफ कितने गांव व कितनी आमदनी की जागीरें है, उसकी फेहरिस्त बनी है जिसमें डोडीयाली के बालोतरों के पास. १९॥ गांव व. १८६२९) की आमदनी होना अंकित है.

लखावत जोधपुर के मातहत होने के कारण शरीक थे, मगर डोडीयाली के राव उस फौज में शरीक नहीं हुए. सिरोही राज्य के पुराने दफतर से पाया जाता है कि, वि. सं. १९२९ तक डोडीयाली के रावजी का ताल्लुक जैसा का वैसा बना रहा, परन्तु वि. सं. १९३६ में जब कि सिरोही रियासत की फौज झाडोली के वजावतों पर भेजी गई तब जोधपुर रियासत के और सरदारों ( जिनका ताल्लुक अरसा से चला आ रहा है. ) के मुआफिक डोडीयाली के बालोतर उनमें शरीक नहीं रहे, ( कहा जाता है कि उस समय में डोडीयाली में जो रावजी विद्यमान था वह खुद मीणे भीलों को पनाह देता था. ) जो कि डोडीयाली के रावजी का कुरव, ताजीम आदि वभा, सियाणे के ठाकुर के वरावर गिना जाता है, लेकिन उनके तरफ से सियाणे के ठाकुर के मुआफिक बरताव नहीं रहने के कारण, सियाणा के ठाकुर के साथ शादी-गमी में व पाट बैठने के समय में जो रसमें सिरोही रियासत के तरफ से अदा होती है, वह डोडीयाली ठिकाने के साथ कुछ दिनों से मुलतवी रहने पाई है.

१ वंशवृक्ष बालोतर चौहान डोडीयाली रियासत जोधपुर.

१ वालसिंह ( उर्फ वाला ) राजकुल सिरोही वंशवृक्ष में नं. २-वाला ).



\* जोधपुर रियासत से सिरोही पर आई हुई फौज में डोडीयाली के रावजी शरीक नहीं थे लेकिन 'कुवाला' गांव के बालोतर तेजसिंह वि. सं. १८६१ में व 'पावटा' गांव के बालोतर रामसिंह लालसिंहोत वि. सं. १८८२ में शरीक थे बल्कि 'पसाणवा' गांव का बालोतर भूपतसिंह जोरावरसिंहोत महाराजा मानसिंह की सहायता में सिरोही में काम आया था.

÷ वि. सं. १९२९ में रांवाडा ठाकुर शार्दूलसिंह की पंचाती में डोडीयाली के रावजी भी शामिल थे, बल्कि रांवाडा ठाकुर को अजमेर की जेल से रिहा कराने में पाडीव, कालंद्री व सियाणे के सरदारों के साथ यह भी उनके जामीन हुए थे.

× वि. सं. १९३६ में सिरोही की फौज झाडोली के वजावतों को सजा देने के वास्ते गई उस में सिरोही से ताल्लुक रखने वाले जोधपुर रियासत के सरदारों में लोहीयाणा के दियोल राणा, व वेडा के राणावतों की तरफ से उनके प्रधान ठिकानों की जमियत के साथ आये थे, और सियाणा ठाकुर, रामसीण ठाकुर, वांकडीया वडगांम के ठाकुर, वीसलपुर, वांकली व कोग्टा के लखावत ठाकुर और रायपरीया आदि गांवों के देवडे खुद अपनी २ जमीयत लेकर शरीक हुए थे, परन्तु डोडीयाली के बालोतर उनमें नहीं थे, पाया जाता है कि उसी समय से इनका ताल्लुक सिरोही से कम हुआ है.





मौजूदा रावजी साहव-डोडीयाली रियासत जोधपुर.



रावजी साहव जुजारसिंह ठिकाना डोडीयाली.

[ विभाग दूसरा पृष्ठ २३१-अ. नं. २६ ]



## दुर्गुक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ बालसिंह उर्फ बाला को जालोर राजस्थान से 'गुडा' पट्टे की जागीर मिली थी, इसकी राणी बारडजी मयाकुंवर बारड परमार जसवन्तसिंह की पुत्री जालोर में अपने पति के पीछे सती हुई. इसी की ओलाद वाले 'बालोतर चौहान' कहलाये गये.

नं. २ वीसलदेव के तरफ गुडा पट्टे की जागीर थी, लेकिन महाराव लूभा का चंद्रावती में राज्यस्थान होने पर इसको वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली' पट्टा की जागीर ८४ गांवों से दी गई.

नं. ३ हरपाल 'कोरटा' गांव में देवडा अजीतसिंह के हाथ से मारा गया.

नं. ४ जेठमल के विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसपर श्रीकालकामाता प्रसन्न हुई जिससे बालोतर चौहानों को 'नाडोला नहार' का विरद आया, इसके समय में राठौर राव मल्लीनाथ अपने भतिजे को मिलने के वास्ते मेहवासे डोडीयाली के पहाड में आये वहां पर वि. सं. १४०५ में देव हुए, जिससे डोडीयाली के पहाड में मल्लीनाथ का स्थान हुआ है. जेठमल के बाईस पुत्र थे, जिसमें इक्कीस पुत्र वि. सं. १४४० में युद्ध में काम आये. पाया जाता है कि यह लोग काछेल के बोडा चौहानों को सिरोही के महाराव रडमल ने सजा की उस समय बोडा चौहानों की सहायता में काम आये है.

नं. ५ राणकदेव का ज्यादा इतिहास प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका भाई नं. ३ देदा वि. सं. १४२२ में विद्यमान था और वीर पुरुष हुआ, उसने 'देदानाल' बंधाई और देदा के नाम से डोडीयाली के 'राव' बहुत प्रसिद्धि में आये.

नं. ६ चांदा अपने काका देदा के जैसा बहादुर पुरुष था, इसने चांदराई गांव

\* देवडा अजीतसिंह 'नाडोल' राज्यस्थान में 'देवडा' कहलाती शाखा में से था, जो जालोर के रावल कान्हडदेव की सेवा में उपस्थित था, जब कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोरगढ सर किया तब देवडा कांधल, देवडा जयत, देवडा महीप, देवडा सोभीत आदि नाडोल के देवडे चौहान बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये थे, लेकिन उस समय देवडा अजीत अपनी जान बचा कर भाग गया था.

⇒ जेठमल के २२ पुत्र थे, जिसमें तीन के नाम नहीं मिले है, इन बाईस पुत्रों में से २१ पुत्र वि. सं. १४४० में लड़ाई में काम आये, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा है, इन पुत्रों के नामसे कितनेक गांव बसाये गये, जिसकी तफसिल यह है कि, २ देदा (यह वि. सं. १४२२ में था और बड़ा वीर पुरुष हुआ.) ने 'देदानाल' बंधाई. ३ मांडा के नामसे 'मडवारिया' गांव, ४ जाणा के नामसे 'जाणा' गांव, ५ चुंडा के नाम से 'चुंडा' गांव, ६ वीठा के नामसे 'वीठी' गांव, ७ आका के नामसे 'आकरीया पादर' गांव, ८ उका के नामसे 'उकरडा गांव, ९ मंडला के नामसे 'मंडला' गांव, १० वरसिंह के नामसे 'वरजाल की दौय पादर' गांव, ११ देवा के नामसे 'देमानाल' गांव व बावडी बनवाई, १२ गोगराज के नामसे 'गोगरा' गांव, १३ वागा के नामसे 'वेदाणा' गांव, १४ कवरा के नामसे 'कुरणी' गांव, १५ कर्मसी के नामसे 'करजाल' गांव, १६ महेशदास के नामसे 'मादही' गांव, १७ थुंभा के नामसे 'थुंभा' गांव, १८ लालसिंह के नामसे 'लरीयाकापादर' गांव, १९ वीहारीदास के नामसे 'बेरीयो' गांव बसाये.

बसाया, और वि. सं. १४५५ में बडुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका तेज प्रताप इतना था कि डोडीयाली गांव की मवेसी जालोर के पास 'ओला' नामक पहाड में चरती थी. इस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ सिंहा वसे सेसला, कायर देखे कांध; देदा पुठे डोडीयाल छावी कीधी चांद. ”

“ कहां करूं पारखुं, कहां करूं धीज; चांदा थारी वार में चरती ओलारी सीम. ”

नं. ७ पाता ने वि. सं. १४८२ में बडुआ को डोडीयाली से सीख दी. इसका भाई नं. ६ जेतसिंह की ओलाद वाले बालोतर जोधपुर इलाके के गांव वडगांव व सिरोही इलाके के गांव निबज में होना बडुआ की पुस्तक में अंकित है, जो गांगा व उदावत के पोते कहलाते हैं.

नं. ८ रामदास ने वि. सं. १५१६ में व नं. ९ शार्दूलसिंह ने वि. सं. १५५५ में डोडीयाली से बडुआ को सीख दी.

१ पुस्तनामा सरली के बालोतर पांती नं. १.

नं. १ दलसिंह को 'सरली' गांव मिला. जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ करणसिंह, नं. ३ अखसिंह, नं. ४ सांतलसिंह, नं. ५ दयालदास हुआ. दयालदास की ओलाद में नाओलादी होनेसे उसका भाई नं. ६ भोमसिंह व उसके बाद क्रमशः नं. ६ वाघसिंह, नं. ७ हरनाथसिंह, नं. ८ उदयभाण, नं. ९ राजसिंह हुए.

राजसिंह वि. सं. १८६० में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में पाली नगर में उदयभाण के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया जिससे महाराजा मानसिंह ने 'हुंडी खीदाखोर' की जागीर जो जप्त हुई थी वह वापस दी. राजसिंह से क्रमशः नं. १० अचलसिंह, नं. ११ चमनसिंह व नं. १२ चतरसिंह हुए. चतरसिंह नाओलाद होने से उसका छोटाभाई नं. १३ भभूतसिंह गोद आया, जो इस समय 'सरली' की भोम में पांती नं. १ के मौजूदा पाटवी है.

नं. १० गांगा ने वि. सं. १५६५ में बडुआ को सीख दी, और अपने नाम से 'गांगावा' गांव बसाया जो वि. सं. १५७५ में चारण को दे दिया.

२ पुस्तनामा सेराणा के बालोतर.

नं. १ रायमल को वि. सं. १६१० में 'सेराणा' गांव मिला, जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ नेतसिंह, नं. ३ करणसिंह, नं. ४ हरिदास, नं. ५ वेणीदास, नं. ६ नरसिंह, नं. ७ लालसिंह, नं. ८ कैसरीसिंह, नं. ९ जेतसिंह, नं. १० गुलसिंह व नं. ११ उमसिंह हुए. उमसिंह सेराणा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक एक पुत्र है.

नं. ११ पसाण ने अपने नाम से पसाणवा गांव बसायो, यह सिरोही के महाराव रायसिंह ( पहिले ) के समय में सीरोडी-सणवाडे में काम आया.

इसने जालोर के गजनी खान की तहत में जाने बाद चारण राएमल को गांगावास में भूमि दान दिया. उस विषय में कवि ने कहा है कि—

“ समत सोलो सरस वरस, तेसटो मेजवातम; माहा महीनो रत हेम, शुक्ल पक्ष तथ सातम. ”

“ पातल राव पसाण, बले गजनीखान विहारी; गांगां वास दियाम, अरठ पंदरे एक सारी. ”

“ पनरे हजार विघां पृथर्वा, धीर दे वारट थपीयो; तोरण घोडो ने त्याग, रायमल ने तद अतो डोडगरे अपीयो. ”

नं. ११ पत्ता को ‘ चाणोद ’ पट्टे की जागीर मिली थी, मगर बाद में वि. सं. १६३४ में ‘ अगवरी ’ का पट्टा मिला. जिसमें से ‘ गुडा’, ‘ कुवाला’, ‘ सरली’, की जागीरें अलग हुईं. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.

नं. १२ देवीदास वि. सं. १६८१ में गुजर गया.

३ पुस्तनामा ‘ मादडी ’ के बालोतर.

नं. १२ नारायणसिंह को ‘ मादडी ’ मिला. नारायणसिंह से क्रमशः नं. २ जयसिंह, नं. ३ भूपतसिंह, नं. ४ उदसिंह हुए. उदसिंह की ओलाद में पीछे से नाओलादी होनेसे उसका भाई नं. ५ प्रेमसिंह से क्रमशः नं. ५ नाथुसिंह, नं. ६ मोकसिंह, नं. ७ पृथ्वीराज नं. ८ इन्द्रसिंह, नं. ९ देवीसिंह व नं. १० किशनसिंह हुए. किशनसिंह मादडी की भोम का मौजूदा पाटवी है.

४ पुस्तनामा ‘ मोरू ’ के बालोतर.

नं. १२ शिवसिंह को वि. सं. १६८१ में ‘ मोरू ’ गांव मिला, शिवसिंह से क्रमशः नं. २ रामसिंह, नं. ३ मानसिंह, व उसका भाई नं. ३ भाखरसिंह हुए.

नं. ३ मानसिंह की ओलाद में क्रमशः नं. ४ हरिदास, नं. ५ साहेबखान, नं. ६ अणंदसिंह, नं. ७ आयदान हुए. आयदान नाओलाद गुजर गये. नं. ४ हरिदास के दूसरा पुत्र सूरताण की ओलाद में क्रमशः शिवदानसिंह, नारायणदास, पनेसिंह, व लखसिंह हुए.

नं. ३ मानसिंह के दूसरा पुत्र भाखरसिंह से क्रमशः नं. ४ हीरसिंह, नं. ५ कवरसिंह नं. ६ गलसिंह, नं. ७ धुलसिंह, नं. ८ अभयसिंह हुए. अभयसिंह नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ९ प्रेमसिंह गोद आये. प्रेमसिंह के बाद नं. १० प्रतापसिंह हुए. प्रतापसिंह ‘ मोरू ’ की भोम पर मौजूदा पाटवी है.

५ पुस्तनामा भैंसवाडा के बालोतर.

नं. १३ दलसिंह को ‘ भैंसवाडा ’ मिला, दलसिंह से क्रमशः नं. २ गोपालसिंह, नं. ३ हेमराज, नं. ४ भगवानसिंह, नं. ५ अखेसिंह, व नं. ६ जोरसिंह हुए. जोरसिंह नाओलाद

होनेसे उसके काका ओपसिंह का पुत्र नं. ७ पोमसिंह वि. सं. १८७६ में गोद आया उससे क्रमशः नं. ८ गेनसिंह हुआ मगर उसके वंश में नाओलादी होनेसे उसका भाई सूरतसिंह का पुत्र नं. ९ खुमसिंह व उसके बाद नं. १० जामतसिंह हुए. जामतसिंह भैसवाडे की जागीर का मौजूदा पाटवी है.

नं. १३ सबलसिंह ने वि. सं. १६८१ में बडुआ को सीख दी. इसने जोधपुर के राजा को सहायता करने से जोधपुर महाराज ने बहुत सन्मान किया था. उस विषय में कवि देवल नरसिंह ने कहा है कि—

“ सविआ अब रा बदलो मत, छानो सोवनगर घर सोम; मान अगे बालोत महावल, कट लंगा धणी रे काम. ”  
 “ पाले कुरम आहाडा पाले, जावो मत माहा जोर करां; × × × × × × ”  
 “ पालत कटक दुआयो सादूल, वोहो गोला अण छूटा वाण; रुक वक्र रहीओ कने राजा, साचे चित्त मूरो चहुआण.”  
 “ अते मान जोधपुर आया, सह भड हुआ घण सांव; मान नवाज घरे मेलीया, सहत कडां मोती सरपाव. ”

नं. १३ रामसिंह और नं. १३ अखेराज को 'आलावा' पट्टे की जागीर मिली, लेकिन रामसिंह का पुत्र सूरजमल के बेटे जगतसिंह व मोहनसिंह नाओलाद गुजरने से उनकी जागीर नं. १३ अखेराज की ओलाद वालों के तरफ शामिल हो गई, और अखेराज के दो पुत्रों में इस जागीर में दो पांती होकर जागीर तकसीम हुई.

नं. १३ दयालदास ने दयालपुरा गांव बसाया, यह नाओलाद गुजर गया, जिससे इसकी जागीर डोडीयाली पट्टे के शामिल होगई.

नं. १४ प्रतापसिंह डोडीयाली पट्टे का पाटवी हुआ. इसके भाई नं. १४ करणसिंह को सेंदरीया की जागीर मिली, उसके दो पुत्र नं. १५ गजेसिंह व नं. १५ वजेसिंह से सेंदरीया मे दो पाटवी पांती हुई.

६ पुस्तनामा सेंदरियाके बालोतर पां. नं. १

नं. १५ करणसिंह का बडा पुत्र नं. १५ गजेसिंह सेंदरीया में पांती नं. १ के पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. २ रणछोड, नं. ३ गुमानसिंह, नं. ४ चैनसिंह, नं. ५ भूपतसिंह, नं. ६ पृथ्वीराज, नं. ७ शिवनाथसिंह नं. ८ सबलसिंह व नं. ९ सांगसिंह हुए. सांगसिंह मौजूदा पाटवी है.

७ पुस्तनामा सेंदरियाके बालोतर पांती नं. २

सेंदरीया की दूसरी पांती में नं. १५ करणसिंह का दूसरा पुत्र नं. १५ वजेसिंह पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. २ शिवदानसिंह नं. ३ अनोपसिंह, नं. ४ फतेसिंह, नं. ५ श्यामसिंह नं. ६ हीममतसिंह, नं. ७ सरदारसिंह, नं. ८ हीरसिंह व नं. ९ वसन्तसिंह हुए. वसन्तसिंह सेंदरीया की दूसरी पांती का मौजूदा पाटवी है.

## ८ पुस्तनामा वेदाणाके बालोतर

नं. १/४ वाघसिंह को वि. सं. १७४० में 'कुवाला' की जागीर मिली मगर बाद में वह छूट जानेसे 'वेदाणा' की जागीर मिली. वाघसिंह से क्रमशः नं. २ दोलतसिंह, नं. ३ अमरसिंह, नं. ४ बहादुरसिंह हुआ, जो डोडीयांली में काम आया उसके बाद नं. ५ रत्नसिंह, नं. ६ अदरसिंह, नं. ७ भभूतसिंह हुए. भभूतसिंह नाओलाद होनेसे उसके भाई सरदारसिंह के पुत्र नं. ८ लक्ष्मणसिंह गोद आया जो वेदाणा जागीर के मौजूदा पाटवी है, उसको प्रेमसिंह नामक एक पुत्र है.

## ९ पुस्तनामा आलावा के बालोतर पां. नं. १

नं. १/३ प्रेमसिंह आलावा की पांती नं. १ के पाटवी हुआ उससे क्रमशः २ साहेबखान नं. ३ प्रयागदास, नं. ४ नाथुसिंह, नं. ५ बिहारीदास हुए. बिहारीदास के चार पुत्र ( १ वनेसिंह, २ दानसिंह, ३ पृथ्वीराज, ४ धनसिंह ) थे जो नाओलाद गुजर जानेसे, उसने अपने भाई पनेसिंह का पुत्र नं. ६ पहाडसिंह को गोद लिया, पहाडसिंह का पुत्र नं. ७ भूतसिंह नाओलाद गुजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. ८ माधुसिंह के पुत्र नं. ८ आयदान, भूतसिंह के गोद गया. जिसके पुत्र नं. ९ मूलसिंह व १/१ गुलाबसिंह है, जिसमें मूलसिंह आलावा में पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी है.

## १० पुस्तनामा आलावा के पांती नं. २ के बालोतर.

नं. १/४ नारखान आलावा पांती नं. २ के पाटवी हुआ उससे क्रमशः नं. २ हरनाथ हुआ जिसने वि. सं. १८२२ में 'मादडी' व 'रियावाव' की और जागीर हासिल की. हरनाथ से क्रमशः नं. ३ सवाईसिंह, नं. ४ नाथुसिंह, नं. ५ तेजसिंह हुए. तेजसिंह नाओलाद होनेसे, रियावाव के बालोतर दोलतसिंह कानसिंहोंत का पुत्र नं. ६ पहाडसिंह गोद आया, उसका पुत्र नं. ७ संतोदान हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेसे संतोदान के भाई चमनसिंह का पुत्र नं. ८ भोपालसिंह गोद आया, जिसका पुत्र नं. ९ दलपतसिंह आलावा की दूसरी पांती का मौजूदा पाटवी है.

## ११ पुस्तनामा रियावाव के बालोतर.

आलावा पांती नं. २ में नं. २ हरनाथ के दूसरा पुत्र नं. १ भीमसिंह को रियावाव की जागीर मिली, उससे क्रमशः रियावाव में नं. २ कानसिंह, नं. ३ शेरसिंह, नं. ४ अमरसिंह हुए. अमरसिंह नाओलाद होनेसे नं. ५ अबसिंह गोद आया, उसके बाद नं. ६ वेरीसाल व नं. ७ कीशोरसिंह हुए. कीशोरसिंह रियावाव का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र हैं जिसमें मेघसिंह बड़ा है.

१२ पुस्तनामा पावटा के बालोतर.

नं. १<sup>४</sup> रत्नसिंह को ' पावटा ' की जागीर मिली उससे क्रमशः नं. २ ओपसिंह, नं. ३ लालसिंह नं. ४ खुसालसिंह, नं. ५ प्रतापसिंह, नं. ६ अजीतसिंह, नं. ७ बहादुरसिंह, व नं. ८ बरदसिंह हुए. बरदसिंह नाओलाद गुजरजानेसे उसका छोटाभाई नं. ९ शिवनाथसिंह गोद आया जो पावटा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र है जिसमें बड़ा पीरसिंह है.

नोट-पावटा की जागीर में नं. ३ लालसिंह का दूसरा पुत्र रामसिंह वि. सं. १८८२ में जोधपुर रियासत के तरफसे सिरोही पर फौज आई उसमें शरीक था. ( परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८८२ फागण वदि ३)

नं. १५ हरिसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. १<sup>५</sup> इश्वरदास को ' सगालीया ' की जागीर मिली और नं. १<sup>५</sup> श्यामसिंह व नं. १<sup>५</sup> सुन्दरसिंह इन दोनों को ' मालपुरा ' गांव मिला, जिससे इन दोनों की मालपुरा गांव में दो अलग २ पांती हुई, लेकिन श्यामसिंह की ओलाद न रहने के कारण उसकी पांती डोडीयाली ठोकाने के शामिल हो गई, जो बाद में नं. २<sup>३</sup> खुसालसिंह को डोडीयाली ठोकाने से दी गई.

१३ पुस्तनामा मालपुरा के पांती नं. २ के बालोतर.

मालपुरा की दूसरी पांती नं. १<sup>५</sup> सुन्दरसिंह के तरफ रही, उससे क्रमशः नं. २ श्यामसिंह नं. ३ देवीसिंह, नं. ४ दलसिंह, नं. ५ शार्दूलसिंह, नं. ६ भीमसिंह व नं. ७ भूरसिंह हुए. भूरसिंह मालपुरा जागीर की दूसरी पांती के मौजूदा पाटवी है.

नं. १६ रूपसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, उसके बाद इसका पुत्र नं. १७ खुसालसिंह पाट बैठा मगर वह नाओलाद गुजरनेसे दूसरा पुत्र नं. १८ चतरसिंह पाट आया, लेकिन वह भी नाओलाद गुजर गया जिससे तीसरा पुत्र नं. १९ मानसिंह गोद आया.

१४ पुस्तनामा पसाणवा के बालोतर

नं. १<sup>६</sup> जुजारसिंह को ' पसाणवा ' की जागीर मिली. उसके बाद नं. २ अभयराम हुआ लेकिन वह लडाई में काम आनेसे उसका भाई नं. २<sup>१</sup> जोरावरसिंह पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. ३ मेघसिंह, नं. ४ कैसरीसिंह, नं. ५ गुलावसिंह, नं. ६ चमनसिंह, नं. ७ करणसिंह व नं. ८ मोतीसिंह हुए. मोतीसिंह पसाणवा के मौजूदा पाटवी है.

नोट-पसाणवा में नं. २<sup>१</sup> जोरावरसिंह का छोटा पुत्र भूपतसिंह जोधपुर की फौज सिरोही पर आई उसमें शरीक था, जो लडाई में वहांही मारा गया.

१५ पुस्तनामा सगालिया पां. नं. २ के बालोतर

नं. १<sup>६</sup> भावसिंह सगालीया की जागीर की पांती नं. १ के पाटवी हुआ लेकिन उसकी ओलाद में पीछेसे नाओलादी हो गई और दूसरी पांती के पाटवी नं. १<sup>६</sup> मोखसिंह से क्रमशः नं. २ हीन्दुसिंह, नं. ३ दुर्जनसिंह, व नं. ४ फतेसिंह हुए. फतेसिंह नाओलाद



गुजरनेसे दुर्जनसिंह का भाई धनसिंह का पुत्र वदसिंह का पोता कीरतसिंह मेघसिंहोत, फतेसिंह के गोद आया जो सगालीया में मौजूदा पाटवी है, जिसके एक पुत्र लालसिंह नामक है.

नं. २० जगतसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेसे उसका भाई नं. २१ लखधीर गोद आया.


नं. २२ बेरीसाल डोडीयाली के पाटवी हुआ जो 'पसाणवा' गांव के पडवे में जोधपुर रियासत के तरफ से चूक हुआ उसमें मारा गया.

नं. २३ सरदारसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. २३ खुसालसिंह को झालपुरा की पांती नं. १ दी गई जिसकी ओलाद वालों के नाम इसी पुस्तनामा में ( डोडीयाली में ) अंकित है.

नं. २४ शेरसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके बाद इसका पुत्र नं. २५ किशोरसिंह पाट बैठा, लेकिन वह नाओलाद गुजर जानेसे, नं. २३ खुसालसिंह का पोता नं. २६ जुजारसिंह गोद आया, जो डोडीयाली ठिकाने के मौजूदा रावजी है.

### २ वंशवृक्ष अगवरी के बालोतर रियासत जोधपुर.

१ पत्ता ( देखो डोडीयाली के बालोतर वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) अगवरी का पट्टा मिला.



नोट-अगवरी पट्टे की जागीर के मौजूदा पाटवी वजेसिंह है.

१ पुस्तनामा कुवाला के बालोतर.

नं. ४ नारखान को कुवाला की जागीर मिली, जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ छत्रसाल, नं. ३ डुंगरसिंह, नं. ४ ओपसिंह, नं. ५ वजेसिंह, नं. ६ तेजसिंह, नं. ७ अनाडसिंह, नं. ८ सालमसिंह व नं. ९ लक्ष्मणसिंह हुए. लक्ष्मणसिंह कुवाला के मौजूदा पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक एक पुत्र है.

२ पुस्तनामा गुडा के बालोतर.

नं. ३ भीमसिंह को ' गुडा ' की जागीर मिली उससे क्रमशः नं. २ राघोदास, नं. ३ समरथसिंह नं. ४ मेघराज हुए. मेघराज नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ५ अणंदसिंह गोद आया लेकिन वह भी नाओलाद होनेसे उससे छोटा भाई नं. ६ सूरताणसिंह पाट बैठा, इसके बाद यह लोग गुडा में ' भोमिये ' कहलाये, सूरताणसिंह से क्रमशः नं. ७ सवाईसिंह, नं. ८ शेरसिंह, नं. ९ उमसिंह, नं. १० अखसिंह, नं. ११ भूतसिंह, नं. १२ मेघसिंह व नं. १३ हीरसिंह हुए. हीरसिंह गुडा में मौजूदा पाटवी है.

३ पुस्तनामा सरली पांती न. २ के बालोतर

नं. ३ अर्जुनसिंह को सरली की जागीर मिली, उससे क्रमशः नं. २ नाथुसिंह, नं. ३ खेमसिंह, नं. ४ वीरभाण, नं. ५ रामसिंह, नं. ६ शिवसिंह, नं. ७ भोमसिंह व नं. ८ कल्याणसिंह हुए. कल्याणसिंह सरली पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी है.




## प्रकरण २३ वां.


### चीवावत चौहान.

जालोर के राव माणीजी उर्फ मानसिंह के पुत्र चीवा के नाम से 'चीवा उर्फ चीवावत चौहान' कहलाये गये. राणी मगा की वही में लिखा है कि, चीवा, माणीजी के पुत्र माला का पुत्र होता है, परन्तु अन्य प्रमाणों से व बडुआ की पुस्तक से पाया गया है कि, चीवा, राव माणीजी का पुत्र था. चीवावतों की जागीरें इस समय रियासत सिरोही में जामठा, नागाणी, रेवदर, डुआ आदि गांवों में व पालणपुर रियासत में कपासिया, पांथावाडा, आकोली, आरकी, पडुवाड आदि गांवों में हैं. पालणपुर की मातहती में जो जागीरें हैं वह सिरोही में थी, लेकिन पीछे से सरहद के फैसले के समय पालणपुर के नीचे चली गईं.

#### १ वंशवृक्ष चीवावत चौहान.

१ चीवा ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ३ वाला नं. १ महाराव मानसिंह उर्फ माणीजी का कुमार. )





### उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ चीवाजी जालोर में था. उसके पीछे ' चीवावत चौहान ' कहलाये गये.

नं. २ सग्रामसिंह को महाराव लूंभा ने, आबु कब्जे में आने वाद वि. सं. १३६५ में कोरटा पट्टे की जागीर, ४२ गांवों के साथ दी. इसकी राणी सिसोदणीजी अखेकुंवर कोरटा में सती हुई.

नं. ३ राजसिंह कोरटा में काम आया. इसका पुत्र नं. ४ भीमसिंह को २४ गांवों के साथ कोटडा की जागीर और मिली.

नं. ८ बेलसिंह को सूरताणपुरा गांव मिला, और उसका भाई नं. ९ रायधर, महाराव सहसमल के साथ, मेवाड के राणा कुंभा का युद्ध हुआ तब वि. सं. १४९५ में काम आया. ( बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, यह लडाई सारणेश्वरजी में हुई थी. )

नं. ११ खेमराज, लखावत कला की पक्ष में था, जब कि लखावत कला ने सिरोही का कब्जा किया, तब यह उसका मुसाहिब हुआ, राव कला ने इसको बुआडा, कालंद्री आदि गांवों की जागीर दी थी. यह राव कला की सहायता में जब कि महाराव सूरताणसिंह ने चढाई की, तब कालंद्री में अपने पुत्र नं. १२ पाता सहित काम आया, (इसका ज्यादाह अहवाल विभाग पहिला के प्रकरण २८ वां में आ चूका है.) इसकी जागीर महाराव सूरताणसिंह ने डुंगरावत सामन्तसिंह को दे दी. खेमराज का देहान्त युद्ध में हुआ, उस विषय में कवि आसीआ दला ने कहा है कि—

“ वीडरी असत विजो थोथीयो, वांसे वाजे हांक थई विकराल, चालां वालणहार न चूको, खत्रवट खाग वाहो खेमाल. ”

“ एकर भख उपर आयो, सोह आवगो डुंगरा साथ; मिटै न गणे नरै मोडाणा, भारमलोत सरसवा रात. ”

नं. ११ खेतसिंह के तरफ बुआडा की जागीर थी वह छूट जाने से, उसकी ओलाद वाले नुन गांव में जा रहे, जो पीछे से नाओलाद हुए. कितनेक चीवावत भारजे में व खाखरवाडा में आबाद हुए, जहांपर राजपूत दावे उनकी ओलाद विद्यमान है, जिनका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ११ हरराज के तरफ वागरा व सातुला गांव था, और नं. ११ कहानसिंह के तरफ सूरताणपुरा था, लेकिन वे दोनों नाओलाद गुजर गये.

नं. १२ मेहरसिंह ने अपने नाम से 'मेर' गांव बसाया. इसने महाराव सूरताणसिंह की सेवा अच्छी वजाने से, महाराव ने वि. सं. १६४१ में कपासिया पट्टे की जागीर बारह गांवों से इनायत की.

नं. १२ जेतसिंह, जोधपुर के राठौर राजा उदयसिंह ने, नितोडा में डुंगरावत सामन्तसिंह आदि को चूक कराया जिसमें यह भी मारा गया. चीवावत जेतसिंह के चूक के विषय में कविने कहा है कि—

“ मोंम हर तिलक सींचतो सा बल करतो खग दीती कर; रिण रोहीयो घणो राठोडै चीवो एकल वाड वर. ”  
 “ भोज छंटा खरडकें भाला, पडे न पिड देतो पसर; एकल जेत सलख आहेडी सकेत पाडै भड सिंह. ”  
 “ उपाधीये तुठ आधतर जण जण पुगो जूवो जूवो, खीवर हाकलीयो खिमावत होकर जाड विहाड हुवो. ”

नं. १२ कर्मसिंह उर्फ चीवा करमसो बहादुर राजपूत हुआ. इसने महाराव सूरताणसिंह की सेवा करके, 'पांथावाडा' परगने की जागीर हासिल की, जिसका पुस्तनामा इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. १३ दुदा को 'आकोली' पट्टे की जागीर मिली. दुदा उदार राजपूत था. इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—

“ इन्द्र ज्यु हं. वड दान उझलो, झुलरां कवां झाझां झल्लो; चीवो सु रंगे भोम अचलो, देवडो थांभे दूर्जन सल्लरो. ”  
 “ पारखे सारखे पात्र परखु, दोहे गीत कविते देखुं; सोभ्र कलोदर आप सु पेखुं. राजड राव तणो घर देखुं. ”  
 “ कांटे मोटे क्रांत कहाणी, वा जद वापरीया कव वाणी; पाटे अरखुद चाढण पाणी, मोटे मांडे भुज महाराणां. ”  
 “ आपण दान कवि उझल्लां, गीत गवारण राखण गल्लां; खाग त्याग राव खतल्लां, भोम सदा भुज भार हमल्लां. ”

दुदा की ओलाद के चीवावत, पालणपुर रियासत के आकोली पट्टे में है, जिसके पाटवी का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. १५ मानसिंह के पुत्रों में नं. १६ चतरसिंह को 'जामठा' की जागीर, वि. सं. १७६० में सिरोही रियासत से मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. १६ केशरीसिंह के तरफ कपासिया पट्टे की जागीर रही, जिसके पाटवी का वंशवृक्ष इस प्रकरण में अंकित किया है.

नं. १६ नाडसिंह को 'नागाणी' गांव की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में अंकित किया है.


नोट—चीवावत चौहान सिरोही रियासत में नामी राजपूत थे, और उनके तरफ बडी २ जागीरें थी. चीवा खेमराज ने, डुंगरावत देवडों के साथ खटपट होने के कारण, राव कला का पक्ष ग्रहण किया, जिससे वह जागीरें चली गईं, लेकिन बाद में चीवा कर्मसिंह आदि चीवावतों ने, सिरोही रियासत की अच्छी सेवा करने से, वे पुनः बडी

जागीरें पाने पाये, मगर उनकी जागीरें पालणपुर रियासत की सीमा पर होने से, महाराव उदयभाण के समय में जब कि लखावत देवडे बदल गये, और पालणपुर के दीवान की मातहतों में जाकर, अपनी जागीर में से आधा हिस्सा लिख दिया, तब वि.सं. १८७४ में चीवावत भी उनके साथ शरीक होकर, पालणपुर की मातहतों में गये. वि. सं. १८८० में जब कि लखावतों के गांव, सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार ने वापस किये, तब चीवावतों की जागीर के गांवों को वापस नहीं करते, पालणपुर के +तरफ रखे गये, जिनमें से जामठा, मेर, रेवदर आदि गांव तत्रादला में सिरोही में वापस आये, और कपासिया पट्टा, आकोली पट्टा व पांथावाडा परगना आदि बड़ी बड़ी जागीर के पट्टे पालणपुर रियासत के तरफ रहे.

वर्तमान समय में चीवावतों के तरफ सिरोही रियासत में १ जामठा, २ नागाणो, ३ रेवदर, ४ टुआ इस मुआफिक जागीरें है, और पालणपुर रियासत में १ पांथावाडा, २ कपासिया, ३ आकोली, ४ आरको, ५ पहुवाड आदि पट्टों की जागीरें है, जिनमें से आकोली, कपासिया व पांथावाडा के पाटवीओं के वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है, आरको व पहुवाड की सम्पूर्ण वंशावली प्राप्त न हुई है, लेकिन मालूम हुआ है कि आरको गांव में चीवावत उम्मेदसिंह देवीसिंहोत व दोलतसिंह मानसिंहोत यह दोनों पाटवी जागीरदार है, और पहुवाड में चीवावत जेठमल हिन्दुसिंहोत व मगसिंह खेमराजोत यह दोनों पाटवी है.

२ वंशवृक्ष जामठा परगने मंदार के चीवावत

१ चतरसिंह ( वंशवृक्ष नं. १ के चीवावत चौहान में नं. १६ वाला )




+ कहा जाता है कि जब कि पालणपुर और सिरोही रियासत की सीमा की तकरार चली तब अंग्रेज सरकार ने जाजम बिछा कर कहा कि, जो जो सरदार जिस २ रियासत में हो वह उस रियासत की जाजम पर बैठे, उस वक्त चीवावन बदल कर पालणपुर की जाजम पर जा बैठे, जिससे उनकी कुल जागीरें पालणपुर के तरफ रखी गईं. इस तरह होने से जामठा, रेवदर, मेर, आदि गांवों की हद्दबंदी सिरोही रियासत के अद्वीच टापु के नाईं कायम होकर नेखम बंदी की गईं, बाद में ऐसे बीचमें आये हुए गांवों का तत्रादला किया गया, जिसमें सिया नदीया का पट्टा, पालणपुर को दिया और बीच में आये हुए गांव सिरोही रियासत में आये.

नोट—नं. ७ सालमसिह जामठा की जागीर का पाटवी है. इसके पास जामठा गांव के सिवाय कोटरा व देरली नाम के खेडे है, उनमें राजहक छहआनी व जामठा में आठआनी है, वह बटवारा से बसूल होता है. पाटवी को उदेराज व अखेराज नाम के दो पुत्र है.

३ वंशवृक्ष नागाणी परगने पामेरा के चीवावत पांती नं. १


१ नाहसिह ( वंशवृक्ष नं. १ के चीवावत चौहानों में नं. १६ वाला )



नोट—इस पांती का पाटवी चीवावत गजेसिह नं. ८ वाला है, और राजहक की आठआनी बटवारा से बसूल होती है.

४ वंशवृक्ष नागाणी परगने पामेरा के चीवावत पांती नं. २


१ रामचंद ( वंशवृक्ष नं. ३ नागाणी के चीवावत में नं. ३३ वाला )



नोट—नागाणी में दूसरी पांती का पाटवी चीवावत फतहसिंह है, जिसका हुकमनामा वि. सं. १९४९ में हुआ है. इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

५ वंशवृक्ष कपासिया रियासत पालणपुर के चीवावत पाटवी.


१ कैशरीसिंह ( चीवावत वंशवृक्ष नं. १ में नं. १६ वाला नं. १५ मानसिंह के पुत्र ) को कपासिया पट्टे की जागीर मिली थी, उसके बाद क्रमशः २ नृसिंह, ३ अजबसिंह, ४ मेघसिंह व ५ चतरसिंह हुए (चतरसिंह के बाद)



नोट—नं. ७ पृथ्वीराज पाटवी है, उसको जुवानसिंह व चैनसिंह नाम के दो पुत्र हैं.


६ वंशवृक्ष आकोली रियासत पालणपुर के चीवावत पाटवी.

१ दुदा ( चीवावत वंशवृक्ष नं. १ में नं. १४ वाला नं. १३ दर्जनसाल का पुत्र ) के पुत्र २ कानसिंह को आकोली पट्टा मिला था, उससे क्रमशः ३ पीथसिंह, ४ चतरसिंह, ५ नृसिंह, ६ अनोपसिंह, ७ रघसिंह, ८ जयसिंह व ९ प्रेमसिंह हुए, ( प्रेमसिंह के बाद ).



७ वंशवृक्ष रेवदर परगने मंदार ( व पांथावाडा ई. पालणपुर ) के चीवावत.


१ कर्मसिंह (चीवावत वंशवृक्ष नं. १ में नं. १२ वाला ) पांथावाडा.



+ जब कि महाराव रायसिंह को लखावत पृथ्वीराज ने चूक किया, तब सिमोदिया पर्वतसिंह, डुंगरावत रामसिंह, व शाह तेजपाल के शामिल रह कर, नं. ३ देदा ने पृथ्वीराज को भगाया और देश पार कर दिया.



८ वदसिंह (चलू वंशवृक्ष रेवदर परगने मंडार के चीबावत.)




नं. ६ जुजारसिंह ( पांथावाडा )  
( व रेवदर ) (चलू वंशवृक्ष नं. ७)

६ पद्मसिंह ( पांथावाडा में पांती )  
(चलू वंशवृक्ष नं. ७)

७ देवीसिंह


७ गलालसिंह



नोट—नं. ६ अनुपसिंह को, महाराव पृथ्वीराज ने रेवदर गांव, सवाणचा राजपूतों से छुडवा कर दिया था, लेकिन पीछे से इसका पोता नं. ७ अनाडसिंह व पुत्र नं. ६ पदमसिंह ने, वि. सं. १८७४ में अपनी जागीर में आधा हिस्सा पालणपुर के दीवान को लिख दिया था. वर्तमान समय में रेवदर की जागीर का पाटवी नं. ११ कैशरीसिंह है, जिससे राजहक तीसरे हिस्से से बटवारा होकर वसूल होता है. रेवदर के पाटवी को वर्तमान समय में ताजीम नहीं है, परन्तु पहिले इस ठिकाने का दर्जा अच्छा था. नं. ६ पदमसिंह की ओलाद वालों का रेवदर की जागीर में हिस्सा नहीं है, उनकी जागीर पालणपुर रियासत में है.

८ वंशवृक्ष दुआ परगने मगरा के चीबावत.


१ शामलदास ( रेवदर के वंशवृक्ष नं. ७ में नं. २ वाला )



५ पनेसिंह ( ओ. प्रां. दुआ. )  
(देखो पृष्ठ २३९ पर)

५ जालसिंह


५ पनेसिंह ( चल् वंशवृक्ष दुआ परगने मगरा के चीवावत. ) ओ. ग्रां. दुआ.



नोट—इस गांव में पाटवी नं. ७ जीवसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३९) लेनेका ठहराव नं. ७५१ ता. २७ मई सन १९२३ इस्वो से तय हुआ है.


९ वंशवृक्ष चीवावत राजपूत भारजा व खाखरवाडा परगने रोहीडा. ( राजपूत दावे. )

१ खेतसिंह ( चीवावत चौहान वंशवृक्ष नं. १ में नं. ११ वाला ) राजपूत दावे भारजा व खाखरवाडा.




९. ( अ ) वंशवृक्ष चल् चीवावत राजपूत भारजा परगने रोहीडा. राजपूत दावे

१ जगतसिंह ( नुम ) ( देखो वंशवृक्ष चीवावत राजपूत नं. ९ में नं. ५ वाला )




५ दलसिंह ( चतु वंशवृक्ष चीवावत राजपूत भारजा परगने रोहीडा, राजपूत दावे.



९ ( आ ) वंशवृक्ष चीवावत राजपूत खाखरवाडा परगने रोहीडा. राजपूत दावे.

१ करणसिंह ( नून ) देखो चीवावत राजपूत वंशवृक्ष नं. ९ में नं. ५ वाला )




## प्रकरण २४ वां.


### अबावत उर्फ अबसी चौहान.

सिरोही देवडा राजकुल वंशवृक्ष में नं. १ राव मानसिंह उर्फ माणीजी का पुत्र नं. २ अबसिंह से अबावत शाखा कहलाई गई.

१ वंशवृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अबावत चौहान पांती नं. १




१५ नाथुसिंह (चलू वंशवृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अवावत चौहान पांती नं. १).




नोट—इस गांव में पाटवी नं. २१ जुवानसिंह है। इस गांव में राजहक की आठआनी, रियासत के तरफ से श्री अंबाजी माता को अर्पण करने से, वह अंबाजी माता के देवस्थानी सिंगे में जाती है। नं. २३ रामसिंह को बगैर मंजूरी राज, दूसरी पांती में नं. ८ दोलतसिंह नाओलाद के गोद भेजा था, उसका तसफिया होने पेशतर रामसिंह गुजर गया, फिर रामसिंह के गोद, मौजूदा ठाकुर ने दूसरे को भेजने की कोशिश की, जिसपर राज से दोलतसिंह की पांती में से कुछ हक मौजूदा ठाकुर को देकर, दूसरी पांती खालसा अंबाजी माता को दी। इस जागीर में देवस्थान की आठ आनी बटवारा से वसूल होती है।

? (अ) वंशवृक्ष देलदर के अवावत पांती नं. १ के छोटभाई, नं. १३ हरीदास के छोटेपुत्र.




नोट—अवावतों में वि. सं. १९२८ पहिले सूरतान नामका अवावत सरदार मशहूर था, जो महाराव मानसिंह का मन्दिदान था, लेकिन उसका नाम देलदर व ओड के अवावतों में नहीं है, तरुंगी के अवावत वि. सं. १९४० बाद हुए है. पाया जाता है कि वह देलदर का अवावत होगा मगर पता नहीं चलता है.

२ वंशवृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अवावत चौहान पांती नं. २.  
१ गोकुलदास ( देलदर वंशवृक्ष पांती नं. १ में नं. १३ वाला )




नोट—दोलतसिंह नाओलाद होने से, यह दूसरी पांती में से तीन अरहट के अडान अंबाजी माता के देवस्थान तालुक आवगे रखकर, बकाया जागीर पांती नं. १ के शामिल कर दी गई.

३ वंशवृक्ष काईद्रा परगने रोहीडा के अवावत (पांती नं. १ व पांती नं. २) नाओलाद होनेसे खालसा.  
१ जीवराज ( देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) पांती नं. १      १ मेघराज (देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ११ ... पांती नं. २)



४ वंशवृक्ष मुदरला परगने सांतपुर के अवावत ( नाओलाद होने से खालसा राज ).


१ भोमसिंह ( देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ११ वाला )



नोट—यह गांव खालसा राज है. वि. सं. १९०८ में यह गांव भारजा के चीवावत खुसालसिंह को आबाद करने के वास्ते दिया गया था, मगर आबाद न होने से खालसा हुआ. फिर वि. सं. १९४५ में आमतारा के नं. ३ वाला दोलतसिंह को आबाद करने को दिया, मगर शर्त मुआफिक आबादी न होनेसे, वि. सं. १९६३ में खालसे राज हुआ है.

५ वंशवृक्ष मानपुर परगने सांतपुर के अबावत ( नाओलाद होनेसे खालसा राज, )


१ खेतसिंह ( देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ११ वाला )




नोट—नं. ९ सवलसिंह नाओलाद होने से यह गांव खालसा हुआ, बाद वि. सं. १८९४ में ओड का अवसी बुद्धसिंह ( नं. १ वाला ) को आबाद करने को दिया, बल्कि वि. सं. १९०२ में उसको तरतौली गांव भी आबाद करने को दिया गया, लेकिन वि. सं. १९१३ में कसूर में आने से, यह दोनों गांव राज ने खालसे किये. बाद तरतौली बुद्धसिंह को दिया और मानपुर खालसे रहा, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेबां जामतसिंह ( खाखरवाडा के पट्टे में ) को दिया गया. बाद में जामतसिंह राजसाहेब नाओलाद होने से खाखरवाडा के पट्टे शामिल यह गांव भी खालसा राज हुआ है.

६ वंशवृक्ष ओड परगने सांतपुर के अबावत.

१ भोजराज ( देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ९ वाला )




६ रणछोडदास (चलू वंशवृक्ष ओड परगने सांतपुर के अवावत).



६ वंशवृक्ष ओड परगने सांतपुर के अवावत (छोटभाई)

१ उदयसिंह (वंशवृक्ष ओड नं. ६ में नं. ५ वाला नं. ४ कहानसिंह का पुत्र) छोटभाई ओड



नोट. ओड गांवमें नं. ७ अनोपसिंह की ओलाद वाले व नं. ७ वख्तसिंह की ओलाद वाले दोनों की अलग २ हुकम नामा पांती थी, लेकिन नं. १० धीरसिंह जो दूसरी पांती के पाटवी था, वह नाओलाद होनेसे नं. ११ भीमसिंह को दूसरी पांती की जागीर जो खालसे रखने की थी वह नजराना से इनायत की, बाद में पांती नं. १ का पाटवी नं. १२ मोहोवतसिंह नाओलाद गुजरा, जिससे नं. १२ गजेसिंह दोनों पांती के पाटवी हुआ, इस गांवमें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.



## ७ वंशवृक्ष तरतौली परगने सांतपुर के अबावत.

१ युद्धसिंह ( ओड पांती नं. २ वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ९ वाला )

x  
| गोद आया देलदर से नं. २० वाला )

२ शार्दूलसिंह

x  
| गोद आया देलदर से नं. २० वाला )

३ गुलाबसिंह

४ चमनसिंह ( मौजूदा पाटवी )

४ प्रतापसिंह

४ रावतसिंह

नोट—नं. ४ चमनसिंह मौजूदा पाटवी है. इस गांव में राजहक आठवानी बटवारा से वसूल होता है.

## ८ वंशवृक्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत.

१ रूपसिंह ( ओड के अबावत छोटभाई वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ४ वाला) यह गांव माजी साहेब के तरफ था, जो इसको आबाद करने को दिया गया.

x  
| गोद आया ओडसे

२ चतरसिंह

x  
| गोद आया ओडसे

३ दोलतसिंह

४ मूलसिंह ( मौजूदा पाटवी )

नोट—इस गांवमें राजहक आठ आनी बटवारा से वसूल होता है.

## ९ वंशवृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खालसाराज).

१ केशुरदास ( ओड के वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ३ वाला )

२ अमरसिंह २ गोपालदास चतरमल  
x ( देखो पृष्ठ २४७ पर ) x

३ कर्मसिंह ३ खुमाणसिंह ( देखो पृष्ठ २४७ पर )

४ बाघसिंह ४ दोलतसिंह ( देखो पृष्ठ २४७ पर )

५ सरदागसिंह जुजारसिंह ५ पबसिंह

६ नसबन्त ६ घजेसिंह ६ शिवदान ६ नाथसिंह ६ गुलसिंह ६ उदयभाण ६ जोरसिंह  
x x x x (पांती नं. २) x७ पनेसिंह ७ तेजसिंह ७ मानसिंह ७ पन्नसिंह ७ वीरमदेव  
x x x x x८ भभूतसिंह ८ चैनसिंह ८ चैनसिंह  
x x x

९ दोलतसिंह ९ जगतसिंह ९ शेरसिंह ९ उम्मेदसिंह


१० उदयसिंह १० भवानसिंह १० सग्रामसिंह १० जवसिंह १० हिम्मतसिंह  
x x x x x

नोट—नं. १० उदयसिंह पाटवी नाओलाद होनेसे उसका जागीर हक वि. सं. १९६० में खालसा राज हुआ है, छोटभाइ के अरहट मौजूद है जिसमें राजहक आठआनी वसूल होता है.

९ (अ) वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ के अवावत छोटभाई.

१ दोलतसिंह ( वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं. ४ वाला )

२ सूरसिंह




९ (आ) वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ के छोटभाई.

१ खुमाणसिंह ( कीवरली पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला )

२ कल्याणसिंह

२ हटसिंह



९ (इ) वंशवृक्ष कीवरली के पांती नं. १ के अवावत छोटभाई.

१ गोपालदास ( वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं. २ वाला )

२ नरहरदास (देखो पृष्ठ २४८ पर)

७ वंशवृक्ष तरतौली परगने सांतपुर के अबावत:

१ युद्धसिंह ( ओड पांती नं. २ वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ९ वाला )

×  
| गोद आया देलदर से नं. २० वाला )

२ शाहसिंह

×  
| गोद आया देलदर से नं. २० वाला )

३ गुलाबसिंह

४ चमनसिंह ( मौजूदा पाटवी )

५ प्रतापसिंह

६ रावतसिंह

नोट—नं. ४ चमनसिंह मौजूदा पाटवी है. इस गांव में राजहक आठवानी बटवारा से वसूल होता है.

८ वंशवृक्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत.

१ रूपसिंह ( ओड के अबावत छोटभाई वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ४ वाला) यह गांव माजी साहेब के तरफ था, जो इसको आबाद करने को दिया गया.

×  
| गोद आया आंडसे

२ चतरसिंह

×  
| गोद आया आंडसे

३ दोलतसिंह

४ मूलसिंह ( मौजूदा पाटवी )

नोट—इस गांवमें राजहक आठ आनी बटवारा से वसूल होता है.

९ वंशवृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खाल)

१ केशुरदास ( ओड के वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ३ वाला )

२ अमरसिंह ३ गोपालदास चतरमल  
× ( देखी पृष्ठ २४७ पर ) ×

४ कर्मसिंह ५ खुमाणसिंह ( देखी पृष्ठ २४७ पर )

६ बाघसिंह ७ दोलतसिंह ( देखी पृष्ठ २४७ पर )

८ सरदारसिंह ९ जुजारसिंह १० पबसिंह

११ प्रसवन्त १२ यजेसिंह १३ शिवदान १४ नाथुसिंह १५ गुलसिंह १६ उदयभाण १७ जोरसिंह  
× × × × (पांती नं. २) ×


१८ पनेसिंह १९ तेजसिंह २० मानसिंह २१ पद्मसिंह २२ वीरमदेव  
× × × × ×

२३ भभूतसिंह २४ दोलतसिंह २५ जगतसिंह २६ शेरसिंह २७ उम्मेदसिंह  
× × × × ×


२८ उदयसिंह २९ भवानसिंह ३० सम्रासिंह ३१ जयसिंह ३२ हिम्मतसिंह  
× × × × ×

नोट—नं. १० उदयसिंह पाटवी नाओलाद होनेसे उसका जागीर हक वि. सं. १९६० में खालसा राज हुआ है, छोटभाई के अरहट मौजूद है जिसमें राजहक आठआनी वसूल होता है.

९ (अ) वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ के अवावत छोटभाई.



९ (आ) वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ के छोटभाई.




९ (इ) वंशवृक्ष कीवरली के पांती नं. १ के अवावत छोटभाई.

१ गोपालदास ( वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं. २ वाला )


२ नरहरदास (देखो पृष्ठ २४८ पर)

२ नरहरदास ( चलू कीवरली पांती नं. १ के अबावत छोटभाई वंशवृक्ष नं. ९ (इ). )



१० वंशवृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. २


१ उदयभाण ( वंशवृक्ष कीवरली पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला ) ओ. ग्रां. कीवरली पांती नं. २



नोट—इस पांती में नं. ६ बहादुरसिंह मौजूदा पाटवी है, और राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती है.

११ वंशवृक्ष मोरथला परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. २.


१ बुदसिंह ( कीवरली पांती नं. २ के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला )



नोट—यह गांव में एक हिस्सा वि. सं. १९१३ में चौहान अखेसिंह रामसिंहोत को आबादी के वास्ते दिया गया था, और दूसरा हिस्सा नं. १ बुदसिंह को वि. सं. १९२७ में आबादी के वास्ते दिया गया, जिससे इस गांव में दो पांती हुईं. चौहान अखेसिंह की पांती वि. सं. १९३४ में खालसा राज हुई, और अबावत की पांती मौजूद है. इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, और दूसरी पांती खालसे राज है.

१२ वंशवृक्ष तरुंगी परगने रोहीडा के अबावत.

१ नेतसिंह ( वंशवृक्ष ओड के अबावत में नं. २ वाला नं. १ भोजराज का पुत्र )



नोट—इस गांव में पाटवी जुवानसिंह है, और राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.





